


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश

(16 भारतीय भाषाओं के शब्दों का 1 कोश)

प्रथम खण्ड



सम्पादक
डा० रामजीवन

भाषा-संगम-भवन

220, टैगोर पार्क, दिल्ली-110009

संपादक एव प्रकाशक डा० रामजीदन
मुद्रक फादन आर्ट एजन्सीज, दिल्ली

BHARTIYA BHASHA-SANGAM SHABDA-KOSH

सारस्वत यज्ञ
के
पुरोधे
महामहिम राष्ट्रपति
श्री डा० शंकर दयाल शर्मा जी
के कर कमलों में
समापन

समयका.

पुष्पा राज

पुरोवाक्

भारतीय भाषाओं के बीच निकटता के अनेक सूत्रों का परिगणन भाषाविदों एवं विद्वानों ने विविध रूपों में किया है। ऐसे अनुसंधान चल रहे हैं जो भारतीय भाषाओं के बीच विस्मयकारी साम्य अन्वेषित करते हैं। आचरणगत विधानों में अनेक प्रकार की भिन्नताएँ हैं। स्थानिकता के प्रबल प्रभावों एवं कतिपय आग्रहों ने भिन्नताओं के प्रारूपों को इतना अधिक अलग-अलग का प्रयत्न किया है कि बाहरी व्यक्ति को व भिन्नताएँ ही यथार्थ का सबसे स्वीकार योग्य पक्ष प्रतीत होता है, तथापि उपरोक्त एवं दृश्य वेभिन्न्य की अन्तर्धाराओं में संस्कृति के मूलाधारों की जो अपूर्व एकता परिष्कारित की जानी चाहिए, उसके लिए अतिरिक्त मजान की आवश्यकता नहीं। थोड़ा सा मजबूत होकर मनामथन द्वारा एकता की महत्तम भित्तियों का बोध हो सकता है। विद्वान् अध्ययनार्थ १०० रामजीवन में भाषा के स्वतः उपलब्ध रूपाकारों का अनुसंधान कर वर्णमाला के आरम्भिक अक्षरों से आरंभ होने वाले शब्दों की विभिन्न व्याहृतियों में सामान्यजन का परिचित मगन सा क्रांतिपूर्ण कार्य कर यह सिद्ध कर दिया है कि भारतीय भाषाएँ, चाहे जिस देश-प्रदेश की हों इनमें अन्तर्प्रयुक्त, सतत विद्यमान एकता है।

दक्षिण और उत्तर की भाषाएँ, ता मनामथन, पश्चिमी मानस में भारत को विभक्त रखने की जो प्रयत्न जारी एवं अनार्य पथवा भाषाएँ दक्षिण विभाजनों में भारतीय मानस में वेदान के लिए कभी रची या रम हैं फलस्वरूप भाषाओं के बीच भी अलग-अलग की मान्यताओं का जो प्रसार हुआ वह आज तक भारतीय मनामथ द्वारा अनुसंधित है। डॉ० रामजीवन ने इस आदितीय "भारतीय भाषा-संगम कोश" का अग्रणी भाषा ही योजना द्वारा निम्न और विलुप्त, उस समय का बोध कराया है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हमें चाहे जिस भाषा में बोलने हो, जिस प्रकार का भाषा उच्चारण करत हो, किन्तु उसके मूलाधारों का कोई स्थान्य निश्चित है। जिसमें एकता है और अपने विकासमान रूप में, वह भाषागत एकता, आज भी विद्यमान है। मूलाधारों की यथांग यह प्रमाण भी उपयोगी होगा कि भारतीय भाषाओं, संस्कृत-द्रविड परिवारों की भाषाओं का वर्णक्रम, वर्णक्रम का वर्गीकरण एक तम है। इस वर्णक्रम के प्रभाव क्षेत्र में दक्षिण-पूर्व एशिया की भाषाएँ भी आती हैं।

भाषा में अनेक प्रकार के काशों के निर्माण की अव्यक्त पाठान एवं समुद्र परम्परा है। भारतीय भाषाओं के समेकित काशों का निर्माण भी हुआ है। कन्द्रीय हिंदी निदेशालय ने भारतीय भाषाओं के बहुभाषी, त्रिभाषी एवं द्विभाषी काशों के साथ-साथ तन्मग शब्दों का भी एक काश प्रकाशित किया है। डॉ० रामजीवन ने इस परम्परा को आगे बढ़ाने के लिए जिस योजना के क्रियान्वयन की दिशा में कार्य किया है, वह अभूतपूर्व ही कहा जायेगा। "भारतीय भाषा-संगम कोश" का यह प्रथम खण्ड पाठकों की विभिन्न भारतीय भाषाओं में व्यवहृत शब्दों का परिचय तो करेगा ही, साथ ही साथ हमारी भाषाओं में उन शब्दों की आकृतियाँ किस नियम से निर्मित होती हैं - इसकी जज्ञासा भी उप जायेगा। निश्चित रूप से हमारे देश के नये भाषाविदों को इस दिशा में उपलब्ध आधाराँ के कुछ नये निष्कर्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। स्वयं डॉ० रामजीवन इस कार्य में वर्षों से लगे हुए हैं। उन्होंने भारतीय कोशकारों के सम्मुख प्रथम खण्ड एवं सम्पूर्ण योजना

नो प्राप्त किया है। यह भाषागत परिवर्तन का अन्वेषण

यह विवरण भी कि भाषा निमाण के कार्य में समय की नहीं बल्कि एक घड़ी की आवश्यकता है।
 कृश इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उन मान्यताओं का निराकरण करना है जो हमारे समृद्ध भाषाओं
 में उनके ग्राह्यता के कारण से उत्पन्न प्रतीत है। भारतीय भाषाओं के गौरवमय स्वरूप की प्रतीति
 ल शब्दा से नहीं बल्कि उसकी मूलतम परिपूर्ण अवस्थाता से है जिसके प्रमाण भारतीय भाषा समग्र
 में जुटाता है।

भारतीय भाषा समग्र की जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट है भारतीय भाषाओं के समग्र का परिचय
 गाकर उन आदि मूलों को स्मृति कराता है जिनसे इस महादेश के अस्तित्व का प्रासाद उत्पन्न रूप में
 प्रमाण है। दरअसल यह है कि हम भौतिक समाद के पदमय मूलित्वने उपाय जगत् में उन ही अपने
 कृत्रिम समवाय के रूप में अर्थरूप में एक है जो समाज के रूप में एक है। इस का अर्थ न तो मूलों का
 अदृश्य और सम्पूर्ण यही स्थिति भारत का है उसके समाजगत स्वरूप को जो समाजगतता के
 न प्रवाह में है। भारतीय भाषाओं की निर्माण उन के साहित्यों को अन्तर्गतता निरूपण के मूल्यों में
 जो प्राणवान परवर्ता से होय हुए है जिनसे हमारे समग्र सामाजिक आचरण में जो गौरवपूर्ण रूप में न
 ।

डॉ० रामजीवन के उद्देश्य का ही यह प्रमाण नहीं है। कोषाचार मनन निरन्तर का यही अतिप्रकार भारतीय
 शोषा की उत्कृष्टतम प्रस्तुति का ही प्रमाण है। यह मूल्य का ही साहित्य रीति का जगत् का ही प्रदान
 नुसधाताओं, प्राध्यापकों, काशकारों एवं भाषाविदों के लिए समान रूप में उपलब्ध है। हमारे मूल प्रणाली
 हमारे देश के सर्वोच्च पद और इन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को निर्दिष्टा से स्तित है। उम्मीद जायावत अनुभाव
 इस ग्रंथ की सवत्र सहायता होगी। उक्त कामना के साथ डॉ० रामजीवन का अभिनन्दन।

गणेश्वर शुक्ल प्रथम नवरात्र

निदेशक
 इन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

सम्भ्रान्त भाषा-विदों के आशीर्वचन

मद्रास विश्वविद्यालय में हिन्दी के पोष को जमान, उस पुरातन पल्लावित करके वहाँ में प्रोफेसर एव विभागाध्यक्ष पद में अवकाश प्राप्त करने वाले तथा "ए. कण्ट्रास्त्रिव ग्रामर आफ हिन्दी एण्ड तमिल" जस शाश्वत मूल्य के तुलनात्मक व्याकरण ग्रंथ के प्रणता **डॉ० एस० एन० गणेशन के आशीर्वचन**

"भारतीय भाषा सगम शब्द कोश" की रचना द्वारा सभी भाषाओं की समान शब्दावली तक पहुँचने का आपका दीर्घकालीन निरन्तर प्रयास प्रशंसनीय है।

आप की योजना पूरी होगी और आप उसकी सफलता दृष्टि चरितार्थ हो सकेंगे। वस सभी काम अनन्त होते हैं। भाविष्य में कोई आपके काम को आगे बढ़ा सकता है। फिर भी तत्काल आप एक मजिल तक तो अवश्य पहुँच सकेंगे।

प्रकाशित होने पर काफ़ी अनुसंधान सामग्री मिल सकती है। मेरी कामना है कि आप का कार्य शीघ्र सफलता प्राप्त करे।

डॉ० एस० एन० गणेशन

मद्रास विश्वविद्यालय के प्रवरआचार्यों के मार्मिक विचार

भारतीय भाषा सगम कोश पर अपना विचार प्रकट करने का जो मौका मूझ मिला उसे मैं अपना गौभाग्य समझती हूँ। भाषा विज्ञान तथा भाषा सर्वज्ञान बानों पर रचि लेने वाली होने के कारण मैंने अक्षी तरह परखा। मैंने सगम की रचना की के इस महान कार्य पर अपना विचार प्रकट करते हुए, अगर मैं यह कहूँ कि **ऐसा महान कार्य अभी तक किसी ने न किया है और न किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जाना शक्य है**, तो यह अत्युक्ति न होगी। सभी भाषाओं के शब्दों को लेकर उन पर गहरा विवेचन करना इतना आसान काम नहीं। उसके लिए शारीरिक वन और मन-बल के साथ साथ धनबल भी होना अनि आवश्यक है। **मेरी मातृभाषा तमिल के शब्दों पर नजर डालने से मुझे मालूम हुआ कि डॉ० रामजीवन जी ने तमिल लेक्सिकन का सटीक उपयोग किया है।** उनके इस महान प्रयत्न में सभी भारतीय भाषा भाषियों का साथ होना चाहिए किसी न किसी रूप में। सरकार की नजर इस महान कार्य पर पड़े तथा वह इस कोश प्रकाशन—जिसका उद्देश्य ही भारतीय एकीकरण है—में पूर्ण सहयोगिता तथा वन सहायता दे। यह मेरी कामना है।

डॉ० शारदा रामानी

मद्रास विश्वविद्यालय

श्री रामजीवन जी का यह "भारतीय भाषा कोश" राष्ट्रीय एकता की भाषाई समस्या का समाधान बन सकता है। इस कोश में भारतीय 16 प्रधान भाषाओं के समान, अधसमान एव पथक शब्दों का चयन किया गया है जिसके द्वारा विद्यार्थी ही नहीं विद्वान भी अपरिचित भ. - से परिचित हो सकता है। ऐसे "कोश" का अप्रकाशित स्थिति में रहना देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है।

डॉ० सैयद रहमतउल्ला

मद्रास विश्वविद्यालय

सम्भ्रान्त भाषा-विदों के आशीर्षधन

कन्नड हिन्दी कोश के प्रणेता, तथा मैसूर विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष

डॉ० एस० एन० वक्षिणमूर्ति का आशीर्षधन

भारतीय भाषा सगम शब्द कोश के संपादक डॉ० रामजीवन से मिलकर मुझे अतीव प्रसन्नता का अनुभव हुआ, जो "शब्दकोश" के क्षेत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। मेरी जानकारी में इस प्रकार का प्रयत्न इसके पहले नहीं हुआ है और यह कार्य निश्चय ही भावात्मक एकता की दिशा में प्रशंसा के योग्य है। भारत की सभी भाषाओं में उपलब्ध समान शब्दों का संग्रह करना और उनके अर्थ के विवरण के साथ यह दिखाना कि भारतीय भाषाओं की प्रकृति में एकरसता और नैकट्य का संबंध है, एक कठिन कार्य है जिसमें डॉ० रामजीवन सम्पन्न करने जा रहे हैं। वक्षिण की भाषाओं के अतिरिक्त अन्य कतिपय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने के कारण इस कार्य की महत्ता और कठिनाई को मैं समझ सकता हूँ। डॉ० रामजीवन ने इस आय में इनके उत्साह के साथ यह कार्यभार स्वीकार किया है, अतः मैं उनका अभिनन्दन करता हूँ।

डॉ० एस० एन० वक्षिणमूर्ति

अखिल भारतीय क्षेत्र में हिन्दी रचने में भाग्य

डॉ० महेशचन्द्र की शुभाशंसा

भारत सभ्यता की राजभाषा हिन्दी है। अब अनेक प्रकार की शब्दानुसंधान शब्दकोश और शब्द सागर प्रयत्न हैं। सरकारों स्तर पर वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दानुसंधान आयोग और केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने विभिन्न प्रकार के शब्दकोश प्रकाशित किए हैं। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा भारतीय भाषा कोश भी तैयार किया गया है। तिसरों हिन्दी भाषा के लगभग 10 हजार शब्दों के समतुल्य संविधान की 8 वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं के शब्द एक साथ सम्मिलित हैं।

भारतीय भाषाओं के प्रसिद्ध विद्वान् डॉ० रामजीवनजी ने यह ज्ञात 'भारतीय भाषा सगम शब्दकोश' तैयार किया है, इसे शब्द सागर कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि यह इस दृष्टि से अनन्य है कि इसमें सभी भारतीय भाषाओं के शब्द और उनके अर्थ एक साथ दिये गये हैं। इसमें दयनागरी के अक्षरों में प्रारम्भ होने वाले उपसर्गों के ही शब्द हैं, जिनके भारतीय भाषाओं में समतुल्य शब्द दिए गए हैं। इस शब्द सागर में यह स्पष्ट होता है कि भारतीय भाषाएँ अपनी शक्ति संस्कृत से ग्रहण करती हैं और इसलिए, सभी भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त शब्द लगभग एक जैसे हैं और उनके अर्थों में भी प्रायः साम्य है।

आशा है इस रचना से सभी भारतीय भाषाओं में प्राप्त शब्दों के 'बृहत् शब्द सागर' के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा।

डॉ० रामजीवन को इस अनूठे प्रयास के लिए शतशुभ वधाई। मैं उनके दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ।

डॉ० महेशचन्द्र गुप्ता
(निदेशक—राजभाषा)

विनम्र निवेदन

ज्ञानियों का कथन है कि विविध रूपों पर पड़े माया के आवरण के दूर होते ही सब में समान्य एक ब्रह्म रूप का साक्षात्कार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार भारतीय विभिन्न लिपियों का पर्दा हटते ही इस कोश में भाषाओं के शब्दों में व्याप्त एक रूप का प्रत्यक्षीकरण आप पायेंगे। कोश के पृष्ठों का प्लट प्लट कर देखिये। शब्दों के बारीकी और छोटे बड़े कोष्ठक मिलेंगे। प्रत्येक कोष्ठक में पहले एक ही शब्द के भिन्न रूप हैं। फिर उन शब्दों में सम्बद्ध भिन्न भिन्न भाषाओं के नाम लिखे हैं। तुरन्त ही आपका आश्चर्य माने लगगा कि विभिन्न भाषाओं में अनेक रूप धारण करने वाला शब्द मूलतः एक ही है। छोटे छोटे कोष्ठकों में लिखे थोड़े थोड़े शब्दों में विस्मय प्रारम्भ होगा जो बड़े कोष्ठकों में लिखे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की अनेक भाषाओं में प्राप्त शब्द रूपों को देख आश्चर्य की सीमा पार करने लगगा। परन्तु जब आपका ध्यान विभिन्न भाषाओं में प्राप्त एक ही शब्दों की सम्यक्ता में उपलब्ध शब्दों की एक रूपता पर जायेगा तो आप वरुणम कर्त पृष्ठ — “महदाश्चर्य महदाश्चर्य”।

और अधिक ध्यान देने पर पता चलगा कि कोई शब्द दश क एक कोने की भाषा में अपना स्वर उठाये खड़ा है। फिर एक दम उसके दर्शन देश के दूसरे कोने की भाषा में होता है। दोनों कोनों के मध्य भाग में व्याप्त भाषाओं के समुद्र में वह जल के नीचे नीचे मतलब कर दूसरे कोने की भाषा में जाता है। पूर्व पश्चिम की भाषाओं में ऐसा हो तो आश्चर्य कुछ कम होगा, परन्तु यदि उत्तर की एक भाषा में स्वर उभारे और बिना किसी भाषा के क्षेत्र में पलायन जाने एकदम दक्षिण की भाषा में अपने उसी रूप में उजागर होना आप को कहना पड़ेगा कि “महदाश्चर्य अतः परम्”।

हम चाहते हैं कि आप भारत के इस अनोखे शब्द समूह में रुचि लें। पर लेख की लम्बाई में बड़ा अंतर एक ही उदाहरण दे पा रहे हैं। अन्य असंख्य उदाहरण स्वयं दृष्ट कर आप मार्मात्मक मुख और बौद्धिक ज्ञान बढ़ायें। नेपाली में एक शब्द मिला अपर्याप्त। साग भारत पार करके वह धर दक्षिण की कन्नड़ भाषा में उसी रूप में प्रकट मिला। शब्द भारत के क्षेत्र का है। दोनों भाषाओं में सर्व भी एक ही या ‘वामी नदी, ताजा’।

दूसरे पक्ष के शब्दों के अर्थ की विभिन्नता का। पृष्ठों में 1, 2, 3, 4 आदि नंबर डालकर जो अर्थ दिए हैं व उन सभी भाषाओं में मिलते हैं जो उस कोष्ठक में लिखी हैं। यदि किसी भाषा में अर्थ भिन्न है तो अर्थों की पंक्ति में भाषा का नाम कोष्ठक में दिया है, तथा अनेक बार ऐसे अतिरिक्त अर्थों के लिखने से पहले + चिह्न भी लगा दिया है। यद्यपि एक ही अर्थ का उदाहरण आपका किर्गिज में, सरजन के लिए दिया जा रहा है। जिसके साथ ही यह भी ज्ञान होता है कि शब्द की भिन्न व्युत्पत्ति द्वारा उसका अर्थ किस प्रकार बदला जा सकता है। अनाथ शब्द भारत की सभी भाषाओं में — ‘जिसका कोई अभिभावक, स्वामी, रक्षक, शरणदाता, सहारा न रहा हो’ — ऐसे व्यक्ति के अर्थ में प्रचलित है। जिस अर्थ में प्रायः बिना माँ बाप का बालक, विधवा स्त्री आदि का भी समावेश हो जाता है। तमिल में अनाथ को अनातन् लिखा तथा अनादन् पढ़ा जाता है। ऊपर दिए अर्थ के अतिरिक्त तमिल में इस शब्द की एक और प्रकार से व्युत्पत्ति — ‘जिसका और कोई नाथ या स्वामी न हो’ — करके अर्थ निकाला गया है ‘ईश्वर’। इस प्रकार अनेक शब्दों के आश्चर्यजनक अर्थ मिलेंगे, जो कई भाषाओं में विभिन्न प्रकार से व्युत्पत्ति के आधार पर निकाले गये हैं।

वर्णविन्यास की विचित्रताएं:-

यद्यपि बंगला संस्कृत से प्रभावित भाषा है। परन्तु उसमें ‘व’ के स्थान पर ‘ब’ और ‘श, प्र, स’ के स्थान पर ‘श’ का प्रचार रूढ़ हो गया है। असमी और उड़िया भाषाएँ भी इसमें प्रभावित हैं। अतः कोश में उक्त तीनों भाषाओं के शब्दों में ‘व, श’ का प्रयोग यत्र तत्र मिलेगा।

इसी प्रकार अगमी के अनेक शब्दों के अन्त में हल्न्त लगाने की प्रथा है जो शुद्ध उच्चारण के अनुकूल है। अकारान्त शब्द का उच्चारण हिन्दी में भी हल्न्त ही होता है परन्तु विविध बात है कि हिन्दी में हल्न्त चिह्न नहीं लगाया जाता।

पुस्तक में अनेक स्थानों पर डिक इकि आदि लिखा मिलेगा। साधारण प्रेम के अक्षरों में ड क नीचे क, ख, ग म अक्षर जुड़े हुए मिलते हैं परन्तु कम्प्यूटर में यह सुविधा नहीं थी। इसी प्रकार दूध यू एक में मिले नहीं थे। कम्प्यूटर में ह म नू र तू मिल हुए अक्षर तो थे परन्तु स्पष्ट पढ़ जाने में कठिनाई होती थी। अतः विद्वानों को वन्ती में एसी परिष्कार मिलेगा। छात्रों में कम्प्यूटर नवीनतम टेक्नीक है परन्तु यह भी आश्चर्य है कि उसमें सुविधा है। सम्भवतः ये दूर हो जाएँ।

आधार प्रदर्शन:-

अकारादि वर्णमाला क्रम में भाषा के शब्द संकलन कर शब्द कोश प्रणयन की प्रथा भारतवर्ष में नहीं थी। भारत की प्रत्येक भाषा के अन्त क्रम में कोश संवत्सरे पहले यूरोपीय भाषा नित्तास आने बनावे। पहले कोशकार की कृति में दूसरा विद्वान् फलन क्रम बढ़ाकर करता रहा। इस प्रकार ईसा की उन्नीसवीं शताब्दि में अस्मान आत आत भारत की हर भाषा का शब्द कोश पर्यपूर्ण आकर ग्रहण कर चुका था। आश्चर्य यह है कि पश्चिम जन भाषाओं के आदर्श शब्द कोश ही स्थापित नैयार नहीं किये आपत्तु संस्कृत नैमी कोठन भाषा में भी एम कोश तैयार किये निन्दे भक्त तत्र संस्कृत के प्रकाश पठित भी प्रामाणिक और स्तम्भनीय मानने पर विश्वास मत है। उनके चरण चिह्न पर चलकर फिर भारतीय विद्वानों ने भी अनेक कोश तैयार किये। प्रस्तुत कोशकार स्वतः सभा के हृदय में अभागे है। इस कोश में ना कुल विस्मयजनक है उस सब का श्रेय सामूहिक रूप से नहीं की जाता है।

कृतज्ञता-ज्ञापन:-

प्रायः शब्द संकलन संबंधी कार्य स्वयं मुख और स्वाकृत मत है परन्तु एम प्रय में भी कई भाषाओं के शब्द संकलन अथ लेखन आदि में सगे श्रीमती अमिता नेन जमला गोकलानी और रुचिराभद्राबाया ने जा महयोग दिया वह अविस्मरणीय है। हम उनके कृतज्ञ हैं।


अन्ततः

जीर्ण शीर्ण पत्र में — इस अनुष्ठान गौर का लाभ सका — क्रिमाश्चयमत परम्
रक क गिर का छत्र छाया मिली — क्रिमाश्चयमत परम्
प्रकृतित सवेथा असभव दोग्द का मनार्थ तूण हआ — क्रिमाश्चयमत परम्

जगन्नियन्ता की दया एवं विजिष्ट महानुभावों की प्रेरणा से भारतीय भाषाओं के महादगी स्वरूप को प्रतिष्ठित करने के प्रथम प्रयास का यह प्रथम चरण है। आप से यह विनम्र निवेदन है कि इसमें जो दोष दिखाई दें उनसे हम अवगत करके भविष्य में उनके परिहार हेतु भाग के उम पावन अनुष्ठान में सहभागी बनें। यदि कुछ गुण दृष्टिगोचर हो तो उनके सकल द्वारा 'भारती' की सेवा में द्विगुणित स्ल्लाह पूर्वक कार्यरत रहने में हमें सहयोग दें।

शरदपूर्णिमा 2050 विक्रमी/30-10-93 ईगवी
भाषा सगम भवन, 220, टेगोर पार्क, दिल्ली 9

जय भाषा जय भारती

विनयावनत

सम्पादक

भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश के प्रणयन का उत्स

महामहिम राष्ट्रपति डा० शंकर दयाल शर्मा जी ने अपने उपराष्ट्रपतित्व काल में 28-3-90 ई० को केंद्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा आयोजित समारोह में प्रेरणा दी थी कि "भारतीय वाङ्मय कोश" प्रकाशित किया जाय।

"भारतीय भाषा संगम शब्द कोश" का प्रणयन पूर्णतया उनकी उस प्रेरणा का परिणाम है। जिसके प्रथम खण्ड के प्रकाशित होने का मुझे साधारण नहीं अपितु असाधारण आत्मिक सुख है, क्योंकि इसके आरंभ करने समय मुझे यह भरोसा नहीं था कि मेरे द्वारा यह कार्य सम्पन्न हो पायेगा।

लगभग 35 वर्ष पहले मैंने भारत की सर्विधान स्वीकृत भाषाओं के शब्दों का सर्कलित करने का कार्य किया था। उस समय केवल 'अ' से आरंभ होने वाले शब्दों का लिखन में 4 वर्ष लग गये थे। परन्तु वह वान पुरानी हो चुकी थी। कृष् भी स्मरण नहीं रहा था। अब आयु की मध्या थी आर शरीर की दशा शीण हो चुकी थी। केवल एक बात मन को कचोटती थी कि जिस काम का मैं हृदयतल से चाहता था, उसके कार्यान्वयन का समय आया है, और मैं उसे न कर पान में विवश हूँ।

मैंने सहारे की तलाश की। नियति थी कि जिन प्रियजन से आशा थी उन्होंने आशानीत आश्वामन दिया। मन को कुछ ढाढस बधा। फिर स्वजने और परिजनों ने सहयोग का भरोसा दिया। अन्ततः कार्यारंभ हुआ।

पहला किया काम वर्तमान दृष्टि में अधूरा था। क्योंकि उस समय सर्विधान स्वीकृत भाषाएँ केवल आठ थीं। जबकि अब उनकी संख्या दोगुनी हो चुकी थी। परन्तु कार्य आरंभ करके अब छोड़ा नहीं जा सकता था।

दिन रात और रात दिन अनेक हाथों ने लेखन कार्य करके, 'अ' से आरंभ होने वाले शब्दों का दश की सभी भाषाओं के कोशों से सर्कलित कर एक कच्ची पक्की सूची भी तैयार की। जब उस विहंगम दृष्टि से अवलोकन किया तो जहाँ जहाँ भाषाओं के शब्दों में इतनी समानता मिलने लगी कि विस्मय की सीमा ही नहीं थी।

सभी शब्दों का सिहावलोकन करने पर समझ में यह आया कि इनको प्रचलित कोशों में स्वीकृत 'अकारादि' शब्द क्रम में रखा जाय तो पाठकों को वह लाभ नहीं मिल सकता, जो एक "भाषा संगम" कोश में मिलना चाहिये। अतः शब्दों का वर्ण क्रम से लिखे जाने का विचार छोड़ देना पड़ा। कोई नवीन सिद्धान्त निर्णय करना उचित समझ उस दिशा में विचार आरंभ किया गया। निश्चय किया गया कि समान शब्दों का वर्ण विन्यास भिन्न हान हो, भी उनको पास पास लिखा जाय। समान शब्दों के एक साथ रखने की प्रक्रिया जब आरंभ हुई तो 'अ' से आरंभ होने वाले उपसर्ग युक्त शब्दों की संख्या ही इतनी अधिक थी कि पुस्तक का कलेवर सात सौ पृष्ठों में ऊपर पहुँच गया। फिर कुछ ग्रन्थालाचन के पृष्ठ भी अनिवार्य होते हैं। एक पुस्तक इससे अधिक भारी हो जाय तो पाठक द्वारा उठाने रखने के लिये ठीक नहीं रहती। अतः यह आठ सौ पृष्ठों का एक खण्ड ही आप के हाथों में प्रस्तुत है।

इसमें संस्कृत, असमी, उडिया, कन्नड, कोकणी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयालम, सिंधी, हिंदी भाषाओं से ग्रहीत 'अ, अनु, अन, अण, अनु, अति, अधि, अभि, अप, अव' उपसर्गों से युक्त शब्द हैं। एवं उन भाषाओं में प्राप्त अर्थ भी हैं। अर्थों के उर्दू पर्यायशब्द भी भरपूर दिये गये हैं।

उक्त उपसर्ग-युक्त शब्दों के अवलोकन से सम्पूर्ण भारतीय-भाषाओं में प्राप्त परिनिष्ठित शब्दों की मूलभूत एकता प्रमाणित होने में कोई भी शका शेष नहीं रह पाती। इस प्रकार भाषा संगम कोश के प्रणयन का प्राथमिक उद्देश्य पूरा हो जाता है।

'अ' से आरंभ होने वाले सभी भाषाओं में प्राप्त लगभग पचास हजार शब्द अभी और भी हैं। उनमें भी समानता का अनुपात कुछ कम नहीं। उनका प्रकाशित होना नियति के अधीन है।

कोश के प्रथम-खण्ड में मात्र उपसर्ग-युक्त शब्द क्यों?

उपसर्ग-युक्त शब्दों द्वारा भाषाओं का परिचय वास्तव में सब भाषाओं से प्राप्त नवनीत है। जो प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसा क्यों और कैसे किया गया? भाषाओं के गंथन की इस दुष्करता की व्यथा-कथा की झांकी यहां दी जा रही है।

सभी भारतीय वर्णमालाओं में 'अ' अक्षर का प्रथम स्थान है। शब्द-कोशों में उसका ही परिचय पहले दिया जाता है। भाषाओं की लिपियां भिन्न भिन्न हैं। कुछ लिपियां सरल हैं, कुछ कठिन। जिनमें संयुक्त अक्षरों की बनावट जितनी अधिक जटिल है, उनको पढ़ना उतना ही दुष्कर है। जैसे भी हुआ वह मज्जिल पार की। इस यात्रा में तमिल लिपि ऐसी मिली जिसमें सब लिपियों में कम वर्ण थे और संयुक्त वर्ण एक भी नहीं था।

जब भाषाओं के कोशों के शब्द-क्रम की यात्रा आरंभ हुई तो नयी समस्या सामने आयी। लिपियों के अक्षरों के ज्ञान में आँखों द्वारा की गयी पहचान को स्मरण रखने मात्र का काम था। अर्थात् स्मृति मात्र का उपयोग प्रधान था। परन्तु अब बुद्धि और विवेक पर बल देकर निर्णय लेना अनिवार्य हो गया।

कारण यह कि भाषा-कोशों में एक ही शब्द किसी भाषा में एक तरह लिखा मिलता था, दूसरी भाषा में दूसरी तरह लिखा जाता था। उन दोनों का 'संगम' किस प्रकार किया जाय यह निर्णय करना अनिवार्य हो गया।

मूलतः शब्द क्रम निर्णय में ध्वनि और व्याकरण का युद्ध था। उदाहरण स्वरूप यहां दक्षिणी भाषाओं के शब्द क्रम की प्रणाली प्रस्तुत की जा रही है। तमिल में 'अ' अनुस्वार नहीं है। अतः वर्ग के पाचवें अक्षर के हलन्त रूप को पहले लिखकर यह कमी पूरी की जाती है। 'अडक', 'अमस' आदि लिखा जाता है। तमिल में यही व्याकरण सम्मत है। परन्तु तेलुगु में 'अ' की ध्वनि का उपयोग कर 'अक' में अम तथा अह तक' सारे शब्द 'कोश क्रम' में पहले ही दिये गये मिले। मलयालम कोश में 'अंश, अम' तो पहले दिये हैं। परन्तु 'अडक' की वागी क, ख, ग, घ के पश्चात् आती है। दूसरी ओर उसमें जहाँ तथा 'अ' के ध्वन्याक्षर का भी पर्याप्त उपयोग होता है। कन्नड़ में भी 'इ, उ' का उपयोग तो संयुक्त अक्षरों में नहीं होता, परन्तु 'णु नु म' अपन वर्ग के अक्षरों के साथ जोड़े जाते हैं। अर्थात् भिन्न-भिन्न भाषाओं में 'नामिकाक्षर' ध्वनि युक्त संयुक्त अक्षरों के कोश क्रम भिन्न भिन्न हैं।

उत्तर में दक्षिण तक की भाषाओं में 'अ' से आरंभ होने वाले महसूस शब्दों में समानता देखकर अपार मूख का अनुभव हुआ था। अलग परिचयों पर अनुमान के अनुसार एक लाख से अधिक शब्द संकलित हो गये थे। परन्तु उन्हें कोश में किस क्रम में रखा जाय यह समस्या अति विकट थी। क्योंकि किसी भाषा में 'असवद्ध' विन्दी से था जो पहले ही पृष्ठों में आ जाता। किसी अन्य में 'असम्बद्ध' संयुक्त अक्षर से था जो आधा कोश पार कर के 'म' अक्षर पर लगी सारी मात्राओं के पश्चात् जब उसके हलन्त रूप की वागी आती तब लिखा मिलता। प्रचलित कोश-नियम दोनों को अपने-अपने स्थानों पर रखे जाने के अतिरिक्त कुछ नहीं कहते।

इतना सब करके भी जब साधारण शब्द क्रम सामने रखा गया तो केवल निगशा ही नहीं अति हताशा हुई। क्योंकि कितने ही वर्षों तक हजारों हजार घंटे अनेक हाथों द्वारा लिखने की पीड़ा सहने के पश्चात् 'भाषा संगम' की साध पूरी नहीं हो पा रही थी। समान शब्द थे; परन्तु एक दूसरे से दूर पड़ते थे। बीच में अनेक शब्दों का व्यवधान था।

हमारा एकमात्र ध्येय भाषाओं की एकता का प्रतिपादन था। अतः अन्त में समन्वयवाद का सिद्धान्त ग्रहण किया गया। ध्वनि और व्याकरण दोनों की रक्षा की गयी। यथा, कोश के प्रथम पृष्ठ पर ही आप 'अकंटक अकण्टक', 'अकंप-अकम्प' आदि भिन्न रूप जो कोशों में वर्ण-विन्यास के कारण दूर-दूर मिले, साथ-साथ दिये गये पायेंगे।

वर्ण विन्यास सगम की समस्या का समाधान न जान के पश्चात् अर्थ वर्गीयता अनुसंधानार्थ धीरे धीरे पानी में पैटना आरंभ किया। सास साधकर गहरे पानी में खोजने का यत्न किया। अंत में आरंभ होने वाले साग शब्दों का आलोडन विलोडन किया। उस मथन में मचमुच माखन के स्वच्छ सफेद मोतिया जैसा शब्द ऋण ऊपर तगने लगे। जो थे भाषाओं के समान उपसर्ग युक्त शब्द। वे इस शब्द काश में प्रस्तुत हैं।

उपसर्ग युक्त एक-एक शब्द दो-दो शब्दों का ज्ञान कराता है। यथा काश का पहला शब्द अक्रण मगठी तथा हिंदी में है, अक्रणी रूप हिंदी, गुजराती नेपाली मगठी में है अक्रणि रूप मलयालम में और अक्रणिन् रूप संस्कृत में प्राप्त होता है। उपसर्ग हटा देने पर ज्ञात जाना है कि इसके ऋण ऋणी ऋणि तथा ऋणिन् रूप भी उक्त भाषाओं में प्रचलित हैं। इस प्रकार एक शब्द में भिन्न भिन्न भाषाओं में प्रचलित दो शब्दों की जानकारी मिल जाती है। अतः कोश देखकर अनुमान लगाइय कि भारतीय भाषाओं में कितनी एकता है।

कोश में देखिये बायीं ओर लगे एक काष्ठक में अनेक शब्दों का साथ साथ होना जानता है कि कोई कोई शब्द उत्तर में नेपाल में लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी के द्वार तक चलता है।

ऋण शब्द की उत्तर दक्षिण व्यापकता का दख अधिक खोज की ता बगला अगरी, उडिया तेलुगु कन्नड़ सतम ऋण शब्द मिला, परन्तु उन के भाषा कोशों में इसका 'अ' उपसर्ग युक्त रूप नहीं था। इसी तरह कम्य कम्पन मगठी ने गिने पर मगठी कोश में 'अकम्प अकम्पन' नहीं है। अनुसंधान में पता चला कि यह दशा संकड़ो शब्दों की है अर्थात् भाषा में शब्द चलता है पर काश में उसका उपसर्ग युक्त रूप नहीं है। परन्तु हम उनके उपसर्ग युक्त रूप बनाकर लिख नहीं सकते थे। क्योंकि किसी भाषा के शब्द निर्माण करने का अधिकार हम नहीं था।

सकलन के लिए प्रत्येक भाषा के कम से कम 3 तथा अधिक से अधिक 7 कोश संग्रह किये गये। उनमें जो उपसर्ग युक्त शब्द मिले आपकी सेवा में उपस्थित हैं। विभिन्न भाषा भाषी अपनी भाषा में प्रचलित कोई शब्द यदि हममें न देखे, तो हमारी विवशता के लिए क्षमा कर दें। ऊपर ऋण कम्य आदि के अध्ययन में यह निश्चय हो जाता है कि इस कोश में जितने शब्द दिये हैं उनमें दो गुने से अधिक समान शब्द भारतीय भाषाओं में अवश्य प्रचलित होंगे।

उपसर्गों के वर्गीकरण क्रम का आधार

उपसर्ग युक्त शब्दों का सकलन कर प्रश्न उठा कि इन को किस क्रम में रखा जाय। वर्ण क्रम में 'अ' का अधिकार सर्वाधिक था अतः 'अ' उपसर्ग युक्त शब्दों को पहले रखा गया। 'अनु' उस का ही विकल्प है अतः वह उसके बाद रखा गया। दो नकारात्मक उपसर्गों के बाद 'अनु' सकारात्मक उपसर्ग रखा गया। पश्चात् एक ही श्रेणी के हल्के भारी अर्थ देने वाले अति, अधि, अभि उपसर्गों के शब्द रखे गये। फिर 'अप' 'अव' उपसर्गों के शब्द हैं। ये दोनों उपसर्ग भी एक ही जाति के बड़े छोटे भाई हैं। इस प्रकार अर्थ का आधार लेकर वर्गीकरण का क्रम रखा गया है।

आरंभ में पहला कारण यह बताया गया है कि 'दो रूपों के प्रचलन' का ध्यान रखकर प्रथम खण्ड में उपसर्ग युक्त शब्दों का सकलन किया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह भी था कि पाठकों के सामने ऐसे परिनिष्ठित शब्दों का समूह रखा जाय जो पूर्णतया प्रमाणित कर सकें कि मूल रूप में भारत की सभी भाषाओं में वही सरस्वती बह रही है जो सहस्रों वर्ष पहले धरती के ऊपर प्रत्यक्ष बहती थी और अब वही धरती की सतह के नीचे (लिपियों की सतह के नीचे) अप्रत्यक्ष बह रही है। जिसे देवनागरी की प्रत्यक्ष सतह पर सामान्य जन स्वयं देख सकते हैं।

कोशगत शब्द-संख्या की विवरणी

<u>उपसर्ग नाम</u>	<u>शब्द संख्या</u>
अ उपसर्ग युक्त शब्द	13883
अन् अण उपसर्ग युक्त शब्द	3232
अन् उपसर्ग युक्त शब्द	2599
अति उपसर्ग युक्त शब्द	2841
अधि उपसर्ग युक्त शब्द	1275
अभि उपसर्ग युक्त शब्द	2415
अप उपसर्ग युक्त शब्द	1877
अव उपसर्ग युक्त शब्द	2374
कुल उपसर्ग युक्त शब्द	30496

भाषा वार शब्द संख्या

<u>उपसर्ग</u>	<u>तमिल</u>	<u>तेलुगु</u>	<u>कन्नड</u>	<u>मलयालम</u>	<u>हिन्दी</u>	<u>शेष भाषाएं</u>	<u>योग</u>
अ	652	426	862	2227	1021	8695	13883
अन्	138	168	152	477	704	1593	3232
अन्	115	139	175	461	492	1217	2599
अति	98	57	200	360	281	1845	2841
अधि	59	69	76	194	261	616	1275
अभि	99	122	167	498	430	1099	2415
अप	74	110	133	315	332	913	1877
अव	144	129	158	393	426	1124	2374
योग	1379	1220	1923	4925	3947	17102	30496

पृष्ठ-सूची

<u>उपसर्ग क्रम</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>
अ युक्त शब्द	1 म 323
अन् युक्त शब्द	324 म 403
अन् युक्त शब्द	404 म 469
अति युक्त शब्द	470 म 513
अधि युक्त शब्द	514 म 546
अभि युक्त शब्द	547 म 612
अप युक्त शब्द	613 म 657
अव युक्त शब्द	658 म 717

कोशगत अर्थों में उर्दू शब्दों की तद्वत् वर्तनी का कारण

भारत की प्रत्येक भाषा में अरबी फारसी शब्द प्रचलित हैं। परन्तु उनके उच्चारण बदल गये हैं। अतः वे उन्हीं उच्चारणों के अनुरूप लिखे जाते हैं। उर्दू चाहे भारत में उत्पन्न भाषा है, परन्तु उसकी शब्दावली में अरबी फारसी तर्की आदि के शब्द अधिक हैं। उसके जन्म काल में उनकी संख्या कुछ कम थी। अब कुछ अधिक हैं।

अरबी फारसी शब्दों के उन्हीं भाषाओं के अनुकूल उच्चारणों का व्यक्त करने के लिये प्रायः भाषाओं ने अपनी वर्णमालाओं के अक्षरों में कोई विशेष विधान नहीं बनाया। परन्तु देवनागरी वर्णमाला का जो रूप हिंदी प्रदेशों में चलता है, उसमें क, ख, ग, ज, फ के नीचे विदी लगाकर क, ख, ग, ज, फ बना लिये हैं। इनके द्वारा अरबी फारसी और तदनुकूल उर्दू भी शुद्ध बोली जा सकती है। मन्तर वष से पहले यदि कोई हिन्दी लेखक कलम, खयाल, गम, जोर, फायदा को कलम, खयाल, गम जोर फायदा लिखना था तो हिन्दी समालोचक उसे अनुचित मानता था।

महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मद्रास में दर्शन भारत हिन्दी प्रचार सभा स्थापित कर हिन्दी को सारे भारत की 'एक भाषा' का दर्जा दिया और हिन्दी का स्वतन्त्रता संग्राम के कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाया। परन्तु उन्होंने सन् 1934 ई० के आस पास हिन्दी का नाम 'हिन्दुस्तानी' और हिन्दी का शब्दावली में उर्दू में प्रचलित शब्दों की सर्वग्राह्यता पर बल देना प्रारम्भ कर दिया।

राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन पूर्णतया गांधी जी के अनुयायी थे। वे इलाहाबाद के हिन्दी साहित्य सम्मेलन संस्था के कर्णधार थे। स्वयं तो उन्होंने कालिज की अंतिम कक्षा तक फारसी पढ़ी थी। (मैंने उन्हें कभी जवाहरलाल बोलते नहीं सुना। वे मद्रास जवाहरलाल बोलते थे, अर्थात् शब्द फारसी उच्चारण करते थे।) उदार दृष्टि काण रखते थे। परन्तु हिन्दी-साहित्य सम्मेलन में 'हिन्दुस्तानी' नाम के प्रति विरोधी प्रतिक्रिया हुई। परिणामतः हिन्दी में प्रचलित अरबी-फारसी अथवा कहा जाय तो उर्दू में प्रचलित तद्वत् उच्चारणों का तीव्र वादिकार प्रारम्भ हुआ। मैंने देखा कि जन नेता कितना विवश होता है। टंडन जी हिन्दी के पक्षधरों का साथ रखना चाहते थे, अतः वे लोगों का पक्षपात पूर्ण व्यवहार से न रोक सकें। उस समय एफ़ नया शब्द चला 'हिंदीकरण' अर्थात् अरबी फारसी शब्दों का कलम, खयाल, गम, जोर, फायदा आदि रूप हिन्दीकरण है। अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया गया था कि भग जी भी भारतीय शब्दों का उच्चारण अपनी प्रकृति के अनुकूल उनके बदल कर करती है। हिन्दी ऐसा क्यों न करे। इस आंदोलन का केन्द्र इलाहाबाद था।

उसी इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में एक सम्मान्य प्रोफ़ेसर थे डा० बेनी प्रसाद। जिन्होंने उक्त आंदोलन में कुछ ही वर्ष पूर्व अंग्रेजी के गढ़ लन्दन में गुजरी एक आपबीती का लेख लिखा था। जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।

बेनी प्रसाद पी एच डी करने लन्दन गये थे। इलाहाबाद में एम ए करने के बाद उन्होंने यहाँ पुनःके लियी थीं। सुन रखा था कि ब्रिटिश म्यूजियम के पुस्तकालय में भारत में छपी सभी पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। जिज्ञासा शान्ति के लिये वे उस पुस्तकालय में गये। उन्होंने देखा कि कि लेखकों के नाम क्रम में 'बेनी प्रसाद' नाम है, परन्तु उसके आगे लिखा है "देखिये वेणीप्रसाद" के अन्तर्गत। विश्व विद्यालय में पढ़ते हुए उन्हें यह ज्ञान था कि 'अंग्रेजी लिखने की प्रथा में व्यक्ति का जन्मदिनांक अधिकार है कि वह अपने नाम को किसी भी वर्णक्रम या स्पेलिंग में लिखे।'

वे उच्चतम कक्षा तक विश्वविद्यालय में पढ़े युवक थे। बड़े जोश और आक्रोश में उन्होंने अपना यह तर्क पुस्तकालयाध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किया। पुस्तकालयाध्यक्ष एक विद्वान अंग्रेज थे। उन्होंने उत्तर दिया 'निश्चित

रूप से आप को अपना नाम किन्ही भी अक्षरों में लिखने का अधिकार है। परन्तु लाइब्रेरी का भी अपने नियमानुसार 'शुद्ध करके' लिखने का अधिकार है। अतः यहाँ 'बेनी प्रसाद' को वर्णा प्रसाद कर लिया गया है, अर्थात् विज्ञ अंग्रेज तदुभय नहीं तत्सम के पक्ष में थे।

डा० बेनी प्रसाद का उक्त लेख मैन गन् 1932 ई० में एक पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था। उससे मैं आज तक प्रभावित हूँ। क्योंकि यदि हम किसी शब्द की शुद्धता का जानन है और लिपि में प्रकट कर सकते हैं, तो यह असंराहनीय नहीं कहा जा सकता। अंग्रेजी लिपि में 'ण' ध्वन्याक्षर नहीं है। यदि वर्णा नाम में 'ण' ध्वनि प्रकट की गयी थी तो निश्चित ही रोमन अक्षर के 'न' के नीचे बिन्दी लगाकर ही प्रकट की गयी होगी। जो भाषा विज्ञान के अनुसार उच्चारण मकेत के लिये प्रयुक्त लिपि का मकेत करती है।

इस काश में उर्दू शब्दों के तद्वत् उच्चारण का प्रकट करने के लिये देवनागरी के क, ख, ग, ज, फ के प्रयोग का कारण मात्र ऊपर लिखी घटना का प्रभाव नहीं है, अपितु पाकिस्तान में प्रकाशित दो कोशों का प्रभाव भी है। अतः यहाँ उन दो पाकिस्तानी कोशों की शब्द तथा अर्थ संबंधी दो बातों की चर्चा भी उपयुक्त प्रतीत होती है, जिनमें कोशकारों ने अति शालीनता का प्रयोग किया है। दृष्टिये

सिन्धी-लिपि के अक्षरों में चिह्न लगाकर अन्य भाषा के उच्चारणों की अभिव्यक्ति

शब्दों के उच्चारण सम्बन्धी चर्चा पाकिस्तान में तैयार सिन्धी भाषा में सम्बन्ध रखती है। सिन्धी भाषा अरबी लिपि में लिखी जाती है। अरबी लिपि में 'ग, ज, ड, द, व' अक्षर हैं। परन्तु सिन्धी में उक्त पाँचों अक्षरों का उच्चारण कृत्रिम प्रकार का होता है। जो अरबी अक्षरों से ठीक तरह प्रकट नहीं किया जा सकता। अतः सिन्धी शब्दों के उच्चारणों को प्रकट करने के लिये लिपि में नीचे चिह्न बढ़ाये गये हैं। निम्नलिखित ये चिह्न-सिन्धी भाषाविदों ने कभी सेकड़ों वर्ष पहले बनाये होंगे। परन्तु पाकिस्तान में बन रहे कोश में अब भी बरकरार हैं। डा० कैलाश चन्द्र भाटिया ने अपनी पुस्तक 'भारतीय भाषाएँ' सन् 1981 ई० में प्रकाशित की थी। उसके पृष्ठ 120 पर वे लिखते हैं कि पाकिस्तान में सिन्धी कोश तैयार हो रहा है। उसके पहले खण्ड में (तीन ध्वनियों अ, ब, बु के) मोलह हजार मूल शब्द हैं जिनमें व्युत्पन्न शब्द तीन गने ना हो ही जायेंगे। अर्थात् यहाँ सिन्धी के मूल उच्चारणों को पूर्ण सम्मान प्राप्त है। उन कोशकारों की शालीनता इस लिये सराहनीय है कि उन्होंने हजारों साल में चली आ रही उच्चारण परंपरा के अनुसार सिन्धी शब्द लिखने का ध्यान रखा।

एक विशेष प्रशंसनीय बात का उल्लेख और करना आवश्यक है। केवल तीन अक्षरों में आरंभ होने वाले मूल शब्दों की संख्या मोलह हजार है। तो पता नहीं मारी वर्णमाला के शब्दों की संख्या कितनी अधिक होगी। सिन्धी में इसमें पहले पूरा कोश भी बारह हजार शब्दों से अधिक का सर्कलित नहीं हुआ। अर्थात् उक्त कोश के सिन्धी शब्द सकलन में भी महान श्रम किया गया है और सिन्धी के उत्थान में शालीनता बर्ती गयी है।

पाकिस्तान से प्रकाशित उर्दू लुग़त (शब्द-कोश) का परिचय

पाकिस्तान में जो उर्दू कोश तैयार हो रहा है, उसके 13 भाग यहाँ आ चुके हैं। शब्द संख्या सकलन में तो अंग्रेजी की आक्सफोर्ड डिक्शनरी जैसा अप्रतिम प्रशंस किया जाता दिखाई दे ही रहा है। मैं यहाँ केवल एक साधारण शब्द के अर्थों के सकलन से कुछ लज्जित सा हुआ हूँ। अतः उदाहरण दे रहा हूँ।

अब, कब, जब, तब शब्द उर्दू हिंदी दोनों के माझे के हैं। उस कोश में 'अब' शब्द के 24 अर्थ दिये हैं और उनकी पुष्टि के लिए 97 उदाहरण दिये हैं। अर्थात् यहाँ नगण्य शब्दों के सूक्ष्म अर्थों का अनुसंधान होता है। काश हिन्दी कोशों में ऐसा हो सकता तो हिन्दी का कितना मान बढ़ता।

कोश-गत शब्दों से सभी भाषा-भाषियों को विविध-लाभ

विविध भाषा ज्ञान की दृष्टि से पिछले चालीस वर्षों में बहुभाषा भाषी और द्विभाषा भाषियों की मख्या बहुत घट गयी है। जिससे दक्षिण, पश्चिम और उत्तर पश्चिम सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं।

चालीस वर्ष पहले आज के तमिल नाडु, तेलुगु देशम्, कर्नाटक और केरल के सभी बड़े बड़े नगरों में तमिल तेलुगु कन्नड मलयालम चारों भाषाओं के बोलने, लिखने वाले मिल जाते थे। अब भी इन प्रदेशों में 55-60 वर्ष के व्यक्ति मिल जायेंगे जो दो से तीन तीन, चार चार दक्षिणी भाषाओं को समझने बोलने और पढ़ने तक में समर्थ हों। निम्नान्देह उनमें ऐसे कम होंगे जो कई भाषाओं में लिख सकें।

उक्त विविध भाषा ज्ञान का कारण यह था कि उस समय अकेली एक मद्रास प्रेसीडेंसी में पिछले कई सौ वर्ष में तेलुगु देशम् का बहुत सा भाग, कर्नाटक तथा केरल का भी पर्याप्त भाग शामिल था। प्रशासन तथा उच्च न्यायालय का केन्द्र मद्रास था। प्रदेश के लोग स्वभावतः अपने आपको एकदेशीय भाई भाई मानते थे। कर्मचारियों के स्थानान्तरण किसी भी एक कोने से दूसरे कोने में होते थे। रोजगार, मजदूरी आदि के लिये कहीं भी जाने में रोक टोक नहीं थी। परस्पर भेद का भाव ही नहीं था।

युगो युगो से चारों भाषाएँ फूलती फूलती चली आ रही थी। एक ही नगर या आंचल में कई कई भाषाएँ बहना बहना की तरह रहती थीं। उनमें परस्पर सदभावना थी, सहिष्णुता थी। वे अपनी भाव संपदा और शब्द संपदा का चुपचाप लेन देन भी करती रहती थीं।

1. सन् 1956 ई० में भाषाओं के आधार पर अलगाववाद की एक लहर उठी और तमिल, तेलुगु, कन्नड और मलयालम भाषी प्रान्त पृथक पृथक बन गये। अब नयी पीढ़ी जिसने उस घटना के बाद जन्म लिया है वह केवल अपनी भाषा पढ़ती है, अपनी लिपि जानती है। प्रशासन और न्यायालय में उसी की भाषा व्यवहृत होती है। अब अपनी भाषा के प्रति प्रेम है। एक के प्रति प्रेम दूसरे के प्रति दुराव को जन्म देता है। अब एक भाषा के प्रदेश में दूसरी भाषा को जानने वाले लोगों की संख्या घट गई है। ऐसे लोगों के लिये देवनागरी के माध्यम से किसी भी दूसरी दक्षिणी भाषा के शब्द जानना इस कोश द्वारा सुलभ हो जायगा।

2. अलगाववाद छूट का रोग होता है। बम्बई प्रान्त में भी लगभग डेढ़ से सौ वर्ष में वर्तमान महाराष्ट्र तथा गुजरात दोनों प्रान्त शामिल थे। वे भी दोनों अलग हो गये। भाषा के पक्षपात का प्रभाव बम्बई में कुछ अधिक देखा गया।

बम्बई में व्यापार का बड़ा भाग गुजरातियों के हाथ में था। महाराष्ट्र निवासी प्रायः उनके व्यवसायों या कारखानों में काम करते थे। दो प्रान्त बनने से भेदभाव बढ़ा। विशेषतः प्रशासन में महाराष्ट्री लोग छोटे बड़े अधिकारी बने। जब कि गुजराती भाई अहमदाबाद, सूरत बड़ोदा में अपने व्यापार सम्भान उठा ले गये।

पहले गुजराती या मराठी भाई दोनों भाषाएँ मगलता से बोलते थे। आज 30-35 वर्ष बाद नयी पीढ़ी अपनी भाषा ही जानती है। भाषा सगम कोश दोनों भाषा भाषियों का लाभ पहुंचा सकेगा।

3. अधिक वर्ष न बीते कि पंजाब से भी हिंदी भाषी भाग अलग हुआ। यहाँ भी जो हरियाणावासी पंजाबी बोल सकते थे उसका अभ्यास घट गया और पंजाबी भाषी पंजाबी ही बोलने की मानसिकता में प्रभावित हो गया। यह कोश दोनों को ही लाभ उठाने का अवसर देगा।

4. वास्तविकता यह है कि भारत की किसी भी भाषा का प्रयोग करने वाला अपनी तथा भारत की अन्य किसी भी भाषा के शब्द रूप से इस कोश द्वारा परिचित हो सकता है।

5. प्रथम खंड में उपसर्ग युक्त परिनिष्ठित शब्द हैं। अन्य खंडों में सभी प्रकार के शब्दों का ज्ञान हो सकेगा।

हिंदी द्वारा अखिल भारतीय रूप धारण करने में कोश का योगदान

महामहिम राष्ट्रपति डॉ० शंकर दयाल शर्मा जी ने एक बार अपने अभिभाषण में कहा था कि 'जिस दिन संविधान सभा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया उसी दिन में हिन्दी वालों का इस भाषा पर मे एकाधिकार समाप्त हो गया।' उन्होंने इसे दूसरे वाक्या में इन शब्दों में स्पष्ट किया कि, "हिन्दी केवल हिन्दी प्रदेशों की भाषा नहीं है, यह पूरे देश की भाषा है। हिंदी समन्वय की भाषा है। जाड़ने की भाषा है तोड़ने की नहीं।"

हिंदी के स्वरूप के विषय में संविधान के अनुच्छेद 351 में लिखा गया है— 'सभ का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना आठवीं सूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली, और पदों का आत्मसात करेगा, और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो, वहाँ उसके शब्द भंडार में मुख्यतः संस्कृत और गौणतः अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द ग्रहण करेगा, उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।'

संविधान के उक्त अनुच्छेद की भावना की व्याख्या करते हुए, शर्मा जी ने विचार व्यक्त किया कि 'देश की अन्य भाषाएँ अपने अपने स्तर पर विकसित हो और राष्ट्रभाषा हिंदी सम्पूर्ण देश के स्तर पर विकसित हो। ताकि देश का कोई भी नागरिक देश के किसी भी कोने में आसानी से अपनी बात कह सके और दूसरे की समझ सके।'

उनका मन्तव्य था कि यदि संविधान के मन्तव्य के अनुरूप काम किया गया तो न केवल हिंदी सवग्रामी हो सकेगी और अन्य भाषा भाषियों के मन में जो भ्रम है वह भी दूर हो सकेगा।

संविधान के निर्देश को ध्यान में रखकर केंद्रीय सरकार ने बहुत काम किया। विज्ञान तकनीक कानून प्रशासन व्यापार आदि के लिये ऐसे शब्दों की आवश्यकता थी जो भारत की सभी भाषाओं को ग्राह्य हो सकें। उसने लिए एक विभाग स्थापित किया गया जिसने असंख्य शब्दों के ऐसे कोश प्रकाशित करने का विशाल कार्य किया जो प्रकारान्तर में हिन्दी का ही काम है।

राजभाषा विभाग ने कार्यालयों में हिन्दी शिक्षा परीक्षा, भाषान्तरकरण आदि में हिन्दी का प्रतिष्ठित किया है।

साहित्य अकादमी ने केवल केन्द्र में अपितु प्रदेशों में भी स्थापना की है। उनके द्वारा किये गये अनेक प्रकाशनों में हिन्दी को कई प्रकार के प्रसार प्रचार सबंधी लाभ हुए।

सभी भाषाओं के प्रतिभेद तथा लोकप्रिय लेखकों के ग्रंथ हिन्दी में और हिन्दी के प्रसिद्ध लेखकों के ग्रंथ अन्य भाषाओं में अनुवाद करने के लिये बड़े बड़े अनुदान दिये गये और असंख्य ग्रंथ प्रकाशित हुए।

केंद्रीय हिन्दी निदेशालय ने द्विभाषी, त्रिभाषी ही नहीं बहुभाषी तथा सर्वभाषी कोश भी प्रकाशित किये। हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने हिन्दी तथा दक्षिण की भाषाओं के द्विभाषी कोश प्रकाशित किये।

हिन्दी समस्था सभ के न्यायवधान में देश के कोने कोने में हिन्दी प्रचार के विद्यालय जोर-शोर से काम कर रहे हैं। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत के प्रत्येक राज्य में व्यापक रूप से हो रहा है। यद्यपि तमिलनाडु में हिन्दी का राजनीतिक दृष्टि से पूर्ण विरोध है फिर भी मद्रास में स्थित दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार सभा की परीक्षाओं में एक लाख से अधिक विद्यार्थी बैठते हैं। सारे दक्षिण की यात्रा करके हमने देखा हिन्दी बोलने समझने वाले सब जगह मिल जाते हैं।

अतः स्वभावतः प्रश्न उठता है कि इतना अधिक प्रचार प्रसार होते हुए सर्वभाषी कोश की आवश्यकता और उपयोगिता क्या है?

पहला उत्तर तो मात्र यह हो सकता है कि कोष ग्रंथ जैसे भी हो विद्वानों के लिये अति उपयोगी होते हैं। परन्तु 'भाषा सगम शब्द कोश' मात्र उस उपयोगिता के लिये बनाई हुई योजना नहीं है। इस कोश के प्रणयन के पीछे कई कारण बताये जा सकते हैं, किन्तु मुख्य कारण दो हैं।

1. आर्य भाषी विद्वानों द्वारा लिखित पुस्तकों में प्रयुक्त शब्दों में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उनकी भाषा तथा हिंदी दोनों में अति प्रचलित हैं। स्वभावतः वे उस शब्द का प्रयोग कर जाते हैं जिसे वे किसी अन्य अर्थ में प्रयोग करते हैं, पर हिंदी वाले उस अर्थ में नहीं ग्रहण कर पाते।

भाव संप्रेषण की इस प्रकार की विसंगति अहिन्दी भाषी भाइयों द्वारा हिन्दी में लिखी पुरस्कार प्राप्त पुस्तकों में भी अनेक बार देखने को मिल जाती है। स्थानाभाव के कारण असह्य शब्दों में से एक ही शब्द का अर्थ सहित उदाहरण दे पा रहा हूँ। दक्षिण में 'ससार' का अर्थ है घर गृहस्थी, बाल बच्चे आदि। हिंदी में 'ससार' का अर्थ है, जगत, दुनिया आदि। इसी प्रकार अकाल, अनुवाद, अन्न, अपराध, अपवाद, अलकार, अर्वाध, अचर, आदर आपत्ति, आभरण, आलोचना, आशा, उत्तर, उपदेश, कल्याण, कोलाहल, गौरव, चर्चा, जलधारा, तत्र, द्वार, नष्ट, नागरिक, निर्वाह, परिवार, पत्नी, परिमल, प्रसंग, प्रेरणा, रक्षाबन्धन, मृग, मूल, योजना, विकट, विज्ञापन, विचारना, शाला, शुल्क, शौच, सन्निधान, सम्मान, सम्पादन, सन्नाय, साधना, सागव्य, सभातना, साहस, साहित्य, आदि असह्य शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत में दक्षिणी भाषाओं में गये हैं परन्तु उनके अर्थों में परिवर्तन परिवर्धन हो गया है।

कुछ अधिक दोष न माना जायगा यदि इसी प्रसंग में यहाँ एक विशेष उदाहरण दे दिया जाय। अब मैं कोटि तीस वर्ष पहले अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी सम्मान्य संस्था द्वारा कन्वेंट हिन्दी तन्मृग हिन्दी आदि भाषाओं के द्विभाषी कोष देवनागरी में प्रकाशित करने की योजना बनाकर उसके अन्तर्गत 'तन्मृग हिंदी कोश' प्रकाशित हुआ। उन कोशकार विद्वानों ने कोश की भूमिका के अन्त में प्रथा के अनुसार धन्यवाद प्रदर्शन के दो अनुच्छेद लिखे। उनका शीर्षक दिया 'कुतज्ञता का आविष्कार' प्रचलित हिंदी के अनुसार कहा जाय कि 'आविष्कार' शब्द यहाँ सगत नहीं बैठता, 'ज्ञापन' उचित होता।

कोशकार की योग्यता का इसमें दोष नहीं। वे जानते थे कि 'आविष्कार' शब्द हिंदी तथा तन्मृग दोनों में अति प्रचलित है। दो भाषाओं के जानकारों के भाव रूकट करने समय सबसे पहले अपनी मातृभाषा का शब्द ध्यान में आता है वह शब्द यदि दूसरी भाषा में भी चलता है, तो वह प्रयोग कर देता है। अतः उन्होंने प्रयोग कर दिया।

यह उदाहरण मात्र इमलिये दिया है कि अहिन्दी भाषी विद्वानों में हिंदी में पुस्तकादि लिखने में ऐसी भूल बृद्ध हो जाती है। यह प्रामाणिक ग्रंथ का उदाहरण था। साधारण पुस्तकों में ऐसे असह्य प्रयोग मिलेंगे।

मैं 'अनुवाद' शब्द का प्रयोग है कि 'भारतीय भाषा सगम शब्द कोश' में समान शब्दों के अनेक भाषी अध्ययन में विद्या-व्यसनों के अन्त की परिधि बढ़ कर ऐसी भूलों का परिहार होगा।

2. दूसरा कारण और अधिक महत्त्वपूर्ण है। संविधान में सलाह थी कि 'हिंदी, अन्य भाषाओं से भी शब्द लें, जिससे समृद्ध, सर्वशुद्ध और सर्वप्रिय बने। हिंदी में ऐसा करने या चाहने वालों की कमी नहीं है। पर ऐसा करने के सामने सुलभ नहीं थे। इस कोश में एक साथ सब भाषाओं के शब्द समानार्थ और भिन्नार्थ सहित देखकर अन्य भाषाओं से हिन्दी भाषी के लिये वांछनीय शब्द लेना सरल-सुलभ बना दिया गया है। जिससे हिन्दी शब्दों के अभाव में अन्य भाषाओं से शब्द लेना सरल-सुलभ रूप बनने का स्वप्न साकार हो सके।

कोश में दिये शब्द-भेद अर्थात् व्याकरण-संकेतों का विवेचन

इस कोश में शब्दों के सामने व्याकरण में संबन्ध रखने वाले सज्ञा विशेषण भूत कृदन्त, क्रियाविशेषण, अव्यय तथा क्रिया आदि संकेत दिये गये हैं। उनके विषय में कहीं जानबूझकर और कहीं विवशता के कारण कुछ निगम्य करने पड़े हैं। अनेक स्थानों पर पाठक स्वयं निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं।

1. प्रत्येक भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो विशेषण तथा सज्ञा दोनों हैं। अतः भाषा कोशा में उनका लिये सज्ञा के लिए, सज्ञा न लिखकर केवल पुल्लिङ्ग अथवा कभी कभी स्त्रीलिङ्ग का संकेत मिलता है। कुछ भाषा कोशों में विशेषणों के साथ भी पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग संकेत होते हैं। दूसरी अनेक भाषाओं में संस्कृत व्याकरण में अनुकरण पर नपुंसक लिंग संकेत भी देती हैं। कुछ अन्य ऐसे स्त्रीलिङ्ग लिखती हैं। उत्तर की कुछ भाषाओं में ऐसी हैं जिनमें दो ही लिंग माने जाते हैं तीसरा नहीं होता। दक्षिण की भाषाओं में नपुंसक या क्लीबलिंग नहीं अपितु अमहत्त्वलिङ्ग होता है। वहाँ पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग अलग से नाम नहीं रखे गये हैं। तमिल कोश लिंग संकेत न देकर केवल 'सज्ञा' संकेत देते हैं। एक ही भाषा के भिन्न भिन्न कोशों में एक ही शब्द एक कोश में पुल्लिङ्ग दूसरे में नपुंसक लिंग अथवा एक कोश में सज्ञा दूसरे में विशेषण लिखा मिलता। इस कोश में शब्द वे हैं जो कुछ कई भाषाओं में मिलते अतः निर्णय लेना पड़े कि कौन सज्ञा संकेत दिया जाय। लिंग संकेत न दिया जाय।
2. विशेषण संकेत देने में भी ठीकी नियम का पालन करना पड़ा। परन्तु अनेक विशेषण शब्दों के संकेत के विषय में दो अन्य कठिनाइयाँ हैं। तिनके विषय में पाठकों को स्वयं सूचना रखना पड़ेगा। पहली कठिनाई का समाधान तो संभव है पाठक इस शब्द का लिंग अपनी भाषा में चलाने में अनुसार निर्णीत कर सकते हैं। परन्तु शब्दों के सामने जो अर्थ हैं वे सब भाषाओं के सम्मिलित हैं। अतः अर्थों में पाठकों की भाषा में जो मात्र विशेषण ही माना जाता हो उसके सज्ञा रूप के अर्थ भी लिखे गिने सके हैं। अतः पाठक इस क्रिया अन्य भाषा का मान अपनी मार्गसक कठिनाई दर कर लें।
3. भूत कृदन्त सम्बन्ध में क्रिया की शान्त में कृदन्त प्रत्यय लगाकर बने शब्द होते हैं। जो व्याकरण की दृष्टि में भूत कृदन्त और प्रयोग की दृष्टि में विशेषण का काम देते हैं। कुछ भाषा कोशों में ये कृदन्त विशेषण और कुछ में केवल विशेषण लिखे जाते हैं। इस कोश में सभी भाषियों में समुदाय रखा गया है। अतः कहीं भूत कृदन्त और कहीं विशेषण लिखा गया है। दोनों में अन्तर कुछ नहीं। पाठक जो चाहे मान लें।
4. कोश में दिये क्रिया विशेषण तथा अव्यय शब्द भी एक ही संकेत देते हैं। पाठक जो चाहे मान लें।
5. दक्षिणी भाषाओं के सम्बन्ध में कोई अभ्यस्तता नहीं है। जिस मलयालम् शब्द के अन्त में अनुस्वार की चिन्दी लगी है वह तमिल शब्द जिसके अन्त में हलन्त 'म्' है वह तथा जिस तेलुगु शब्द के अन्त में 'म्' प्रत्यय है वे सब शब्द अमहत्त्व सज्ञा वाची हैं। इनमें पदार्थ वाची भाववाची तथा प्राणि या समूह वाची सभी प्रकार के शब्द सम्मिलित हैं। इनके लिए पाठक अपनी अपनी भाषा के प्रचलन के अनुसार मानने के लिए स्वतंत्र हैं।
6. दक्षिण भाषायी शब्दों में जिन तमिल या मलयालम् शब्दों के अन्त में हलन्त 'न्' लगा है या जिन तेलुगु शब्दों के अन्त में 'डु' है वे सब पुल्लिङ्ग सज्ञा शब्द हैं।

विशेष निवेदन: उक्त दोनों प्रकार के दक्षिणी शब्द जहाँ कहीं उत्तरी शब्दों के साथ एक ही कोष्ठ में ले लिये गये हैं। उनके सामने सज्ञा भी लिखा हो सकता है और विशेषण भी। यदि कहीं उक्त दोनों प्रकार के दक्षिणी शब्दों के आगे सज्ञा न लिखा मिले तो पाठक उन्हें सज्ञा ही मानें। छपाई की ऐसी भूल क्षमा कर दें।

नोट अतः में विदी वाले शब्द ही मलयालम् में अव्यय भी होते हैं।

कोशगत शब्दों के अर्थों में प्राप्त रसों का आस्वादन

शब्द मधुर अथवा कटु होते हैं, उनका स्वाद ना सभी न चखा होता है परन्तु प्रस्तुत शब्दों के अर्थों का बार-बार अवलोकन करने पर अन्य अनेक प्रकार के स्वादों का रस भी कोशकारों को प्राप्त हुआ। उन स्वादों के रसों का नाम करण करने में हम असमर्थ हैं। परन्तु ऐसा विश्वास है कि कुछ पाठक हमें विद्याव्यसनी भी अवश्य होंगे जो इस पुस्तक का पारायण कर वैसा स्वाद लेने में सक्षम होंगे। यह अर्थात् अर्थात् शब्द भी मिलेंगे। अतः उनके सकेंत के लिये कुछ शब्द ही यहां दिये जा रहे हैं, क्योंकि इनमें अधिक शब्द देने के लिये पुस्तक की पृष्ठ सीमा अनुमति नहीं देती। देखिये स्वाद हर शब्द का एक दूसरे में भिन्न है। कृपया इनका रसास्वादन कीजिये।

1. **अजानि** यह शब्द ध्रुवपूर्व की असमी तथा ध्रुव दक्षिणी की मलयालम भाषा काशी में मिला। दोनों का अर्थ था जिस पुरुष के 'जानि' अर्थात् स्त्री न रही हो, अर्थात् विधुर। विष्णुप्रभारी जिज्ञासा के कारण अर्थात् स्वयं की गयी तो संस्कृत तथा एक हिन्दी काश में भी उसी अर्थ में मिल गया। कारण यह था कि इस्क, आशिकी के मदर्भ में उर्दू में 'जानी' शब्द प्रेमिका तथा पत्नी का सम्बोधन करने में बहुत प्रचलित है। अतः उक्त शब्द पर आश्चर्य हुआ। मलयालम में इसके अनिर्गुण अनन्वजानि शब्द भी मिला। इसका अर्थ दूसरा रसी न होना' था।

उक्त भाषाओं और उर्दू के प्रयोगों में इनकी समानता क्या है, इसका समाधान संभव नहीं हो सकता। परन्तु ये शब्द विष्णु से मन को एक रस का आस्वादन प्रदर्शित करते हैं।

2. **अनन्वय** बड़ा सादा सा शब्द है। यह गुजराती-नेपाळी बंगाली-हिन्दी आदि तमिल तथा तमिल तेलुगु कन्नड मलयालम चारों दक्षिणी भाषाओं के कोशों में मिला। संस्कृत में तो यह प्रायः ही है। इसमें अर्थ सादृश्य में अर्थात् अन्वय शून्य, संबन्ध विरहित, संबन्धभाव आदि व्युत्पत्ति है। जो सभी भाषाओं में मान्य है। इनमें इसका अर्थ अन्वय भी मिलता है, वह उक्त अर्थों में स्वयं जाता है। पर बंगला काश में एक अन्य अर्थ मिला 'वशहीन' जो विलक्षण सा प्रतीत होता है। हम नहीं जान पाये कि यह पुराना है या इसका अर्थ अर्थ प्रचलित नहीं है। अथवा वह अर्थात् है। परन्तु इसमें हम को 'चीका दिया' इसका एक कारण यह था कि

यदि कोश में पढ़कर कोई व्यक्ति कभी इस साधारण व्युत्पत्ति में प्रयोग कर और प्रयोगमा भी हो कि अर्थात् इस 'वशहीन' अर्थ में ग्रहण करने ना वह अधिशाप जैसा स्थिति अन्वय करेगा।

सभी भाषाओं में अति प्रचलित अनन्वय शब्द अर्थात् भी हो सकता है, यह प्रतीत भी नहीं हो सकती थी। इस दृष्टि में सर्वभाषी कोश द्वारा एक शब्द के अर्थ का पूर्ण ज्ञान विद्याव्यसनी के लिये प्रदान जैसा सुरदाप्रक है।

3. **अनुक्रोश** संस्कृत शब्द है। कन्नड-मराठी-हिन्दी में यह अनुक्रोश, संस्कृत-मलयालम में अनुक्रोश तथा तेलुगु में अनुक्रोशमु रूप में प्रचलित है। उक्त सभी जिन भाषाओं में यह 'अनुक्रोश' के विपरिणतार्थ दया, करुणा, अनुकंपा, कोमलभाव, रहम, हृदय, महानुभूति, कृपा आदि अर्थों में चलता है। ये सार अर्थ संस्कृत शब्दार्थ के अनुकूल हैं। परन्तु संस्कृत में इस का अर्थ एक दूसरे प्रकार की व्युत्पत्ति में भी होता है, 'जो एक काम (की दूरी तक) पहुंचा हो।'

4. **अनुक्षेत्र** संस्कृत-मराठी में अपनी व्युत्पत्ति के अनुसार यह छोटा क्षेत्र एवं नीचस्थान अर्थ देता है। परन्तु उर्दू में (उड़ीसा के मंदिरों में) पुजारियों को दी जाने वाली धूल के मकल में प्रचलित है।

5. **अतरुण** शब्द केवल बंगला कोश में मिला। शब्द सुन्दर भारत की मारी भाषा जो कि जानने वाले इस अपनी अपनी भाषा का मानने में इन्कार न करेंगे। क्योंकि 'तरुण' शब्द इन भाषाओं में चलता है और 'अ' उपसर्ग सभी भाषाओं में मान्य उपसर्ग है। अतः केवल 'बंगला' कोश में ही नहीं पर भी इस मकलन में ले लिया। यह अन्य भाषा काशी में नहीं मिला। अतः अपनी और में कोई अन्य भाषा नहीं लिखी।

अब प्रश्न उठता है 'अतरुण' शब्द के अर्थ को ग्रहण करने का। साधारणतया सभावना है कि इसका अर्थ 'जो अभी तरुण अर्थात् युवा नहीं हुआ है' लिया जायगा या लिया जा सकता है। परन्तु बंगला में अतरुण को एक अर्थ है 'अप्रवीण' और दूसरा अर्थ है 'पुरातन' इन दोनों को कोई विद्यावान् व्यक्ति असंगत तो नहीं कर सकता। परन्तु हे दोनों ही विलक्षण अर्थ। ये दोनों अर्थ ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे एक अर्थ नदी के इस पार और दूसरा उस पार को ध्यान में रख कर ग्रहण किये गये हैं।

6. **अतिसार** सज्ञा रूप में उडिया-कन्नड-गुजराती-नेपाली-बंगला-मगरी हिंदी में प्रचलित है। तथा मलयालम में अतिमार, तमिल में अतिमारम्, तेलुगु में अतिसारम् तथा सिंधी में अतिमार, रूप में मिलता है। सभी भाषाओं में यह रूप दस्तों के एक रोग का अर्थ देता है।

मलयालम में इसका अर्थ परिश्रायन भी है। जो संभवतः अंग्रेजी साहित्य के कथार्थमय कर्म पर्याय है।

तमिल में दस्तों के रोग के अतिरिक्त यह अतिमधुग्म अर्थात् म्लैठी अर्थ भी देता है। तमिल में 'च' का 'म' इन्कारण होता है, अतिमारम् वास्तव में अतिमारम् है, अतः ग्रहण की तीव्र गति अर्थ दिया है।

उक्त अर्थों के अतिरिक्त **अतिसार** शब्द अपने व्युत्पत्ति अर्थ को स्पष्ट करता हुआ भी मलयालम में मिला अर्थात् अन्यत अर्थपूर्ण तथा अन्य अर्थ-अन्वावश्यक, अत्युत्तम, मोह्य तथा अतिवलशाली आदि।

7 **अनुगत** मुनते ही प्रतीत होता है कि मूल अर्थ रखने वाला मूलतः यह संस्कृत शब्द है। 11 भारतीय जन भाषाओं के कोशों में यह प्राप्त हुआ। सब भाषाओं में इसके अनुयायी अनुचर, मतान्वर्ती आदि अर्थ समान रूप में चलते हैं। परन्तु इनके अतिरिक्त असमी बंगला में ग्यासक, अधीन, आश्रित मलयालम में लब्ध प्राप्त मगरी-मलयालम में समरूपी तदनुरूप, पर्याप्त, नेपाली में अनुकूल आशामुखी, तेलुगु में निश्चय क्रिया हुआ, परिभाषित, मगरी में युक्त महिन व्याप्त या पूर्ण तथा मलयालम में हाथी को पकड़ने का एक मध्यकालीन तरीका आदि अतिरिक्त अर्थ भी हैं। इस प्रकार 11 में से 8 भाषाओं में इसके भिन्न अर्थ भी मिलते हैं।

8 **अपर्याप्त** शब्द नौ भाषाओं के कोशों में मिला। शब्द श्री मदभगवद्गीता में प्रारंभ में ही दर्याधन द्वारा प्रयुक्त हुआ है, अतः अधिक भाषाओं के कोशों में भी मिल सकता था। परन्तु इसके अर्थ में उस काल में अब तक परिवर्तन हुआ है। वह किसी भाषा में प्रचलित है, किसी में नहीं। पर्याप्त शब्द के कई अर्थ होने हैं परन्तु 'अपर्याप्त' में इसके यथेष्ट काफी, सतापजनक, पूर्ण आदि अर्थ का ही लक्ष्य में प्रायः सभी भाषाओं में रखा गया है। अतः प्रायः यथेष्ट ना-काफी, असताप जनक आदि सब भाषाओं में मान्य हैं। असमी, नेपाली बंगला कोशों में भगवद्गीता में प्रयुक्त अर्थ भी लिया गया है। ऊपर के अर्थों से बिलकुल विपरीत होता है। वहाँ 'अ' में 'अति' का प्रभाव है। अतः उक्त भाषाओं में यथेष्ट, काफी, सताप जनक में भी अधिक अर्थात् असमी, अपरिमित, असह्य, सुप्रचुर आदि अर्थ दिये हैं। उक्त दोनों प्रकार के अर्थ तो संस्कृत कोश में भी हैं। इससे अधिक **संस्कृत में अशक्त, अस्तपर्ष, अयोग्य** अर्थ भी दिये गये हैं।

9. **अतलस्पर्शी** संस्कृत, नेपाली, बंगला, मलयालम, हिन्दी आदि कई भाषाओं में प्राप्त है। यह मूलतः ऐसे जलाशय से आया है जिसमें गोता लगाने पर उसके तल को न छुआ जा सके, थाह तक न पहुँचा जा सके। फलतः किसी विषय की गहराई को न समझा जा सके अर्थ अनेक भाषाओं में प्रचलित है। मलयालम में उसके दूसरे पहलू पर बल देकर अर्थ निकाला कि जो गहराई जानता नहीं, अज्ञान जानने का दम्भ या ढोंग करता है। फलतः उसका ज्ञान दिखावटी है, वह शेखीखोर है।

उक्त सारे अर्थ मूल अर्थ का आधार लेकर विभिन्न परिस्थितियों में निकाले गये होंगे, परन्तु एक दूसरे से दूर पड़ गये हैं। कोई भी एक भाषा-भाषी मात्र यह जान जाय कि यह शब्द अमुक भाषा में प्रचलित है यह सोचकर अपनी भाषा में प्रचलित अर्थ को ध्यान में रखकर किसी अन्य भाषा-भाषी से वार्तालाप में प्रयोग करे तो उसको अपना ठीक भाव संप्रेषित न कर सकेगा।

कोश-पारायण में संभावित शंकाओं का निवारण

कोश के प्रत्येक पृष्ठ पर विविध रूपों और विविध भाषाओं में मूलभूत शब्द की एकता को देखेंगे तो आपको जो सुखद आश्चर्य होगा वही हमारे उद्देश्य का साध्य है।

1. कहीं-कहीं एक ही पंक्ति में शब्द के दो रूप और दो भाषाएँ देख शंका होगी। उसके निवारणार्थ निवेदन है कि पहले रूप को पहली भाषा का तथा दूसरे रूप को दूसरी भाषा का शब्द मानिये। यथा- अकिरुत्तियम्/अकृत्यम् तमिल, तेलुगु; अचलै/अचले तमिल, कन्नड, अक्रय-अक्रय कन्नड, मलयालम, अरवम/अक्षम गुजराती, संस्कृत, अधीर/अधिर-बगला, मराठी; अथाव/अथई मराठी, बगला, अदुर्ग/अदुर्ग हिंदी, मलयालम, अगजाता/अगजाते संस्कृत, कन्नड, अजपे/अजपा-तमिल, नेपाली, अपरकिरिये/अपर क्रिये तमिल, कन्नड, अमगले/अमडगले कन्नड, तमिल; अमलै/अमले-तमिल, कन्नड
2. कभी कभी शब्द पूरा लिखकर दूसरी भाषा में प्रचलित उस शब्द के अंतिम अक्षर का संकेत दिया है। यथा- अकन्दन (म्)-मलयालम, तमिल, अमृतादभव (व) बंगला, मलयालम आदि
3. कहीं एक शब्द के दो रूप परन्तु भाषा एक ही है। यथा अच्युत/अच्युतन् मलयालम, अच्युतम्/अच्युतु-तेलुगु, अच्युदम्/अच्युदन तमिल आदि। इनमें पहला रूप तपुंसक विभ और दूसरा पुल्लिंग है।
4. कहीं अतद्गुण (ण) हिंदी, गुजराती, मलयालम, अमृताधम् (म्) हिंदी, संस्कृत, मलयालम आदि तीन भाषाएँ मिलेंगी, वहाँ कोष्ठ में दिया वण अंतिम भाषा के शब्द रूप का संकेत देगा। यथा अतद्गुण मलयालम, अमृताधम्-मलयालम।

अर्थ स्तम्भ के ज्ञातव्य संकेत

यद्यपि किसी भी भाषा कोश का नाम शब्द कोश होता है पर वास्तव में वह 'अथवा कोश' कहलाने का अधिकारी है क्योंकि उसका वास्तविक लाभ भी अर्थ ज्ञान द्वारा ही होता है। किसी एक भाषा के अथवा द्विभाषीय कोश के अर्थ समझने में कोई दुविधा या भ्रम पैदा नहीं होता, किन्तु यदि कोश अनेक भाषाओं का है तो यह दुविधा हो सकती है कि अमुक अर्थ किस भाषा का है। परन्तु कोश में एक ही पंक्ति में एकाधिक भाषाएँ होने पर एवं एक कोष्ठ में अनेक भाषाएँ होने पर अर्थ समझने में भ्रम निवारण हेतु संकेत निम्न प्रकार से है-

भ्रम निवारण अर्थों में 1, 2, 3, 4, आदि संख्याएँ लिखे हुए हैं, जिनमें पूर्व के कालमें में भाषाओं के नाम हैं। अतः पाठक यह मान सकता है कि 'अमुक संख्याक' अर्थ उनके पूर्व लिखी भाषाओं का ही है किन्तु यह भ्रम मात्र होगा। शब्दों के बायीं ओर की कोष्ठरेखा के अन्तर्गत जितने शब्द हैं वे एक समूह के हैं, जिनमें एक इकाई माना गया है। अतः अर्थ स्तम्भ में जितने अर्थ दिये गये हैं वे उस पूरे समूह शब्दों के हैं, जो अनेक भाषाओं में प्राप्त हुए।

सभी भाषाओं में प्राप्त सभी अर्थ लेकर उन्हें अभिधाय, लक्ष्यार्थ, रूढ़ार्थ पर्यायार्थ, अर्थ परिवर्तन, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, भिन्नार्थ तथा आचलिक अर्थ आदि कोटियों में विभाजित किया। पुनः सरल, प्रतिसरल आदि श्रेणियों में संकलित कर उक्त कोटियों को 1, 2, 3, 4, आदि संख्याओं में रखा। परन्तु इस प्रकार कार्य में कई कारणों से पूर्ण सफलता नहीं मिल पायी। तथापि इस कार्य में एक विशेष सावधानी बनी गयी कि किसी भी भाषा में कोई आचलिक अर्थ, भिन्नार्थ या विशिष्टार्थ जहाँ कहीं भी मिला उसके संख्यांक से पूर्व धन (+) का चिन्ह लगाकर अर्थ के अंत में भाषा का नाम कोष्ठ में दे दिया, कहीं कहीं धन चिन्ह के बिना भी भाषा का नाम अर्थ के पीछे लिखा मिल सकता है। वहाँ पाठक उस अर्थ को उसी भाषा विशेष का समझे। अर्थों के विशेष क्षेत्रों का संकेत भी (यथा ज्योतिष, न्याय आदि) कोष्ठों में दिये हैं। कहीं कहीं अंग्रेजी अर्थ भी कोष्ठों में दिये गये हैं।

कोश गत शब्दों में इ अथवा ल के स्थान 'ल' का प्रयोग क्यों?

इ' का प्रयोग उचित स्थानों पर न करने का एक कारण तो यह था कि आवश्यकता पड़ने पर 'इ' की बिन्दी के साथ छोटे या बड़े 'उ ऊ' की मात्रा प्रथम तो ठीक से लग ही नहीं सकती थी, और यदि लग भी जाती तो इ के नीचे की बिन्दी स्पष्ट दिखाई न देती। यदि यह 'इ' होता तो यह झझर न थी।

मराठी भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। उगम इ की ध्वनि के लिये 'ल' अक्षर पर्यायित है। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा प्रचारित परिचालित हिन्दी वर्णमाला में यह ग्रहण कर लिया गया है। अतः 'ल' अक्षर शब्दों में दिया जा सकता था। परन्तु मराठी भाषियों के अतिरिक्त अन्य भाषा भाषी उसकी ध्वनि से परिचित नहीं हैं। वास्तव में यह ल का मूधन्व उच्चारण है। अतः यह उचित समझा कि पहले भूमिका में यह स्पष्ट कर दिया जाय। जब पाठक परिचित हो जायेंगे तो इस कोश के द्वितीय खंड में हजारों शब्दों में ल का प्रयोग उचित होगा। अब उदाहरण देखिये:—

कतिपय भाषाओं में ल-ल के प्रयोगों की झँकी

- गुजराती—** गुजराती में अकलक, अकाल में ल अक्षर ही है परन्तु अकाल अकाल अकला अकला अचल अचल अनर्गल अनर्गल, अफल अफल अमल अमल अविफल अविफल आदि ल तथा 'मूधन्व ल' दोनों प्रकार से लिखे जाते हैं। गुजराती में विकल्प रूप में लाने प्रकार के उच्चारणों को मान्यता प्राप्त है।
- मराठी—** मराठी में अकलक, अकाल में 'ल' अक्षर का प्रयोग है परन्तु अकलक, अनर्गल, अकालक आदि शब्दों में 'ल' का प्रयोग होता है। इस प्रकार यह निर्णीत होता है कि 'ल' और ल मान्य नहीं है।
- कन्नड—** कन्नड में अकलक अकलक आवकल अविफल अकलक अकलक अतिवल अतिवल अवाल अवाल आदि के दो दो रूप हैं। कन्नड के कोशकार पहले रूप को उत्तम तथा दूसरे को तदभ्य मानते हैं। अनर्गल का रूप काश में 'ल' में है, परन्तु अर्गल में ल प्रयोग मिला। अकलक, अकलक अवनक में 'ल' प्रयोग मिला।
- तेलुगु—** तेलुगु में अकलकम्, अविगल आदि में 'ल' का प्रयोग है। शेष रूपर अन्य भाषाओं में ल अचल अवल, अफल, अविफल आदि शब्द आय है, उनमें 'ल' का ही प्रयोग है।
- मलयालम—** मलयालम में अकलक, अकलक, अकलककन्, अकलकित, अनर्गल, अविगल आदि में 'ल' का प्रयोग है, परन्तु अकाल, अचल, अचल, अकल, अविफल, अविचल में 'ल' है। एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है, अकलकन्, अकलक्य में 'ल' मयुक्त टाजन रूप में भी है।
- तमिल—** तमिल में अकलकम्, अकलककन् अकलकम्, अकलकित, (अकलक वाली स्त्री) अकलकित अनकलकित, अकलक वल्लि, अकलकधिपन्, अकलकापुरी, अजागलमन्तन्, अशीलम् आदि शब्दों में 'ल' है, जिनके स्थान पर इस पुस्तक में 'ल' का प्रयोग किया गया है।
उक्त भाषाओं में अचल, अचल, अकाल, अनर्गल, अवला, अतिवला, अमगलम् आदि शब्दों में 'ल' के स्थान पर 'ल' का प्रयोग है, जो तमिल में नहीं है। अतः परिणाम निकलता है कि 'ल' प्रयोग का कोई ठोस अथवा नियमित आधार नहीं है। बालियों में जो प्रवृत्ति चल पड़ी कोशकारों ने लिख दिया। कोशकार पर आचार्यिक प्रभाव तथा व्यक्तिगत पसंद का भी प्रभाव हो सकता है। नमूने

के लिये 'अज' शब्द क्रम के नीचे अयनाळु शब्द में उक्त अक्षर दिया गया है। यह मिश्रण शब्द है। यहाँ 'अय' का अर्थ ब्रह्मा है और 'नाळ' का अर्थ तमिल में 'दिन' होता है।

ढ के स्थान ढ का प्रयोग

'ढ' की ध्वनि का सम्बन्ध उस वैदिक ध्वनि से है, जिस भाषा शास्त्रियाँ नन्हे द्वारा या 'ट्ट' के अस्वभाव रूप द्वारा इंगित किया है। इस ध्वनि के लिये पञ्जाबी गुजराती मराठी में अलग अक्षर नहीं है। गुजराती तथा मराठी में शब्द के मध्य में जहाँ 'ढ' की ध्वनि की आवश्यकता है, स्वभावतः शिक्षित लोग बोलते हैं। सिन्धी प्रदेश पाकिस्तान में रह गया है। वहाँ वह भाषा अरबी लिपि में लिखी जाती थी, यहाँ वहाँ लोग देवनागरी में लिखने लगे हैं। अतः ढ ही प्रयोग करने हैं। काकणी फल कन्नड तथा मराठी दोनों लिपियाँ में लिखी जाती थी। अतः उपयोग में लायी लिपि के अनुकूल लिखते थे। अगामी बंगला 'डिया' में 'ढ' के लिये अक्षर है। तेलुगु में यह अक्षर नहीं है। शेष तमिल मलयालम कन्नड में इस ध्वनि के लिये अक्षर है। तमिल में इसका प्रयोग कृष्ण अधिष्ठान अन्य दोनों भाषाओं में कृष्ण कम है। उक्त भाषा का नाम ही वास्तव में मिलता है। यह उच्चारण 'डिया' वर्तमान पर टीक बोलता जाता है। ढ के उच्चारण में से है ही मात्रा कृष्ण हलसी कर दी जाय तो ढ का ठीक उच्चारण ही जाता है।

संस्कृत में यह अक्षर काम में नहीं आता। उत्तर भारत में जनभाषाओं में प्रायः प्रगाढ़ बोलते हैं संस्कृत में ये प्रौढ़ प्रगाढ़ लिखे जायेंगे।

प्रायः मूल वैदिक ध्वनि का शब्द प्रयोग दीक्षान में ही होता है। कोश में इस खण्ड में मुख्यतः संस्कृत शब्द हैं अतः केवल मिश्रण शब्दों में यह ध्वनि आयी है। अरनाहन के लिये अवगलित शब्द में इसका नमूना मिलगा। यहाँ शब्दान्त में ढ लिखा मिलेगा। मल्ल तमिल में यहाँ जो कहते हैं। अतः स्पष्टतया सवन्धी अवगुण का संकेत करना है।

र-रु ध्वनि का विवेचन

एक अन्य अक्षर दीक्षान की चारों अर्थात् तमिल मलयाळुम कन्नड तेलुगु भाषाओं में मिलता है। तमिल में उसका उच्चारण 'र' है और उसके द्वित्व का उच्चारण 'रु' होता है। परिवर्धित देवनागरी में इसके लिये 'र' अक्षर नियत किया गया है। परन्तु इस कोश में यह अर्थ 'र' के रूप में संयुक्त अक्षरों में आया है। अतः विवक्षता के कारण इसका आगे के अक्षर के ऊपर लगाना पड़ा। देवनागरी के दो अर्थ अक्षरों अर्थात् 'रु' तथा 'लु' के बदल में यह आया है। यह अक्षर तमिल या अन्य द्रविड भाषाओं में न कभी किसी शब्द के आदि में आता है और न शब्द के बीच में स्वर युक्त आता है। हाँ द्रविड शब्दों में द्वित्व रूप में अवश्य आता है।

रु के बदले 'रु' प्रयोग— असत्कार्यम् असर्कार्यम्, असत् शान्त्वम् असशास्त्रियम् असत्पात्रम् असर्पात्रियम् असत्शूद्रम् असर्शूत्रियम्, असत् कार्यवादम् असर्कार्यवादम् अध्ययनात्मव अतियनोसवम् अत्यदभूत अत्यवृद्धम् देवनागरी में सभवे परिपाटी के अनुसार 'रु' के लिये लिखा गया है। पाठक यत्न कर इन्हें असर्कार्यम् असर् शास्त्रियम्, असर् पात्रियम् असर् शूत्रियम् असर् कार्यवादम् अतियनोरुसवम् अत्यरुवृद्धम् पढ़ें।

ल के बदले 'रु' प्रयोग— अकल्पन् अकर्षन् अकल्पविभूत अकर्ष विवृति अकल्प प्राणायाम अकर्षिप्राणायामम्, अत्यल्प अत्यर्षम्। हलन्त 'रु' उच्चारण की अधिक समीपता के लिये उक्त शब्दों में संयुक्त अक्षरों को अकल्प तथा अत्यर्ष को अत्यरुप पढ़ने का यत्न कीजिये।

तमिल-शब्दों के विलक्षण उच्चारणों का समाधान

इस कोश खण्ड में 'अ' अक्षर से आरम्भ होने वाले उपरसंग युक्त शब्दों के तमिल में प्रचलित लगभग 1400 केवल संज्ञा रूप हैं। ये प्रायः वे ही शब्द हैं जो भारत की अन्य अनेक भाषाओं में भी प्राप्त हैं। शब्दों का मूल एक ही है, वे गणनीय हैं। साथ साथ लिखे हैं। उत्तर व दक्षिण की तेलुगु कन्नड़-मलयालम भाषाओं के शब्दों में थोड़ा ही अन्तर है। परन्तु तमिल भाषा में लिखे शब्दों में अन्य राज्यातीय शब्दों से इतना अधिक अन्तर है कि वे विलक्षण प्रतीत होने हैं। और उनके उच्चारण में इतनी भिन्नता है कि वे कठिनाई परन्तुन करते हैं।

यह देखकर पाठक के मन में प्रश्न उठता है कि तमिल पुरातन तथा समृद्ध भाषा है। उसमें ये संस्कृत शब्द प्रचलित भी हैं, फिर यह कठिनाता, भिन्नता और विलक्षणता क्यों है? इस सर्वभाषी कोश का एक मात्र उद्देश्य भाषायी विविधता में समार्णिक एकता उपस्थित करना है। अतः उनके ज्ञाया का संतोष उनके समाधान परन्तुन किया जा रहा है। उन कारणों को स्पष्ट किया जा रहा है जो वास्तविक एकता को विविधता की प्रतीति करके पाठक को भ्रमित करने हैं।

तमिल-उच्चारणों की इस विलक्षणता और विविधता के कई कारण हैं। उनमें प्रधान कारण तमिल लिपि की विशेषता है। दूसरा कारण है उसमें उच्चारण परंपरा के मानन का आगट। तीसरा कारण है अन्य भाषाओं में प्रचलित ध्वनियों का अग्रिज्ञान या अन अभ्यास। इन सबके अतिरिक्त एक कारण यह भी है कि इस कोश में अनेक शब्द ऐसे भी हैं जिनके पुरार्थ संस्कृत शब्द का उच्चारण मूल जसा था और उत्तरार्थ शब्द का उच्चारण तमिल भाषा के ध्वनि-नियमों के अनुकूल है।

अतः उन कारणों का स्पष्टीकरण आगे किया जाना अत्यावश्यक है। ता निम्नलिखित है-

तमिल-लिपि की विशेषता

लिखना सीखने की दृष्टि में तमिल लिपि भारत की लिपियों में सरलतम है। हम लोग इस पत्र में वहाँ तक केवल २० मिनट में तमिल लिपि हिन्दी अक्षर संकेतों सहित आसानी से सीखाने रहे हैं। परन्तु देवनागरी की सभी ध्वनियों तमिल लिपि में उक्त करने का अवकाश नहीं है। यहाँ पूर्ण स्पष्टीकरण की दृष्टि में इसे निम्न भागों में बाँटा जा रहा है।

1. **तमिल-स्वर-वर्णः**— मर्या में देवनागरी की तरह तमिल-लिपि में भी 12 स्वराक्षर हैं। परन्तु दोनो में दो दो वर्णों में अन्तर है। तमिल में 'अ-अ' वर्ण नहीं है। 'अ' की ध्वनि के लिये ऊपर एक आर उसके नीचे दो गोले गोल रूप वाला एक संकेत है। तमिल भाषा के कुछ शब्दों में इसका उपयोग भी होता है, परन्तु देवनागरी की भाँति व्यंजनों के बाद उसके संकेत द्वारा 'ह' की हलकी सी ध्वनि देने का नियम नहीं है। 'अ' में 'अ' के सिर पर लगी बिन्दी देवनागरी में नासिका मिश्रित स्वर का संकेत करती है, जिसे अनुस्वार कहते हैं। और व्यंजनों के सिर पर लगकर वह अक्षर के वर्ग के प्राये अर्थात् अनुनासिक वर्ण का संकेत करती है। तथा य, र, ल, व, श, घ, म, ह के सिरों पर भी लग कर यं, रं, लं, वं, शं, घं, मं, हं अनुनासिक ध्वनि देती है।

तमिल में भी व्यंजनों के सिर पर बिन्दी लगाने की प्रथा है। परन्तु वहाँ वह व्यंजन की स्वर हीनता का संकेत करती है। जैसा कि देवनागरी में व्यंजन के नीचे उलट हल का चिन्ह लगाकर अक्षर हलन्त करके किया जाता है।

दूसरी ओर तमिल में 'ए' और 'ओ' की थोड़ी हलकी ध्वनि वाले दो संकेत देवनागरी से अधिक हैं। व यिह

आधुनिक परिवर्धित देवनागरी लिपि में 'ण' तथा 'ओं' रूप में लिखे गये हैं। और इनकी मात्राएँ भी व्यंजन के ऊपर अर्धचन्द्र अथवा आ की मात्रा पर अर्धचन्द्र लगाकर 'ं' द्वारा प्रकट की जाने लगी हैं।

2. **तमिल व्यंजन-वर्णः**— य, र, ल, व हैं। शेष 'क, ग, ग' तक के 25 वर्णों में से 'क, ड, च, ज, ट, ण, त, न, प' में से दस वर्ण हैं। शेष 'ख, ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ड, ढ, थ, द, ध, फ, व, भ' ये 15 वर्ण नहीं हैं। आवश्यकता पड़ने पर इन 15 वर्णों का काम इनके वर्ग के पहले वर्ण अर्थात् 'क, च, ट, त, प' लिखकर ही चलाया जाता है।

3. **तमिल के चार विशेष वर्णः**—तमिल में चार अक्षर और हैं। उनमें एक 'न' है जो शब्दों में देवनागरी के 'न' ध्वनि के जैसा ही काम देता है। ऊपर व्यंजनों में 'त, न' में जो 'न' दिया है वह प्रायः 'न' से पहले स्वरग्रहित होकर केवल 'न्त' लिखने के काम में लाया जाता है, परन्तु वह 'न्त' पढ़ा जाता है।

शेष तीन अक्षरों में एक की ध्वनि 'ड' जैसी है, उसके लिए परिवर्धित देवनागरी में 'ळ', दूसरे की ध्वनि 'ट्ट' से अधिक भिन्न नहीं, उसके लिये 'ळ' तथा तीसरी ध्वनि 'र' जैसी है उसके लिये 'र' वर्ण नियत किया गया है। इस ध्वनि का द्वित्व तमिल भाषा के शब्दों में 'ट्ट' जैसी ध्वनि देता है।

विशेष ज्ञानव्यः— इन 4 वर्णों के विषय में दो बातें विशेष ज्ञातव्य हैं। पहली यह कि ये किसी भी तमिल शब्द के आरम्भ में नहीं आते। दूसरी यह कि ये ध्वनियाँ इतनी पुरानी हैं कि दक्षिण की अन्य तीन भाषाओं में भी पायी जाती हैं। इतना अवश्य है कि इनके उपयोग के शब्द मलयाळम् कन्नड़ में अधिक पाये जाते हैं। किन्तु तेलुगु में अपेक्षाकृत कुछ कम हैं।

ग्रन्थी-लिपि से लिये 7 अक्षरः— आधुनिक तमिल वर्णमाला में श्री, ज, श, प्र, स, क्ष, ह, अक्षर और सिखाये जाते हैं। इन अक्षरों को सहाक्षर कहते हैं। लगभग 1500-1600 वर्ष पहले काचीपुरम् के पल्लव राजाओं ने मस्कृत ग्रंथ लिखवाने के लिये तमिल में इस लिपि का प्रचलन किया था। इसमें देवनागरी वर्णमाला के समान वर्ण, द्वित्व तथा सयुक्तवर्ण सब थे। उस समय साग दक्षिण भारत एक ब्रिटिश देश था। पल्लव-ग्रन्थी लिपि तत्कालीन तमिल लिपि में सशोधन परिवर्धन करके चलाई गयी होगी। बाद में देवनागरी में अनुरूप पहले मलयाळम् फिर कन्नड़ तथा तेलुगु ने अपनी अलग अलग दृग की लिपियाँ बना लीं। तमिल देश में ग्रन्थी-लिपि फिरकी शताब्दी तक चलती भी रही। परन्तु तमिल भाइयों ने तमिल भाषा के लिये अपनी परंपरागत लिपि में केवल ऊपर लिखे अक्षर ही ग्रहीत किये। इतने पर भी जनता में आज परंपरागत अर्ध-विन्यास चलता है। ज, श, प्र, स, क्ष, ह प्रायः प्रयोग में नहीं लाये जाते, इनके लिए मूल तमिल अक्षरों का ही प्रयोग होता है। अतः उच्चारण विचित्र व विलक्षण बन जाता है।

परंपरा तथा परिज्ञान का उच्चारणों पर प्रभाव

अपनी परंपरा का आग्रह और पालन स्वाभाविक भी है और न्याय सगन भी है। अतः यदि तमिल भाषी भाई अन्य भाषा से शब्द-ग्रहण करते समय अपनी भाषा की लेखन तथा उच्चारण परंपरा का अनुसरण करते हैं तो सराहनीय ही कहा जायेगा। परन्तु ऐसा करने से अन्य भाषा के शब्द का रूपान्तर हो जाता है। तमिल में हुए इस रूपान्तर की कठिनाई अन्य भाषा-भाषियों को अनुभव होती है; केवल इतनी ही बात नहीं है। स्वयं तमिल-भाइयों को भी कठिनाइयाँ आती हैं। यदि उन की कठिनाइयों का ज्ञान हमारे पाठकों को हो जाये तो तमिल भाइयों की स्थिति की वास्तविकता का आभास हम को भी हो जायगा। यथा:-

'गान्धी' शब्द ने सारे भारत की तरह तमिल भाइयों के हृदय में भी अति सम्माननीय स्थान पाया। परन्तु तमिल भाषा के परंपरागत नियमों के अनुसार वह शब्द 'कान्ति' लपा। जन साधारण ने उसे कान्ति पढ़ा, क्योंकि व्याकरण नियम के अनुकूल न्त को सदा न्द पढ़ा जाता है। आगे का साग काम परिज्ञान के आधार पर छूटा। वहाँ मॉरर द्वार को 'कापूरम्' लिखकर 'गापूरम्' बोलते हैं, अतः गुनकर जन साधारण 'गान्ति' भी बोलने लगे। उससे आगे बढ़ने में परिज्ञान के सन्तरे में ही कुछ कठिनाई दूर हो पाई। क्योंकि अपनी भाषा में 'ध' ध्वनि न होने में उनकी बार बार गुनकर ही गान्धि अभ्यास हो पाया। दूसरी कठिनाई यह थी कि तमिल में ऐसे शब्द नहीं होते जिनके अन्त में वही ई हो। यह भी स्वभावतः अति कठिनाई थी। अतः अन्य भाषा का परिज्ञान शब्द उच्चारण के लिये अनिवार्य हो जाना है। गान्धी के जमाने में तो स्वतन्त्रता आन्दोलन में उच्चारण कुछ आसान कर दिया था क्योंकि दिन रात महात्मा गांधी जिन्दावाद के नारे सब सुनते थे। परन्तु शब्द आज भी परंपरागत 'कान्ति' ही लिखा जाता है। अतः जिन पाठकों के लिए नया है वे आज भी परिज्ञान के अभाव में अपने ढंग का ही उच्चारण करते हैं। पूर्णतः गान्धी उच्चारण नहीं कर पाते।

उक्त उदाहरण हृदयरथ हो जाने पर निश्चय ही तमिल भाषा के उच्चारण नियमों का समझने में बाधको सुविधा होगी। अब कृपया नियम अपलोकरन कीजिये।

तमिल लेखन-उच्चारण में भिन्नता

तमिल लिपि में जो कुछ लिखा जाता है तमिल भाषा के उन विखित शब्दों का वेसा का वेसा ही बोलना या पढ़ना नहीं जाता। स्पर्श व्याकरण तथा परंपरा के अनुसार तमिल अक्षरों के उच्चारण बदल जाते हैं तमिल व्याकरण में दिये अनेक नियमों का पालन प्रायः अनिवार्य होता है। फिर परंपरा तथा देश काल के अनुसार भी सभी भाषाओं के उच्चारणों में बदलाव आते हैं। वे बदलाव तमिल में भी आते हैं।

यद्यपि तो केवल तमिल भाषा और लिपि ही सीमा नहीं होती। पर यदि शब्द किसी अन्य भाषा का हो और उसमें वे ध्वनियाँ भी न हो जो तमिल लिपि द्वारा न प्रकट की जा सकें तो कठिनाई और बढ़ जायगी। तमिल ने अपने नियमों और परंपराओं का निभाया है और असम्बन्ध शब्द भी ग्रहण किये हैं। परन्तु स्पर्श उच्चारण बदल गये हैं। अतः पहले नियमों का अवलोकन कीजिये फिर उच्चारण भिन्नता का अध्ययन भी कीजिये।

तमिल लेखन-उच्चारण के नियम

1. **क-च-ट-त-प** का उच्चारण तमिल भाषा के शब्दों के आरंभ में तो वेसा ही रहता है। यदि ये अक्षर शब्द के मध्य या अंत में आते हैं तो इनका उच्चारण क्रमशः ग ज ड द व हो जाता है। और मध्य स्वर या मयुक्त वर्ण के बाद क्क च्च ट्ट त्त प्प हो जाता है।
2. **क-च-ट-त-प** सदा डग ज्ज ण्ड न्द, म्ब वान्ने जाते हैं। इस नियम का इस कोश में पालन किया गया है, अतः मूल शब्दों के उच्चारण उक्त नियमानुसार प्रायः बदलें हुए मिलेंगे।
3. क अक्षर अन्य भाषाओं की ख ग घ तथा ह ध्वनियों को प्रकट करने के लिये शब्दों में प्रयुक्त होता है। यद्यपि ग्रंथी लिपि में 'ह' अक्षर वर्णमाला में ले लिया गया है, परन्तु उसका उपयोग प्रायः नहीं किया जाता। यद्यपि कि 'हिंदी' शब्द बहुत कम लोग लिखते हैं, अधिकतर लोग 'इन्दि' लिखना पसन्द करते हैं।
4. **क्क का प्रयोग** कोश में बहुतायत से मिलेगा। इस के कई कारण हैं। पहला यह कि स्वर के बाद 'क' का द्वित्व

हो जाने का नियम है। दूसरा यह कि मूल शब्द के क्क, ग्ग, ग्ग आदि को 'क्क' ही लिखा जा सकता है। तीसरा यह कि यदि शब्द के मध्य में कोई सयुक्त अक्षर हो तो वाद का 'क' 'क्क' हो जायगा। यथा, अग्न्याति को अक्कियाति ही लिखा जायगा।

5 च का प्रयोग तमिल शब्द के आदि में 'च' तथा मध्य अंत में नियम में तो 'ज' ही होगा। और अन्य भाषाओं की छ ज झ ध्वनियों के लिये 'च' ही लिखा जा सकेगा। परन्तु आरंभ मध्य अंत सब जगह 'च' को 'स' मानने की प्रथा अधिक देखी जाती है। यहां तक कि गजन को गचन लिखकर गजन' कम लोग बोलते हैं और 'गसन' अधिक लोग। ग्रंथी लिपि से 'ज श स' अक्षर तमिल वर्णमाला में यही है, परन्तु प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं। इस कोश में मूल शब्द के अनुसार ही श, स प्राय लिखे गये हैं। शब्द के मध्य के स्वर के बाद 'च' को भी 'च्च' हो जाता है।

6 ट का प्रयोग प्रायः अन्य भाषा के ठ ड ढ के लिये होता है। साथ ही 'ट' के लिये भी 'ट' के प्रयोग की परंपरा गली आ रही है। 'ट्ट' के लिये तो विशेषतया 'ट्टट' का प्रयोग होता है। फिर भी अतिवृष्टि अतिवृष्टि दोनों लिखे मिलते हैं। शब्द मध्य में 'ट' को प्रायः कोश में उच्चारण प्रथानुसार 'ड' लिखा मिलता है।

7 त का प्रयोग य र ध के लिये लिखने में होता है। अंत मध्य अंत में 'ट' द्वारा उक्त तीनों अक्षरों का दर्शाया है। शब्द के मध्य के स्वर या सयुक्त वर्ण के बाद 'त' या 'ट्ट, ढ' आदि का 'त्त' उच्चारण होगा।

8 प का प्रयोग फ व भ के लिये लिखने में हान के कारण उच्चारण में 'प' द्वारा 'फ व भ' तीनों का संकेत किया है। स्वर के बाद 'प' भी 'प्प' हो जाता है।

संयुक्ताक्षर ज्ञ और क्ष का तमिल-प्रयोग

1 ज्ञ का प्रयोग: संस्कृत व्याकरण में यह अक्षर 'जु+ञ' के संयोग से बना है। परन्तु देश के पूर्व में इसके उच्चारण ग्य, ग्य पश्चिम में ग्न, दून तथा दक्षिण में ज्ञ उञ अधिक प्रचलित हैं। तमिल में ज्ञान ज्ञान और अज्ञान अज्ञान लिखे जाते हैं। अज्ञान में द्वित्व उञ तमिल व्याकरण के नियम के अनुसार है। क्योंकि 'अ' स्वर के पश्चान् वाजन का द्वित्व होता है। अतः द्वित्व हुआ है। 'ज्ञ' का 'ज' उच्चारण अशोक से समय में ही दक्षिण में प्रचलित हो गया था। क्योंकि गिरनार के अशोक स्तम्भ पर संस्कृत आज्ञापयामि के लिये 'आज्ञापयामि' लिखा मिलता है।

2 क्ष का प्रयोग: यद्यपि 'क्ष' ध्वनि को पूर्णतया शुद्ध अर्थात् 'क+ष' को जुड़कर प्रकट करने वाला एक अक्षर ग्रंथी लिपि से तमिल वर्णमाला में ले लिया गया है, परन्तु तमिल में लिखित शब्दों में कभी ही कोई व्यक्ति इसका प्रयोग करता है। वे शब्द जिनमें 'क्ष' ध्वनि प्रयुक्त होती है, वे परंपरागत रूप से जैसे लिखे सुने जाते चले आ रहे हैं, वैसे ही प्रचलित हैं। परिणाम यह है कि किसी शब्द में 'क्क' किसी में 'च्च' किसी में 'ट्ट' अथवा 'ट्ट' आदि लिखे व बोले जाते हैं। यथा सर्गांत के स्वर के लिये तो 'अक्षर' लिखा जाता है। अन्यथा अक्षर अक्करम्, अच्चरम्, अक्षरन् अक्करन्, अक्षणम् अच्चणम्, अक्षरशुद्धि अट्टरचुत्ति अट्टर शुत्ति, अक्षमता अक्कमम्, अक्षय-अच्चयन्, बहुवचन अक्षता अक्कतै, अक्षर काल अट्टर कालम् अट्टर कालम्, अक्षरदीप अक्कर तीपम् (दीबम्) आदि लिखे बोले जाते हैं।

- विशेष ज्ञातव्यः**
1. सारी पश्चिमी तथा दक्षिणी भाषाओं की तरह तमिल में भी 'ऋ' का उच्चारण 'रु' होता है। उत्तरी तथा पूर्वी भाषाओं की तरह 'रि' उच्चारण नहीं होता।
 2. कोश में अनेक ऐसे शब्द मिलेंगे जिनका पूर्वभाग संस्कृत तथा उत्तरभाग तमिल शब्द है। यह इंगित करता है कि वह उपसर्ग तमिल ने पूरी तरह अपना लिया है। ऐसे उपसर्ग युक्त शब्द मलयाळम आदि अन्य भाषाओं में भी प्रचलित हैं।

तमिल अक्षर-विन्यास का व्यावहारिक-आभास

जो अक्षर तमिल लिपि में है, यदि उन्हीं अक्षरों से बना कोई उपसर्ग युक्त शब्द हो तो उसके बोलने में पाठक को कोई कठिनाई नहीं होगी। पहली कठिनाई केवल तब होगी जब लिखा कुछ जाय और बोला कुछ जाय। व्याकरण तथा परंपरा सम्बन्धी जो कुछ इससे पहले कहा गया है, ठीक है, परन्तु व्यवहार की कठिनाई उदाहरण तथा प्रयोग देखकर दूर होगी। अतः वे दिये जा रहे हैं।

ज्ञातव्य तमिल शब्दों के अंत में 'न्' पुलिग का सकेत करता है। तथा 'म्' पदार्थ वाची, भाव वाची आदि शब्दों के लिये प्रयुक्त होता है। दक्षिण की भाषाओं में इसे 'अमहत्' लिंगी शब्द कहते हैं। अतः उक्त प्रत्यय लगाये गये हैं। जिससे पाठकों को अधिक अभ्यास ज्ञान हा जाये।

अक्षर परिवर्तन	मूल शब्द	लिखित तमिल	उच्चारित तमिल
क्र विक्र	अक्रम	अक्किरगम्	अक्किरमम्
क्व क्वत्	अपक्व	अपक्क्वम्	अपक्क्वम्
क्य-विक्य	अपरुपवाक्य	अपरुष वाक्कियम्	अपरुष वाक्कियम्
कृ किरु, त्य त्तिय	अकृत्य	अकिरुत्तियम्	अकिरुत्तियम्
ख क, ड ट	अखण्डित	अकण्डितम्	अकण्डितम् अगण्डितम्
खि वि	अखिल	अकिलम्	अकिलम् अगिलम्
खि कि, प व	अखिलरूप	अकिलरूपम्	अकिलरूपम्
क ग	अगति	अकानि	अगति
क ग, न ट (ध)	अगाध	अकान्तम्	अगादम्
क ग	अगौरव	अकौरवम्	अगौरवम्
ग्र विक्र, कम हम्	अपरिग्रह	अपरिक्किरकम्	अपरिक्किरहम्
क ग (घ)	अघाति	अकारातिकम्	अघातिकम्
प व, इक इग	अभगुर	अरडकुरम्	अवडगुरम्
च श	अकुशल	अकुशलम्	अकुशलम्
च्यु-च्यु	अच्युत	अच्युतम्	अच्युतम्/दम्
च्य च्यु, ता तै	अच्युता	अच्युतै	अच्युतै/दै
च ज	अज	अचन्	अजन्
च ज	अजय	अचयम्	अजयम्
जाग्र-चाक्किर, त-तै	अजाग्रत	अचाक्किरतै	अजाक्किरतै
च-ज, श-च, त्रु नुरु	अजातशत्रु	अचातशत्रु	अजातशत्रु
प-ब; ज्य-च्चिय	अभोज्य	अपोच्चियम्	अवाञ्छियम्
चंच-च्चञ्ज	अचंचल	अचञ्चलम्	अचञ्चलम्
किंच-किञ्ज	अकिंचन	अकिंचनम्	अकिञ्चनम्

ज्ञ ङ्ग	अज्ञान	अञ्जानम्	अञ्जानम्
ज्ञ-ञ्ग	अज्ञानि	अञ्जानि	अञ्जानि
ज्ञा-ञ्जा, च स	अज्ञातवाम	अञ्जातवाचम्	अञ्जातवासम्
क ग (घ), ट ड	अघट	अकटनम्	अगडनम्
क ग (घ), टि डि, त-द	अघटित	अकटितम्	अगडितम्
क ख	अखण्डाकार	अकण्डाकारम्	अगण्डागारम्
क ख, ड ट	अखिलाण्ड	अकिलाण्डम्	अगिलाण्डम्
क ग, ण्य णिण्य	अगण्य	अकण्णियम्	अगण्णियम्
मृत्यु मिरुत्तु	अकालमृत्यु	अकालामिरुत्तु	अकालमिरुत्तु
त्र त्तिर	अत्राम	अत्तिरगचम्	अत्तिरासम्
त्र त्तिर	अपुत्रक	अपुत्तिरकन	अपुत्तिरकन
त्व तुव	अपरत्व	अपरत्तुवम्	अपरत्तुवम्
ति थि (।दे)	अतिथि	अतिनि	अतिनि/दि
ति थि (नि),जा चै जै	अतिथिपूजा	अतिनिपूच	अतिनिपूजे
त द, प्रे पिपर त द	अनाथप्रेत	अनातिपिरेतम्	अनादिपिरेदम्
त द, त्तिरु	अदात्	अनातिरु	अदातिरु
को गो, द्रा त्तिरे	अगोचरमुद्रा	अकोचरमुत्तिरे	अगोचरमुत्तिरे
दृश्य तिरुचिय	अदृश्य	अतिरुचियम्	अदिरुशियम्
अप्र अप्पिर, पत्त वद्ध	अप्रतिवद्ध	अप्पिरगतिपत्तम्	अप्पिरगतिवद्धम्/दृम्
द्वे तु	अद्वैति	अत्तुवेति	अत्तुवेति
चुर सुर, घ न्तिय	असुर वाद्य	अचुरयात्तियम्	असुरयात्तियम्
खाद्य कात्ति	अखाद्य	अकात्तियम्	अकात्तियम्
वुध पुत्त वुद	अवुध	अपुतन्	अवुदन
धैर्य तैरिय	अधैर्य	अतगियन्	अदैरियन्
न्द्रिय न्तिरिय	अतीन्द्रिय	अतीन्तिरियम्	अतीन्तिरियम्
बाधि पाति	अवाधित	अपातितम्	अबादितम्
अप्र अप्पिर	अप्राप्तकाल	अप्पिरात्तकालम्	अप्पिरात्तकालम्
अप्रा-अप्पिरा, प्य-प्पिय	अप्राप्य	अपिराप्पियम्	अप्पिराप्पियम्
अप्र-अप्पिर, मापिक मापिक्क	अप्रामाणिक	अप्पिरमापिक्कम्	अप्पिरमापिक्कम्
अन्न अप्पिर, मण्य मण्णिय	अन्नाहमण्य	अप्पिरामण्णियम्	अप्पिरामण्णियम्
अन्न अप्पिर	अन्नात्मणन	अप्पिरामणन्	अप्पिरामणन्
प-व-भ	अभाव	अपावम्	अबावम्
भाग्य पाक्किय	अभाग्य	अपाक्कियम्	अपाक्कियम्
भिन्न-पिन्न	अभिन्न	अपिन्नम्	अविन्नम्
अम्र-अप्पिर	अभ्रम	अप्पिरमै	अप्पिरमै

क्ष-ट्स; भ्य-प्पिय	अक्षराभ्यास	अट्सराप्पियाचम्	अट्सराप्पियासम्
क-ग; म्या-म्मियै	अगम्या	अकम्मियै	अगम्मियै
मास मामिम	अतिमास	अतिमामिचम्	अतिमामिसम्
र्ग व्क्क	अमार्ग	अमाक्कम्	अमाक्कम्
दार्थ-तार्त्	अपदार्थ	अपतार्त्तम्	अपदार्त्तम्
धर्म-तरुम्	अधर्म	अतरुमम्/अतरुमन्	अदरुमम्/अदरुमन्
र्य-रिय	अकार्य	अकारियम्	अकारियम्
व्य-व्विय	अकर्तव्य	अकर्तव्वियम्	अकर्तव्वियम्
त्याश्च-तियाच्चिर	अत्याश्चम	अतियाच्चिरमम्	अतियाच्चिरमम्
र्गि-क्किर्क; च-श	अतिमार्गशास्त्रम्	अतिमाक्किर्क्यात्तिरम्	अतिमाक्किर्कशात्तिरम्
श्ल-चिले	अतिश्लेष	अतिचिलेषम्	अतिशिलेषम्
दृष्ट-तिरुट्ट	अदृष्ट	अदिरुट्टम्	अदिरुट्टम्
ग्र-क्कार; ह्य-हियम्	अग्राह्य	अक्किराकियम्	अक्किराहियम्

तमिल अक्षर-विन्यास में 'प' के स्थान पर 'ब' प्रयोग

तमिल	भूस शब्द रूप	भाषाएं
अवकिरुत्तियम्	अपकृत्य	हिंदी-गुजराती मरा-नेपा-बंग कन्न मलया तेलु
अवबिरम्मम्	अपभ्रंश	हिंदी-गुज-मरा-अस उड़ि-बंग-नेपा-कन्न-पंजा मलया-तेलु
अवमरणम्	अपमरण	हिंदी-गुज-मरा-अस-उड़ि-बंग-नेपा-कन्न-मल-तेलु
अवमान	अपमान	हिंदी-गुज-मरा-अस-उड़ि-बंग-नेपा-पंजा-कोक-सिंधी-मल तेलु
अवनुदि	अपहनुति	हिंदी-गुज-मरा-नेपा-बंग-संस-मलया

'ज' के स्थान पर 'य' का प्रयोग

लगभग सभी भाषाओं में प्रायः 'य' के स्थान पर 'ज' का प्रयोग मिलता है। अकेली तमिल ही ऐसी भाषा है जिसमें 'ज' के स्थान पर 'य' का प्रयोग हुआ मिलता है।

अजन् को अयन्, अजडन्-अयन् तथा एक और शब्द है अयनाळ् जो इस कोश में अयनाल् दिया है। वास्तव में 'नाळ' शब्द तमिल में 'दिन' वाची है। और अय यहा अज अर्थात् ब्रह्मावाची है। अतः उस का अर्थ है ब्रह्मा का दिन इसी प्रकार अयन् मनैवि, अजन् मनैवि- ब्रह्मा की स्त्री, सरस्वती आदि शब्द मिलते हैं।

आदर वाची या बहुवचन प्रयोग

तमिल शब्द के अन्त में 'न्' पुल्लिंग एकवचन वाची है। आदर वाची बहुवचन के समान होता है। अमर शब्द देवता वाची है जिसका एक वचन अमरन् छेता है; परन्तु तमिल में वह 'अमरर्' आदरार्थ तथा बहुवचन का संकेत देता है। इसी प्रकार असत् शूद्र का असद् सुत्तिरर् (अनेक शूद्रों) का वाची है 'आर्' प्रत्यय कुछ और अधिक आदर और बहुवचन का संकेत देता है। अमिर्तगणत्तार ऐसा ही शब्द है; परन्तु असुरर् शब्द बहुते से असुरों या राक्षसों का संकेत करता है। मलयाळम् में भी 'अप्रमाण शुभन्मार' शब्द बौद्ध देवता का आदर तथा बहुवचन वाची संकेत देता है।

तमिल शब्द-ज्ञान को चार गुना बढ़ाने के उपाय

कोश में संकलित शब्दों में तमिल शब्दों की संख्या अन्य भाषाओं की अपेक्षा कम है। उसका प्रधान कारण यह है कि अन्य भाषाओं के विशेषण, भूत कृदन्त अर्थात् कृदन्त विशेषण तथा क्रिया-विशेषण आदि अनेक प्रकार के शब्द हैं, परन्तु तमिल के केवल संज्ञा, कुछ क्रिया विशेषण तथा क्रियाओं के सामान्य रूप ही कोश में हैं। विशेषतया कृदन्त तथा विशेषण शब्द नहीं हैं।

भूत कृदन्त शब्द तो अन्य भाषाओं के भी प्रायः अपने नहीं हैं, अधिकांश वे ही हैं जो मूलतः संस्कृत के हैं और अपने उसी रूप में अन्य भाषाओं में चलते हैं। क्योंकि क्रियाओं के धातु रूप में 'कृत-प्रत्यय' लगाकर कृदन्त विशेषण बनाये जाते हैं। और क्रियाओं के रूप तथा उनके प्रत्यय प्रायः उनके इतने अधिक अपने होते हैं, जो दूसरी भाषा वाले प्रायः नहीं समझ सकते। तमिल में संस्कृत के भूत कृदन्त संस्कृत विद्वानों में भी प्रचलित होंगे, परन्तु कोशों में प्रायः नहीं आये।

तो भी कुछ उपाय ऐसे हैं कि संज्ञा शब्दों से तमिल विशेषण तथा क्रिया विशेषण बनाये जा सकते हैं। जिनके द्वारा पाठक तमिल भाषा के शब्द-ज्ञान को इन्हीं शब्दों द्वारा कम से कम चार गुना बढ़ा सकते हैं। उदाहरणार्थ निम्न उपाय दिये जा रहे हैं।

पहला उपाय:- अन्यायकारी, उपकारक आदि शब्दों में कारी, कारक प्रत्यय लगे हैं। तमिल में भी इस अर्थ का द्योतक 'कारन्' प्रत्यय है। जिसे यदि केवल 'भाववाचक' संज्ञा शब्द में जोड़ा जाय तो उससे उक्त प्रकार के विशेषण शब्द बन सकेंगे। ऐसा शब्द अन्यायकारन् कोश में भी है।

इस प्रकार का एक और प्रत्यय भी है जो लिखा 'किर्' जाता है और बोला 'हिर्' जाता है। तमिल के संधि नियमों के अनुसार उसका 'क्किर्' रूप हो जाता है, जैसा द्वित्व ऊपर 'कारन्' अन्यायकारन् में हुआ है।

यह प्रत्यय क्रिया मूल में लगता है, और कर्ता शब्द की विशेषता बताता है। तमिल में आदरिक्किर्- समर्थक तथा आरादिक्किर्-आराधक अर्थ प्रकट करते हैं। ये शब्द आदरि तथा आराधि धातुओं से बने हैं।

दूसरा उपाय:- श्रीमान्, बुद्धिमान्, बलवान्, विद्वान् आदि सारी भारतीय भाषाओं में प्रचलित शब्द हैं। इन शब्दों की अन्तिम 'आन्' ध्वनि में समानता है। 'आन्' के 'आ' से पहले अक्षर भिन्न भिन्न हैं। तमिल में भी 'आन्' विशेषण निर्माण करने वाला प्रत्यय है।

<u>मूल विशेषण</u>	<u>तमिल संज्ञा रूप</u>	<u>तमिल विशेषणरूप</u>	<u>अर्थ</u>
अधीर	अदैरियम्	अदैरियमान	अधीर
अन्यायी	अन्नियायम्	अन्नियायमान	अन्यायी
अभयंकर	अबयङ्गरम्	आबयङ्गमान	अभयंकर
अशुद्ध	अशुत्तम्	अशुत्तमान	अशुद्ध
असाधारण	असादारणम्	असादारणमान	असाधारण

'आन्' प्रत्यय जोड़ते समय यदि शब्द के अन्त में इ, ऐ आदि स्वर हों तो 'आन्' से पहले 'य' आगम होता है

अनन्तशक्ति	अनन्दशक्ति	अनन्दशक्तियान	अनन्तशक्तियुक्त
अनधिकारी	अनदिगारि	अनदिगारियान	अनधिकारी
अनन्यगति	अनन्नियगति	अनन्नियगतियान	अनन्यगतिमान
अनासक्त	अनासक्ति	अनासक्तियान	अनासक्त

अनीश्वरवादी अनीशुवरवादि अनीशुवरवादियान अनीश्वरवादी
तीसरा उपाय कृपायु, दयालु आदि शब्द भी सभी भारतीय भाषाओं में प्रचलित। कुछ कुछ इन्हीं जैसी ध्वनि का 'उळ्ळ' प्रत्यय भी तमिल सज्ञाओं को विशेषण बनाता है। यथा

<u>विशेषण शब्द</u>	<u>तमिल संज्ञा रूप</u>	<u>विशेषण रूप</u>	<u>अर्थ</u>
अनुत्पत्	अनुतापम्	अनुतापमुळ्ळ	अनुत्पत्
अनुभवी	अनुभवम्	अनुभवमुळ्ळ	अनुभवी
अकृपित	अकोवम्	अकोवमुळ्ळ	अकृपित
अदुःखित	अदुक्कम्	अदुक्कमुळ्ळ	अदुःखित
यदि शब्द के अन्त में इ, ऐ हो तो 'उळ्ळ' भी 'युळ्ळ' हो जाता है			
करुणार्द्र	करुणै	करुणैयुळ्ळ	करुणायुक्त
दयालु	दयै	दयैयुळ्ळ	दयालु
अयोग्य	अयोक्कितै	अयोक्कितैयुळ्ळ	अयोग्य

चौथा उपाय सज्ञा शब्द में 'आक/आह' तथा 'आय्' प्रत्यय लगाकर तमिल क्रिया विशेषण बनते हैं।

<u>प्रतिष्ठ शब्द</u>	<u>तमिल संज्ञा</u>	<u>क्रिया विशेषण</u>	<u>अर्थ</u>
अकारण	अकारणम्	अकारणमाय्	अकारण
अगत्या	अगतियम्	अगतियमाय्	अगत्या
अनुकूल	अनुकूलम्	अनुकूलमाह	अनुकूलतया
अनुकूल	अनुकूलम्	अनुकूलमाय्	अनुकूलता में
अनेकश	अनेकम्	अनेकमाय्	अनेकश
अन्यायपूर्वक	अन्नियायम्	अन्नियायमाय्	अन्यायपूर्वक
अपार	अपारम्	अपारमाय्	अधिकता में
अनेक	अनेगम्	अनेगमाय्	प्राय
अनेक	अनेकम्	अनेकमाह	बहुत करके
अमुख्य	अमुक्कियम्	अमुक्कियमाय्	मुख्यत नहीं
असाधारण	असादारणम्	असादारणमाह	साधारणतया नहीं

पाँचवा उपाय:- कोश में स्थान स्थान पर 'न्' अन्त वाले तमिल सज्ञा शब्द मिलेंगे। यदि उनका आदर वाची रूप बनाना हो तो आप 'न्' को 'र्', यदि अधिक आदर वाची बनाना हो तो 'आर्', पूर्ण बहुवचन बनाना हो तो 'र्गळ्' प्रत्यय लगा दिये जाते हैं। वाक्य में आदरवाची और बहुवचन दोनों प्रकार के सज्ञा शब्दों के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है।

इस कोश में 'अवयन्' शब्द के साथ 'अवयर्' शब्द दिया है। जो वीर, योद्धा के लिए आदर प्रदर्शन का भाव प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार अमरर् अमर व्यक्ति या देवता वाची और असुरर् शब्द दानव, दानव-गण दोनों भावों को प्रदर्शित करता है। 'आर तथा 'र्गळ्' के शब्द कोश में नहीं आये हैं। ये केवल आपका ज्ञान बढ़ाने के लिये दिये गये हैं।

मलयाळम् अक्षर-विन्यास की विलक्षणताएँ

तमिल में ग्रहीत शब्दों को लिखने और उनके उच्चारणों को समझने में कठिनता होनी है। उस कठिनता का मूल कारण विशेषतया उस लिपि में सीमित अक्षरों के कारण है। मलयाळम् में वह विवशता विलकुल नहीं है। मलयाळम् में वे सब अक्षर हैं जो देवनागरी लिपि में हैं। और वे भी हैं जो तमिल से आगत ध्वनियों को प्रकट करते हैं। शब्द-संख्या की दृष्टि में भी मलयाळम् अति समृद्ध है, क्योंकि मलयाळम् साहित्य में संस्कृत मूल के अधिक से अधिक शब्दों का प्रयोग मिलता है, जिन्हें मलयाळम् कोशों में संकलित किया गया है। परन्तु उन शब्दों को लिखित रूप देने में मलयाळम् ने अपनी विशेष पद्धति का प्रयोग किया है। जिसके कारण विलक्षणताएँ आ गयी हैं। जो अन्य दक्षिणी भाषाओं से भिन्न है। अतः उनकी ओर सकेत करना आवश्यक हो गया है।

1. वे शब्द जो स्त्रीलिंग होने के कारण मूल संस्कृत शब्दों में 'अ'कारान्त लिखे जाते हैं, अकेले लिखे जाने पर मलयाळम् में 'अ'कारान्त लिखे जाते हैं। इन शब्दों के पुल्लिंग मूल रूप 'अ'कारान्त होने हैं, वे मलयाळम् में भी 'अ' कारान्त ही लिखे जाते हैं। यथा, असित/अमिता, अगम्य/अगम्या, दोनों शब्द पुल्लिंग-स्त्रीलिंग में असित-अगम्य ही लिखे जाते हैं। परन्तु जब स्त्रीलिंग शब्दों का समास रूप में प्रयोग होता है, तो मलयाळम् में भी इनका अकारान्त प्रयोग ही किया जाता है। अर्थात्, अगम्यागामी और अमितापाङ्गि लिखा जाता है। इस कोश में सभी उपसर्गों युक्त शब्दों में ऐसे सैकड़ों शब्द मिलेंगे। केवल 'अ' उपसर्ग युक्त शब्दों में ही 100 से अधिक शब्द ऐसे हैं। कोश में ऐसे शब्द 'अ' कारान्त नहीं, 'आ' कारान्त रूप में दिये हैं, और भाषा का नाम मलयाळम् लिखा है। नीचे थोड़े से उदाहरण दिये हैं, जिनसे अभ्यास हो जाये फिर जहाँ-जहाँ भी ऐसे शब्द मिलें, सुधी पाठक स्मरण रख लें। यथा

<u>लिखित-मलयाळम्</u>	<u>कोशगत शब्द रूप</u>	<u>लिखित मलयाळम्</u>	<u>कोशगत शब्द रूप</u>
अतिथिपूज	अतिथिपूजा	अतिथिसेव	अतिथिमेवा
अनामिक	अनामिका	अपराजित	अपराजिना
अपर	अपरा	अप्रतिष्ठ	अप्रनिष्ठा
अभर्तुक	अभर्तुका	अमृतधार	अमृतधारा
अविनीत	अविनीता	अश्रद्ध	अश्रद्धा
असंस्कृत	असंस्कृता	असूर्यम्पश्य	असूर्यम्पश्या

2. जिन शब्दों के अन्तिम अक्षरों में हलन्त होता है, उन अक्षरों का द्विव्य होकर 'उ' की मात्रा लगायी जाती है। संभवतः यह 'उकार' प्रयोग दक्षिण-प्रदेश में पुरातन काल से चला आ रहा है, और उत्तर में प्रचलित 'उ' कार से भिन्न है। क्योंकि तमिल में यह लघु 'उ' लघु 'र' और मलयाळम् में 'अर्धलघु' 'उ' माना जाता है। उदाहरणार्थ 'तमिल-नाडु', का अन्तिम 'उ' हलका बोला जाता है; उत्तरी भाषाओं जैसा नहीं।
3. मूल शब्दों के अन्तिम हलन्त अक्षर में 'उ' लगे द्विव्यरूप कोश के आठों उपसर्ग-युक्त शब्दों में पर्याप्त संख्या में मिलेंगे। नीचे केवल 'अ'-उपसर्ग युक्त शब्दों में से भी थोड़े से ही दिये जा रहे हैं। इन शब्दों में पहले 10 में 'स्'-म्सु, दूसरे 6 में 'त्'-त्तु और अन्तिम 2 में 'क्'-क्कु हो गये हैं।

<u>मूल शब्द-रूप</u>	<u>मलयाळम्-रूप</u>	<u>मूल शब्द रूप</u>	<u>मलयाळम् रूप</u>
अगोकस्	अगोकस्सु	अच्छन्दस्	अच्छन्दस्सु
अतेजस्	अतेजस्सु	अमितौजस्	अमितौजस्सु
अमेधस्	अमेधस्सु	अयशस्	अयशस्सु
अराधस्	अराधस्सु	अरेपस्	अरेपस्सु
अवासस्	अवासस्सु	अशिरस्	अशिरस्सु
अकर्मकृत्	अकर्मकृत्सु	अक्षुत्	अक्षुत्सु
अमित्रजित्	अमित्रजित्सु	अर्वाक्षत्	अर्वाक्षत्सु (एक नाम)
असत्	असत्सु	असृहत्	असृहत्सु
अदृक्	अदृक्सु	अवाक्	अवाक्सु

4. शब्द मध्य में यदि हलन्त 'रू' अर्थात् रेफ या अर्ध 'र' कार हो तो आगे आने वाले 'क' से 'म' तक किसी भी वर्ण का द्वित्व हो जाता है। यहाँ भी केवल 'अ' उपसर्ग युक्त शब्दों में से कुछ उदाहरण देगिये।

<u>मूल शब्द रूप</u>	<u>मलयाळम् रूप</u>	<u>मूल शब्द रूप</u>	<u>मलयाळम् रूप</u>
अवितर्कित्	अवितर्कित्सु	अदुर्ग	अदुर्ग
अकर्तृक	अकर्तृक	अनिर्देश	अनिर्देश
अनिर्णय	अनिर्णय	अधर्म	अधर्म
अनिलोडित	अनिलोडित	अनिर्वाह	अनिर्वाह
अकार्पण्य	अकार्पण्य	अधर्म्य	अधर्म्य

5. अर्ध 'रू' के पश्चात यदि थ, ध हो तो र्थ, र्द तथा अन्य द्रशाओं में भी 'ध' से पहले 'द' आगम होता है। यथा - अक्षरार्थ—अक्षरार्थ, अकृतार्थ—अकृतार्थ, अकृततीर्थ—अकृत तीर्थ
अनिर्धारित—अनिर्धारित, अवध्य—अवध्य, अदग्ध कर—अदग्ध कर.
6. यदि शब्द के अन्त में 'तु' हो तो मलयाळम् शब्दान्त विकल्प से 'ता' अथवा 'तावु' हो जाता है।
अकमित्—अकमिता (वु), अदात्—अदाता (वु), अवक्तु—अवक्ता (वु), अप्रवक्तु—अप्रवक्ता (वु)
अभोक्तु—अभोक्ता (वु), अवित्—अविता (वु), अचल दुहितु—अचल दुहिता (वु)
7. यदि शब्दान्त 'अन्' हो तो भी मलयाळम् में विकल्प से 'आ' अथवा 'आवु' होता है।
अकर्मन्—अकर्मा (वु), अकृत कर्मन्—अकृतकर्मा (वु), अकृतात्मन्—अकृतात्मा (वु), अक्लिष्ट कर्मन्—अक्लिष्ट कर्मा (वु), अकृष्णकर्मन्—अकृष्णकर्मा (वु), अखिलात्मन्—अखिलात्मा (वु), अपुनर्जन्मन्—अपुनर्जन्मा (वु), अदृष्टकर्मन्—अदृष्टकर्मा (वु), अधर्मात्मन्—अधर्मात्मा (वु), अयज्वन्—अयज्वा (वु), अमृतात्मन्—अमृतात्मा (वु), अमित्रहन्—अमित्रहा (वु), अकिचनमन्—अकिचनमा (वु) आदि, आदि।

नोट:- 1 कभी-कभी अपवाद भी मिलते हैं। जैसे अक्लिन्नवर्मन् का अक्लिन्नवर्त्म भी मिलता है।

- 2 कोई-कोई 'वु' अन्त वाले शब्द तमिल या तेलुगु में भी मिलते हैं। तेलुगु के अभीरुवु, अगार्थुवु, अगुरुवु, अकालमृत्युवु, अजान शत्रुवु इमी प्रकार के शब्द हैं।

उत्तरी तथा दक्षिणी भाषाओं के अक्षर-विन्यास की भिन्नताएँ

सारी भाषाओं में संस्कृत के 'इन्' प्रत्यय से युक्त शब्द पर्याप्त संख्या में ग्रहण किये गये हैं। दक्षिणी भाषाओं में उनके 'न्' को हटा कर शेष शब्द जैसे का तैसा रहता है। उत्तरी भाषाओं में 'न्' हटाकर शेष शब्द की अंतिम 'इ' को दीर्घ 'ई' कर के ग्रहण किया गया है। उदाहरणार्थ

<u>मूल संस्कृत शब्द</u>	<u>दक्षिण-भाषायी रूप</u>	<u>उत्तर-भाषायी रूप</u>
1— अद्वय वादिन्	अद्वय वादि—मल कन्न	अद्वय वादी—हिन्दी
2— अद्वैत वादिन्	अद्वैत वादि—मल कन्न	अद्वैत वादी—हिं गुज नेपा अस बग उडि
3— अद्वैतिन्	अद्वैति—तमि-तेलु कन्न	अद्वैती—हिंदी मराठी
4— अपरिग्रहिन्	अपरिग्रहि—मलयालम	अपरिग्रही—गुजगती-मराठी
5— अपरिचयिन्	अपरिचयि—मलयालम	अपरिचयी—हिंदी
6— अपरिणामिन्	अपरिणामि—मलयालम	अपरिणामी—हिन्दी-नेपाली
7— अपापिन्	अपापि—तमिल	अपापी—हिंदी गुज बगला
8— अप्रतियोगिन्	अप्रतियोगि—मलयालम	अप्रतियोगी—बगला
9— अप्रिय वादिन्	अप्रिय वादि—मलयालम	अप्रिय वादी—हिंदी गुजराती बगला
10— अप्रियभागिन्	अप्रियभागे—मलयालम	अप्रियभागी—हिंदी
11— अभागिन्	अभागे—मलयालम	अभागी—हिंदी गुजराती नेपाली बगला
12— अमितवादिन्	अमितवादि—तमिल	अमितवादी—हिंदी गुज बगला
13— अभिन्नघातिन्	अभिन्नघाति—मलयालम	अभिन्नघाती—हिंदी
14— अवश्यभाविन्	अवश्यभावि—मलयालम	अवश्यभावी—हिंदी नेपा गुज-मरा
15— अविकारिन्	अविकारि—तमिल मलया	अविकारी—हिं गु-नेपा-मरा-अस-बग-उडि

विशेष—नियमों में अपवाद होते हैं। अन्यायिन् शब्द में अन्यायी तो उत्तरीय भाषाओं ने ग्रहण कर लिया, परन्तु दक्षिणी भाषाओं ने 'अन्याय' में अपने प्रत्यय लगाकर मलयालम में अन्यायक्कारन् और तमिल में अन्न्यायक्कारन् बना लिये। अतः ऊपर के शीर्षक में दिये उदाहरणों से भिन्न रूप शब्द भी कहीं मिल सकते हैं।

उक्त नियम का विपरीत नियम

अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें ऊपर लिखे सिक्के का दूसरा पहलू देखने को मिलेगा। यथा —

<u>संस्कृत</u>	<u>तमिल, कन्नड, मलयालम</u>	<u>तेलुगु</u>
अपत्नीक	अपत्नीकन्—मलयालम	अपत्नीकडु
अप्राप्त व्यवहार	अप्राप्त व्यवहारन्—मलयालम	अप्राप्त व्यवहाररुडु
अमर्त्य	अमर्त्यन्—मलयालम्	अमर्त्युडु
अरसिक	अरसिकन्—तमिल	अरसिकडु
अनघ	अनगन्—तमिल	अनगुडु

विशेष—ऊपर 'संस्कृत' शीर्षक के नीचे दिये शब्दों जैसे असंख्य शब्द उत्तर की अनेक भाषाओं में चलते हैं। अतः भाषाओं के नाम नहीं दिये हैं।

शब्द-भंडार के विस्तार के उपाय

भाषाओं में एक प्रकार के शब्द से दूसरे प्रकार के शब्द निर्माण की व्यवस्था होती है। उनमें से एक प्रकार की व्यवस्था यह होती है कि शब्द के अन्त में प्रत्यय लगा कर दूसरे प्रकार का शब्द बना लिया जाता है।

इस बहुभाषी कोश में प्रत्यय योग द्वारा शब्द निर्माण का एक अन्य ही प्रकार का लाभकारी रूप देखने को मिलता है। जो एक भाषा भाषी को दूसरी भाषा के शब्द भंडार की वृद्धि करने में सहायता करता है।

कोश में अगणित शब्द ऐसे हैं, जिनमें अपने अपने प्रत्यय लगाकर भिन्न भिन्न भाषाओं ने अपना शब्द भंडार भरा है। वे शब्द जिनमें प्रत्यय लगाकर पृथक पृथक भाषाओं ने उन्हें अपनाया है, उनको सामान्य शब्द कहना युक्ति संगत होगा, क्योंकि वे अनेक भाषाओं के शब्दों के आधार बने हैं। अनेक भाषाओं में वे प्रचलित भी हैं और भारतीय भाषाओं में अधिकतर लोगों द्वारा समझे भी जाते हैं।

1. ऐसे सामान्य शब्दों के तमिल-मलयाळम् तथा तेलुगु के प्रत्यय लगे पर्यायवाची रूप अवलोकन कीजिए,

<u>सामान्य शब्द</u>	<u>तमिल रूप</u>	<u>मलयाळम् रूप</u>	<u>तेलुगु रूप</u>
अच्युत	अच्युदन्	अच्युतन्	अच्युतुडु
अज्ञ	अञ्जन्	अज्ञन्	अज्ञुडु
अब्राहमण	अभिगमणन्	अब्राह्मणन्	अब्राह्मणुडु
अहितकारी	अहितन्	अहितन्	अहितुडु

2. अब ऐसे ही शब्दों के मलयाळम् तथा तेलुगु रूप दिये।

<u>सामान्य शब्द</u>	<u>मलयाळम् रूप</u>	<u>तेलुगु रूप</u>
अक्रोधी/अक्रोधन्	अक्रोधन्न्	अक्रोधनुडु
अप्राप्तव्यवहार	अप्राप्तव्यवहारन्	अप्राप्तव्यवहारुडु
अमर्त्य	अमर्त्यन्	अमर्त्युडु
अमितविक्रम	अमितविक्रमन्	अमोधि विक्रमुडु
अव्यय	अव्ययन्	अव्ययुडु

3. ऐसे ही शब्दों के तमिल तथा तेलुगु रूप दिये।

<u>सामान्य शब्द</u>	<u>तमिल शब्द</u>	<u>तेलुगु शब्द</u>
अकिंचन	अकिञ्जनन्	अकिंचनुडु
अतुलित	अतुलितन्	अतुलितुडु
अमित्र	अमित्रिन्	अमित्रुडु
अरसिक	अरसिकन्	अरसिकुडु
अव्यक्त	अव्यक्तन्	अव्यक्तुडु
अशक्य	अशक्यन्	अशक्युडु
असमर्थ	असमर्तन्	असमर्थुडु
असहायशूर	असहायशूरन्	असहायशूरुडु

4. केवल तमिल-मलयालम् में भी ऐंसे शब्दरूप मिले। यथा

<u>सामान्य शब्द</u>	<u>तमिल रूप</u>	<u>मलयाळ्मरूप</u>
अकलंकी	अकलङ्गन्	अकलङ्कन्
अक्षय	अन्धयन्	अक्षयन्
अमुरव्य	अमुक्कन्	अमुरव्यन्
अमूर्त	अमूर्त्तन्	अमूर्त्तन्

प्रत्यय-परिवर्तन द्वारा तमिल-तेलुगु-मलयाळ्म में शब्द-निर्माण

उक्त उदाहरणों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि सामान्य शब्द में 'न्' प्रत्यय लगाने पर तमिल तथा मलयालम में तथा 'उडु' प्रत्यय लगाने पर तेलुगु में ऐंसे शब्द बनते हैं। सामान्य शब्द का अर्थज्ञान होने में उक्त तीनों भाषाओं के शब्दों के अर्थ समझने में कठिनाई नहीं होती। स्मरणीय केवल यह है कि उक्त दक्षिणी भाषाओं में ये पुल्लिग सजा है।

शब्द भंडार को तीन गुना करने का सरल उपाय

इन प्रत्ययों से युक्त शब्द यदि उक्त 3 में से किसी भाषा में भी मिले तो सरलता से तीनों भाषाओं में उनके रूप बनाये जा सकते हैं। और उन भाषाओं का अपना शब्द ज्ञान सरलता में बढ़ाया जा सकता है।

आगे मलयालम में प्राप्त तेलुगु के 23 तथा तमिल में प्राप्त 10 शब्दों के रूप दिये जा रहे हैं, जिन्हें प्रत्यय बदलकर दूसरी भाषा का बनाया जा सकता है।

विशेष ज्ञातव्य : ये सारे शब्द केवल कोश में प्राप्त 'अ' उपसर्ग युक्त शब्द समूह से लिए गये हैं। कोश में दिये अन्य सात उपसर्ग युक्त शब्द समूहों में भी ऐंसे असंख्य शब्द मिलेंगे। उनके रूप भी उक्त विधि से प्रत्यय लगाकर बदले जा सकते हैं।

सामान्य शब्दों के मलयाळ्म रूप-

नीचे पहले सामान्य शब्द तथा ममाम चिह्न लगाकर उसके साथ उसका मलयाळ्म रूप दिया गया है। इनके तमिल रूपों का उच्चारण लगभग यही रहेगा। तमिल लिपि की भिन्नता के कारण कहीं कहीं किंचित अन्तर पड़ेगा। जिन सामान्य शब्दों के अन्त में 'अ' स्वर है, उनमें 'उडु' प्रत्यय लगाकर, और जिनके अन्त में 'ई' स्वर है उसका ह्रस्व 'इ' करके केवल 'डु' प्रत्यय लगाकर तेलुगु शब्द रूप बन जायेगा। अर्थ वही रहेगा यथा अकच का अकचुडु बनेगा, परन्तु अकामी का अकामिडु तेलुगु रूप बनेगा।

इन शब्दों की संख्या 60 है, तमिल तेलुगु रूप बनाने से 920 संख्या और बढ़ जायेगी। और पाठक 'मलयाळ्म-तमिल तेलुगु तीनों भाषाओं के शब्दों को जान' जायेगे।

कृपया मलयाळ्म रूप अवलोकन कीजिये:-

अकच-अकचन्, अकनिष्ठ-अकनिष्ठन्, अकण-अकणन्, अकाम-अकामन्, अकामी-अकामिन्, अकालपुरुष-अकालपुरुषन्, अकटुम्बि-अकटुम्बिन्, अकुम्मिल-अकुम्मिलन्, अकूपार-अकूपारन्, अकृतज्ञ-अकृतज्ञन्, अकृष्ण-अकृष्णन्, अक्रीतदास-अक्रीतदासन्, अक्षरमुख-अक्षरमुखन्, अक्षरशून्य-अक्षरशून्यन्, अक्षेत्रज्ञ-अक्षेत्रज्ञन्, अखिलेश-अखिलेशन्, अग्रन्धिक-अग्रन्धिकन्, अचेलक-अचेलकन्, अच्युतपुत्र-अच्युतपुत्रन्, अच्युतपूर्वज-अच्युतपूर्वजन्, अजय-अजयन्,

अजानि(असमी)-अजानिन्, अजितेन्द्रिय-अजितेन्द्रियन्, अजेय-अजेयन्, अतिथिदेव-अतिथिदेवन्, अतिथिधर्मी-अतिथिधर्मिन्, अतुषारकर-अतुषारकरन्, अदास-अदासन्, अदीर्घसूत्री-अदीर्घसूत्रन्, अधुव-अधुवन्, अधृत-अधृतन्, अनाथपिडिक-अनाथपिण्डिकन्, अनिकेत-अनिकेतन्, अनित्यदत्त-अनित्यदत्तन्, अनियुक्त-अनियुक्तन्, अनिरुद्ध-अनिरुद्धन्, अपर्याप्तकर्म-अपर्याप्तकर्मन्, अप्रकाशतस्कर-अप्रकाशतस्करन्, अप्रमेय-अप्रमेयन्, अप्लव-अप्लवन्, अबद्ध-अबद्धन्, अबल-अवलन्, अमिताभ-अमिताभन्, अमिताशन-अमिताशनन्, अमितविक्रम-अमितविक्रमन्, अमर्षि-अमर्षन्, अभय-अभयन्, अराति-अरातिन्, अवधूक-अवधूकन्, अविगृहीत-अविगृहीतन्, असंभोज्य-असंभोज्यन्, असस्कृत-असस्कृतन्, असमबाण-असमबाणन्, असमास-असमासन्, असमावृत्त-असमावृत्तन्, असाक्षी-असाक्षिन्, असितग्रीव-असितग्रीवन्, अस्वस्थ-अस्वस्थन्, अस्वामि-अस्वामिन्, अहीक-अहीकन् (60)

सामान्य शब्दों के तेलुगु रूप

नीचे पहले सामान्य शब्द तथा समास-चिह्न लगाकर उसके साथ उमका तेलुगु रूप दिया गया है। इनका मलयाळम् अथवा तमिल रूप बनाना हो तो सामान्य रूप के बाद 'न्' प्रत्यय लगाकर कर्ता का पुंल्लिङ्ग रूप बन जायेगा। उस समय तेलुगु का 'उडु' अथवा 'डु' जो भी प्रत्यय हो वह हटा दिया जायेगा। तमिल रूप बनाते समय तमिल की प्रकृति के अनुसार शब्द के मध्य में कुछ परिवर्तन हो सकता है। परन्तु प्रायः उच्चारण पहचाना जा सकेगा। ये शब्द संख्या में 23 हैं। इनके तमिल-मलयाळम् रूप मिलाकर सख्या 69 हो जायेगी।

कृपया तेलुगु रूप अबलोकन कीजिये:-

अकर्मण्य-अकर्मण्युडु, अकृतोभय-अकृतोभयुडु, अकृताम्न-अकृताम्नुडु, अगदकार-अगदकारुडु, अचल-अचलुडु, अदीन-अदीनुडु, अदेव-अदेवुडु, अद्वन्द्व-अद्वन्द्वुडु, अद्विन्द्व-अद्विन्द्वुडु, अधार्मिक-अधार्मिकुडु, अनायक-अनायकुडु, अपडित-अपडितुडु, अपत्नीक-अपत्नीकुडु, अप्रतिद्वन्द्व-अप्रतिद्वन्द्वुडु, अप्रतिद्विन्द्व-अप्रतिद्विन्द्वुडु, अप्रयोजक-अप्रयोजकुडु, अमलिन-अमलिनुडु, अमोघविक्रम-अमोघविक्रमुडु, अभव-अभवुडु, अयोग्य-अयोग्युडु, अविनीत-अविनीतुडु, असभ्य-असभ्युडु, अस्वर-अस्वरुडु।

सामान्य शब्दों के तमिल रूप

नीचे उक्त प्रकार के शब्दों के तमिल रूप दिये गये हैं। इनके पश्चात् भी मलयाळम् रूपों की तरह 'न्' प्रत्यय ही लगा है। परन्तु सामान्य शब्द के तमिल रूप के मध्य में कुछ अन्तर है। इनके सामान्य रूपों के अन्त में मलयाळम् का 'न्' लगाने समय एक-दो शब्दों में कुछ अंतर पड़ेगा। यथा अकर्ता के स्थान अकर्ता या अकर्ता (वु) होगा क्योंकि तमिल अकत्तन् रूप अकर्त्तु में 'न्' लगाकर बना है और तेलुगु रूप भी अकर्त्तुकुडु बनेगा। ये शब्द कुल 90 हैं, इनके भी मलयाळम्-तेलुगु रूप बनाने में पाठकों के शब्द भंडार में 20 अन्य शब्दों की वृद्धि होगी। तदाहरण देखिये:-

अकर्ता-अकत्तन्, अक्षरजीवी-अट्सरजीविकन्, अखण्डित-अगण्डितन्, अगणित-अगणितन्, अगतिक-अगीतकन्, अघातिक-अगातिकन्, अलेपक-अलेपकन्, अवरज-अवरजन्, अवाच्य-अवाच्यन्, अशुद्ध-अशुत्तन्, असंगम-असंगमन्।

प्रत्यय-परिवर्तन द्वारा कन्नड-तमिल शब्द-भंडार वृद्धि

कोश में ग्रहीत आठों उपसर्गों से युक्त शब्दों की यदि गणना की जाय तो समान स्रोत से आगत सहस्रों शब्द कन्नड तथा तमिल में ऐसे मिलेंगे जिनमें विशेष अन्तर नहीं। केवल इतना अन्तर है कि दोनों भाषाओं के शब्दों में अन्तिम 'ग' और 'गे' मात्राओं की भिन्नता है। कन्नड में वास्तव में 'गे' मात्रा लगती है, परन्तु सर्वसाधारण पाठकों की सुविधा के लिए इस कोश में 'ग' की मात्रा का उपयोग किया गया है।

जिन कन्नड और तमिल कोशों से शब्द संकलित किये गये उनमें सैकड़ों कन्नड के 'गे' मात्रा वाले शब्द मिले और उन शब्दों के तमिल रूप नहीं मिले, इसी तरह सैकड़ों शब्दों के 'गे' अन्त वाले तमिल रूप मिले परन्तु उन शब्दों के कन्नड रूप नहीं मिले। शब्द-संकलन-कार होने के नाते हमको यह अधिकार प्राप्त नहीं कि अपनी ओर से किसी भाषा में शब्द बढ़ायें। परन्तु शब्दों का समान स्रोत और भाषाओं में प्रचलन का ज्ञान होने के कारण हम को यह ज्ञात है कि तमिल शब्द कन्नड में तथा कन्नड-शब्द तमिल में प्रायः अवश्य समझे जाते हैं। अतः निर्णय किया गया कि यदि मात्र प्रत्यय बदल दिया जाय तो पाठक एक भाषा के शब्द को दूसरी भाषा का बना सकते हैं। उदाहरणार्थ समान शब्दों का अवलोकन कीजिये

<u>मूल शब्द</u>	<u>कन्नड रूप</u>	<u>तमिल रूप</u>	<u>मूल शब्द</u>	<u>कन्नड रूप</u>	<u>तमिल रूप</u>
अगम्या	अगम्ये	अगम्यै	अजाग्रता	अजाग्रिते	अजाग्नितै
अतिथिपूजा	अतिथिपूजे	अतिथिपूजै	अनामिका	अनामिके	अनामिकै
अपरक्रिया	अपरक्रिये	अपरक्करिये	अवला	अवले	अवलै
अमंगला	अमङ्गले	अमङ्गलै	अमर्यादा	अमर्यादे	अमरियादै
अमृता	अमृते	अमृतै	अविद्या	अविद्ये	अविन्यै

तमिल शब्दों के कन्नड रूप: इसी प्रकार प्रत्यय परिवर्तन कर कन्नड वर्ण-विन्यास में तमिल 'गे' को 'ग' कर कन्नड शब्द बनाये हैं। कोश में जहाँ भी ऐसे तमिल शब्द मिलें उन्हें कन्नड बनाकर अपनी शब्दावली बढ़ा लीजिए। यथा, अकुशल वेदने अकुशल वेदने, अदृश्यतिरुतिये अक्षयतिरुतिये, अगच्छि मुत्तिरे-अगोचर मुद्रे, अप्पिरजातै-अप्रजातै, अप्पिरतिवै अप्रतिभे, अप्पिरतिरूपकदै अप्रतिरूपकधे, अयोक्कितै-अयोग्यते, अविकारतै-अविकारते, अवेले-अवेले, अविद्यक्कलक्कणै अविद्यक्कलक्षणै, अविद्याजकरुणे अव्याजकरुणे, अशङ्गै-अशङ्कै, अशुत्तै-अशुद्धे, अशुक्करिये-अशुभक्रिये, अशुववावने अशुभभावने, असम्वादै असम्वादे आदि।

कन्नड शब्द : जिनके अंत की 'ग' को 'गे' करने पर तमिल शब्द बन जायगा।
अक्षर संज्ञे, अचलेन्द्र तनुजे, अजागरूकते, अज्ञते, अप्रमत्ते, अप्रामाणिकते,
अभाव क्रिये, अमुख्यते, अवरजे, अव्यथे, असमाप्त क्रिये, असितरसे

उदाहरणार्थ निम्न कन्नड शब्दों का तमिल के अनुरूप वर्ण-विन्यास कर उसमें अंतिम 'ग' को 'गे' कर के तमिल शब्द बनाया गया है। आप भी कोश में जहाँ कन्नड शब्द मिलें और वैसे तमिल न मिलें उन्हें तमिल शब्द बना सकते हैं। अक्षरसंज्ञे-अक्कर/अदृसरसञ्ज्ञै, अचलेन्द्रतनुजे-अचलेन्द्रतनुजै, अजागरूकते-अजागरूकतै, अज्ञते-अञ्ज्ञतै, अप्रमत्ते-अप्पिरमत्तै, अप्रामाणिकते-अप्पिरमाणिकतै/अप्पिरमाणिकतै, अभावक्रिये-अवावक्करियै, अमुख्यते-अमुक्कियतै, अवरजे-अवरजै, अव्यथे-अव्ययतै, असमाप्तक्रिये-असमाप्तक्करियै, असितरसे-असितरतै।

स्पर्शीयः दोनों भाषाओं में उक्त प्रत्यय प्रायः मूल शब्द के अन्तिम 'आ' को बदलते हैं। यथा: संस्कृत अज्ञता: कन्नड में अज्ञते तथा तमिल में अक्कतै हो जाते हैं।

विभिन्न भाषाओं में प्राप्त उपसर्गयुक्त शब्दों के क्रियापद

साधारण से वाक्य में भी प्रयुक्त मंज्ञा, विशेषण आदि का भाव क्रिया बिना पूरा अभिव्यक्त नहीं हो पाता। उपसर्ग-युक्त शब्द कुछ उच्चस्तर के संज्ञा विशेषण हैं। उनकी पूर्णाभिव्यक्ति के लिये उचित क्रियापद मोचने में और भी कठिनता हो सकती है। परन्तु दक्षिणी तथा पश्चिमी भाषाओं में ३००-३५० उपसर्ग-युक्त शब्दों में प्रत्यय लगाकर बने सामान्य क्रियापद मिले। इस उपाय से उन भाषाओं में अभिव्यक्ति में अवश्य ही सरलता हो जाती होगी। अतः निम्न-क्रियापद-संकलन इस दृष्टि से दिया जा रहा है कि अन्य भाषाएं भी अपने-अपने प्रत्यय लगाकर यदि वे चाहें तो उपसर्ग युक्त शब्दों से क्रियापद बना लें। उत्तरी भाषाएं भी बनाती हैं, पर उनमें दो चार ही ऐसे क्रियापद मिले।

नोट:- निम्न उदाहरणों में सूक्ष्म बातें अकर्मक-सर्कमक या तेलुगु का अंतिम 'ट' छोड़ दिये हैं।

सात भाषाओं में प्राप्त अनु-उपसर्गयुक्त क्रियापद			6.	अनुवादवु	—	गुजराती
1 - अनुसरिक्कुक्	—	मलयाळम्	1 - अनुभविक्कुक्	—		मलयाळम्
2 - अनुसरित्तल्	—	तमिळ्	2 - अनुववित्तल्	—		तमिळ्
3 - अनुसरिचु	—	तेलुगु	3 - अनुभविचु	—		तेलुगु
4 - अनुसरिसु	—	कन्नड	4 - अनुभविसु	—		कन्नड
5 - अनुसरणे	—	मराठी	5 - अनुभवणे	—		मराठी
6 - अनुसरणवु	—	गुजराती	6 - अनुभववुं	—		गुजराती
7 - अनुसरणा	—	हिंदी				

1 - अनुमानिक्कुक्	—	मलयाळम्	1 - अनुकारिक्कुक्	—		मलयाळम्
2 - अनुमानित्तल्	—	तमिळ्	2 - अनुकारित्तल्	—		तमिळ्
3 - अनुमानिचु	—	तेलुगु	3 - अनुकारिचु	—		तेलुगु
4 - अनुमानिसु	—	कन्नड	4 - अनुकारिसु	—		कन्नड
5 - अनुमानणें	—	मराठी	5 - अनुकरणे	—		मराठी
6 - अनुमानवु	—	गुजराती	6 - अनुकरवु	—		गुजराती
7 - अनुमानणा	—	पंजाबी				

छः भाषाओं में प्राप्त क्रियापद		
1 - अनुवादिक्कुक्	—	मलयाळम्
2 - अनुवादिच्चल्	—	तमिळ्
3 - अनुवादिचु	—	तेलुगु
4 - अनुवादिसु	—	कन्नड
5 - अनुवादणें	—	मराठी

पांच भाषाओं में प्राप्त क्रियापद		
1 - अनुकूलिक्कुक्	—	मलयाळम्
2 - अनुकूलित्तल्	—	तमिळ्
3 - अनुकूलिचु	—	तेलुगु
4 - अनुकूलिसु	—	कन्नड
5 - अनुकूलना	—	हिंदी

विभिन्न भाषाओं में प्राप्त उपसर्गयुक्त शब्दों के क्रियापद

चार भाषाओं में प्राप्त क्रियापद

1 - अनुग्रहिककृक	—	मलयाळम्
2 - अनुक्किरहित्तल्	—	तमिळ्
3 अनुग्रहिंचु	—	तेलुगु
4 अनुग्रहिमु	—	कन्नड

1 अनुमतिक्कुक	—	मलयाळम्
2 अनुमदित्तल्	—	तमिळ्
3 अनुमतिचु	—	तेलुगु
4 अनुमतिमु	—	कन्नड

1 अनुमोदिककृक	—	मलयाळम्
2 अनुमोदिमु	—	कन्नड
3 अनुमोदण	—	मराठी
4 अनुमोदवु	—	गुजराती

तीन भाषाओं में प्राप्त क्रियापद

1 अनुतापिककृक	—	मलयाळम्
2 अनुतापित्तन्	—	तमिळ्
3 अनुतापणे	—	मराठी

1 अनुरागिसु	—	कन्नड
2 - अनुरागवु	—	गुजराती
3 अनुरागना	—	हिंदी

1 अन्वयिककृक	—	मलयाळम्
2 - अन्वयित्तल्	—	तमिळ्
3 अन्वयिसु	—	कन्नड

1 अनुवर्तिककृक	—	मलयाळम्
2 - अनुवर्तिचु	—	तेलुगु

3 अनुवर्तिमु	—	कन्नड
--------------	---	-------

1 अन्नयिककृक	—	मलयाळम्
2 अन्नयित्तल्	—	तमिळ्
3 अन्नयिसु	—	कन्नड

दो भाषाओं में प्राप्त क्रियापद

1 अनुमिक्कुक	—	मलयाळम्
2 अनुमित्तन्	—	तमिळ्

1 अनुगमिक्कुक	—	मलयाळम्
2 अनुगमिचु	—	तेलुगु

1 अनुवन्धिककृक	—	मलयाळम्
2 अनुर्वाधिचु	—	तेलुगु

1 अनुभागित्तल्	—	तमिळ्
2 अनुभागिसु	—	कन्नड

1 अनुवर्तिन्नल्	—	तमिळ्
2 अनुवर्तंगे	—	मराठी

1 अनुकम्पिककृक	—	मलयाळम्
2 अनुकम्पवु	—	गुजराती

1 अनुक्रमिककृक	—	मलयाळम्
2 अनुक्रमणे	—	मराठी

1 अनुविविचु	—	तेलुगु
2 अनुर्विसु	—	कन्नड

1 अनुयोगिककृक	—	मलयाळम्
2 अनुयोजिसु	—	कन्नड

1 - अनुरोधिककृक	—	मलयाळम्
2 अनुरोधवु	—	गुजराती

विभिन्न भाषाओं में प्राप्त उपसर्गयुक्त शब्दों के क्रियापद

1 - अनुवयिंचु	—	तेलुगु	5 - अवगाहवुं	—	गुजराती
2 - अनुवयिसु	—	कन्नड	6 - अवगाहना	—	हिंदी

अनु-उपसर्गयुक्त, अतिरिक्त क्रियापद

मलयाळम् :-	
1 - अनुकीर्तिक्कुक्	2 - अनुचरिक्कुक्
3 - अनुनन्दिक्कुक्	4 - अनुपधिक्कुक्
5 - अनुप्रवेशिक्कुक्	6 - अनुप्लविक्कुक्
7 - अनुयंत्रिक्कुक्	8 - अनुमरिक्कुक्
9 - अनुरंजिक्कुक्	10 - अनुलापिक्कुक्
11 - अनुवाचिक्कुक्	12 - अनुव्रजिक्कुक्
13 - अनुशापिक्कुक्	14 - अनुशेषिक्कुक्
15 - अनुशोचिक्कुक्	16 - अनुश्रविक्कुक्
17 - अनुष्ठानिक्कुक्	18 - अनुस्मरिक्कुक्
19 - अनुश्रिक्कुक्	

तमिळ् :- 1 - अनुष्ठित्तल्-अनुदृष्टित्तल् 2 - अनुसंधित्तल्

कन्नड :- अनुगोडेसु

हिन्दी- अनुमापना

अनु-उपसर्गयुक्त सात भाषाओं में प्राप्त क्रियापद

1 - अवलम्बिक्कुक्	—	मलयाळम्
2 - अवलम्बित्तल्	—	तमिळ्
3 - अवलंबिंचु	—	तेलुगु
4 - अवलबिसु	—	कन्नड
5 - अवलंबणें	—	मराठी
6 - अवलंबवुं	—	गुजराती
7 - अवलंबना	—	हिंदी

छः भाषाओं में प्राप्त क्रियापद

1 - अवगाहित्तल्	—	तमिळ्
2 - अवगाहिंचु	—	तेलुगु
3 - अवगाहिसु	—	कन्नड
4 - अवगाहणें	—	मराठी

1 - अवलोकिक्कुक्	—	मलयाळम्
2 - अवलोकित्तल्	—	तमिळ्
3 - अवलोकिंचु	—	तेलुगु
4 - अवलोकिसु	—	कन्नड
5 - अवलोकणें	—	मराठी
6 - अवलोकवुं	—	गुजराती

पांच भाषाओं में प्राप्त क्रियापद

1 - अवतरिक्कुक्	—	मलयाळम्
2 - अवतरित्तल्	—	तमिळ्
3 - अवतरिंचु	—	तेलुगु
4 - अवतरिसु	—	कन्नड
5 - अवतरणें	—	मराठी

चार भाषाओं में प्राप्त क्रियापद

1 - अवमानिक्कुक्	—	मलयाळम्
2 - अवमानित्तल्	—	तमिळ्
3 - अवमानिंचु	—	तेलुगु
4 - अवमानणें	—	मराठी

1 - अवधारिंचु	—	तेलुगु
2 - अवधारिसु	—	कन्नड
3 - अवधारणें	—	मराठी
4 - अवधारवुं	—	गुजराती

तीन भाषाओं में प्राप्त क्रियापद

1 - अवतारणें	—	मराठी
2 - अवतारवुं	—	गुजराती
3 - अवतारना	—	हिंदी

विभिन्न भाषाओं में प्राप्त उपसर्गयुक्त शब्दों के क्रियापद

दो भाषाओं में प्राप्त क्रियापद

1 - अवगतिकुकु	—	मलयाळम्
2 - अवगमणे	—	मराठी
<hr/>		
1 - अवग्रहिकुकु	—	मलयाळम्
2 - अवग्रहिसु	—	कन्नड
<hr/>		
1 - अवधानित्तल्	—	तमिळ्
2 - अवधानिसु	—	कन्नड
<hr/>		
1 - अवभासिकुकु	—	मलयाळम्
2 - अवभासवुं	—	गुजराती
<hr/>		
1 - अवमतिकुकु	—	मलयाळम्
2 - अवमतित्तल्	—	तमिळ्
<hr/>		
1 - अवरोधिंचु	—	तेलुगु
2 - अवरोधणे	—	मराठी
<hr/>		
1 - अवशेषिकुकु	—	मलयाळम्
2 - अवशेषिंचु	—	तेलुगु
<hr/>		
1 - अवष्टम्भिकुकु	—	मलयाळम्
2 - अवष्टम्भिसु	—	कन्नड
<hr/>		
1 - अवहेलणे	—	मराठी
2 - अवहेलवुं	—	गुजराती

अव-उपसर्गयुक्त प्राप्त अतिरिक्त क्रियापद

मलयाळम् में

1 - अवकर्षिकुकु	2 - अवखण्डिकुकु
3 - अवगणिकुकु	4 - अवधोषिकुकु
5 - अवचरिक्कुकु	6 - अवच्छेदिकुकु
7 - अवनयिकुकु	8 - अवमर्दिकुकु
9 - अवलेहिकुकु	10 - अवसानिकुकु
11 - अवापिकुकु	

तमिळ्-	1 - अवकाशित्तल्	2 - अवकाशियित्तल्
तेलुगु-	1 - अवघलिंचु	
कन्नड-	1 - अवकर्णिसु	2 - अवगडिसु
	3 - अवसरिसु	
मराठी-	1 - अवकळणे	2 - अवघटणे
	3 - अवटणे	4 - अवटरणे
	5 - अवटलणे	6 - अवराधणे
	7 - अवस्थापणे	
गुजराती-	1 - अवटावुं	2 - अवरावु
हिंदी-	1 - अवकलना	2 - अवरेखना
	3 - अवलेपना	
बंगला-	1 - अवधूलन	

अभि-उपसर्गयुक्त शब्दों से बने क्रियापद

छः भाषाओं में प्राप्त क्रियापद

1 - अभिषेचिकुकु	—	मलयाळम्
2 - अभिषेकित्तल्	—	तमिळ्
3 - अभिषेकिंचु	—	तेलुगु
4 - अभिषेकिसु	—	कन्नड
5 - अभिषेकणे	—	मराठी
6 - अभिषेकवुं	—	गुजराती

1 - अभ्यसिकुकु	—	मलयाळम्
2 - अप्पियसित्तल्	—	तमिळ्
3 - अभ्यसिंचु	—	तेलुगु
4 - अभ्यसिसु	—	कन्नड
5 - अभ्यसणे	—	मराठी
6 - अभ्यसवुं	—	गुजराती

विभिन्न भाषाओं में प्राप्त उपसर्गयुक्त शब्दों के क्रियापद

पाँच भाषाओं में प्राप्त क्रियापद

1 - अभिभविक्कुक्	—	मलयाळम्
2 - अबिववित्तल्	—	तमिळ्
3 - अभिभविचु	—	तेलुगु
4 - अभिभवसु	—	कन्नड
5 - अभिभवणें	—	मराठी

चार भाषाओं में प्राप्त क्रियापद

1 - अभिमत्रिक्कुक्	—	मलयाळम्
2 - अविमन्दिग्गित्तल्	—	तमिळ्
3 - अभिमत्रिमु	—	कन्नड
4 - अभिमत्रणे	—	मराठी

1 - अभ्यासिक्कुक्	—	मलयाळम्
2 - अभ्यामित्तल्	—	तमिळ्
3 - अभ्यासिसु	—	कन्नड
4 - अभ्यामणें	—	मराठी

तीन भाषाओं में प्राप्त क्रियापद

1 - अभिर्वान्दिक्कुक्	—	मलयाळम्
2 - अभिर्वदिमु	—	कन्नड
3 - अभिर्वंदवु	—	गुजराती

दो भाषाओं में प्राप्त क्रियापद

1 - अभिनर्दिचु	—	तेलुगु
2 - अभिनर्दवु	—	गुजराती

1 - अभिमानिक्कुक्	—	मलयाळम्
2 - अबिमानित्तल्	—	तमिळ्

1 - अभिव्यजिक्कुक्	—	मलयाळम्
2 - अभिव्यजिसु	—	कन्नड

1 - अभिसिंचवुं	—	गुजराती
2 - अभिमिचना	—	हिंदी

मलयाळम्:-

1 - अभिभाषिक्कुक्	2 - अभिमोदिक्कुक्
3 - अभियोगिक्कुक्	4 - अभिरक्षिक्कुक्
5 - अभिरभिक्कुक्	6 - अभिवर्णिक्कुक्
7 - अभिवहिक्कुक्	8 - अभिवालिक्कुक्
9 - अभिवादिक्कुक्	10 - अभिनीक्षिक्कुक्
11 - अभिव्याहरिक्कुक्	12 - अभिर्शामिक्कुक्
13 - अभिशशापितक्कुक्	14 - अभिसरिक्कुक्
15 - अभिहरिक्कुक्	16 - अभ्यवर्पदिक्कुक्
17 - अभ्यसूयक्कुक्	18 - अभ्यार्त्तगिक्कुक्
19 - अभ्यूहिक्कुक्	

तेलुगु:-

1 - अभिघटिचु	2 - अभिदर्शिचु
--------------	----------------

कन्नड:-

1 - अभिद्योतिमु	2 - अभिमतिमु
3 - अभिर्वचिनु	4 - अभिर्वर्जिमु
5 - अभिर्वर्णिमु	6 - अभिर्वासिमु
7 - अभिर्भाक्षिमु	8 - अभ्यंतरिमु

मराठी:-

1 - अभिव्यापणें

अधि-उपसर्ग युक्त शब्दों से बने-क्रियापद

1 - अधिष्टिक्कुक्	—	मलयाळम्
2 - अदिष्टितल्	—	तमिळ्
3 - अदिट्टितल्	—	तमिळ्
4 - अधिष्टिंचु	—	तेलुगु
5 - अधिष्टिसु	—	कन्नड

विभिन्न भाषाओं में प्राप्त उपसर्गयुक्त शब्दों के क्रियापद

6 अधिष्ठणे — मराठी

चार भाषाओं में प्राप्त क्रियापद		
1	अधिकरिक्कु	मलयाळम्
2	अदिकरित्तल्	तमिळ्
3	अधिकरिचु	तेलुगु
4	अधिकरिम्	कन्नड

दो भाषाओं में प्राप्त क्रियापद		
1	अधिकक्कप्पड्क	मलयाळम्
2	अधिकक्कपड्दतल्	तमिळ्

1	अदिगारशेलुत्तल्	तमिळ्
2	अधिकरणे	मराठी

1	अधिक्षेपिक्कु	मलयाळम्
2	अधिक्षेपिचु	तेलुगु

1	अधिगमिक्कु	मलयाळम्
2	अधिगमिचु	तेलुगु

1	अधिरोहिक्कु	मलयाळम्
2	अधिरोहिचु	तेलुगु

1	अधिबसिक्कु	मलयाळम्
2	अधिबसिचु	तेलुगु

मलयाळम में प्राप्त अतिरिक्त क्रियापद

मलयाळम	1 अधिचरिक्कु	2 अधिनयिक्कु
3	अध्यासिक्कु	

अप-उपसर्ग युक्त

चार भाषाओं में प्राप्त क्रियापद

1	अपहरिक्कु	—	मलयाळम्
2	अपहरित्तल्	—	तमिळ्
3	अपहरिचु	—	तेलुगु
4	अपहरिम्	—	कन्नड

३ भाषाओं में प्राप्त क्रियापद

1	अपमानिक्कु	—	मलयाळम्
2	अपमानणे	—	मराठी
3	अपमानवु	—	गुजराती

1	अपेक्षिक्कु	—	मलयाळम्
2	अपेक्षित्तल्	—	तमिळ्
3	अपेक्षिसु	—	कन्नड

२ भाषाओं में प्राप्त क्रियापद

1	अपनयिक्कु	—	मलयाळम्
2	अपनयिचु	—	तेलुगु

1	अपकरिक्कु	—	मलयाळम्
2	अपकरित्तल्	—	तमिळ्

1	अपलापिचु	—	तेलुगु
2	अपलापिसु	—	कन्नड

1	अपसरवु	—	गुजराती
2	अपसरना	—	तेलुगु

1	अपहसिक्कु	—	मलयाळम्
2	अपहसिचु	—	तेलुगु

विभिन्न भाषाओं में प्राप्त उपसर्गयुक्त शब्दों के क्रियापद

अन्य भाषाओं में प्राप्त अन्य क्रियापद मराठी 1 - अतिकरणें 2 - अतिदेणें

मलयालम	1 - अपक्रामिककुक	2 - अपगमिककुक	अ-उपसर्ग युक्त शब्दों से बने क्रियापद
	3 - अपतापिककुक	4 - अपध्वसिककुक	तमिळ् - 1 - अक्किरमित्तल् 2 - अबयङ्गात्तल्
	5 - अपवर्तिककुक	6 - अपस्मर्गिककुक	3 - अबयङ्गोडुत्तल् 4 - अबयमिडुत्तल्
	7 - अपहनिककुक	8 - अपहनविककुक	5 - अमुद पडैत्तल् 6 - अरिट्टित्तल्
	9 - अपाकरिककुक		7 - अगेंचित्तल्

तमिल में प्राप्त- अपचारपडुत्तल्

तेलुगु में प्राप्त- अपचयिचु

मराठी में प्राप्त- 1. अपकर्षणे 2. अपागणें

मलयाळम् - अन्यायपेदुक

तेलुगु - 1 - अपोरिचु 2 - अभयिचु

अति उपसर्ग से युक्त शब्दों से निर्मित क्रियापद

६ भाषाओं प्राप्त क्रियापद

1 - अनिक्रमिककुक	—	मलयाळम्
2 - अतिकिकरमित्तल्	—	तमिळ्
3 - अतिक्रमिंचु	—	तेलुगु
4 - अतिक्रमिमु	—	कन्नड
5 - अतिक्रमणें	—	मराठी
6 - अतिक्रमवु	—	गुजराती

कन्नड - असहिमु

मराठी - 1 - अखण्डणें 2 - अवालणें
3 - अभयदेणें 4 - अमुजणें

हिंदी - 1 - अछकना 2 - अलगाना
3 - अलसाना

पंजाबी - 1 - अकना 2 - अझकना

२ भाषाओं में प्राप्त क्रियापद

1 - अतिशयित्तल्	—	तमिळ्
2 - अतिशयिचु	—	तेलुगु

नेपाली - अफाल्नु

अन-उपसर्ग युक्त शब्दों से बने क्रियापद

तमिल - अनार्दत्तल्

मराठी - अनारणें अमानणें

हिंदी - अनखाना

मलयाळम् 1 - अतिकम्पदल् 2 - अतिचरित्तल्

तमिल - अनर्त्तपडुत्तल्

भारतीय भाषाओं का परिचय

कोश के इस प्रथम-खण्ड में सभी भारतीय भाषाओं में प्राप्त 'अ' अक्षर से आरम्भ होने वाले उपसर्गों से युक्त शब्दों का अर्थ युक्त संकलन है। 'अ' से आरम्भ होने वाले अन्य शब्दों का संकलन अभी शेष है। उन शेष शब्दों की संख्या प्रथम-खंड में आये शब्दों से लगभग दोगुनी होगी। प्रथम खण्ड में आये शब्द संस्कृत-प्रधान हैं। भारत की भाषाओं में प्राप्त शब्दों में संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत, अपभ्रंश, देशज, विदेशी शब्द भी हैं। विदेशी शब्दों में अरबी, फारसी के अतिरिक्त अधिसंख्य अंग्रेजी तथा सीमित संख्या में योरोप की अन्य भाषाओं से ग्रहीत शब्द हैं। दक्षिण की भाषाओं में उनके जन्मकाल से चले आ रहे द्रविड़ भाषा के शब्द भी हैं। इस प्रकार 'अ' से आरम्भ होने वाले प्रथम तथा द्वितीय दोनों खण्डों के शब्दों का समन्वित रूप से विवेचन, विश्लेषण यहाँ किया जा रहा है।

संविधान में स्वीकृत सारी भाषाओं के शब्द कोशों से शब्द संकलित करते समय असंख्य शब्द ऐसे मिले जो भिन्न-भिन्न भाषाओं की संपत्ति होते हुए भी परस्पर समान हैं। उनके उच्चारणों में भले ही कभी कभी भिन्नता हो, उनकी व्युत्पत्ति में एकता है। उत्तरी भाषाओं में प्राप्त शब्द समानता स्वाभाविक प्रतीत हुई, क्योंकि ये भाषाएँ एक ही परिवार से संबंध रखती हैं। परन्तु दक्षिणी भाषाओं में प्राप्त सौ में साठ शब्द जब उत्तरी भाषाओं में प्राप्त शब्दों से समानता रखने वाले मिले तो अत्यन्त आश्चर्य हुआ। शब्दों की यह साठ प्रतिशत समानता चागें भाषाओं, अर्थात् मलयाळम्, कन्नड, तमिल और तेलुगु को सम्मिलित मान कर है। तथा इसमें संस्कृत, प्राकृत के अतिरिक्त सभी प्रकार के विदेशी शब्दों को मिलाकर है। विश्लेषण करने पर प्रत्येक भाषा के शब्द भण्डार में परस्पर भिन्नता है। अर्थात् किसी में संस्कृत से आगत शब्द अधिक हैं, किसी में उर्दू फारसी शब्द।

दक्षिण की अन्य भाषाओं की अपेक्षा मलयाळम् में शब्द संख्या सबसे अधिक है। 'अ' से आरम्भ होने वाले शब्दों की संख्या शब्द कोश में ग्यारह हजार से अधिक मिली। विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि अधिकाधिक शब्द संस्कृत के अथवा संस्कृत शब्दों का आधार लेकर निर्माण किये गये हैं। राजनीतिक इतिहास के अध्ययन से पता चला कि उस प्रदेश के राजा स्वयं भी विद्वान् थे तथा विद्वानों को ग्रंथ-रचना के लिये प्रश्रय भी देने थे। स्वतंत्रता से पहले तक इस प्रदेश का पर्याप्त भाग त्रावणकोर कोचीन राज्य में था।

कन्नड का पुरातन साहित्य पर्याप्त समृद्ध था। कन्नड प्रदेश का उत्तरी भाग महाराष्ट्र को स्पर्श करता है और दक्षिणी भाग मलयाळम् भाषी प्रदेश से। अतः महाराष्ट्री तथा मलयाळम् का भी कन्नड पर प्रभाव है। आज का कर्नाटक स्वतंत्रता से पहले के मैसूर राज्य में मद्रास प्रांत से कुछ जिले मिलाकर बना है। जब टीपू सुलतान मैसूर का शासक था तब अवश्य कुछ फारसी अरबी के शब्द आये होंगे, परन्तु उससे पहले और बाद में भारतीय संस्कृति का प्रभाव होने से संस्कृत का प्रभाव रहा। अतः संस्कृत, प्राकृत शब्द पर्याप्त हैं।

तेलुगु प्रदेश हैदराबाद रियासत में मद्रास प्रान्त से जिले मिलाकर बना है। रियासत की शासकीय भाषा उर्दू थी। यह वह प्रदेश है जो हिन्दी तथा उर्दू भाषा के इतिहास में दक्षिणी-हिन्दी और दक्षिणी-उर्दू दोनों के वर्तमान विकास का स्थान माना जाता है। तेलुगु में स्वभावतः फारसी-अरबी शब्दों से उर्दू में ग्रहीत शब्दों की अधिकता है।

तमिल के विषय में सामान्य जन का अनुमान यह है कि यह उत्तरी प्रभाव से अछूती है। राजनीतिक कारणों से टेट तमिल शब्दों अथवा उनसे निर्मित नये शब्दों का आग्रह जनस्वयंकार में बढ़ाने का उपाय किया जाने लगा है। अन्यथा शब्द-कोश कुछ और ही संकेत करता है। मद्रास विश्व विद्यालय द्वारा प्रकाशित 'तमिल लैक्सिकन' प्रामाणिक शब्द-कोश है। जिसमें 'अ' से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या 5504 है, इनमें 2013 शब्द द्रविड़ मूल के हैं तथा 3491 शब्द वे हैं जो उत्तरी भाषाओं में मिल जाते हैं। गणित की दृष्टि से यह प्रतिशत 63 है। लैक्सिकन का एक पूरक-खंड भी है। उसमें द्रविड़ मूल के कुछ शब्द और भी हैं। दोनों कोशों के द्रविड़ शब्द जोड़ दिये जायें तो प्रतिशत संभव है साठ से कम हो जाय।

उक्त भाषाओं के पुरातन इतिहास का अध्ययन करने पर पता चलता है कि दक्षिणी और उत्तरी भाषाओं के आरंभिक विकास में लगभग पहले पंद्रह सौ वर्षों में पूर्ण समानता है। क्योंकि जिस प्रकार उत्तरी लिपियों का विकास अशोक कालीन

ब्राह्मी लिपि की विभिन्न शैलियों से है, ठीक उसी तरह दक्षिणी लिपियों का भी है। पार्सल तथा विभिन्न प्राकृतों का प्रचार-प्रसार जिस प्रकार ईसा से पहली द्विशताब्दी में उत्तर में मिलता है ठीक उसी प्रकार और उसी समय दक्षिण में भी हुआ। क्योंकि अशोक के समय में बौद्ध धर्म-प्रवर्तन के लिए और उनके पीछे-पीछे जैनधर्म के प्रचार के लिए असंख्य साधु-संन्यासी वहाँ गये। उक्त दोनों धर्मावलम्बियों की भाषा उत्तर भारत के उस समय के अवध और मगध प्रदेश की थी। इन भाषाओं के शब्द संस्कृत शब्दों से मिलते जुलते थे। तथा इन दोनों धर्मावलम्बियों ने अपने धर्म के अनुकूल ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे।

जब ये लोग दक्षिण में गये उस समय तक उत्तर भारत की तरह वैदिक कर्मकाण्ड, उपनिषद्, तथा रामायण, महाभारत, भागवत और पुराण, स्मृतियाँ, ज्योतिष, आयुर्वेद, साहित्यिक लक्षण ग्रंथों आदि का प्रचार प्रसार वहाँ हो चुका था। इन सबकी मूलभाषा संस्कृत थी और जन साधारण को बुद्धिगम्य करने के लिए भिन्न-भिन्न जन भाषाओं में इनका प्रचार हो चुका था।

इस प्रकार भाषा-विकास क्रम में मध्यप्राकृत काल या प्राकृत काल तक सारे भारत का भाषा-क्रम एक सा है। उसके पश्चात् उत्तर में अपभ्रंश काल आरंभ होता है और दक्षिण में पुरातन तमिल से पृथक होकर मलयालम, कन्नड, तेलुगु आदि का काल आरंभ होता है।

उक्त विवेचन के संदर्भ में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रत्येक भाषा का पृथक पृथक संक्षिप्त सा परिचय दे दिया जाय। अतः आगे प्रत्येक भाषा का सांकेतिक परिचय दिया जा रहा है। जिस पर विचार करने से शब्द चक्र के कालगन और देशगत प्रवर्तन का आभास होने में सहायता मिलेगी।

संस्कृत-भाषा-परिचय

भौगोलिक दृष्टि से आधुनिक काल में संस्कृत भारत के किसी भी भूखंड में बोली जाने वाली भाषा नहीं है। परन्तु भारतीय संविधान में परिगणित भारतीय भाषाओं की सूची में इसका नाम है तथा उसे सर्वाधिक सम्मान प्राप्त है। संविधान में स्पष्ट किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर राजभाषा अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द लेने के पश्चात् भी यदि आवश्यकता पूरी न हो तो 'शब्द पूर्ति' में संस्कृत से सहायता ले। अर्थात् यह माना गया कि संस्कृत में सब प्रकार के भावाभिप्रेत्यन के लिये उपयुक्त शब्द-निर्माण की असीम क्षमता है।

संस्कृत का भारतीय परिवार:- संस्कृत का भारतीय रूप अद्य से लगभग चार सहस्र वर्ष पहले ऋग्वेद की 'छांदस' भाषा से आरंभ हुआ और धीरे-धीरे लौकिक रूप लेकर संस्कृत कहलाया। उसके पश्चात् देश और काल भेद से अनेक पुत्रियों, पौत्रियों एवं प्रपौत्रियों के रूप में सारे भारत में फैल गया। इतना ही नहीं भारत से पूर्व, दक्षिण-पूर्व और दक्षिण स्थित देशों की भाषाओं की नसों में भी उसके रक्त का प्रवाह मिलता है।

भारत में उस परिवार ने संस्कृत, पालि, अनेक प्राकृतों, फिर अनेक अपभ्रंशों का रूप धारण कर प्रधानतः उत्तर भारत में प्रचलित भाषाओं के रूप में विस्तार पाया। साधारणतया काल की दृष्टि से पुरातन भाषारूप ईसा पूर्व पाँचवीं शती तक माना जाता है। तत्पश्चात् स्थूल रूप से पाँच-पाँच सौ वर्षों तक प्राकृत और अपभ्रंश काल चले। पिछले लगभग हजार वर्षों के समय को आधुनिक भाषाएँ अपने जन्म, बाल्यकाल और यौवन में विभाजित करती हैं। यद्यपि पिछले ढाई हजार वर्षों में रूप कितने ही बदले हैं; परन्तु इनकी पाचन शक्ति को बल संस्कृत से ही प्राप्त होता रहा है। वही इनके लावण्य और माधुर्य का आधार है।

व्याकरण:- संस्कृत का उत्स वेद भाषा ही है। परन्तु उसके रूप में अंतर वेद काल में ही आने लगा था। स्वयं ऋग्वेद के ही आदि तथा अंत की भाषा मध्य भाग की भाषा से भिन्न है। अन्य वेदों की भाषाओं में तो अन्तर है ही। वेद श्रुति-ग्रंथ हैं। वे छंद बद्ध हैं। उनका सस्वर पाठ किया जाता था। स्वरों के उदात्त-अनुदात्त-स्वरित उच्चारण नियम थे। यह सब होते हुए भी भाषा में अन्तर आ गया। यह अन्तर व्याकरण स्तर पर कम ध्वनि स्तर पर अधिक था। कारण यही प्रतीत होता है कि भाषा की ध्वनि भिन्नता का देश-काल की भिन्नता से नैसर्गिक संबंध है। वेदों के पश्चात् उनके विधि-विधान और

व्याख्या परक ग्रंथ ब्राह्मण और आरण्यक आदि बने। पहले वह अनेक देवों की स्तुति की भाषा थी। उपनिषदों तक आते-आते उसमें 'एकोदेव' की खोज प्रधान हो गयी। कर्मकाण्ड अब ज्ञानकाण्ड की ओर मुड़ गया। स्तुति का स्थान 'अथातो ब्रह्म जिज्ञासा' ने ले लिया। उधर वह भारत के विस्तृत भाग में फैल गयी। उसमें रूपान्तर हुआ तो उसके रूप को स्थिर करने के लिये व्याकरणकार उत्पन्न हुए, जिन्होंने उसे संस्कारित किया।

व्युत्पत्ति के अनुसार संस्कृत शब्द का अर्थ संस्कारकृत, संस्कारित, परिष्कृत अथवा परिमार्जित होता है। तदनुकूल भाषा के संदर्भ में इसका अभिप्राय हुआ सुधरी हुई, शुद्ध भाषा। आधुनिक काल में पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी व्याकरण के नियमों के अनुकूल भाषा के शुद्ध रूप को संस्कृत माना जाता है। पाणिनि का काल ईसा पूर्व चार सौ से सात सौ शती के मध्य का अनुमान किया जाता है। उन्होंने अपने से पहले के आठ नौ शब्द-शास्त्रियों का नाम भी लिया है, जिनके बनाये नियमों का पाणिनि ने अपने कार्य में उपयोग किया। अपने व्याकरण में उन्होंने पांच सौ से अधिक ग्रामों के नाम, निवासियों के पुरातन-नवीन गोत्रों के शब्दों, व्यापारी, किसान, बढई, गंगरेज, ग्वाले, चरवाहे आदि समस्त व्यवसायी नामों, प्रचलित सिक्कों आदि के नामों तथा प्रचलित क्रियाओं के मूल रूपों इत्यादि सहस्रों शब्दों को एकत्र किया। भूगोल की दृष्टि से पश्चिम में सौवीर अर्थात् सौराष्ट्र तथा दक्षिण में गोदावरी तक प्रचलित शब्दों का ज्ञान प्राप्त किया। फिर उन शब्दों को व्याकरण के नियमों अर्थात् सूत्रों में बाँधा। इस प्रकार उस समय तक की वेदभाषा में जो भी रूपान्तर आ गया था उसका संस्कार पाणिनि ने कर दिया। वेद छंदों में रचित है, अतः उस भाषा का नाम छंदम है। छंदम से भिन्नता प्रकट करने के लिये, अपने द्वारा व्याकरण बद्ध भाषा को पाणिनि ने लौकिक कहा है। पाणिनि ने अपने समय की उस लौकिक भाषा के देशानुकूल उत्तरी, मध्यदेशीय तथा पूर्वी भेद बताये हैं।

संस्कृत-साहित्य:- संस्कृत साहित्य के वैदिक तथा लौकिक दो विभाग किये जाते हैं। वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण तथा उपनिषद ग्रंथ सम्मिलित हैं। चार वेद हैं यथा ऋग्वेद, यजु, साम तथा अथर्व। ऋग्वेद में देवस्तुति और उपासना के 1028 सूक्त हैं। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं, इसमें बहुत से मंत्र ऋग्वेद के हैं। यजुर्वेद में अधिकांश पद्य तथा क्वचित् गद्य है। मंत्र यज्ञ विधान में संबद्ध हैं। सामवेद में 75 मंत्र अपने तथा शेष ऋग्वेद के हैं। यह गान की दृष्टि से रचित है। इसका छटा भाग गद्य, शेष पद्य है। अथर्व में जादू टोना, वशीकरण तथा राष्ट्रप्रेम के सूक्त हैं। ब्राह्मण प्रत्येक वेद के अलग-अलग हैं। इनमें कर्मकाण्ड के प्रश्नों का समाधान है, तथा उनकी पोषक कथाएँ हैं। आरण्यक ऋथवाद परक हैं। उपनिषद आरण्यकों से संबद्ध हैं। इनमें ईश्वर, जीव तथा प्रकृति से सम्बद्ध ज्ञान है, जिससे शाश्वत आनन्द अथवा मुक्ति मिले। ये संख्या में 108 हैं। विभिन्न संप्रदायों ने इनके भाष्य किये हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से ये उत्कृष्ट ग्रंथ हैं।

वेदों के शिक्षा, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष तथा कल्प ये छ वेदांग हैं। जिनका पढ़ना आवश्यक था। शिक्षा में वेदध्वनि विवेचन, व्याकरण में पद-विश्लेषण, छंदग्रंथों में मंत्र-पद विभाजन, निरुक्त में वैदिक शब्दों के अर्थों की व्याख्या है। ज्योतिष में काल-ज्ञान, मीमांसा और कल्प में कर्मकाण्ड विवरण है। इनके अतिरिक्त प्रत्येक वेद के पृथक पृथक प्रातिशाख्य हैं। जिनमें व्याकरण का आरंभिक ज्ञान है। ऐतिहासिक दृष्टि से विद्वानों ने इनके निर्माण काल भिन्न-भिन्न माने हैं। वेदकाल ईसा से हजारों साल पुराना है। पुरातन उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 1000 से 200 ईसा पूर्व अवश्य है।

लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक दृष्टि से संस्कृत में प्रणीत महाकाव्य 'महाभारत' और 'रामायण' का सर्वाधिक महत्त्व है। महाभारत में अठारह पर्व हैं। इसमें कौरव-पांडव युद्ध के अतिरिक्त अनेक आख्यान भरे पड़े हैं। विषय-वस्तु द्वापर युग की है; अनेक परिवर्धनों सहित इसने ईसा पूर्व तीसरी-चौथी शती तक अंतिम रूप ले लिया होगा। श्री मद्भगवद्गीता इसी का एक अंश है। महाभारत को पंचम वेद कहते हैं। इसमें मनुष्य जीवन से सम्बद्ध सभी प्रकार की सामग्री मिलती है। नल, शकुन्तला, सावित्री आदि कथाएँ इसमें हैं। रामायण में राम का चरित्र वर्णन है। यह भी आख्यान ग्रंथ है। वैदिक छंदों से बाहर, छंदों की यह प्रथम रचना है। इसमें अनेक आख्यान हैं।

महाकाव्य के उत्तम रूप का आरंभ रामायण से होता है। इसके पश्चात् बुद्धचरित, सौन्दरानन्द, रघुवंश, कुमारसंभव, किरातार्जुनीय, शिशुपालवध तथा नैषधीय चरित आदि अनेक उत्तम श्रेणी के काव्य ग्रंथ हैं। संस्कृत के महाकाव्यों के आदर्श पर प्राकृत में भी 'सेतुबन्ध', 'गौड़वध' आदि महाकाव्य रचे गये।

खण्ड काव्य में नायक के चरित्र का एक अंश होता है। कालिदास का मेघदूत इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके अनुकरण पर 'पदन दूत, हंस संदेश' लिखे गये। इनके अतिरिक्त शृंगारतिलक, अमरुकशतक, आर्यासप्तशती, गीतगोविन्द आदि अगणित खण्ड काव्य संस्कृत में हैं।

नाटक रचना में कवि की पद्य तथा गद्य दोनों प्रकार की कुशलता की परीक्षा हो जाती है। अतः यह कवि के लिये निकषा कहलाता है। पतंजलि रचित महाभाष्य में नाटक-सर्जन के संकेत मिलते हैं। काव्य विधा में नाटक को 'रम्य' माना गया है। नाटक रचना के पूरे विधि विधान का ज्ञान कराने वाला अप्रतिम ग्रंथ भरतमुनि का 'नाट्य शास्त्र' है। यह रचना ईसा की दूसरी शती की मानी जाती है। अपनी सर्वांगपूर्णता और उत्कृष्टता की दृष्टि से यह नाट्य वेद माना जाता है। नाटक के क्षेत्र में इसके बाद के बीसियों उत्कृष्ट नाटक संस्कृत में ऐसे मिलते हैं, जो आज तक बेजोड़ माने जाते हैं। कालिदास का 'अभिज्ञान शाकुन्तल' तो जगत्प्रसिद्ध है। कालिदास ने अपने से पहले भास, कविपुत्र, सौमिल्ल आदि नाटककारों की भी चर्चा की है। आज भी स्वप्न वासवदत्ता, नागानन्द, उत्तररामचरित, मालतीमाधव, वेणीसहार, अनर्घराघव, मुद्राराक्षस, प्रबोध चन्द्रोदय, कर्पूरमंजरी आदि अनेक नाटक विद्वत्प्रिय हैं।

गद्य का प्रथम रूप यजुर्वेद में मिलता है। तत्पश्चात् ब्राह्मण ग्रंथों, आख्यानको और उपनिषदों में सरल, सुबोध गद्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। आगे चलकर आचार्यों ने गद्य की समास प्रचुर शैली और ओजगुण आदि विशेषताएँ निश्चित कीं। इस दृष्टि से दशकुमार चरित, हर्ष चरित तथा कादम्बरी आदि उत्तम गद्य की ललित रचनाएँ सामने आईं। साथ ही अनेक कथा ग्रंथ भी लिखे गये। बृहत्कथा मजरी, कथासरित्सागर पेशाची प्राकृत में गुणादय की बृहत्कथा पर आधिरत ग्रंथ थे। बोधिसत्त्व के चरितों के कथा संग्रह भी लिखे गये।

साहित्यिक ज्ञान वृद्धि के कथा संग्रह वैताल पंचर्वाशिका, मिहासन द्वित्रिंशिका, शुक्ल सप्तशती आदि में कल्पना की कवित्वमयी उड़ान भी है। नीतिकथा में पंचतंत्र, हितोपदेश के तो सैकड़ों वर्ष पूर्व समाप्त भरी भाषाओं में अनुवाद हुए। नीति कथा के असंख्य ग्रंथ बौद्ध तथा जैन विद्वानों ने भी लिखे, जिनमें कथाओं के द्वारा अपने अपने मंत्रदायक सिद्धान्तों का समर्थन किया गया था। तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि बहुधा एक ही बहु प्रचलित कथा को अपने मन्त्रदायक दृष्टि से भिन्न-भिन्न रूप दे दिया गया है।

लक्षण ग्रंथ आरंभ में अलंकारों को महत्व देने थे। धीरे धीरे शब्द शक्ति आदि अन्य महत्वपूर्ण बातों का विवेचन भी हुआ। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में दृश्य काव्य का गहरा विवेचन है। काव्य के सिद्धान्तों के विवेचन में दण्डी का काव्यादर्श, आनन्दवर्धन का ध्वन्यालोक, मम्मट का काव्य प्रकाश, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण तथा जगन्नाथ का रस गंगाधर आज तक अनुपम ग्रंथ माने जाते हैं।

काव्य-इतिहास, धर्म-सिद्धान्त आदि मिश्रित एक अन्य प्रकार के कथा ग्रंथ संस्कृत में रचे गये जिन्हें पुराण कहते हैं। इनकी संख्या अटारह है, इसके अतिरिक्त उपपुराण भी हैं। इनका रचनाकाल ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में लेकर आठवीं शताब्दी तक है। पुराणों के कर्ता 'व्यास' माने जाते हैं। इनमें सृष्टि की उत्पत्ति तथा संहार; मन्वन्तर वर्णन, सूर्य तथा चंद्रवशी राजाओं के चरित आदि वर्णित हैं। इनमें भारत के भूगोल, इतिहास, पुराणत्व, मन्वन्तर, संस्कृति ता हैं ही, इनके अतिरिक्त ज्योतिष, शरीरविज्ञान, काव्य तथा व्याकरण शास्त्र की सामग्री भी है। पुराणों में 'भागवत पुराण' अतिप्रसिद्ध है।

दर्शन के मूल तत्वों के बीज तो वेदों में मिल जाते हैं। उत्तर कालीन वैदिक साहित्य में सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा और वेदान्त, इन दर्शनों पर अनेक ग्रंथ, भाष्य आदि रचे गये। जैन तथा बौद्ध दर्शन पर भी असांख्य ग्रंथ हैं। फिर **मानवस्य च सुख** का संभवतः बड़ा संस्करण मनुस्मृति है, जिसका निर्माण काल ईसा की दूसरी तीसरी शती माना जाता है। इसके अतिरिक्त याज्ञवल्क्यस्मृति, नारदस्मृति, पाराशरस्मृति भी प्रसिद्ध ग्रंथ हैं।

उपवेदः— वेदों और वेदांगों के अतिरिक्त चार उपवेद हैं। आयुर्वेद, गांधर्व वेद, धनुर्वेद, अथर्ववेद। आयुर्वेद के चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आज भी प्रमाण ग्रंथ माने जाते हैं। जिनका समय ईसा पूर्व दूसरी शती समझा जाता है। गांधर्व वेद का बीज सामवेद में ही है। भरत के नाट्यशास्त्र में इसका विशेष विवरण प्राप्त है। धनुर्वेद पर कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं। अथर्ववेद पर कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। इसमें राज्य-प्रबंध, राजनीति, समाज का आर्थिक सघटन आदि सभी विषय सम्मिलित हैं।

कोशग्रंथः- वैदिक शब्दों का कोश निघण्टु था, जिसकी व्याख्या निरुक्त कहलाती है। इस परंपरा में लौकिक भाषा में अनेक कोश बने। ईसा की चौथी-पांचवीं शताब्दी में बना 'अमर कोश' आज भी उद्धृत किया जाता है।

संस्कृत बाह्यः- उक्त विवरण के अनुसार ज्ञात होता है कि मानव जीवन से सम्बन्ध रखने वाला कोई ऐसा विषय नहीं, जिस पर संस्कृत में ग्रंथ प्राप्त न हों। परिणाम स्वरूप भारत की किसी भी भाषा को जब कभी किसी भी विषय के ज्ञान की सामग्री की आवश्यकता पड़ी, उसे तत्काल सरलता से उपलब्ध हो गयी। साथ ही साथ अभिव्यक्ति के उपयुक्त शब्दावली भी मिल गयी। यही कारण है कि कोई भारतीय भाषा ऐसी नहीं जिसमें संस्कृत के शब्द प्रचुर मात्रा में न हों।

संस्कृत की ध्वनियाँ:- पाणिनी ने वर्णमाला के अक्षरों के उच्चारण स्थान बताये हैं। उन्हीं के अनुसार उच्चारण करना शुद्ध माना जाता है। वे इस प्रकार हैं-अ, क वर्ग, ह तथा विसर्ग का कण्ठ, इ, च वर्ग, य, श का तालु; ऋ, ए वर्ग, श, ष का मूर्धा, लृ, त वर्ग, ल, स दन्त; उ, प वर्ग तथा उपाध्यायीय ओष्ठ, ए, ऐ कण्ठतालु तथा ओ, औ का कण्ठओष्ठ स्थान होता है।

संस्कृत की लिपि:- ईसा की दसवीं शताब्दी में ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि विकसित हुई। प्रायः इस लिपि में संस्कृत का सारा याज्ञम्य प्रकाशित हुआ है। इसके अतिरिक्त छोटे-मोटे ग्रंथ भारत की अन्य लिपियों में भी मिलते हैं। ईसा की सातवीं सदी में ब्राह्मी की दक्षिणी शाखा से पल्लव-ग्रंथी लिपि अस्तित्व में आ गयी थी। तमिल-नाडु में संस्कृत के लिये वही लिपि उपयोग में लगी जाती रही है। अब कुछ समय से संस्कृत के लिये नागरी का उपयोग भी होने लगा है।

पालि भाषा का परिचय

पालि भाषा का क्या स्वरूप था यह अब बौद्धधर्म के ग्रंथों में ही शेष है। जो उत्तरपूर्व में भूटान, उत्तर में तिब्बत तथा दक्षिण में प्रधानतया श्रीलंका में देखने सुनने को मिल सकता है। श्रीलंका में कुछ महाविद्यालयों में भी इस का अध्ययन किया जाता है। हमारा विश्वास है कि इण्डोनेशिया की 'भाषा' में भी उसके चिह्न मिलते होंगे।

जन्म की दृष्टि से यह संस्कृत की अग्रजा है। क्योंकि इसमें 'छादस' अर्थात् वैदिक भाषा की ध्वनियों के पद-चिह्न मिलते हैं, जो पाणिनी की संस्कृत में त्याग दिये गये थे। यद्यपि उनमें से कुछ ध्वनियों के उच्चारण जन भाषाओं में अब तक भी प्रचलित हैं। इस कोश की भूमिका में 'संस्कृत-परित्यक्त जन भाषाश्रित वैदिक ध्वनियाँ' शीर्षक में उनका संकेत किया गया है। उनमें से 'ळ ड' तथा 'ळ ढ' का संकेत स्पष्ट कर दिया गया है। दक्षिणी-भाषाओं में से तमिळ के 'र-र' के वर्णों युक्त शब्दों के उदाहरण भी दिये हैं। ये उच्चारण और इनके द्वित्व रूप मलयाळम् तथा कन्नड में प्रयुक्त शब्दों में भी मिलते हैं। तेलुगु भाषा में वे कहीं-कहीं ही मिल पाते हैं।

'र-र' के शीर्षक के अन्तर्गत उदाहरण देते समय यहाँ हमने उन की भाषा-वैज्ञानिक खोज की चर्चा नहीं की है। यहाँ संस्कृत के दो प्रकार के शब्द दिये हैं। एक वे जिनमें 'त्' को और दूसरे वे जिनमें 'ल्' को 'रू' हुआ है। संभवता 'रू' ध्वनि 'लृ' की स्थानापन्ना है। तर्क शास्त्र में 'अनुमान' को भी 'प्रमाण' माना जाता है। हमारे अनुमान का प्रमाण यह है कि 'लृ-त्-ल' तीनों का उच्चारण स्थान 'दन्त्य' है। अतः 'त्-ल्' का अर्थ 'रू' प्रयोग संभवतः पुरातन काल की 'लृ' का ही अवशेष है।

काल की दृष्टि से पाणिनी का काल महात्मा बुद्ध के आस-पास का है और देश की दृष्टि से पाणिनी के कार्यस्थल से बुद्ध का जन्म स्थान डेढ़ हजार किलोमीटर से अधिक दूर था। पाणिनी जिस भाषा का संस्कार कर रहे थे उसे उन्होंने 'लौकिक' कहा है। यद्यपि उसके प्राच्य अर्थात् 'पूर्वीय' रूप का भी संकेत किया है। परन्तु बुद्ध का देश संभवतः उनके प्राच्य से अधिक दूर प्राच्य था। अतः वहाँ तक का शब्द-संकलन वे नहीं कर पाये होंगे।

प्राकृत भाषा का परिचय

आधुनिक काल में ईसा की प्रथम पाँच छः शतियों तक हिमालय और विन्ध्याचल पर्वतों के मध्यवर्ती भाग में प्रचलित भाषा का नाम प्राकृत कहलाता है। जो देश-भेद से अनेक नामों से पुकारी जाती थी। नेमिसाधु तथा कालिदास 'प्रकृति' का अर्थ 'लोक' या 'जनता' मानते थे अतः 'प्राकृत' का अर्थ 'जनभाषा' या 'लोकभाषा' हुआ। 'जनभाषा' को साहित्यिक रूप लेते-लेते सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं।

भाषा शास्त्रीय विद्वान 'पैशाची, शौरसेनी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री' आदि प्राकृत के कई भेद गिनाते हैं। 'पैशाची' वर्तमान कश्मीर के किसी भाग में चलती थी, जिसके पुरातन ग्रंथ 'बुड् कथा' (वृहत्कथा) का नाम कथा साहित्य में सर्वोपरि माना जाता है। इसके संस्कृत में रूपान्तरित ग्रंथ 'वृहत्कथा मंजरी, कथा सरित्सागर' आदि मिलते हैं जो प्रमाणित करते हैं कि 'प्राकृत' में इतने श्रेष्ठ रचनाकार थे कि जिनके ग्रंथों का अनुवाद करने में संस्कृत विद्वानों ने भी गौरव अनुभव किया।

शौरसेनी का प्रभाव मध्य देश में महाराष्ट्र तक और पूर्व में संभवतः वाराणसी तक था। शूरसेन जनपद का केन्द्र मथुरा था। 'शौरसेनी' में अनेक ग्रंथ लिखे गये होंगे परन्तु वे विदेशी आक्रमणों में नष्ट हो गये। 'अर्धमागधी' का क्षेत्र 'मागधी' और 'शौरसेनी' के बीच का था। वर्धमान महावीर ने अपने उपदेश इसी भाषा में दिये। अतः वह 'प्राकृत' 'आर्ष-प्राकृत' कहलायी। जैनियों का साहित्य बारह आगम-अंगों तथा बारह उपांगों में विभक्त है, जिनमें से प्रत्येक में अनेक ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों की भाषा पर भाषा विज्ञानी 'शौरसेनी' के पूर्वी अंचल का प्रभाव मानते हैं।

मागधी प्राकृत संभवतः बिहार की अर्वाचीन 'मगही' का पूर्व रूप थी। बुद्ध ने अपने उपदेश 'मागधी' में ही दिये होंगे जिसका नाम 'पालि' भाषा पड़ा।

महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रसार क्षेत्र वर्तमान महाराष्ट्र से अधिक विस्तृत था। इसमें अनेक ग्रंथ लिखे गये, जिनके संस्कृत अनुवादों का नाम 'रावणवध, सेतुबंध' आदि प्रसिद्ध है। कश्मीर के राजा प्रवरसेन और कन्नौज के राजा यशोवर्मन के आश्रित कवियों की रचनाएं 'महाराष्ट्रीय प्राकृत' में हुईं, जिनसे ज्ञात होता है कि यह प्राकृत भारत के धुर-उत्तर तक आदृत थी। गाहा सप्तसई (गाथा सप्तशती) दक्षिण के सातवाहन राजा के समय में रची गयी। अतः महाराष्ट्री दक्षिण तक भी आदृक् थी। 'गाथा सप्तशती' के अनुकरण पर तो संस्कृत में 'आर्या सप्तशती' भी लिखी गयी।

विभिन्न प्राकृतों की पारिवारिक समानता—महाराष्ट्रीय प्राकृत' के ग्रंथों के रचयिताओं का उत्तर में कश्मीर और कन्नौज एवं दक्षिण में सातवाहन राजाओं के यहाँ आदर पाना यह सिद्ध करता है कि यह भाषा उत्तर से दक्षिण तक आदर पाती थी। अर्थात् अन्य प्राकृतों के प्रदेश में भी महाराष्ट्री प्राकृत ममझी जाती थी, जो यह सिद्ध करती है कि प्राकृतों में परस्पर समानता थी।

प्राकृतों की ध्वनि समानता तथा भिन्नता:—

1. सभी प्राकृतों में संस्कृत के 'ऋ, लृ' तथा इन अक्षरों के दीर्घ रूप समाप्त हो गये थे।
2. सभी प्राकृतों में संस्कृत विसर्गों (ः) की उपयोगिता नहीं रही।
3. 'क' से 'म' तक के सभी स्पर्श वर्ण समस्त प्राकृतों में हैं, परन्तु अनुनासिकों में 'न' के स्थान पर 'ण' आदि का व्यत्यय है।
4. संयुक्त व्यंजनों का अभाव हो गया। देशकालानुसार किसी एक प्राकृत में संयुक्त व्यंजन से किसी एक व्यंजन का द्वित्व यथा-सप्त-सत्त आदि; अथवा मध्य स्वरगम द्वारा विभक्त यथा इद्र-इंदर, नासत्त-दसर्तीय; अथवा किसी में संयुक्त व्यंजन में से एक का लोप कर दूसरे में कोई स्वर लगाने आदि के परिवर्तन हुए। इस प्रकार संस्कृत के संयुक्त वर्णों के उच्चारण आदि को स्थानीय प्रकृति द्वारा सरलीकृत किया गया।
5. किसी प्राकृत में द्वित्व व्यंजन के पूर्व दीर्घ-स्वर को हस्य किया गया।
6. 'श, ष, स' में से 'ष' का सभी प्राकृतों में अभाव है, परन्तु किसी प्राकृत में केवल 'स' है, किसी में 'श' है।
7. किन्हीं प्राकृतों में 'ऐ', 'ओ' का अभाव है किन्हीं में नहीं। वैदिकी भाषा में इनके 'अइ, अउ' मिथ उच्चारण चलते थे।
8. वैदिकी भाषा में 'ए, ओ' के स्वरूप जो अब परिवर्धित देवनागरी लिपि में 'ए, ओ' लिखे जाते हैं, शौरसेनी आदि प्राकृतों में प्रचलित तो रहे, परन्तु इनके लिए स्वर-अक्षर या इनकी मात्रा प्रचलित नहीं मिलती।

प्राकृत ग्रंथों का स्वरूप:- वास्तव में प्राकृत रचनाओं में संस्कृत, तद्भव तथा देशज तीनों प्रकार के शब्दों का सम्मिश्रण है। प्राकृत के जिन शौरसेनी आदि भेदों की चर्चा है, वह इनके साहित्यिक रूप की है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राकृत शब्दरूपों और उनके मूलरूपों को समझने की कुंजी संस्कृत है। प्राकृत के व्याकरण भी संस्कृत भाषा में हैं। वे ही बताते हैं कौन से प्राकृत शब्द का संस्कृत शब्द रूप क्या है, क्योंकि अधिकतर प्राकृत शब्द संस्कृत के तद्भव रूप हैं। कुछ शब्द वैदिकी भाषा से सीधे आये हुए भी हैं।

अपभ्रंश भाषा का परिचय

संस्कृत भाषा-विद्वानों की दृष्टि से जिस भाषा को अपभ्रंश कहते हैं, भाषा विज्ञानियों के अनुसार वह भाषा का विकास है। मूलतः यह शब्द पाणिनीय व्याकरण के महाभाष्यकार पतंजली ने ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में 'अपभ्रष्ट' नाम से प्रयोग किया था। पाणिनि के समय की जनभाषा जिसे लौकिक नाम दिया गया था, पतंजली के समय तक आते-आते विकृत हो चुकी होगी, अतः उन्होंने इसे 'अपभ्रष्ट' नाम दिया होगा। परन्तु धीरे-धीरे यह भाषा विकसित होकर साहित्य सृजन के काम आने लगी और ईसा की बारहवीं शती तक तो इसका प्रयोग समस्त उत्तर भारत में होने लगा। इसका प्रमाण है मैथिल कोकिल महाकवि विद्यापति का काव्य। वे इसके शब्दों को 'देसिल बयना' अर्थात् 'देशीय वचन' कहते, तथा इनका स्वाद मीठा बताते हैं और इस का नाम 'अवहट्ट' अर्थात् अपभ्रंश देते हैं।

अपभ्रंश का उद्भव और विकास:- इसके उत्स का ज्ञान भी ईसा की दूसरी शती के नाट्य शास्त्र के रचयिता भरतमुनि कराते हैं। वे इसके 'शाबर, आभीर तथा गुर्जर' तीन नाम भी गिनाते हैं। छठी सातवीं शती में भामह तथा दण्डी अपभ्रंश को प्राकृत से भिन्न काव्यभाषा रूप में प्रचलित बताते हैं। दसवीं शती में राजशेखर अपनी 'काव्यमीमासा' में सूचना देते हैं कि अपभ्रंश के कवियों को राजदरबार में सम्माननीय पद प्राप्त था। उनके समय में इसके नागर, उपनागर आदि भेद थे। आभीरों का पर्याय 'व्रात्य' था जिसका अपभ्रंश रूप 'ब्राचड' हो गया।

संक्षेप में कहा जाय तो पश्चिमी भारत के सौराष्ट्र प्रदेश में उद्भूत आभीर भाषा ईसा की दूसरी-तीसरी शताब्दी में उत्पन्न हुई। यह पहले लोकभाषा, फिर शिष्टभाषा, तदुपरान्त साहित्य की भाषा बन गयी। पहले यह गुर्जर तथा सिन्धु प्रदेश तक सीमित थी। बाद में मालवा, पंजाब, राजस्थान, शौरसेनी प्रदेश होती हुई विद्यापति के मैथिल-मगही प्रदेश तक पहुँची। लोकभाषा को साहित्य भाषा बनने के लिये लोकप्रिय कथावस्तु की आवश्यकता होती है। इसके पास कृष्णगाथा का अद्भुत भंडार था। अतः यह द्वारका से सामग्री लेकर चली और मथुरा की कृष्णगाथा का सहारा ले पूर्व की ओर बढ़ती चली गयी।

अपभ्रंश भाषा के भेद:- अपभ्रंश के उपनागर, केकय, ब्राचड तथा नागर उपभेदों की चर्चा पुरातन ग्रंथों में है। भाषा विज्ञानियों के मत से उपनागर अपभ्रंश पूर्वी सौराष्ट्र प्रदेश की भाषा का रूप था, जिसका साहित्य उपलब्ध नहीं। प्राचीन हिन्दी के चारण साहित्य का ऐतिहासिक तथा भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण करने से उसे जाना जा सकता है। ऐसा भाषा-शास्त्रियों का मत है। केकय प्रदेश कौन सा था इसके विषय में विद्वानों के अनेक मत हैं। पर बहुमत यह स्वीकार करता है कि पंजाबी का लहंदा रूप केकय से उद्भूत है। पंजाब में ही एक और भाषा है 'सरायकी'। इसके बोलने वालों की संख्या पर्याप्त है। परन्तु ये दोनों भाषाएं पाकिस्तान में हैं। अतः उनपर विचार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

नागर-अपभ्रंश का उस काल का जो रूप गुजरात तथा पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित था उसी से आधुनिक गुजराती भाषा उद्भूत हुई। गुर्जर-प्रतिहारों की राज्यसत्ता के समय नागर अपभ्रंश का शिष्टजन सम्मत प्रयोग होने लगा था। ग्यारहवीं शती में मार्कण्डेय ने इसका व्यवहार किया है। बारहवीं शती में हेमचन्द्र सूरी ने इसके साहित्यिक रूप को शौरसेनी प्राकृत की अनुसारीणी बताया है। उन्होंने 'देसी सह' अर्थात् 'देशी शब्द-संग्रह' कोश भी बनाया।

ब्राचड-अपभ्रंश प्रयोग करने वाला प्रदेश सिंध था। आठवीं शती में ही यह प्रदेश अरबों के अधिकार में आ गया था। फिर लगातार यह प्रभाव बना ही रहा। यहाँ तक कि यहाँ भाषा भी अरबी लिपि में ही लिखी जाने लगी। यह भाषा पाकिस्तान

में तो जीवित है ही, भारत में भी सिंध से आये भाइयों ने इसे जीवित रखा है और अब यह भारतीय संविधान में परिगणित भारतीय भाषाओं में है। इस कोश में भी सिंधी शब्द ग्रहीत हैं।

अपभ्रंश का साहित्य:- प्राकृत की अगली सीढ़ी अपभ्रंश है। इसका काल 600 ईसवी से 1300 तक माना जाता है। अपभ्रंश साहित्य के आरंभिक शब्द प्रयोगों से पता चलता है कि प्राकृत और अपभ्रंश में बहुत समय तक साहित्य रचनाएं होती रहीं। दूसरी ओर आधुनिक नव्य भाषाओं में प्रौढ़ रचनाएं प्रारंभ होने के बाद तक अर्थात् सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दी तक भी जैन कवियों द्वारा अपभ्रंश में साहित्य रचा जाता रहा। परन्तु दसवीं शती तक अपभ्रंश साहित्य का उत्कर्ष रहा, फिर यह जनभाषा से दूर होती गयी।

अपभ्रंश साहित्य-रचना के निश्चित प्रमाण जिनदास कृत 'नन्दिसूत्र' (676 ई०) से मिलते हैं। इसके आगे तो अनेक कवियों के प्रबन्धग्रंथ भी मिलते हैं तथा दोहों की मुक्तधारा भी मिलती है। मुक्त धारा में वज्रयान के अनुयायी बीस से अधिक सिद्धों के चर्यापद और दोहे प्राप्त हैं। इसी श्रेणी के साधनमाला, डाकार्णव आदि अन्य ग्रंथ भी मिलते हैं। इनके अतिरिक्त समस्त उत्तरी प्रदेशों के लगभग सभी मतावलम्बियों ने अपभ्रंश में मुक्तक काव्य, सुभाषित, खण्डकाव्य, महाकाव्य, चम्पू, कथा तथा चरित काव्यों की रचनाएं कीं। नवीं शती में स्वयंभू ने राम कथा पर आधारित 'पउमि चरिउ' तथा महाभारत की कथा परम्परा को लेकर 'रिट्टणेमि चरिउ' जैसी विशाल कृतियां रचीं। दसवीं शती में पुष्पदन्त ने जैन परम्परा के महापुरुषों की कथा को लेकर 'महापुगण', 'णयकुमार चरिउ' आदि कई ग्रंथ रचे। इस परंपरा में दो-तीन शताब्दियों में ही बीसियों ग्रंथ लिखे गये। जिनमें भाषा का निखरा रूप, काव्य सौन्दर्य, छन्दों का कलात्मक प्रयोग है। वस्तु की दृष्टि से युद्ध, प्रेम, वैराग्य तथा मानवजीवन के गंभीर व्यापारों का विस्तृत चित्रण है। खण्डकाव्य 'सदेश रासक' में ऋतुवर्णन तथा विरह वर्णन उत्तम कोटि का है। ऋषिपति की कीर्तिलता आदि तो हिन्दी साहित्य की प्रसिद्ध निधि है। उक्त कृतियों की भाषा का प्रभाव उत्तर भारत की पश्चिमी तथा पूर्वी सभी भाषाओं पर पड़ा।

अपभ्रंश की ध्वनियां:- संस्कृत शब्दों के तद्भव रूपों की प्रक्रिया की दृष्टि से प्राकृत से अपभ्रंश में कुछ ही अन्तर आये। उनमें मध्य ट, ठ के स्थान पर ड, ढ और ङ, ढ तथा संयुक्त और द्वित्व व्यंजनों के स्थान पर एक व्यंजन रह जाना प्रधान है। 'न' के स्थान पर 'ण' का प्रयोग जो पंजाबी, हरियाणवी, गुजराती, सिंधी, मराठी में प्रायः मिलता है, यह भी अपभ्रंश का ही प्रभाव प्रतीत होता है।

असमी भाषा का परिचय

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् उत्तर पूर्व में जो असम राज्य बना उसका क्षेत्रफल पिचासी हजार वर्ग मील था, किन्तु अब उसमें पहाड़ी क्षेत्रों के छः अन्य राज्य बन गये हैं जिनकी बोलियां पहले से ही भिन्न थीं। वर्तमान असम-प्रदेश प्रायः ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदानी इलाका ही रह गया है जिसकी राजभाषा असमी है। बंगाल प्रदेश को यह क्षेत्र स्पर्श करता है।

असमी साहित्य का विकास:- ईसा की तेरहवीं शताब्दी के आरंभ से असमी में लिखित साहित्यिक कृतियां क्रमानुसार मिलने लगती हैं। इससे पूर्व 'चर्यापद' के दोहों में इस भाषा और साहित्य के आरंभ का आभास मौखिक साहित्य के रूप में मिलता है। लिखित साहित्य प्रायः पांच भागों में बांटा जाता है जो निम्न प्रकार से हैं:-

1. **प्राक् वैष्णव काल (1200-1449 ई०):-** इस काल के साहित्य निर्माताओं में पहले वे हैं जिन्होंने संस्कृत ग्रंथों का असमी में अनुवाद किया अथवा उनके आधार पर अपनी कृतियों का निर्माण किया। दूसरे वे हैं जिन्होंने पुरातन-युग के वीरों की गीत-गाथाएं लिखीं। ये कवि प्रभाव-निरपेक्ष तथा स्वतंत्र साहित्यकार हैं। हेम सरस्यती, माधव कन्दलि ऐसे ही कवि हैं।
2. **वैष्णव काल (1449-1650 ई०):-** इस काल के महान कवि शंकर देव हैं जो असमी-साहित्य के नव-निर्माता तथा असमी-जीवन के नव-निर्धारक हैं। इन्होंने साहित्य, समाज, संस्कार, संगीत, कला, धार्मिक निष्ठा तथा सम्पूर्ण सामाजिक संघटन का पुनर्निर्माण किया। श्री मद्भागवत पुराण उनके वैष्णव मत का प्रधान आधार था। इनके 'कीर्ति घोषा' ग्रंथ में विभिन्न पुराणों के भक्ति-परक आख्यान हैं। 'भक्ति प्रदीप' सिद्धान्त परक ग्रंथ है। इनके अतिरिक्त 'निविनव सिद्ध, रुकमणि

हरण, गुण माला, लीला माला' आदि अनेक अन्य ग्रंथ भी इन्होंने लिखे। संस्कृत में 'भक्ति रत्नाकार' लिखा एवं अकीय नाटक की परम्परा भी चलाई जिनमें 'रामविजय, काली दमन, पारिजात हरण' प्रसिद्ध हैं।

दूसरे महान कवि संस्कृत विद्वान, संगीतकार, नाटककार, धर्मप्रचारक माधव देव हैं। उनके 'नामघोषा' ग्रंथ में आध्यात्मिक तत्व विवेचन है। असमी 'महाभारत' के रचियता एम. सरस्वती तथा 'भागवत पुराण एवं गीता' को असमी में अनूटित करने वाले भट्टदेव भी इसी काल में हुए जिन्होंने शंकर देव के असमी गद्य को स्पष्ट तथा स्थायी रूप दिया।

3. गद्य, बुरुंजी-काल (1650-1826 ई०):- 'बुरुंजी' का अर्थ है अज्ञात कथाओं का भण्डार। पहले यह राज पुरोहित लिखा करते थे फिर राजकर्मचारी। इनके माध्यम से मध्यकाल के असम का व्यवस्थित इतिहास ज्ञात होता है, जिसमें राजवंशों का इतिहास भी मिलता है। अन्य चरित-ग्रंथों की रचना भी इस काल में हुई।

ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, कला, नृत्य आदि अनेक विषयों पर उपयोगी साहित्य सृजन के साथ-साथ कवि कुतुबन के 'मृगावती' और मंजन के 'मधुमालती' सूफी ग्रन्थों के कथानक के आधार पर दो काव्य ग्रन्थ भी असमी में लिखे गये।

4. आधुनिक काल (1826-1947 ई०):- यह काल अंग्रेजी शासन काल से आरंभ हुआ जिससे पूर्व प्रकार के साहित्य में गतिरोध आ गया। मुद्रणालय स्थापित होने से ईसाई पादरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें स्थानीय भाषा में छपाई। बाइबिल का असमी में अनुवाद पहला मुद्रित ग्रंथ था। विदेशी पादरियों द्वारा असमी भाषा संबंधी अन्य अनेक ग्रंथ तथा निबंध भी लिखे गये और 1873 ई० में असमी भाषा को सरकारी प्रतिष्ठा प्राप्त हो गयी। अब असमी में साहित्य निर्माण की धारा प्रवाहित होने लगी। आनंदराम देकियाल फुकन, हेमचंद्र बरुआ एवं गुणाभिराम बरुआ ने बहुमुखी साहित्य का सृजन किया। शब्दकोश एवं 'असम बुरुजी' नामक इतिहास ग्रंथ भी लिखे गये। 'जोनाकी' (जुगनू) पत्रिका के माध्यम से अनेक कवि एवं गद्यकार अस्तित्व में आये।

5. स्वाधीनतापूर्वक काल (1947 ई० से):- इस काल में असमी साहित्य में भारत की अन्य भाषाओं में पायी जाने वाली समस्त विविधताएं एवं विधाएं मिलती हैं।

असमी भाषा का उद्भव:- यह आर्य परिवार की भाषा है। यद्यपि सातवीं शती में असम की भाषा मागधी-अर्धमागधी प्राकृत से कुछ भिन्न थी; किन्तु भाषा विज्ञानियों का विचार है कि बंगला और असमी का मूल स्रोत मागधी अपभ्रंश है यद्यपि दोनों का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ।

असमी लिपि:- मूलतः यह ब्राह्मी लिपि का ही विकसित रूप है। इसका प्रारंभिक विकास गुप्त लिपि के उपरूप कुटिल लिपि से ईसा की बारहवीं सदी में हुआ। बंगला लिपि से एकाध अक्षर को छोड़ कर इसकी पूर्ण समानता है।

असमी ध्वनियाँ:- असमी के लिपि चिह्नों तथा उच्चारण में पर्याप्त अन्तर है।

1. 'व' तथा 'ब' दोनों लिपि चिह्नों की जगह प्रायः 'ब' लिखा जाता है; परन्तु उच्चारण भिन्न भिन्न होता है।
2. ट, ठ, ड, ढ, ण आदि मूर्धन्य ध्वनियों का बोलचाल में प्रचलन नहीं, वे क्रमशः त, थ, द, ध, न की तरह बोली जाती हैं।
3. ज, य, झ के स्थान पर सामान्यतः 'ज' का उच्चारण किया जाता है।
4. 'श, स' के स्थान पर प्रायः 'श', एवं 'ष' के स्थान पर 'ख' का उच्चारण होता है। किन्हीं-किन्हीं शब्दों में श, ष एवं च, छ का उच्चारण भी 'स' की तरह होता है।
5. असमी की सभी ध्वनियाँ कोमल हैं। द्वित्व वर्णों का भी कटोर उच्चारण नहीं होता।
6. द्रविड़, कोल या खासी भाषाओं की तरह असमी में भी शब्द के दूसरे अक्षर पर जोर देने की प्रवृत्ति है।
7. शब्दारंभ का 'अ' बंगला की तरह प्रायः 'ओ' अथवा 'ओ' जैसा बोला जाता है।

उड़ीया भाषा का परिचय

उड़ीया वर्तमान उड़ीसा प्रदेश की राजभाषा है और भारतीय संविधान में परिगणित भाषाओं में एक है। उड़ीसा प्रदेश के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इसके उत्तर में बंगला भाषी प्रदेश है। उत्तर पश्चिम में बिहार-प्रदेश की उपभाषाएं हैं। दक्षिण

में तेलुगु तथा दक्षिण-पश्चिम में मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ संभाग है, जहाँ की भाषा हिंदी की उपभाषा है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि इसके पश्चिम में बिहार का वह भाग है जिसमें मुंडा परिवार की भाषाएँ बोली जाती हैं। जिनके शब्दों का सम्मिश्रण तथा ध्वनि आदि का प्रभाव उड़िया पर पड़ा है।

उड़ीसा प्रदेश के वासियों और वहाँ की भाषा दोनों के लिए 'उड़िया' शब्द का प्रयोग होता है। इतिहास में इस प्रदेश के कलिंग, उत्कल तथा उड़ नाम मिलते हैं। कुछ लोग 'ओड़' विषय से ओड़िशा की उत्पत्ति बताते हैं।

उड़िया भाषा का उद्भव:- भरतमुनि ने "शबर-आभीर-चाण्डाल-सचल-द्राविड़-उड़जा-हीना यने चराणां च विभाषा नाटके स्मृता" कहा है। जिससे ज्ञात होता है कि दो हजार वर्ष पूर्व 'उड़' विभाषा थी। निश्चित ही संसार की सभी बोलियों की तरह समयान्तर से रूपान्तर होते-होते 'उड़िया' ने भाषा रूप प्राप्त किया। आज की उड़िया का मुख्य आधार भारतीय आर्यभाषा है। इसमें संस्कृत भी पर्याप्त मात्रा में है। साथ ही इसमें निकटवर्ती संथाली, शबरी आदि मुण्डारी वर्ग की और औरॉय, कुई, तेलुगु आदि द्रविड़ वर्ग की भाषाओं के लक्षण भी पाये जाते हैं। अतः इसकी कई बोलियाँ हैं।

उड़िया साहित्य का विकास:- उड़िया साहित्य के विकास को काल तथा प्रकृति के अनुसार निम्नचार युगों में बांटा गया है:-
आद्ययुग:- इसमें 'बोद्धगान ओ दोहा' उड़िया का पूर्वरूप साहित्य माना जाता है। यह भाषा, भाव तथा ऐतिहासिकता की दृष्टि से उड़िया से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। दूसरा ग्रंथ है 'मादला पाजि' जो जगन्नाथ मंदिर में सुरक्षित है। इसमें उड़ीसा के राजवंश और मंदिर के नियोगों का इतिहास लिखा है। 'कलाश चौतिशा' में शिवजी की वरयात्रा का हाम्यरस में वर्णन है। इसका अन्य नाम सारला पूर्व भी है। क्योंकि इसके पश्चात् उड़िया के जातीय तथा आदि कवि सारला दाम का समय आता है। सिद्धेश्वर परिड़ा को 'चंडी सारला' के प्रसाद से कवित्व प्राप्त हुआ। अतः उन्होंने सारलादास नाम रखा। इनके 'विलंका रामायण महाभारत तथा चंडी पुराण' ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। इस युग के रामविष्णु, विष्णुगर्भ पुराण तथा निर्गुण महात्म्य ग्रंथ भी हैं। जो अन्य कवियों के द्वारा रचे गये हैं।

पूर्वमध्य या भक्ति युग:- इस युग के पाँच कवि पंच सखा या पंच शाखा भी कहलाते हैं। इनमें से प्रत्येक ने अनेक ग्रंथ लिखे। सोलहवीं शती में 'जगन्नाथ चरितामृत' के नाम से पंचसखाओं के जगन्नाथदास की जीवनी लिखी गयी। उस समय के एक मुसलमान भक्त कवि के पद भी मिलते हैं। इसी युग में उषाभिलाष, कपट केलि, चंद्रावलि विलास, रहस्य मंजरी आदि ग्रंथ विभिन्न कवियों द्वारा लिखे गये।

उत्तरमध्य या रीतियुग:- इस युग में पौराणिक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार के काव्य रचे गये। सीता, राधा का नरेशिवर वर्णन, नायक-नायिका भेद, शृंगार रस आदि को अधिक महत्व दिया गया। शब्द वैलक्षण्य, चित्र काव्य, अलंकार पटुता तथा प्रतिभा प्रगल्भ कृतियों के कारण इस काल के उपेन्द्रभंज सर्वश्रेष्ठ कवि कहलाते हैं। इनके अतुल प्रभाव के कारण यह युग ही 'भंज युग' कहलाता है। इनके वैदेही विलास, सुभद्रा परिणय, ब्रजलीला, कुंजलीला, कलाकौतुक आदि पौराणिक काव्यों के अतिरिक्त लावण्यमयी, कोटि ब्रह्माण्ड सुन्दरी, रसिक हारावली आदि काल्पनिक काव्य ग्रंथ भी हैं। उपेन्द्रभंज के पितामह राज घनंजय भंज ने भी रघुनाथ विलास, त्रिपुर सुन्दरी, मदन मंजरी आदि दस-बारह ग्रंथ लिखे थे। तथा अन्य कई उच्चकोटि के कवियों की भी बीस से अधिक रीतिकालीन काव्य लक्षणों से युक्त कृतियाँ मिलती हैं।

भंज काल उतरते-उतरते महाप्रभु चैतन्य से प्रभावित गौड़ीय-वैष्णव-धर्म और रीतिकालीन लक्षण दोनों का समन्वय राधा कृष्ण-प्रेम-परक काव्य में अनेक कवियों में मिलता है।

आधुनिक युग:- यह युग ब्रिटिश काल से प्रारंभ होता है। इस काल के प्रसिद्ध रचनाकार राधानाथ राय के 'पार्वती, नंदिकेश्वरी, ययाति केशरी' ऐतिहासिक काव्य हैं। 'महापात्र' पर मिल्टन का प्रभाव है। इन्होंने मेघदूत, वेणीसंहार और तुलसी पद्यावली का अनुवाद भी किया। इनका कार्य जातीय चरित्र को क्लृप्त करने वाला माना गया अतः सत्यवादी युग के प्रवर्तक गौणबन्धु दासने जातीय प्रतिष्ठा के अनेक ग्रंथ लिखे। बंगाल से एक आंदोलन चला कि 'उड़िया एक स्वतंत्र भाषा नहीं है।' फकीर मोहन ने इसका करारा जवाब दिया। उनके लछमा, मामु, छमाण आठ गुंठ प्रायश्चित्त उपन्यास तथा दो भाग में 'गल्पस्वल्प' कहानी संग्रह प्रसिद्ध हैं। पद्य में महाभारत रामायण का अनुवाद, उत्कल भ्रमण, पुष्पमाला आदि अनेक ग्रंथ हैं।

आधुनिक काल में उपन्यास, कहानी, आलोचना, गीतनाट्य, प्रहसन, यात्रा लेखन तथा कविता की पुरातन नवीन विधाएं सभी में बहुत से प्रतिभा सम्पन्न लेखक हैं। जिन्हें पुरस्कार भी मिले हैं।

उड़िया लिपि का उद्भव:- नागरी लिपि की तरह उड़िया लिपि भी ब्राह्मी लिपि की सन्तान है। यद्यपि देखने से यह भिन्न प्रतीत होती है। उड़िया लिपि अपनी बनावट में निराली है जिसमें अक्षर के ऊपर एक छत्र सा होता है। इसका आरंभ कब हुआ यह ठीक-ठीक पता नहीं चलता। हाथी-गुफाओं में उत्कीर्ण खारवेल राजा के शिलालेखों से इसका संबंध रहने का अनुमान किया जा सकता है। ईसा की ग्यारहवीं शती में सौन्दर्य वृद्धि के लिये अक्षरों के नीचे कुछ चिह्न लगाये जाने लगे। तेरहवीं शती तक वर्तमान लिपि विकसित हुई। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि कुटिल लिपि का इस पर विशेष प्रभाव पड़ा। वर्तमान अक्षर यदि ऊपर से ढक दिये जायें तो नागरी अक्षरों से कुछ-कुछ मिलते प्रतीत होंगे।

कटक तथा पुरी ज़िले के संग्रहालयों में ईसा की छठी से उन्नीसवीं शती के ताड़पत्र पर लिखे ग्रंथ मिलते हैं। पन्नों पर लिखने के लिये लेखनी लोहे की होती थी। लिपि विशेषज्ञों का अनुमान है कि ताड़पत्रों के कट-फट जाने के डर से अक्षरों के ऊपर की रेखा गोलाई लिये बनायी जाने लगी होगी।

उड़िया लिपि तथा ध्वनियों:- उड़िया वर्णमाला का अक्षर क्रम देवनागरी के समान है। परन्तु ध्वनियों में कुछ भिन्नता है। तथा कुछ ध्वनियों के लिये भिन्न अक्षर रूप भी हैं।

1. ऋ के रूप तथा दीर्घ रूप के अक्षर हैं; परन्तु उच्चारण 'रु' होता है।
2. अनुस्वार (ँ), विसर्ग (ं) तथा (ँ) चन्द्रबिन्दु भी हैं।
3. ऐ, औ का उच्चारण अई, अऊ किया जाता है।
4. य के लिये दो अक्षर हैं। इनमें एक का उच्चारण 'ज' तथा दूसरे का 'य' होता है।
5. हिन्दी की तरह ड, ढ भी हैं।
6. एक अधिक 'ल' है, जिसका उच्चारण मूर्धन्य होता है। जिसके लिए परिवर्धित देवनागरी में 'ळ' अक्षर निर्णीत हुआ है। इसका उच्चारण 'ड' जैसा होता है।
7. श, ष तथा स तीनों अक्षर वर्णमाला में हैं; परन्तु तीनों का ही 'स' उच्चारण करने की प्रवृत्ति है।
8. व और ब दोनों अक्षर हैं, परन्तु दोनों का ही 'ब' उच्चारण करने प्रवृत्ति है।
9. शब्द के अन्तिम व्यंजन में 'अ' ध्वनि स्पष्ट बोली जाती है। हिन्दी की तरह उस व्यंजन का हलन्त जैसा उच्चारण नहीं होता।
10. प्रायः स्वरो के साथ अनुनासिकता पायी जाती है।
11. ड, ञ का प्रयोग सवर्गीय व्यंजनों के साथ होता है।

उर्दू भाषा का परिचय

राजकाज में उर्दू का इतिहास हिंदी से किंचित पुराना है। अंग्रेजी राज्य के समय उर्दू को आज के हिमाचल, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं बिहार आदि में कचहरी-अदालत में प्रथम स्थान प्राप्त था। दक्षिण में हैदराबाद रियासत की यह प्रशासनिक भाषा थी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में अन्य भारतीय भाषाओं के साथ उर्दू को भी सम्मिलित किया गया है। राजभाषा के रूप में कश्मीर की यह प्रशासकीय भाषा है।

उर्दू के विकास के लिए दिल्ली आदि कई राज्यों में उर्दू-अकादमी हैं। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत भी 'तरक्की-ए-उर्दू-बोर्ड' स्थापित है।

उर्दू नामकरण:- उर्दू भाषा के इतिहास में अमीर खुसरो को इसका प्रथम कवि माना जाता है, यद्यपि उन्होंने अपनी भाषा को 'हिन्दवी' कहा है। भाषा के लिए 'उर्दू' शब्द का प्रयोग ईसा की अठारहवीं शती के मध्य में 'मीर' ने पहले-पहल किया मिलता है। यह तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है लश्कर, छावनी या सेना-निवास।

उर्दू के उक्त रूप को शम्स-उल-उलमा मुहम्मद हसन ने निम्न शब्दों में स्पष्ट किया है—“उर्दू का दरख्त अगर्वे संस्कृत और भाषा की जमीन पर उगा, मगर फारसी की हवा में सर-सब्ज हुआ है।”

उर्दू का उद्भव और विकास:- अमीर खुसरो से भी पहले सूफी कुतुब साहिब ने देहली को अपना केन्द्र बना लिया था। ये जनता तक पहुंचने के लिए धर्म प्रचार में 'हिन्दवी' जुबान का प्रयोग करते थे। आलउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात और दकन पर विजय पायी तो सूफियों द्वारा 'हिन्दवी' भाषा भी उधर पहुँची। हिन्दी के कुछ कवियों जैसे नामदेव, कबीर, रविदास की भाषा इन सूफियों से बहुत कुछ मिलती-जुलती है। इन्होंने केवल छंद हिंदी के प्रयोग किये और विशिष्ट शब्दावली हिन्दूधर्म से ग्रहण की।

दकन में 'हिन्दवी' भाषा की उन्नति के बीजापुर और गोलकुण्डा दो बड़े केन्द्र हो गये। गोलकुण्डा के कुतुबशाही राजा लेखकों की सहायता करते थे तथा स्वयं भी शायरी करते थे। उधर बीजापुर के आदिलशाही राजा कला और शायरी के संरक्षक थे। इनके दरबारी कवियों ने 'देहलवी या हिन्दवी' की विशेष दकनी शैली अपनायी।

'वली' जब देहली आये तो उन्होंने फारसी परम्पराओं का उर्दू में प्रयोग कर शेर कहना आरंभ किया। यह तर्ज लोगों को पसन्द आई और फारसी में जितने काव्य रूप प्रचलित थे उन्हें सफलता से उर्दू में अपनाया।

मीर, सौदा, दर्द ने उर्दू काव्य को प्रोत्साहित किया, जिनके कारण उनका जमाना उर्दू का स्वर्ण-युग कहलाता है। सामाजिक दशाओं से घबराकर ये शायर देहली से लखनऊ चले आये, जहाँ के नवाब कला के बड़े प्रेमी थे। यहाँ ईशा और मुसहफी आदि ने गज़ल में नाम पैदा किया, 'मसनबी' में मीर हसन ने कमाल दिखाया, 'मरसिये' में ज़मीर, अनीस आदि ने।

लखनऊ स्कूल ने जुबान की सफाई और घुलावट में उन्नति की। वाजिद अलीशाह (अवध के नवाब) ने उर्दू साहित्य को विशेष प्रोत्साहन दिया, तथा स्वयं भी पिचहतर छोटी-बड़ी पुस्तकें लिखीं।

इसी काल में देहली में ज़ौक, मोमिन और गालिब ने उर्दू कविता को ऊँची उठाया और उसमें दार्शनिक विचार प्रकट किये। फोर्ट विलियम कालेज कलकत्ता ने पुस्तकों द्वारा सरल उर्दू भाषा की नयी शैली का प्रचार किया। पत्र व्यवहार में उर्दू विद्वानों ने फारसी की जगह इस सरल उर्दू भाषा का प्रयोग आरंभ किया।

1857 ई० के बाद अंग्रेजी शासन एवं अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव बढ़ा। इस काल में सर सैयद अहमद ख़ाँ ने 'अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी' स्थापित कर उर्दू में गंभीर साहित्य उत्पन्न किया। लाहौर में 'अंजुमने पंजाब' की स्थापना हुई, मुशायरे होने आरंभ हुए जिससे उर्दू में नयी कविता का युग आरंभ हुआ। इकबाल, जोश, ज़फरअली ख़ाँ आदि ने ब्रिटिश साम्राज्य-शाही के विरुद्ध नज़्में लिखीं जो देशभर में प्रसिद्ध हुईं।

1935 ईसवी से उर्दू में प्रगतिवाद का प्रचार हुआ। हिन्दी के उपन्यास सम्राट श्री प्रेमचंद उर्दू प्रगतिवाद के प्रधान पोषक माने गये। प्रेमचंद जो कुछ लिखते थे वह उर्दू और हिंदी दोनों की पत्रिकाओं में समान रूप से छपता था। इस काल से उर्दू उपन्यास, समालोचना आदि सभी शाखाओं में उन्नति आरंभ हुई। भारत के कोने-कोने में इसकी कविताओं और गज़लों ने ऐसा रूप धारण किया कि फिल्म से लेकर बाज़ार तक की जुबान पर उर्दू छापी हुई है।

स्वतंत्रता के बाद उर्दू के सभी प्रधान कवियों के दीवान (कविता संग्रह) हिंदी में प्रकाशित हो चुके हैं और उनके अब तक कई-कई संस्करण भी निकल चुके हैं। उर्दू के सभी भारतीय लेखकों की कम्पनियों आदि हिन्दी पत्रिकाओं में प्रकाशित होती देखी जाती हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी लेखकों की कृतियाँ भी हिंदी पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं।

यह ख़ास भारत की भाषा है और उस सभ्यता की निशानी है जो मुसलमानों के हिन्दुस्तान में बसने और हिन्दुओं से भाईचारा रखकर सम्मिलित हो जाने से उत्पन्न हुई।

उर्दू लिपि और ध्वनियाँ:-

1. उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है।
2. फारसी-अरबी उच्चारणों के लिए देवनागरी लिपि के क, ख, ग, ज, फ अक्षरों के नीचे बिंदी लगा कर क, ख, ग, ज, फ ध्वनि विन्ध प्रचलित हैं।

कन्नड भाषा का परिचय

'कन्नड' कर्नाटक राज्य की स्वीकृत राजभाषा है, जिसका केन्द्र मैसूर है। इसकी सीमाएं मराठी, तेलुगु, तमिल तथा मलयाळम् भाषी प्रदेशों से मिलती है। मूलतः यह द्रविड़ परिवार की भाषा है, जिसकी ध्वनियां कर्भी द्रविड़ भाषाओं की थी, किन्तु बाद के साहित्य में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि के इतने अधिक शब्द इममें आ गये कि उसका द्रविड़ रूप ढक सा गया।

राजनीति की दृष्टि से इसका स्थान तमिल से ढमरा है। कन्नड के प्रामाणिक कोशकार श्री किङ्गल का कथन है कि कन्नड में मराठी और हिन्दुस्तानी के अनेक प्रत्यय गृहीत हो गये हैं फिर भी आधुनिक कन्नड में उन ध्वनियों और शब्दों के पर्याप्त अवशेष हैं जो इसे द्रविड़ परिवार की भाषा प्रमाणित करते हैं।

कन्नड की बोलियाँ:- अंचलों के आधार पर कन्नड की मैसूरी, बंगलौरी, मंगलौरी, गयचूडी, कुर्गी आदि कई बोलियां हैं। इन सब के अतिरिक्त एक समृद्ध कोटि की बोली 'तुलू' भी है, जो कन्नड की उपभाषा कही जाती है।

कन्नड लिपि का विकास:- कन्नड लिपि का प्रादुर्भाव ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी शाखा से हुआ। इसका सबसे पुराना शिलालेख बेलूर के पास हल्मिडि गाँव में मिला, जो 450 ईसवी का माना जाता है। सबसे पुरानी उपलब्ध हस्तलिपि 'कविराज मार्ग' ग्रंथ की है जो ईसा की नवीं शती के उत्तर्गर्ध की है। छठी शती तक तेलुगु भाषा भी कन्नड लिपि में लिखी जाती थी किन्तु तेरहवीं शती तक दोनों स्पष्ट रूप से एक दूसरे से भिन्न हो गयीं।

कन्नड साहित्य का विकास:- कन्नड साहित्य दक्षिण भारत का समृद्ध एवं प्राचीन साहित्य माना जाता है। यद्यपि इसका प्रथम उपलब्ध ग्रंथ 'कविराज मार्ग' ईसा की नवीं शती का है, जो दंडी के काव्यादर्श पर आधारित लक्षण ग्रंथ है, किन्तु इसमें पूर्व की कृतियों का उल्लेख प्रमाणित करता है कि इसमें पूर्व भी काव्य ग्रंथ रचे गये, जो प्राप्त नहीं हैं। पश्चात् जैन महापुरुषों द्वारा रचित 'आदि पुराण, पंथ पुराण, शान्ति-पुराण' आदि अनेक गद्य-पद्य मिश्रित रचनाएं मिलती हैं, जिनकी शैली पौराणिक और ग्रंथ संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश मिश्रित है। चौदहवीं शती तक यह साहित्य प्रौढावस्था में पहुँच गया, जो इसका 'स्वर्ण युग' कहलाता है।

इस बीच क्रान्ति युग का आरंभ हुआ जिसमें संस्कृत निष्ठ भाषा के स्थान पर बोलचाल की कन्नड भाषा को प्रधानता एवं देशी छंदों को प्रोत्साहन दिया गया। जैन मतावलम्बियों का साहित्य में एकाधिकार खंडित हो गया। वीर शैव भक्तों ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, नीति मिश्रित गद्य गीतों के काव्य ग्रंथ लिखे। रामानुजाचार्य की वैष्णव सम्प्रदाय की तथा मध्वाचार्य की द्वैतमत की भक्ति की धारा से साहित्य और भाषा-शैली प्रभावित हुए। परिणामस्वरूप पौराणिक महाकाव्यों के कथानकों का विशुद्ध कन्नड मूल रूप में निरूपण हुआ। साहित्य जनता के अधिक निकट आया।

भागवत सम्प्रदाय के कवि कुमार व्यास ने महाभारत के दस पर्वों की कथा का कन्नड में विशदीकरण किया। अन्य कवियों ने भी इनसे प्रेरणा पाकर महाभारत के शेष पर्वों, रामायण, भागवत एवं गीतों के पद्यानुवाद किये।

हरिदास परम्परा साहित्य में भजन-कीर्तन आदि स्तुति-गीतों की रचना ने कन्नड साहित्य को समृद्ध किया। इसकी पहली शाखा 'व्यास कूट' थी जिसकी शब्दावली संस्कृत गर्भित थी, दूसरी 'दासकूट' थी जिसमें सभी जातियों के भक्तों ने जन-भाषा में भजन-कीर्तन आदि की रचना की। यह परम्परा अठारहवीं शती तक चलती रही।

आधुनिक युग में विदेशी ईसाई-मिशनरियों ने अपने धर्म प्रचार के लिए भारत की अन्य भाषाओं की तरह कन्नड के भी मुद्रणालय स्थापित किये और अपनी छोटी-छोटी धर्म-पुस्तिकाएँ प्रकाशित कीं। साथ ही कन्नड में अकारादि क्रम से शब्द-संग्रह कर शब्द कोश बनाये। दूसरी ओर विदेशी शिक्षा प्रसार हुआ। कन्नडवासियों ने विदेशी और स्वदेशी काव्यों, नाटकों आदि के अनुवाद किये। पत्र-पत्रिकाएँ निकलीं। कहानी, नाटक, उपन्यास जीवनी. यात्रा वृत्तान्त आदि समस्त विधाओं पर अगणित पुस्तकें प्रकाशित हुईं।

कन्नड की ध्वनियाँ:-

1. 'अ'कारान्त शब्द की ध्वनि 'आ'कारान्त जैसी होती है।

2. 'एँ तथा ओं' ह्रस्व ध्वनियाँ भी कन्नड में हैं, जो अक्षरों और मात्राओं द्वारा प्रकट की जाती हैं।
3. 'ळ' की 'ड' जैसी ध्वनि है। जो बंद 'ळ' के रूप में मराठी से देवनागरी में ली गयी है।
4. संयुक्त वर्ण लिखने की पद्धति देवनागरी से इस दृष्टि से भिन्न है कि उसमें पहला वर्ण पूरा दूसरा आधा लिखा जाता है। उच्चारण देवनागरी जैसा ही होता है।
5. स्वर रहित व्यंजन की सूचना के लिए कन्नड में हलन्त जैसा चिन्ह भी है।
6. 'ऋ' वर्ण है परन्तु उसका उच्चारण प्रायः 'रु' जैसा होता है।
7. 'श, ष, स' तीनों ध्वनियों शिक्षित वर्ग प्रायः तद्वत् उच्चारण करते हैं किन्तु जन-सामान्य 'स' उच्चारण करते हैं।
8. अनुस्वार का प्रयोग प्रायः किया जाता है।
9. 'ड' और 'त्र' वर्णमाला में तो है परन्तु संयुक्त वर्णों में पिछले सौ वर्षों से उनके स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होता है।
10. उत्तर भारत में अनुस्वार प्रायः 'अड्' जैसा बोला जाता है परन्तु कन्नड में 'अम्' जैसा उच्चारित होता है।

कोंकणी भाषा का परिचय

कोंकणी वर्तमान गोआ प्रदेश की भाषा है, जो महाराष्ट्र के दक्षिण में अरब सागर के तट के किनारे-किनारे स्थित है। इसका आविर्भाव संस्कृत से है। साहित्य अकादमी ने 1975 ई० में कोंकणी भाषा को मान्यता प्रदान की एवं 1987 ई० में यह गोआ प्रदेश की राजभाषा स्वीकृत हो संविधान की आठवीं सूची में शामिल हुई।

नामकरण- कोंकण प्रदेश के नाम पर वहाँ के निवासियों और भाषा को कोंकणी कहा जाता है।

कोंकणी भाषा का उद्भव और विकास- गोआ तथा उसके आस पास के प्रदेश पर पुर्तगालियों का लगभग चौदह चार सौ वर्ष तक शासन रहा। उन्होंने कोंकणी का उन्मूलन कर पुर्तगाली भाषा प्रस्थापित करने के अनेक उपाय किये। जो भी उपलब्ध कोंकणी साहित्य उनके हाथ लगा उन्होंने उसे जला दिया और भाषा का प्रयोग करने वालों पर कर लगा दिये। अतः कोंकणी के उद्भव तथा विकास के प्रमाण प्राप्त नहीं हैं। कुछ लोग इसे मराठी की उपभाषा मानते हैं, कुछ कन्नड की। प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी डा० कत्रे ने इसे स्वतंत्र समृद्ध भाषा सिद्ध किया है। इस भाषा की अनेक शैलियाँ हैं, जिनमें प्रमुख तीन हैं।

1. मालवण रत्नगिरि (गोआ के उत्तर में प्रचलित) 2. गोआ कर्वार में प्रचलित 3. मंगलूर की तरफ प्रचलित। पर सभी कोंकणी भाषी प्रत्येक शैली को आसानी से समझ सकते हैं।

जनता से मौखिक साहित्य अर्थात् लोकगीतों और कहानियों का प्रयोग पुर्तगाली न हटा सके। दूसरी ओर पुर्तगाली पादरियों को ईसाई धर्म का प्रचार जनभाषा में करना था। अतः उन लोगों ने कोंकणी सीखी और फादर स्टीफेन ने उसका व्याकरण भी लिखा। ईसा की सोलहवीं शती से ही ईसाई धर्म प्रचारकों ने उक्त कार्य आरंभ कर दिया, जिससे शासकों के विरोध के बावजूद कोंकणी को जीवित रहने में सहायता मिली। किन्तु इससे साहित्यिक स्रोत निर्बाध न बह सका और इसकी गति मंद रही।

साहित्य- कोंकणी का सबसे पुराना उपलब्ध ग्रंथ 'रामायण कथा संग्रह' है। इसके लेखक कृष्ण दास श्याम कंडशेखर थे। इसे 16 वीं शताब्दी में प्राचीन कंडवी लिपि (जो कन्नड से मिलती है) से रोमन लिपि में उतारा गया था। 'कोंकणी रामायण' एवं 'महाभारत की कथाएँ' दो अन्य प्राचीन पुस्तकें हैं। इनसे ज्ञात होता है कि कोंकणी में गद्य लेखन का कार्य काफी पहले से शुरू हो गया था तथा इसका गद्य भी पर्याप्त विकसित और परिमार्जित है। 'संत एंटोनीची अचर्या' एवं 'रुखांची अमृत फला' मध्यकाल की उत्कृष्टतम कृतियाँ हैं। 1658-59 ई० में प्रकाशित 'अनवाड्याचो मडो' (गडरियों का ढाँग) के पांच खण्ड प्रकाशित हुए। इनकी दार्शनिक संकल्पना, भाषा लालित्य और बिंब विधान अप्रतिम हैं। प्रवासी कोंकणियों के प्रयत्नों से बम्बई, पुणे, मंगलौर और कोचीन में भी कोंकणी पुस्तकों का प्रकाशन हुआ जो रोमन, देवनागरी एवं कन्नड लिपि में थीं। 1893 ई० में कोंकणी-पुर्तगाली एवं 1905 ई० में पुर्तगाली-कोंकणी दो विशाल कोशों का प्रकाशन हुआ।

वहमूर्खी प्रतिभा के धनी वामनवर्द ने काकणी साहित्य का लघु कहानियाँ नाटक, जीवन कथा, व्याकरण और बाल साहित्य में समृद्ध किया।

वीरभद्र चरित्र, प्रह्लाद चरित्र, लिंग पुराण, स्थल पुराण और गमायण एवं महाभारत के अनुवाद पुरानी मानक काकणी में हैं। राष्ट्रकवि एम. गाविन्द ने गीतार्जुन की कुछ कविताओं का काकणी में अनुवाद किया। पिछले चार दशकों में कहानियों की पांच सौ पुस्तकें भी प्रकाशित हुईं।

काकणी की लिपि गाँगा के स्वतंत्रता प्राप्ति में पूर्व काकणी नागरी, कन्नड़ एवं गमन तीन लिपियों में लिखी जाती थी। यथा मराठी प्रभाव क्षेत्र में नागरी, कन्नड़ प्रभाव क्षेत्र में कन्नड़ लिपि तथा पुताली भाग में आरंभिक लोग गमन लिपि में लिखते थे।

अब स्वतंत्रता पश्चात् गाँगा अलग राज्य घोषित हो चुका है। यहाँ काकणी अकादमी की स्थापना हो चुकी है। अतः सर्व सम्मति में काकणी की लिपि देवनागरी स्वीकृत हो जाने पर नागरी लिपि में ही साहित्य प्रचलित होना जा रहा है। अभी तक काकणी शब्दों की बहनी भिन्न-भिन्न होनी थी। अब यह कनी और धोर हो गई है।

गुजराती भाषा का परिचय

गुजराती भाषा का क्षेत्र गुजरात, मौराष्ट्र और कच्छ है। अतिरिक्त महाराष्ट्र के सीमावर्ती प्रदेश तथा राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग में यह भाषा बोलती है। पाकिस्तान का सिन्ध प्रदेश भी इसमें स्थित करता है। पूर्व में मानवा खानदेश तक यह सामान्यतः बोली गयी जाती है। इस प्रदेश है पश्चिम में अरब सागर है।

गुजराती भाषा का नामकरण:- गुजराती शब्द गुजरात से बना है जो उस प्रदेश के निवासी और उनकी भाषा दोनों के लिये प्रयुक्त होता है। उमा का आठवाँ में दशवाँ शताब्दी तक के अन्तर्गत लम्बा में गुजरात मंडल, गुजरातभूमि, गुजरात आदि नाम मिलते हैं। उमा की दसवीं शताब्दी में तीन अरबी यात्री अलबरूनी, अयूबेद तथा अलमसूदी ने गुजरात, गुजरात तथा गुजरात शब्दों का प्रयोग किया है। चीनी यात्री ह्वानत्सांग की यात्रा के समय इन गुजरात की राजधानी राजस्थान में भिन्नमाल में थी। विद्वानों का मत है कि गुजरात के उत्तर भाग में आकर बस फिर धीरे धीरे नर्मदा नदी के भाग पास और मौराष्ट्र में फैल गया। गुरुजी जी के गुजराती में कवि प्रमानंद ने पहले पहल अपने काव्य में भाषा के लिए 'गुजराती' शब्द का प्रयोग किया है।

गुजराती भाषा का उत्स या उद्भव:- आर्यभाषा के दृष्टिकोण से पहले वेदिक संस्कृत आदि हैं। दूसरी पीढ़ी पाली, प्राकृत की है। तीसरी विभिन्न प्राकृतों से निकली अनेक अपभ्रंशों की है। फिर उनसे निकली उत्तर भारत की आधुनिक भाषाएँ हैं। गुजराती भी इसी क्रम से निकली भाषा है। इसकी पृथक् भी मूलतः वही अपभ्रंश है, जो हिन्दी, राजस्थानी आदि की है। उमाशंकर जोशी ने इस भाषा अपभ्रंश नाम दिया। उमाशंकर ने 'पश्चिमी राजस्थानी', सुनील कुमार चटर्जी ने 'पश्चिमी हिन्दी के निकट की भाषा' कहा है। लगभग हजार वर्ष पहले इन्द्र-द्रुम ने इसके तत्कालीन रूप को 'शौरसेनी प्राकृत' कहा है। दशकाल भेद में अनेक नाम मिल गये। विद्वानों ने गुजराती अपभ्रंश को नाग या गुजरा नाम भी दिया है।

गुजराती साहित्य का उद्भव तथा विकास:- गौरीकरण की दृष्टि से इसकी केंद्र ग्यारहवें शताब्दी तक गुजरात अपभ्रंश और उसके पश्चात् दो सौ वर्ष तक अपभ्रंश एवं पुरानी गुजराती का अन्तर्गम रूप रहा। इसके बाद उस भाषा का उदय हुआ जिसका नाम जूनी (पुरानी) गुजराती है। भाषा शास्त्री टेसीटरी इस प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी कहते हैं। अर्वाचीन गुजराती की रूपाभा इसी की सत्रहवीं शती में दिखाई देती है। जिसका उत्तरांतर साहित्यिक विकास इसी की उन्नीसवीं शती के मध्य में अब तक निरंतर होता आ रहा है।

इसकी तेरहवीं शताब्दी के शालिभद्र, विजयसेन तथा विनयचन्द्र सूरियों द्वारा प्रणीत उल्लेखनीय ग्रंथ क्रमशः भरतेश्वर बहुबलि गम, रेवन्तगिरि रामु तथा नेमिनाथ चतुष्पादिका आदि हैं। चादहवीं शती के कछुली राम, नेमिनाथ फागु आदि ग्रंथ हैं। ये रचनाएँ प्रायः जैन कवियों की हैं। कोई कोई जैन कवियों की रचनाएँ भी हैं। शैली की दृष्टि से ये लोकसाहित्य

मे निबद्ध है। ये उस क्षेत्र की अपभ्रंश भाषा में है। पंद्रहवीं शताब्दी की जयशंकर कृत प्रबोध चिन्तामणि, अब्दुर्रहमान का सन्देश रामक तथा अन्य कवियों के पृथ्वीचन्द्र चरित्र, कादम्बरी, आदि के विषय तथा भाषा पिछली दो शतियाँ के जैन कवियों से हटकर है। इसी शती में कुछ आगे बढ़ कर नरसिंह मेहता की गम सहस्र पदी, शृंगार माला, हिंडोलाना पदो, वसन्तना पदो, सुदामा चरित्र आदि अनेक ग्रंथ हैं। पंद्रहवीं शती के पूर्वार्द्ध का शीघर कवि का 'रणमल्ल छंद' और पद्मनाभ का 'कान्हड दे प्रबोध' क्रमशः ईडर तथा जालौर के राजाओं के मुसलमान आक्रान्ताओं से किये युद्धों के वीर रस पूर्ण वर्णन की श्रेष्ठ रचनाएँ हैं। इस प्रकार भाषा का विषय और शैली तो इस काल तक आते आते साहित्यिक हो गये हैं परन्तु भाषा का रूप अभी तक प्राचीनता लिये हुए है। लगभग इसी समय भालण कवि ने गमायण, महाभारत तथा भागवत के इतिवृत्तों को काव्य बद्ध किया। नृत्यपरक गरबा लोकगीतों के ये प्रथम कवि हैं। मीराबाई के अनेक सरस पद भी गुजराती में लोकगीतों की तरह गाये जाते हैं।

सत्रहवीं शती ईसवी में गुजराती साहित्य के सर्वोच्च कवि पद्मानन्द साहित्य में पदापण करते हैं। उन्होंने गमायण महाभारत, भागवत, मार्कण्डेय पुराण आदि लगभग पचास आख्यानों को काव्यनिबद्ध किया। उनकी तीन नाट्य कृतियाँ भी हैं। इनके अनेक अनुगामी कई आख्यानकार कवि हुए। इसी समय रंगर में समान दार्शनिक गुणग्राही कवि अग्रा भी पाखंड खडक कवि हुए।

अठारहवीं शती में गरबी शैली में स्तुतिपरक गीतों के अनेक कवि हुए। दयाराम उस शैली के मञ्जर माने जाते हैं। इनकी 48 रचनाएँ मिलती हैं। दार्शनिक नृत्य, भक्ति भावना तथा सामाजिक पाखंडों की भङ्गना करने वाले स्वामी नागयण संप्रदाय के अनेक साधु गुजराती कवि हुए। इनमें स्वामी ब्रह्मानन्द के कई ग्रंथ तथा 8000 फुटकर पद मिलते हैं।

उन्नासवीं शती में गुजराती को नये साधु में ढालने, साम्प्रतिक जागरण, राष्ट्रीय भावना और सुधारवादी उदारता को वाणी देने में नर्मदाशंकर हिंदी के भारतेन्दु के समान हैं। उन्होंने मपादन, आलाचना, निबंध, नाटक, चरित्र लेखन आदि में अप्रतिम योगदान दिया। इन्हीं के समकालीन दलपतराम ने सरल तथा प्रगाढ़ गुण शैली में सामाजिक, गीत परक तथा राष्ट्रीय भावना में आत प्रोत्त पद्य गद्य लिखा। दोनों ही अनेक परवर्ती कवियों और लेखकों के प्रेरक तथा आदर्श थे।

उनके बाद स्वच्छदतावादी, रोमांटिक कवि हुए। दलपतराम के पुत्र नानालाल ने प्रबोध काव्य खड्कय्य मन्त्र काव्य एवं नाटक लेखक के रूप में ख्याति प्राप्ति की। 'कुरुक्षेत्र महाकाव्य' इनकी प्रमुख कृति है। गुजराती कथा साहित्य अपेक्षा कृत अधिक समृद्ध है। गोवर्धनराम त्रिपाठी का 'सरस्वती चन्द्र' उपन्यास चार भागों में लगभग गौ वर्ष पहले प्रकाशित हुआ। ऐतिहासिक उपन्यास लेखन के क्षेत्र में दसियों मान्य लेखक हैं, इनमें कन्हेयलाल मणिक लाल मुशी के उपन्यासों के तो सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुए। जिनमें से पृथ्वीवल्लभ, जयसामनाथ, तोषामुद्रा आदि के नाम लगे हैं भाषा भारी जानता है।

गांधी जी गुजरात विद्यापीठ के जन्मदाता थे ही, उन्होंने गुजराती वर्णों को मानक रूप देने के लिये काका बाललकर से 'जोड़ण' कांश तैयार करवाया जिसमें गुजराती में प्रयुक्त शब्दों को मानक रूप मिला।

गुजराती लिपि तथा ध्वनियाँ:- गुजराती लिपि देवनागरी लिपि का ही एक रूप है। यदि अंतर है तो पहला यह कि अक्षरों पर शिरोरेखा नहीं होती। दूसरा कुछ अक्षरों की आकृतियाँ विभिन्न हैं। एक आधे अक्षर अधिक है। उच्चारण की दृष्टि से गुजराती की माटी माटी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।

- 1 शब्दों में 'ण' और 'ऑ' का उच्चारण तो होता है, परन्तु उसके लिए स्वयंशर या मात्रा नहीं है।
- 2 चन्द्र बिन्दु () अर्थात् अर्ध अनुस्वार का उच्चारण अनेक शब्दों में होता है, परन्तु यह चिह्न नहीं है।
- 3 चू, छू, जू, झू के उच्चारण प्राकृत काल के चले आ रहे हैं, परन्तु साहित्यिक अथवा मुंशीशिक्षण लागे उन्हें शुद्ध तालव्य उच्चारण करते हैं।
- 4 'ज्ञ' का उच्चारण गुजराती में 'ग्न' के समान होता है। अर्थात् 'ज्ञान' शब्द हिन्दी की तरह 'ग्यान' नहीं 'गुनान' वाला जाता है।
- 5 कण्ठ से निकलने वाली 'ह' की ध्वनि कभी कभी सयुक्त वर्णों में छाती से निकलती है।

- 6 अनेक शब्दों में 'ह' या 'य' न हाने पर भी धाई मी ध्वनि मुनाई पडती है। जिसे 'ह' श्रुति तथा 'य' श्रुति कहा जा सकता है।
- 7 गुजराती उच्चारण में शब्दों या वाक्यों में स्वरघात या स्वरभार भी मुनाई पडता है। अर्थात् शब्द के किसी वर्ण या वाक्य के किसी शब्द पर उच्चारण में अधिक बल डाला जाता है।
- 8 हिन्दी की तरह नीचे बिन्दी लगाकर क, ख, ग, ज, फ के फारसी उच्चारण को प्रकट नहीं किया जाता।
- 9 ट, ठ की बिन्दी भी नहीं लगाई जाती परन्तु कुछ लोग ड, ढ युक्त शब्दों में वेग उच्चारण करते पाये जाते हैं।
- 10 पूर्ण विराम त्रयेजी की तरह छोटी बिन्दी में लगाया जाता है खड़ी पाई में नहीं।
- 11 इसमें संस्कृत की तरह तीन लिंग हैं। नपुंसक लिंग का नान्यत्र ज्ञानि कहते हैं। सामान्यत आकारान्त शब्द पुल्लिंग, इकारान्त शब्द स्त्रीलिंग एवं एकारान्त शब्द नपुंसक लिंग होते हैं।
- 12 सामान्यत 'आ' लगाने में एकवचन का बहुवचन ही जाना है।

तमिल भाषा का परिचय

भारत के दक्षिण पूर्व में अवस्थित प्रदेश तमिलनाडु कहलाता है। उसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। उत्तर का किंचित भाग टीसा का, पश्चिम का आंध्रप्रदेश क्षेत्र तेलुगु देशम् तथा कुछ भाग कर्नाटक का एवं उससे आगे मलयाळम् भाषी करल प्रान्त को ग्पर्श करता है। तमिलनाडु में अन्तिम द्वार कन्याकुमारी है। इस समय इस प्रदेश की राजभाषा तमिल है।

तमिल का सबसे प्राचीन ग्रन्थ नान्दाप्पियम् तमिल प्रदेश की सीमा उत्तर में निरूपित में लेकर दक्षिण में प्राचीन काल की कुमारी नदी तक बचता है जिसमें तमिल भाषी 49 राज्यों में जिनमें ज्ञात होता है कि आज के तेलुगु, कन्नड तथा मलयालम दोनों प्रान्त उनमें अन्तर्गत थे।

तमिल शब्द द्रविड शब्द का विवर्धित रूप है जिसका विवर्धित द्रविड द्रोमिक तमिल रूप में हुआ। यहाँ जिन तमिल लिखा जा रहा है वह अग्रजी में लिग उच्चारण में अनुकूल है। तास्त्व में द्रविड उच्चारण तमिड और तमिड के बीच का कहा जा सकता है। देवनागरी में उसके उच्चारण में लिग कृ अक्षर सञ्ज्ञेत बढा गया है। प्रस्तुत कौश में इस अक्षर का उपयोग नहीं किया जा सका।

तमिल का भाषा परिवार:- द्रविड भाषा परिवार की यह प्राचीनतम भाषा है। ईसा में लगभग 2500 वर्ष पूर्व में यह अविरत रूप में व्यवहृत होती आ रही है। तमिल में उपलब्ध ग्रन्थों में आधार पर भाषा विज्ञानियों का निर्विवाद निर्णय है कि ईसा में कई सौ वर्ष पूर्व यह भाषा मुन्यवस्थित एवं सम्पन्न हो चुकी थी। ऐतिहासिक वास्तविकता तो यह है कि दक्षिण की अन्य तीनों द्रविड उद्भूत भाषाओं मलयाळम्, कन्नड और तेलुगु ने तो अपने चाले चल लिये परन्तु तमिल अपने पुरातन रूप की विरासत दृढ़ता में अपनाए हुए है। अन्य तीन भाषाओं ने लगभग सहस्र वर्ष पूर्व अपना स्वतंत्र अस्तित्व ग्रहण करना आरम्भ कर लिया था। अपनी अपनी लिपियाँ भी देवनागरी वर्णमाला रूप में अनुसार विकसित कर ली थी और अक्षर रूप निर्णीत कर लिये थे, जिनकी स्थिरता मुद्रगालयों के अस्तित्व में आने पर पूरी तरह स्थापित हो गयी।

तमिल साहित्य का विकास:- तमिल के प्रमुख तथा प्राचीन महाकाव्य 'शिल्प्पादिकारम्' की टीका से ज्ञात होता है कि तमिल भाषी भू भाग बहुत विशाल था। समय समय पर सागर प्रलय में इसके अनेक क्षेत्र नष्ट हो गये।

इरेयनारकल वियलुऐ' नामक ग्रन्थ में तमिल कवि सभा का विवरण दिया गया है। उसके अनुसार प्रथम कवि सभ ईसा पूर्व 9950 से 5500 पूर्व अर्थात् 4400 वर्ष तक काव्य निर्माण के काम में देखभाल करता रहा। इस सभ के सदस्य 89 कवि थे तथा प्रधान ग्रन्थ 'अगत्तियम्' था जिसमें 12,000 सूत्र थे। यह भालोचनात्मक ग्रन्थ था। अन्य भी अनेक ग्रन्थ थे, जो उस समय के पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरा नगर के सागर मग्न हो जाने से नष्ट हो गये। तदनन्तर उन्होंने 'कपाट पुरम्' राजधानी स्थापित कर द्वितीय कवि सभ की स्थापना की। इस सभ के सदस्य 59 कवि थे। यह सभ 3700 वर्ष तक साहित्य निर्माण करता रहा। इसकी समाप्ति भी ईसा पूर्व 1850 तक सागर की उथल पुथल के कारण हो गयी। इस काल

के भी अनेक ग्रंथ थे जिनमें पूर्व उल्लिखित तालकाप्पियम् अति प्रसिद्ध है। तृतीय कवि सघ की स्थापना वर्तमान मदुरा में हुई। इसका मदस्य 40 वर्ष थे यह 1850 वर्ष रहा अज्ञात कारणों से इसका भी विघटन हो गया। इस काल के साहित्य में अंग्रेज मंदिर तथा मूर्तियों एवं अन्य ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होने से इसकी सत्ता प्रमाणित होती है।

इस प्रकार तमिल साहित्य का काल विभाजन सघपूर्व काल सघकाल सघोत्तर काल भक्ति काल कम्बन काल मध्यकाल तथा आधुनिक काल है।

सम्प्रति द्वितीय सघकाल का तोलकाप्पियम् तथा तृतीय सघकाल के ग्रंथ उपलब्ध हैं। इनमें तत्कालीन प्राकृतिक जीवन तथा संस्कृति का ज्ञान होता है। तोलकाप्पियम् पाणिनी की अष्टाध्यायी सद्गुरु अद्भुत लक्षण ग्रंथ है। तृतीय सघकाल के 8, 10, 18 कविताओं के संग्रह वाल ग्रंथ प्राप्त है। जिनमें प्राचीन समाज राजनीति धर्म तत्कालीन चर चाल एवं पाठ्य राजाओं का विवरण तथा युद्ध आदि का पारस्व्य मिलता है। इनमें एक ग्रंथ तिरुक्कुरल है। जिसमें हिंदी कवि विहारी के दोहा के समान 1330 दाहे हैं जिनमें धर्म अथ काम की सख्त मुन्दर व्याख्या है। इस ग्रन्थ में अनुवाद संस्कृत बंगला मलयालम अंग्रेजी फ्रेंच लैटिन जर्मन आदि भाषाओं में हुआ है। हिंदी में अनुवाद तमिल वेद नाम से प्रकाशित है। तृतीय सघकाल के अन्तिम चरण में उन्नागपथ में वैदिक बौद्ध तथा जैन धर्मावलम्बी लोगों ने आर्य प्रचार यात्राओं की शुरुआत की। इस काल में तमिल भाषा में संस्कृत प्राकृत और पाठी भाषाओं का असंगत सम्मिश्रण हुआ और इस युग में शिल्पादिकारणम् मणिमेरुल जोषक चिन्मामाणि वलयापदि तथा कुण्डनर्सेरा पाठ संश्लेष महाकाव्यों की रचना हुई।

उन्नागपथ के इस धर्म प्रचार में तमिलों ने पुण्य शेष में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर दी। अतः एका समय आया कि शैव नायन्मार और पीछे पीछे पण्डित आचार्य भी पदयात्रा कर धर्म प्रचार करने लगे। इस काल में जोर देकर भक्तिमान और उन्नागपथ की रचना विपुल मात्रा में हुई। मंदिरों में आज तक वेदा के समान उन्ने पदा का पाठ्यक्रम किया जाता है। आचार्य भक्ता में आण्डाल का मीरा के समान था।

भक्तिकालीन कवियों ने साहित्य में एसी गति उत्पन्न की कि संतों की प्रतिमाएँ प्रत्यक्ष रूप से रचना की और हुई। अनेक प्रबंध काव्य रचे गये जिनमें कम्बनगायण दशम में प्रसिद्ध है। उसके रचनाकार कम्बन है। उन्होंने गमायणनम् नामक छंद में बारह हजार पद्य रचे जिनकी संकल्पना में अभिभूत ही विद्वानों ने इस काल की प्रथम काल में माधव माधव कम्बन काल भी कहा। कम्बन का समय 12वीं शती माना जाता है।

इस काल तक साहित्य उस चरम कोटि तक पहुँच गया था कि आगामी दो सौ वर्षों तक केवल शिवाकार ही पैदा हुए रचनाकार नहीं। तोलकाप्पियम् तिरुक्कुरल आदि अनेक प्रसिद्ध काव्यों के प्राणांगिक भाष्यकार एसी समय की दन हैं। भाष्य एवं टीकाओं के कारण इस मध्यकाल का सघकाल भी कहा जा सकता है।

दक्षिणापथ में पाश्चात्या के आगमन के साथ ईसाई धर्म प्रचारकों ने तमिल का व्यवस्थित अध्ययन अपने प्रचार के लिए किया। शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से प्रचार करने के लिए उन्होंने सख्त व्याकरण ग्रंथ पाठ्य पुस्तकें आदि रचीं। शिल्डवेल ने चारों द्रविड भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण लिखा। पाप ने तिरुक्कुरल आदि का अंग्रेजी में अनुवाद किया। यह काल तमिल सघ का विकास काल माना जाता है।

ईसा की 19 वीं शती में संस्कृत के मेघदूत कादम्बरी गीता पंचतंत्र अर्जुनसूय महाभारत रामायण भागवत आदि अनेक ग्रंथों के अनुवाद तमिल में हुए। अनेक लघु काव्यों की रचना हुई। 20 वीं शती के आरंभ होते ही एक आर अंग्रेजी, बंगला, मराठी आदि के नाटकों, उपन्यासों के अनुवाद हुए, दूसरी ओर तमिल में भी अनेक कहानीकारों उपन्यासकारों की रचनाएं आरंभ हुईं। आज काव्य, आलोचना निबन्ध, जीवनी यात्रा वृत्तान्तों में तमिल का विपुल उच्चतम साहित्य रचा जा रहा है। तमिल के सुब्रह्मण्य भारती की रचनाओं का सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। पुरस्कार प्राप्त लेखकों की भी कमी नहीं है।

नोट:-तमिल लिपि एवं ध्वनियों तमिल लिपि की विशेषता तमिल शब्दों के विलक्षण उच्चारणों का समाधान, परंपरा तथा परिज्ञान का उच्चारणों पर प्रभाव, तमिल लेखन उच्चारण में भिन्नता तमिल लेखन उच्चारण के नियम आदि शीर्षकों के अन्तर्गत भूमिका में, लिपि एवं ध्वनि सबधी विशेष परिचय दिया गया है। कृपया यहाँ अवलोकन कीजिए।

तेलुगु भाषा का परिचय

भौगोलिक दृष्टि से आज 5 तेलुगु देशों की सीमाएँ पूर्व में बंगाल की खाड़ी से दक्षिण में तमिलनाडु से पश्चिम की ओर उत्तर में दक्षिण चले तो यहीसा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तथा कर्नाटक से स्थित होती है। इस प्रदेश की भाषा का नाम तेलुगु है जिसकी व्युत्पत्ति कुछ विद्वानों के मतानुसार त्रिभिन्ना अर्थात् तीन पर्वतों से मध्य का प्रदेश से हुई। इन तीन पर्वतों पर तीन लिंग (शिव) मंदिर स्थित हैं जिनके नाम महेश्वर श्री शैलेश्वर एवं भागेश्वर हैं। इस प्रदेश का तेलुगु भाषी प्रदेश भी कहा जाता है।

तेलुगु का भाषा परिवार:- विश्व का सबसे बड़ा भाषा विज्ञान तेलुगु का द्रविड मूल की भाषा मानते हैं परन्तु डॉ० चिल्लुकूरि नागयण राव का मत है कि यह आर्य परिवार की भाषा है तथा इसका जन्म पेशाची प्राकृत से हुआ। श्री लक्ष्मण शास्त्री का मत है कि तेलुगु में 75 प्रतिशत संस्कृत शब्दों का सम्मिश्रण है। पश्चिमी विद्वानों ने इस पूर्व की इतालवी भाषा कह कर इसके माध्यम की सराहना की है। इस परिवार का आकार संस्कृत तेलुगु का मार्ग स्थापित करेगा। तमिल कन्नड महाराष्ट्र एवं कर्नाटक इन पाञ्चवर्ती प्रदेशों की भाषा का प्रभाव सहज ही जितने की भाषा व्यवहार पर सहज ही लक्षित होता है। सूत्रान्तों की वादजाह्निक के कारण तेलुगु में उदात्त शब्दों की संख्या व्याप्त मात्रा में पायी जाती है।

तेलुगु साहित्य का परिचय - महाभारत नन्दि भट्टाचार्य के मध्य महाभारत के तेलुगु पद्यानुवाद से अब तक उपलब्ध साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। उनका दण्डनायक आनन्द आनन्द चिन्तामणि का प्रणयन संस्कृत में हुआ जो व्याकरण ग्रन्थ है। उसमें पूर्णतः अनेक काव्यो का गादाह्वय चित्रित है। उसके अतिरिक्त पूर्व साहित्य पर प्राचीन शिलालेख एवं नाव के वन शिलालेख भी प्रकाश डालते हैं। अब तेलुगु साहित्य का स्वन विभाग निम्न प्रकार से माना गया है।

1 **अज्ञात युग ई० सन् 700 से 1050 तक -** इस युग से पूर्व के जो ज्ञानानुभव मिले हैं वे संस्कृत या प्राकृत भाषा में हैं। अब तेलुगु में ग्रन्थों का जन्म हुआ। ज्ञान ज्ञानानुभवों से ही उत्पन्न होता है। इनमें प्रमुख भाषा का रूप काफी प्राचीन है। जितानुभवों के अतिरिक्त तुम्हादपदपुत्र (भ्रमरगीत) मनुमानुपुत्र (प्रभातिया) आदि मौखिक साहित्य है।

2 **1050 से 1500 ईसवी तक -** इस युग का आरंभ अतिरिक्त अतिरिक्त नन्दि भट्टाचार्य से होता है जिन्होंने महाभारत का तेलुगु में पद्यानुवाद अग्र्य पर के तेलुगु भाग तक किया। 15 पर्यंत का अनुवाद सम्पूर्ण दो सौ वर्ष बाद कविवर्रुह अन्धकार में जन्म हुआ जो नन्दि भट्टाचार्य से किया गया। उसका प्रभाव महाभारत का अनुवाद तीन महाकाव्यों द्वारा तीन अर्थव्यक्तियों में उपलब्ध हुआ। इन्हें अतिरिक्तों के नाम से श्रद्धा पूर्ण स्मरण किया जाता है। इस युग में अन्य अनेक अतिरिक्तों की रचनाएँ एवं रचनाकारों ने निसिद पुराणम् उत्तर हरिवंशम् दृष्टान्तमभवम् दशहजार चतुर्दश महाभागतम् आदि काय ग्रन्थों के अनुवाद किये। जिनकी शैली संस्कृत शब्द बहुतायी। इस ज्ञान की प्रणयण युग एवं अनुवाद युग का नाम दिया गया। इस युग का संस्कृत शब्द बहुतायी रचनाएँ भार्गी शैली तथा दशो शब्द बहुला रचनाएँ देसी शैली कहलायी।

3 **1500 से 1750 ईसवी तक -** यह युग तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में स्वतंत्र काव्य रचना पर बल दिया गया। विजय नगर साम्राज्य के प्रतिष्ठापक कृष्णदेवरायन् स्वयं वेद विद्वान् एवं कवि थे। इन्होंने अपने दरबार में भुवन विजय सभा में अष्ट दिग्गज महाकाव्यों का आभय दिया। जिनमें अनेक मौखिक ग्रन्थों की रचना की जा धार्मिक श्रुतिपरक काव्यपरक नीतिपरक आदि विभिन्न विषयों पर थे। विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात् तजाऊर और मदुरे के राजाओं ने कवियों को प्रथम दिया। कुछ श्रेष्ठ भक्त काव्यों की रचना भी हुआ। इसक समानान्तर शतक काव्य परम्परा भी चलती रही जिसका आरंभ पुराण युग में 1171 ईसवी से हो चुका था। सहस्र के प्रथम शतक काव्य लिखे गये जिनमें से कुछ उपलब्ध हैं। ये भार्गव शृंगार एवं नीति परक हैं तथा मुक्तक छंद में हैं। इनके अतिरिक्त गीति साहित्य एवं यक्षगान (दृश्य प्रबंध) की भी तेलुगु जन जीवन में प्राचीन परंपरा रही है।

4 **1750 ईसवी से आज तक का काल वर्तमान युग** कहलाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1750 ईसवी तक दक्षिण प्रदेश में जम गया था। साहित्य पाषण्ड राजाओं के अधिकार कृत हो गये थे। अब साहित्य संवर्धन का अवकाश समाप्त

हो गया। 1650 ईसवी से 1900 ई० तक का युग तेलुगु साहित्य में हास युग कहलाता है। परन्तु इस काल में ईसाई धर्म प्रचारकों ने तेलुगु गद्य रचना को प्रोत्साहन देकर भाषा एवं साहित्य का उपकार किया। अंग्रेज न्यायाधीश श्री सी० पी० ब्राउन का स्मरण कृतज्ञता से किया जाना चाहिए, जिन्होंने तेलुगु अंग्रेजी निघण्टु (शब्द कोश) का प्रणयन 19 वीं शती के अतिमचरण में किया।

श्री कुन्दुफूरि वीरेशलिगम् पन्तुलु आधुनिक तेलुगु साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। कविता, नाटक, उपन्यास, निबन्ध आदि सभी क्षेत्रों में इन्होंने एक नवीन दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। बीसवीं शती में मुद्रण सुविधा के सहारे कवि तथा रचनाकार जन मिश्रित हो गये। अनेक पत्र पत्रिकाएँ सफलता पूर्वक भाषा सेवा में जुट गयीं। 1956 ईसवी में तेलुगु देशम् के अस्तित्व में आने के पश्चात् अनेक शासकीय तथा अन्य सस्थाएँ साहित्य सवधर्न का कार्य कर रही हैं। उक्त अध्ययन से ज्ञात होता है कि तेलुगु शब्द भण्डार संस्कृत साहित्य, पश्चिमी भाषाओं के शपक, हैदराबादी हिन्दी उर्दू तथा विरासत में द्रविड भाषाओं से पायी शब्दावली से भरपूर है।

तेलुगु लिपि एवं ध्वनियों:- पहले तेलुगु कन्नड लिपि एक ही थी, अब किंचित भिन्न है। इसमें 56 वर्ण हैं। दो वचन—एक वचन और बहुवचन तथा संस्कृत की तरह तीन लिग हैं। तेलुगु भाषा भारी जनता का उच्चारण प्रायः स्पष्ट एवं शुद्ध रहता है, वे समस्त ध्वनियों का उच्चारण कर लेते हैं। कुछ विशेष ध्वनियों निम्न प्रकार हैं।

1. तेलुगु भाषा के सभी शब्द भ्रजन्त या स्वरान्त हैं।
2. 'ऐ' और 'ओ' के ह्रस्व रूप, उच्चारण तथा मात्रा तेलुगु में हैं।
3. मराठी की तरह 'च' और 'ज' के तालु के साथ साथ दन्त्य उच्चारण भी मिलते हैं, जिनके लिखन के विशेष अक्षर रूप हैं।
4. साधारण लुटित 'र' के अतिरिक्त घर्षण युक्त या सघर्षी 'र' भी है जिसका उच्चारण 'र' जैसा किया जा सकता है।
5. सामान्य पार्श्विक या दन्त्य 'ल' के अतिरिक्त मृदन्त्य 'ळ' भी तेलुगु में होता है।
6. अनुस्वार का उच्चारण 'अड' जैसा न होकर 'अम्' जैसा है अथवा प्रयुक्त अक्षर के वर्ण के अनुनासिक जैसा किया जाता है।
7. सयुक्त व्यंजन चिन्ह मूल व्यंजन से भिन्न रूप वाला होता है, जिसका प्रयोग प्रथम व्यंजन के बाद कर दिया जाता है।

नेपाली भाषा का परिचय

भारत के उत्तर और तिब्बत के मध्य लगभग आठ सौ किलोमीटर लम्बाई में पश्चिम से पूर्व तक फैले नेपाल राज्य की राजभाषा नेपाली है। भारत में दार्जिलिंग के आस पास के क्षेत्र तथा सिक्किम राज्य के क्षेत्र में भी नेपाली भाषा का प्रचलन है। अतः भारत के नेपाली भाषी लोगों की मांग पर भारतीय भाषाओं की सूची में नेपाली को सम्मिलित कर लिया गया है।

नेपाली भाषा का नामकरण:- नेपाल से नेपाली शब्द बना है जो उक्त देश के निवासी तथा उक्त राज्य की भाषा दोनों के लिये प्रयुक्त होता है। नेपाल शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में कई मत हैं। बौद्धमत के अनुसार 'ने' का अर्थ निर्देशात्मक है। स्वयम् बुद्ध की संज्ञा 'ने' है, क्योंकि स्वयम् 'स्वयम् मार्ग' का निर्देशक है। स्वयम् नेपाल का रक्षक देवता है। अतः देश का नाम नेपाल है। कुछ लोग कहते हैं कि 'ने' मुनि के नाम पर 'नेपाल' बना। अन्य लोग 'नेपार' से नेपाल बना बताते हैं। प्राचीन मागधी में 'र' के स्थान पर 'ल' प्रयोग प्रचलित था। काठमाण्डू के निकटवर्ती क्षेत्रों में नेपाल जाति पाई जाती है। संभवतः उस से उक्त शब्द बना हो। 'नेपाल' शब्द का प्रयोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। अतः यह शब्द लगभग ढाई हजार वर्ष पुराना तो है ही। नेपाली के बोल चाल के रूप को पहले 'गोरखाली' तथा कई अन्य नामों से भी पुकारा जाता था। पर्वतीय प्रदेश होने से जगह जगह की बोलियाँ भिन्न थीं। विभिन्न प्रदेशों के एक राज्य के अंतर्गत आने पर

नेवारी के सम्मिश्रण से गोरखाली भाषा नाम पडा। यह नाम गुरु गोरखनाथ नाम के प्रभाव में उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है। सन् 1932 ई० से सरकारी रूप से 'गोरखाली' शब्द के बढने 'नेपाली' शब्द व्यवहृत किया गया।

नेपाली भाषा का उद्भव:- भारत की अन्य भाषाओं की तरह नेपाली का मूल उत्र भी संस्कृत ही माना जाता है। यद्यपि यह संस्कृत से सीधी निकली भाषा नहीं कही जा सकती। यह भी पाली फिर अर्धमागधी मागधी प्राकृत, तत्पश्चात् अगधी भोजपुरी मगधी आदि अपभ्रंशों से निकली भाषा है। जिनमें नेवारी शब्द भी किंचित मात्रा में है।

प्राचीन नेपाली भाषा का स्वरूप:- नेपाली भाषा का सबसे प्राचीन लेख 1543 ई० का महाराज द्रव्यशाह के प्रसिद्ध लाल मूहर नाम पत्र पर अंकित है। उसके पश्चात् काठमाण्डू के राजा प्रतापमल्ल का एक शिलालेख है। उस भाषा को 'खस भाषा' कहते हैं। संस्कृत में ही अधिकांश ग्रंथ लिखे जाने के कारण जनभाषा को गौरव प्राप्त न था। गुमानी कवि के श्लाका में तीन पाद संस्कृत के साथ एक पाद नेपाली में मिलता है। बाद के अनेक लेखकों के द्रौपदीविलाप, गाँपिका स्तुति, सुन्दर काण्ड कृष्ण चरित्र आदि कुछ ग्रन्थ दुष्प्राप्य हैं। जो हैं वे खण्डकाव्य या अनुवाद ग्रंथ हैं।

आधुनिक नेपाली का साहित्य:- सन् 1811 ई० में जन्मे **भानुभक्त** नेपाली के भादश तथा श्रेष्ठ आधुनिक कवि हैं। इन्होंने सम्पूर्ण रामायण नेपाली भाषा में लिखी। नेपाली में इनकी रामायण का वही सम्मान है, जो हिंदी में तुलसीदास के 'रामचरित मानस' का है। इसके अतिरिक्त कथु भिक्षा, 'भक्तमाला' आदि भी इनके गरम ग्रंथ हैं। इन्होंने स्फुट कविताएँ भी लिखी स्वदेश प्रेम जाग्रत करने हैं। ये नेपाल के श्रेष्ठ कवि हैं। इनको नेपाली का आदि कवि माना जाता है।

इनके बाद मोतीगम भट्ट का नाम प्रसिद्ध है। इन्होंने कविताएँ लिखी। पाशुपत प्रेम खाल भानुभक्त की रामायण प्रकाशित करायी। ये भारतन्तु के मित्र थे। साहित्य उन्नति में इनका पर्याप्त योगदान रहा। अनेक लेखकों को इन्होंने प्रोत्साहित किया। गान्धी लोचन कंदारकला आदि कृत कविताओं के लिये प्रसिद्ध हैं। पतर्जान गुजराल अपन 'मत्स्येन्द्र नाथ' की कथा हरिभक्तमाला, 'गोपाल वागी' आदि ग्रंथों के लिये प्रसिद्ध हैं। शिखरनाथ के रामायण, तीर्थ यात्रा वर्णन आदि में भाषा की प्रौढता तथा अर्थालंकार मिश्रण है। ये सारे नेपाल में प्रसिद्ध हैं। शम्भुप्रसाद आशु कवि थे। इनके स्फुट भजन प्रचलित हैं। संस्कृत की 'रत्नावली नाटिका' का इन्होंने नेपाली में अनुवाद किया।

वर्तमान कवियों में लेखनाथ के बुद्धिविनोद में नये विचार एवं तरुणतपस्वी में आध्यात्मिकता के दर्शन होते हैं। ऋतुविचार, सत्यकलिमराद, लालित्य, लक्ष्मी पूजा नाटक, गीता ३१ संक्षिप्त अनुवाद तथा अपनी मर्मस्पर्शी स्फुट कविताओं के लिये ये प्रसिद्ध हैं। प्राचीन संस्कृत साहित्य के पुट के साथ नयी विचार सरणी, पद्य रचना में कलात्मकता और शैली में भावात्मकता के कारण ये 'कविमण्डल' कह जाते हैं।

बालकृष्ण कवि से अधिक नाटककार हैं। इनको न्यूयाक में प्रकाशन विश्वकोश में नेपाली का 'शेक्सपीयर' कहा गया है। इन्होंने पद्यमय नाटक परम्परा स्थापित की। इनके ध्रुव, प्रह्लाद, इन्दिरा, मुकुन्द आदि पद्यमय तथा 'भक्तभानुभक्त', 'म', 'ऊनी भरेधी देवन' आदि गद्य नाटक हैं। भावगाभीर्य, आज्ञापूर्वता तथा नवीन विचारधारा इनके मुख्य गुण हैं। इन्होंने सरस कहानियाँ भी लिखी हैं। 'मुनामदन', मुलाचना शाकुन्तल महाकाव्य, 'लक्ष्मी निवध' संग्रह 'भखारी', 'सावित्री सत्यवान', आदि के कृतिकार लक्ष्मी प्रसाद की गद्य पद्य दोनों में समान रति है। सर्वतोमयी प्रतिभा के कारण इनमें विचार गाभीर्य है।

संस्कृत शब्द बहुलता को त्याग लोक भाषा में लिखने के कारण रुद्रराज पाडेय लोकप्रिय हैं। इन्होंने 'रूपमती, चम्पाकाजी, प्रायश्चित्त, प्रेम, नवरत्न' आदि अनेक ऐतिहासिक तथा सामाजिक उपन्यास एवं नाटक लिखे हैं। कथाकारों में अनेक कहानी तथा उपन्यास लेखक प्रसिद्ध हैं। जिनमें विश्वेश्वर प्रसाद, गुरुप्रसाद मैनाली, गोविन्द बहादुर आदि मुख्य हैं।

पिछली शताब्दी तक नेपाल में अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मगधी भाषाएँ अधिक प्रचलित थीं। कारण कि नेपाली राज्य का दक्षिण भाग हिमालय की तराई में है, जो भारत में प्रचलित उक्त बोलियाँ बोलने वालों का प्रदेश है। तथा नेपाली शिक्षित वर्ग भी गोरखपुर, वाराणसी, पटना आदि में ही शिक्षा प्राप्त करता था। इस प्रकार राष्ट्रभाषा हिंदी के साथ नेपाली का घनिष्ठ संबंध है।

नेपाली लिपि तथा ध्वनियों:- नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है। सयुक्त अक्षर लिखने में संस्कृत व्याकरण के नियमों के अनुकूल अनुनासिक व्यंजनों का प्रयोग होता है। यथा अक अङ्क, अग अङ्ग लिखा जाता है। नेपाल में किराती, गुरुंगा,

तामग, मगर, नेवारी, गोरखानी आदि बोलियां बोली जाती हैं। अब नेपाल में चालीस से अधिक कालेज और दो सौ से अधिक माध्यमिक स्कूल तथा काठमाडू में त्रिभुवन विश्वविद्यालय है। अतः शुद्ध बोलने वालों की संख्या पर्याप्त है।

भारत में रहने वाले नेपाली जन जिनकी माग पर 'नेपाली' को भारतीय भाषाओं की सूची में सम्मिलित किया गया है, उनके नेपाली उच्चारण हिन्दी के समान हैं।

पंजाबी भाषा का परिचय

भौगोलिक दृष्टि से पंजाबी भाषा बोलने वालों का क्षेत्र भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब दोनों भागों में व्याप्त है। पाकिस्तानी पंजाबी का झुकाव लहदा और पश्चिमी पंजाबी की ओर है। भारतीय पंजाबी में माझी अर्थात् अमृतसरी, दोआबी (जालधर लुधियाने तक की) पंजाबी, मलवई तथा पहाडी आदि उपशाखाएँ हैं। ईसाई मिशनरी लोगों ने लगभग डेढ़ सौ वर्ष पहले लुधियाना में अपना कार्यालय स्थापित किया था। जिसने पंजाबी भाषा में 1854 ई० में पंजाबी का सबसे पहला शब्द कोश छापा। उन्होंने उस समय पटियाला-लुधियाना के मध्य की मलवई बोली को टकसाली बनाने का यत्न किया। देश विभाजन के बाद पश्चिमी पंजाब से लाखों लोग आकर हरियाणा तथा दिल्ली प्रांत में बसे। अतः उक्त क्षेत्रों में भी पंजाबी बोलने वालों की संख्या लाखों में है।

पंजाबी भाषा का नामकरण:- संस्कृत पंच आपः शब्द का अर्थ पांच पानी है। उसका तद्भव रूप पञ्ज-आब हुआ, जो फारसी भाषा के अनुसार भी ठीक है। 'आब' शब्द यहाँ पांच नदियों के पानी को लक्ष्य करता है। इतिहास में इसका लखा सन् 1665 ई० में मिलता है। उस वर्ष भारत में आये एक फ्रांसीसी यात्री बर्नार्ड ने अपने देश को भेजे पत्र में लिखा था कि लाहौर 'ज ए-आब' की राजधानी है। भाषा के लिये 'पंजाबी' शब्द सन् 1670 ई० में हाफिज बख्शरदार कवि ने पहली बार प्रयुक्त किया, यह प्रमाण मिलता है। परन्तु इसका नाम बाद में भी हिंदी या हिंदवी चलता रहा क्योंकि उसके लगभग डेढ़ सौ वर्ष बाद भी राजा रणजीतसिंह का दरबारी कवि हाशिम महाराज के सामने अपनी भाषा (पंजाबी) को हिंदी कहता है। आरंभिक धार्मिक ग्रंथों की भाषा ब्रज भाषा है और पुरातन पंजाबी में अरबी-फारसी मिश्रित पश्चिमी पंजाबी है, चूंकि वह साहित्य अधिकतर मुस्लिम कवियों द्वारा रचा गया है।

पंजाबी भाषा का उद्भव तथा विकास:- पंजाबी भाषा के शब्द भंडार को देखने में ज्ञात होता है कि इसमें आधुनिक काल में प्रचलित अनेक शब्दों के रूप वहीं है जो ढाई हजार वर्ष पहले वृद्ध और महावीर द्वारा प्रयुक्त होते थे। अर्थात् उस समय के दुध, हथ, नक, कन, पिट, सत, अट हिन्दी बगला आदि में अब से हजार वर्ष पहले दूध, हाथ, नाक, कान, पीट, मात, आट हो गये परन्तु पंजाबी में वैसे ही बने हुए हैं। इसमें यह सिद्ध होता है कि 'पंजाबी' भाषा का उद्भव ईसा पूर्व शताब्दियों का है।

भाषा-शास्त्री ऐसे ही शब्दों के आधार पर यह घोषणा करने है कि ऋग्वेद की रचना पचनद प्रदेश में ही हुई। परन्तु ईसा पूर्व 327 में हुए सिकन्दर के आक्रमण से लेकर ईसवी सन् 1748 के भी बाद तक पश्चिमी आक्रान्ता इस प्रदेश को रौंदते रहे, अतः इस बीच साहित्य रचे जाने का शान्त वातावरण नहीं था। जो साहित्य मिलता है वह मुसलमान सूफ़ी सन्तों का है। ये सन्त जनता को अपनी ओर आकर्षित करने या अपने विचारों का प्रचार करने के लिये रचना करते थे अतः उसमें जन भाषा के शब्द आ जाते थे, अन्यथा उनकी अपनी भाषा फारसी आदि के शब्द अधिक रहते थे।

पंजाबी के पहले कवि बाबा फरीद हैं जिनकी कविता में प्रकृत प्रेम और परमात्मा का प्रेम अधिक है। भाषा पश्चिमी पंजाबी और फारसी से प्रभावित है। परन्तु पंजाबी शैली को निखार देने वाले कवि वास्तव में गुरु नानक हैं। इनकी वाणी आदि ग्रंथ में संग्रहीत हैं। इसमें गुरु रामदास, गुरु अर्जुनदेव आदि की वाणी भी हैं। गुरु नानक की सर्वप्रसिद्ध रचना 'जपुजी' के अतिरिक्त 'आसा दी वार', 'सोहिला', 'हरिराम' तथा लगभग पांच सौ फुटकर पद हैं। भाव, अभिव्यक्ति, कला एवं संगीत की दृष्टि से वाणी प्रभाव पूर्ण है। गुरु रामदास में काव्यगुण और गुरु अर्जुन देव की वाणी में ज्ञान और विचार अधिक हैं। गुरु गोविन्द सिंह के 'दशमग्रंथ' में भी 'चंडी दी वार' पंजाबी कृति है। गुरुओं के अतिरिक्त भाई गुरुदास की वाणी को भी

गुरुगत के अतर्गत मान्यता दी जाती है। उनके कविता और गवेष ब्रजभाषा में और चार तथा 'गात शुद्ध साहित्यिक पञ्जाबी' में है।

सूफ़ी कवियों में सवेदना, वैराग्य भावना, विरह, मरगना में भरे फ़रीद, लम्ब अला, शाहहमन आदि कई कवि हैं। इस्नाम की शरअ से विद्रोह करने वाला कवि मुलतान चारु अपनी सीर्फीया में प्रहकार न्याग गुरु कृपा अर्तनीरीक्षण, आन्वाचिस्तन पर बल देता है। तथा में और 'मर' का थख़ड़ा मानता है। गुरफ़ी साहित्य में अति लारु प्रिय कवि वुल्नशाह हैं। इनका भाषा में आज है। ये प्रेम, माधना और मिलन के अनुपम गाए हैं। इनके आन्विरिस्त हदर वजीद फ़रीद हाशिम आदि अन्य अनेक कवि हैं। इनमें दार्शनिकता है और साहित्य प्रायः गय मुस्तफ़ में है।

पञ्जाबी साहित्य के उस काल के शृंगार रस प्रधान लौकिक भाव्य भी अति लोकप्रिय है। चारिमशाह का हीर गड़ा भाषा पर पूर्ण अधिकार और रवि के पतिभाशाली होने का पसाग है। 'मरजा साहित्य' कई कवियों ने काव्य बद्ध किया। यूसुफ़ जुलेखा, मर्सी पुन्नु, गाहनी महीवाल, शोग फरहा: लेला नजनु आदि प्रसिद्ध रस भाव्य मवज़ान हैं।

प्रारंभिक गद्य साहित्य में गुरु नानक एवं अन्य महापुरुषों की जन्म गाथाएँ अनेक नागों में लिखीं। इनके आन्विरिस्त ग्यान रत्नावली, भगत रत्नावली तथा भयवरी, मनावरी, मुहम्मद गाहव के शर, ग़दास की जार्वनिया, मन्थुग कथा गोतामार, लव कृश सवाद, सिहासन वर्नीमा आदि अनेक गद्य कृतियाँ पञ्जाबी गद्य का उत्तम वणनात्मक रूप उपरिथत करती हैं।

आधुनिक गद्य साहित्य में भाई श्रीर सिंह बहुमुरा प्रतिभा के धना हैं। उनका गद्या मूर्तसिंह 35 सर्गी का अनुकान प्रबन्ध काव्य है। 'नहग रं हार गह्यगारी तथा विजलिया रं हार दश रस का रचना है। प्रा पूर्णसिंह गदान तथा पाश्चान्य गूढ विचारा में प्रभावित हैं। भाई साहन सिंह ने अनेक विषयों पर स्वयं लिखा तथा लगभग दो सौ पुस्तकें पञ्जाबी में रूपान्तरित करवाईं। इस समय अनेक उत्तम रचनाकार उपन्यास, निबंध तथा आचार्य चन्दरवनीय रचनायें दे रहे हैं।

पंजाबी लिपि तथा ध्वनियाँ:- गुरु नानकदेव के समय पञ्जाब में कई लिपियाँ प्रचलित थीं। देवनागरी संस्कृत में प्रयुक्त हाता थी। महाजनी लिपि व्यापार काम में लात थी। गुरगो या टाकगो लिपि पञ्जाबी प्रदेश में प्रयुक्त हाती थी। जिसके शिवालय कागड में मिले हैं। काश्मीर की शारदा लिपि भी वही रही चन्दा या चन्दागान लिपि गिरा के दूसरे गुरु अगददव ने मिले मत के गथा का लिखन के लिए निर्धारित की। गुरु गुरु में परमाणित गान गान के कारण इस का नाम गुरुमुरा है। यही आज पञ्जाबी की मान्य लिपि है। यह शारदा लिपि में पञ्चाक्षर समानता रखे हैं और नागरी में भी प्रभावित है।

- 1 पञ्जाबी में भी हिंदी की तरह शब्दान्त अ के उच्चारण नहीं होता। अन्त प्रह व्यजनात् है।
- 2 मयुक्त व्यजनो को पृथक पृथक कर लिया जाता है। उरं पार चन्द्र चन्द्र हो जाता है।
- 3 सघोष महाप्राण ध्वनियाँ न, झ, र, ल भ पाय गह लो लह दह वृह जेमी जाना जाना हैं।
- 4 मध्य या अन्त्य स्थिति में 'र' लिपि चिह्न दाग अथवा स्वर की भासा है। नान् र का ही एक चिह्न लागकर व्यक्त किया जाता है।
- 5 अनुनासिकता का महत्व है। उसे कभी बिन्दु द्वारा और कभी चन्द्र बिन्दु द्वारा व्यक्त किया जाता है।
- 6 अघोष महाप्राण का भी अघोष अल्पप्राण के साथ (रं रं याव) उच्चारण होता है। जम भाई पहाई बोला जाता है।

बंगला भाषा का परिचय

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पश्चिम बंगाल में प्रचलित तथा प्रशासन कार्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा ही 'बंगला भाषा' के नाम से भारतीय सर्विधान में गृहीत है। इसमें पूर्व उसके क्षेत्र की व्याप्त वर्तमान बंगला देश, विहार के पूर्वी भाग उड़ीसा और उत्तर पूर्व में आसाम तक थी। क्योंकि ये भू भाग बंगाल के प्रशासनिक क्षेत्र के अन्तर्गत थे। बंगला भाषा अपने गृह प्रदेश में 'बाङ्ला कहलाती है। इसका उत्पत्ति काल भी भारत की अन्य प्रादेशिक भाषाओं की तरह सन् 1000 के आस पास माना जा सकता है। अपने प्रदेश के नाम पर ही भाषा का नाम 'बंगला' प्रचलित हुआ प्रतीत होता है।

बंगला का भाषा परिवार:- बंगला का आरंभिक रूप संस्कृत बहल रहा। राज शेरक ने 'काव्य मोमासा' में कहा है कि बंगला

देश के लोग संस्कृत में अधिक रुचि रखते हैं। बीम्स ने भी स्वीकार किया है कि गौडीय भाषाओं में बंगला और मराठी ही संस्कृत के ज्यादा समीप हैं। मूल बंगला का प्राचीन रूप मागधी प्राकृत है। 'बौद्ध गान आ दोहा' में बंगला का वह प्राथमिक रूप है जब यह प्राकृत का केचुल छोड़कर अपना स्वतंत्र रूप ले रही थी।

बंगला साहित्य का उद्भव और विकास:- स्थूल रूप से बंगला भाषा का साहित्य तीन भागों में बाँटा जा सकता है— 1 प्राचीन (900 से 1200 ईसवी तक), 2 मध्यकालीन (1200 से 1800 ईसवी तक) तथा 3 आधुनिक (1800 ईसवी के बाद)। बंगला भाषा के आदि स्वरूप की रचना आठवीं से 12 वीं शती के बीच हुई। सबसे पहली पोथी अभिनन्द रचित 'गमचरित' मानी जाती है जो आठवीं शती का है। इसी नाम की दूसरी पोथी मन्ध्याकर नन्दो की है, जो दसवीं शती की है। वास्तव में साहित्य की अनुप्रेरणा बंगला में जयदेव के 'गीत गोविंद' से हुई जो 12 वीं शती के अंत में हुए। किन्तु स्वतंत्र तीनो पुस्तकें संस्कृत में थीं इनके अतिरिक्त 47 चर्यापद हैं जिनमें जीवन की कुछ झलक मिल जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 12 वीं शती तक लोकमुख प्रचलित लोककथा, व्रतकथा धर्म पूजा आदि विधियाँ ही साहित्य की सर्वस्व रही।

बंगला भाषा में 'महाभारत' का पहला अनुवाद नामिरशाह ने, फिर परागल खाँ ने करवाया, जो 'परागली महाभारत' कहलाता है। वास्तव में बंगला का पहला काव्य मालाधर वसु का 'कृष्ण लीला काव्य' है, जो 1481 से 1487 ईसवी तक लिखा गया। सुप्रसिद्ध 'कृत्तिवामी गमायण' की रचना 15 वीं शती में हुई। महाभारत, रामायण एवं भागवत काव्य की परम्परा दीर्घ काल तक चली, जिसमें सत्रहवीं शती के अन्त में काशीगम दास द्वारा लिखा गया 'महाभारत' बंगला में सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ।

पिछली तीन शतियों में विद्यापति एवं चण्डीदास की गीतधारा से प्रभावित पदावली साहित्य की बाढ़ में बंगाल आप्लावित रहा किन्तु उत्तर मध्यकाल में पदरचना की अपेक्षा चरित काव्यों की ओर झुकाव हुआ मानव जीवन को कथा भक्ति का आार बनाया गया। चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर अनेक काव्य लिखे गये यथा चैतन्य भागवत चैतन्य मंगल, चैतन्य चरितामृत आदि। अन्य अनेक सतों एवं भक्तों के जीवन चरितों पर भी साहित्य सृजन हुआ।

अठारहवीं उन्नीसवीं शती के संधि काल में गद्य युग का सूत्रपात हुआ। अंग्रेजी भाषा के प्रसार एवं संस्कृत के नवीन अध्ययन से बंगला लेखकों में नए जागरण और उत्साह की लहरें गी दौड़ पड़ी। 18 वीं शती में फोट विलियम कानेज की स्थापना हुई। स्वयं विलियम केर्ग ने कोश, व्याकरण, इतिहासमाला आदि लिखे तथा पंडितों से भी पुस्तकें लिखवाईं। साहित्य की निज स्वधारा का वेग और प्राज्वलता देने वाले राजा राममोहनराय ने भारतीयों को 'आधुनिक' बनने पर बल दिया। बंगला भाषा के समर्थ संस्कारक श्री बकिमचंद्र एवं ईश्वरचंद्र विद्यासागर हुए। 1818 ईसवी में मासिक पत्र निकलने आरंभ हुए, जिनमें साहित्य में जागृति आई। बकिम बाबू ने उपन्यास की नींव डाली, जिससे अनुप्रेरित हो अनेक छोटी के उपन्यासकार हुए। नेशनल थियेटर की स्थापना से मौलिक नाट्य लेखन को प्रोत्साहन मिला। गीतों में नये छंदों की यात्रा और नवीन भावों का समावेश हुआ। रवीन्द्र की बहुमुखी प्रतिभा का अभ्युदय हुआ, जिनमें अनेक प्रवृत्तियों की नवीन चेतना से उद्दीप्त एक नये युग का आरंभ हुआ। मध्यकालीन बंगला काव्य पर ब्रजभाषा का प्रभाव पड़ा था। किन्तु आधुनिक काल में पाश्चात्य साहित्य का हिंदी पर प्रभाव बंगला के माध्यम से पड़ा हिंदी के छायावादी कवियों पर रवीन्द्रनाथ का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होना है। गद्य के क्षेत्र में भी हिंदी का कथा साहित्य बंगला के समुद्र उपन्यास एवं कथा साहित्य में पर्याप्त प्रभावित हुआ। अनेक प्रतिभाशाली कवि एवं लेखक उत्तरोत्तर बंगला साहित्य की श्री वृद्धि कर रहे हैं।

बंगला भाषा की लिपि:- प्रसिद्ध पुरातात्विक बृहल्लर सारुव के अनुसार पूर्व भारतीय नागरि लिपि से ग्यारहवीं शती के अंत में बंगला लिपि ने अपना स्वतंत्र रूप ग्रहण किया। अन्य विद्वानों के मतानुसार ब्राह्मी लिपि के कालान्तरे में तीन रूप हुए। उत्तर भारत में 'शागदा', दक्षिण पश्चिम भारत में 'नागर' तथा पूर्व भारत में 'कुटिल'। इसी 'कुटिल लिपि' से बंगाक्षर का रूप स्थिर हुआ। अनेक बंगाली विद्वान भी बंगला लिपि का स्रोत पूर्वी भारत की सिद्ध मानू या कुटिल लिपि को ही मानते हैं। बंगला का वर्ण क्रम देवनागरी के समान है। अक्षरों के रूप कुछ कलात्मक सौन्दर्य युक्त हैं।

बंगला की ध्वनि विन्यास:- बंगला में लिखने पढ़ने की भाषा को 'साधु' भाषा और बोलचाल की भाषा को 'चलित' भाषा कहते हैं। दोनों के उच्चारणों में अन्तर है, जिनके सकल निम्न प्रकार में हैं-

- 1 'अ' के उच्चारण का प्रचलन 'ओ' जैसी ध्वनि में है।
- 2 वर्णमाला में 'श, ष, स' तीनों वर्ण हैं जो चलित भाषा में सदा 'श' बोले जाते हैं यद्यपि शिक्षित लोग 'स' बोलते हैं, परन्तु 'ष' का मूर्धन्य उच्चारण बंगला में नहीं है।
- 3 'व' के स्थान पर 'ब' का ही प्रयोग होता है।
- 4 अनुनासिक व्यंजन मुख्य रूप में उच्चारित किये जाते हैं।
- 5 'ण' ध्वनि का स्थान 'न' ने ले लिया है।
- 6 'ङ, ञ' ध्वनियों का प्रयोग क्रमशः कवर्ग, चवर्ग के व्यंजनों के स्थान पर होता है।
- 7 चवर्ग, टवर्ग अक्षर अपेक्षाकृत मृदु उच्चारित होते हैं।
- 8 लिंग का क्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके कारण हिंदी के समान लिंगभेद प्रतीत नहीं होता।

मराठी भाषा का परिचय

भाषायी सीमाओं की दृष्टि से देखा जाय तो महाराष्ट्र के उत्तर में गुजराती, राजस्थानी, पूर्व में हिन्दी, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ी गोंड, तेलुगु तथा दक्षिण में कन्नड़ और कोंकणी भाषी प्रदेश हैं। दो शती पूर्व मराठी का गन्तव्य विस्तार उत्तर दक्षिण में दूर दूर तक फैला हुआ था। अतः गुजरात, मध्य प्रदेश में इंदौर, धार, देवास, ग्वालियर और दक्षिण में तमिलनाडु के तंजौर तक यह बोली और समझी जाती थी।

प्राकृत प्रकाश का अंतिम मूत्र है, 'शेष महाराष्ट्रवत्'। प्राकृत भाषाओं में उस समय महाराष्ट्री प्राकृत अग्रसर थी। इसी प्राकृत से महाराष्ट्री अपभ्रंश बनी और उससे आधुनिक मराठी प्रख्यात विद्वान गजाराज शास्त्री भागवत के मतानुसार महाराष्ट्री का नामकरण किसी विशेष भौगोलिक प्रदेश के कारण नहीं अपितु अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा विस्तृत राष्ट्र में बोल जाने वाली भाषा से हुआ होगा।

मराठी का भाषा परिवार:- मराठी आर्यभाषा परिवार की भाषा है, किन्तु उसके उद्भव का क्रम संस्कृत से महाराष्ट्री प्राकृत एवं उससे महाराष्ट्री अपभ्रंश है जिससे आधुनिक मराठी का उद्गम हुआ। दूसरा मत पहला दजा संस्कृत के बजाय प्राकृत को देता है। बनावट की दृष्टि से देखा जाय तो मराठी की नाम विभक्तियों अपभ्रंश से और क्रिया प्रत्यय प्राकृत से लिये गये हैं।

मराठी साहित्य का उद्भव और विकास:- मराठी भाषा के अस्तित्व का पता ईसवी मन् 488 के मंगलवेढे ग्राम के ताम्रपत्र, 736 ई० के चिकुर्डे के ताम्रपत्र एवं 983 ई० के श्रवण वेल् गोला के गामतेश्वर के शिलालेखों से चलता है। इसके पश्चात् ग्यारहवीं शती का 'राजमती प्रबोध', बारहवीं शती का 'मानसोल्लास ग्रंथ भी मिलते हैं। वास्तव में प्राकृत और अपभ्रंश को आत्मसात कर मराठी ने 12 वीं शती में अपना अलग अस्तित्व स्थापित करना शुरु किया। मराठी साहित्य का काल विभाजन स्थूल रूप से निम्न सात कालों में किया गया है

1. **महानुभाव काल:-** मराठी का आदि कवि होने का सम्मान मुकुन्दराय को है। इनका काल 1128 से 1198 ईसवी तक है। इनका ग्रंथ 'विवेक सिंधु' मराठी का आद्य एवं प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसके अनन्तर महानुभाव सम्प्रदाय का साहित्य प्रभावी हुआ। इसके सात ग्रंथ प्रमाण माने जाते हैं जो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रणीत हैं। उनमें त्रिशुपाल वध, रुक्मिणी स्वयंवर, ज्ञान बोध आदि प्रसिद्ध हैं। अहिंसा, संन्यास, सगुणोपासना, सदाचार, परोपकार आदि की प्रेरणा इनका मुख्य विषय है।

2. **ज्ञानदेव-नामदेव काल:-** मराठी भाषा के अद्वितीय साहित्य भण्डार का निर्माण करने वाले ज्ञानदेव को मराठी का सर्वश्रेष्ठ कवि माना गया है। इनकी अति प्रसिद्ध रचना 'ज्ञानेश्वरी' आज तक जन जन का कण्ठहार है। इनके समकालीन नामदेव परमभक्त कवि हैं, जिन्होंने दूम घूमकर भक्ति भावना का प्रचार किया। ज्ञान और भक्ति के साकार स्वरूप इन दोनों सतों ने महाराष्ट्र परमार्थिक जीवन की नई परम्परा को सुदृढ़ किया। नामदेव की उलट बासिया तथा गूढार्थक अभंग अति प्रसिद्ध हैं, जो इन्हें कबीर की श्रेणी का सिद्ध करते हैं। इनके समय में अनेक भक्त कवियों ने मराठी साहित्य को समृद्ध किया।

3 **एकनाथ काल-** यादवी का राज्य नष्ट होने तथा मुसलमानों का राज्य स्थापित हो जाने के कारण जो नेगश्य छा गया था उसे सत एकनाथ ने फिर से प्रफुल्लित किया इन्होंने जानशरी का सशोधन कर इस और लाकर प्रिय बनाया। भागवत के पत्रादाख स्वयं की पीडा की जो एकनाथो भागवत के नाग प्रसिद्ध है समाज में मद्गुणा के प्रचार का यह अनुपम ग्रंथ है इसमें भक्तिमय इन्होंने एक एक काल के अन्वय रचनाकारों ने प्रत्येक साहित्य का निर्माण किया। जिनमें इनके पाठ्य मुक्तेश्वर के कृता विनायक ग्रंथ का पद्य भाषा में मूर्ति स्थापना प्राप्त है।

4 **तुकाराम-रामदास काल-** तुकाराम ज्ञान में दृष्टागत तथा रामदास ने उसे मार्गदर्शक का यापक काय किया तुकाराम विरक्त विरक्त भक्त थे उनका काल ही वेदना एवं प्रसाद गुण पूर्णता अन्य भाषाओं में साहित्य में दुर्लभ है उनही मार्गों में अद्भुत ज्ञान था रामदास ने नित्य ज्ञान मार्गों नहीं थे वे शिव भक्त थे इन्होंने भारत और विश्वजान की और नागा का हृदय आक्रामक किया छत्रपति शिवाजी इनके परम भक्त थे इन्होंने भिक्षा रूप में अपना समस्त राज्य हागत पर नियंत्रण उनका ज्ञान ही ज्ञान दिया उस में नगरी राज्य का ज्ञान भगवा की मया और गता ज्ञान परिनिर्वाण शायद समर्थ था रामदास के दास शिव तथा मनचंद्रलाल इन्होंने योग्य ग्रंथ है।

5 **वामन-पंडित-काल** - रामदास की शिष्या ने पत्रादाख भास्वरुण भाष्यना का साहित्य प्रचारना किया था उनमें पत्रादाख की साहित्य ने पाण्डित्य का आश्रय लेकर जड़ चक्रकार अथ चक्रकार नाद मा लय और तुलना चक्रिय पूर्ण भाष्यना की रचना की ज्ञान पाठ्य का समय अक्षरों का प्रत्येक तथा काय ज्ञान का ज्ञान प्राप्त है। इनका यथाथ मार्ग का गला पीडा उनकी विद्वान्ता के कारण अथवा भाग पर चक्राण प्रत्येक हो गया है।

6 **पेशवा काल** - इस समय के मार्गदर्शक शिष्या ने रामदासों के ज्ञान में मार्गों पर ही इस गुण काय का विनायक किया जिन्होंने पत्रादाख कला गया नागा साहित्य में ज्ञान का समय ज्ञान है इस प्रकार यह ज्ञान की गीतार्थ पत्रादाख तथा और यह नागायना की ही यथा दृष्टा है।

7 **आधुनिक काल** - यह ज्ञान पाठ्याय प्रभाव और गला ही रामदासों मार्गों का युग है। इसका ज्ञान इसकी 19 वीं शताब्दी में है। इस काल में भाष्य ने नये नये विचारों का अंगाने का दूसरे और मया के अन्वय-इतनी गन्धम निवृत्त यत्नान्तरा आदि सभा शिष्यों में अनेक प्रत्येकजानों कथन हुए। अन्वय के गलाय मयाय कथन मयाय है। शिष्या में नृद्विगतया का स्थापना एवं पत्रादाख की जीवित के मुक्ति के कारण साहित्य में ज्ञान का ज्ञान नये पत्रादाख का कार्य मयाय ही गया अथवा तथा भारतीय भाषाओं में अनेक अन्वय यथा के अन्वय शिष्य प्रयाय मास में ही ज्ञान का भाषा का ज्ञानान्तरा के अन्वय में रहने के अन्वय ज्ञान का ही यथायथा है।

एक और भी मार्गदर्शक ने राष्ट्रीय भाषाओं का ज्ञान करने ज्ञानों को ज्ञान की तथा विद्वान्ता ज्ञान के साक्षरकार का समर्थन किया दूसरे और नागायना के ज्ञानों में मयाय के ज्ञान ज्ञानों में दुर्लभ के अन्वयाने चक्रय। इस समय मयाय में अन्वय ज्ञान के तथा प्रत्येक प्राप्त नगरी का अन्वय नहीं मयाय ज्ञानय शिष्य मयाय की मया काय कथा नागायना मयाय ज्ञानय एवं ज्ञानय मयाय ज्ञान आदि प्रयाय में दिन प्रयाय मयाय ही यथा है।

मराठी लिपि एवं ध्वनि की विशेषताएँ- मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ज्ञान में शिष्य ज्ञानय विचारनाय निम्न प्रकार में है।

- 1 वट ल मराठी का विशेष अक्षर है जो परिवर्तित देवनागरी में ले लिया गया है।
- 2 च ल के मराठी में दो अन्वय ज्ञान है।
- 3 अक्षरी फारसी अन्वयना के लिए क य ग ज फ के नाच विदा नहीं होती।
- 4 इ ट हो मराठी में ड ट नहीं बनाया गया।
- 5 ज हा अन्वय दन्त्य ज्ञान है।
- 6 क्ष हा अन्वय ज्ञान ज्ञान ज्ञान है।
- 7 ऋ हा अन्वय के ज्ञान है।
- 8 ए ओ के अन्वय ज्ञान अन्वय ज्ञान है।
- 9 मराठी में तीन लिपि ज्ञान है। पुन्निम मयाय एवं नयाय लिपि है।

मलयाळम् भाषा का परिचय

भौगोलिक रूप से मलयाळम् भाषी प्रदेश भारत के ध्रुव दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसका प्रचलित प्रशासकीय नाम 'केरल' है। इसके पश्चिम में अरब सागर है और प्रदेश स्वयं मल्लापट्टि पर्वतमाला के मध्य स्थित है। भाषिक दृष्टि में इसके उत्तर में कन्नड़ भाषी और पूर्व दक्षिण में तमिल भाषी प्रदेश हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर यह 'मलै' = पवन 'अल' → आलम् = राज्य या स्थान के अनुसार दोनों शब्दों की गांध्य होकर मलयाळम् शब्द बना है, जो अर्थ पूर्ण प्रतीत होता है।

मलयाळम् भाषा का मूल परिवार:- मलयाळम् मूलतः द्रविड परिवार की भाषा है। मलयाळम् में तमिल शब्दों की अधिकता के कारण कुछ विद्वान इसे तमिल पुरी मानते हैं, किन्तु नवीन विश्लेषणा में ज्ञात हुआ है कि इसमें मूल द्रविड भाषा के कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो तमिल में नहीं हैं। तमिल मलयाळम् में क्रिया प्रयोग, लिंग वचन के भिन्न क्रिया रूपान्तरों एवं अनेक व्याकरणिक असमानताओं के आधार पर विद्वानों ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह तमिल की महादगी अथवा छाया बहिन हो सकती है किन्तु पुरी नहीं। विदेशी विद्वानों का मत है कि मलयाळम् मूलतः तमिल भाषा का विकास है। पहले मलयाळम् स्वतंत्र भाषा बन चुकी थी।

मलयाळम् साहित्य का उद्भव और विकास:- इसकी नीचा शती में मलयाळम् स्वतंत्र भाषा बन चुकी थी, किन्तु इसमें साहित्य निर्माण वर्षों बाद हुआ। इसका प्रधान कारण यह भी रहा कि आरंभ में तमिल राजाओं का केरल पर शासन होने के कारण तमिल राजभाषा थी। अतः प्राचीन जिनालय एवं ग्रन्थ तमिल भाषा में ही लिखे गए।

इसकी बारहवीं शती में निर्मित रामचरित मलयाळम् भाषा का प्रथम ग्रन्थ है। यह रामायण के युद्ध काण्ड की कथा पर आधारित है। इसमें विष्णुमन्त्रय मलयाळम् में व्युत्पत्ता है। फिर चौदहवीं शती के दो प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं जिनमें पहला 'रणनीती' मद्रेश है जो विष्णुमन्त्रय मलयाळम् शब्द और मलयाळम् के सामंजस्य में स्वयं मणि प्रवाल शैली में है। दूसरा 'कण्ठशा' रामायण है जो कृष्ण कथा के आधार पर मलयाळम् में लिखा है। इसमें मलयाळम् भाषा एवं साहित्य की परिष्कृति प्रसिद्ध हुई है। इनके अतिरिक्त माधव पाण्डुर ने भरत-गीता, राम पाण्डुर ने रामायण, महाभारत एवं भागवत के माक्षन् अनुवाद तथा अकर पणिकर ने भगवत-गीता नामक ग्रन्थ लिखे हैं। इन गीतों और भागवत के लक्षण प्रकट करने वाला गीत ग्रन्थ लोला विलक्षण है। इसमें मलयाळम् भाषा का विकास हुआ। इस प्रकार चौदहवीं शती तक मलयाळम् साहित्य की प्राचीन काल माना जाता है।

इसके पश्चात् अनेक कवियों ने भागवत गीता अपनाकर अनेक कविताएँ लिखीं जिनमें रामायण की 'नल चरितम्' अभिनय योग्यता, शिल्प सुगमता और सुकुमार भाषा के लिए प्रसिद्ध है। बारहवीं शती में मलयाळम् साहित्य के पिता कहलाते वाले रामानुजन् जिन्हें पण्डितरुन् (विद्यादाता) की उपाधि मिली थी। उन्होंने भागवत शैली का परिष्कार कर मार्कण्डेय भाषा शैली में भारत, अध्यात्म रामायण आदि मलयाळम् ग्रन्थों का भक्ति भाव पूर्ण गीतों में अनुवाद कर जन-जन के हृदय तक पहुँचाया। इनके ग्रन्थ 'किली पाट्टु' (गीतों के गीत) द्वारा जनता में स्तुति एवं जागृति आई। मलयाळम् का आधुनिक साहित्य समस्त विधाओं में समृद्ध साहित्य है।

मलयाळम् लिपि एवं ध्वनियाँ:- द्रविडों के दृष्टि में यह लिपि अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि की दक्षिण शाखा में इसकी पांचवीं शती के लगभग विकसित हुई। पिछली शती तक यह ग्रन्थों लिपि कहलाती थी। आधुनिक मलयाळम् लिपि उसी का सामयिक रूप है। इसमें वे सभी वर्ण हैं जो देवनागरी लिपि में हैं तथा द्रविड ध्वनियों का व्यक्त करने के लिए अतिरिक्त वर्ण भी हैं। इसमें द्वित्व और मयुक्त वर्ण भी होते हैं।

ध्वनिगत विशेषताएँ निम्न प्रकार से हैं:-

1. 'ऐ' तथा 'औ' इन ध्वनियों के अक्षर एवं मात्रा रूप हैं।
2. 'ब' 'ळ', 'ळ', 'र' इन ध्वनियों के लिए भी अक्षर हैं।
3. शब्द के अंत में आने वाले 'उ' का उच्चारण एक विशेष ङकार का होता है जिसे अर्ध उकार भी कहा जा सकता है।

सिन्धी भाषा का परिचय

सिंध प्रदेश के निवासियों और उनकी भाषा दोनों का बोध 'सिन्धी' शब्द से होता है। भारत विभाजन के पश्चात वह प्रदेश पाकिस्तान में रह गया है। अतः भारत की अन्य भाषाओं की तरह सिन्धी भाषा की कोई भौगोलिक या प्रादेशिक सीमा नहीं है, किन्तु सिंधी भाषियों की संख्या लाखों में है जो सम्पूर्ण भारत में यत्र तत्र बिखरे हुए हैं, महाराष्ट्र में इनकी संख्या अधिक है।

सिन्धी भाषा का परिवार:- सिन्धी आर्य परिवार की पुरातन भाषा है। यह संस्कृत और पाली से निकट सम्बन्ध रखती है। डा० अर्नेस्ट टम्प ने देवनागरी लिपि में सिन्धी व्याकरण लिखा था जिसमें इसे संस्कृत परिवार की भाषा माना है। सिंधी भाषा के इतिहास लेखक भस्मल मेहरचन्द का कथन है कि मूल सिन्धी में 75 प्रतिशत शब्द संस्कृत आगत हैं। इसका उद्गम अपभ्रंश से माना गया है। दसवीं शती ईसवी के बाद इसमें पर्याप्त मात्रा में अरबी फारसी की शब्दावली समाहित हो गयी।

यह दूसरी में सानवीं शती तक पर्याप्त विकसित हो चुकी थी। इसकी उकार बहुला प्रवृत्ति का उल्लेख भरतमुनि के नाट्य शास्त्र (दूसरी शती) में इस प्रकार है

"हिमवत, सिंधु, सौवीरान् ये जना समुपाश्रिता । उकार बहुला तज्ज्ञ तेषु भाषा प्रयोजयेत् ।।"

जिससे ज्ञात होता है कि सिंधी शब्दों के अन्त में उस समय में आज तक 'उकार' का प्रयोग होता है।

सिन्धी साहित्य का उद्भव और विकास:- चौदहवीं शती ईसवी से इसमें नियमित रूप से साहित्य मिलने लगता है। अठारहवीं शती तक जो कुछ भी साहित्य मिला है वह मगध उत्तर भारत के समान ही भ्रंश परक है और उसमें भी सूफी काव्य धारा प्रवाहित हो रही है। अंग्रेजों ने इस दश पर सन् 1843 में अधिकार किया। फलतः नयी धारा का प्रारंभ हुआ।

भारत में होने वाली सिन्धी साहित्य की गतिविधियों पर आधुनिक साहित्य में प्रचलित सभी विधाओं में लेखन हो रहा है और वह लेखन नागरी लिपि में है। उस पर विविध भारतीय भाषाओं का प्रभाव भी पड़ रहा है। यथा महाराष्ट्र में वाम सिन्धी लेखकों पर मराठी का, गुजरात में गुजराती का और दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदि में हिंदी का कुछ न कुछ प्रभाव परिलक्षित होता है। साहित्य अकादमी सिंधी के कृतिकाग को पुरस्कार में सम्मानित करती है। कुछ पत्र पत्रिकाएँ भी सिन्धी भाषा में निकल रही हैं।

सिन्धी भाषा के विकास का उन्मदायित्व भी केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने प्रकृत किया हुआ है। राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर में 'सिन्धी अकादमी' स्थापित कर सिन्धी का समुचित प्रोत्साहन देने के प्रयत्न हो रहे हैं।

सिन्धी भाषा की लिपि एवं ध्वनियाँ:- भारत में सिंधी के लिए नागरी लिपि का प्रचलन हो गया है तथा भारत सरकार ने नागरी में सिंधी लिखने के लिए कुछ नये लिपि चिह्नों की वांछ की स्वीकृति प्रदान कर दी है। ध्वनि संबंधी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

1. सिंधी में ग, ज, ड, ब की कुछ विशेष ध्वनियाँ भी हैं, जिन्हें अतः स्फूर्टित ध्वनियाँ कहते हैं।
2. सामान्यतः शब्द स्वरांत होते हैं। अरबी फारसी के शब्दों में कहीं 'उ' तो कहीं 'इ' युक्त उच्चारण किया जाता है। यथा कर्शाश=कर्शाश, दीवार=दीवारि, मवून=मवून, आदि।

हिन्दी भाषा का परिचय

भौगोलिक दृष्टि से बालगाल की हिन्दी आज वर्तमान भारतवर्ष के पश्चिमी छोर अमृतसर जालन्धर से पूर्व में कलकत्ते तक और उत्तर में काठमाण्डू में दक्षिण में कन्या कुमारी तक बाध्यम्य है। सारे भारतवर्ष में सभी भाषाओं का शिक्षित वर्ग इसे समझता है। स्वतंत्रता पश्चात् भारत के संविधान में इसे केन्द्रीय राजभाषा का पद प्राप्त है, अतः वैधानिक रूप में यह केन्द्रीय सरकार के पत्र व्यवहार की भाषा है। हिन्दी में अपरिचित सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने की राजभाषा आयोग आदि कई राजकीय संस्थाओं द्वारा शिक्षण परीक्षण की व्यवस्था है। संविधान के लागू होने के पन्द्रह वर्ष पूरे होने तक

सभी प्रादेशिक सरकारों को सरकारी कामकाज अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी में करने का निर्देश था। परन्तु सन् 1965 में तमिलनाडु सरकार ने हिन्दी का विरोध तथा अंग्रेजी को सम्पर्क भाषा बनाये रखने का आग्रह किया। तब से कन्द्रीय सरकार तथा प्रादेशिक सरकारों के बीच सम्पर्क भाषा अंग्रेजी और हिंदी गैरिच्छक बनी हुई है।

सन् 1918 में गोंधी जी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की मदाम में स्थापना की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ वर्षों पश्चात् औंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल राज्य बनने पर उक्त सभा के प्रचार क्षेत्र इन सभी प्रान्तों में स्थापित हो गये और जोर शोर से हिंदी का प्रचार कर रहे हैं। दूसरी ओर उक्त राज्यों में स्कूलों कॉलेजों में भी हिंदी पढाई जाती है।

भारत की देशव्यापी भाषा के रूप में हिंदी का मान्य पद देने का काम उन्नीसवीं शताब्दी में ही महा कृषि दयानन्द सरस्वती, श्री केशवचन्द्र सेन आदि महापुरुषों ने आरम्भ किया तथा उसकी पूर्ण विट्ठि सरकार के एक मान्य अधिकारी सर जार्ज ग्रियर्सन ने क्रियात्मक प्रमाणों द्वारा की। डा० ग्रियर्सन ने भाषाओं के नमूनों के उदाहरण एकत्रित करके अपनी पुस्तक 'लिंगुआ फ्रेंका आफ इण्डिया' द्वारा यह सिद्ध किया कि उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि सभी प्रदेशों की उपभाषाएँ एवं वानियाँ हिन्दी के प्रभाव क्षेत्र के जन्मगत हैं।

हिन्दी का नाम-रूप निर्णय:- हिन्दी के नमूने के प्रयोग ता अमीर खुसरो की वाणी में भी मिलते हैं। पर 'हिन्दी' नाम का प्रयोग मैथिल ईशा ग्लाहर्ग की पुस्तक (1808 ईसवी) 'दरिया ए लनाफल' में पहले पहल चालीस बार किया हुआ मिलता है, जिससे उनका मकत दिल्ली की शहर की बोली में है अर्थात् उस वह यामीन प्रयोग तथा भाषा प्रयोग में भिन्न मानते हैं।

हिंदी के स्वरूप के दो उदाहरण लालू लाल के प्रेम सागर और मदन मिश्र के 'नागिकनोपाख्यान' में मिलते हैं जिसे वे क्रमशः "वागिनी छांड दिल्ली आगे की खड़ी बोली में था दोगो में काट काट समझ नहीं सकता इसलिये खड़ी बोली में किया" बताने हैं। उक्त दोनों पुस्तकें 1803 ईसवी में लिखी गयीं।

ये दोनों लेखक इंग्लैंड में आने वाले अंग्रेज अफसरों का पत्रन पत्रालय फोर्ब्स विलियम कानेज कलकत्ता में नियुक्त थे।

अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि ईशा तथा अंग्रेज अफसरों दोनों ही खड़ी बोली का हिंदी मानते थे जो आज तक वैसा ही है।

अमीर खुसरो के बाद उत्तर की खड़ी बोली के नमूने नहीं मिलते परन्तु उस समय में मुस्लिम शासक जो दक्षिण में आकर जम गये तथा मुहम्मद तुगलक जो भारत के मध्य में दरगिरी में राज्य की राजधानी बनाना चाहता था वह मध्य में जाकर कच्छ झेल कर लौट आया किन्तु उसकी फौज के नाश हो जाने पर उन लोगों की भाषा पंजाबी, ब्रज हरियाणवी, खड़ी बोली आदि थीं। उन सबके मिश्रित रूप में ही वहाँ जम हुए सूलतानों ने उचितानों की और पुस्तकें भी लिखीं तथा शासक होने के कारण वहाँ की शासित प्रजा में भी उन्हीं की बोली का प्रचार हुआ। उनके शासन में आज के औंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, पश्चिमी तमिलनाडु आदि के बहुत से भाग सम्मिलित थे। हदराबाद गियासत और मसूर के टीपू सुल्तान के शासित प्रदेशों में उस भाषा का स्वतंत्र प्रचार हुआ। इस प्रकार दिल्ली प्रदेश के आस पास की भाषा वहाँ कई सौ वर्ष तक पनपती रही। उर्दू साहित्य में उसको दक्कनी उर्दू और हिन्दी साहित्य में 'दक्षिणी हिन्दी' कहा जाता है।

उनकी भाषा में उर्दू फारसी के शब्द अधिक नहीं थे परन्तु कृत संस्कृत के लक्षण आदि और प्रायः तद्भव शब्द प्रचुरता से मिलते हैं। सन् 1654 के आस पास के एक कवि उस भाषा का परिभाषा निम्न शब्दों में करते हैं—

'जिसे फारसी का न कुछ स्थान है, तो दक्खिनी ज़बानें उनको आसन है।

तो इतने सहस्रकृत का है मुराद, किया इतने अतानगी का सुबाद।।'

उसी समय के आस पास दक्षिण के एक कवि बोली दिल्ली भाषा में उनका उर्दू का आदि कवि माना जाता है, जिनकी भाषा का नमूना निम्नलिखित है—

'दिल कली का से लिया दिल्ली ने छीन,

जा कसो कोई मुहम्मद शाह खूं।'

उक्त दोनों उदाहरणों से पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि उनकी तथा ईशा की भाषा में कोई विशेष अन्तर नहीं है। संयोग है कि उत्तर भारत की खड़ी बोली खुसरो के समय आरम्भ होकर भी किन्हीं कारणों से मुद्दूर दक्षिण में जाकर

विकसित हुई और आधुनिक काल में आकर वही भाषा उत्तमान हिंदी के स्वरूप में ऐतिहासिकता को पुष्ट, स्थिर और सूत्रबद्ध रूप में सहायक हुई। अन्तर यह है कि ये लोग इस फारसी लिपि में लिखते थे और लल्लुलाल एवं सदल मिश्र ने देवनागरी लिपि में लिखा। आगे चलकर आधुनिक हिंदी और आधुनिक उर्दू में विभिन्न दिशाओं की ओर चल पड़ी।

हिंदी साहित्य का इतिहास:- साहित्य में दृष्टि में हिंदी में प्राचीन काल से अनेक कवि, कवीर, मूर, तुलसी, मीरा आदि अनेक भक्ति युगीन कवि, गान्धर्वानां अनेक कवि तथा आधुनिक काल में प्रारंभ में भारतेन्दु से लेकर अब तक अगणित कवि हैं। भारतेन्दु के समय से ही गद्य लेखन खूबी खूबी में प्रचलित हुआ आज यह पूर्णतया पुष्ट और समृद्ध साहित्य है।

भाषा में दृष्टि में महाराष्ट्र प्रमाद हिंदी के नाम में हिंदी गद्य लेखन उत्समता ही और मुंडा तथा प्रेमचंद काल में हिंदी उर्दू मिश्रित मग्न शब्दावली का भी पूर्णतया प्रचार हुआ। इस प्रकार हिंदी गद्य लेखन उभय विध प्रचलित है। अब हिंदी का प्रचार प्रसार भारत व्यापी है। सभी विधाओं में तथा सभी भागों में परिगन्त है। अहिन्दी भाषी विद्वान तक भी हिन्दी में पुस्तकें लिखकर पुरस्कार पाते हैं।

हिंदी ध्वनियाँ:- 1. मस्कृत स्वगन्त उच्चारण हिंदी में व्यवहृत हो गया है। अथवा अकारगन्त ध्वनि हलन्त गौरी वाली जाती है।

2. 'क' का उच्चारण 'कि' जैसा हो गया है।

साधार

भाषाओं का परिचय देने में निम्नलिखित ग्रन्थों के आधारी हैं:-

1	हिन्दी विश्वकोश	नागरी प्रचारण संस्था - नागरी
2	हिन्दी साहित्यकोश	जान मानस बनारस
3	भारतीय भाषाओं और राष्ट्रीय एकता	दीक्षित अंगरेजी हिन्दी प्रचार संस्था - नागरी
4	भारतीय आर्य भाषाओं का उत्थान	जगदीश प्रसाद मोक्षर
5	भारतीय भाषाओं का भाषा शास्त्रीय अध्ययन	डॉ० ब्रह्मचर वर्मा
6	भारतीय भाषाओं	डॉ० कलाश चन्द्र भाटिया
7	हिन्दी और भारतीय भाषाओं	डॉ० माननाथ त्रिपाठी
8	भाषा और समाज	डॉ० राम विनायक शर्मा
9	भारतीय आर्य भाषा	ज्योति बाला (अनुवाद - नक्षी मागर वाष्णैय)
10	भारत की आर्य भाषाओं	डॉ० इलाचन्द्र जोशी
11	भारत की भाषाओं और भाषा संबंधी समस्याओं	डॉ० कृष्ण नाट्टिया
12	भारतीय भाषाओं	रमेश नागयण त्रिपाठी
13	भाषा भूगोल	डॉ० कलाश चन्द्र भाटिया
14	भारतीय लिपियों की कहानी	गुणाकरमुनि
15	अक्षर अने शब्द	केशवगण शास्त्री (गुजरात साहित्य संस्था)

'अ' उपसर्ग की व्याप्ति

भारतीय भाषाओं में 'अ' संस्कृत से ग्रहण किया गया उपसर्ग है। संस्कृत में इसे उस शब्द से पहले जोड़ने का नियम है जिसका पहला वर्ण व्यंजन हो। सभी भाषाओं में इसका उपयोग इतना अधिक मिलता है, जितना अन्य किसी उपसर्ग का नहीं। उपस्थित कोश में सभी भाषाओं के 'अ' उपसर्ग युक्त 13883 शब्द हैं। इनमें 2227 शब्द मलयाळम के, 652 शब्द तमिळु के, 426 तेलुगु के, 862 कन्नड़ के हैं अर्थात् कुल मिलाकर 4167 शब्द दक्षिणी भाषाओं के, 1021 शब्द हिंदी के तथा 8695 शब्द भारत की अन्य भाषाओं के हैं।

यद्यपि उपसर्ग रूप में 'अ' मुख्यतः नकारात्मक अर्थ देता है, किन्तु विभिन्न शब्दों में संयोग कर यह किंचित भिन्न अर्थों का द्योतन भी करता है यथा

अर्थ द्योतक शब्द

प्रतिकूल, विपरीत
रहित, विहीन, शून्यता
असाध्य
निषेध्य या वागर्ण्य
अप्रशस्त, दूषित, बुरा
विरोधार्थी
अभाव द्योतक
न्यूनता, शून्यता

उदाहरण

अधर्म, अनीति, अमन, अहित
अक्व, अदृश्य, अशोक, अकाम
अपूर्व, अभागी, अत्राहण
अकथ्य अपेय, अवाद्य, अलघ्य
अकर्म, अकाल, अयोग्य
अमृग
असामर्थ्य, अपाप, अमंगल
अपूर्ष्टि

विशेष—कभी कभी यह अति का पर्याय बनकर अधिकता का सूचक भी होता है। यथा अघोर असेचन आदि

स्मरणीय— 1. अनेक बार 'अ' उपसर्ग ऐसे शब्दों में भी जोड़ा गया मिलता है, जिनमें पहले ही कोई उपसर्ग लगा हुआ है। यथा, निजित, निज्ञाति, निश्चरित, निबध, निमल, निर्वान आदि में 'नि' उपसर्ग लगा हुआ है। इन में 'अ' लगाकर अनिर्जित, अनिज्ञात, अनिश्चरित, अनिबध, अनिमल, अनिर्वान आदि शब्द बन मिलते हैं।

2. इसी प्रकार अप्रवृत्त, अप्रयत्न, अपवीण आदि शब्दों में 'अ' उपसर्ग 'प्र' उपसर्ग से पहले लगा है।
3. 'अ' ने देश के एक कोने में चल कर दूसरे कोने तक की यात्रा चूपाप तय की है। यथा वैजोड, अनुपमेय अर्थ देने वाला पंजाबी 'अजुट' शब्द तेलगु में 'अज' है। इसमें भी अनोखी बात अनावश्यक अर्थ रखने वाले 'अलोडा' शब्द ही है। पंजाबी में 'लोड' का अर्थ 'जखुरत' तथा 'अलोडा' अनावश्यक के लिए प्रयुक्त होता है। उत्तर अहिम में गोनाखोर की तरह डबकी लगाकर यह शब्द पूर्व की उड़िया भाषा में पुनः उसी स्वरूप एवं उसी अर्थ में उभरकर सामने आ जाता है।
4. यद्यपि यह उपसर्ग मूल रूप में संस्कृत से आया है, परन्तु सभी भाषाभाषी सामान्य जन मन में इसका 'न' अर्थ इतना रूढ़ पच गया है कि गुजराती में अंग्रस्ती (ईसाई नहीं), मलयाळम में अमुस्लिम और अहिन्दू तथा तेलगु में असुन्ति शब्द भी पर्यायित हैं।

इस प्रकार 'अ' उपसर्ग विभिन्न शब्दों से गले मिलकर उनके अर्थों में परिवर्तन का स्वरूप प्रस्तुत करता चला जाता है।

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अऋण अऋणी अऋणी अऋणि अऋणिन्	विशेषण	मराठी, हिन्दी हिन्दी, गुजराती नेपाली, मराठी मलयालम संस्कृत	1- उऋण, ऋणमुक्त, उपकारमुक्त 2- जो कर्जदार या देनदार न हो 3- जिस पर कर्ज न हो या न रह गया हो 4- जिसने ऋण या उधार न लिया हो 5- अनृणी (गुजराती), ऋण निर्मुक्त
अकंटक अकंटक अकण्टक अकण्टक अकण्टकि अकण्टकिन्	विशेषण	हिन्दी, गुजराती मराठी, कन्नड मलयालम, असमी नेपाली, बंगला मलयालम संस्कृत	1- काटे न होना, कटक विहीन 2- निष्कटक, निर्विघ्न, निरुपद्रव, निर्बाध 3- निरापद, शत्रुहीन 4- चिन्ता, भय, खतरा न होना 5- जिसमें काटे न हो ऐसा वृक्ष या पौधा 6 जो हानि रहित हो वह
अकं	विशेषण	हिन्दी, संस्कृत	कण्ठहीन, स्वरहीन, कर्कश स्वर
अकंप अकम्प अकंपन अकम्पन् अकम्बन्	विशेषण मझा	हिन्दी, तेलुगु बंगला, मलयालम हिन्दी मलयालम तमिल	1 जिसमें कंपन न हो स्थिर, दृढ़ 2- निष्कंप, जो हिलने डुले नहीं 3- कंपन का अभाव न कांपना 4 धरथराना नहीं दृढ़ रहना 5- हटना नहीं, जम जाना
अकंपित अकम्पित अकम्पित अकंपितमु	भूत कृदन्त	हिन्दी, गुजराती असमी, बंगला मलयालम तेलुगु	1 जो हिला या डिगा न हो, स्थिर 2- निश्चय पूर्ण, बहादुर, दृढ़ 3- जो भयभीत नहीं हुआ या डरा नहीं 4- अपनी जगह पर जमा हुआ
अकंथ अकम्प्यमु	विशेषण	हिन्दी तेलुगु	1- जो कपाया या हिलाया न जा सके 2- निश्चल, अटल, अचल रहने वाला
अक अकं	मझा	हिन्दी, कन्नड मलयालम	1- हर्ष या सुख का अभाव 2 सुख का विरोधी भाव कष्ट, दुःख, विपत्ति + 3- निजल (मलयालम)
अकच अकच अकचन्	विशेषण मझा मझा	हिन्दी, गुजराती कन्नड मलयालम	1- केश या बाल रहित, गजा 2- केतु ग्रह का नाम + 3- पुच्छल तारा केतु (मलयालम)

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अकच्चर	विशेषण	मलयालम	1- स्वच्छ, निर्मल 2- जो दुष्ट नहीं, हठी नहीं
अकच्च	विशेषण	हिंदी	1- जो लंगोटी, कछनी या धोती न पहने हो
अकच्छ		पंजाबी	+ 2- दुराचारी, लम्पट (हिन्दी लाक्षणिक)
अकञ्ज	विशेषण	पंजाबी	+ 3- नंगा, बिना परदे का, बिना ढका हुआ (पंजाबी)
अकज	विशेषण	गुजराती	1- निकम्मा, बेकार 2- लाचार
अकटला	विशेषण	असमी	जिसमे से कांटे निकाल दिये गये हो
अकटु	विशेषण	बंगला	1- कड़वा नहीं, स्वाद शून्य
अकटु	विशेषण	मलयालम	2- उष्ण नहीं, अमित्र नहीं, निर्दय, क्रोधी या
अकटुक	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	चिड़चिड़ा नहीं 3- अकनान्न, जो थका नहीं या थकें नहीं
अकटुर	विशेषण	असमी	1- सूखा नहीं, आर्द्र 2- उपजाऊ
अकटकिना	संज्ञा	बंगला	1- कठोर नियम पालन का अभाव, बंधा नियम न होना 2- अकठोर
अकट्ट	विशेषण	पंजाबी	जो काटा न जा सके, जो कटा हुआ न हो
अकठिन	विशेषण	असमी	1- जो सख्त न हो, नरम 2- आसान
अकठोर	विशेषण	बंगला	1- सहज, सरल हृदय 2- रूक्षता वर्जित, सदय, मृदु, प्रशयशील
अकटा	विशेषण	मराठी	1- न निकाला हुआ दूध आदि, पूरी तरह कढ़ा हुआ नहीं 2- पूरा गर्म या उबला हुआ नहीं
अकण	विशेषण	मराठी	कण न होना (चावल आदि में), बिना दाने का फूस
अकत	विशेषण	हिंदी	अक्षत, पूरा, समूचा, बिलकुल, सब, सारा
अकत	क्रिया विशेषण	हिंदी	एक दम से, बिलकुल
अकतो	संज्ञा	गुजराती	छुट्टी का दिन, कार्य न करने का दिन
अकत्थन	विशेषण	मलयालम	आत्मप्रशंसा न करना, शेखी या शान न दिखाना
अकथन	संज्ञा	असमी	न कहना, न बोलना, चुप रहना
अकथनं	संज्ञा	मलयालम	न बताना, गुप्त रखना, बात छिपाना
अकथ	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1- जो कहा न जा सके या कहने योग्य न हो
अकथनीय		पंजाबी, गुजराती	2- अवर्णनीय, अवाच्य, अनिर्वचनीय
अकथनीय	विशेषण	हिंदी, नेपाली	3- जिसे कहना ठीक, उचित या संभव न हो
अकथक	विशेषण	मलयालम	न बोलना, न कहना, न बताना

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अकथ्य अकथ्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती असमी, मराठी	+ न बताने लायक, अनुचित कथन, बुरी बात, अश्लील या अशिष्ट बात
अकह अकथु	विशेषण	पंजाबी सिंधी	अप्रकाश्य, गोपनीय, छिपाने योग्य नहीं कहा गया, न कहना चाहिये
अकथित अकथित अकथित अकथितमु	भूत-कृदन्त	हिंदी, नेपाली मराठी, गुजराती मलयालम तेलुगु	1- जो कहा न गया हो, अनुक्त, अवर्णित, जिसकी चर्चा नहीं की गयी, जो बताने से छूट गया या छोड़ दिया गया 2- अनुल्लिखित, अचर्चित
अकथा	संज्ञा	असमी, बंगला	कुवाच्य अश्लील वाक्य, गाली गलौज
अकनिष्ठ अकनिष्ठ अकनिष्ठ अकनिष्ठन्	विशेषण	हिंदी मलयालम मराठी	1- सबसे छोटा नहीं 2- जिससे कोई छोटा न हो सबसे छोटा 3- जो किसी से छोटा नहीं अर्थात् सबसे बड़ा, अन्यो से उत्तम
अकनिष्ठलोक	संज्ञा	मलयालम	संज्ञा- गौतमबुद्ध, उच्च ब्रह्म लोकों का निवासी
अकन्या	संज्ञा	हिंदी	सोलह सर्वोच्च ब्रह्माण्डों या ब्रह्म लोकों में एक कन्या जिसका कौमार्य नष्ट हो चुका हो
अकपट अकपट अकपट अकपटवित्त अकपटता	विशेषण	गुजराती, मराठी असमी बंगला बंगला बंगला	1- निष्कपट, कपट हीन, द्वेष शून्य, छल हीन 2- जिसके मन, व्यवहार में भीतर-बाहर अंतर नहीं, खोट नहीं, सीधा, साधु स्वभाव व्यक्ति, सरल मन का, अमायिक स्वभाव, मन का भला, सरलता, सीधापन, ऋजुता, खरापन
अकमिता (बु)	संज्ञा	मलयालम	1- जो पति या प्रेमी न हो 2- जिसे कामना न हो
अकम्	संज्ञा	संस्कृत	सुख का अभाव, पीड़ा, विपत्ति, पाप,
अकमु	संज्ञा	तेलुगु	अप्रसन्नता, दर्द, दुःख, चोट
अकमिषं	संज्ञा	मलयालम	भीतरी अर्थ, कूटार्थ, रहस्य
अकर अकर अकर अकर	विशेषण	हिंदी बंगला नेपाली कन्नड	1- कर अर्थात् हाथ नहीं 2- कर अर्थात् सुँड नहीं 3- कर अर्थात् टैक्स नहीं 4- जो करता नहीं, निष्क्रिय 5- जो कार्य करने योग्य नहीं, अनुचित कार्य 6- कार्य विरत; कार्यरहित, बेकार, कार्य नहीं, बेकाम

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अकरण	विशेषण	हिंदी	1- कठिन, दुष्कर, अनुचित या बुरा कार्य
अकरण	संज्ञा	गुजराती	2- कार्य का अभाव, निष्क्रियता
अकरण		मराठी	3- कर्तव्य कर्म न करना (ओमीशन)
अकरण		बंगला	4- करण या इन्द्रिय रहित; परमात्मा
अकरणकर	विशेषण	मराठी, मलयालम	करने में कठिन अतः करने योग्य नहीं
अकरणन्	संज्ञा	मलयालम	परमात्मा मुमुक्षु, श्रेष्ठ आत्मा, स्वयम्भू
अकरणरूप	संज्ञा	मराठी	निषेध या नहीं अर्थ देने वाला क्रियारूप
अकरणि	संज्ञा	मलयालम	असफलता, सफलता या कामयाबी न मिलना
अकरणि		संस्कृत, कन्नड, हिन्दी	कार्य सिद्धि न होने के कारण उत्पन्न नैराश्य
अकरणी	संज्ञा	गुजराती	परिमेय संख्या (रेशनल नंबर)
अकरणीपदी		गुजराती	परिमेय पद वाली संख्या (रेशनल एक्सप्रेशन)
अकरणी फल		गुजराती	परिमेय परिणाम (फ्रैक्शन)
अकरणी समीकरण		गुजराती	परिमेय साम्यता (ईक्वेशन)
अकरणीय	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1- करने योग्य नहीं, जो नहीं करना चाहिए, अकर्तव्य,
अकरणीय		नेपाली, मराठी	अनुचित, बुरा
अकरणीय		कन्नड, उड़िया	2- जोकार्य करने में कठिन हो
अकरणीय		बंगला, मलयालम	3- अनुचित कार्य करना या बुरा कार्य करना
अकरा	विशेषण	हिंदी	1- अधिक मूल्य या महंगा होने के कारण खरीदने
अकराय		संस्कृत	लायक नहीं, कीमती, अच्छा, बढ़िया, श्रेष्ठ
अकराल	विशेषण	हिंदी	1- कराल या भयंकर नहीं 2- सुन्दर सौम्य
अकरुण	विशेषण	हिंदी, गुजराती	दयाहीन, निर्दयी, निष्ठुर, क्रूर, कठोर
अकरुण	विशेषण	नेपाली, मराठी	जिस पर करुणा नहीं आती
अकरुण	विशेषण	बंगला, मलयालम	जिस के हृदय में दया की भावना नहीं
अकरुण	विशेषण	कन्नड	जिस का दिल पत्थर जैसा हो
अकरुणा	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	करुणा का अभाव, निर्दयता, निष्ठुरता, क्रूरता
अकर्कश	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1- कर्कश, कर्णकटु या रूखा नहीं
अकर्कश		नेपाली, बंगला	2- नरम, मृदु, कोमल, कर्ण प्रिय
अकर्ण	विशेषण	मलयालम	1- कर्ण विहीन 2- बहुरा 3- छोटे कानों वाला
अकर्ण		हिंदी, गुजराती	4- बिना मस्तूल या पाल का जहाज़

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अकर्ण अकर्णम्		नेपाली, बंगला तमिल	5- बिना पतवार या डाइ की नाव 6- जिस के कान नहीं होते हो, साप
अकर्ण्य अकर्ण्य	विशेषण विशेषण	मलयालम हिंदी, नेपाली	जो सुनने योग्य न हो या सुनना उचित नहीं, जो सुना न जा सके, जो कान में न पड़े
अकर्तन	विशेषण	हिंदी	1- जो न काटे या कतरे नहीं 2- बीना
अकर्तव्य अकर्तव्य अकर्तव्य अकर्तवियम्	विशेषण	हिंदी, गुजराती नेपाली, बंगला मराठी, कन्नड तमिल	1- जो करना उचित न हो, अविहित, अनुचित + 2- जिसे किया न गया हो (मराठी) + 3- बुरा काम, दुराचरण, जुर्म अपराध (गुजराती) + 4- अनुचित काम (हिंदी)
अकर्ता अकर्ता अकर्ता (बु) अकर्तन् अकर्तृ	विशेषण विशेषण सज्ञा	हिन्दी, गुजराती मराठी मलयालम तमिल संस्कृत, गुजराती	1- जो करने वाला न हो, जो व्यक्ति, करने वाला न हो या जिस कार्य का कोई करने वाला नहीं अथवा जो किसी का किया हुआ न हो 2- कर्म से अलिप्त पुरुष (साख्य), मिद्धपुरुष + 3- मूर्ख, अयोग्य, निकम्मा, आलसी, कर्म न करने वाला (मराठी) +4- जो किया न जाय (गुजराती)
अकर्तृक अकर्तृक अकर्तृक अकर्तृक	विशेषण	हिंदी, गुजराती मराठी, बंगला मलयालम सिंधी	1- जिसका कोई कर्ता, रचयिता न हो, सृष्टा न हो, स्वयभू, स्वयसिद्ध 2- जो किसी का किया हुआ न हो 3- जिस क्रियापद का कर्ता न हो (व्याकरण)
अकर्तुम्		गुजराती	न करवाना, जो न किया जाय
अकर्तृत्व अकर्तृत्व अकर्तृत्वम् अकर्तृत्वं अकर्तृत्तुवम्	सज्ञा	हिंदी मराठी संस्कृत मलयालम तमिल	1- कर्तापन के अभिमान का अभाव, कर्ता न होने की स्थिति, अधिकार रहिनता 2- गुमाश्ता न होना, अप्रतिनिधित्व + 3- पराक्रम शून्यता, करने में अशक्त, नालायकी (मराठी), दैवीगुण जो कर्मभोग से प्रभावित नहीं, अकर्ता का भाव
अकर्तृत्वाद्यम्	सज्ञा	तमिल	नास्तिकवाद, जो संसार का कोई कर्ता नहीं मानते
अकर्म अकर्म अकर्म	सज्ञा	हिंदी, गुजराती नेपाली, मराठी असमी, उड़िया, कन्नड	1- कर्म का अभाव, निष्क्रियता, कर्महीनता, आलस्य, काम न करने का भाव 2- छोटा काम, अकरणीय काम, निषिद्ध कार्य, पाप

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अकर्म अकर्ममु अकर्मन्	सज्ञा	मलयालम तेलुगु संस्कृत	3- अनुचित, बुरा या न करने योग्य कार्य 4- दुष्कर्म, कुकर्म, नीतिबाह्य व्यवहार, अपराध + 5- कार्य ठीक न होना (तेलुगु)
अकर्मक अकर्मक अकर्मक अकर्मकं अकरुमगाम्/अकनुमकम् अकर्मकमु	विशेषण सज्ञा	हिंदी, गुजराती, अस नेपाली, मराठी, उड़िया बंगला, कन्नड मलयालम तमिल तेलुगु	1- व्याकरण मे वह क्रिया जिसके साथ कोई कर्म पद नहीं होता या कर्मपद प्रयुक्त नहीं किया जा सकता 2 सकर्मक के विपरीत क्रिया का नाम 3 जो क्रिया इंद्रियों द्वारा की तो जाती है, परन्तु किसी कार्य विशेष के लिये किये जाने का भाव नहीं होता 4 परमात्मा, परब्रह्म
अकर्मक क्रिया अकर्मकर	सज्ञा विशेषण	हिंदी, तेलुगु, कन्नड गुजराती	क्रिया जिसमे कर्म नहीं होता कार्य साधक नहीं वह, अकार्यसाधक
अकर्म-कृत अकर्मकृतु	विशेषण सज्ञा	संस्कृत मलयालम	+ 1 क्रिया के कर्तापन के अधिमान का अभाव (संस्कृत) 2- अनुचित कर्मी ३- कर्म बधन रहित, अकर्मण्य
अकर्मकसंरिप्रयोगम् अकर्मठ अकर्मण	सज्ञा विशेषण विशेषण	तमिल हिंदी, गुजराती गुजराती	क्रिया का अकर्मक प्रयोग (व्याकरण) 1 काम मे तत्पर नहीं आलसी 2- काम मे अपटु कुल - अभागिनी, अनुचित कार्य करने वाली, जारिणा
अकर्मण्य अकर्मण्य अकर्मण्य अकर्मण्य अकर्मण्य अकरमन्य अकर्मण्यु अकर्मण्य	विशेषण विशेषण विशेषण विशेषण विशेषण सज्ञा	हिंदी, गुजराती नेपाली, मराठी असमी, उड़िया बंगला, कन्नड सिंधी कश्मीरी तेलुगु मलयालम	1- आलसी निष्क्रिय, निकम्मा, बेकार, अक्षम, कर्म के अयोग्य, अदक्ष, अकुशल, निपुण नहीं, अनुपयोगी + 2 कर्म करने मे असमर्थ (संस्कृत, कन्नड) + 3- असफलता (कश्मीरी) + 4 अकार्य (संस्कृत, कन्नड, गुजराती) + 5 काम के अनुपयुक्त, व्यवहार के अयोग्य, व्यर्थ, शक्तिहीन (बंगला) + 6- बेकार वस्तु (असमी)
अकर्मण्यता अकर्मण्यता	सज्ञा	हिंदी, गुजराती नेपाली, मराठी, बंगला	1- कर्महीनता, निष्क्रियता, आलसीपन 2 अकर्मण्य होने की अवस्था या भाव
अकर्म-भोग अकर्मभोग	सज्ञा	कन्नड मलयालम	1- कर्मफल भोगने से पाई मुक्ति का अनुभव 2- निष्काम कर्म, कार्य जिनका फल न भोगना पड़े

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अकर्मण अकर्मिणी	संज्ञा संज्ञा	गुजराती हिन्दी	जो कार्य नहीं करना चाहिये वह करने वाली अनुचित कार्य करने वाली, कुलटा
अकर्म्या (बु) अकर्मा अकर्मा अकर्मन्	संज्ञा	मलयालम हिंदी, उड़िया बंगला, असमी संस्कृत	1- निकम्मा, कर्म रहित, जो कुछ न करता हो 2- कोई काम करने के अयोग्य, बेकार 3- दुष्कर्मी, दुराचारी, पाप कृत्य करने वाला
अकर्मि अकिरमि	विशेषण	कन्नड तमिल	1- दोषी, अपराधी, अनुचित करने वाला अनाचारा, असदाचारी, अन्यायी
अकर्मी अकर्मी	संज्ञा	हिंदी, मराठी तिथी, नेपाली	2- निष्क्रिय, क्रियारहित, आलसी, बेकार, निकम्मा, जो काम न करना चाहता हो + 3- अकर्ता (हिंदी)
अकर्षण अकर्षित	संज्ञा विशेषण	मलयालम, हिंदी मलयालम	दुर्बल, क्षीणबल, निस्तेज न होना; आकर्षण या खिंचाव न होना, दुबला या कृषकाय नहीं
अकलंक अकलंक अकलंक अकलंकम् अकलंकम्	विशेषण संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी कन्नड, बंगला, उड़िया असमी, नेपाली मलयालम तमिल तेलुगु	1- बेदाग, कलंक रहित, बदनाम नहीं 2- दोष रहित, बेऐब, शुद्ध चरित्र 3- निरपराध, निष्कलंक 4- निर्मल, निर्दोष, त्रुटिहीन, अनिन्दित 5- काला अंक जो किसी के लिये बुरे कार्य का संकेत करे वह माथे पर कभी या अभी तक नहीं लगा
अकलंकता अकलंकित अकलंकित अकलंकितम्	संज्ञा विशेषण	हिंदी, नेपाली हिंदी, पंजाबी, बंगला नेपाली, मलयालम तेलुगु	निर्दोषता, दोषहीनता, निरपराधता जिसे कोई कलंक या दोष न लगा हो जिसके माथे पर अपराध सूचित करने वाला काला चिह्न नहीं लगा है
अकलंकी अकलंकन्	विशेषण संज्ञा	हिंदी, बंगला मलयालम, तमिल	1- निर्दोष, पवित्र + 2- बुद्ध (तमिल) जिसको दोष या कलंक नहीं लगा है जो व्यक्ति अनुचित कार्य नहीं करता
अकलंकिनी	विशेषण	बंगला	निर्मल चरित्र स्त्री, पतिव्रता
अकल अकल अकल अकल	विशेषण, संज्ञा	हिंदी नेपाली उड़िया कन्नड	1- जिसमें कल, अवयव, अंग न हो, अवयवरहित 2- जिसके खंड न हुए हों, पूरा, समूचा, अखंड 3- जिसमें कोई कला, विशेषता न हो, कलहीन, गुणहीन 4- परमात्मा, अंशहीन, निराकार

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अकल		संस्कृत	5- बेचैन, विकल, व्याकुल
अकलम्		तमिल	+ 6- तात्कालिक बुद्धि, विचार, समझ, चालाकी,
अकल		गुजराती	कौशल, चातुर्य (नेपाली) + 7-दुर्ज्ञेय, दुर्बोध,
अकल		मराठी	मन बुद्धि से परे, अगम्य (मराठी) संज्ञा
अकल		सिंधी	+ 8- समुद्र जल, दैवी शक्ति (कन्नड)
अकलं	संज्ञा	मलयालम	+ 9- बेहूदापन (गुजराती)
अकलर्	संज्ञा	तमिल	परमेश्वर, निराकार (आदरवादी तमिल)
अकलकाण	विशेषण	पंजाबी	व्याकुल, घबराया हुआ, हैरान
अकलछन	विशेषण	उड़िया	असंख्य, अनगिनत, अगणित
अकलत्र	विशेषण	कन्नड	पत्नी रहित, विधुर, अविवाहित
अकलवणि	संज्ञा	मराठी	(वणि = पानी) अकाल वृष्टि
अकला	संज्ञा	नेपाली	अकाल, सकट, आफत, दुःख, दुःख की
अकला		गुजराती	अवस्था, अगम्य लीला, माया
अकलाय	विशेषण	कन्नड	निरुपयोगी, अनावश्यक ; दुर्लभ
अकलित	विशेषण	गुजराती	1- सोचा समझा न गया हो या समझा न जा सके
अकलित		मलयालम	2- जो जंझा-बांधा न गया हो, एकत्रित नहीं
			3- अनुपलब्ध + 4- अकल्पित (गुजराती)
अकलुष	विशेषण	हिंदी, बंगला	1- बेदाग, निर्दोष, निष्पाप, निष्कलक,
अकलुष		मलयालम	कलुष रहित, दोष रहित, धब्बा या कलौच नहीं
अकलुषि		नेपाली	2- स्वच्छ, निर्मल, पवित्र, पावन,
अकलुषु		तेनुगु	शुद्ध, पुनीत, निश्छल
अकलुषित	विशेषण	नेपाली, मलयालम	अकलंकित, जिसका कलंक धुल गया हो
अकलेबरं	विशेषण	मलयालम	1- शरीर, काया या देह विहीन अशरीरी
अकलेबर		संस्कृत	2- कामदेव, कंदर्प, मनोज, मनसिज
अकलक	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1- तलछट, गाद, मिलावट न हो ऐसा शुद्ध द्रव
अकलक		मलयालम	2- निष्पाप, पाप रहित, मल रहित
अकलका	संज्ञा	हिंदी	अफला, चंद्र युक्त रात्रि, ज्योत्स्ना युक्त
अकलका		मलयालम	अंधकार विहीन, चौंदनी युक्त (रात्रि)
अकलकता	संज्ञा	मलयालम	शुद्धता, ईमानदारी, सत्य पालन
अकलकता		हिंदी	

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अकल्कन अकल्कन्	विशेषण	हिंदी मलयालम	दमहीन, निरहकार, ईमानदार, विनम्र, निश्छल, पापरहित, विनीत
अकल्प अकल्प अकल्प	विशेषण	हिंदी कन्नड मलयालम	+ 1- अनियंत्रित, अमयत, अदमित (मलयालम) 2 अयोग्य, निर्बल, अशक्त, अक्षम 3- अतुलनीय, अनुपम, बेजोड़, सर्वोत्तम
अकर्पन्	सज्ञा	तमिल	4- अकल्पन्
अकल्पनीय अकल्प्य	विशेषण	गुजराती, मराठी गुजराती	जिमकी कल्पना या सभावना न की जा सके कल्पनातीत, अनुद्भावित, मोच से परे
अकल्पित अकल्पित अकल्पित	विशेषण	हिंदी, गुजराती नेपाली, मराठी बंगला, कन्नड	1 जो कल्पित नहीं, वास्तविक, अकृत्रिम 2 स्वाभाविक, नैसर्गिक, प्रकृत, अग्नेत्वशील, सरल, विशुद्ध, सच्चा
अकल्पितं अकल्पितम्	भज्ञा	मलयालम तेलुगु	3 अचिन्तित, आकस्मिक, अचानक, अतर्कित + 4- हठात, महमा (कन्नड)
अकर्पिण्याराणायामम्	सज्ञा	तमिल	बिना मंत्र या औषध के श्वास प्रश्वाम का अभ्यास करना, स्वाभाविक प्राणायाम
अकर्पविवृति	सज्ञा	तमिल	प्रकृति में प्राप्त पवित्र राख, जगल जलने की राख
अकल्मष अकल्मष अकल्मष	विशेषण	हिंदी, नेपाली गुजराती, मराठी कन्नड, मलयालम	1- निर्दोष, निष्पाप, पापरहित, शुद्ध, अकल्पित + 2- जो विषेला या घातक नहीं (मलयालम) + 3- पूर्व ग्रहो से दूषित नहीं (मराठी)
अकल्प्य अकल्प्य अकल्प्य	विशेषण	हिंदी, मराठी कन्नड, गुजराती मलयालम, संस्कृत	1 अस्वस्थ, बीमार + 2 तैयार नहीं, कला में अप्रवीण (मलया) + 3- सच्चा, वास्तविक (मलया) गल्प (हिंदी) + 4- अशुभ (मलया)
अकल्याण अकल्याण अकल्याण अकल्याण	सज्ञा	हिंदी, गुजराती नेपाली, मराठी असमी, बंगला मलयालम, कन्नड	1- अमगल, अशुभ, अहित, दुर्भाग्य, अपवित्रता 2- खराबी, हानि, नुकसान, मुसीबत, आफत कष्ट, दुख, पीड़ा, कुसमय, दुष्काल अवनति, हास, पतन, बुरे दिन
अकल्याण कर अकल्याणकारी	विशेषण	बंगला बंगला	अमगल जनक, अशुभ, पतनकारी, कष्टदायक, दुखद, हानिकारक
अकल्लोल	सज्ञा	मलयालम	तरंग या लहर नहीं, समुद्र या नदी शांत होना

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अकब	विशेषण	मलयालम, हिन्दी	1- अवणनीय 2- तुच्छ या कृपण नहीं
अकब	विशेषण	संस्कृत	3- जो घृण्य या दुरा न हो
अकबच	विशेषण	हिन्दी, मलयालम	जिसके शरीर पर कबच, बख्तर अर्थात् आघात में रक्षा करने वाला परिधान न हो
अकबलित	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	निगला या खाया गया नहीं, अभक्षित
अकवि	संज्ञा	बंगला	1- अपकृष्ट, रमबोध हीन, प्रतिभाशून्य कवि
अकवि		मलयालम	2- जा कवि नहीं 3- बुद्धिमान नहीं, मूर्ख
अकविता	संज्ञा	गुजराती	गुण विहीन काव्य, काव्य नियमों में रहित कविता
अकष्मल	विशेषण	मलयालम	1- मलयागदगीनही 2- नीच या दुरा नही 3- दुष्ट नहीं
अकषाय	विशेषण	मलयालम	1- जो कर्मोत्पादित नहीं 2- रक्तसाव रोधक औषधि
अकस्मात्	अव्यय	हिन्दी, गुजराती	1- संयोगवशा, अचानक, देवयोग में
अकस्मात्	क्रिया विशेषण	नेपाली, मराठी	2- अकारण, हठात्, तत्क्षण, होनहार वशा
अकस्मात्		उड़िया, कन्नड	3- अनसोची घटना, एकाएक, महमा,
ओचितो		सिंधी	आप में आप, निगधार, झटपट
अकस्मात्		तमिल	एकदम विधिवशात्, भाग्यवशात्, जैसी आशा
अकस्मात्तुगा		तेलुगु	न थी, आकस्मिक रूप से
अकह	विशेषण	हिन्दी, पंजाबी	न कहने योग्य, अनुचित, अकथनीय
अकहि		पंजाबी	कहा न जा सके, अनिर्वचनीय, अकल्प्य
अकांक्षितम्	विशेषण	तेलुगु	अनचाहा, जिसकी आकांक्षा न की गयी हो
अकांचन	विशेषण	मराठी	1- जिसके पास कचन, स्वर्ण अथवा द्रव्य न हो
			2- कगाल, दरिद्र, गरीब, निर्धन
अकांड	विशेषण	हिन्दी, गुजराती	1- जिसमें कांड, घना या डंठल न हो
अकाण्ड		कन्नड, नेपाली	2- असमय, अचानक, अनवसर, आकस्मिक,
अकाण्ड		मलयालम	महमा, वेमौके घटित, अप्रतीक्षित, असंभव घटित
अकाण्ड-जात	संज्ञा	नेपाली, हिन्दी	सहसा उत्पन्न, असमय उत्पन्न
अकाण्ड-पात-जात	संज्ञा	मलयालम	जन्मते ही मर जाने वाला
अकाण्ड-साण्ड्य	संज्ञा	मराठी	1- छोटी बात बड़ी बनाकर उछल कूद करना,
अकाण्ड-साण्ड्य		नेपाली	या उत्पात मचाना, बेबात की बात, व्यर्थ का बखेड़ा

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अकांड-तांडव अकांड-तांडव		हिंदी कन्नड	2- बहस, क्रोध में औरों पर बरस पड़ना, अर्थहीन या असम्बद्ध आचरण, बिना बात दौड़-धूप
अकाण्डपातं अकांड पात	संज्ञा संज्ञा	मलयालम हिंदी	आकस्मिक घटना, अचानक दुर्घटित हो जाना, अनहोनी हो जाना
अकांडशूल अकाण्डे अकाण्ड्य	संज्ञा अव्यय विशेषण	हिन्दी मलयालम बंगला	अचानक होने वाला उदर शूल या पेट दर्द एकाएक, अकारण, अप्रकाशित रूप से 1- काण्ड हीन 2- असमय, अकाल, अनर्थ या विपत्ति
अकाज अकाज अकाज अकाज	संज्ञा विशेषण विशेषण विशेषण	हिंदी, गुजराती नेपाली, पंजाबी बंगला सिंधी	1- कार्यहानि, हर्ज, विघ्न, अकार्य, व्यर्थकार्य 2- कुकर्म, अन्याय या अनुपयुक्तकार्य (बंगला) 3- कार्यहीन, लाचार (गुजराती) 4- व्यर्थ ही, निष्प्रयोजन ही (अव्य-हिंदी)
अकाज भागी अकाजना अकाजी	विशेषण क्रिया विशेषण विशेषण	असमी हिंदी हिंदी	1- व्यर्थ कार्य करने वाला 2- अज्ञानी 3- बेकार हानि करना, नष्ट होना, न रहना 1- जिसे कोई काम न हो, अकाज करने वाला 2- कार्य में रोड़ा अटकाने वाला
अकाट अकाट्य अकाट्य अकाट्य अकाटियो	विशेषण	हिंदी हिंदी, नेपाली असमी, उड़िया बंगला सिंधी	1- अखंडनीय, जो काटा न जा सके, मजबूत 2- ऐसा तर्क या युक्ति जिसका प्रतिवाद न हो सके, कट न सके, (यथा अकाट्य प्रमाण) 3- जो किसी तर्क से काटा न जा सके + 4- सुनिश्चित, करने योग्य (बंगला)
अकाट्यता अकात-कात	संज्ञा विशेषण	नेपाली उड़िया	अखंडनीयता, अविभाज्यता, अवियोज्यता अथाह, अतल, अतिगंभीर या गहरा
अकातर अकातर अकातर	विशेषण	हिंदी, गुजराती बंगला, उड़िया मलयालम	1- निर्भय, निर्भीक, अकुंठ, अध्याकुल, निःसंकोची, हतोत्साही या दुःख में अभिभूत नहीं, निराशाविहीन 2- साहसी, हिम्मती
अकातरे अकातर्च अकातर्चम्	क्रिया विशेषण संज्ञा	बंगला मलयालम संस्कृत	हिम्मत से, निर्भीकता से, साहसपूर्णक साहस, निर्भयता, अभीरुता, अहीरुता, धीरता, निर्भीकता, हिम्मत, निडरता, भयहीनता

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अकान्ति	संज्ञा	मलयालम	1- कांति हीनता 2- अस्पष्टता, धुंधलापन 3- अस्पष्ट लिखाई
अकावद्वय	संज्ञा	बंगला	सरल हृदयता, छलनाशून्यता, उदारता
अकाम	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मलया	1- निष्काम, अनिच्छुक, अनभिलाषी, निस्पृह,
अकाम	संज्ञा	नेपाळी, असमी, बंगला	निरभिलाष, कामना रहित, उदासीन
अकाम	क्रिया विशेषण	पंजाबी	2- बुराकाम, दुष्कर्म, कुकर्म, अनुचित कार्य (संज्ञा) निष्प्रयोजन, व्यर्थ (हिंदी, पंजाबी) (क्रि० वि०)
अकामतः	क्रिया विशेषण	हिंदी	निष्प्रयोजन, बिना इच्छा या प्रयत्न के, अनजाने में
अकामता	संज्ञा	हिंदी	कामना का अभाव, इच्छा नहीं, वासना
अकामं		मलयालम	हीनता, निष्कामना, अनाकांक्षा, अनावश्यकता
अकामन्	संज्ञा	मलयालम	अनिच्छुक, कामनारहित, वामनाहीन
अकामविने	संज्ञा	तमिल	अबुद्धिपूर्ण कार्य, मूर्खता युक्त काम
अकामा	विशेषण	हिंदी	जिसमें कामना या वासना उत्पन्न न हुई हो (किशोरी या जिसमें कामना न हो वृद्धा)
अकामिक	विशेषण	हिंदी	जिसवे लिए कामना न की गई हो, आप से आप ही जाने वाला
अकामित्त (बु)	संज्ञा	मलयालम	1- जो पति या प्रेमी न हो 2- जिसे कामना न हो
अकामित्ता	विशेषण	असमी	अनिपुण, अकुशल, बेकार, तुच्छ, योग्यता विहीन
अकामी	विशेषण	नेपाळी, उड़िया	1- काम न करने वाला, अकर्मण्य, अनुपयोगी,
अकामी		बंगला, गुजराती	निकम्मा, बेकार, निरुपयोगी
अकामी		मराठी, असमी	2- स्वार्थ शून्य, कामना रहित, वासना रहित
अकामिन्		संस्कृत	3- निस्वार्थ, निष्काम
अकामुक	विशेषण	बंगला	काम या इच्छाओं से जो प्रभावित न हो,
अकामहृत्		मलयालम	निष्कामी, काम भाव वर्जित, वासना विहीन
अकाम्य	विशेषण	बंगला	1- जिसकी इच्छा न की जाय
अकाम्य		मलयालम	2- फल लाभ की इच्छा न करना, निष्कामहेतु से
अकाम्य		मराठी	+ 3- असुन्दर, अपृहणीय (बंगला)
अकाय	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1- अशरीरी, काया रहित, निराकार ब्रह्म
अकाय		नेपाळी, बंगला	2- जिस की काया शिव ने भस्म कर दी, कामदेव
अकायन्	संज्ञा	तमिल, मलयालम	3- राहू, परब्रह्म; श्रेष्ठ व्यक्ति

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अकार	विशेषण	मलयालम	कार्य न करना, जो कुछ नहीं करता
अकार अकारतुगा	अव्यय	गुजराती तेलुगु	अकारण, फोकट, व्यर्थ, फिजूल, बिना वजह के, निराधार, या ही
अकारज	सज्ञा	गुजराती	अकार्य, खोटा काम, न करने योग्य या व्यर्थ काम
अकारण	सज्ञा विशेषण	गुजराती, मराठी, अस	1 कारण या उद्देश्यरहित
अकारण	क्रिया विशेषण	नेपाली, हिंदी, बंगला	2 कारणशून्य अनर्थक निष्प्रयोजन
अकारण		उड़िया, पंजाबी, कन्नड	3 निष्क्रिय कारणज्ञान न हो सयोगवश
अकारणं	सज्ञा	मलयालम	4 म्यत् स्फूर्त, निगंधार
अकारणम्		तमिल	5 याही बेमतलब हेतुर्गहा
अकारणमु	विशेषण	तेलुगु	
अकारणम्	सज्ञा	तमिल	दुर्घटना (एक्सीडेंट) accident
अकारण		मराठी	स्वर्णसिद्ध इश्वर इश्वरक लिए प्रयुक्त एक उक्ति
अकारणन्		तमिल, मलयालम	जिसका कोई कारण या कर्ता नहीं परब्रह्म
अकारणिक/अकारणी	विशेषण	मराठी	निरूपयोगी, निष्फल, किसी काम योग्य नही
अकारत	विशेषण	गुजराती, कन्नड, हिंदी	व्यर्थ निष्फल, फिजूल, बेकार,
अकारबो/अकारिबो		सिंधी	लाभ रहित, जिससे कोई काम न सध
अकारब	क्रिया विशेषण	हिंदी, पंजाबी	यो ही बेकार जाना या होना
अकारिन्	सज्ञा	मलयालम	कर्म विहीन ईश्वर
अकारं	विशेषण	गुजराती	अप्रिय भनखणा अप्रमत्त होना
अकारणिक	विशेषण	मलयालम	करुणा विहीन निर्दय क्रूर, निष्ठुर
अकारुण्यं	सज्ञा	मलयालम	करुणा विहीनता दया हीनता
अकारुण्य		संस्कृत	निर्दयता दुष्टता बरहमी,
अकारुण्यम्		तमिल	हृदयहीनता, कटार हृदयता
अकार्पण्यम्	सज्ञा	मलयालम	1 कृपणतानही उदारता, अध्यात्मज्ञान
अकार्पण्य	विशेषण	हिंदी	2 कजुमीनही दीनता हीनतादिस्वार्थेबिनाप्राप्तकरना 3- दीनताका अभाव(सज्ञा)
अकार्मुक	विशेषण	मलयालम	कार्य योग्य नहीं, अकुशल
अकार्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 अकरणीय कार्य, अकर्तव्य, अनुचित या
अकार्य		नेपाली, मराठी	भन्याययुक्त कार्य, कार्याभाव

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अकार्य		असमी, बंगला, कन्नड	2- जो नहीं करना चाहिये वह करना
अकार्य		मलयालम	
अकारियम्	संज्ञा	तमिल	3- अपराध, जुर्म, दुष्कार्य, पाप, खोटा काम
अकार्यम्		तेलुगु	
अकार्यकारी	संज्ञा	मलयालम, कन्नड	1- अनुचित कार्य करने वाला, दुराचारी,
अकार्यकारिन्		संस्कृत	अव्याचारी
अकार्यकारी	विशेषण	नेपाली	2- कर्तव्य न करने वाला, कर्तव्य विमुख
अकार्य	संज्ञा	मलयालम	दुबला पनला न होना, स्थूलता, स्वस्थता
अकार्य	संज्ञा	मलयालम	कालेपन का अभाव, सफेद
अकाल	संज्ञा	मलयालम	1- मोनेकासमय, अशुद्ध/अपवित्रसमय, असमय,
अकाल	संज्ञा	हिंदी, गुजराती	अनुपयुक्त, अशुभ, अयोग्य, अपूर्ण या अनियत
अकाल	विशेषण	नेपाली, मराठी	समय; अप्रशस्त समय, वेमौके; कुबुद्ध; दुर्दिन
अकाल		असमी, बंगला, उर्दू	2- ऐसा समय जब अन्नमिलनेमें कठिनता हो,
अकाइ		उड़िया	दुर्भिक्ष, दुष्काल
अकालम्		तमिल	3- किसी भी पदार्थ के कम या कठिनता से मिलने का
अकालम्		तेलुगु	समय, अभाव, कमी 4- जिसका काल या मृत्यु न हो,
			अकाल पुरुष (सिक्ख धर्म), परमात्मा, अविनाशी,
			अविनाश्वर, कालानीत (गुजराती)
अशुभकाल		सिंधी	+ 5- कालानहींसफेद (मलयालम) मलमस (बंगला)
अकालकुसुम	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	1- असमय खिला फूल, नियत समय से पहले
			पीछे वृक्ष का फूलना (दुर्भिक्ष का लक्षण)
अकाल फल		कन्नड	2- वह वस्तु जो समय से पहले या पीछे हो,
			वेमौसम की चीज़
अकाल कूष्माण्ड	संज्ञा	हिंदी, बंगला	1- वेमौके का पेट, असमय का फल
अकाल कूष्माण्ड		उड़िया, असमी	+ 2- व्यर्थ उत्पात्ति, कुमतान, निकम्मा व्यक्ति (लक्ष्यार्थ)
अकालकूष्माण्ड		मलयालम	+ 3- निरर्थक वस्तु, निरर्थक जन्म (हिंदी)
अकाल चक्र	संज्ञा	उड़िया	आकरिगक विपत्ति, असमय वज्रपात
अकालजननं	संज्ञा	मलयालम	1- नियत समय से पूर्व जन्मा, असमय उत्पन्न,
अकालज		हिंदी, नेपाली, मराठी	वेमौसम उणजा हुआ
अकालज		बंगला, गुजराती	2- अकाल या दुर्भिक्षकाल में पैदा हुआ

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अकाल जन्म अकाल जात		मलयालम हिंदी, नेपाली	3- कालसमाप्ति से पहले जन्मा 4- अशुभ समय में उत्पन्न हुआ बालक
अकालज्ञ अकालज्ञ	संज्ञा, विशेषण	बंगला मलयालम	जिसे ठीक समय का ज्ञान न हो; जिसे काम के समय काल का ज्ञान न रहे, उचित समय का ध्यान न रखना
अकाल जलद अकालनिर्वाणं अकालपक्व अकाल पक्व अकालपलित	संज्ञा संज्ञा विशेषण	हिंदी मलयालम मलयालम, बंगला हिंदी, असमी	बेमौसम के बादल अकाल मृत्यु, आकस्मिक मरण, कम आयु में मृत्यु 1- समय से पहले पका हुआ; असमय परिणिति प्राप्त 2- बचपन में वृद्धों जैसा व्यवहारकारी (बंगला) समय से पहले बाल मफेद हो जाना
अकाल पुरुषन् अकाल मूर्ति अकाल पुरुष अकाल पुरख	संज्ञा संज्ञा	मलयालम मलयालम हिंदी पंजाबी	1- परमात्मा, संसार की सृष्टि करने वाला सृष्टा जिसका काल या समय कोई निर्णय नहीं कर सकता 2- काल प्रभाव रहित शक्ति, काल गणना से परे - परमेश्वर, ईश्वर, काल का स्वामी
अकालप्रसव अकाल प्रसवं अकालपिरसवम्	संज्ञा संज्ञा	हिंदी, नेपाली मलयालम तमिल	1- समय से पूर्व बालक का जन्म होना 2- वृक्ष पर असमय फल या फूल लगना 3- स्त्री को निश्चित समय से पूर्व या पश्चात् होने वाला प्रसव अर्थात् गर्भमोचन, सन्तानोत्पत्ति
अकाल बोधन अकाल बोधन	संज्ञा	असमी बंगला	1- शारदीय पूर्णिमा को दुर्गा की निद्राभंग करना (बंग) 2- असमय जागना 3- नियमित समय से पूर्व देवी/दिवता का जागरण
अकालभोजनम्	संज्ञा	तमिल	असमय भोजन करना, भोजन का नियत समय न होना
अकाल मरणं अकालमरणम्/ मिरुतु अकाल मरण अकाल मृत्यु अकाल मृत्यु अकाल मिरुतु/मौत अकाल मृत्यु	संज्ञा	मलयालम तमिल नेपाली, बंगला, कन्नड मलयालम, हिंदी नेपाली, असमी, बंगला पंजाबी तेलुगु	1- असामयिक मृत्यु/अकाल मृत्यु 2- दुर्घटना वश मृत्यु, आयु पूर्ण से पूर्ण मृत्यु 3- अल्प वय में मृत्यु, उचित या नियत समय से पहले होने वाली मृत्यु 4- बुरे समय में होने वाली मृत्यु 5- असामयिक या आकस्मिक मृत्यु

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अकाल वर्षण	सज्ञा	मलयालम, बंगला	1 बेमौसम वर्षा/वर्षा ऋतु से इतर ऋतु में वर्षा होना
अकाल वृष्टि	सज्ञा	हिंदी, बंगला	2 फसल को हानि हो ऐसे समय की वर्षा
अकालवृष्टि	सज्ञा	मलयालम, कन्नड	3 बेमौके वरमना, अकाल वर्षण
अकाल वाद्विक्य	विशेषण	बंगला	समय से पहले वृद्ध हो जानेवाला
अकाल वृद्ध	सज्ञा	हिंदी, गुजराती	जो नियत समय से पूर्व वृद्ध हो गया हो
अकालस्तनितं	सज्ञा	मलयालम	वर्षा के बिना बादल गर्जन
अकालसंध्या	सज्ञा	बंगला	1- सायंकाल से पहले वैशा ही अंधेरा (बादल के कारण) 2- अप्रत्याशित विपत्ति
अकालि	सज्ञा	मलयालम	1 नानकपंथी माधु 2- गिक्खो का संप्रदाय विशेष
अकाली	सज्ञा	हिंदी, पंजाबी	3 उक्त संप्रदाय का अनुयायी
अकाली	विशेषण	सिंधी, गुजराती	4 जिसका मवय उक्त संप्रदाय से हो
अकालिक	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1- असमय में हुआ, असामयिक, बेवक्त का
अकालिक	विशेषण	नेपाली, मलयालम	2- काला नहीं, काले रंग के अतिरिक्त, सफेद
अकालिया	विशेषण	उड़िया	3 कुसमय में उत्पन्न, समय से पहले या पीछे का
अकालीन	विशेषण	गुजराती, मराठी	4- कुसमय का उचित समय का नहीं, अकालीन होने का भाव, ऋणविपर्यास (एनाक्रोनिज्म)
अकालीनता	सज्ञा	गुजराती	
अकालोत्पन्न	विशेषण	हिंदी	समय से पूर्व उत्पन्न
अकाल्यनिक	विशेषण	बंगला, मराठी	काल्यनिक नहीं, वाम्नाविक, सत्य, खरा, यथार्थ
अकाल्य	विशेषण	मलयालम	1 बेमौसम का 2- बेमौके 3- अपवित्र, अशुभ
अकाल्या	विशेषण	मराठी	2- कुसमय वर्षा हानिकारक बारिश यामेह बरसना
अकिञ्चन	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 निष्काचन, जिसके पास कुछ धनराशि न हो
अकिचन	विशेषण	असमी, मराठी	2- दरिद्र निर्धन, कगाल, गरीब
अकिञ्चन	विशेषण	नेपाली, उड़िया	3- तुच्छ, नाचीज़, संभलहीन, दीन हीन
अकिञ्चन	विशेषण	बंगला, संस्कृत	4- अपरिग्रही, त्यागी, सामान्य से इतर
अकिञ्चनं	विशेषण	मलयालम	5- भोग विलास के लिए कोई प्रयत्न न करने वाला (नेपाली)
अकिञ्चनन्	विशेषण	तमिल	6- पुत्र कलत्र त्यागी (जैन) (हिंदी)
अकिचनमु	विशेषण	तेलुगु	जो व्यक्ति किसी गिनती में न हो
अकिचगुडु	सज्ञा	तेलुगु	आते दीनता, दरिद्रता, परिग्रह का त्याग (जैन)
अकिचनता	सज्ञा	हिंदी	
अकिञ्चनता	विशेषण	मलयालम, नेपाली	गरीब होने का भाव, तुच्छता, धनहीनता

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अकिंचनत्व अकिञ्चनत्व	सज्ञा	हिंदी, नेपाली मलयालम	गरीबी, निर्धनता, जीवन-निर्वाह की कठिनता जिसकी समाज में न पूछ हो, न गिनती हो
अकिञ्च्यनिमा (बु)	सज्ञा	मलयालम	दीन हीन व्यक्ति, बेहद कगाल
अकिञ्चित्कर अकिञ्चित्कर अकिञ्चित्कर अकिञ्चित्कर	विशेषण विशेषण	हिंदी, गुजराती मराठी, कन्नड बंगला नेपाली, मलयालम	1- जो कुछ न कर सके, असमर्थ, अशक्त, आलसी 2- अति सामान्य, नगण्य, अयोग्य, निरर्थक, तुच्छ, व्यर्थ का, निष्फल, निरुपयोगी 3- जिसका किया कुछ न हो सके, अपार्थिव + 4- निर्मात्य, फोकट का (गुजराती)
अकिञ्चित्तज्ञ अकिञ्चित्तप्रद	सज्ञा विशेषण	मलयालम, हिंदी मराठी	जिसे कुछ भी ज्ञात न हो, अज्ञानी, मूर्ख कुछ न देने वाला, जिसे देने का कोई महत्व न हो
अकिंतव अकिंतवन्	विशेषण सज्ञा	हिन्दी मलयालम	जो जुआ नहीं खेलता, निष्कपट, दुष्ट या मनकी नहीं जो जुआरी न हो, जो ठग न हो, जो धूर्त न हो
अकिन्विष अकल्विषमु	विशेषण	हिंदी, मलयालम तेनुगु	पाप रहित, निर्मल, शुद्ध, पवित्र निर्दोष, निष्कलक, यशस्वी, बेदाग
अकीर्तनं अकीर्तन अकीर्तनीय	सज्ञा विशेषण	मलयालम कन्नड मराठी	प्रशंसा न करना, चर्चा ही न करना, अनस्तवन, नाम ही न लेना, जिक्र लायक न समझना, जो स्तुति या प्रशंसा के अयोग्य हो, अचर्चनीय
अकीर्ति अकीर्ति अकीर्ति अकीर्ति अकीरत	सज्ञा	हिंदी, गुजराती मराठी, असमी, नेपाली उड़िया, बंगला तमिल, मलयालम पंजाबी	1- अपयश, बदनामी, निंदा, दुर्नाम, अवमानना, अपमान 2- कुख्याति, दुष्कीर्ति दुर्लौकिकी, अग्न्यानि दुर्यश, अयश, कुप्रसिद्धि बुराई, चेमेगोई, कलक, कलुष, कल्मष
अकीर्तिकर अकीर्तिकर	विशेषण	हिंदी, गुजराती नेपाली, बंगला	1- बदनामी देने या अपमान कराने वाला काम 2- अख्यातिजनक, कीर्ति में कलक लगाने वाला
अकीर्तिमान अकुञ्चित अकुण्टक अकुण्ट अकुण्ट	विशेषण विशेषण विशेषण विशेषण	बंगला मलयालम, संस्कृत मलयालम हिंदी बंगला, मलयालम	अप्रसिद्ध, कीर्तिहीन, कुख्यात, अख्यात जो झुका या मुड़ा हुआ न हो, मोटा नहीं, पतला दुबला 1- जो कुंठित, भोथरा या पुराना पड़ा या मुड़ा नहीं 2- तीक्ष्ण, तेज, पैना, तीव्र

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अकुंठित	विशेषण	हिंदी	3- अच्छा, बढ़िया, कार्य साधक
अकुंठित		गुजराती	4 कार्यक्षम, शक्तिशाली, अव्याहत, अप्रतिहत,
अकुंठित		मराठी	मुक्त, तेजस्वी, असकुंचित, अनमित, स्थिर
अकुण्ठित		असमी	5 अप्रवाहित, उदार, प्रसन्न, दुखी नहीं
अकुण्ठित		बंगला	जो विघ्न बाधाओं के आगे न झुके
अकुण्ठित		मलयालम	6 खुला हुआ, बद नहीं, अबाधित, अरुद्ध
अकुंठितमु		तेलुगु	7 मूर्ख नहीं, अप्रतिबाधित + 8- आशका, मशय, सदेह या भयमुक्त, उदार (असमी)
अकुण्ठधिष्ण्यं	सज्ञा	मलयालम	वैकुण्ठ, स्वर्ग, इद्रलोक, द्युलोक, विष्णु लोक
अकुण्ठा	विशेषण/सज्ञा	बंगला	1 अमकोच, अक्षोभ 2- असकुचित, प्रतिभावती
अकुण्ठित वित्त/मन	विशेषण	बंगला	अकातर मन, प्रशस्त मन, उदार हृदय
अकुटपन्	सज्ञा	मलयालम	1 सन्यासी या वैरागी नहीं
अकुटप		संस्कृत	2 अज्ञानी, मूढ़
अकुटिल	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 कुटिल, टेढ़ा या बक्र नहीं; अजटिल; अवक्र
अकुटिल		नेपाली, असमी	2 सीधा, सरल, भोला भाला, खरा, सच्चा
अकुटिल		बंगला, संस्कृत	3 निष्कपट, ईमानदार, स्पष्टवादी, माधु
अकुटिल		कन्नड, मलयालम	+ 4 निखालिस (गुजराती)
अबोझ		सिंधी	+ 5 अदोष, निर्बोध, मूर्ख (सिंधी)
अकुटिलता	सज्ञा	हिंदी	1 टेढ़ापन या घुमाव नहीं, सीधापन, भोलापन, निष्कपटता
अकुटुम्ब	सज्ञा	मलयालम	बिना परिवार के, अकेला, घर गृहस्थी का नहीं
अकुटुम्बि		संस्कृत	1 पत्नी रहित, विधुर, संततिहीन
अकुटुम्बिन्	विशेषण	मलयालम	2 गृहस्थी रहित, अच्छे परिवार से संबंधित नहीं
अकुतः	अव्यय	मलयालम, कन्नड	1 कहीं किसी कारण नहीं, अकारण, कहीं से नहीं
अकुतः	सज्ञा	संस्कृत	2 शिव का नाम
अकुतश्चलन	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1 असहाय या कंगाल 2- शिव
अकुतर्क/अकुतूहलं	सज्ञा	मलयालम	1 उदासीन 2- कुतूहल या रुचि हीनता
अकुतोभय	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 कहीं किसी कारण भय या डर नहीं
अकुतोभय	विशेषण	नेपाली, मराठी, असमी	2 निर्भय, निडर, नितान्त भय शून्य

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अकुतोभयं	सज्ञा	संस्कृत, मलयालम	भ्रतिमुरक्षित
अकुतोभयुडु	सज्ञा	तेलुगु	कमी से न डरने वाला
अकुत्सा	सज्ञा	मलयालम	धृणा का अभाव, निन्दा नहीं, गर्हणा नहीं
अकुत्सनं	सज्ञा	मलयालम	बदनामी, अवमानना या अपमान नहीं
अकुत्सित	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1. जो बदसूरत, घृणित, निन्दनीय, बुरा न हो
अकुत्सित		संस्कृत	2. निर्गमन न हो बुराई लायक नहीं
अकुपित	विशेषण	मलयालम, बंगला	जा क्रोध उत्तेजित विकृत नहीं, अनुतेजित
अकुप्यं	विशेषण	मलयालम	1. बिना खोटे की कोइ भी धातु यथा सोना चांदी
अकुप्य		हिंदी, कन्नड	2. धरा सोना या चांदी (हिंदी कन्नड)
अकुप्यकं	सज्ञा	मलयालम	सोना या चांदी
अकुंभिलन्	विशेषण	मलयालम	1. जो चौर या मध लगाने वाला नहीं
अकुंभित		संस्कृत	2. पूर्ण विकसित गर्भ के बाद पैदा हुआ बालक
अकुब्ज	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	जिसमें कूबड़ झुकाव या मुड़ाव न हो
अकुमार	विशेषण	असमी	1. शूराणा लड़का किशोर, अवयस्क
अकुमार		बंगला	2. विवाहित पुरुष 3. तरुण, युवा
अकुमारी	विशेषण	बंगला	1. दस साल की लड़की 2. तीसरा ना समाग 3. विवाहता नग 4. युवती
अकुमारी व्रत	सज्ञा	बंगला	दस साल की लड़की का एक विशेष व्रत
अकुल	विशेषण	बंगला, नेपाली	1. वश हान तुच्छ या निम्न वश का
अकुल		पंजाबी, मलयालम	2. जिस कुल में कोई न रहा हो, या कुल न हो
अकुल		कन्नड, हिंदी	3. कुल गोत्र हीन, ग्वानक्षणी नहीं, अकुलीन
अकुल		संस्कृत	4. जिस कुल में विवाह संबंध ठीक न हो
अकुलज	सज्ञा	मराठी	5. शिव या शिव का एक नाम (सज्ञा)
अकुल	विशेषण	असमी	1. कुल किनाग न होना, पार न होना
अकुल		संस्कृत	2. विशाल, सीमाहीन
अकुलटा	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	गुणवती स्त्री, कुलटा व्यभिचारिणी नहीं
अकुलता	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	परिवार का आछापन, अकुलीनता
अकुलन्	सज्ञा	मलयालम	शिव की पत्नी पार्वती
अकुलन् /न	विशेषण	असमी, बंगला	अपर्याप्त, घाटा, यथेच्छ नहीं, कमी रहना या होना

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अकुलान	संज्ञा	बंगला	अभाव, तंगी, अल्पता
अकुला	संज्ञा	हिंदी	शिवा, पार्वती
अकुलांगना	संज्ञा	गुजराती	कुजान, निम्न मस्कार युक्त स्त्री, कुलांगना नहीं
अकुलिका	संज्ञा	मलयालम	1- उच्च कुलोत्पन्न नहीं, खानदानी या अभिजात्य नहीं 2- अपने परिवार की नहीं, जाने रिश्ते में नहीं
अकुलिनी	विशेषण	हिंदी	अकुलीना, व्याभिचारिणी स्त्री
अकुलीन	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 अक्षय उच्च वंश में पैदा हुआ नहीं
अकुलीन		मराठी, मलयालम	2- सामान्यतः कुल नष्टनाम वाचक
अकुलीन		बंगला, नेपाली	3- कुल मर्यादा हीन, नीच परिवार में जन्मा
अकुलीनीया		असमी	+ 4- पृथ्वी में संबंध न रखने वाला, अपार्थिव (हिन्दी) + 5- तत्रोक्त कुलाचार धर्मित (बंगला)
अकुशल	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1- चतुर या निपुण नहीं, अनाड़ी, काम में कच्चा,
अकुशल		मराठी, नेपाली	अदक्ष, अशुभ, अमंगल, दुर्भाग्य, अनिष्ट,
अकुशल		बंगला, कन्नड	कुशल क्षेम न होना, अहित
अकुशलं	संज्ञा	मलयालम	+ 2- जो अशुभ या अमंगल कारी हो (तमिल)
अकुशलम्		संस्कृत, तमिल	3- अभाग्य मूर्ख, मूढ़
अकुशलता	संज्ञा	गुजराती	कुशल न होने की अवस्था या भाव
अकुशलवेदना	संज्ञा	मलयालम	1- पीड़ाजनक, कष्टदायक, अनुभूति (बुद्ध दर्शन)
अकुशलवेदनै		तमिल	2- बुराई के कारण दुःख पाना
अकुशलि	संज्ञा	मलयालम	अप्रसन्न या अभागा, असुखी, दुःखी
अकुशै	संज्ञा	संस्कृत, तमिल	अकुशा, जैन विधवा माध्वी
अकुसीद	विशेषण	हिंदी, मलयालम, संस्कृत	मूढ़, व्याज या लाभ न लेने वाला
अकुसुमित	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	पुष्पविहीन, अपुष्पित, फूल नहीं आये
अकुह/अकुहक	विशेषण	हिंदी, मलयालम	धोखेबाज नहीं, ईमानदार, सच्चा, भला
अकूट	विशेषण	हिंदी	1- जो धोखा न दे, कपटरहित, ईमानदार
अकूट		संस्कृत	2- अकृत्रिम, वास्तविक 3- जो दृढ़ न हो,
अकूट		नेपाली	विचलित होने वाला, अस्थिर
अकूट		मलयालम	4 अच्छे कुल या नस्ल का
अकूट		गुजराती	5- जो खोटा न हो, खरा, शुद्ध (सिक्का) जैनुइन

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अकृत	विशेषण	हिंदी	जो कृता न जा सके, जिसका अनुमान न लगाया जा सके, विपुल, अपरारामित
अकृत	क्रिया विशेषण	हिन्दी	अकस्मात्, अचानक, यकायक, एकाएक
अकूपार अकूपारि/अकूपारन्	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, कन्नड मलयालम	1- समुद्र, काष्ठुआ, सूर्य, चट्टान, भारी पत्थर 2- महाकच्छप जिम पर पृथ्वी ठहरीमानी जाती है 3- सीमाहीन, अपार, असीम
अकूपारम्		तेलुगु	4- जिसका परिणाम अच्छा हो
अकूपार	विशेषण	हिंदी	
अकूर्च	विशेषण	मलयालम	1- धोखेबाज नहीं 2- कपट रहित
अकूर्च		हिंदी	3- जिसके दाढ़ी न हो, गजा, खल्याट, मड़ा बुद्ध
अकूल	विशेषण	हिंदी	1- कूल, किनारा, गीमा न होना, अपार, असीम, विशाल
अकूल		असमी	
अकूल		बंगला	+ 2- सागर; विपद; सहारा भरोमा न होना (बंगला)
अकृष्ट	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1- बिना कठिनाई या क्लेश के
अकृष्ट		हिंदी, नेपाली	2- सुगम, आसान, सहज
अकृष्टी/चिन्	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	क्लेश रहित, कठिनाई का अभाव
अकृत	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1- न किया हुआ, अनिष्प्रादित, अन अनुष्ठित
अकृत		मराठी, नेपाली	2- जो ठीक न किया गया हो जिसके करने में
अकृत		बंगला, कन्नड	भूल की गई हो, अपूर्ण, अधूरा, अपक्व, कष्टा
अकृतं		मलयालम	3- अयोग्यकृत, व्यर्थ का 4- जो मनुष्यकृत नहीं,
अकृतम्		संस्कृत	प्राकृतिक, अकृत्रिम, स्वयम्भू, स्वाभाविक
अकृतं	संज्ञा	मलयालम	1- अधूराकाम 2- कारण 3- मोक्ष 4 स्वभाव
अकृतम्	संज्ञा	संस्कृत	1 वह काम जो पहले कभी न किया हो. अनत, अमर 2- जो मनुष्य कृत नहीं, प्राकृतिक 3- करने योग्य नहीं, अनुचित काम
अकृतक	विशेषण	मलयालम	1- न किया, न बनाया, प्राकृतिक, असली
अकृतक		कन्नड	2- स्वाभाविक, सहजा, सहज
अकृतकर्मर्ष (बु)	विशेषण	मलयालम	1- कर्तव्य न करने वाला, अकर्मण्य
अकृतकर्मर्ष		संस्कृत, बंगला	2- अकुशल, अदक्ष, अनिष्ठ, असिद्ध प्रयास

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अकृतकाम अकृतकामन्	विशेषण	मलयालम संस्कृत	अपूर्णकाम, जिसकी इच्छा अपूर्ण रह गयी हो व्यक्ति जिसकी मनोकामना पूरी न हुई हो
अकृतकार्य अकृतकार्य अकृत-कृत्य अकृत-क्रिया	विशेषण	हिंदी, नेपाली, बंगला असमी, उड़िया मलयालम, संस्कृत मलयालम, संस्कृत +	1- असफल, विफल या अपूर्ण मनोरथ 2- व्यर्थ प्रयास, अपारग, उद्देश्य सिद्धि नहीं 3- असतुष्ट, कार्य का सतोष प्राप्त नहीं हुआ 4- अकृतज्ञ (नेपाली)
अकृत काल अकृत काल	विशेषण	हिंदी मराठी	1- जिम ऋज की मुद्दत न ठहरायी गयी हो 2 बिना मुद्दत का (बधक)
अकृत क्षेत्रं अकृत क्षेत्रम्	मंज्ञा	मलयालम संस्कृत	1- वह खेत जो जोना बोया न गया हो 2- ऊमर या बजर भूमि, जो जोती बोयी न जा सके
अकृतघ्न अक्रितघन अक्रितघणी	विशेषण	हिंदी, गुजराती, असमी पंजाबी पंजाबी	जो क्रिये उपकार को मानता हो, कृतज्ञ, एहसान मद, जो ऐसा व्यक्ति नहीं कि उसकी भलाई की जाय और वह भूल जाय, एहसान फरामोश नहीं
अकृतज्ञ अकृतज्ञ अकृतज्ञ अकृतज्ञन्	विशेषण संज्ञा	हिंदी, गुजराती मराठी, असमी बंगला, नेपाली मलयालम	1- उपकार न मानने वाला, कृतघ्न, गुनमेटा, नमक हराम 2- विपत्ति में की गई सहायता-सेवा को न समझे 3- न याद रखे और काम न आवे 3- अकृतकृत्य, एहसान फरामोश
अकृतघ्नत्व	संज्ञा	हिंदी, असमी	कृतघ्नता, अकृतज्ञ होने की अवस्था या भाव
अकृतचिकीर्षा अकृतचिकीर्षा	संज्ञा संज्ञा	मलयालम, संस्कृत हिंदी	1- अधूरे काम को पूरा करने की इच्छा 2- अनिर्दिष्ट उद्देश्य में र्मधि
अकृतचूडन्	विशेषण	मलयालम	जिःका चूड़ाकरण सस्कार नहीं हुआ
अकृततीर्थ	विशेषण	मलयालम	1- जिसने तीर्थयात्रा न की हो 2- धर्मस्थानों में न गया हो
अकृतधी अकृतधी	विशेषण	मलयालम, बंगला हिंदी, संस्कृत +	1- अस्थिर बुद्धि, कम बुद्धि, + जो शास्त्र उपदेश मन लगाकर न सुने, न समझे (बंगला) + 2- अशिक्षित, अज्ञानी, अबोध, अज्ञ (मलयालम)
अकृतदार	विशेषण	बंगला	अविवाहित, कुमार, जिसने दारा, भार्या न की हो

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अकृतनिश्चय अकृतनिश्चय	विशेषण	मलयालम संस्कृत	जिसने निश्चय न किया हो, संकल्प विहीन, दुविधा में, सशयग्रस्त, अनिर्णय की अवस्था
अकृत पुण्यं अकृत पुण्यन्	विशेषण	मलयालम संस्कृत	जिसने कोई पुण्य, भला या प्रशंसनीय कार्य न किया हो, साधारण व्यक्ति
अकृतपूर्व अकृत पूर्व	विशेषण	मलयालम संस्कृत	जो कार्य पहले कभी नहीं किया, पहले पहल किया हुआ; अनुभव हीन
अकृत बुद्धि अकृत बुद्धि	विशेषण	हिंदी, मलयालम संस्कृत	जिसने शिक्षा, उपदेश, पठन, चिंतन से बुद्धि न बढ़ाई हो अकृतधी, अज्ञानी
अकृत लक्षण अकृत विद्य अकृतचेतन अकृत वेदि अकृत वेदिन्	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1 अर्चिद्धित, बिना मुहर लगा 2- अनिर्दिष्ट
अकृतबेष अकृतबेषम्	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	अशिक्षित, जिसने विद्या प्राप्त नहीं की
अकृतव्रणन्	विशेषण	मलयालम	1- अवैतनिक 2 स्वयं सेवा, भलाभ सेवा
अकृत शुल्क	विशेषण	हिंदी	अकृतज्ञ, किये को न जानने या न मानने वाला, कृतघ्न, एहसान फरामोश
अकृत शोभा	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	बिना पोशाक या मजे सवरे, जिसने उपयुक्त वेष न धारण किया हो, सादा रूप में
अकृतशौच अकृत श्रम अकृतसंकल्प अकृत साक्षि अकृत हस्त (क) अकृता	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	जो धायल नहीं हुआ, जिसे व्रण, जख्म नहीं हुआ
अकृततन्मा (बु) अकृततन्मन	संज्ञा	हिंदी	जिम पर चुगी या अन्य कर न हो या न दिया हो, कर न देने वाला
	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	नैसर्गिक सौन्दर्य, अकृत्रिम सुन्दरता, कुदरती खूबसूरती
		मलयालम, संस्कृत	जिमका शुद्धिकरण नहीं हुआ, अपवित्र, अशुद्ध
		मलयालम, संस्कृत	जिसने श्रम या चेष्टा नहीं की हो
		मलयालम, संस्कृत	1- अनिश्चयीकृत 2- अकल्पित, सोचा ही नहीं
		मलयालम	स्वयं गवाही देने को तैयार व्यक्ति
		हिंदी	1- धनुर्विद्या में अचतुर 2- अकुशल हस्त
		मलयालम, संस्कृत	वह पुत्री जो पुत्र के समान अधिकारिणी हो
		कन्नड	1- साधक जिसे ईश्वर दर्शन, आत्मसाक्षात्कार नहीं हुआ बुद्धिहीन व्यक्ति, मूर्ख, मूर्ख

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अकृतात्मा अकृतात्मा		हिंदी, गुजराती नेपाली	जिसने आत्मसाधन न किया हो, अज्ञानी, निष्फल, अमस्कृत मत वाला
अकृताभ्यागमं अकृताभ्यागम	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत हिंदी	1- बिना कुछ किये फल प्राप्ति के मुख भोग का भ्रम 2- अकृत कर्म के फल की प्राप्ति
अकृतार्थ अकृतार्थ अकृतात्थ अकृतार्थता	विशेषण मज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत असमी, कन्नड मलयालम असमी	1- जिसका उद्देश्य पूरा न हुआ हो, अकृतकृत्य 2- अनुत्तीर्ण, अमफल, विफल, कृतघ्न 3- कि ३ हुए कार्य का जिसे उचित फल नहीं मिला 4- सचा आदि करने पर भी कृपा प्राप्ति नहीं हुई 5- अमफलता, विफलता, नाकामयाबी (सज्ञा)
अकृतास्त्र अकृतास्त्रु	विशेषण	मलयालम, हिंदी, संस्कृत तेलुगु	1- जिसने अस्त्र या हथियार चलाना न सीखा हो 2- धनुर्विद्या में अकुशल
अकृति अकृती अकृतिन् अकृतित्व	विशेषण	हिंदी, मलयालम हिंदी संस्कृत बंगला	1- काम न करने योग्य, निकम्मा 2- अपटु, अनाड़ी, जिसने कुछ भी न किया हो 3- जिसने अपना लक्ष्य न पाया हो, अभागा (मलयालम) अकृता, अक्षमता, अयोग्यता, अकृतार्थता, अगौ' .
अकृतोद्वाहं अकृतोद्वाह	विशेषण	मलयालम हिंदी, संस्कृत	अविवाहित, जिसने विवाह नहीं किया है, जिसका विवाह नहीं हुआ है, कुआरा, ब्रह्मचारी
अकृतोपासित	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	जो उपासक न हो या जिसने उपासना नहीं की
अकृत अकृत अकृत	विशेषण	हिंदी मलयालम संस्कृत	1- नहीं कटा हुआ 2- जिसकी कतरव्योत न की गई हो + 3- जिसमें रुकावट न डाली गई हो (मलयालम) 4- पुत्री होने पर भी पुत्रों के समकक्ष मानी जाय
अकृत्य अकृत्य अकृत्यं अकिरुत्तियम्/अकृत्यम्	विशेषण सज्ञा	हिंदी, गुजराती नेपाली, मराठी, कन्नड मलयालम तमिल, तेलुगु	अनुचित द. न करने योग्य काम, अपकृत्य असत्कर्म, निन्दनीय कार्य दुष्कर्म, अपराध, बुरा काम, पापकर्म कुकर्म, अकर्तव्य
अकृतकारि अकृतकारिन् अकृतकारी	विशेषण	मलयालम, तेलुगु संस्कृत हिंदी	कुकर्मी, पापी, न करने योग्य कार्य करने वाला, बुरे काम करने वाला, दुष्कर्म कर्ता, पाप कर्म लिप्त

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अकृतयागं	संज्ञा	मलयालम	नियोजित या प्रतिनिहित बलि
अकृत्रिम	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1- बनावटी नहीं, स्वाभाविक, कुदरती, प्राकृतिक,
अकृत्रिम		नेपाली, असमी	असली, सच्चा, अभिश्रित, शुद्ध, यथार्थ
अकृत्रिम		उड़िया, बंगला	2- जिसमें छल या कपट न हो, सरल, सीधा, खरा,
अकृत्रिम		मराठी, कन्नड	अकपट, दिखावटी नहीं
अकृत्रिम		मलयालम	+ 3- स्वयंसिद्ध ईश्वर (मराठी)
अकृत्रिमता	संज्ञा	गुजराती	प्राकृतिकता, स्वाभाविकता
अकृत्स्न	विशेषण	हिंदी, मलयालम	अपूर्ण, जो पूरा नहीं हुआ
अकृन्तनं	संज्ञा	मलयालम	न काटना, न बाटना
अकृपण	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1- कंजूस, दरिद्र, ओछा नहीं, दीनताविहीन
अकृपण		संस्कृत, मलयालम	2- उदार, दाता
अकृपण		नेपाली, बंगला	3- मुक्त हस्त, अर्थ व्यय में अकुंठ
अकृपा	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत, गुजराती	कृपा का अभाव, नाराजी, अवकृपा
अकृपानु	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	निर्दय, निर्मम, क्रूर, अदयालु
अकृमित	विशेषण	मलयालम	कीट युक्त नहीं, जो कीड़े जैसा न हो
अकृमिता	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	बांझ स्त्री
अकृश	विशेषण	नेपाली, हिंदी	दुबला नहीं, मोटा-ताजा, पुष्ट, सबल
अकृष		मलयालम, संस्कृत	कठोर, शक्तिशाली, बहुत ज्यादा
अकृषिक	विशेषण	हिंदी	भूमि जो खेती के काम नहीं आती
अकृषित	विशेषण	हिंदी	भूमि जो जोती-बोयी न गयी हो
अकृष्ट	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1- भूमि जिसपर खेती न की गयी हो, अनजुती, परती
अकृष्ट		बंगला, संस्कृत	भूमि; पतित भूमि (बंगला) +2- जो खींचा न गया हो
अकृष्ट		कन्नड, मलयालम	+ 3- अस्थानांतरित, अनाकृष्ट, अननुशीलित (बंगला)
अकृष्ट पच	विशेषण	हिंदी, नेपाली	अनजुती भूमि से उत्पन्न, जंगली फल, अन्न
अकृष्ट पच		मलयालम, संस्कृत	आदि
अकृष्टफसित	विशेषण	हिंदी	अनजुती भूमि पर पक्कता प्राप्त
अकृष्टरोहि	विशेषण	हिंदी, मलयालम	बिना जोते बोये उत्पन्न
अकृष्ण	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1- जो काला न हो, सफेद, धवल
अकृष्ण	संज्ञा	हिंदी	2- जो दुष्ट-कपटी न हो, शुद्ध, स्वच्छ, निमल
अकृष्णन्	संज्ञा	मलयालम	3- निष्कलंक चंद्रमा, कलंकविहीन चाँद

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अकृष्णम्	संज्ञा	मलयालम	कपूर
अकृष्णकर्मा (बु)	संज्ञा	मलयालम	1- दुष्कर्म मुक्त, निर्दोष, निष्पाप
अकृष्णकर्मा		हिंदी, कन्नड	2- पुण्यात्मा, गुणवान, निर्मल
अकृष्ण कर्मन्		संस्कृत	3- अच्छे चाल चलन वाला
अकृष्णकण्डू		तेलुगु	4- मन्त्रार्थ, सदाचारी
अकृष्य	विशेषण	मलयालम	1- जो जोतने या फसल उगाने लायक न हो
अकृष्य		संस्कृत	2- भूमि जो जोती न गयी हो
अकेकर	विशेषण	मलयालम	भंगी आख्र वाला नहीं
अकेजी	विशेषण	बंगला	1- कर्म के अयोग्य 2- अपदार्थ 3- सार हीन, अव्ययहार्य
अकेतन	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1- गृहहीन, बेघर बार का, निघरा, जिस का घर नष्ट हो चुका हो + 2- पताका विहीन (मलयालम)
अकेतन		संस्कृत	
अकेतु	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1- झड़े पर प्रतीक चिह्न नहीं या ध्वजा नहीं
अकेतु	विशेषण	हिंदी	2- आकृति विहीन 3- जिमकी पहचान न हो 4- अज्ञान अदीप्ति, अविवेक मत्ता
अकेश	विशेषण	हिंदी	1- बाल रहित, केश-शून्य, गजा
अकेश		बंगला	2- कम बालो वाला, अल्प केश युक्त
अकेशिक		मलयालम	3- बुरे बालो वाला, कुत्सित केश युक्त
अकेशर / परागकोश	संज्ञा	बंगला	केशर शून्य पराग कोश
अकैतव	विशेषण	मलयालम, हिंदी, कन्नड	मद्या, ईमानदार, निष्कपट
अकैतव	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	सच्चाई, ईमानदारी, निष्कपटता
अकैशोर	संज्ञा	मलयालम	1 शल्यावस्था नहीं, किशोरावस्था नहीं
अकैशोर		संस्कृत	2- पन्द्रह वर्ष से बड़ा, युवा या वयस्क
अकोणु	विशेषण	गुजराती	किसी को न मानने वाला
अकोणाथी/पणु	संज्ञा	गुजराती	जो कहा न जा सके
अक्रोष	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	1- कोपाभाव, क्रोध का अभाव
अक्रोष		बंगला, संस्कृत	2- क्रोध हीन, शान्त, गुस्सा न होना
अक्रोषन्		मलयालम, संस्कृत	3- राजा दशरथ का एक मंत्री

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अकोपी	विशेषण	बंगला	जिसे आसानी से गुस्मा न आवे, क्रोधहीन
अकोमल	विशेषण	मलयालम	1- जो नरम, नाजुक नहीं 2 अनाकर्षक, असुन्दर
अकोविद	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1- अनुभव, ज्ञान या बुद्धि हीन, मूर्ख
अकोविद	संज्ञा	संस्कृत	2- अबोध, अनाड़ी, अकुशल, अपर्णित
अकोश	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	धन रहित, जिसके पास खजाना नहीं
अकौट	विशेषण	मलयालम	1- स्वयं के घर में न रहना, परार्थिन 2- म्वाधीन या म्वातत्र नहीं
अकौटित्यं	संज्ञा	मलयालम	1- कृटिलता, छल, वक्रता न होना
अकौटित्य		हिंदी, बंगला, संस्कृत	2- साधुता, सरलता, मद्घाइ
अकौटुम्ब	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	परिवार म्वधी नहीं, कुटुम्ब विषयक, नहीं
अकौतुकं	संज्ञा	मलयालम	1 रुचि, इच्छा या उन्मुक्तता का अभाव
अकौतूहलं		मलयालम	2- निरानन्द, विनोदाभाव, अप्रमन्नता, दिलचस्पी नहीं
अकौशलं	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	1- किसी कार्य में कुशलता, दक्षता, चतुरता या
अकौशल		बंगला, हिंदी, नेपाली	योग्यता न होना, अनाड़ीपन, अधकचरापन
अकौशल		गुजराती, कन्नड	2- अज्ञानता, अदक्षता, अपटुता, अकुशलता,
अकौशल्य		गुजराती	अचानुर्य
अक्रतु	विशेषण	मलयालम	यज्ञ न करना, बलि न देना
अक्रतु	संज्ञा	संस्कृत	जिस को यज्ञ की आवश्यकता नहीं, ब्रह्म
अक्रन्वनं (म्)	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	न रोना, न चिल्लाना, विलाप न करना
अक्रम	विशेषण	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	1- क्रम, व्यवस्था, नियमबद्धता, औचित्य, परम्परा
अक्रम	अव्यय	नेपाली, मराठी	शुखला आदि न होना
अक्रम/अक्रमं		कन्नड, मलयालम	2- अनियमित, अव्यवस्थित, विशुद्धालित, बेतरतीबी,
अक्रमम्		कोंकणी	व्यतिक्रम, क्रमभंग, रीतिभंग, उल्लंघन
अकिरुमम्		तमिल	3- अस्त व्यस्त, गड़बड़ी
अक्रमम्		तेनुगु	+ 4- एक अलकार, एक काव्य दोष (कन्नड)
अक्रमम्	संज्ञा	मलयालम	1- अन्याय, असमानता, अपराध, अनौचित्य, हिंसा
अक्रमम्	अव्यय	मलयालम	2- व्याकरण नियमानुसार वाक्य में शब्द न होना
अकिरमप्येषु	संज्ञा	तमिल	अनुचितकथन, निन्दा, अशिष्टालाप

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अक्षिरमित्तत्	सकर्मकाक्रिया	तमिल	छलना, अपकार करना, धोखा देना
अक्रम भिन्न	सज्ञा	मलयालम	गणित में अनुचित विभाजन, भिन्न ठीक नह.
अक्रमराहित्यं	सज्ञा	मलयालम	अहिंसा, हिंसात्मक कार्य नहीं
अक्रमसंन्यासं	सज्ञा	मलयालम	1 जो मन्याम आश्रम व्यवस्थानुसार न हो
अक्रम संन्यास	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	2 बीच के आश्रमों का अतिक्रमण कर धारण किया मन्याम
अक्रमातिशयोक्ति	सज्ञा	मलयालम, हिंदी, नेपाली	एक काव्यालंकार
अविकरमि	सज्ञा	तमिल	+ 1 दूर से की सीमा पार करने वाला, हमलावर,
अक्रमि		मलयालम	अन्यायी (तमिल)
अक्रमिन्		संस्कृत	2 गुडा, बदमाश, अपराधी, दुष्ट
अक्रमिक	विशेषण	मलयालम	नियमित उत्तराधिकारी नहीं
अक्रमिक्युक	क्रिया	मलयालम	अनुचितकार्यकरना, दुर्व्यवहारकरना, हमलाकरना
अक्रयं	सज्ञा	मलयालम	1 जो खरीद न रहा हो, खरीदने योग्य नहीं
अक्रय्य	विशेषण	मलयालम	2 विक्रय के लिए प्रदर्शित करने योग्य नहीं
अक्रय्य		बंगला, मराठी	3 बिना मूल्य मिला, मात्र में मिला हुआ
अक्रव्याद	विशेषण	हिंदी	निरामिध भोजी, मास भक्षी नहीं
अक्रान्त	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 जिससे आगे कोई न बढ़ा हो, सबसे आगे
अक्रान्त		नेपाली	2 जिसे पर कोई विजय न पा सके, अविजित
अक्रान्त		मलयालम, संस्कृत	3 जिसे पार न किया जा सके, अपराजित
अक्रिय	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 निष्क्रिय, निरुद्योगी, मुस्त, काहिल, कर्मशून्य,
अक्रिय		मराठी, असमी	निकम्मा, आलसी
अक्रिय		संस्कृत, नेपाली	+ 2 क्रियाशून्य, ईश्वर (मराठी)
अक्रिय		बंगला	+ 3 कृकर्मरत, धार्मिकक्रियाओं से दूर, पापी (असमी)
अक्रिया	सज्ञा	हिंदी, नेपाली	1 क्रिया हीनता का भाव, कर्तव्य न करना
अक्रिया		बंगला, असमी	2 कार्याभाव, निष्क्रियता, अकर्मण्यता, सुस्ती
अक्रिया		मलयालम, संस्कृत	3 शास्त्र या धर्मविरुद्ध कार्य, निदित कार्य
अक्रियन्	विशेषण	मलयालम	1 जो धार्मिक आचार से दूर हो 2- परमात्मा
अक्रियबाद	सज्ञा	मलयालम	क्योंकि आत्मा करती कुछ नहीं अतः कर्म के
अक्रियावाद		हिंदी	फल से स्वतंत्र है (बौद्ध दर्शन)

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अक्रियावादि अक्रियावादिन्	सज्ञा	मलयालम संस्कृत	अकर्मवादी, यह सिद्धान्त मानने वाला कि क्रियाओं का अच्छा बुरा फल नहीं होता
अक्रियान्वित	विशेषण	बंगला	कुकर्म अनुष्ठान, निन्दित कार्य, दृष्टक्रिया करना
अक्रियारत अक्रियासक्त	विशेषण	बंगला बंगला	1- कुकर्म, दुराचारी, न करना चाहिए को करने वाला 2- जो कार्य में आसक्त या लित न हो
अक्रीत अक्रीतदासन्	विशेषण सज्ञा	मलयालम, संस्कृत मलयालम, संस्कृत	न खरीदा गया, द्रव्य देकर प्राप्त नहीं किया 1- स्वयं सेवक 2- भक्त 3- स्वेच्छासेवक, गुलाम
अकुन्द अकुन्द	विशेषण	मलयालम, संस्कृत बंगला	गुस्से में नहीं, क्रोध रहित, अक्रोधित, शान्त, अकोपित, क्रोधहीन
अक्रूर अक्रूर अक्रूर	विशेषण सज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत गुजराती, मलयालम असमी, बंगला, कन्नड	1- निर्दय नहीं, सदय, सौम्य, सगदिल नहीं, अकुटिल, सरल, दयालु, कोमलचित्त 2- कृष्णकाचाचा तथा मित्र, मलयालम में अक्रूरन्
अक्रेतव्य अक्रेय अक्रेय	विशेषण विशेषण	मलयालम, संस्कृत मलयालम, बंगला मराठी	1- जो खरीदने या मूल्य देकर लेने योग्य न हो 2- जो खरीदा न जा सके, बहुमूल्य, जो न बिक सके 3- जो खरीदने के अनुपयुक्त हो, दुर्लभ
अक्रोध अक्रोध अक्रोध अक्रोध अक्रोधं	सज्ञा	हिंदी, गुजराती मराठी, असमी बंगला, नेपाली कन्नड, संस्कृत मलयालम	1- क्रोध का अभाव, क्रोध रहित, शान्त वृत्ति 2- क्रोध हीनता, क्रोध शून्यता, महिष्णुता बात बात पर गुस्सा न आना, व्यर्थ ही न उबल पड़ना, खिजलाना नहीं 3- क्रोध मुक्ति, शान्ति, खामोशी
अक्रोधनन् अक्रोधन् अक्रोधन्तु अक्रोधी	सज्ञा	मलयालम संस्कृत, हिंदी, बंगला तेलुगु असमी, बंगला, हिंदी, गुज	जो अचानक क्रोधित नहीं होता, जित क्रोध, क्रोध मुक्त, शान्त चित्त, रोष हीन, गम्भीर, ठंडे दिल का जिसे गुस्सा न आता हो, कोमल मन
अक्लृप्त	विशेषण	मलयालम	1- अनिश्चित, अव्यवस्थित, अनिर्दिष्ट 2- तैयार नहीं, काट छांट कर सँवारा नहीं
अक्लृप्ति अक्लृप्त/अक्लम	सज्ञा सज्ञा	मलयालम मलयालम, संस्कृत, हिंदी	1- अनिश्चितता, अनिर्दिष्टता 2- सीमा हीनता श्रम या श्कावट से रहित

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अक्लान्त अक्लान्त अक्लान्त	विशेषण	हिंदी, नेपाली, मलया असमी, उड़िया बंगला, गुजराती	1- जो थका न हो, अथक, श्रान्ति शून्य + 2- जो सूखा या मुरझाया न हो (मलयालम) 3- अवसाद शून्य, अशियल, सुस्त नहीं
अक्लान्ति अक्लान्ति	संज्ञा	बंगला, मलयालम संस्कृत	अवसाद शून्यता, क्लान्ति-हीनता, थकावट न होना, सुस्ती न होना, फुर्ती होना
अक्लान्त भावे	क्रिया विशेषण	असमी, बंगला	बिना थके, क्लान्ति बोध न करके, अथक रूप से
अक्लिन्न अक्लिन्न अक्लिन्न	विशेषण	हिंदी, नेपाली बंगला, मलयालम संस्कृत	1- जो आर्द्र, भीगा, गीला न हो; सूखा; शुष्क + 2- मलिनता शून्य (बंगला) 3- कोमल हृदय नहीं, शुष्क हृदय
अक्लिष्ट अक्लिष्ट अक्लिष्ट	विशेषण	हिंदी, गुजराती नेपाली, बंगला मलयालम, संस्कृत	1- क्लेश, परेशानी, परिश्रम, क्लान्ति, क्लिष्टता रहित + 2- अश्रान्त, अम्लान, अदम्य, स्थिर, दृढ़ (बंगला) 3- सरल, आसान, सहज, सुगम, क्लिष्ट नहीं
अक्लिष्टकर्मा अक्लिष्टकर्मा	विशेषण	मलयालम संस्कृत, बंगला	1- बिना थके कर्म करने वाला, परिश्रमशील 2- उन्हाह सम्पन्न कर्मी; अनायास करने वाला
अक्लिष्टपर्णे अक्लिष्टव्रत	क्रिया विशेषण संज्ञा	मराठी मलयालम, संस्कृत	सहजा सहजी, अनयास ही, बिना त्रास के 1- जो सयम पालन में न थके, दृढ़ संकल्प वाला 2- जो धार्मिक आचारों का पालन करते न थकता हो
अक्लीष अक्लीष	संज्ञा विशेषण	मलयालम, कन्नड मराठी	नपुंसक नहीं, पौरुषपूर्ण पुरुष न किया ; न रचा, न उभारा हुआ
अक्लेदं अक्लेद	संज्ञा	मलयालम हिंदी, संस्कृत	1- पसीना या आर्द्रता का अभाव 2- सूखापन, शुष्कता, रूक्षता
अक्लेष अक्लेष अक्लेष	विशेषण	हिंदी, बंगला मलयालम, गुजराती संस्कृत	1- जो गीला किया या भिगोया न जा सके 2- जो गलने या मैला होने वाला न हो, जो आर्द्र न हो + 3- अपच (बंगला)
अक्लेश अक्लेश अक्लेश अक्लेशं/अक्लेशम् अक्लेशम्	संज्ञा विशेषण	हिंदी, उड़िया बंगला, मराठी नेपाली, कन्नड मलयालम, संस्कृत तेलुगु	1- क्लेशभाव, दुख शून्यता, बिना परेशानी, अनायास 2- ताप, त्रास, पीड़ा, विघ्न, कष्ट आदि से रहित 3- पीड़ा न होना, चिन्ता न होना, द्वेष न होना, राग न होना 4- परेशानियों से मुक्ति, निरुपद्रव

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अक्लेशे अक्लेशे	क्रिया विशेषण	असमी, कन्नड बंगला	अनायाम, सहजा सहजी, बिना रुकावट, आसानी से, श्रम न हो ऐसा, बिना कष्ट
अक्षणित	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	ध्वनिहीन, वीणा, धुधुरू आदि की ध्वनि से रहित
अक्षंतव्य अक्षंतव्य	सज्ञा	मलयालम, हिंदी गुजराती, नेपाली	1- अक्षम्य, माफ़ करने योग्य नहीं + 2- असह्य (नेपाली)
अक्षण	सज्ञा	हिंदी, बंगला	1- अशुभक्षण, कुक्षण, अच्छा गुहर्त नहीं
अक्षण	विशेषण	गुजराती	+ 2- कुममय, अममय, अमार्माधिक (गुजराती)
अक्षणम्	क्रिया विशेषण	तमिल	+ 3- तत्काल (तमिल)
अक्षणिक अक्षणिक अक्षणिक	विशेषण	गुजराती, मलयालम संस्कृत, कन्नड नेपाली, हिंदी	1- जो क्षणिक नहीं, स्थायी, नित्य सपूर्ण, दृढ़ 2- अपरिवर्तनशील, कायमी, अविभक्त 3- तात्कालिक नहीं, अधक समय तक, स्थिर
अक्षत अक्षत अक्षत	विशेषण सज्ञा	हिंदी, गुजराती नेपाली, मराठी असमी, उड़िया, बंगला	1- जो कूटा, कुचला, तोड़ा, टूटा न हो, पूर्ण, सम्पूर्ण, अर्घडिन, आवृत, अविभक्त, सुरक्षित 2- जिसे चोट या धाव न लगा हो, अनाहन
अक्षते	सज्ञा	कन्नड	3- पूजा, निमंत्रण, नैवेद्य आदि के प्रयोग के अर्घडिन चावल
अक्षतम्		तमिल	4- हल्दी या केशर रंग सावुन चावल पूजाद्रव्य
अक्षतं		मलयालम	5- जौ, लावा, गेहूँ आदि के धान्य
अक्षतम्		तेलुगु	6- पुरुष सम्पर्क से दूर (स्त्री), कुचामी कन्या
अक्षतै अद्रसतै		तमिल	+ 7- निर्दोष, वेदांग, अविरोधी (बंगला)
अक्षतलु	सज्ञा	तेलुगु	+ 8- जिसके घाव नहीं (तेलुगु) अपराजेय (मलयालम)
अक्षत देह	सज्ञा	बंगला	अनाहन, क्षत शून्य, सपूर्ण स्वस्थ शरीर
अक्षतदेहे	क्रिया विशेषण	बंगला	1- अनाहन शरीर से 2- किसी भी अवस्था में लाभ न महकर
अक्षतन्	सज्ञा	मलयालम	1- नपुंसक 2- शिव
अक्षत अक्षतं	सज्ञा	संस्कृत मलयालम	1- अनाज जिसमें से भूसा न निकाला गया हो 2- जौ, भुट्टा 3- हिजड़ा, नपुंसक

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अक्षतयोनि अक्षतयोनि अक्षतयोनि	संज्ञा	हिंदी, गुजराती मराठी, नेपाली, बंगला तमिल	1- जिसका कौमार्य खडित न हुआ हो, कुमारी कन्या 2- जिसे रजो दर्शन न हुआ हो, घाव या क्षत न होना 3- जिस स्त्री का पुरुष संसर्ग न हुआ हो
अक्षता	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	4- किशोरावस्था से पूर्व की कन्या
अक्षता	संज्ञा	नेपाली, बंगला, असमी	5- काकड़ासिंगी बूटी (संज्ञा)
अक्षतवीर्य	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1- ब्रह्मचारी 2 अच्युत वीर्य, शिव 3- नपुंसक
अक्षत्र	विशेषण	बंगला	1- जो क्षत्रिय जाति का न हो
अक्षत्रिय		मलयालम, संस्कृत	2- जिसमें क्षत्रिय के गुण न हो
अक्षन्तव्य अक्षंतव्य	विशेषण	मलयालम, संस्कृत हिंदी, गुजराती, नेपाली	अक्षम्य, असह्य, क्षमा न करने योग्य, भारी अपराध या पाप करने वाला
अक्षम	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1- जिसमें क्षमता, शक्ति या सामर्थ्य न हो, असहिष्णु
अक्षम		नेपाली, असमी, उड़िया	2- जिसमें कार्य करने की योग्यता, कुशलता न हो
अक्षम		बंगला, मराठी, संस्कृत	3- उपस्थित कार्य करना जिसके बस का न हो
अक्षम		मलयालम	4- जिसमें कुछ भी करने की योग्यता न हो
अक्षममु		तेलुगु	5- असमर्थ - अकुशल, अदक्ष, अशक्त, उतावला
अक्षमन् अ-क्षमि	संज्ञा	मलयालम मलयालम	1- जो किमी व दण्ड को क्षमा न करे, असहिष्णु 2- जो किमी का उन्कर्ष न सहे, ईर्ष्यालु, मत्सरी, अधीर
अक्षमता	संज्ञा	हिंदी, बंगला, तेलुगु	1- असमर्थता, अशक्तता, निर्बलता
अक्षमम्		तमिल	2- अधीरता, आवेश, ईर्ष्या, असहनशीलता, क्रोध
अक्षमि	विशेषण	मलयालम	3- अधीर, बेगब, अमहनशील, अपटु
अक्षमा अक्षमा	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत, नेपाली मराठी, गुजराती, बंगला	1- धीरज या सहनशीलता का अभाव, आवेश 2- क्रोध, दुःखा, भाग्य, मन्सर, प्रभय
अक्षम्य अक्षम्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती नेपाली	1- जिसे माफ़ न किया जा सके या न करना हो 2- असह्य या क्षमा न करने योग्य अपराधी
अक्षय अक्षय अक्षय अक्षय अक्षयं	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली मराठी, असमी उड़िया, बंगला कन्नड, संस्कृत मलयालम	1 क्षयविहीन, जो क्षीण, नाश, समाप्त न हो 2- चिरस्थायी, अविनाशी, शाश्वत, अनश्वर, कल्पान्तस्थायी, अखूट, अचूक, अव्यय + 3- शुक्लपक्ष के चौथे दिन यदि बुध एव 7वें दिन रवि या सोम हो (मलयालम) गरीब, निर्धन (हिंदी)

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अट्सयम्, अच्चयम् अक्षयम् अधिञ्ज		तमिल तेलुगु पंजाबी	+ 4- वृहस्पति चक्र के 60 वर्षों में से 20वां या 60वां वर्ष (मलयालम, कन्नड) + 5- जो छीजे नहीं, नाश न हो, टूटे नहीं (पंजाबी)
अच्चयन् अक्षयन्	मज्ञा मज्ञा	तमिल मलयालम	1- गृहहीन, संन्यासी, दरिद्री, गरीब, निर्धन 2- शिव, अविनाशी, ब्रह्म, परमात्मा
अक्षय कीर्ति	मज्ञा	बंगला	चिरस्थायी यश, अविनश्वर कीर्ति, चिरस्मरणीय
अक्षय तूणीरं अक्षयतूणीर अक्षय भाता अक्षयतृण अट्सय तूणि	मज्ञा	मलयालम हिंदी मराठी बंगला तमिल	जिम बाणाधार या नग्गम के तीर समाप्त न हों, तूणीर वह उपकरण होता था जिसमें बाण रखे जाते थे और वह बाणधारी के कंधे के पीछे लटका रहता था बंगला, तमिल में उसका नाम तूण/ तूणि है
अक्षयतृतीया अक्षयतृतीया अक्षयतृतीय अक्षयतृतीया अट्सयतिरुत्तिये	मज्ञा	हिंदी, गुजराती मराठी, नेपाली कन्नड, मलयालम संस्कृत, असमी तमिल	1- वैशाख शुक्ल तृतीया, सब शुभ कार्यों की फल दायिनी तिथि 2- सतयुग का आरम्भ दिवस अक्षय तृतीया मानते हैं 3 अखा तीज, एक पर्व दिवस
अक्षयदीपं	मज्ञा	मलयालम, संस्कृत	निरंतर जलने वाला दीपक (बुद्धमदिरो में)
अक्षयधाम अक्षय धामं	मज्ञा	हिंदी, गुजराती मलयालम, संस्कृत	बैकुण्ठ, मोक्षलोक, शिवलोक अथवा त्रिष्णुलोक
अक्षय नवमी अक्षय नवमी अक्षय नवमी	मज्ञा	हिंदी, गुजराती संस्कृत, नेपाली मराठी, मलयालम	1- कार्तिक शुक्ल नवमी + 2- युगादि नवमी (नेपाली) + 3- अश्विन शुक्ल नवमी (मलयालम)
अक्षय पात्र अक्षय पात्रे अक्षय पात्रं अट्सय पात्तिरम् अक्षय पात्रमु	मज्ञा	गुजराती कन्नड मलयालम तमिल तेलुगु	1- वह बर्तन जिममें वस्तु निकाले जाने पर भी समाप्त न हो 2- सूर्य द्वारा पीडित वनवास में द्रौपदी को दिया पात्र 3- कभी खाली न होने वाला पात्र 4- भिक्षापात्र
अक्षय पद	मज्ञा	गुजराती, हिंदी, संस्कृत	मोक्ष, परमपद, जन्म मरण रहित अवस्था

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अक्षयपुरुहितम् अक्षय पुरुहित	संज्ञा	मलयालम संस्कृत, हिंदी	शिव, परब्रह्म, परमात्मा महादेव, महेश
अक्षयलोक अक्षयलोकं	संज्ञा	हिंदी, बंगला मलयालम, संस्कृत	स्वर्ग, बैकुण्ठधाम, बहिश्त मोक्षधाम, विष्णुलोक
अक्षयवट अक्षयवट अक्षयवृक्ष अक्षयवृक्ष	संज्ञा	हिंदी, गुजराती नेपाली, असमी मराठी, मलयालम संस्कृत, हिंदी	1- प्रयाग का वह वृक्ष जो प्रलय काल में ऐसा ही रहेगा यह माना जाता है 2- गया का बड़वृक्ष, जिसका नाश नहीं होता एवं जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था
अक्षय बाण अक्षयबाणी अक्षयषष्ठी	संज्ञा संज्ञा संज्ञा	मराठी गुजराती मलयालम, संस्कृत	नारियल, चावल, सुपारी आदि ब्राह्मण को देना सरस्वती. अटूट या अक्षय वाणी भाद्रपद के छठे दिन पालन किया जाने वाला धार्मिक संयम
अक्षयललिता अक्षय मुख	संज्ञा संज्ञा	मलयालम, संस्कृत मराठी	भाद्रपद कृष्णासप्तमी को स्त्रियों का संयम धर्म अविनाशी मुख
अक्षय स्वर्ग	संज्ञा	बंगला	अनंतकाल का स्वर्ग, चिरस्थायी देवलोक
अक्षया अक्षया	संज्ञा संज्ञा	हिंदी, संस्कृत मलयालम	रविवार, सप्तमी, सोम की अमावस्या आदि पुण्य तिथियाँ, वैशाख शुक्ल तृतीया, बुध की चतुर्थी
अक्षयिणि अक्षयिणी	संज्ञा	मलयालम हिंदी	1- जिसका नाश न हो, कभी क्षय न हो ऐसी 2- पार्वती
अक्षयी अक्षयी अक्षय्य अक्षय्य अक्षय्य	विशेषण विशेषण विशेषण संज्ञा	हिंदी, मराठी गुजराती हिंदी, नेपाली मराठी, मलयालम संस्कृत	1- जिसका नाश न हो, सदैव, सतत, अविनाशी, हमेशा एक सा रहने वाला, कभी न चूकने वाला + 2- अनन्त, असंख्य (मराठी) 3- श्राद्ध के अंत में दिया जाने वाला घृत-मधु-जल
अक्षयोदक अक्षयोदकम् अक्षयोदकं	संज्ञा	नेपाली संस्कृत मलयालम	श्राद्ध के अवसर पर अक्षय्य तृप्ति के लिए चढ़ाया जाने वाला शहद मिश्रित जल
अक्षर अक्षर अक्षर	विशेषण संज्ञा संज्ञा	हिंदी, गुजराती नेपाली, असमी, कन्नड उड़िया, बंगला	1- नित्य क्षरण या नाश न होने वाला, मुक्ति, आनन्द, क्षरणशून्य, अविनाशी, नित्य, प्रचण्ड 2- परब्रह्म. शिव, विष्णु, जीवात्मा, परमात्मा

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अक्षर		मलयालम	3- आकाश, जल, धर्म, ध्वनि, तपस्या, विधि का लेख
अक्षरमु		तेलुगु	4- वर्णमाला के वर्ण, लेख, वेद, विद्वत्ता ज्ञान, विद्या,
अक्षर		पंजाबी	दस्तावेज़, मुक्ति
अक्षरम्/अच्चरम्		तमिल	+ 5- मधुमक्खी, सफेदी, विषम्, असगत (कन्नड)
अक्षरु		सिंधी	+ 6- बच्चों के सामान्य रोग, ज़बान फटना आदि
अक्षरम्/अट्सरम्		तमिल	+ 7- सगीत के एक मधुर राग का गुण विशेष (तमिल)
अट्सरकालम्	संज्ञा	तमिल	सगीत में छोटी - रगिन् में नापा गया सगीत
अक्षरकालं		मलयालम, संस्कृत	काल
अक्षर क्षेत्र	संज्ञा	गुजराती	साहित्य क्षेत्र
अक्षरक्रम	संज्ञा	नेपाली	वर्णमाला क्रम
अक्षर गांधत	संज्ञा	हिंदी, गुजराती	बीजगणित
अट्सरगणितम्	संज्ञा	तमिल	बीजगणित
अक्षर-चंचु	संज्ञा	मराठी, मलयालम, हिंदी	1 लिपिकार, लेखक 2- न्यून कर्म निरवधि वाला
अक्षर-चरण		मराठी	3- जिसका कार्य अक्षर लिखने का हो या जिस की
अक्षर चरणु	संज्ञा	तेलुगु	जीविका का आधार लेखन कर्म हो
अक्षरच्युतकं	संज्ञा	मलयालम	1- एक एक अक्षर लोप करके भिन्न भिन्न अर्थ
अक्षरच्युतकम्		तमिल	निकालना (काव्य पद)
अक्षरच्युत	संज्ञा	कन्नड	2- वर्तनी की अशुद्धि
अक्षरच्युति	संज्ञा	मलयालम	3- गण लिप्याम की त्रुटि (Spelling mistake)
अक्षर जननी	संज्ञा	मराठी, कन्नड	लेखनी, कलम, तूलिका, नरकुल की कलम
अक्षरजीवि	विशेषण	कन्नड	1- लेखक धर्म या लिखने से जीविका चलाने
अक्षरजीवी		नेपाली, मराठी	वाला, लिपिक, कारकून, लेखक
अक्षरजीवक		कन्नड	2- विद्वत्ता से जीविका चलाना, पेशे से लेखक
अट्सरजीविकन्		तमिल	+ 3- लेखनदाम (नेपाली)
अक्षरज्ञ	विशेषण	कन्नड	पढ़ा लिखा, शिक्षित, अक्षर ज्ञात
अक्षर तूलिका	संज्ञा	कन्नड, मराठी, हिंदी	कलम, कूची, लेखनी
अक्षरदीपम्	संज्ञा	तमिल	मनीती या सकल्प के कारण मंदिर में
अट्सर दीपम्		तमिल	इक्यावन दीपको का चढ़ावा
अट्सरदेवि	संज्ञा	तमिल	सरस्वती, विद्या की देवी

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अक्षर देह	संज्ञा	गुजराती	यश शरीर, कीर्ति शरीर, माहिन्यिक कृति
अदृसर दोषम्	संज्ञा	तमिल	स्पैलिंग मिस्टेक, वर्तनी की अशुद्धि
अक्षर धाम	संज्ञा	गुजराती, संस्कृत, हिंदी	ब्रह्मलोक, बैकुण्ठधाम, मोक्षपद
अक्षर दारणै	संज्ञा	तमिल	नौ धारणाओं में से एक
अक्षरन्यास	संज्ञा	नेपाली, मराठी	1- पूजापाठ में मंत्र उच्चारण कर अंगस्पर्श करना
अक्षरन्यास	संज्ञा	हिंदी	2- लिखावट, लेख 3- वर्णमाला 4- कम्पोजिंग
अक्षर-माल/माला	संज्ञा	गुजराती, हिंदी	1- वर्णमाला 2- मूल अक्षर,
अक्षर माले		कन्नड	अक्षरों का समूह
अक्षर पद	संज्ञा	गुजराती	मुक्त दशा, अक्षय पद
अक्षर पद्धति	संज्ञा	गुजराती	वर्णमाला की योजना
अक्षरन्	संज्ञा	मलयालम	परमात्मा, अविनाशी, क्षय रहित
अक्षरन्		तमिल	शिव, विष्णु
अक्षर बंध	संज्ञा	गुजराती	1 अदृष्ट संबंध, गाढ़ी मैत्री 2-हम्नाक्षर 3- अक्षर
अक्षर-बंध	संज्ञा	हिंदी	रचना, एक वर्ण वृत्त
अक्षरमुखन्	संज्ञा	मलयालम	+ 1- वर्णमाला का पहला अक्षर-अ (मलयालम)
अक्षर मुख	संज्ञा	कन्नड, हिंदी	2- विद्यार्थी, छात्र 2- विद्वान, शिष्य
अदृसर मुखम्		तमिल	3- अक्षर सीखने वाला (विशेषण)
अक्षर मुद्रा	संज्ञा	मलयालम	टाइप क अक्षर
अक्षररूप /अक्षरात्मक	संज्ञा	कन्नड	वर्ण का लिखित स्वरूप
अक्षर रेखा	संज्ञा	नेपाली	पृथ्वीके मानचित्र मे अक्ष-रेखाके समानान्तर खींची
अक्ष-रेखा	संज्ञा	नेपाली	रेखा, अक्षांशरेखा, गोल वस्तुकी मध्यवर्तीरेखा
अक्षर लेखिनि	विशेषण	मलयालम	टाइप राइटर
अक्षरवर्जित	विशेषण	मराठी, हिंदी	अशिक्षित, निरक्षर, अपढ़
अक्षरवर्तनम्	संज्ञा	तमिल	अक्षर वर्धन, छंद के वर्णों में एक-एक अक्षर जोड़ कर भिन्न अर्थ निकाले जाने का खेल
अक्षर विद्या	संज्ञा	मलयालम	1- शिक्षा 2- लेखन कला
अक्षर विन्यास	संज्ञा	गुजराती, नेपाली	वर्णविन्यास, शुद्ध लेखन, + हिजे (गुजराती)
अक्षर विन्यास		मलयालम, कन्नड, हिंदी	जोड़णी (स्पैलिंग), लिपि
अक्षर वित्कणम्	संज्ञा	तमिल	वर्ण विन्यास कला (व्याकरण)

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अक्षर विहीन अक्षर वर्जित	विशेषण	मलयालम मराठी, हिंदी	अशिक्षित अनपढ़ अक्षरज्ञान शून्य निरक्षर भद्राचार्य मूख
अक्षर कृत अक्षरकृत	सज्ञा	गुजराती हिंदी	वह पद जिसमें अक्षरों का सन्ध्या का नियम चलता हो वर्णवृत्त
अक्षरवर्ति अक्षरवृत्ति	सज्ञा	तमिल कन्नड	अक्षरवृद्धि, एक छंद शब्द में अक्षर सन्ध्या
अक्षर शत्रु अक्षर शत्रु	विशेषण	गुजराती, नेपाली, हिंदी मराठी	निरक्षर, अनपढ़, मूख, अशिक्षित वे पढ़ा लिखा, अक्षरज्ञानरहित
अक्षर शिक्षा	सज्ञा	मलयालम	1 वर्ण माला सीखना 2 शिक्षा
अक्षर शुद्धि अक्षर शुद्धि	सज्ञा	तमिल मलयालम	शुद्ध लेखन (करीब वर्णन), शुद्ध उच्चारण
अक्षरशू शून्य अक्षर शून्य	सज्ञा	मलयालम संस्कृत, मराठी	अनपढ़ निरक्षर, अशिक्षित जिसके लिए काला अक्षर भोग बराबर है
अक्षरशः अक्षरशः अक्षरशः	अव्यय	हिंदी, गुजराती मराठी, नेपाली कन्नड, तेलुगु	1. शब्दके अनुसाराएक एक अक्षर बोलना लिखना 2. नमोप्रत्येक अक्षरका अक्षरकाल एक एक 3. पूर्णतया मानना माना
अक्षरश्लोकं अक्षर संख्या	सज्ञा	मलयालम कन्नड	कार्यादिनाम अक्षरविचार में आरम्भ वर्णित पाठ 1 वर्ण वृत्त में व्यंजन सन्ध्या 2. पवित्र ग्रंथ भाग्य ग्रंथ
अक्षर संख्या अक्षर संघात	सज्ञा	मलयालम मलयालम	अक्षरों का सन्ध्या नियत करने का विद्या नाटक में कुछ ही अक्षरों में मीनदय लाना
अक्षर संयुक्तं / नू	सज्ञा	मलयालम	पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति, मुद्रांकित, पत्रिका
अक्षरसंस्थानं अक्षरसंस्थान	सज्ञा	मलयालम कन्नड, नेपाली	1- लेखन वर्णक्रम, उच्चारण 2 द्विजे, वर्णविन्यास, अक्षरक्रम
अक्षर संकेत अक्षरसमान्नाय	सज्ञा	कन्नड नेपाली, हिंदी	गहम्य लिपि, गुप्त लेखन अकार आदि वर्ण समूह, वर्णमाला
अक्षर संज्ञे अक्षरस्य	विशेषण	कन्नड	अक्षरों के नाम जैसे अकार, मकार, आदि
अक्षरस्य अक्षरस्य	विशेषण	कन्नड	पढ़ा लिखा, विद्वान, पंडित, कोविद
अक्षरस्य अक्षरस्य	सज्ञा	तमिल	रक्षा मंत्र या ताबीज पर लिखे रहस्य पूर्ण मंत्राक्षर

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अक्षरा	मज्ञा	बंगला हिंदी	1 क्रिया हीनता 2- नाश शून्या 3 गन्ध भाग
अक्षराइम्बर	मज्ञा	मलयालम	शब्दाडवर, अनावश्यक शब्द प्रयोग, वाग्जाल
अक्षरातीत	विशेषण	गुजराती	1 अवर्णनीय, शब्दा मे वर्णन मे पर
अक्षरातीत	मज्ञा	गुजराती	2 परमात्म तत्व, ब्रह्म, परब्रह्म, जगन्नि्यता
अक्षरात्मक	मज्ञा	कन्नड	अक्षररूप जो अक्षरा द्वारा प्रकट किया जाय
अक्षरात्मिका	मज्ञा	मलयालम	सम्बन्धी वाग्दवी, वागी, विद्यादेवी
अक्षरान्तर	मज्ञा	गुजराती	अक्षर; फी पर बदल अक्षर आग पीछे करना
अक्षराभ्यास	विशेषण	कन्नड	1 वर्णमाला लिखने का अभ्यास करना
अट्टसराप्यियासम्	मज्ञा	तमिल	+ 2 उस समय की जाने वाली विधि, रीति या शिष्टाचार पूजन आदि (तमिल)
अक्षराभ्यास		मलयालम	
अक्षरारंभ	मज्ञा	मलयालम, नेपाली	1 वर्णमाला सीखना 2 शिक्षारंभ, अक्षर सिखाना
अट्टसरासति	मज्ञा	तमिल	1 अक्षर एक टुकड़ावन दीपकी को गोलाकार
अक्षरारति		संस्कृत	2 वाली में अक्षर के लिए रखना जो मग्या मस्कृत अक्षरों की प्रत्येक अक्षरवृक्ष में आगती
अक्षरार्थ	मज्ञा	मलयालम	1 शब्दार्थ अभिधाय, व्युत्पत्ति अर्थ
अक्षरार्थ		गुजराती, कन्नड, हिंदी	2 मनुष्य के अर्थात् लक्षणार्थ व्यजनार्थ नहीं
अक्करालत्ति	मज्ञा	तमिल	धान्य के पात्र में गोलाई में सब आर दीपक जलाकर मृग्यदवना का कृपा के लिए आगती उतारना
अक्षरि	मज्ञा	मलयालम	वर्षा ऋतु इन्दी लगानार जोर की वर्षा
अक्षरिके/अक्षरिका	मज्ञा	कन्नड	स्वर व्यजन मात्रा आदि
अक्षरोपगुण	मज्ञा	गुजराती	1 वर्णोपगुण अक्षर सबंधी (लिटरलकोएफिशिएट)
			2 अक्षर नक्षत्र, नामके संक्षेप अक्षर (एड्डीविएशन)
अक्षरी	मज्ञा	हिंदी, मराठी, संस्कृत	1 घतनी (स्पैनिंग) 2 अक्षरों से सबधित
अक्खरी		पंजाबी	3 अक्षरों में लिखना +4- वर्षा ऋतु (हिंदी)
अक्षान्त	मज्ञा	मलयालम, संस्कृत	1 धर्यहीन आत्मनियंत्रण न होना
अक्षान्तमु		तेलुगु	+ 2 विना ज्ञान (तेलुगु)
अक्षान्ति	मज्ञा	बंगला, मलया, हिंदी	1 सहनशीलता, धैर्य, शान्ति आदि न होना
अक्षान्ति		कन्नड, गुजराती, तेलुगु	2 मत्सर, द्वेष, ईर्ष्या, डाह, क्रोध, हसद
अक्षाम	विशेषण	संस्कृत, मलयालम	वृत्तान्त में, अधिक मात्रा में

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अक्षार	विशेषण	हिंदी, नेपाली, बंगला	1- क्षार रहित, बनावटी नमकीनपन न होना
अक्षार		कन्नड, संस्कृत	2- जो क्षार पदार्थों में न गिना जाय, शर्करा, गन्ना
अक्षारम्	संज्ञा	तमिल	+ 3- अकृत्रिम, स्वाभाविक, नमक का क्षार वर्जित रूप, समुद्री नमक (मलयालम, नेपाली)
अक्षारं		मलयालम	
अक्षार-लवण	संज्ञा	मलयालम	1- भोजन जिसमें खारा नमक न हो
अक्षार लवण		हिंदी, नेपाली, मराठी	2- अलूणा, धार्मिक व्रत में नमक निषेध 3- बिना नमक का हविष्यान्न
अक्षित	विशेषण	हिंदी	1- जिसका नाश न हो, जो छीजे या क्षय न हो
अक्षित	विशेषण	संस्कृत	2- जिसे चोट न लगी + 3- दस लाख (हिंदी)
अक्षितं	विशेषण	मलयालम	4- जल + 5- करोड़ की संख्या (मलयालम)
अक्षिति	विशेषण	हिंदी, मलयालम	जिसका क्षय नहीं हुआ
अक्षिति	संज्ञा	संस्कृत	अनश्चरता, विनाश हीनता
अक्षीण	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1- जो क्षीण या दुबला पतला न हो, अकृश
अक्षीण		नेपाली, बंगला	2- हट्ट पुष्ट, मोटा ताजा, सबल, पूर्ण
अक्षीण		कन्नड	3- जो किसी तरह घटा न हो
अक्षीणं		मलयालम	4- जो थका न हो 5- जो मद न हुआ हो
अक्षीणम्		तेलुगु	+ 6- स्थायी, चिरस्थायी (तेलुगु)
अक्षीव	विशेषण	हिंदी, कन्नड, मलया	1- जो मदमस्त या मत्त न हो, अमत्त; गभीर
अक्षिवम्	संज्ञा	तेलुगु	2- समुद्री नमक 3- सहजने का पेड़
अक्षुण्ण	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1- अभय, अग्न्याँडित, अन्यून, अछिन्न, अविकृत, अदुखित, अटूट, अस्पृष्ट, अभुक्त, सफल मनोरथ
अक्षुण्ण		नेपाली, उड़िया, बंगला	
अक्षुण्ण		कन्नड, मलयालम	2- पूर्ण, फनेहमद, असाधारण, समृचा
अक्षुण्ण		संस्कृत	3- अपराजित, अव्याहत, अविजित
अक्षुन्न		असमी	+ 4- अकुशल, अनाड़ी (हिंदी)
अक्षुण्णम्		तेलुगु	+ 5- स्वस्थ, अमोघ, अव्यर्थ (असमी)
अक्षुण्णता	संज्ञा	मलयालम	टूटा न होने की अवस्था, अटूटावाँचा
अक्षुद्र	विशेषण	हिंदी, कन्नड	1- छोटा/तुच्छ/हेय/ निम्नकोटि का नहीं
अक्षुद्र		मलयालम, संस्कृत	2- बहुत ऊँचा, श्रेष्ठ, उत्तम, महान
अक्षुद्रम्		तेलुगु	3- जो आँख; नहीं, नगण्य नहीं, निकृष्ट नहीं
अक्षुद्रन्	संज्ञा	मलयालम	शिव का नाम (संज्ञा)

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अक्षुत्त	विशेषण	मलयालम	1- भूख का अभाव
अक्षुष	विशेषण	संस्कृत	2- खाने में अरुचि
अक्षुषा	विशेषण	बंगला	3- अग्नि मांघ
अक्षुष्य	विशेषण	हिंदी	1- जिस वस्तु से भूख न लगे 2- भूख नष्ट करने वाला
अक्षुब्ध	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1- क्षोभ रहित, उत्तेजनारहित, व्याकुलता रहित,
अक्षुब्ध		नेपाली, मलयालम	धैर्यरहित न होना, उन्माहपूर्ण, स्वस्थचित्त
अक्षुभित		बंगला, कन्नड	2- शान्त, स्थिर, स्वस्थ, धीर, अनुत्तेजित, अचल,
अक्षोभि		मलयालम	जो उद्वेग में न आया हो
अक्षोभित		बंगला, असमी	3- अनालोड़ित, तरंगहीन, चाचल्यहीन, नदी में बाढ़ नहीं, समुद्र में तूफान नहीं
अक्षेत्र	सज्ञा	कन्नड	1- जो भूमि खेती योग्य नहीं, ऊसर, बंजर, परतीजमीन
अक्षेत्र		हिंदी	2- ज्यामिति की अशुद्ध आकृति
अक्षेत्र		मराठी	3- अयोग्यपात्र, मदबुद्धिपात्र, कुशाप्य
अक्षेत्र	विशेषण	मलयालम	4- सतानसाधनहीन, पत्नीरहित
अक्षेत्र	सज्ञा	मलयालम	5- प्रकृतिशरीरादिके स्वरूपज्ञानहीन
अक्षेत्रम्	विशेषण	संस्कृत	+ 6- अज्ञान, अज्ञान, अज्ञानमे आध्यात्मिकज्ञाननही
अक्षेत्रज्ञ	विशेषण	संस्कृत, हिंदी	जिमे आत्मज्ञान नहीं, शरीर की प्रकृति का ज्ञान नहीं,
अक्षेत्रज्ञन्	सज्ञा	मलयालम	अध्यात्म ज्ञान से शून्य
अक्षेत्रि/अक्षेत्रिन्	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	कृषि भूमि हीन, जिस के पास खेत न हो,
अक्षेत्री	विशेषण	हिंदी	जिसके खेत न हों, जो क्षेत्र विषय आदि का ज्ञान न हो
अक्षेम	सज्ञा	हिंदी, बंगला	1- क्षेम अर्थात् मुख समृद्धि का अभाव 2- दुखद दशा
अक्षेमम्		तेलुगु	3- अमगल, अकल्याणभागी +4- कुशलता न होना (तेलुगु)
अक्षोभ	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, असमी	1- उत्तेजना, घबराहट, उद्विग्नता, क्षुब्धता का अभाव
अक्षोभ	विशेषण	नेपाली, मराठी, उड़िया	2- हाथी के बाँधने का खूटा वारसा
अक्षोभ		बंगला, कन्नड, संस्कृत	3- अनुद्विग्न, अनुत्तेजित, अविचलित, स्वस्थचित्त,
अछोह		पंजाबी	तरंगहीन, दुःख हीनता, खलबल रहित
अक्षोभं	सज्ञा	मलयालम	4- शांत, स्थिर, अनुशोचन शून्य, अनालोड़ित, अथाह
अक्षोभम्	विशेषण	तेलुगु	

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अक्षोभे	क्रिया विशेषण	असमी	निःशक रूप से, वैफ्रिकी से, शान्ति से
अक्षोभ्य	विशेषण	हिंदी, बंगला, मराठी	1- जिसमे क्षोभ न पैदा होता हो या न किया जा सके, जिसे डिगाया न जा सके, अक्षुब्ध
अक्षोभ्य		नेपाली, गुजराती, कन्नड	2- अविचलित, धीर शान्त, अचलमन, दृढ़, स्थिर
अक्षोभ्य		मलयालम	3- अपराभवनीय, अगालोड़नीय अनिचलनीय, अनुद्वेगित, सज्ञा पद्य बुद्धो मे से एक
अक्षोभनीय		बंगला	
अक्षोभित	अक्षोभी	बंगला	
अक्षोभ्यन्	मत्त	मलयालम	बुद्ध का एक नाम
अखंड	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 सम्पूर्ण, समय सम्पन्न, पूरा सारा तमाम
अखण्ड		असमी, उड़िया	2 लगातार निरन्तर, लगातार जलने वाला दीपक
अखण्ड		बंगला, नेपाली	गोनदीपक
अखंड		मराठी, कन्नड	3 अभय अटूट, अविच्छिन्न, अविभक्त, पूर्ण
अखंडु		सिंधी	अधिकल, अक्षुण्ण अशशून्य, अक्षत म्यायी
अगण्डम्		तमिल	4 निर्विघ्न, निन्नाथ, निर्दोष, बरगोटोक
अखण्ड (म्)		मलयालम, संस्कृत	5- जिसमे जोड़ न हो, जो न फटे + 6 छद्म न हो (असमी)
अखण्डम्		तेलुगु	+ 7 ठर, ज्यादा अव्यन्त (नेपाली)
अखण्डज		उड़िया	असुविधा
अखंडता/अखंडपणु	मत्त	गुजराती	सम्पूर्णता, समग्रता, अविभक्तता, पूर्णता
अखंडणे	मध्यमक क्रिया	मराठी	खुद या खुद न करना, न तोड़ना न काटना
अखंड चोली	मत्त	मराठी	लग्न के समय की चोली
अखंड दंडायमान	मत्त	मराठी	दण्डवत प्रणाम साष्टांग प्रणाम
अखण्डदीपं	मत्त	मलयालम, संस्कृत	निरन्तर जलने वाला दीपक (प्रायः मंदिरा मे)
अगण्डदीवम्		तमिल	अनन्त दीया
अखण्डद्वादशी	मत्त	हिंदी, मराठी, बंगला	1- मार्गशीर्ष, भ्रगहन शुक्ल द्वादशी (पूर्व)
अखण्ड द्वादशी		संस्कृत	2 अखण्डफलप्रदा द्वादशी
अखण्डधारा	मत्त	मलयालम, संस्कृत	अविच्छल धारा, अखण्ड स्रावी
अखण्डन	मत्त	हिंदी, कन्नड	1 खुद न का अभाव, खुद न होना
अखण्डन		बंगला, संस्कृत	2 खुद न या विरोध न करना, स्वीकार
अखण्डन		मलयालम	3 परमान्ता 4- काल, समय, ब्रह्म
अगण्डन्		तमिल	5- सम्पूर्ण जिसे कोई काट न सके
अखण्डनामजपं	मत्त	मलयालम, संस्कृत	भगवान के किसी एक नाम का लगातार जप

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अखंडनीय अखण्डनीय अखण्डनीय अखण्डय अखण्डनीय	विशेषण	हिंदी बंगला, नेपाली मलयालम, उड़िया बंगला संस्कृत	1 अविभाज्य अकार्य अटूट अनुल्लघनीय . गुक्ति पुक्त + २ अपरिचलनीय (बंगला) 3 अखण्डय (मलयालम) + 4 जिस सत्य न स सप्र (नगना) + ५ मत या सिद्धान्त जिस अन्यथा समझना कठिन जा सके (हिंदी)
अखंडमण्डल अखंडमंडलाकार	सज्ञा	असमी, कन्नड बंगला	1 सम्पूर्ण सभ्यताएं पृथक् ब्रह्माण्ड + २ पूरे सभ्यता का स्थापक (अध्या), साम्राज्य
अखंडराशि अखंडल	सज्ञा विशेषण	गुजराती हिंदी	पूर्णतः सम्पूर्ण संपन्न पूरा सम्पूर्ण सज्ञा टूट
अखंडसौभाग्य अखंडसौभाग्य अखंडसौभाग्यवती	सज्ञा	कन्नड, मराठी गुजराती गुजराती, मराठी	1 सम्पूर्ण सौभाग्य संपन्न (अर्थशोध) + २ अखंडवान् अर्थ ३ अखंडसौभाग्यवती सौभाग्य संपन्न अर्थात्
अकण्डाकारज्ञानम् अगण्डागण्डन्	सज्ञा सज्ञा	तमिल तमिल	अकण्डाकार सज्ञान पूर्णज्ञान सज्ञान 1 अकण्डाकार २ अगण्डाकार
अखंडझावी अखण्डात्मबोध अखण्डानन्दं (म्)	विशेषण सज्ञा सज्ञा	गुजराती मलयालम, संस्कृत मलयालम, संस्कृत	सदा बहुरूपान् जान अखंड अर्थ पारस्परिक भावनाभूति परस्पर ज्ञान पारपूर्ण अर्थ अखंड सौभाग्य
अकण्डागारम् अकण्डाकारज्ञानम् अखण्डाकारज्ञानम्	सज्ञा सज्ञा सज्ञा	तमिल तमिल संस्कृत	अखण्डाकार परमार्थिक अर्थज्ञान अखण्डाकार सज्ञान अकण्डाकार अखण्डाकार ज्ञान ब्रह्मज्ञान अर्थार्थज्ञान
अकण्डाकार वृत्ति	सज्ञा	तमिल	1 अखण्डाकार 2 ज्ञान की इच्छा
अखंडित अखण्डित अखण्डित अखण्डित अखंडितम् अखंडु अकंडित अकण्डितम् अकण्डितन्	विशेषण विशेषण विशेषण विशेषण विशेषण विशेषण सज्ञा सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, उड़िया बंगला, संस्कृत, नेपाली कन्नड, मलयालम तेलुगु सिंधी कोकणी तमिल तमिल	1 अखंडित रूप पूर्ण अखंडित या टूटने हुआ नहीं 2 अखंडित अर्थ अखंडित सज्ञा पूरा सम्पूर्ण सज्ञान अखंडित 3 अखंडित खंडन हुआ हो स्वीकृत 4 अखंडित अर्थ अखंडित अखंडित 5 अपार असमी 6 अखंडित, अखंडित अखंडित अखंडित (अखंडित) तीक्ष्ण (वृद्धि पराक्रम या संपत्ति) (मराठी) + 7 परमेश्वर ब्रह्म, वेद (तमिल सिंधी)

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अखण्डितक्षुर	सज्ञा	बंगला	एक खुर वाले प्राणी (घोड़ा, गधा)
अखण्डितर्तु	सज्ञा	मलयालम	समयानुकूल ऋतु, यथाकाल फलफूल लगना,
अखण्डित ऋतु		संस्कृत	मौसमी फल, पुष्प आदि उत्पन्न करने वाली ऋतु
अखंड्य	विशेषण	बंगला	अखंडनीय, जिस के टुकड़े न किये जा सकें या न हो
अखज	विशेषण	हिंदी	1 न खाने योग्य, अखाद्य 2- निकृष्ट, बुरा
अखई	विशेषण	मराठी	अक्षय, अखड, अविनाशी, परमात्मा
अखई	अव्यय	मराठी	अनन्तकाल तक, सदैव, हमेशा
अखचित	विशेषण	मराठी, मलयालम	जो बिछा हुआ न हो, जो चिह्नित अंकित-आबद्ध
अखचित		संस्कृत, हिंदी	न हो, जो किसी गहने में जड़ा न गया हो
अखजा	सज्ञा	मराठी	अक्षय तृतीया
अखतीज		हिंदी, मराठी	अक्षय तृतीया
अखड	सज्ञा	गुजराती	1 जिसमें धाम भी न हो, परती भूमि
अखड		गुजराती	2 जो भूमि बहुत समय में बेकार पड़ी हो
अखंड दहाडा	सज्ञा	गुजराती	1 बिना कामकाज का दिन 2 ऐसा दिन जब काम करने का मन न हो
अखड-बखडी	विशेषण	गुजराती	ऊबड़ खाबड़, ऊँची नीची, जमीन, असमान भूमि
अखम/अक्षम	विशेषण	गुजराती, संस्कृत	नाजुक, अममर्थ, जो कुछ कर न सके
अखय/अक्षय	विशेषण	नेपाली, संस्कृत	अक्षय, अविनाशी, ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म
अखर	विशेषण	गुजराती	1 जो खरा न हो 2- अक्षर 3- अमास्य 4- आत्मा-ब्रह्म
अखरा	सज्ञा	हिंदी	5 बिना छाना जौ का आटा (हिंदी)
अखर्व	विशेषण	हिंदी, कन्नड, संस्कृत	1 जो छोटा या ठिगना न हो, बड़ा, विशाल, लंबा,
अखर्व		मलयालम	महान, पर्याप्त + 2 बिना खोदी, स्वाभाविक झील,
अखर्वमु	सज्ञा	तेलुगु	खाड़ी, मंदिर के सामने की पुष्करिणी
अखला	विशेषण	बंगला	जो स्त्री छल छद न जानती हो
अखल्य	विशेषण	कन्नड	कायर, युद्ध योग्य नहीं
अखज	विशेषण	गुजराती	अखाद्य, न खाने योग्य, निषिद्ध खुराक जैसे माँस
अखडुआ	विशेषण	उड़िया	विवेक हीन, अज्ञानी, मूर्ख,
अखात	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, कन्नड	1 बिना खोदा हुआ जलाशय या झील, खाड़ी
अखात		नेपाली, असमी, संस	2 मंदिर के सामने का तालाब, पुष्करिणी या पोखरा

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अखातं/अगातम् अखातम्	संज्ञा	मलयालम्, तमिल तेलुगु	3- तीन ओर जमीन से घिरा समुद्र, खाड़ी, उपसागर + 4- जो दफनाया न हो (मलयालम्)
अखाद अखादनीय अखाद्य अखाय अखाय अखाय अकादियम् अखाजु	विशेषण विशेषण	हिंदी मलयालम् हिंदी, गुजराती, मराठी उड़िया, असमी, बंगला नेपाली, संस्कृत, कन्नड मलयालम् तमिल सिंधी	1- खाने के अयोग्य, अपक्ष्य, कुखाद्य, निषिद्ध-खाद्य, आहार के अनुपयुक्त 2- अखाज, निषिद्ध वस्तु 3- जैन धर्मी लोग कुछ खाने के पदार्थों को छोड़ देने हैं, उन के लिए वे अखाद्य होते हैं 4- बहुत से लोग अंडा, मांस, मछली आदि खाने से परहेज करने हैं, उनके लिए वे अखाद्य हैं 5- वे वस्तुएं जो गेग आदि के कारण अखाद्य हैं
अखाद्य-भवाद्य अगि-अहि अखिआ	संज्ञा विशेषण	बंगला तमिल उड़िया	खाने में इतना खराब हो कि मुँह में न डाला जा सके अखिल, कुल, तमाम, सब, टोटल भूखा, जिसे खाना न मिला हो
अखिन्न अखिन्न	विशेषण	हिंदी, मलयालम्, कन्नड संस्कृत	खेद रहित; क्लेश - चिन्तारहित; अक्लान्त, प्रसन्न; खु- ईर्ष्यन
अखियाणु अखियातुं	विशेषण विशेषण	गुजराती गुजराती	शुभ कार्य में पहले दी गयी बख्शीश जिसे क्षति न हुई हो, सही मलामत, तदुरुस्त
अखिल अखिल अखिल अखिलं अकिलम् अखितु अखिलम्	विशेषण विशेषण संज्ञा	हिंदी, असमी, उड़िया बंगला, कन्नड, पंजाबी नेपाली, गुज, मराठी मलयालम्, संस्कृत तमिल सिंधी तेलुगु	1- एक एक कण करके न लियाजाने वाला, समग्र, समूचा, अखंड, सर्वांगपूर्ण, सकल, सारा, समस्त 2- भूमि जो मरु या बेकार न हो खेती योग्य हो 3- जो बिगड़ानहीं, सर्वभू(तेलुगु) + 4- मथित अर्थ (मगर्ह) 5- जगत, प्रपच पृथ्वी, जल (संज्ञा) 6- संपूर्ण रूप से (क्रिया विशेषण) (संस्कृत)
अखिल-अंक अखिल-अंड अखिल-अद्वैत	संज्ञा संज्ञा संज्ञा	कन्नड कन्नड कन्नड	अनेक नाम वाला, परमेश्वर सम्पूर्ण विश्व, ब्रह्माण्ड केवल अद्वैत, सारमणक ही शक्ति व्याप्त है (सिद्धान्त)
अखिलकलाचलित अखिलचिरकालम्	संज्ञा संज्ञा	तमिल तमिल	सारस्वती, समस्त कलाओं की आधार जिमकी प्रसिद्धि सगार भर में फैली हुई हो

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अखिल प्रशान्त	सज्ञा	कन्नड	दिगन्त, सभी दिशाओं का अन्त
अखिल रूपबन्	सज्ञा	तमिल	सर्वरूपी, परमेश्वर, दृश्य जगत जिसका रूप है
अखिल व्यापक	सज्ञा	कन्नड	सर्वत्र व्याप्त या समाया हुआ, सर्व व्यापक
अखिलाई	सज्ञा	गुजराती	अखिलता, सम्पूर्णता, व्यापकता
अखिलाण्डकोटि	सज्ञा	तमिल	अगणित ब्रह्माण्ड, लोक लोकान्तर
अखिलार्थ	सज्ञा	मराठी	तात्पर्य, सारांश, मंतव्य, पूर्ण अर्थ
अखिलाण्डनायकि	सज्ञा	तमिल	पार्वती, उमा, भहेश्वरी, जगतमाता
अखिलाण्डम्	सज्ञा	तमिल	सर्वलोक, ब्रह्माण्ड, सारा दृश्य जगत
अखिलरूपन्	सज्ञा	मलयालम, तमिल	ईश्वर सर्वरूपी है, संसार उसी का रूप है
अखिल व्यापिन्	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	विश्व के सभी अंगों में व्याप्त ईश्वर
अखिलत्वापी		मलयालम, हिंदी	विश्वात्मा जो सम्पूर्ण संसार में व्याप्त है
अखिलात्मा		हिंदी, मलयालम	जो समस्त प्राणियों में आत्मारूप से समाया है
अखिलात्मन्		संस्कृत	ऐसा ईश्वर
अखिलाधार	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	मन्वका सहारा, सब देवताओं का आधार
अखिलेशन्	सज्ञा	मलयालम	सबका स्वामी, परमेश्वर
अखिलेश		हिंदी, नेपाली, संस्कृत	रामस्त, ब्रह्माण्ड का पालक
अखुटना	क्रिया विशेषण	हिंदी	1- खन्म न होना (रास्ता), लड़खड़ाना
अखुट्ट	विशेषण	पंजाबी	2- जो घटे नहीं, अक्षुण्ण, अत्यधिक, अक्षय
अखूट	विशेषण	हिंदी, गुजराती	3- अखड, समाप्त न होने वाला
अखेतीज	सज्ञा	मराठी	अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया
अखेदम्	सज्ञा	मलयालम	थकान या शोक न होना, दुःख का अभाव
अखेदिन्		संस्कृत	जिस व्यक्ति को रज, ग्लानि, व्यथा न हो
अखेदित्वं	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	बोली में प्रवाह, भाषा प्रवाह, धारा प्रवाह बोलना
अखोट/अखोड	विशेषण	मराठी	दोष नहा, बेगैब, निर्दोष, खोट नहीं
अखोर्ग	विशेषण	हिन्दी	भद्र, मज्जन, सुन्दर, जिसमें खोर-खोट न हो
अख्यात	विशेषण	हिंदी	1- जो ख्यात, प्रसिद्ध, सम्मानित, प्रसिद्धित न हो
अख्यात		मलयालम	2- कीर्तिहीन, अपरिचित, दुष्कीर्तिशुक्त, निन्दित,
अख्यात		बंगला	अमम्मानित, अप्रसिद्ध
अख्यात		संस्कृत	+ 3- जो कहा न गया हो (हिंदी)

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अख्याति अख्याति अख्याति अक्षियादि	संज्ञा	गुजराती, मलयालम कन्नड, संस्कृत, असमी बंगला, तेलुगु तमिल	1- अकीर्ति, अपवाद, बदनामी, निन्दा, अपयश, दुर्नाम, दुष्कीर्ति, निंघ + 2- अप्रतीति, अविश्वास (गुजराती) + 3- स्मृति, और कल्पना मे भेद न कर पाने से क्रिया मे भूल चूक होना (तमिल)
अख्यातनामा अख्यातनामी	विशेषण	बंगला बंगला	अपरिचित या अपरिचित नाम वाला विना पहचाना हुआ मनुष्य, अप्रसिद्ध
अख्यातिकर अख्यातिकारक अख्यातिकरी अख्यातिजनक	विशेषण	असमी, बंगला बंगला, संस्कृत बंगला, संस्कृत बंगला, संस्कृत	अपकीर्तिकारक, अपयशकर, लज्जाजनक कुत्साजनक, अवमानना जनक निन्दाजनक, ऐसा कार्य जिसके करने से करने वाले की बदनामी हो, अपयश फैलाने वाला कार्य
अख्यातिबाधि/दिनु अधिस्ती	संज्ञा विशेषण	मलयालम, संस्कृत गुजराती	जो आत्मा का बुद्धि या चेतनायुक्त नहीं मानता जो ईसाई नहीं, पैगन, मूर्ति पूजक
अगंज	विशेषण	हिंदी	जिसे जीता न जा सके, अजेय, अविजेय
अगंड	विशेषण	हिंदी	ऐसा धर जिसके हाथ पैर कट गये हो
अगंता	विशेषण	हिंदी	जो चलता न हो, न चलने वाला
अगंता	संज्ञा	हिंदी	अग्रिम, आगे चलने या रहने वाला
अग	संज्ञा	हिंदी, गुजराती	1- चलने मे असमर्थ 2 वृक्ष 3-पर्वत, मूर्य; साँप;
अग		मलयालम	गक्षसः पत्थर
अग		नेपाली, कन्नड	4- सर्पिल गति, सरकना, अगम्य, अचर, अचल;
अग		संस्कृत	म्यावर, सात की सख्या; घड़ा
अगच्छ	विशेषण	संस्कृत, हिंदी, नेपाली	1 जो चल न सके, न हिलना
अगच्छ	संज्ञा	मलयालम	2 जो किसी के सम्मने न हो (बंगला)
अगच्छित	विशेषण	बंगला	3 अचल, वृक्ष
अगचरमु	संज्ञा	तेलुगु	बदर, वृक्ष पर चलने वाला
अगज	विशेषण	मलयालम, गुजराती	1- पर्वत पर पैदा, पहाड़ी
अगज		नेपाली	2- शिलाजीत 3- हाथी
अगजा	संज्ञा	संस्कृत, मलयालम	पार्वती, पर्वत पुत्री, हिमालय मे जन्मी
अगजाता/अगजाते		संस्कृत, कन्नड	हिम-पुत्री, महेश्वरी, उमा
अगजेश	संज्ञा	कन्नड	पार्वती पति, शिव शकर, महादेव

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अगडित	विशेषण	तेलुगु	किले के चारो ओर की परिखा
अगड़-काड़	विशेषण	गुजराती	अकृत-विकृत, खरा खोटा, अस्पष्ट बोली
अगण	विशेषण	नेपाली	1- हीन गण यथा जगण, तगण, रगण, सगण
अगण	विशेषण	गुजराती	2 छद्दशास्त्र मे निषिद्ध गण
अगणित	विशेषण	हिंदी, गुजराती, असमी	1 अनगिनत, बेहिसाब, जो गिना न जा सके,
अगणित		नेपाली, मराठी	अमग्य, बेशुमार, मख्याहीन, बहुत गारे
अगणित		बंगला, कन्नड	+ 2 अपरिचित, अज्ञात (मलयालम)
अगणित		मलयालम, संस्कृत	+ 3. न गिना हुआ (नेपाली)
अगणित		सिंधी, कोकणी, उड़िया	4 अपरिमित, असीम, महान (तेलुगु)
अगणितम्		तेलुगु	5 परमेश्वर, सीमानीन
अगणितम्		तमिल	
अगणनीय	सज्ञा	हिंदी, मराठी, उड़िया	+ 1 अगण्य अगणित, जो गिने न जा सके, देरो;
अगणनीय		मलयालम, बंगला	तुच्छ; अपरम्पार; नगण्य
अगण्यम्		तेलुगु	+ 2 अवर्णनीय, विशाल (तेलुगु)
अगण्यो / अगण्यो	सज्ञा	गुजराती	लापरवाही, उपक्षणीयता, तुच्छता, अपमान
अगण्य	विशेषण	हिंदी, असमी	जा मृग्य न ही, अमृग्य.
अगण्य		नेपाली, मलयालम	तुच्छ, मामूली, साधारण,
अगण्य		संस्कृत, मराठी	जो किमी गिनती मे न हो, अर्थात् गण्य मान्य
अगण्य		कन्नड, गुजराती	व्यति, नहीं, जिसे कोई पूछता न हो या
अगण्यियम्	सज्ञा	तमिल	जिसेकी कही पूछ न हो
अगण्येय	विशेषण	मराठी	अपरम्पार, अगणित, असीम अपार
अगत	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1 न गया हुआ 2- न खोया हुआ
अगत	सज्ञा	कन्नड	भूमि को खादने की क्रिया, खुदाई
अगति	सज्ञा	हिंदी, गुजराती	1 उपायन होना, पहुँचन होना, विषय मे प्रवेश न होना
अगति	विशेषण	नेपाली	+ कगाल या अगहाय व्यक्ति (मलयालम)
अगति		असमी	2 गतिहीनता, निरुपायता, असहाय अवस्था,
अगति		कन्नड	निर्गन्तव्यता, माधनहीनता 3- अवगति, अवर्तित
अगति		तमिल	+ 4- अकाल मृत्यु, मरण के बाद स्वर्ग गति न होना, नरक में
अगति		मराठी	पड़ना (नेपाली) +5-पापी, दुराचारी, कुकर्मी
अगति		संस्कृत	(नेपाली) मुक्तिमार्ग (तमिल) 6- गति न होना

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अगति		बंगला	ठहराया, रुका हुआ या स्थिर होना 7-अन्त्येष्टि श्राद्ध
अगति		मलयालम	आदि न होने से आत्मा का भटकना, मोक्ष न होना
अगतिक	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1- जिसकी कहीं गति, पहुँच, ठिकाना, सहारा, शरण,
अगतिक		मराठी, नेपाली	आश्रय न हो; कुठित गति वाला
अगतिक		बंगला, संस्कृत	+ 2- जिसका न कोई मित्र हो, और न साधन (तमिल)
अगतिक		मलयालम	3- गति या उपाय न रह गया हो, निरुपाय, असहाय,
अकारि, अगति	संज्ञा	तमिल	लाचार, साधन विहीन, निराश्रित
			4- जिसका श्राद्धतर्पण आदि न हुआ हो
अगतिकगति	संज्ञा	मराठी, संस्कृत	1- आखिरी सहारा, अंतिम आश्रय, अंतिम संबल,
			अनाथ नाथ, असहाय की सहायता करने वाला
अगतीक		हिंदी, मलयालम	2- अनन्य गति +3- जिस मार्ग पर चलना उचित
			न हो (हिंदी) 4- जिसकी कहीं गति न हो
अगतिबेस्तिरस्तार	संज्ञा	तमिल	स्वर्ग से ऊँचे दिव्यलोक
अगतिमंदिरम्	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	निराश या हताश का शरणस्थल
अगतिर्गति	संज्ञा	बंगला	1- निराश्रय का आश्रय 2- उपाय का अभाव
			3- मृत का अंतिम संस्कार न होना
अगती	संज्ञा, विशेषण	हिंदी	सद्गति का अधिकारी नहीं, कुकर्मी, पापी
अगत्य	संज्ञा	मराठी, गुजराती, कन्नड	1- जरूरी 2- आस्था, निष्ठा 3- महत्वपूर्ण
अगतियम्	क्रिया विशेषण	तमिल	4- शीघ्रता से, अवश्य ही, किसी भी तरह
अगत्यमु		तेलुगु	5- संज्ञा- अनिवार्यता, आवश्यकता
अगतियम्बाधु	क्रिया विशेषण	तमिल	
अगत्या	क्रिया विशेषण	हिंदी, कन्नड	1- कोई उपाय न होने पर लाचारी, विवशता में
अगत्या		असमी, उड़िया	2- अकस्मात्, अचानक, सहसा (कचित), अवश्य
अगत्या		नेपाली	ही, अनिवार्य रूप से
अगतिया	संज्ञा	तमिल	+ 3- अगाध गहराई, समुद्र (तमिल)
अगत्यवाद	संज्ञा	मराठी	आस्था की भावना या बुद्धि
अगत्यवादी	विशेषण	मराठी	किसी मनुष्य, वस्तु या क्रिया में निष्ठा रखने वाला

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अगद	विशेषण	हिंदी, मराठी	1 गद या रोग रहित, स्वरथ, तदुरुस्त
अगद		बंगला, कन्नड	2 दुःख, कष्ट या बाधा रहित
अगदं	सज्ञा	मलयालम	3 औषध, दवा 4- आरोग्य स्वास्थ्य
अगदम्		तमिल	+ 5 विषघ्न औषध जिसमें रोग न हो (बंगला)
अगदम्		संस्कृत	+ 6 जिसपर दोष अपराध आरोप न लगे (मलया)
अगद		गुजराती	+ 7 चुप, जो बोल न सके वाक् हीन (मलयालम)
अगदकरन्	विशेषण	मलयालम, तमिल	वैद्य भिषक, चिकित्सक प्रत्यर
अगदंकार		कन्नड, हिंदी	रोग दूर करने वाला, हकीम
अगदकारुडु		तेलुगु	रोग का इलाज करने वाला
अगद तंत्रं	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	आयुर्वेद के अठ अंगों में से एक जिसमें माप
अगद तंत्र' वेद	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	बिच्छृ आगद के विषय को दूर करने के उपाय संगीत है औषध विज्ञान एक आयुर्वेदिक भाग
अगदित	विशेषण	मलयालम, संस्कृत, हिंदी	अनकहा, गदित अर्थात् कहा, जो कटा नहीं गया
अगधर	सज्ञा	कन्नड	गावधनधारी कृष्ण शम्भु
अगधुर	विशेषण	असमी	'पतला इलका लघु जो मधुर या मोटा नहीं
अगन	सज्ञा	मलयालम, हिंदी	सूय दिनकर भास्कर, दृष्टगण (पिगल) (हिंदी)
अगनित	विशेषण	बंगला	असंख्य अनेक बहुल (अगनति अगुनति)
अगन्तव्य	विशेषण	बंगला	दुर्गम, जहाँ प्रवेश कठिन है, जहाँ जाना नहीं चाहिये
अगपत्तियम्	सज्ञा	तमिल	रोग में औषध लेने हुए पथ्य भोजन, अगपथ्य
अगपाटलु	सज्ञा	तेलुगु	आपदाय, अनक कष्ट, रोगादि की पीड़ाये
अगपद्	सज्ञा	तेलुगु	राम में अइचन पड़ना, विघ्न बाधा आना
अगपहु	सज्ञा	तेलुगु	जो दिग्गड है, जो कुछ सामने हो
अगपति	सज्ञा	मलयालम, हिन्दी	हिमालय, अन्य पर्वतों में ऊँचा, नगाधिराज
अगभीर	विशेषण	असमी, बंगला	1 गहग नहीं, उथला, छिछला थोड़ा गहरा
अगंभीर		उड़िया	+ 2 अल्प ज्ञान (बंगला)
अगभेटी	सज्ञा	कन्नड	इंद्र, वृक्ष काटने वाला, चक्रपात, कुल्हाड़ी
अगम	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1. दुर्गम, जहाँ जाया न जा सके, अग्राह, अगता,
अगम	सज्ञा	बंगला, गुजराती	दुष्प्रवेश, जिसके अंदर या पास पहुँचाने जा सके
अगम		मराठी, कन्नड	2 अगम्य, ईद्रियातीत, मन बुद्धि की पहुँच से परे
अगमं		मलयालम, संस्कृत	3 चलने में असमर्थ, गतिहीन
अगम्य		पंजाबी	4 निश्चल, अचल, स्थावर

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अगमु		सिंधी	5- पेंड़, पर्वत + 6- भविष्य (गुजराती)
अगममु		तेलुगु	+ 7- अप्राप्य, मान की सख्या (मलयालम)
अगमचेती	सज्ञा	गुजराती	दूरदेशी, आने वाले समय की सोच लेना
अगमन	विशेषण	हिंदी	गमन का अभाव, जाना नहीं अव्यय- आगे से, पहले
अगम-निगम	सज्ञा	गुजराती	1- भूत भविष्य 2- वेद शास्त्र
अगम-निगमवादी वाद	सज्ञा	गुजराती	रहस्यवादी, रहस्यवाद
अगम-पच्छम	सज्ञा	गुजराती	आग पीछ, भूत भविष्य
अगम पंथ	सज्ञा	गुजराती	1 अज्ञात मार्ग, गूढ़ रास्ता 2-ईश्वर प्राप्ति का मार्ग
अगमनीय	विशेषण	बंगला	1- अगम्य, जहाँ जाना अप्रशस्त हो, अबोध
अगमनीय	विशेषण	मलयालम	+ 2- वह स्त्री जिसमें विवाह संबन्ध अवैध हो (मलया)
अगमनीया	अगम्या	हिंदी	वह स्त्री जिसमें भायों जैसा संबन्ध रखना
अगम्यिये		तमिल	अवैध हो जैसा बहन, रिश्ते की बहन आदि
अगम बुद्धि	विशेषण	गुजराती	भविष्य का विचार कर सकने वाली बुद्धि
अगमबुद्धियुं		गुजराती	दूरदेशी, विलक्षण बुद्धि वाला
अगमभाखी	विशेषण	गुजराती	भविष्य का, जो होने वाली बात बता दे, ज्योतिषी
अगम वाचणा	सज्ञा	पंजाबी	भविष्य के या अन्य गुप्त रहस्य विचार द्वारा जानना
अगम वाणी	विशेषण	गुजराती	1- गूढ़वाणी 2 वेदवाणी 3- भविष्यवाणी
अगमौ	विशेषण	गुजराती	अनगमौ, न गया हुआ, जहाँ जाना नहीं
अगम्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती, असमी	1- गमन के अयोग्य, दुर्गम, विकट, अथाह, गहरा,
अगम्य		नेपाली, मराठी	अपार, बुद्धि के परे, जिसका आकलन न
अगम्य		मलयालम, संस्कृत	क्रिया जा सके
अगम्य		कन्नड, उड़िया, बंगला	2 जानने के अयोग्य, अज्ञेय, गूढ़, अभेद्य,
अगमु		सिंधी	दुबोध, कठिन, अयोध्य, अप्राप्य
अगम्य		पंजाबी	3- जहाँ पहुँचा न जा सके, पहुँच के बाहर, निविड़
अगम्यियमु		तमिल	4- जिसमें यौन संबन्ध वर्जित हो, निषिद्ध
अगम्यमु		तेलुगु	5- जिसके बीच से गुजरा न जा सके
अगम्यता	सज्ञा	गुजराती, तेलुगु	दुर्गमता, असभवता, अगम्यवाद
अगम्यवाद	सज्ञा	गुजराती	रहस्यवाद, गूढ़ ज्ञान का विचार

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अगम्या अगम्या अगम्या अगम्ये अगम्यिधे	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, संस्कृत मराठी, असमी बंगला, मलयालम कन्नड तमिल	1- सगोत्र, समान कुल, निषिद्ध जाति की स्त्री 2- गुरुपत्नी, राजपत्नी, माता, भगिनी आदि 3- जिनसे यौन सबध हिन्दू शास्त्र मे निषिद्ध है 4- वेश्या (तमिल) 5- जिस स्त्री से सहवास करना पाप हो
अगम्यागमनं	सज्ञा	मलयालम, कन्नड	किसी पुरुष मे अवैध सबध रखना, निकट सबधी से व्यभिचार
अगम्यागमन अगम्यागमन अगम्यिधैगमनम् अगम्यागमनं	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, कन्नड मराठी, नेपाली, बंगला तमिल मलयालम	1- अगम्या स्त्री से सभोग, एक महापाप, अवैध सबध 2- शास्त्रीय दृष्टि से निषिद्ध स्त्री के साथ व्यभिचार 3- हाड़ नाता करना (नेपाली)
अगम्यागामी अगम्यागामी अगम्यागामि अगम्यागामिन्	विशेषण	हिंदी, गुजराती बंगला, मराठी कन्नड मलयालम, संस्कृत	1. अगम्या स भोग सबध रखने वाला 2. अवैध सबध रखने वाला 3. व्यभिचारी, महापापी, लम्पट 4- माता, भगिनी, पुत्री आदि से गमन करने वाला
अगुरु अगराज अगर्भप्राणायाम	विशेषण विशेषण सज्ञा	बंगला गुजराती मलयालम, संस्कृत	हलका, लघु, गौरव शून्य अग्राह्य, ग्रहण करने योग्य नहीं बिना ध्यान-प्रार्थना के कुभक प्राणायाम करना
अगर्ब / वं अगर्बी अगर्हणीय/नीय अगर्ह्य	विशेषण विशेषण विशेषण	मलयालम, हिंदी असमी गुजराती, मराठी मलयालम	1- गर्वहीन, विनम्र, जो अपने आपको बड़ा न माने 2- अहकार शून्य, निरहकार, नम्र 1- अनिघ, दोष रहित, जो गर्हणीय नहीं, निदा का पात्र नहीं 2- जिसे डाटा न जा सके (मलयालम)
अगर्हित अगर्हितमु	विशेषण	असमी, गुजराती, मरा तेलुगु	1 - निन्दा का पात्र नहीं, निर्दोष, जो गर्हित नहीं 2- निष्कलंक, अनिन्द्य, जिसका अपमान न हुआ हो
अगवैरि	सज्ञा	कन्नड	इन्द्र, पर्वतशत्रु, वज्रपाती
अगाध अगाध अगाध	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली मराठी, असमी उड़िया, बंगला	1- अतल, तलहीन, अतलस्पर्शी, अथाह 2- झील, तालाब, कुआं, खाड़ी आदि जिनकी गहराई का पता न चले

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अगाध	विशेषण	पंजाबी, कन्नड	3- अगम्य, अज्ञेय, गूढ. दुर्बोध, अशक्य,
अगाधं	मज्ञा	मलयालम, संस्कृत	असंभाव्य, अनवगाहनीय-समुद्र
अगादम्		तमिल	+ 4- सुरग, दरार, गहरा छिद्र, बिल (मलया, तमिल)
अगाधम्		तेलुगु	5- असीम, अपार, अपरिमेय, सुविस्तीर्ण
अगादन्	सज्ञा	तमिल	धोखेवाज, कपटी, वचक
अगाधता	संज्ञा	मलयालम	अर्थ की गहराई, मन्तव्य या भाव की गूढ़ता
अगादम्	सज्ञा	तमिल	वचन, ठगी, धोखेबाज़ी, कपट
अगामु	विशेषण	गुजराती	अगम्य, जहाँ जाया या पहुँचा न जा सके
अगायमु	विशेषण	तेलुगु	घाव रहित, जख्म न होना
अगारि	सज्ञा	मलयालम	पर्वत शत्रु इद्र, जो बिजली से पर्वत तोड़ता है
अगिनत	विशेषण	हिंदी, सिंधी	अनर्गलनत, असंख्य, बेशुमार
अगियान	विशेषण	असमी, पंजाबी	अज्ञान, मूर्खता, मूढ़ता
अगु	विशेषण	मलयालम	1- जिसके पाम गाय न हो, गरीब
अगु	विशेषण	संस्कृत	2- प्रकाश हीन, अधेरा. किरण से रहित
अगुण	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1- गुणहीन, विशेषता रहित, बेकार, निर्गुण
अगुण		नेपाली, मराठी	2- दोष, कमी, अवगुण. बुराई, अपराध, अमंगल
अगुण	सज्ञा	असमी, कन्नड, बंगला	3- जिसमें का रज तम आदि गुण न हो (ईश्वर)
अगुणं	सज्ञा	मलयालम	4- मूर्ख अज्ञ, गुणहीनता
अगुणम्	संज्ञा	तमिल संस्कृत	+ 5- चोट, नुकसान, अपकार, ईर्ष्या (असमी)
अगुणज्ञ	विशेषण	हिंदी, गुजराती	जिसे गुणों का ज्ञान-पहचान न हो, गुणों का आदर न करने वाला
अगुणवादी	विशेषण	हिंदी	1- दूसरे के दोष या अवगुण निकालने वाला
अगुणवादिन्		संस्कृत	2- छिद्रान्वेशी
अगुणी	विशेषण	गुजराती, नेपाली	1- गुणों के प्रकार न जानने वाला, अगुणज्ञ
अगुणी		मराठी, हिंदी, तमिल	2- गुण रहित, अवगुणी, दुर्गुणी, नादान, मूर्ख, अनपढ़
अगुणिन्/अगुणि		संस्कृत, तमिल	+ 3- वचक, क्रोधी, कपटी + 4- अंगहीन (तमिल)
अगुप्त	विशेषण	मलयालम	1- छिपा-ढक्का नहीं 2- असुरक्षित
अगुरु	विशेषण	हिंदी, नेपाली, कन्नड	1 जो गुरु या भारी न हो 2- हलका, लघु, छोटा
अगुरु		मलयालम, संस्कृत	3- जिसने गुरु से शिक्षा दीक्षा न ली हो
अगुरुवु	संज्ञा	तेलुगु	+ 4- खुशबू देने वाली वस्तु धूप, अगर आदि (नेपाली)

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अगुध	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	स्वच्छ, स्पष्ट, ढका हुआ नहीं, उधरा हुआ
अगुषगंधम्	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	हींग, जिसकी सुगंध छिपाई न जा सके
अगूडगन्धम्	अगूडगंध	तमिल, हिंदी	अगूडगन्ध वाली वस्तु हींग आदि
अगुधभाव	अगूडभाव	विशेषण	1- प्रकट अर्थ वाला 2- खुले स्वभाव वाला
अगूड	विशेषण	हिंदी, बंगला	1- कठिन नहीं, छिपा या गुप्त नहीं
अगूड /अगुध		कन्नड, मलयालम	2- सरल, स्पष्ट, प्रकट
अगृहीत	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	जो ग्रहण नहीं किया, पकड़ा समझा नहीं गया
अगृहन्	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	1- बघर बगर का, घर घर भटकने वाला
अगृह	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	2- नट- बनजारा; यन्त्री, वानप्रस्थी, गन्धारी
अगेह	विशेषण	हिंदी	1- जिम्का कोई घर न हो
अगृहि	विशेषण	कन्नड	2- जिसने घर त्याग दिया हो, गन्धारी
अगेय	विशेषण	हिंदी	1- जो गाये जाने योग्य न हो, गाया न जा सके
			2- जिम्का गान या वर्णन न हो सके
अगोचर	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1- जो इंद्रियग्राह्य न हो, अप्रत्यक्ष, अप्रकट,
अगोचर		नेपाली, मराठी, असमी	अज्ञात, अगम्य, अव्यक्त, गुप्त, अदृष्ट
अगोचर		बंगला, कन्नड, उड़िया	2- इंद्रियातीत, अंतर्इन्द्रिय, ज्ञानातीत, कल्पनातीत,
अगोचर		पंजाबी, संस्कृत	अयोध्य, मन वृत्ति की पहुँच में परे
अगोचर		सिंधी	3- अस्तित्व होने पर भी जो देखा, सुना, समझा न जा
अगोचर	संज्ञा	मलयालम	सके, निराकार ईश्वर
अगोचरम्		तेलुगु	+ 4- उट्टड, उजड्ड, नटखट, अमर्याद, अमीम, बेहद,
अगोचरम्	संज्ञा	तमिल	विचित्र (मराठी)
अगोचरिपुत्तिरै	संज्ञा	तमिल	अगोचर मुद्रा, जिसमें योगी कान में रुई ठूसकर
			नाद-ध्वनि सुनने के लिए मिर दायें बायें हिलाता है
अगोचरी	संज्ञा	मराठी	आनांकिक दृष्ट म आकाश रहे वह योग मुद्रा
अगोचरे	अध्यय	बंगला	अज्ञात रूप से, इंद्रियातीत
अगोत	विशेषण	पंजाबी	1- बिना गोत्र का, नीच या भिन्न गोत्र का
अगोत्री	विशेषण	हिंदी, नेपाली	2- जो हमारे गोत्र या कुटुम्ब का नहीं
अगोत्तिरम्	संज्ञा	तमिल	+ 3- अगोत्र, खानदानी न होना, अकुलीनता (तमिल)

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अगोप अगोपग	विशेषण सज्ञा	गुजराती कन्नड	अलोप, जो गुप्त या गोपनीय नहीं जिसकी देखभाल न होती हो, एक वर्ण-वृत्त
अगोपनीय अगोप्य	विशेषण	मलयालम, बंगला मलयालम, संस्कृत	1 जो छिपाने, ढकने योग्य न हो 2- जो छिपा, ढका न हो, प्रकाश्य
अगोकास्तु अगोकस	सज्ञा	मलयालम संस्कृत, कन्नड	1 पर्वनागेही, 8 पैरो का एक काल्पनिक प्राणी 2 शेर 3 पक्षी 4- बन्दर
अगोर अगौण	विशेषण विशेषण	गुजराती बंगला	गुरु बिना, बिना गुरु का मुख्य, प्रधान, गौण या अप्रधान नहीं
अगौरव अगौरवमु अगौरवम्	विशेषण विशेषण सज्ञा	बंगला, मलयालम, कन्नड तेलुगु तमिल	1- गौरव हीनता, असम्मान, बेइज्जती, अपमान, घृणा, अनादर 2 जो गम्भीर न हो जो भारी न हो
अग्रन्धिक अग्रन्धिकन्	विशेषण	संस्कृत मलयालम	जैन धर्म की नग्न साधना नगा रहने वाला जैनी साधु
अग्राम्य अग्राम्यमु अग्राम्य बचन वृत्ति	विशेषण विशेषण सज्ञा	कन्नड, हिंदी तेलुगु कन्नड	ग्रामीण या गवार नहीं जगनी कविता का एक गुण काव्य का शिष्टता का एक गुण
अग्राम्यते	सज्ञा	कन्नड	काव्य में गवार पन न होना
अग्राह्य अगाह्य अगाह्य अगाह्य अविकाराहियम् अग्राह्यम्	विशेषण	गुजराती, नेपाली हिंदी, बंगला, असमी उड़िया, मराठी मलयालम, संस्कृत तमिल तेलुगु	1- वस्तु या विचार जो ग्रहण करने योग्य न हो 2- अस्वीकार्य, अबोध, न्याय्य, उपेक्षणीय, अप्रमाण्य नामजूर, निषिद्ध, वर्जित 3 अकल्पनीय (तमिल) 4 विश्वास या स्वीकृति के अयोग्य (असमी)
अग्राह्यकर	अव्यय	असमी	इन्कार करना, अस्वीकार करना या त्यागना
अग्रीव/अग्रीवं	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	जिसकी गर्दन न हो, ग्रीवा रहित
अग्लास (नु)	सज्ञा	मलयालम	जो थका नहीं, ढीला नहीं, अशिक्षित
अघट अघट अघटतुं	विशेषण	हिंदी कन्नड गुजराती	1- जो घटित न हो 2- न होने वाला 3- सदा रहने वाला 4- कठिन, बेमेल 5 अयोग्य, कम न होने वाला, जो घटे नहीं

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अघटन	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	1- घटित न होने की क्रिया या भाव, कठिन या अशक्त कार्य, क्रियान्वयन के अयोग्य
अघटन		असमी, बंगला	
अघटन		कन्नड	2- संभव न होना, असंभाव्य, दुर्घट, असाधारणकार्य
अघटनम्		तेलुगु	3- आकस्मिक या विपरीत घटना, दुर्घटना
अगठनम्	संज्ञा	तमिल	4- जो किया न जा सके, असंभव; अनिष्ट, अपकार + 5- कपटी, अपकारी, दुष्ट (तमिल)
अघटनमान	संज्ञा	मराठी	अशक्य या असंभाव्य
अघटित	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1- जो घटनाके रूपमें न हुआ हो या न हो सकता हो
अघटित	संज्ञा	नेपाली	2- अनघटा, असंभावित, अयोग्य, अनुचित
अघटित		बंगला	+ 3- अभूतपूर्व, अचिन्तित (नेपाली) (मराठी)
अघटित		कन्नड	+ 4- चमत्कारी, अशक्य, अवलक्षणी, भीतिप्रद (बंगला)
अघटित		मराठी	+ 5- लोकोत्तरसाहसका काम, अश्रुतपूर्वबात (मराठी)
अघटितघटनापटीयसी	संज्ञा	गुजराती, मराठी	असंभव संभव होना, विलक्षण या अश्रुत पूर्व
अघटितघटनापटीयसी	संज्ञा	हिन्दी	बात या प्रसंग
अघटितघटनासामर्तियम्	संज्ञा	तमिल	असंभव को संभव करने की शक्ति
अघटित विद्याम्	संज्ञा	मराठी	1- आश्चर्यकारक, अद्भुत कृति 2- विलक्षण बात
अगटिषम्	संज्ञा	तमिल	अनीति, अन्याय, अत्याचार
अघड	विशेषण	पंजाबी	1- अनघड, जो काट तराश कर किसी रूप में न लाया हुआ हो 2- खुरदरा या मूलरूप में
अघड		मराठी	
अघड		गुजराती	3- असभ्य, जाहिल, मूर्ख (व्यक्ति)
अघड-दुष्य	विशेषण	पंजाबी	ऊँचा-नीचा, अस्तव्यस्त, बेतरतीब
अघड़ी	विशेषण	पंजाबी	ज़िद्दी, व्यर्थ हुआत करने वाली स्त्री
अघन	विशेषण	हिंदी, असमी, कन्नड	1- जो घना, ठोस, मोटा, गाढ़ा या बड़ा न हो
अघन		गुजराती, बंगला	2- पतला, छोटा, पोला
अघरी	विशेषण	असमी	बे-घरबार का, यायावर, जिसका कोई निश्चित निवास स्थल नहीं
अघठं	विशेषण	गुजराती	मुश्किल, अग्राह्य (संस्कृत), कठिन
अघरेगिच्छत	विशेषण	गुजराती	अपने घर की नहीं, दूसरे की मिलकियत का

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अचर्म/अचर्म अचर्माशु	विशेषण संज्ञा	मलयालम, हिंदी मलयालम	जो गम नहीं, ठंडा गर्म किरण वाला नहीं, चन्द्रमा
अघाट अघाट अघाट	विशेषण	असमी बंगला हिंदी	1- घाट के साथ वाला स्थान, कुस्थान, अप्रशस्त स्थान (बंगला) 2- घाट या स्नान के अनिर्दिष्ट दूसरा स्थान
अघाट अघाट अघाट अघाट	विशेषण संज्ञा	गुजराती असमी बंगला हिंदी	1 अपार, अनंत 2- दस्तावेज में कुल हक के साथ (गुज) 3- शिलालेख, इनामी जमीन, देवस्थान को दी गई जमीन, घाट का किनारा + 4- भूमि जिमके देचने का अधिकार उमके ग्यामी को न हो (हिंदी)
अघाटियुं	संज्ञा	गुजराती	नमक हगम जिमको हक न मिला हो
अघात अघात अघातं	विशेषण संज्ञा विशेषण	गुजराती, हिंदी हिंदी मलयालम	घट भर, ज्यादा, बहुत घात या क्षति का अभाव जानवरो की हत्या पर रोक
अघाती अघाति अगातिकन्	विशेषण विशेषण संज्ञा	हिन्दी कन्नड तमिल	जो घातक या क्षतिकारक न हो जिममें "चि" न हो, हानि रोहन, मारक नहीं अघातिन् चार मोक्षदायक श्रुभकर्म (आयुष्य, वेदन, प्र, गात्र, नाम (जैन दर्शन)
अघृण अघिन्	विशेषण	मलयालम, संस्कृत + असमी	1 जो दयालु न हो, कठोर, उच्चारित 2- घृणा न करना, घृणा शून्य
अघोर अघोर अघोर अघोर अघोर अघोर अघोरम् अघोरमु अघोरु	विशेषण संज्ञा विशेषण	हिंदी, गुजराती नेपाली, मराठी असमी, उड़िया बंगला, मलयालम कन्नड पंजाबी, संस्कृत तमिल तेलुगु सिंधी	1- जो भयकर न हो या घोर न हो, सौम्य, शान्त, कोमल 2- अतिभयकर, पैशाचिक, विकराल, घातकी प्रचंड, क्रूर, अमान, अतिघोर, बहुत मुश्किल 3- प्रचंडता, पंचमुखी शिव का दक्षिण-दिशा मुख, 4- एक शैव मंत्र, शिवोपासक पथ, शिव का एक रूप 5- विलक्षण, निश्चिन्त, शरीर का भान न होना, अचेतन, बेहोश होना, गगाट निद्रा (बंगला) + 6- निद्रा, अघोरपन (गुजराती) + 7- ज्ञान, उष्णता (तमिल)
अघोरा	संज्ञा	मलयालम	भाद्रपद कृष्ण चौदस, शिवार्थ पर्व

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अघोरनाथ	सज्ञा	हिंदी	शिव, रुद्ररूप
अघोरपंथ	सज्ञा	हिंदी, गुजराती	1- अघोरमत (मैली माधना) मानने वाला एक शैव समुदाय
अघोर मार्ग	सज्ञा	मराठी, पंजाबी	
अघोरपंथी	सज्ञा	हिंदी, नेपा, पंजा, बंग	2- अघोर पथ का अनुयायी, अघोरी
अघोर योग	सज्ञा	मराठी	अघोरियों की योग पद्धति
अघोर विद्या	सज्ञा	गुजराती	मैली विद्या
अघोरजप	सज्ञा	मराठी	पिशाच मंत्र का जप
अघोरी	सज्ञा	हिंदी	1 घिनौनी चीज मद्य मास खाने पीने वाला
अघोरी	विशेषण	गुजराती	2 अघोर पथ को मानने वाला, औंधड़
अघोरी		मराठी	3 मैला कुचैला नागा, घृणित, गदा
अघोरी	सज्ञा	मलयालम	4 मल मूत्र से घृणा न करने वाला माधु
अघोरी		नेपाली	5 अघोर पथी नगा माधु, आलसी, अहर्दी
अघोरी		पंजाबी	6- शाक्तों की पूज्य देवियों (मलयालम)
अघोरिचु	क्रिय अकर्मक	तेलुगु	शोक में होना, विलाप करना, भयभीत होना
अघोर्याई	सज्ञा	नेपाली	अघोरा होने का भाव, अघोरीपन दुराग्रह, हठ
अघोष	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1- अल्पध्वनि वाला, दूबे उच्चारण वाला अक्षर
अघोष		संस्कृत, नेपाली	2 नि शब्द, शान्त, जिसमें घोष वर्ण न हो
अघोष (वर्ण)		बंगला	3 स्पर्श व्यंजनो में प्रथम दो तथा क्षप सवर्ण एव विसर्ग
अघोषं	सज्ञा	मलयालम	+ 4 ग्वालों की बन्ती न होना (हिंदी)
अघ्न्य	विशेषण	मलयालम, कन्नड	1- जिमकी हत्या वर्जित हो, न मारने योग्य
अघ्न्य	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	2- गाय, साँड, ब्राह्मण
अघ्न्यं	विशेषण, सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	1- सूघने योग्य नहीं, शराब (सज्ञा)
अघ्न्य/ अघात	विशेषण, सज्ञा	हिन्दी, बंगला	2 जिमकी गध न सूधी गयी हो
अचक्र	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1- चक्र या पहिये न होना 2- अचल, स्थिर
अचक्र		मलयालम	+ 3- व्यापार रहित, मंत्री या सेनापति रहित (राजा)(संस)
अचक्षु	विशेषण	हिंदी, बंगला, कन्नड	1- नेत्र हीन, अंधा, खराब आँख वाला
अचक्षुस्तु		मलयालम	2- बुरी आँख, तेगिल नेत्र, निरुपयोगी नेत्र
अचक्षुस्		संस्कृत, कन्नड	+ 3- अप्रशस्त चक्षु, परब्रह्म (बंगला)

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अचंचल	विशेषण	हिंदी, मराठी, कन्नड	1- जो हिलता क्रापता न हो
अचञ्चल		मलयालम, बंगला	2- दृढ़, स्थिर, निश्चल, अचल
अचञ्चलम्	सज्ञा	तमिल, संस्कृत	3- अविचलित, दृढ़ निश्चर्या, गभीर, स्थिर वृत्ति
अचंचलता	सज्ञा	हिंदी	स्थिरता, गभीरता, शान्तता
अचंड	विशेषण	हिंदी, बंगला, कन्नड	1- जो क्रोधा, उग्र स्वभाव का या हिंसक न हो
अचण्ड		मलयालम, संस्कृत	2- शान्त, मौम्य, मृदु, अहिंसक, शान्त
अचक्षुदर्शन	विशेषण	हिंदी	नेत्रों के अतिरिक्त अन्य इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान
अचक्षुदर्शनावरणीयम्	सज्ञा	तमिल	दर्शनावरणीयम का प्रकार जो चक्षुओं को मदी परिप्रेक्ष्यमदख्यन से रोक्ता है (जैन दर्शन)
अचक्षु-विषय	विशेषण	हिंदी	अँख्या म पर, इष्टि से परे
अचकित	विशेषण	हिंदी, बंगला	अविग्मित अशक्ति अव्याकुल, निश्चल जो रक्ति न हुआ है
अचंडा/अचंडि	विशेषण	बंगला, कन्नड	1 क्रोमल शान्त स्वभाव स्त्री
अचण्डि		मलयालम, संस्कृत	2- शान्त गाय, सीधी गाय
अचंद्र (द्विक)	विशेषण	हिंदी, बंगला	चंद्र चिह्न रात्रि
अचन्द्र	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	अमावस्या की रात्रि
अचड़	विशेषण	गुजराती	खाने म जो रकम न लिखी गयी हो न चट्टी न लिखा रकम
अचतुर	विशेषण	असमी, कन्नड, हिंदी	1- जो चतुर, कुशल, पटु, निपुण नही
अचतुर		बंगला, मराठी	2- सरल, सीमा साधा, मदबुद्धि, भादू, अनाड़ी
अचतुर		मलयालम, संस्कृत +	3- चार मग्या संरहित, जिसमें का अकनहो (कन्नड)
अचपल	विशेषण	मराठी, मलयालम	1 जो हिले झुले नदी, दाये-बाये गति न हो
अचपल		कन्नड, बंगला, हिं	2 स्थिर, दृढ़, स्थायी, निश्चित
अचपलता	सज्ञा	हिंदी	स्थिरता, दृढ़ता, चचलता न होना
अचपलते		कन्नड	स्थायित्व, अचचलता
अचम्भ (असंभव)	सज्ञा	नेपाली	अचंभा, आश्चर्य, ताजुब, गजब
अचमत्कार	सज्ञा	कन्नड	प्रशमनीयता की कमी, अस्पष्ट शैली

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अचर	विशेषण	गुजराती, नेपाली	1- गतिहीन, स्पन्दनहीन, खिसके नहीं, स्थिर, जड़
अचर		मराठी, असमी, हिंदी	2- अचल, स्थावर, निश्चल, स्थितिशील
अचर		उड़िया, बंगला, संस	3- जो चर न हो, चलने वाला न हो
अचर		मलयालम, कन्नड	4- जो चल न सकता हो या न चलता हो
अचरम्		तमिल	5- जिसे हिलाया या हटाया न जा सके
अचरमु		तेलुगु	6- स्थावर प्राणी या पदार्थ
अचल्ल		पंजाबी	7- चिरस्थायी अटल, अपरिवर्तनशील
अचरम	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1- अतिम नही, जिमकी चरममांसा पराकाष्ठा न
अचरमं	अटल	मलयालम	हूँ हो 2- मध्य का (मलयालम)
अचर राशि	सज्ञा	मलयालम हिंदी	वृषिचक्र, वृष सिंह तथा कुम्भ स्थिर राशियाँ
अचरित	भूत कृदन्त	हिंदी	1- जिम पर कोई न चला हो, जिसका आचरण न किया
अचरित		बंगला	हो, जो ग्वाया न गया हो
			2- शाश्वत, आत्मा, ब्रह्म + 3- अपूर्व, अद्भुत (बंगला)
अचलता	सज्ञा	सिंधी, कन्नड	1- स्थिरता, अप्रचलन अव्यवहार, गति हीनता
अचलनु		बंगला	+ 2- जड़ता, मूर्खता (सिंधी)
अचल	विशेषण	हिंदी, मराठी, संस	1- जो अपने स्थान में न हटे न चले जिमका चलन नहीं,
अचल		नेपाली, बंगला	दृढ़, स्थिर, स्थायी, निश्चित, गतिहीन, ध्रुव
अचल, अचलं	विशेषण सज्ञा	कन्नड, मलयालम	2- पगु, अटल, (इम्मूवेबल) स्थावर, एकनिष्ठ,
अचलु		सिंधी	दृढ़निश्चयी व्यक्ति
अचल्ल	सज्ञा	पंजाबी	3- पहाड़, चट्टान कील, ग्वृटी, पृथ्वी, मुक्ति, महायोगी
अचलम्	सज्ञा	तमिल	4- आत्मा, ब्रह्म, शिव, अपरिवर्तनशील, अविचलित
अचलमु		तेलुगु	5- मानकी मग्या (पर्वत मग्यामे प्रहीन)
अचलुडु (व्यक्ति)	सज्ञा	तेलुगु	+ 6- एक प्रकार का शिवलिंग (तमिल)
अचलचलम्	सज्ञा	तमिल	शिवलिंग जो गर्भगृह में स्थिर और दूसरा जो
			पूजा के लिए दैनिक ग्राम परिक्रमा में ले जाया
			जाता है
अचलनु	विशेषण	मलयालम	दृढ़ निश्चयी व्यक्ति, स्थिर; ईश्वर
अचलनीष	विशेषण	बंगला	चलने या प्रचलन के अनुपयुक्त
अचलतड़ित	सज्ञा	बंगला	1- स्थिर विद्युत 2- अति रूपवती नारी
अचलन्ति	विशेषण	उड़िया	1- स्थिर 2- पर्वतराज

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अचलपत्ति	संज्ञा	सं.स. गुजराती, मलयालम, हिंदी	पर्वतराज हिमालय, मेरुपर्वत, पर्वत
अचलजा		हिंदी, मलयालम, सं.स.	पार्वती, हिमराज हिमालय की पुत्री
अचल तनया/सुता		हिंदी, मलयालम, सं.स.	पर्वतराज की पुत्री व शिव की पत्नी
अचल दुहिता/नदिनी		हिंदी, मलयालम	पर्वत पुत्री, पार्वती
अचलपद	संज्ञा	गुजराती, मराठी	1- नित्य एक ही रहने की स्थिति, निरंतर अभिव्यक्ति + 2 मोक्ष श्रुतवाण, अटल पद (मराठी)
अचलराज	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	पर्वतराज हिमालय
अचललिङ्गं (मू)	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	1 स्थिर मूर्ति 2- गोपुर
अचल सम्पत्ति	संज्ञा	हिंदी	स्थिर न हटायी जा सकने वाली सम्पत्ति
अचला	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 न चलित होने वाली पृथ्वी, स्थिरा
अचलै, अचले	संज्ञा	तमिल, कन्नड, सं.स. बंग.	2- पार्वती लक्ष्मी स्थायी दृढ़
अचलागौर	संज्ञा	मराठी	मकरगम्भान्ति को स्थिरों द्वारा किया जाने वाला व्रत पूजन
अचलाधिप	संज्ञा	हिंदी	पर्वतराज हिमालय
अचला सप्तमी	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	माघ शु. 7 वा मसमी
अचला लक्ष्मी	संज्ञा	असमी	स्थायी धन सम्पत्ति
अचलित	विशेषण	गुजराती, मराठी	1- अप्रचलित, जो प्रयोग में न आये पुराना
अचलित		असमी, बंगला, कन्नड	2- निश्चल स्थिर, न हिलाया डुलाया, दृढ़
अचर्बण	विशेषण	असमी	बिना चचाये निगलना
अचर्व्यु	विशेषण	गुजराती	1- न चाया या चचाया हुआ 2- न कहा हुआ
अचलिष्णु	संज्ञा	बंगला	अगमनशील, भालमी, स्थितिशील
अचलेन्द्र	संज्ञा	कन्नड	पर्वतराज हिमालय, मेरु
अचलेन्द्र तनुजे	संज्ञा	कन्नड	पार्वती, हिमालय पर्वत की पुत्री
अचांचल्य	विशेषण	मराठी	स्थिरता (विचारों की)
अचाट	विशेषण	मराठी	विलक्षण, असामान्य, लोकोत्तर, कल्पना, बुद्धि, बल
अचाट	विशेषण	बंगला	अचपलता, दृढ़ मतिवत्
अचाक्षुष	विशेषण	हिंदी, बंगला	जो आँखों से न दिखे, अप्रत्यक्ष, अदृष्टिगोचर
अचाचल्य	विशेषण	हिंदी, बंगला, मराठी	चपल न होने की अवस्था या भाव, अचाचल्य, गाम्भीर्य, स्थैर्य

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अचातुर्य	सज्ञा	हिंदी, कन्नड	चतुरता का अभाव, मूर्खता, बेवकूफी
अचानक	क्रिया विशेषण	हिंदी, नेपाली	1- अकस्मात, एकाएक, सहसा, बिना पूर्व सूचना
अचानक		उड़िया, मराठी	के 2- गुपचुप, यकायक, अज्ञानात
अचानक		नेपाली, पंजाबी	+ 3- अपड्रंट, अनायास (नेपाली)
अचार संचार	विशेषण	असमी	1- देखभाल न होना 2- दुर्लभ, दुर्घ्राप्य, अपरिचित
अचार	विशेषण	हिंदी	जो चारु या सुन्दर न हो, असुन्दर, कुरूप
अचाल	सज्ञा	मराठी	काम बढ़ होना, अड़ना
अचालक	विशेषण	हिंदी	जिसमें विद्युत संचार न होता हो, जैसे लकड़ी
अचालन	सज्ञा	बंगला	अप्रयोग, अव्यवहार, अप्रचलन
अचालनीय	विशेषण	बंगला	जो प्रचलित न हो सके, जो चलाने योग्य नहीं
अचालू	विशेषण	हिंदी	1 मुद्रा, वस्तु जो चलन में न हो, जो धीरे चले 2 जिसका चलन या व्यवहार कम हो
अचाल्य	विशेषण	बंगला	1 जो चलाना या हिलाना न जा सके 2 अप्रयोज्य, अव्यवहार्य
अचाह	विशेषण	हिंदी	जिसे चाह न हो न चाहने वाला
	सज्ञा	हिंदी	चाहना, इच्छा या कामना का अभाव
अचाही	विशेषण	हिंदी	जो चाहता न हो या जिसे चाहना न हो
अचाहा	विशेषण	हिंदी	1- अनिच्छित, अवर्षित 2 जिसके प्रति रुचि, प्रीति, लगन न हो
अचिकित्सक	सज्ञा	बंगला	अयोग्य चिकित्सक, अनाड़ी वैद्य, कुवेद्य
अचिकित्सनीय	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1 जिस रोग या रोगी का इलाज सम्भव न हो
अचिकित्सनीय		बंगला, मराठी	2 अमाध्य रोग या रोगी
अचिकित्स्य		हिंदी, नेपाली, बंगला	3 जो औषधीयचार में मध्य न हो सके
अचिकित्सा	सज्ञा	बंगला, मलयालम	चिकित्सा का अभाव
अचिकण	विशेषण	कन्नड	चिकना नहीं, स्फुरकटोर
अचित्त	विशेषण	हिंदी, बंगला	1 अचेतन, जड़ पदार्थ; गतिहीन, बिना
अचित्त		मलयालम, तमिल, संस	माच समझ कर किया हुआ, अप्रत्याशित
अचिनु	सज्ञा	तेलुगु, मलया	2- आत्मा नहीं, प्रकृति या पदार्थ

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अचित्	सज्ञा/विशेषण	हिंदी	1- चेतनारहित, अचेतन, जड़, ज्ञानहीन, जड़जगत
अचित्	विशेषण	संस्कृत	2- गमानुजाचार्य क अनुगार तीन पदार्थों में से एक जो अचेतन या जड़ और दृश्य व भोग्य माना गया है
अचिर्ताचेत	सज्ञा	बंगला	जिसके मन में ज्ञान न हो, अज्ञानान्तःकरण
अचित्र	सज्ञा	हिंदी, मलयालम, संस	1- चित्र रहित, जिसका कोई चित्र या रूप न हो
अचिनु	विशेषण	सिंधी	2- जो बहुरंगा न हो, जिसमें भेद न किया जा सके
अचित्ति	सज्ञा	मलयालम, हिंदी	1- अप्रत्याशित, बिना विचार, बुद्धिहीन, चेतना शून्य
अचित्ति		बंगला	2- मृद्वता मृग्यता, ज्ञान का अभाव, जड़ता
अचिन्	सज्ञा	असमी, बंगला	पहचान न हो अपरिचित अज्ञात
अचिन्त	विशेषण	असमी, कन्नड	चिन्ता रहित निर्गन्धन बेफिक्र
अचिन्ता		उड़िया	परमानंद में चिन्ता में पूर्णतया मुक्त
अचिन्त	विशेषण	पंजाबी, बंगला	1- जिसका चिन्तन न हो सके
अचिन्त्य		संस्कृत, कन्नड	2- अज्ञेय कल्पनातीत आकस्मिक
अचिन्ते		असमी	3- बिना चिन्ता बिना परेशानी के
अचिन्तनीय	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1- जिसका चिन्तन अनुमान, कल्पना न हो सके
अचिन्तनीय		असमी, बंगला	2- कल्पनातीत, अकल्पनीय, अज्ञेय, आशातीत
अचिन्तनीय		मलयालम, संस	3- अतकनाथ अचिन्त्य चित्रागत, दुर्बोध, अगम्य
अचिन्तित	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1- जिसका चिन्तन न किया गया हो जो सोचा न गया
अचिन्तित		मराठी, असमी, बंगला	हा अकस्मिक, अकल्पित अप्रत्याशित, जो
ओचितो		सिंधी	फिक्रमन्द न हो, उपेक्षित अतिरिक्त अभावित
अचिन्तित		मलयालम, संस्कृत	2- दर्शित, जो चिन्तित न हो, निर्गन्धन
अचिन्दित्		तमिल	3- अचिन्तित
अचिन्तितपूर्व	विशेषण	बंगला	जिसको पहले चिन्ता न की गयी हो, अप्रत्याशित, उपेक्षित
अचिन्त्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती, बंगला	1- देखें:- अचिन्तनीय
अचिन्त्य		नेपाली, मराठी, उड़िया	2- विचारातीत, दुर्ज्ञेय, गूढ़, चिन्तातीत, न सोचा हुआ
अचिन्तुं अचिन्त्यम्		गुजराती, तेलुगु	3- परब्रह्म जो तर्क ज्ञान से प्राप्त न हो
अतचिन्त्य		कन्नड, मलयालम	+ 4- एक हजार खरब (तमिल)
अचिन्तम्		तमिल	5- अकृत, आशासे अधिक

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अचिन्त्यपूर्व	विशेषण	बंगला	जिसके विषय में पहले न सोचा गया हो
अचिन्त्यज	सज्ञा	मलयालम	बुध, ग्रह, (मर्करी)
अचिन्त्यन्	सज्ञा	मलयालम	शिव, विष्णु
अचिन्त्याव्यक्त	सज्ञा	मराठी	इन्द्रिय गोचर न हो 2- ईश्वर जो तर्क बुद्धि से परे हो
अचिह्नित	विशेषण	बंगला	चिह्न वर्जित, अपरिचित
अचिर	विशेषण	हिंदी, गुजराती, उड़िया	जो क्षण-स्थायी हो, हाल का, चिरकाल नहीं,
अचिर		मराठी, असमी, बंगला	क्षणिक, अस्थायी, अनित्य
अचिर		नेपाली, संस्कृत	अव्यय शीघ्र, हाल ही में, कुछ ही पहले
अचिर		कन्नड, मलयालम	तुरन्त, तत्काल, अचिराम से
अचिरम्		तमिल	सज्ञा--शीघ्रता, अल्पकाल, अदीर्घता
अचिरमु		तेलुगु	
अचिरकाल	सज्ञा	मराठी, बंगला	थोड़ी कालावधि, नश्वर, अस्थायी
अचिरस्थायी	विशेषण	हिंदी, मराठी	अस्थायी, क्षणभंगुर, नश्वर, जो टिकाऊ न हो.
अचिरस्थायी		असमी, बंगला	क्षणिक, शीघ्र नाश को प्राप्त होने वाला
अचिरकारी	विशेषण	बंगला	जो जल्दी काम कर ले
अचिरक्रिया	सज्ञा	बंगला	शीघ्र कार्य संपादक, अदीर्घ सूत्री
अचिरगामी	विशेषण	बंगला	शीघ्रगामी, द्रुत गामी, वेगवान
अचिरता	सज्ञा	बंगला, हिंदी	क्षण भंगुरता, नश्वरता, अल्पकालीन
अचिरते अचिरे	क्रिया विशेषण	असमी	शीघ्र, पहले, जल्दी
अचिरद्युति	सज्ञा	हिंदी, बंगला	1. अस्फाशोच नवनवी क्षणिक चमक
अचिरद्युति		कन्नड, मलयालम	2- तड़ित, बादला की बिजली
अचिर प्रभा	सज्ञा	हिंदी, कन्नड, संस्कृत	3- अल्पकालीन ज्योति, क्षणिक प्रभा
अचिरपरिचित	सज्ञा	मलयालम, मराठी	क्षणिक परिचित, नाज्ञा जानकारी
अचिरांशु	अव्यय	हिंदी, कन्नड, संस	बिजली, चमत्काल नांडन
अचिरात्/अचिराते	अव्यय	नेपाली, बंगला	तुरन्त, तत्काल, मत्वर, आशु, शीघ्रता से
अचिरात्		मलयालम, संस्कृत, बंगला	इसी समय, बिना विलम्ब किए,
अचिराय	अव्यय	हिंदी, मलयालम, संस्कृत	बिना देर लगाये, अविलंब, हाल ही में
अचिरेण	क्रिया विशेषण	हिंदी, मलयालम	जल्दी, शीघ्र, अभी
अचिरे		असमी	

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अचिना/अचिन अचीन्हा	विशेषण	बंगला हिंदी	अपरिचिन, बिना जाना पहचाना, अज्ञात, अनजाना निचिन्न चिह्न विना
अचीर	विशेषण	हिंदी	वस्त्र हीन
अचुम्बित अचुम्बित अचुम्बितमु	विशेषण अव्यय	मराठी, कन्नड मलयालम, संस्कृत तेलुगु	1- जिसका चुबन न किया हो, जिसे मुंह से न छुआ हो, ताजा, अछूता, खालिस, शुद्ध, नया, पूरा 2- अप्राप्त, अनुपलब्ध, अपूर्व, अचूक, अदभुत, अपूर्ण + 3- जल्दी, तुरत, तत्काल, अचानक (मराठी)
अचूक अचूक अचूक अचूक	विशेषण	हिंदी, गुजराती नेपाली, मराठी पंजाबी सिंधी	1- चूके या भूल किये बिना, कौशल्यपूर्वक 2- अव्यर्थ, निश्चित, खाली न जाने वाला 3- भ्रम रहित, विफल न होने वाला, अमोघ अव्यय कौशल पूर्वक, सफाई से
अचूक बाण अचूक संधान	सज्ञा	गुजराती मराठी	1- लक्ष्यवेधी बाण, जो खाली न जाय ऐसा बाण 2- निश्चित लाभ की या इष्ट प्राप्ति की तसल्लीबख्श सलाह
अचूक संधानी अचूर्ण अचूर्णित	विशेषण विशेषण विशेषण	मराठी बंगला बंगला	बिना चूक लक्ष्य वेध, अकाट्य तर्क देने वाला जो चूरा न हो, साबुत 1- जो पीसा या चूरा न किया गया हो 2- अपीड़ित, अविध्वंसित; अपिष्ट; अनभिभूत
अचेत अचेत अचेतस अचेतु	विशेषण	हिंदी, गुजराती, पंजाबी नेपाली, उड़िया कन्नड सिंधी	विचेत, बेखबर, गाफिल, मूर्च्छित, बेहोश जिसमें जीवन या न प्राण हो, निश्चेष्ट, स्थिर चेतनाहीन, सज्ञा हीन, निर्जीव
अचेतन अचेतन अचेतन अचेतन अचेतनु अचेतनम् अचेतनम्	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी संस्कृत, असमी, नेपाली उड़िया, बंगला कन्नड, मलयालम सिंधी तमिल तेलुगु	1- चेतना, सज्ञा, ज्ञान, प्राण, बोध रहित 2- जड़, निर्जीव, निष्प्राण, मूर्च्छित, बेजान, मृत 3- जिसके होश-हवास ठिकाने न हो -बेसुध 4- मन का भीतरी या सुप्त प्रायः भाग जिसमें भावनाएँ, धारणाएँ आदि अप्रत्यक्ष कार्य करती है + 5- (सब कानशस) बोध हीन (तेलुगु) सज्ञा - जड़ पदार्थ

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अचेतनक	विशेषण	हिंदी	अचेत या बेहोश रहने वाला (एनस्थैटिक)
अचेतना	सज्ञा	हिंदी, गुजराती	चेतना न होने की अवस्था या भाव, जड़ता, बे भान पन
अचेतन-अर्थ	संज्ञा	कन्नड	(काव्य में) निर्जीव, जड़ पदार्थ
अचेतनीकरण	सज्ञा	हिंदी, नेपाली	औषधि से शरीर या किसी अंग को अचेत तुल्य या सुन्न करने की क्रिया
अचेता	विशेषण	हिंदी, बंगला	1- विचारशक्तिरहित, अचेतन, जड़, निर्जीव, मूर्च्छित
अचेतस्		संस्कृत	+ 2 अज्ञानी, निर्दयी (बंगला)
अचेतस्सु		मलयालम	+ 3- बुद्धिहीन (मलयालम)
अचेतक	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1- निर्वस्त्र, नग्न, चेलक अर्थात् वस्त्रहीन
अचेतकन्	सज्ञा	मलयालम	2- नग्न सन्यासी, वस्त्र पहने हुए नहीं
अचेष्ट	विशेषण	गुजराती, हिंदी	1- चेष्टा या गति से रहित, सज्ञाहीन, बेहोश
अचेष्ट		नेपाली, बंगला	2- जिसमें कोई चेष्टा या गति न हो या की जाये
अचेष्ट		मलयालम, संस्कृत	3- आलसी, सुम्न, निम्पन्द, उदासीन, अवश
अचेष्टा	सज्ञा	असमी	प्रयत्न या जोर डालने का अभाव, चेष्टा का अभाव
अचेष्टित	विशेषण	हिंदी, बंगला	कार्य जिसके लिए यत्न न किया गया हो
अचेतन्य	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1- चेतना बोध या ज्ञान भान हीनता, शून्यता
अचेतन्य	संज्ञा	मराठी, असमी	2- निरुत्साहीपन, मंदपन, मूर्च्छित भाव, जड़ता
अचेतन्य		बंगला, कन्नड	3- आत्मज्ञान रहित, जीवन्तता का अभाव, जड़ पदार्थ
अचेतन्यं		मलयालम, संस्कृत	4- बुद्धि या होश का अभाव
अचेन	विशेषण	हिंदी	1- बेचैन, अशान्त, व्याकुल 2- बेचैनी, व्याकुलता
अचोध	सज्ञा	कन्नड	अनुल्लेखनीय, परिचित
अचोष्य	विशेषण	मराठी	चूसने लायक नहीं
अच्छ	विशेषण	बंग, मलया, संस, हिंदी	1- छाया रहित, साफ, पारदर्शी, शुद्ध, निर्मल
अच्छो		सिंधी	2- वह वस्तु जिसमें छाया जैसा चिह्न नहीं
अच्छमु	विशेषण	तेलुगु	3- वह रत्न जिसमें कोई दाग न हो
अच्छमुगा	क्रिया विशेषण	तेलुगु	स्वच्छता से, शुद्धता से, साफ तरह से
अच्छत	सज्ञा	हिंदी	अक्षत, अखंडित, लगातार
अच्छत	संज्ञा	तेलुगु	स्वच्छता, शुद्धता, निर्मलता

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अच्छत	अव्यय	गुजराती	1- ज़ाहिर नहीं, छिपी रीति से 2- खबर न पड़े वह
अच्छत	क्रिया विशेषण	हिंदी	निरन्तर, लगातार
अच्छन्द	विशेषण	नेपाली	1- छद् बद्ध नहीं 2- ज्यादा, अत्यन्त 3- बेमेल का
अछंदरक	विशेषण	मराठी	4- छद् के नियमों का उल्लंघन करने वाला
अच्छन्दस्	सज्ञा	संस्कृत	1- वेदज्ञान रहित या वेदाध्ययन अधिकारी नहीं
अच्छन्दस्सु		मलयालम	2- जो गद्यमय न हो + 3 जो सनकी न हो (मलयालम)
अच्छन्न	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	ढका हुआ नहीं, अनाच्छादित, खुला, साफ़, स्वच्छ, उज्ज्वल
अच्छाय	विशेषण	बंगला	1- छाया रहित, आतपयुक्त 2- कान्ति या श्री हीन, गंदा
अच्छिन्न	विशेषण	पंजाबी	जो नाश न हो, जो टूटे नहीं, फूटे नहीं
अच्छिद्र	विशेषण	हिंदी, मराठी	1 जिसमें छेद न हो या दोष, त्रुटि, कमी न हो
अच्छिद्र		असमी, बंगला	2 अखंडित, अबाधित, झगड़े से मुक्त, कलक विहीन
अच्छिद्र	सज्ञा	कन्नड, मलयालम	3 एक सा बने रहने की स्थिति, त्रुटिहीनता (सज्ञा)
अच्छिद्र	अव्यय	मलयालम, संस्कृत	4- निर्दोषता से, अबाध रूप से, प्रसन्नता से
अच्छिड		उड़िया	+ 5- अगर्भता शून्य (बंगला)
अच्छिन्न	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1- जो कटा, टूटा, विभक्त, छिन्न न हो
अच्छिन्न		मराठी, मलयालम	2- अप्रियोज्य, अखंडित, अविभक्त, अबाध, संपूर्ण
अच्छिन्न		नेपाली	+ 3- ऐसा रत्न जिसमें बाल न पड़ा हो (मराठी)
अच्छिन्न		बंगला, कन्नड	+ 4- लगातार, सतत, अविच्छिन्न (नेपाली)
अच्छिन्न		संस्कृत	अव्यय शीघ्रता पूर्वक, अभी
अच्छिन्न धारा	सज्ञा	गुजराती	1- सतत बहता झरना, अखंडधारा 2- जिस पात्र में से लगातार धार पड़े
अच्छिन्नपत्र/पर्ण	सज्ञा	हिंदी	1- सदा बहार पेड़
अच्छिन्न पत्र		मलयालम	2- पक्षी जिसके पर न काटे गये हो (हिंदी)
अच्छेद	विशेषण	बंगला, हिंदी	खंडहीन, परिच्छेदहीन, विराम हीन, छेदहीन,
अच्छेदिक	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	जो काटने छाटने योग्य न हो, त्रुटिहीन,
अच्छेदिक	विशेषण	बंगला	सम्पूर्ण, साबुत, अखंडित
अच्छेद्य	विशेषण	बंगला, मलयालम	1- जिसमें छेद या काट-छांट करना उचित या
अच्छेद्य		नेपाली, हिंदी	संभव न हो, अखंडनीय, त्रुटिहीन

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अच्छेद्य अछेद		उड़िया, संस्कृत पंजाबी, हिंदी	न फटने वाला, छेदने के अयोग्य; अमेघ, अविभाज्य
अच्छेद्य अभेद अच्छेद्य अभेद	विशेषण	मलयालम, असमी संस्कृत	1. जो छेदा या तोड़ा न जा सके, शक्तिशाली + 2. निरन्तर (असमी)
अच्युत	सज्ञा	असमी, बंगला	1. जो अपने स्वरूप, सामर्थ्य या स्थान से गिरा न हो, जो पथभ्रष्ट न हुआ हो
अच्युत	विशेषण	नेपाली, संस्कृत	2. जिसमें धूल त्रुटि न हो, अन्नष्ट, पतन बिना
अच्युत		उड़िया, हिंदी	3. अविचल, अटल, शाश्वत, अविनाशी,
अच्युत		गुजराती, मराठी, कन्नड	4. स्थायी, अक्षय, अव्यय, अनश्वर
अच्युतं / अच्युतन्	सज्ञा	मलयालम	5. विष्णु और उनके अवतारी नाम
अच्युदय/अच्युदन्	सज्ञा	तमिल	5. एक जैन देवता, स्कंध का एक गण
अच्युतमु/ अच्युतुः	सज्ञा	तेलुगु	
अच्युत कल्प	सज्ञा	कन्नड	जैनधर्म के अनुसार सोलहवें म्वर्ग का नाम
अच्युत कुल	सज्ञा	हिंदी	वैष्णवों का एक सम्प्रदाय (रामानदी)
अच्युत गोत्र	सज्ञा	हिंदी	अच्युत कुल
अच्युतत्व	सज्ञा	कन्नड	शाश्वतता, अच्युत या विष्णु होना
अच्युत पुत्र	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	कामदेव, कृष्ण रुक्मिणी के एक पुत्र का नाम
अच्युत पुत्रन्		मलयालम	
अच्युत पूर्वजन्	सज्ञा	मलयालम	इन्द्र, बलराम, अच्युत अर्थात् कृष्ण का बड़ा भाई
अच्युताग्रज	सज्ञा	हिंदी, कन्नड, मलयालम	इन्द्र, अच्युत अर्थात् विष्णु का बड़ा भाई
अच्युत मध्यम	सज्ञा	हिंदी	सगीत में मध्यम स्वर का एक विकृत रूप
अच्युत मूर्ति	सज्ञा	हिंदी	विष्णु भगवान का विग्रह
अच्युत बास	सज्ञा	हिंदी	वट या अश्वत्थ वृक्ष जिसपर विष्णु बसते हैं
अच्युत बासं		मलयालम	पवित्र अजीर का वृक्ष
अच्युत बह्व	सज्ञा	हिंदी	सगीत में षड्ज स्वर का एक विकृत रूप
अच्युतानन्द	सज्ञा	हिंदी	कामदेव, कृष्ण का एक अगज या पुत्र
अच्युतौ	सज्ञा	तमिल	पार्वती, अच्युता
अच्युतानन्द	सज्ञा	गुजराती, हिन्दी	अखडानद, आत्मानद, जो सदा आनंदित रहे
अछक	विशेषण	हिंदी	1- जिसने भरपेट भोजन नहीं किया, भूखा
अछग		हिन्दी	2- जो तृप्त नहीं हुआ, अतृप्त

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अछकना	अव्यय, क्रिया	हिंदी, पंजाबी	तृप्त या संतुष्ट न होना, अभावग्रस्त रहना
अछत	विशेषण	हिंदी	1- जो उपस्थित या वर्तमान नहीं 2- अविद्यमान, सिवाय, अलावा
अछत	क्रिया विशेषण	हिंदी	किसी के उपस्थित या वर्तमान रहते हुए
अछत्र	विशेषण	गुजराती	1- छत्र बिना, खुला 2- सिर पर बड़े का साया न होना
अछन	संज्ञा	उड़िया, हिंदी	अ-क्षण, बहुत दिन, दीर्घकाल
अछन	क्रिया विशेषण	हिंदी	धीरे धीरे, रुक रुक कर
अछप	विशेषण	हिंदी	जो छिप न सके, प्रकट, स्पष्ट
अछय/अछया	विशेषण	हिंदी, उड़िया	अक्षय/अक्षया, जो क्षय न हो, नाश न हो
अछल	विशेषण	हिंदी	1- निश्चल, निष्कपट 2- मीधा सरल 3- भोला सुशील
अछांदस	विशेषण	गुजराती	छद् रहित
अछाप	विशेषण	नेपाली	छापा न लगा हुआ, बिना छाप वाला
अछाम	विशेषण	हिंदी	अक्षम, दुबला पतला या क्षीण नहीं, मोटा-ताजा.
अछिण्डा	विशेषण	उड़िया	हृष्ट-पुष्ट, बलवान
अछिद्र	विशेषण	हिंदी	त्रुटि हीन, दोष हीन
अछूत	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1- जिसे छुआ न जाय, अस्पृश्य, अपवित्र
अछूती		नेपाली, पंजाबी	2- अन्न्यज, हरिजन, छोटी जाति का आदमी.
अछूतु		सिंधी	अछूत वर्ग, न छूने वाली जाति
अछुओ		उड़िया	
अछूता	विशेषण	हिंदी, पंजाबी	1 जो छुआ न गया हो, काम में न लाया गया हो
अछुह		पंजाबी	2 कोरा, नया, ताज़ा, अस्पृष्ट
अछूतोद्धार	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	जिन जातियों को अछूत माना जाता रहा है
अछूत उधार		सिंधी	उनको ऊँचा उठाना, सुधार करना या उनको अन्य जातियों की समानता पर लाना
अछेता	संज्ञा	नेपाली	पूजा में चढ़ाने वाला साबुत चावल, अक्षत
अछेव	विशेषण	हिन्दी	1 वस्तु जिसमें छिद्र या त्रुटि न हो 2 व्यक्ति - जो दोषी अपराधी न हो, निर्दोष
अछेह	विशेषण	हिंदी	बहुत अधिक, अत्यन्त, बेअंत, घना
अछेहु	क्रिया विशेषण	सिंधी	बिना रुकावट के या बाधा के, निरन्तर
अछोत/अछोता	विशेषण	पंजाबी	अछूता, निर्लेप

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अछोप	विशेषण	हिंदी	1- जो ढका या आच्छादित न हो, नगा 2- अन्ल-ज 3- दीन हीन
अछोभ	विशेषण	हिंदी	क्षोभ रहित, शान्त, गभीर, निर्मोह, निर्भीक
अछोर	विशेषण	हिंदी	1- जिसका छोर किनारा न हो, असीम 2- बहुत लंबा चौड़ा, विस्तृत 3- अत्याधिक
अछोह	विशेषण	पंजाबी	1- जिसे छुआ, स्पर्श न किया गया हो या न किया जा सकता हो, ग्यश न किप्र नान पाग 2- जिसमे छोह, प्रेम, ममता न हो, निर्दय, निष्ठुर छोह, क्षोभ, ममता का अभाव, उदासीनता (सज्ञा)
अछोह	विशेषण सज्ञा	हिंदी	2- जिसमे छोह, प्रेम, ममता न हो, निर्दय, निष्ठुर छोह, क्षोभ, ममता का अभाव, उदासीनता (सज्ञा)
अजंगम	विशेषण	मलयालम	1 स्थिर, अचल
अजंगम	सज्ञा	मराठी	+ 2- स्थावर, वृक्ष, पर्वत (मराठी)
अजंप अजंपो	सज्ञा	गुजराती	जम्प या शान्ति का अभाव, अशान्ति
अज	विशेषण	संस्कृत, हिंदी, असमी	1- अजन्मा, अज्ञान, अगन्तकाल से वर्तमान,
अज		गुजराती, नेपाली, उड़िया	अनादि, स्वयम्भू
अज		मराठी, बंगला	+ 2- अज्ञानी, मूर्ख (असमी)
अजं	सज्ञा	मलयालम	3- ब्रह्मा, कामदेव शिव, विष्णु आदि की उपाधि
अजुडु	सज्ञा	तेलुगु	4- माया, चन्द्रमा, बकरा, मेघ, मेघराशि, तीन
अजडन्/अयन्		तमिल	नक्षत्रों का एक झुट, अग्नि या सूर्य काग्य
अजन्मा	सज्ञा	मराठी	
अयगणकु	सज्ञा	तमिल	ब्रह्मा द्वारा निर्दिष्ट प्रारब्ध, भाग्यलेख, विधना
अयगणकु		तमिल	के अक्षर
अजन्मणम्	सज्ञा	तमिल	हिंदुओं के विवाह का एक प्रकार, कन्या द्वारा निर्णीत वर के वजाय अन्य व्यक्ति से विवाह मूर्ख व्यक्ति
अजगौ	सज्ञा	असमी	अतिप्रचुर, यथेष्ट, सर्वदा (अपर्याप्त पुराने अर्थ में)
अजच्छत	विशेषण	बंगला	जटा बिहीन, सिर के बालों की मोटी लट नहीं
अजटा	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	
अजड	विशेषण	हिंदी, नेपाली, कन्नड	1- जो जड़ न हो, चेतन, सजीव, समझदार, मूर्ख नहीं
अजड		मलयालम, संस्कृत	+ 2- स्थूलता या उच्चता की अनिश्चयता बताने वाला
अजडन्		तमिल	शब्द (नेपाली) 3- मूर्ख, आलसी व्यक्ति (तमिल)

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अजडांश	सज्ञा	मराठी	पचभूतात्मक शरीर नहीं, आत्मा
अजन	विशेषण	हिंदी, कन्नड, संस्कृत	1 जहाँ एक भी मनुष्य न हो, निर्जन, जनशून्य
अजन्	सज्ञा	तमिल, मलयालम	2- अजन्मा, वृद्ध, विष्णु, देवता, ब्रह्मा
अजनन्		मलयालम	+ 3- जो अच्छा आदमी न हो, बुरा, नीच व्यक्ति (हिंदी)
अजणा		उड़िया	+ 4- नेता (मलयालम)
अयन् मनैवि	सज्ञा	तमिल	अज मनैवी, ब्रह्मा की भार्या, सरस्वती
अजननि	सज्ञा	मलयालम, कन्नड	1- भूमि 2 जीव नाश 3 एक गाली 4- मातृहीन
अजननि		संस्कृत, हिंदी	+ 5 जन्मराहित्य (हिंदी)
अजन्म	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1- जिमने जन्म न लिया हो, अनुत्पन्न, अपूर्णजन्म
अजन्म	सज्ञा	मराठी, बंगला	2 जिसका जन्म न हुआ हो, जन्म रहित,
अजम्		तमिल	3- जो बिना जन्म लिये अस्तित्व मे आया हो
अजन्मा		मलयालम, नेपाली	स्वयम् ब्रह्मा माया, मीता, ईश्वर, लक्ष्मी
अजन्मो		सिंधी	4 जन्म न रने म मज्ज मक्ति मोक्ष
अजन्		तमिल	+ 5 नागज दागला (हिंदी)+ मीनजन्म (बंगला)
अजन्मन्		संस्कृत	6 जन्म की अनुपस्थिति दांभक अतिवृष्टि या अनावृष्टि अण्डाण अनाज नष्ट होना
अयनात्	सज्ञा	तमिल	1 ब्रह्मा का दिन 2 ब्रह्मा की भाय 3 गर्भिणी नक्षत्र
अजन्य	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1- उत्पादन के अयोग्य, अजननीय
अजन्यं		कन्नड, मलयालम	2 मानवता के लिए अहितकर या अशुभ यथा भूचाल आदि दैवी उत्पात
अजन्नियम् (अजन्य)	सज्ञा	तमिल	शकुन
अजपानटनम्	सज्ञा	तमिल	तिरुवायूर के नाग राज देव का नाच
अजप	सज्ञा	मलयालम, मराठी	1- जो मत्र श्वास प्रश्वास के साथ चले, हसमत्र
अजपा	सज्ञा	असमी, बंगला, पंजा	2 श्वास लेने छोड़ने की क्रिया के साथ होने वाला हस मत्र (मोहम्)
अजपै/अजपा		तमिल, नेपाली	3- जो जपा न जाय, जप शून्य. अपवर्जित,
अजप्य/अजप्या		पंजाबी	4- यथा शास्त्र या विधिपूर्वक जप न करना
अजपा जप		हिंदी, गुजराती, पंजाबी	5- मुख से न बोलना, मन ही मन जप करना
अजापा/अजप		कोंकणी	+ 6- शास्त्र निषिद्ध ग्रथ पढ़ने वाला (मराठी)
अजपम्	सज्ञा	तमिल	7- मन ही मन ध्यान रहने वाला तात्रिक मत्र
अजपियो	सज्ञा	सिंधी	

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अजमल	विशेषण	मराठी	1- अपेक्षित काम के लिए निरुपयोगी 2- इन्द्रिय अवयव आदि असमर्थ, अशक्त
अजमूर्ख	सज्ञा	असमी, बंगला	महामूर्ख, जड़मूर्ख
अजय	विशेषण	हिंदी, बंगला, असमी	1- जिसे जीता न जा सके, अपराजेय, दुर्जेय, अजेय
अजय		मलयालम, कन्नड	2- जय का अभाव, पराजय, जिसका अतिक्रमण न
अजय		नेपाली, संस्कृत, मराठी	किया जा सके
अजाय/अजय		कोंकणी	+ 3- परमेश्वर (पंजाबी) विष्णु, अग्नि (हिंदी)
अजै		पंजाबी	+ 4- छप्पय छद का एक भाग (हिंदी)
अजयं अजयन्	सज्ञा	मलयालम	5 जय का विगंधी भाग या विगंध
अजया	सज्ञा	हिंदी, बंगला	+ 1- जिसमें जय न हो, अपराजया, दुर्जया (बंगला)
अजया		संस्कृत, गुजराती	2- माया, भाँग, बकरी, दुर्गाकी एक महचरी
अजम्भ	विशेषण	मलयालम, कन्नड, संस्कृत	दंत विहीन
अजम्भन्	सज्ञा	मलयालम	मूर्य
अजम्भं	सज्ञा	मलयालम	मेढक, जिसके दांत नहीं होते
अजयी	विशेषण	बंगला	जीता नहीं, हारा हुआ, पराजित
अजय्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	जो जीता न जा सके, अपराजेय, दुर्जेय
अजय्य		मलयालम, कन्नड, बंगला	खेल में न जीतने योग्य
अजर	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 जरा रहित, क्षय रहित, अजीर्ण, अविनश्वर,
अजर	सज्ञा	असमी, उड़िया, नेपाली	वार्धक्य शून्य, मदा तरुण या जवान
अजर		बंगला, कन्नड	2- अविनाशी, परब्रह्म, देवता, एक पौधा
अजरं/अजरम्		मलयालम, संस्कृत	+ 3- सरग्वती नदी, छिपकली, एक पेय (मलया)
			+ 4- अपाच्य, मैत्री (कन्नड)
अजरन्	सज्ञा	मलयालम	1- देवता 2- परमात्मा
अजर-अमर	विशेषण	असमी	1- जरा, बुढ़ापा तथा मृत्यु रहित, देवता, परमेश्वर
अजरामर	विशेषण	कन्नड, उड़िया, बंगला	2- चिरकालिक, अक्षय
अजरामर		गुजराती, मराठी	3- यावत् चंद्रदिवाकर टिकने वाला
अजरु-अमरु		सिंधी	
अजरामरवत	सज्ञा	बंगला	जरा मृत्यु रहित व्यक्ति के समान
अजरा	सज्ञा	हिंदी, बंगला, संस्कृत	1- जरा नहीं, शैशव, यौवन, अवारधक्य 2- घृतकुमारी, छिपकली

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अजराबन	विशेषण	हिंदी	1- अजर करने, सदा एक सा बनाये रखने वाला
अजरावन	सज्ञा	हिंदी	2 अजर होने की अवस्था या भाव
अजरो	विशेषण	गुजराती	अपच
अजर्य	विशेषण	हिंदी, कन्नड	1- वृद्धता रहित, चिरस्थायी, नाश हीन, जरा रहित
अजर्य	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	2 जो पचाया या हजम न किया जा सके + 3 मैत्री (हिंदी)
अजल	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1- जिम्मे जल का अंश न हो, निर्जल, सूखा
अजल		बंगला	+ 2 दूषित जल (बंगला)
अजलस्थल	सज्ञा	बंगला	1 जहाँ पानी, भूमि न हो या भूमि पर पानी न हो 2 आश्रय अचलब हीनता, निम्नहाय अवस्था
अजस	सज्ञा	हिंदी, उड़िया	1 यश का अभाव, अपयश
अजश		गुजराती	2 बेआवरू, बदनामी, अपकीर्ति
अजसी	विशेषण	हिंदी	1 जिम्मे अच्छा काम करके भी यश न मिले 2 जिम्मेके हाथ में यश न हो बदनाम
अजस्र	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 निरन्तर मतल लगातार, अटूटक्रम, एक धारा,
अजस्र		नेपाली, मराठी, बंगला	विना रुक सदा, सर्वदा, अचिरत, हमेशा, बारबार
अजस्र		असमी, उड़िया	+ 2- बहत, बड़ा विशाल, भीमकाय, प्रचंड (बंगला)
अजस्र		कन्नड, मलयालम	3 लगातार या बगबंद चलना चलना
अजस्रमु		तेलुगु	
अजस्रे	क्रिया विशेषण	असमी	बिना खोजे, आसानी से
अजस्त्र	अव्यय	मलयालम	मदा के लिए, निरन्तर, लगातार
अजहत्	विशेषण	हिंदी	न न्यागने वाला
अजहा	सज्ञा	मलयालम	एक काटेदार पौधा
अजहत् लक्षणा	सज्ञा	हिंदी, गुजराती	1 लक्षणा जिम्मे शब्द के मूल अर्थ के रहने हुए
अजहत्स्वार्था		मराठी, नेपाली	एक और अर्थ का बोध होता हो
अजहल्लक्षणा	सज्ञा	मराठी, गुजराती	2 वाच्यार्थ के अतिरिक्त लाक्षणिक या कुछ और
अजहल्लक्षणै		तमिल	आशय भी ग्रहण होता हो, अन्य गौण अर्थ की अभिव्यक्ति +3- उत्पादन लक्षणा (नेपाली)
अजहति	सज्ञा	हिंदी	न न्याग का लक्षण, अजहत् लक्षण.
अजहती		गुजराती	जो छोड़े या खोये नहीं

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अजहल्लिंग	सज्ञा	हिंदी	वह सज्ञा जो विशेषण के रूप में प्रयोग होने पर भी अपने लिंग को न छोड़े
अजा अजा	सज्ञा	मलयालम, मराठी संस्कृत, हिंदी	1- (वेदान्त में) प्रकृति, माया 2- बकरी, दुर्गा 3- भाद्रपद कृष्ण एकादशी 4 अजन्मा, अनन्त्यन्त
अजागर अजागर	विशेषण	हिंदी, बंगला मलयालम, कन्नड	1- जागरूक नहीं, जागता हुआ नहीं 2 अनमना, सावधान या जागरूक न होना
अजागर अजागरुकते	सज्ञा	संस्कृत, हिंदी कन्नड	+ 3 जागरण का अभाव, निद्रा, हमेशा सोया हुआ (बंगला) भृगराज पौधा (हिंदी)
अजाग्रत अजाग्रति अजाग्रिते अजागिति	विशेषण अव्यय	मलयालम, संस्कृत तेलुगु कन्नड तमिल	1 ध्यान न देना सावधान न रहना, अनमनापन 2- लापरवाही गफलत, घे खूबरी + 3 लापरवाही में (तेलुगु) 4 असावधान, ग्राफिल, बगार
अजाचक/अजाची अजाइच	विशेषण	हिंदी कन्नड	जो मागता नहीं, याचक या मागने वाला न हो जिगने याचना न की हो
अजाडुं	विशेषण	गुजराती	तकरार करने वाला
अजाण अजाण अजाणु अजाणा	विशेषण विशेषण	गुजराती, कन्नड मराठी सिंधी पंजाबी	1- जानने का अभाव, जाकिफ नहो 2 अनजान, नाममज्ञ गृथ्य बुद्धिहीन, अनाड़ी, अबूझ + 3 कृतघ्न अज्ञान नादान छोटी उम्र का बच्चा (पंजाबी)
अजाणता	विशेषण	मराठी	1 अनजान 2 भानाभाला 3 अन+अनु+भवी, अपरिपक्व बुद्धि
अजाबत	विशेषण	उड़िया	1 अन समझी में, अनजान में
अजाणे अजाणवे	अव्यय	गुजराती	2 अज्ञानता में, बिना जान बूझे
अजाणपणुं अजाणपुणा	सज्ञा	गुजराती पंजाबी	नादानो, बेसमझी अनजानपन, बचपनी अज्ञानता, अज्ञान, नाममझी
अजाणयुं	अव्यय	गुजराती	माने नहीं वह, अज्ञान
अजात अजात अजात	विशेषण	हिंदी, गुजराती मराठी, असमी बंगला, उड़िया	1 जो पैदा न हुआ हो, अनुत्पन्न, अजन्मा, गर्भस्थ + 2 अज्ञान कुल, अकुलीन, बदनाम, लफंगा, (बंगला) + 3 त्रिमूर्ती काई जति करने वाला (बंगाली)

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अजात		कन्नड, नेपाली,	+ 4- छोटी नीचजातिका, बुरेघरयावशका (हिंदी, पजा)
अजात		पंजाबी	5- जो होतो सही पर जिसका जन्म न हुआ हो, जन्मबंधन
अजात		संस्कृत	से मुक्त हो चुका हो, जन्महीन, मनातन
अजातं	सज्ञा	मलयालम	6- नपुंसक
अजात पंथ	सज्ञा	पंजाबी	जाति भेद न मानने वाला एक साधु संप्रदाय
अजात पंथी	विशेषण	पंजाबी	अजात पंथ को मानने वाला
अजात पक्ष	विशेषण	मराठी, मलयालम, हिंदी	जिमके पंथ न उगो हो
अजात पुत्र	सज्ञा	मलयालम	जिमके पुत्र न हो या पुत्र पैदा न हुआ हो
अजात यौवन	विशेषण	नेपाली	कुमारी जिमका यौवन प्रकट न हुआ हो
अजातरीया	विशेषण	असमी	जाति से च्युत या पतित
अजातरिपु	विशेषण	हिंदी, मलयालम, संस्कृत	जिमसे द्वेष रखने वाला कोई न हो, अजात शत्रु
अजातलोभि	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	कन्या को छोटी हो
अजातवैरि	विशेषण	मलयालम	जिमका कोई वैरी न हो, अजात रिपु, अजान शत्रु
अजात व्यवहार	सज्ञा	मलयालम, मराठी	नादानिय अप्राम व्यवहार 15 वर्ष से नीचे,
अजातव्यवहार		बंगला, संस्कृत, हिंदी	अव्यक्त भाव न्य धर का अनियम
अजातशत्रु	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 जिम - कोई विराधी, वैरी शत्रु न हो
अजातशत्रु	सज्ञा	नेपाली, मराठी	2 अजात शत्रु, जिमका वैरी पैदा न हुआ हो
अजातशत्रु		असमी, उड़िया, कन्नड	3 परम साधु मौष्य, निरीह, मरल, शान्त
अजातशत्रु		बंगला, मलयालम	4 किमी को दुश्म न देने वाला
अजातशत्रु		तेलुगु	5 शिव, या शक्ति, बिम्बमार का पुत्र
अजातशत्रु		तमिल	+ 6 घोर शत्रु (अगर्मी)
अजातारि		हिन्दी, बंगला, मलया	
अजातसिद्ध	सज्ञा	मराठी	निःसगत अग्निव्य से, जन्मासिद्ध, स्वयम्भू
अजाति	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	+ 1- अजन्म अनपन्न (मलयालम) सनातन
अजाति	विशेषण	हिन्दी, नेपाली	2 जिमकी कोई जाति न हो, जाति से सबंध न हो
अजाति/अजातिअ	विशेषण	उड़िया, बंगला	3- नोच जाति का, जाति पतित, भिन्न जाति
अजात/अजातरीया	सज्ञा	पंजाबी, असमी	4- जाति से निकाला हुआ (अपराध के कारण)
अजाती	विशेषण	हिन्दी	+ 5 हीन जाति, विकलांग, नपुंसक (बंगला)
अजान	विशेषण	हिंदी, नेपाली, असमी	1 अज्ञानी, नामसज्ञ, बोधहीन, विवेचनाहीन,
अयाणों		सिंधी	अनजान, मूग्, सीधा, अज्ञान
अजाण	सज्ञा	पंजाबी	2- अज्ञान, अभिज्ञान

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अज्ञानत	अव्यय	बंगला	अनजाने में किया हुआ
अज्ञान्ते/अज्ञाने	अव्यय	बंगला, हिंदी	अज्ञानता होते हुए, बिना जाने, अनजाने
अज्ञानता/ पन	सज्ञा	हिंदी	अज्ञान, नासमझी, अबोधता, अनभिज्ञता,
अज्ञान्यु		सिंधी	ज्ञान न होने की अवस्था या भाव .
अज्ञानपुणा		पंजाबी	नादानी, अज्ञानपन, बचपन
अज्ञानपणुं		गुजराती	अयाना होना
अज्ञाना	विशेषण	बंगला	अविदिन, अपरिचित विषय या वस्तु ,
अज्ञाना	विशेषण	पंजाबी	अपरिचित, जिसे अभी जाना नहीं, अज्ञान
अज्ञानित		असमी, बंगला	
अज्ञानि	विशेषण	असमी	जिसके पत्नी न हो, पत्नी विहीन
अज्ञानिकन्	मज्ञा	मलयालम	अविवाहित, विधुर, गृह
अज्ञान्ति	विशेषण	असमी	जिम्के विषय में कुछ भी न जाना जाय
अज्ञिक्य	विशेषण	गुजराती, कन्नड	अजेय, जीतने में कठिन
अज्ञिक (क्य)		मराठी	विजयी, अजित को जीतने वाला
अज्ञिक्यपत्र	मज्ञा	मराठी	किसी विद्या, कला, वाद, कुशती आदि में जीतने का प्रमाणपत्र अपनी हार का स्वीकृति पत्र
अज्ञिज्ञासनीय	विशेषण	बंगला	जो पूछा न जा सकता हो या पूछना उचित न हो, अपृष्ट्य
अज्ञिज्ञासित	विशेषण	बंगला	जो पूछा न गया हो, अपृष्ट
अज्ञिज्ञासी	विशेषण	असमी	जन्मदाता, अविद्येचक, जिसमें जिज्ञासा न हो
अज्ञिज्ञासु	विशेषण	बंगला	जो प्रश्न करना नहीं जानता या जो जानना नहीं चाहता
अजित	विशेषण	हिंदी, गुजराती, असमी 1	जो जीता न जा सके, जिसे किसी ने जीता न हो
अजित		मराठी, संस्कृत, कन्नड 2	अपराजेय, अपराजित, अजेय, अदमनीय,
अजित	मज्ञा	बंगला, नेपाली	अनियंत्रणीय, अवश, अनायत, अलंघ्य, कठिन
अजितन्		तमिल, मलयालम	3. जिसे दबाया न जा सके, जिसका समय न हो या
अजितम्		तमिल	समय न हो सके, पार न किया जा सके
अजितुडु		तेलुगु	4 शिव, विष्णु, कृष्ण, बुद्ध, जैन तीर्थंकर, एक देव
अजित्त/अजीत		पंजाबी	5- यत्तुर्दश मन्वन्तर के देवताओं का एक वर्ग
अजित्तु/अजीतु	मज्ञा	सिंधी	

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अजितात्मा अजितेन्द्रिय अजितेन्द्रिय अजितेन्द्रियन्	विशेषण सज्ञा	बंगला हिंदी, असमी, संस्कृत बंगला, मराठी मलयालम	1- इन्द्रिय दगन नहीं किया जिसने, अमंयमी, विषयामक्त, वासनाधीन 2- काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहकार के वशीभूत 3- आवेगों को वश में न रखने वाला
अजिह्व अजिह्व	विशेषण	मलयालम, कन्नड संस्कृत, हिंदी	अर्कटिल, मीधा, सरल, ईमानदार, खरग, सञ्च साधु
अजिह्वग	सज्ञा	कन्नड	मीधा ही जाना, बाण या तीर जो टेढ़ा नहीं है
अजिह्व अजिह्व अजिह्वन् अजिह्व	विशेषण सज्ञा सज्ञा	हिंदी, गुजराती बंगला, संस्कृत, कन्नड मलयालम मलयालम	1- जीभ रूह्त, जिसके जीभ न हो 2- गेढक जिसके जीभ नहीं होनी
अजीति	सज्ञा	मलया, संस, हिंदी	1 अक्षत होने की चरम्या 2- समृद्धि
अजीर्ण अजीर्ण अजीर्ण अजीर्ति	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी नेपाली, असमी, उड़िया बंगाली, कन्नड, संस्कृत, तमिल	1 अपच, बदहजमी, मदाग्नि अधिक भोजन से पैदा रोग, अपरिपाचित, अपरिपक्व 2 जराग्नि वृद्ध, दुर्बल नहीं अक्षुण्ण 3- झगड़ानु (असमी)
अजीर्णम्/अजीर्णन् अजीर्णम् /अजीर्णि अजीरण / अजीरन अजीर्निन्	सज्ञा	तमिल, मलयालम तेलुगु पंजाबी नेपाली	+ 4- भागी, दूधर, कठिन होना (हिंदी) 5 जो फटा पुराना, मुड़ा तुड़ा नहीं, अच्छी नयी हालत में 6 जीर्ण शीर्ण नहीं, नया, ताजा
अजीरणज्वरम्-अजीर्णज्वर		तमिल, संस्कृत	बदहजमी का बुग्वार
अजीर्ण विकार	सज्ञा	मराठी	अपच रोग मन्दाग्नि
अजीर्णन्	विशेषण	मलयालम	1- अपच 2- खराब सज्ञा गला नहीं
अजीरण बेदि	सज्ञा	तमिल	बदहजमी के दस्त
अजीरण बापु	सज्ञा	तमिल	बदहजमी से पेट फूलना
अजीर्ष	विशेषण	मलयालम	1- अविनाशी 2- हजम करने के अयोग्य
अजीरियम्	सज्ञा	तमिल	अविनाशी, जो कभी जीर्ण न हो
अजीर्णक रस	सज्ञा	मलयालम	अजीर्ण की औषधि, बदहजमी की दवा
अजीर्णांश	सज्ञा	मराठी, कन्नड	साधारण अपच, अनपचे अन्न का भाग

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अजीर्णी	सज्ञा	मराठी हिंदी	1- अपच मिचने का काढ़ा, अजीर्ण रोग गमन
अजीर्ति	सज्ञा	मलयालम	अजीर्ण, बदहजमी
अजीव	विशेषण	गुजराती, बंगला	1- जिसमे जीवन शक्ति नहीं निर्जीव, जड़
अजीब		मलयालम, हिंदी	2- जिसकी जीवन शक्ति नष्ट हो गयी हो, मृत
अजीब		संस्कृत	3- जिसमें चेतन शक्ति नहीं, अचेतन, अवसन्न
अजीबम्		तमिल	+ 4- जड़ पदार्थ, जैनमत मे धर्म, नीति आदि नौ तत्वों मे एक जड़ तत्व (गुजराती)
अजीवास्तिकायम्	सज्ञा	तमिल	जैन धर्म मे निर्जीव वस्तुओं को दो भागो मे बांटा है, अरूपी जिसमे धर्मात्मिकाय, अधर्मात्मिकाय आकाशात्मिकाय, काल और रूपी जिसे पुरकलात्मिकाय या अजीवात्मिकाय कहते है जो पचात्मिकायो मे एक है
अजीवन	विशेषण	मलयालम, हिंदी	1 जीविका विहीन, जिसकी रेज़ी रोटी का प्रबध न हो, जीविका हीनता,
अजीबनि		कन्नड, संस्कृत, हिंदी	
अजीवन	सज्ञा	मलयालम	2 मृत्यु, अस्मिन्व हीनता, जीवनाभाव
अजुक्त/अजुगतुं	विशेषण	गुजराती	अयुक्त, अयोग्य, अघटित
अजुट्ट	विशेषण	पंजाबी	अगम्बद्ध, अनुपमेय, जिसके साथ का दूसरा नहीं,
अजुट्ट		तेलुगु	वेजोड़, जिसके मुकाबिले का और नहीं
अजेय	विशेषण	मलयालम, हिंदी	1- अपराजेय, जीतने मे कठिन, दर्जेय,
अजेय		मराठी, गुजराती	अपराभवनीय, जो हारा न हो दुर्गमनीय
अजेय		संस्कृत, बंगला	+ 2 परमेश्वर (पंजाबी)
अजेय		कन्नड, उड़िया, नेपाली	3 जिसे कोई हरा न सके
अजेयमु	सज्ञा	तेलुगु	4- जो किसी मे पराजित न हो
अजीतु		सिंधी	5- सदा सर्वदा विजयी रहने वाला
अजे	सज्ञा	पंजाबी	अविजित, जिसे कोई जीत न सके
अजेयन्	सज्ञा	मलयालम	अपराजेय व्यक्ति, एक राजा का नाम
अजेत्र	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	विजयी नहीं, असफल
अजेव	विशेषण	हिंदी, बंगला	1- प्राणी सबधी नहीं, अजीव, निर्जीव
अजेव	विशेषण	संस्कृत, मलयालम	2- अप्राणिज, अजीवोत्पन्न (inorganic)

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अजोग	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1- अनबनाव, अक्षुभ मुहूर्त, बेजोड़, बेमेल, अनमेल
अजोग	विशेषण	पंजाबी	2- नामुनामिव, अयोग्य
अजोगो		सिंधी	अयोग्य, ना मुनामिव, अनुचित
अजोगी	विशेषण	मराठी	निरुद्योगी, आलसी, निरुत्साही
अजोड़	विशेषण	गुजराती, नेपाली	1- बेमेल, जो मलन खाता हो, बिना मिला,
अजोड़		बंगला	अनमेल, असंग्यद
अजुर/अजोर	विशेषण	नेपाली	2- जिसकी तुलना न की जा सके, अनुलनीय, अनुपायेय
अजोड़/अजोड़ा		नेपाली, पंजाबी	+ 3- झगड़ा, विगाड़ (पंजाबी)
अजुद		पंजाबी	+ 4- भयानक, ज्यादा (नेपाली)
अजोणा	मज्ञा	गुजराती	अधर ग्या हुआ
अज्ञ	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1- ज्ञानहीन, वृद्धि हीन, मूर्ख, अशिक्षित, अनजान
अज्ञ		मराठी, असमी	2- अनपढ़, अविद्यकी, ना समझ, बेचकूफ,
अज्ञ		उड़िया, बंगला	अचेतन, जड़, अनुभवहीन
अज्ञ		संस्कृत, नेपाली	+ 3- मामान्यज्ञान सम्पन्न आत्मज्ञान हीन,
अज्ञन्	मज्ञा	कन्नड, मलयालम	चेतना न (बंगला)
अज्ञुडु		तेलुगु	+ 4- जीवात्म, निर्जीव (मराठी)
अज्जन्	मज्ञा	तमिल	+ 5- अधगन्मज्ञानहीन, अज्ञानी (असमी)
अज्ञता	मज्ञा	असमी, उड़िया, हिंदी	अज्ञानता, मूर्खता, अल्पज्ञता,
अज्ञता		बंगला, नेपाली, तेलुगु	अनुभवशून्यता, जड़ता, अशिक्षा,
अज्ञते		कन्नड	अचेतन, ना समझी, अज्ञान
अज्ञतामूलक	विशेषण	बंगला	न जगने के कारण घटित
अज्ञात	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1- अपरिचित, अप्रिदिन, अप्रत्याशित, अप्रकट
अज्ञात		असमी, उड़िया, कन्नड	2- अप्रकाशित, अप्रसिद्ध, अज्ञानित, अगोचर,
अज्ञात		बंगला, नेपाली, संस्कृत	गुप्त, व्यक्तिगत, अज्ञान, जो स्वयं को ज्ञात न हो
अज्ञात		मलयालम, तेलुगु	3- जो जाना न गया हो या जिसे कोई न जाने,
अगिआत		पंजाबी	अनजाने में, बिना जाने
अकियादम्	क्रिया विशेषण	तमिल	
अज्ञात कर्तृक	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	बिना नाम ज्ञात हुए, बेनाम. अज्ञातनामा
अज्ञात कुल	विशेषण	हिंदी	जिसके वंश व चरित्र का ज्ञान न हो,
अज्ञात कुलशील		असमी, बंगला	पूर्ण अपरिचित, जिसके कुल का पता न हो

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अज्ञात कृत	विशेषण	असमी	अज्ञानवश किया गया
अज्ञात मुकिरुदम्	विशेषण	तमिल	अनजाने में किया गया पुण्य कार्य
अज्ञात चरित	विशेषण	बंगला	जिसके आचरण, स्वभाव आदि का परिचय न हो
अज्ञात-चर्या	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	गुप्त रूप से, छिपकर या छिपाकर कार्य करना, अज्ञातवास
अज्ञात नाम	विशेषण	बंगला	1 जिसका नाम सुना, विदित या ज्ञात न हो
अज्ञातनामा		हिंदी, नेपाली	2 अप्रसिद्ध, जिसका नाम ज्ञात न हो
अज्ञातनामन्		संस्कृत, हिंदी	3 अविख्यात, जिसका नाम नहीं चला
अज्ञात पातक/पाप	विशेषण	मराठी	अनजाने में किया हुआ पाप
अज्ञातपितृक	संज्ञा	हिंदी, बंगला	1 जिसके पिता का पता नहीं, जिसे अपने पिता का पता न हो 2- वेश्या पुत्र 3- राम जना
अज्ञातयौवना	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	1 जिसे यौवनागम का पता न हो, मुग्धानार्यिका
अज्ञातयौवना		बंगला, मराठी	2 अप्रकाशित यौवन
			+ 3 जिसके यौवन को अनुभव न किया जा सके (वग)
अज्ञात पूर्व	विशेषण	हिंदी, मराठी	1 जो पहने जाना या अनुभव न किया गया हो
अज्ञातपूर्व		संस्कृत, कोंकणी	2 जिसका पहने पता न लगाया गया हो
अज्ञात पूर्व		मलयालम	3 जो पहने में ज्ञात न हो
अज्ञातवास	संज्ञा	हिंदी, बंगला, मराठी	छद्मवेश में गुप्त रूप से रहना
अज्ञातवासु		सिंधी	गुप्त रूप में अवस्थान
अज्ञातवास (मु)		मलयालम, तमिल	ऐसा छिपकर रहना जिसका किसी को पता न चले
अज्ञातवासमु		तेलुगु	
अज्ञातसार	संज्ञा	उड़िया	अनजाने
अज्ञातसारे		बंगला	अज्ञानित रूप में, अगोचर रूप से
अज्ञाता	संज्ञा	हिंदी	1 जो नहीं जानता, जिसे ज्ञान न हो, जिसे कोई नहीं जानता 2- जानना जिसका स्वभाव न हो, जो प्रकट या विदित न हो + 3 अज्ञात यौवन (हिंदी)
अज्ञाता		बंगला	
अज्ञाति-अज्ञाति	संज्ञा	तमिल	असह्य व्यक्त
अज्ञाति	संज्ञा	बंगला, मलयालम	जो एक वंश, कुटुम्ब या गौत्र का नहीं
अज्ञाति		संस्कृत	असगोत्र, जाति शून्य
अज्ञाते	अव्यय	बंगला	अगोचरे, गुप्त रूप में, अनजाने से, किसी को पता न चले ऐसे

शब्द	शब्द भेद	भाषाएँ	अर्थ
अज्ञान	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1- ज्ञानका अभाव, जड़ता, मूर्खता, बोधहीनता, मोह
अज्ञान		असमी, उड़िया, बंगला	विवेकहीनता, अबुद्धपन, गँवारपन
अज्ञान		कन्नड, नेपाली	2- वेदान्तमें अविद्या, माया, मिथ्याज्ञान, भ्रम
अज्ञानम्	विशेषण	मलयालम	+ 3- अशिक्षित, अनाड़ी, अवयस्क (मराठी)
अज्ञानम्/अज्ञानम्		तमिल	+ 4- युक्तिविहीनता, अचैतन्य (असमी)
अज्ञानम्		तेलुगु	+ 5- अध्यात्मज्ञान न होना (तमिल)
अगिआन		पंजाबी	+ 6- स्त्री, धन-दौलत, लक्ष्मी, देवता की लीला या छल
अज्ञानु		सिंधी	(सिंधी)
अज्ञानकृत	संज्ञा	कन्नड	1- भूल से न जानते हुए कर डालना
अज्ञानकृत		हिंदी, बंगला	2- अनजाने में किया अपराध या पाप
अज्ञानतः	क्रिया विशेषण	हिंदी, मराठी, बंगला	अज्ञानवश, बिनाजाने-बूझे-समझे, अज्ञानके कारण,
अज्ञानतन	संज्ञा	कन्नड	अज्ञान वश या मोहतश किया अपराध
अज्ञानता	संज्ञा	हिंदी, मराठी	1- नादानी, नासमझी, मूर्खता, अज्ञानाभाव
अज्ञानता		सिंधी, असमी, बंगला	2- अज्ञान धर्म या गुण, मूढ़ता
अगिआनता		पंजाबी	
अज्ञान किरुतम्	संज्ञा	तमिल	गलती से मोहवश किया अपराध या पाप
अज्ञान चर्षा	संज्ञा	मराठी	अज्ञात वास
अज्ञान तिमिर	संज्ञा	हिंदी, बंगला	मोह रूपी अंधकार, अज्ञानरूप अंधकार
अज्ञानतिमिरच्छेदक	संज्ञा	मराठी	1- अज्ञाननाशी, सत्यज्ञान 2- ईश्वर
अज्ञानते	क्रिया विशेषण	असमी	मूर्खता से
अज्ञानधन	संज्ञा	मराठी	अवयस्क या पागल व्यक्ति की संपत्ति, जायदाद
अज्ञान पटल	संज्ञा	मराठी	मया का पर्दा जो ब्रह्मज्ञान नहीं होने देता
अज्ञानप्राणी	संज्ञा	मराठी	जानवर, पशु पक्षी
अज्ञानांधकार		बंगला	देखे :- अज्ञानतिमिर
अज्ञानि	विशेषण	मलयालम, कन्नड,	1- अध्यात्म या धर्म ज्ञान हीन
अज्ञानी		हिंदी, गुजराती, मराठी	2- मूर्ख, नासमझ, बेवकूफ, अनाड़ी, अशिक्षित
अज्ञानी		असमी, उड़िया, सिंधी	3- अज्ञा, बुद्धिहीन, अज्ञान, अबोध.
अज्ञानी		तेलुगु, बंगला, संस्कृत	अल्पज्ञ, थोड़ा जानने वाला
अज्ञानि/अज्ञानि		तमिल	4- जिसे ज्ञान न हो, ज्ञान शून्य
अज्ञानु		तेलुगु	
अगिआनी		पंजाबी	

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अज्ञाने	क्रियाविशेषण	बंगला	बिना जाने, अज्ञान से, भूल चूक से
अज्ञापनीय	विशेषण	बंगला	अप्रकाश्य, न बनाने लायक
अज्ञाप्य		बंगला	बिना बनाये, सूचित किये बिना
अज्ञापित	भूत कृदन्त	बंगला	जाहिर नहीं किया, अप्रकाशित, अनिर्दिष्ट, अज्ञात
अज्ञेय	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी, संस	1 जिसे जाना न जा सके, न जानने योग्य
अज्ञेय		असमी, उड़िया, बंगला	2 जो ज्ञान का विषय न हो सके, समझ से बाहर
अज्ञेय		सिंधी, कन्नड, नेपा, मलया	3 जाननीय, अगम्य, दुर्बोध, जो बोध गम्य नहीं
अज्ञेयवाद	मज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 दृश्य जगत में परे सब कुछ अज्ञेय है का सिद्धांत
अज्ञेयवादं		मलयालम	2 परममूल्य अज्ञेय है का मत
अज्ञेयवाद		संस्कृत	3 मशयवाद, नास्तिकवाद
अज्ञेयवादं	विशेषण	मलयालम	1 अज्ञेयवाद का मानने वाला
अज्ञेयवादिन्		संस्कृत	2 नास्तिक, प्रायश्चारी, मशयवादी
अज्ञेयवादी		हिंदी, गुजराती	3 नास्तिकवाद का अनुयायी या समर्थक
अज्येष्ठ	विशेषण	हिंदी	1 जो सबसे बड़ा या सर्वश्रेष्ठ न हो
अज्येष्ठ	विशेषण	संस्कृत	2 जिसका बड़ा भाई न हो
अज्ञक	मज्ञा	पंजाबी	1 अज्ञग्य, देगे, दीनारन अज्ञ अमचो
अज्ञक	मज्ञा	नेपाली	2 दिलर, जो झिझक नहीं + 3 मूर्खान स्थान (नेपाली)
अज्ञकणा	अकर्मकक्रिया	पंजाबी	रुकना, झिझकना, झिझकना
अज्ञल्ल	विशेषण	पंजाबी	असह्य, जो बरदाश्त न हो, जो झुला न जा सके
अज्ञर	मज्ञा	हिंदी, बंगला	1 न अग्ने या वरमन वाला (वादल) (हिंदी) 2 अविश्रान्त (वगला) न गिरने, न अग्ने वाला
अज्ञुक(अज्ञुकवा)	विशेषण	पंजाबी	1 जो झुके नहीं 2 जो झुकाया न जा सके
अज्ञूना	विशेषण	हिंदी	1 जो जीण या पुगना न हो
अज्ञूना		गुजराती	2 मदा एक दशा में रहने वाला, ग्वायी
अज्ञोर	विशेषण	बंगला	1 बिना रुके कहने वाला 2 अज्ञय, धाराप्रवाह
अटंक	विशेषण	पंजाबी	मासांगिक अज्ञो में मूक, निर्लेप
अटल	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली +	1 अचल, स्थिर, दृढ़, चक्का, पुगना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अटल		मराठी, असमी, बंगला, संस	2 न टलने वाला, जो स्थान से न हटे, निश्चल,
अटलु		सिंधी	अनिवार्य, अवश्यम्भावी, नित्य, निश्चित
अटल्ल		पंजाबी	3 अचंचल, जिसे बदला या हटाया न जा सके
अटलता		सिंधी	निश्चलता, स्थिरता, दृढता
अटाट	विशेषण	गुजराती	वेधर, निकम्मा
अटाट	संज्ञा	मराठी	कष्ट, तकलीफ़, दुःख
अटोक	विशेषण	हिंदी	प्रतिबध हीन, जिसे टोका न गया हो
अटूट	विशेषण	हिंदी, नेपाली, असमी	1 न टूटने या न तोड़ा जा सकने वाला, दृढ़, मजबूत
अटूट		उड़िया, बंगला	2 अभग्न, सम्पूर्ण, निर्दोष, त्रुटिहीन, अविकृत,
अटूट		सिंधी	अखंड, अनवरत, लगातार, निरन्तर, जिसका क्रम न टूटे
अटुइ/अतुइ		पंजाबी	3 अत्यधिक, अपार 4 अजेय 5 कम न होना
अटुटकै	क्रिया विशेषण	असमी	बिना कमी के, पूर्णतया, सम्पूर्णतः
अटेक	विशेषण	पंजाबी	1 बिना सहारे, टेक के बिना + 2. सिद्धान्त, विचार या
अटेक	संज्ञा	नेपाली	सकल्प पर न अड़ना या स्थिर न होना (नेपाली)
अटल	विशेषण	गुजराती, मराठी	1 प्रवीण 2 धैर्याक, उस्ताद 3. असली, खरा 4 स्थिर,
अठाई	विशेषण	हिंदी	उत्पाती, नटखट, अनुचित हठ ठानने वाला
अठायीं	अव्यय	मराठी	1 बेठिकने 2 शरीर के नाजूक स्थान पर, खुरे की जगह
अठान	विशेषण	हिंदी	1 न ठानने या न करने योग्य काम, कठिन काम
अठान	संज्ञा	हिंदी	2 वैर-विरोध (संज्ञा)
अठिक्	विशेषण	असमी	1 निश्चय न होना
अठिक्कै	क्रिया विशेषण	असमी	2 अनिश्चित रूप से, बिना कमी के, संपूर्ण रूप से
अठेस	विशेषण	हिंदी	1 जो आगे बढ़ाया या हटाया न जा सके,
अठेस	संज्ञा	हिंदी	न ठेला जा सके 2. बलवान, शक्तिशाली
अडंगा	संज्ञा	हिंदी	अटकाव, रोक, रुकावट, बाधा, कुश्ती का एक दांव
अडंगे बाज़	संज्ञा	हिंदी	1. अडंगे लगाने वाला, बाधा डालने वाला
अडंगेबाज़ी	संज्ञा	हिंदी	2. अडंगे लगाना, दूसरों के कार्य में बाधा डालना
अडग	विशेषण	हिंदी, नेपाली	स्थिर, न डिगने वाला, अटल, न हटने वाला

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अडाण	सज्ञा	मराठी	1 अज्ञानी, अकुशल, असभ्य, अनाड़ी, मूर्ख, गवार
अडाणी		गुजराती	2 अशिक्षित, अगतुर, ठीक मान न करने वाला
अडाणि		कन्नड	3 बिना कुछ दिये मेहनत का काम करना
अडाणी	सज्ञा	मराठी	4 खेत मजदूर 5 अक्वड, गवार लोग
अडिग	विशेषण	हिंदी, नेपाली, मराठी	1 जो अपने मित्रान्त या स्थान से न डिगे, न हिले
अदोलु	विशेषण	सिंधी	2 स्थिर, अटल, अपनी प्रतिज्ञा से न टले
अडीट	विशेषण	गुजराती	1 जो दिखाई न दे या देखा न जा सके
अडीठ		हिंदी	2 गुप्त क्रिया हुआ, अदृश्य, अदृष्ट
अडिट्ट		पंजाबी	3 जिसे किसी ने न देखा हो
अडोल	विशेषण	हिंदी, पंजाबी	1 जो हिले नहीं, स्थिर, अटल, अडिग शान्त
अडोल		गुजराती, मराठी	2 स्तब्ध, चकित, जो डोल नहीं अविचलित
अडोलता	सज्ञा	पंजाबी, सिंधी	अडोल होने का भाव, स्थिरता
अडोलकाटलु	विशेषण	गुजराती	1 नकाम 2 बेघाट का पत्थर (सज्ञा)
अढल	सज्ञा	मराठी	1 मिलना, प्राप्ति, पता, सुराग, अविनाशी पद, मोक्ष
अढल	विशेषण	मराठी	2 अटल, टिकाऊ, अचल, दृढ़, स्थिर, पक्का, खग
अढलपद	सज्ञा	मराठी	ध्रुवपद, अचल पद, पक्का आँदना, माक्ष
अतंग	विशेषण	गुजराती	जो तंग नहीं, बिना तंगी के
अतंत्र	सज्ञा	हिंदी	1 जिममे तंत्र, तन् या तंत्र न हो, अनियंत्रित कार्य
अतन्त्र	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	2 जिस पर किसी का नियंत्रण, तंत्र या शासन न हो
अतंत्र		कन्नड	3 तार बिना वाद्य 4 निरक्ष, अव्यवस्थित, असयत
अतंत्र	विशेषण	हिंदी, कन्नड, गुजराती	1 तद्रा रहित, जागरूक, सतर्क, चौकस, सावधान
अतन्त्र		मलया, बंगला, संस्कृत	2 जो थका हुआ न हो, थकानविहीन, अम्नान
अतंत्रिनु/अन्त्रिल	विशेषण	संस्कृत, मलयालम	1 सतर्क, सावधान, जागरूक, अनलस
अतंत्री/अतन्त्री		हिंदी, बंगला	2 जिमे निद्रा न आती हो, जागता रहता हो
अतंत्रित	विशेषण	हिंदी, मलयालम, गुजराती	तद्रा या असावधानी रहित, सचेष्ट
अतट	विशेषण	हिंदी, गुजराती, बंगला	1 तट या किनारा न हो, असीम, तटशून्य, सीधा
अतट		कन्नड	2 पानी के किनारे खड़ी ढाल या चट्टान होना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतटं	सज्ञा	मलयालम	3 पर्यंत की चोटी या उसका अग्र भाग
अतट	विशेषण	संस्कृत	+ 4 प्रपात, ऊचा पहाड, झरना(कन्नड)
अतडुं	विशेषण	गुजराती	1 जो मिलन सार नहीं, ऐसा व्यक्ति 2 तुच्छ, असभ्य, उद्धत, ओछा, बंदोल
अतत्पर	विशेषण	हिंदी	जो तत्पर न हो, तल्लीन या सन्नद्ध न हो
अतत्वार्ष	सज्ञा	गुजराती	असत, मिथ्या वस्तु
अतथा	अव्यय	मलयालम, संस्कृत	वैसा नहीं, उस तरह का नहीं
अतयोचित	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	वैसा अभ्यास नहीं, अपात्र, आदी नहीं
अतथ्य	विशेषण	हिंदी, मराठी, संस्कृत	1 असत, असत्य, अयथार्थ, खोटा, निःसार
अतथ्य		गुजराती, बंगला, कन्नड	2 मिथ्या, झूठ, गलत, अलीक, अवास्तविक
अतत्थ्यं	सज्ञा	मलयालम	+ 3 दिशाभ्रम करने वाला भाषण(मराठी)
अतद्गुण (णं)	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मलया	1 कारण होने हुए भी दूसरे का गुण ग्रहण न हो
अतद्गुण		नेपाली, कन्नड, संस्कृत	2 ऐसा एक काव्यालंकार 3 बहुव्रीहि ममास का
अतद्गुणमु		तेलुगु	एक भेद 3 उस गुण से हीन
अतवहं	अव्यय	मलयालम, संस्कृत	अनधिकार में, अनुचित रूप में, अन्याय से
अतद्वत	विशेषण	हिंदी	जा उसके दृश नहीं, रग रूप गुण में समान नहीं
अतनु	विशेषण	संस्कृत	1 अशरीरी, निगकार, देह शून्य
अतनु		हिंदी, गुजराती, बंगला	2 कामदेव, अनग, देह रहित, शिव
अतनु		नेपाली, कन्नड, मलया	+ 3 अकृश, स्थूल, विशाल, छोटा नहीं, काफी (बंगला)
अतनुडु		तेलुगु	+ 4 अमाधारण, थोडा नहीं, अधिक (मलयालम)
अतनुजित	सज्ञा	कन्नड	शिव, जिन (जैन)
अतप	विशेषण	मलयालम, हिंदी	1 गर्म नहीं, ठंडा, अनुत्तेजित, आडम्बरहीन, निठल्ला
अतप		संस्कृत	2 जिसने तप नहीं किया, जो तपस्वी नहीं
अतपस्तु (सु)	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1 धार्मिक तपश्चर्या की अवहेलना, उपेक्षा करने वाला
अतपस्कन्/अतपस्क		मलयालम, संस्कृत	2 जो तपा न हो, ठंडा 3. जिसने प्रायश्चित न किया हो, धार्मिक कर्म विमुख
अतप्त	विशेषण	हिंदी	1 जो तप्त या उष्ण नहीं 2. जो पीड़ित नहीं
अतप्त		मलयालम	+ 3 जो पका न हो, आग पर नहीं चढ़ा (हिंदी)
अतप्त	विशेषण	संस्कृत	+ 4 जिसने प्रायश्चित नहीं किया (मलयालम)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतप्ततनु	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 जिसने ताप मुद्रा (शय, चक्र, गदा, पद्म) के बिना धारण न किए हों 2 बिना छाप का
अतमसु	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	अधकार संज्ञित, बिना अधरे के
अतमा	विशेषण	गुजराती, संस्कृत	1 लापरवाह 2 बिना तमा या स्तोत्र के
अतमाविष्ट	विशेषण	गुजराती, हिंदी	+ 3 भावना के बिना, बदरकारी (गुजराती)
अतमिस्र		हिंदी, संस्कृत	4 अधःशयच्छन्न नहीं अधरे से परे
अतमी	विशेषण	गुजराती	1 खोर बिना 2 शरीरखोर
अतरंग	विशेषण	गुजराती	1 जिसमें तरंग, लहर न हों, शान्त
अतरंग		हिंदी	2 अराजक या नगर उद्यान की क्रिया
अतरंग		संस्कृत	+ 3 बिना प्राथम्य अन्वय (गुजराती)
अतरल	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	जो तरल या द्रव नहीं, ठोस गाढ़ा
अतरु	विशेषण	बंगला	निष्पादय, ऊँच भूमि, वज्र, इत या नल
अतरुण/अतरुणी	विशेषण	बंगला	1 युवावन 2 प्रवीण
अतर्क	विशेषण	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	1 युक्ति या तर्कहीन असंगत व्यापारिभेद, अहेतुक वेकार की वधम निमद
अतर्क		कन्नड	
अतर्क		असमी	2 तर्क के नियमों से परे या विरुद्ध, कृतक
अतर्क		बंगला	3 तर्क के नियमों से अनभिज्ञ, अव्योभव, अदृश्य
अतर्क		मलयालम	4 तर्क का अभाव, अभावधानना युक्ति से परे हान्य
अतर्कनीय	विशेषण	बंगला	1 जो तर्क से सिद्ध न हो सके, वादानुवाद के अयोग्य
अतर्कनीय		हिंदी	2 जो सिद्ध अनुमानित या चिंतनीय न हो
			3 जो तर्क वितर्क से विषय न हो
अतर्कित	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. आर्कामिक, अनुमानित, अविश्वसित, अप्रत्याशित, अकल्पित, अज्ञान, निराधार घटित, निरसदेह, अनुमाया, अमानक (श्रव्य)
अतर्कित		असमी, उड़िया, बंगला	
अतर्कित		नेपाली, कन्नड, संस्कृत	
अतर्कित		मलयालम	2 न देखा, न समझा, न विचार, अज्ञेय
अतर्क्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 जिसके विषय में किसी प्रकार की कल्पना, ऊहा, अनुमान, विवेचना न हो सके, अनिर्वचनीय
अतर्क्य		असमी, बंगला, कन्नड	
अतर्क्य		मलयालम	2 अतर्कनीय, तर्क वितर्क से परे का

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतर्क्यम्		तेलुगु	3 जिसकी बाबत बहम की जरूरत नहीं
अतर्क्य		नेपाली, संस्कृत	4 वाद विवाद में परे, ख्याल में परे
अतर्पणीय	विशेषण	गुजराती, मराठी	1 जिसका तर्पण न हुआ हो, जिसे तृप्त न किया जा सके
अतर्प्य		मराठी	2 जिसकी तृप्ति का समाधान न हो या इस योग्य न हो
अतर्पणीय	विशेषण	बंगला	3 अनापणीय
अतर्पित	विशेषण	बंगला, मराठी, संस्कृत	1 अतापित, जिसे तृष्ट न किया गया हो
अतर्पित	विशेषण	गुजराती	2 जिसकी तृप्ति या समाधान न हो
अतल	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 जिसका तल या पैदा न हो, तलविहीन
अतल	मज्ञा	असमी, बंगला, नेपाली	2 जो बहुत गहरा या अथाह हो
अतल		कन्नड, संस्कृत, मलया +	3 भूमि का अधोभाग (बंगला)
अतलं		मलयालम	4 मान पानालों में पहला
अतलम्		तमिल	5 शिव का एक नाम + एक नरक का नाम (कन्नड)
अतलमु		तेलुगु +	6 पृथ्वी के बाद का अध लोका (हिन्दी)
अतलकुतलम्	मज्ञा	तमिल	हलचल, उद्भव कोलाहल, गडबडी, व्याकुलता, व्यग्रता
अतलगु	विशेषण	गुजराती	अति पास, समीप, करीब
अतली	विशेषण	गुजराती	अतुल्य, असाध्य, जिसे तौला नापा न जा सके
अतलीबल	मज्ञा	गुजराती	अतुलित बलशाली
अतलीबाण	मज्ञा	गुजराती	अति भयकर
अतलस्पर्श	मज्ञा	मराठी, मलया, असमी	1 जिसके तल या थाह तक न पहुँचा जा सके
अतलस्पर्श		हिंदी, कन्न, संस, बंग	2 तल विहीन, अगाध, पाताल छूने वाला
अतलस्पर्शिन	विशेषण	मलयालम	1 बहुत गहरा, अथाह, अगाध
अतलस्पर्शिन		संस्कृत +	2 दिग्भावी व्यक्ति, शेखी खोर (मलयालम)
अतलस्पर्शी		हिंदी, नेपाली, बंगला +	3 पाताल छूने वाला (नेपाली)
अतात्त्विक	विशेषण	मराठी	1 तन्व में बाधा आना
अतात्त्विक		संस्कृत	2 उथला, निराधार, दाभिक
अतान्त	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	जो थका न हो, बलशाली, शक्तिशाली
अतापी	विशेषण	हिंदी	ताप रहित, शान्त, व्याकुल नहीं
अतार्य	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1 जिसमें से आर पार न दिखे 2. अस्वच्छ 3. अपारदर्शी

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिथि(अतिथि)	सज्ञा	तमिल	1 अवम तिथि जो धार्मिक कृत्य में वर्जित है 2 रात्रि के पंद्रह भागों में दसवा भाग
अतिथि	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 अनाहृत, अज्ञानपूर्व, अजनबी, आगन्तुक, गृहागत
अतिथि		असमी, उड़िया, बंगला	2 अभ्यागत, नीरथयात्री, सन्यासी जो एक गत ठहरे
अतिथि		नेपाली, कन्नड, संस्कृत	(अतिथि गच्छति न निष्ठाति संस्कृत)
अतिथि		तेलुगु, तमिल, मलया	3 अन्निमत्रिन मेहमान, पाहुना 4 अग्नि
अतिथी		पंजाबी	5 यज्ञ में सोम सबधी कार्य करने वाला अनुचर
अतिथि काल	सज्ञा	मराठी	दोपहर के भोजन के समय, जब अतिथि आ सकता है
अतिथिकृत	विशेषण	मलयालम	किसी को अपना मेहमान बनाना
अतिथिकर्म	सज्ञा	बंगला	अतिथि सत्कार मेहमानदारी, अतिथि की पूजा
अतिथिक्रिया		हिंदी, बंगला, कन्नड	आतिथ्य, मेहमानगारी
अतिथिक्रिया		मलयालम, संस्कृत	सत्कार, स्वागत आवभगत
अतिथिगृहं	सज्ञा	मलयालम	अतिथिशाला (गस्ट हाउस)
अतिथिदेव	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	अतिथि देवता सगान माना जाना, देवतुद्रि में
अतिथिदेवन्		मलयालम	अतिथि का पूजन करना
अतिथिधर्म	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	आगन्तुक की सेवा, आतिथ्य का अधिकार
अतिथिधर्म	सज्ञा	मलयालम	अतिथि के प्रति दिग्वाया गया सत्कार
अतिथिपति	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत, हिंदी	मेजवान, अतिथि का स्वागत करने वाला
अतिथिपरायण	सज्ञा	बंगला	अतिथि मेवक, अतिथि वन्मल
अतिथिपरिषर्या	सज्ञा	बंगला	अभ्यागत की सेवा
अतिथिपूजन	सज्ञा	गुजराती, मराठी, कन्नड	आगत व्यक्ति का विधि विधान से स्वागत सत्कार
अतिथिपूजा		हिंदी, मलया, संस्कृत	अतिथि की पूजा
अतिथिपूजे		तमिल	पूजा मद्रश पवित्र भाव में अतिथि की आवभगत
अतिथिमार्गबनं	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	अतिथि के शिकार के लिए बनाया गया मर्राक्षन वन
अतिथिमादिरं	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	अतिथियों के ठहरने का भवन, अतिथिशाला
अतिथियज्ञ	सज्ञा	मराठी, संस्कृत, हिंदी	1 भूत, मनुष्य, पितृ, देव और ब्रह्म इन ५ यज्ञों में दूसरा
अतिथियज्ञ	सज्ञा	बंगला	2 नृ यज्ञ, मेहमानदारी, पाच यज्ञों में से एक
अतिथिबत्सल	सज्ञा	बंगला	अतिथियों के प्रति अनुराग सम्पन्न

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिथिवेला	सज्ञा	मराठी, संस्कृत	दापहर क भोजन का समय
अतिथिशाला	सज्ञा	हिंदी, बंगला, नेपाली	पथिक निवाम अतिथियो क लिए नियत भवन
अतिथिसत्कार	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	1 आवभगत अतिथि की देखभाल, उसका
अतिथिसत्कार		मराठी, बंगला, कन्नड	आदर सम्मान, महमानदारी, महमानवाजी
अतिथिसत्कारं		मलयालम	2 अतिथि परिवर्या या अभ्यर्थन
अतिथि सत्क्रिया	सज्ञा	हिंदी, मलयालम, संस्कृत	3 अभ्यागत की श्रद्धा भावना स की गइ सेवा पूजा
अतिथिसेवन	सज्ञा	बंगला	अतिथि का आदर सत्कार या सेवा पूजा
अतिथि सेवा		हिंदी, अस, कन्न, मलया, संस	महमान को भोजन एवं रहने का स्थान देना
अतिष्ठ	विशेषण	उड़िया	1 एक स्थान पर टहरन म अग्रमर्थ
अतिष्ठ		बंगला	2 अधीर रहिन, व्याकुल वचन
अतीक्ष्ण	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	अकटोर तीखा नही अतीव्र
अतीर्थम्	सज्ञा	संस्कृत	जा तरने की जगह न हो, जा स्थान
अतीर्त्वं		मलयालम	आर्मिक पूजा स्थल नही
अतुंग	विशेषण	हिंदी	1 अतुंग्य अन्ति शून्य नीच स्थानस्थ (बंगला)
अतुङ्ग, अतुङ्गी		बंगला	2 अतुंग्य टिगना, नाटा (हिंदी)
अतुंद	विशेषण	हिंदी	हृष्ट मुष्ट नही, दुबला पतला
अतुकान्त	विशेषण	हिंदी	छठ के अंतिम वर्षों में तुक या कर्मिणा न मिलना हो
अतुच्छ	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	तुच्छ या छोटा नही बडा
अतुल	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी +	1 जिसे ताला या जिसका अनुमान न लगाया जा
अतुल		असमी, उड़िया, बंगला	सक (नेपाली) असीम, अपरिमित, अमित
अतुल		कन्नड, नेपाली, संस +	2 गले गिन, अधिक (गुजराती)
अतुल/अतुलं	विशे० सज्ञा	मलयालम	3 तुलना, समानता सादृश्य रहित, असम, लासानी
अतुल्ल		पंजाबी	4 अनुपम बेजाड सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय, अपरिमेय,
अतुलम्		तमिल	अतिसुन्दर, उपमान रहित
अतुलन्	सज्ञा	तमिल	+ 5 बेजोड व्यक्ति, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति (तमिल)
अतुलमु		तेलुगु	6 तिल का वृक्ष, सरसो का पौधा, कफ, बलगम
अतुलनीय	विशेषण	हिंदी, गुज, नेपा, मराठी	1 जिसकी तुलना या समानता न की जा सके
अतुलनीय		असमी, उड़िया, बंगला	2 अपरिमित, अपार, बेहद, असीम
अतुलनीयम्		तेलुगु	3 जिसका अनुमान न हो सके, देखे अतुल

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतुल्य	विशेषण	हिंदी, गुज, अस, मलया, मरा	1 जो तुल्य न हो असमान
अतुलम्		तमिल	2 जिसकी तुलना या समान न हो सके
अतुलित	भूत कृत	हिंदी, नेपाली, बंगला	1 न वाला हुआ, बेहिसाब, अपार, असम्बन्ध
अतुलित		मलयालम	2 अथ अर्थ 'अतुल' के समान
अतुलितम्	मज्ञा	तमिल, संस्कृत	3 अनुपम, बेनाद, अद्वितीय
अतुलितुडु		तेलुगु	4 शान्त स्थिर (तमिल)
अतुल्ययोगिता	मज्ञा	हिंदी	एक साध्यात्मिक विचार जिसमें समान में अन्य
अतुल्ययोगिता	मज्ञा	संस्कृत	गुण धर्मों में समानता होने का भी एक गुण धर्म में असमानता या विरोध वर्णित हो
अतुष	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	चिन्ता भूमी भूमि का अन्तर्गत जिसमें तिनके न हो
अतुषार	विशेषण	हिंदी, कन्नड	1 जो ठंडा न हो फलन गम
अतुषार	मज्ञा	मलयालम, संस्कृत	2 जिस पर नास जाकर न बनी हो
अतुषारकरन्	मज्ञा	मलयालम	मृदु जो गम क्रिया वाला हो
अतुषारकर		कन्नड, संस्कृत, हिंदी	ठंडी क्रिया वाला नहीं
अतुष्ट	विशेषण	मराठी, असमी, मलया	असंतुष्ट (अतुष्ट) समान शर्तों
अतुष्टता	मज्ञा	असमी	असंतुष्ट, असमन्ता में शक्ति का प्रभाव
अतुष्टि	मज्ञा	असमी, हिंदी, तेलुगु	मद्य नहीं होता, जो नहीं भग असमन्ता
अतूट	विशेषण	गुजराती, मराठी	1 अटूट 2 जो न टूट, जिसके खंड न हो सके
अतूट		पंजाबी	3 नाट्य में न टूट विश्वशायी 4 जिसका क्रम न टूट
			5 न समाप्त होने वाला
अतूर्त	विशेषण	संस्कृत	जो गया न गया हो, जो मांग न गया हो
अतुहिन(करन्)	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, मलया	1 जो ठंडा न हो, गम 2 मृदु (मज्ञा)
अतोड़	विशेषण	गुजराती	जो नाट्य न हो सके
अतृणाद	मज्ञा	संस्कृत, हिंदी	दान का अत्यन्त बरखा जो घाम नहीं खाना
अतृण्या	मज्ञा	मलयालम, संस्कृत	घाम की थोड़ी सी मात्रा
अतृप्त	विशेषण	हिंदी, गुज, मरा, नेपा	1 जिसकी पूर्ति न हुई हो, जो अभी तक अघाया नहीं
अतृप्त		अस, उड़ि, बंग, सिंधी	2 जिसमें भूख अथ हो या जिसका मन न भग हो
अतृप्त		मलया, संस्कृत, कन्नड	3 अपूर्ण दृष्टा असंतुष्ट, भूखा
अत्रिपत		पंजाबी	4 जिसकी कामना, अभी भी बनी हो, अपूर्णकाम

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतृप्ति	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. अतृप्ति, अग्रनाप, मन न अग्राना
अतृप्ति		असमी, उड़िया, बंगला	2. प्राप्ति में पूर्ण प्रगल्भता न होना,
अतृप्ति		कन्नड, तेलुगु	तृप्ति का अभाव, अग्रतृप्ति
अतृप्ति		नेपाली, संस्कृत	3. आकाशा का अर्चिनाथ होना
अतृप्ति		मलयालम	+ 4. अग्रमाधान, अग्रमाधानपन (मराठी)
अतृप्तुडु		तेलुगु	जो न अग्रया हो, जिसका मन नहीं भग
अतृष्ण	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1. साह या कामना रहित 2. जिसे प्यास नहीं
अतृष्णा		गुजराती	तृष्णा रहित, उदासीनता, बेराग्य
अतृपं/अतृपम्	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	लज्जा विहीनता, धृष्टता, वैशर्मी
अतेज	विशेषण	हिंदी	1. कमकीला नहीं, धुंधला, परछाई, प्रकाश या तेज रहित
अतेजस्	संज्ञा	संस्कृत	2. कमजोर, तुच्छ, निर्बल, अप्रखर, श्री हीन
अतेजस्सु		मलयालम	3. धुंधलापन, अप्रकार, शक्ति का अभाव, सुस्ती
अतोल	विशेषण	हिंदी	1. तून बिना या तोले बिना
अतोल		गुजराती	2. बहुत बांधक, बे विभाव, बे जाड
अत्याग	संज्ञा	हिंदी	स्त्री भग, ग्रहण, त्याग नहीं
अत्यागी	विशेषण	हिंदी, बंगला	1. जो त्यागी नहीं, गरी, विप्रयामक्त
अत्यागी		गुजराती	2. अत्यजनीय 3. निज, गृहस्थ
अत्याज्य	विशेषण	हिंदी, गुज, नेपा, बंगला	1. अत्यर्जनीय, अप्रग्रह्य, त्याज्य नहीं 2. अप्रतिव्यच
अत्यजनीय		बंगला	जिसे छोड़ना अचित न हो या न छोड़ा जा सके
अत्रप	संज्ञा	मराठी	1. मक्कर, धोखेवाज, दोमंदा
अत्रप	विशेषण	कन्नड, नेपाली	2. निजज्ज, दुःशील, प्रगल्भ, उद्धत
अत्रप	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, मलया	3. अतिनीत, वैशर्मा, लज्जाहीन
अत्रपं	संज्ञा	मलयालम	4. लज्जा विहीनता, धृष्टता, वैशर्मी, अमंवरुता (संज्ञा)
अत्रप आत्मिके	संज्ञा	कन्नड	निर्लज्ज स्त्री, बेहया औरत
अत्रस्त	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, मलया	त्रस्त या भयभीत नहीं, निर्भीक, निडर
अत्रस्तु		संस्कृत, मलयालम	बेखौफ, भयमुक्त, दिलेर
अत्रास	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	निर्भीकता, बेखौफी, निडरता
अत्रासं		मलयालम	निर्भयता, भयमुक्तता
अत्रिरासम्		तमिल	दिलेरी, बहादुरी, वीरता

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अत्राहि	विशेषण	असमी	मुक्ति या सुरक्षा के उपायो मे रहित
अत्रैगुण्य/अत्रिगुण	मज्ञा	हिंदी	मन, रज, तम तीनों गुणों का अभाव
अत्वक्क	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	चर्म रहित, खाल नहीं, छाल नहीं
अत्तरा	मज्ञा	हिंदी, संस्कृत	शीघ्रता का अभाव, जल्दी नहीं
अथक	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 जो थके नहीं, अक्लान्त, अश्रान्त
अथकु		सिंधी	2 अति परिश्रमी, निरन्तर कार्य मलग्न
अथक्क		पंजाबी	3 लगातार, निरन्तर (अव्यय)
अथकित	विशेषण	नेपाली	जा थका न हो, अश्रान्त, अक्लान्त
अथराई	मज्ञा	गुजराती	अस्थिरता चलना, अधीरता स्तावनापन
अथर्यु	विशेषण	गुजराती	अस्थिर चल अधीर, उतावला
अथल	विशेषण	बंगला	1 बहुत गहग अतल, अथाह गानी
अथल	विशेषण	असमी	+ 2 अन्वयन्त, अमूर्क्षित, अयोग्य या वृगस्थान(असमी)
अथले	अव्यय	असमी	व्यर्थ ही, बेकार ही, निष्फल रूप में
अथांक	विशेषण	मराठी, गुजराती	1 निरुमर्क तल हा पना न चल
अथांग	विशेषण	मराठी, गुजराती	2 अतिशय गहग अतल स्पर्शी
अथाक	अव्यय	गुजराती	थके बिना, मतल, तमेशा
अथाव (अथइं)	विशेषण	मराठी, बंगला	1 अगाध जिमथी थाह, गहगर्ट हा पना न चले
अथाह		गुजराती, हिंदी, नेपाली	2 अगम, गहग, पार बिना, बहिमाव, अगम्य
अथाह		पंजाबी, असमी	3 समुद्र, अपार (मज्ञा), गभीर, गूढ
अथाहु		सिंधी	+ 4 जो जानने या समझने योग्य न हो (हिंदी)
अथाहसागर	मज्ञा	असमी	1 गहग सागर 2 घोर विपत्ति, घोर सकट
अथिर	विशेषण	बंगला, असमी, हिंदी	अस्थिर, चलन क्षणस्थाई, कापता हुआ
अथीर/अथिर		बंगला, मराठी	2 उद्विग्न, अधीर, आदोलन कर्ता, हलचल कर्ता
अथोभ	विशेषण	गुजराती	आश्रय बिना, बिना सहारे
अथोर	विशेषण	हिंदी	जो कम न हो, अधिक, बहुत
अदंड	विशेषण	हिंदी	1 बिना महसूल, जिम पर दण्ड न लगा हो
अदण्ड		नेपाली, मत्तयालम	2 जो दंड दिये जाने योग्य न हो, सजा पाने योग्य नहीं
अदण्ड	विशेषण	संस्कृत	3 निर्भय 4 भूमि जिम पर राजस्य न देना पड़े

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अदण्डकर	सज्ञा	मलयालम	जुमाने या कर में मुक्ति
अदंडनीय	विशेषण	हिंदी, अस, बंग, मरा	1 जो दण्ड देने योग्य न हो, दंड न पाने वाला,
अदण्ड्य		नेपा, गुज, मरा, मलया	दण्ड भोग अनुपयुक्त दण्ड मुक्त, मजा के अयोग्य
अदंडमान	विशेषण	हिंदी	+ 2 जिस शिक्षा या दंड देना कठिन हो, जिस पर
अदण्ड्य		संस्कृत	शासन न किया जा सके (मगठी)
अदंत्रमु	सज्ञा	तेलुगु	आभ्यस्ता, कमजोरी आश्रयता, अवीनता, निमन्यता
अदंत	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, नेपाली	1 दात झडा या दात अभी न निकल हो
अदन्त		मलयालम, बंगला	2 दन्तहीन प्राणी+3 जोक; एक आदित्य (हिंदी)
अदंती		बंगला	+ 4 अकारान्त शब्द (व्याकरण) (बंगला)
अदन्त्य	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1 दात सबधी नहीं, दातो के लिए हानिकारक
अदन्त्य	विशेषण	संस्कृत	दाता के अनुकूल नहीं 2 जिसमें दन्त वर्ण न हो
अदंभ	विशेषण	हिंदी	1 दंभ रहित मन्वा मरल अकृत्रिम, स्वाभाविक
अदम्भ		असमी	दंभ गवनीन प्राच्यर नीन टुमानदागी
अदम्भं		मलयालम	2 दंभ का अभाव खराब 3 शिप (सज्ञा)
अदंभित्व	सज्ञा	मराठी	1 शर्कीय ग नही, ठाट वाट में पगडमुख, बनावट
अदंभि	विशेषण	मलयालम	नही मरल 2 खरा मला दर्पहीन
अदंष्ट्र	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 त्रिपदतहीन मयं जिसके मयकर दात निकाल
अदंष्ट्र		बंगला	दिय गये हो 2 दंत हीन
अदक्ष	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मलया	1 जिसमें क्षता कक्षता न हो अकृशल, अनिपुण,
अदक्ष		कन्नड, बंगला, संस्कृत	विशेषज्ञ नहीं + 2 कूरूप, भद्रा वदक्षकल (हिंदी)
अदक्षिण	विशेषण	हिंदी	1 दाय नहीं बाएँ दक्षिण नहीं उत्तर को
अदक्षिण		कन्नड	+ 2 मादा, नियल मन को मूट मोप्टव रहित (कन्नड)
अदक्षिण		मलयालम	+ 3 प्रनाडी, प्रतिकूल अनुदार, अनिपुण, भद्रा, कूरूप
अदक्षिण	विशेषण	संस्कृत	(कन्नड, संस्कृत), अनुभवहीन, कक्षताविहीन
अदखणा	विशेषण	मराठी, पंजाबी	चातुर्य विवाजित, मन्वरी, प्रतिकूल, ईर्ष्यालु
अदक्षिणीय	विशेषण	मलयालम, संस्कृत, हिंदी	1 जो दक्षिणा पाने का अधिकारी न हो
अदक्षिण्य		हिंदी, संस्कृत	2 जो कृपालु या पक्षधर नहीं, अर्दाक्षिणीय

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अदग	विशेषण	हिंदी	बदाग निदोष अदृता निष्कलक
अदग्ध	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 तला द आ नी जला भना नही
अदग्ध		संस्कृत, बंगला	2 जो शायद विधि से न तलाया गया हो
अदग्द्ध		मलयालम	+ 3 तिमहा तिवन शोमन सरकार न द आ हो (साला)
अदग्द्धकर	सुज्ञा	मलयालम	तकने से मुफ्त दग्गा
अदत्त	विशेषण	हिंदी, कन्नड	1 न दिया हुआ विचार से न दिया हुआ
अदत्त		असमी	2 अन्याय गीत से या अन्यायपूर्ण दिया हुआ
अदत्त		मलयालम	3 शायद विरुद्ध ही निर्दिष्ट समझा देन
अदत्त		नेपाली	4 न दान का दृष्टि दिया भाष
अदत्त		गुजराती	5 तिमहा मु च न दृष्टि ग गता न क-र
अदत्त		मराठी	6 शायद विरुद्ध ही निर्दिष्ट समझा देना
अदत्त		उड़िया	+ 7 न द द्या जो क गम जारि जारणाही अत्र
अदत्त		बंगला, संस्कृत	8 द्य म वाश द ग (विद्या) निष्कल दान + 8 दृष्टम मरुगी दन, दृष्ट - दन द्या (मराठी) नहीं
अदत्तशिखामणि	सुज्ञा	मराठी	दया दृष्टम मरुगी दन दृष्टम मा दृष्टम
अदत्तशिरोमणि		मराठी	दृष्टम मा दृष्टम
अदत्ता	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 शिरोमणि का दृष्टम दृष्टम अदत्ता
अदत्ता		बंगला, कन्नड, मलया	2 शिरोमणि का दृष्टम का दृष्टम का दृष्टम ही गटे
अप्रदत्ता		बंगला	3 शिरोमणि का दृष्टम का
अदत्तदान	सुज्ञा	हिंदी, गुजराती	दार्ढ्य दृष्टम दृष्टम दृष्टम दृष्टम दृष्टम दृष्टम
अदत्तदानं		मलयालम, संस्कृत	दृष्टम दृष्टम दृष्टम दृष्टम दृष्टम दृष्टम
अदत्तपृवा	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	दृष्टम दृष्टम दृष्टम दृष्टम दृष्टम दृष्टम
अदभ्र	विशेषण	हिंदी, नेपाली, मराठी	1 दृष्टम दृष्टम दृष्टम दृष्टम दृष्टम दृष्टम
अदभ्र		कन्नड, मलया, संस्कृत	2 दृष्टम दृष्टम दृष्टम दृष्टम दृष्टम दृष्टम
अदभ्रमु		तेलुगु	3 दृष्टम दृष्टम दृष्टम दृष्टम दृष्टम दृष्टम
अदभ्रशुभ्र	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	दृष्टम दृष्टम दृष्टम दृष्टम दृष्टम दृष्टम
अदम	सुज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 दृष्टम दृष्टम दृष्टम दृष्टम दृष्टम दृष्टम
अदम	विशेषण	कन्नड	2 दृष्टम दृष्टम दृष्टम दृष्टम दृष्टम दृष्टम

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवमनीय	विशेषण	असमी, उड़िया, बंगला	1 जो दमन दबाया या नियंत्रित न किया जा सके
अवम्य		हिंदी, असमी	2 जो किसी रूप में कम न हो ऐसा उल्साह
अवम्य		नेपाली, मराठी	3 जिसे वश में न किया जा सके, मभाला न जा सके
अवम्य		मलयालम, संस्कृत	4 प्रबल, भीषण, अजेय, अप्रशमित, उत्कट, प्रचंड,
अवम्य		गुजराती	अनिवारणीय, दुर्दान्त, अशिष्ट, अति बलशाली
अवम्य		बंगला, उड़िया	5 जो पालन न बनाया जा सके, जगली
अवमित	विशेषण	बंगला	न दमन किया हुआ, अनिवाग्नि, अनियंत्रित, अप्रशमित
अवम्भ/अवम्भी	विशेषण	मलया, संस्कृत, असमी	1 गवहीन, दम्भशून्य 2 ईमानदार 3 जो उग्र नहीं
अवय	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 दया रहित, निर्दय, बर्हम, क्रूर,
अवय		नेपाली, कन्नड, मलया	निष्ठुर, करुणा रहित
अवयुद्ध		तेलुगु	2 निर्मम, कठोर हृदय व्यक्ति
अवयं/अवयम्	अव्यय	मलयालम, संस्कृत	क्रूरता में, बर्हमी में
अवयता	सज्ञा	गुजराती, तेलुगु	निर्दयता, बर्हमी क्रूरता निष्ठुरता
अवर	विशेषण	मलयालम	थोड़ा नहीं काफी, रपांत
अवरकारी	विशेषण	बंगला	दरकार या अवश्यता नहीं अनवश्यक, बेकार
अदर्श	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, कन्नड	1 वह रात जब चंद्रमा दिखाई न दे, अमावस्या
अदर्श		मलयालम	2 अदृश्यता, जो दिखाई न दे 3 आदर्श (हिंदी)
अदर्शम्		संस्कृत	+ 4 नये चांद्र का दिन (मलया, कन्नड) 5 शीशा, दर्पण
अदर्शन	विशेषण	हिंदी, गुज, मरा, नेपा	1 न देखना, प्रकट न होना, अप्रत्यक्ष, अदृश्य, विनाश
अदर्शन		असमी, बंगला, कन्नड	2 अनुपस्थिति, लाप, दृष्टि से ओझल, अप्रकट, अप्रदत्त
अदर्शनम्		संस्कृत	3 दृष्टि का अभाव, दृष्टि विहीन, वर्णलोप, उपेक्षा
अदर्शनं	सज्ञा	मलयालम	4 अमावस्या 5 प्रतिबिम्ब, अदृश्यता (सज्ञा)
अदरिशन		असमी	1 देखने योग्य नहीं, कुरूप, भद्दा, नजरो से ओझल
अदर्शनीय	विशेषण	हिंदी, मलयालम	2 अशुभ बुरा, जो दर्शन योग्य नहीं
अदस	विशेषण	बंगला, मलयालम	1 रखड़ी या पत्ते रहित, दल शून्य
अदस		संस्कृत, हिंदी, गुजराती	2 सेनाविहीन 3 जो किसी दल में न हो
			4 कुमारी औषध (सज्ञा)
अदसित	विशेषण	हिंदी	1 जो फटा, टूटा न हो

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अदलित		संस्कृत, मलयालम	2 जिसे कुचला या पीड़ित न किया गया हो
अदलीय	विशेषण	हिंदी	1 व्यक्ति या विषय जो किसी दल से संबंध न
अदलीय		मलयालम	रखना हो 2 इस या उस में संबंधित नहीं
अदह	विशेषण	हिंदी	1 न जलने वाला, अदाह्य 2 एक रेशेदार खनिज पदार्थ जिस पर आग का अंगर नहीं होता
अदहनीय	विशेषण	बंगला, मराठी	1 न जलने या जलाने योग्य
अदह्य	विशेषण	हिंदी	2 जो जलाये नहीं 3 जो जल न मरे
अदह्य		मराठी	4 जिसे जलाना उचित न हो
अदांत	विशेषण	हिंदी	अदान बिना दान का (प्रायः पशु के संबंध में)
अदांत	विशेषण	हिंदी	1 जो दवाया या कावु में न किया जा सके, विषयामका
अदान	विशेषण	नेपाली	2 जिसने दंडियों का दमन न किया हो, अजिनेन्द्रिय
अदामित्व	मत्ता	मराठी	मत्वापन, खगपन
अदांब	मत्ता	हिंदी	1 बुरा दान या अनर्चित दान (खल में) 2 अर्द्ध या विकृत परिग्रहार्थ
अदाक्षिण्य	मत्ता	मलयालम, संस्कृत	अनुदायता अनुदार (विशेषण)
अदाग	विशेषण	हिंदी, नेपाली	वदाग निर्दोष, निष्कलक स्वच्छ सचित्र, निर्मल
अदागी	विशेषण	हिंदी	निर्दोष व्यक्ति या वस्तु
अदाता	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 जो न दे अनुदार, कृपण कजुम, अदानी, लोभी
अदाता (बु)		मलयालम	2 जो कर्ज न चुकाना हो, कर्ज जो न चुकाना हो
अदातार		कन्नड	3 जिस पर कर्त श्राप न हो
अदातृ		कन्नड, संस्कृत	+ 4 विवाह के लिए कन्या न देने वाला (हिंदी)
अदातिरु	मत्ता	तमिल	+ 5 जो दान न कर अनुदायता न दिवाये (गुजराती)
अदातृत्व	मत्ता	मराठी	अनुदायन, कजुमपन, कृपणता
अदान	मत्ता	हिंदी, संस्कृत	1 दान न देने की क्रिया या भाव, दान का अभाव
अदानं		मलयालम	2 अनर्चित या बुरा दान 3 बिना मद जल का हाथी
अदानी	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 न देने वाला, कजुम 2 बिना मद का हाथी
अदानव	विशेषण	मराठी	1 दैन्यता रहित 2 दैन्य रहित (ज्ञानेश्वरी)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अदान्त अदान्त	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1. अदमित, अनियंत्रित, जिसे पालतू न बनाया गया हो
	विशेषण	नेपाली, हिंदी	2. विषयामक्त, इंद्रियलोलुप, दमन न करने वाला
अदाय अदाय अदायो	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1. सम्पत्ति में हिस्सा या भाग पाने का अनधिकारी
		मलयालम, संस्कृत	2. दाय अंश पाने के अयोग्य, उत्तराधिकार वंचित
		गुजराती	3. बिना वारिस का, उत्तराधिकारी बिना
अदापवुं अदाया	सकर्मक क्रिया संज्ञा	गुजराती हिंदी	पीड़ित करना, दुख देना दया/कृपा का अभाव, नाराज़ी, अवकृपा
अदायाद अदायाद	विशेषण	हिंदी, गुजराती, कन्नड	1. जिमका कोई उत्तराधिकारी न हो, लावारिस
		मलयालम, संस्कृत	2. जो उत्तराधिकारी न हो, असंपिड, अरागोत्र
अदायिक अदायिक अदायिक अदायिक	विशेषण	हिंदी	1. वह संपत्ति जिमके पाने के लिए किसी ने स्वत्व
		गुजराती	या उत्तराधिकार प्रस्तुत न किया हो, जो पुश्तैनी नहीं
		मलयालम	2. उत्तराधिकारी विहीन, लावारिसी
	विशेषण	संस्कृत	3. दाय या उत्तराधिकार से संबंध न रखन वाला
अदारन् अदार	विशेषण	मलयालम संस्कृत, गुजराती, हिंदी	पत्नी विहीन, विधुर, रंडुआ, विपत्नीक जिमके दाय अर्थात पत्नी न हो, अविवाहित
अदास अदासन्	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1. जो दास न हो, स्वाधीन
		मलयालम	2. जो किमी के अधीन या किसी का नौकर नहीं
अदाह अदाहक	संज्ञा विशेषण	हिंदी हिंदी	जिसमें दाह या जलन न हो, ताप न हो जलाने वाला नहीं, दाहक नहीं
अदाह्य अदाह्य अदाह्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1. जो न जले, न जलाया जा सके, न जलाने योग्य
	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत + नेपाली, मराठी	2. चिना पर न जलाया जा सके (हिंदी, संस्कृत) परमात्मा, आत्मा का एक विशेषण (संज्ञा)
अदिति अदिति अदिति अदिति	संज्ञा	हिंदी, मलयालम	1. असीमता, अनतता, प्राचुर्य, पूर्णता
	संज्ञा	कन्नड, नेपाली	2. बिना विभाग का, पूर्ण (विशेषण- संस्कृत)
	संज्ञा/विशे	संस्कृत	3. माता, पृथ्वी, प्रकृति, वाणी, गाय, पुनर्वसु नक्षत्र,
	संज्ञा	बंगला, गुजराती	निधनता, गरीबी, स्वतंत्रता (संज्ञा)
अदिन अदिन	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, बंगला संस्कृत	1. अशुभ, अनुपयुक्त, अप्रशस्त दिवस 2. अवनति का समय, अभाग्य, दुर्भाग्य

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अदिनं	मज्ञा	मलयालम	3 कुदिन, दुर्दिन, असमय, अशुभ समय
अदिव्य	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1 जो दिव्य, देवता या अलौकिक न हो, लौकिक, माध्याग्न
अदिव्य		नेपाली	2 स्थूल, वृग 3 जिमका दमन इन्द्रियो द्वारा हो
अदिव्या	मज्ञा	हिंदी	+ 4 (साहित्य में) मानव नायक, नायिका (हिंदी)
अदिष्ट	विशेषण	हिंदी	1 जो देखा हुआ न हो या दिखाई न दे, अदृष्ट
अदिष्टम्	मज्ञा	तमिल	2 लू 1, गायब 3 अविश 4 प्रमान्य या अस्वीकृत
अदीठ/अदीठुं	विशेषण	हिंदी, गुजराती	5 अग्नि जल आदि का दैवी प्रकोप+6 प्रारब्ध, भाग्य (तमिल) दुर्भाग्य (हिंदी)
अदिष्टी	विशेषण	हिंदी	1 जिसकी दृष्टि या विचार दूर तक न जाय 2 अदृग्दर्शी, गुर्व, अभागा, दृग्
अदीक्षित	विशेषण	हिंदी, असमी	1 जिसकी दीक्षा न हुई हो 2 जिसने गुरु मंत्र न लिया हो
अदीन	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 जो दीन या गरीब न हो अभागा या दुखी नदी
अदीन		बंगला, मलया, संस्कृत	2 अकायर, अकानर, न दबने वाला
अदीनुडु	मज्ञा	तेलुगु	3 धीर, उदार, निडर, तेजस्वी 4 उग्र, रूढ़
अदीनवृत्ति	विशेषण	हिंदी	1 तेजोगय, तेजस्वी, महाप्राण, उच्चाशय, दाता
अदीनसत्त्व		हिंदी, बंगला	2 जिसकी आन्तरिक वृत्ति कुठिल न हो, उदार
अदीपन	मज्ञा	कन्नड, संस्कृत	मदार्गिन, बदहजमी, अजीर्ण, जठरगर्भ उद्दीप्त
अदीपनम्(नं)		तमिल, मलयालम	न होना, भोज्य पदार्थ के पाचन की शक्ति न होना
अदीपित	विशेषण	हिंदी	अप्रकाशित, स्पष्ट नहीं
अदीपमान	विशेषण	हिंदी	1. जो दिया न जा सके 2 अदेय
अदीर्घ	विशेषण	हिंदी, कन्नड, संस्कृत	जो दीर्घ अर्थात् लंबा या बड़ा न हो,
अदीर्घन्	मज्ञा	मलयालम	छोटा, बौना, नाटा, ठिगना, छोटे कद का
अदीर्घसूत्र	विशेषण	हिंदी, बंगला, संस्कृत	1. लघु हस्त, क्षिप्रकारी, स्फूर्तियुक्त
दीर्घसूत्रन्	मज्ञा	मलयालम	2. चुस्त, तेज, विलम्ब न करने वाला
अदीर्घसूत्री	विशेषण	हिंदी	3 काम को टालने वाला नहीं
अदुःख	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1. दुख रहित, दुख से मुक्त 2. अनुकूल
अदुःखनवमी	मज्ञा	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	भाद्र शुक्ल नवमी, जिस दिन दुःख निवारणार्थ
अदुःखनवमी		मराठी, मलयालम	देवी की पूजा होती है

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अदुर्ग/अदुर्ग अदुर्ग	विशेषण	हिंदी, मलयालम संस्कृत	1 जहा चार दीवारी या किलावदी न हो 2 दुर्ग रहित, अदुर्गम, सहज प्रवेश योग्य
अदुष्ट अदून	विशेषण विशेषण	गुज, मलया, कन्न, संस मलयालम, संस्कृत	दुष्ट या बुरा नहीं, फलत मज्जन व्यक्ति घायल या पीडित नहीं
अदूर अदूर	विशेषण	हिंदी, असमी, संस्कृत बंगला, मलयालम	1 दूर नहीं पास, निकट, समीप स्थित 2 मन्निहित, अदूरवर्ती, मन्निकट, बहुत करीब
अदूरगामी अदूरदर्शिता	विशेषण मज्ञा	बंगला असमी	जल्दी घटने वाला निकटवर्ती, मन्निहित दूर की न सोचने का भाव, मकीर्ण दृष्टि
अदूरदर्शी अदूरदर्शी अदूरदर्शी अदूरदर्शिन	विशेषण	हिंदी, नेपाली गुजराती, मराठी असमी, उड़िया, बंगला संस्कृत	1 भविष्य का विचार न करने वाला, ना-ममझ 2 परिणाम न सोचने वाला, अपरिणामदर्शी 3 भावी फल के विषय में उदासीन 4 अविचारी, मकीर्ण दृष्टि, स्थूल बुद्धि, अपडित
अदूरबद्ध दृष्टि अदूरवर्ती दृष्टि अदूरवर्तिणी दृष्टि अदूरवर्तिता दृष्टि	मज्ञा मज्ञा मज्ञा मज्ञा	बंगला बंगला बंगला बंगला	दूर तक न देख सकना (शार्ट साइटेडनेस), ज्यादा दूर न देख सकना (शार्ट साइटेडनेस) मन्निहित, निकटस्थ, जो व्यक्ति वर्तमान की सोचे, भविष्य की सभावनाओं को न सोच सके
अदूरभव अदूरभविष्यत अदूषण	विशेषण विशेषण	हिंदी, संस्कृत, बंगला बंगला हिंदी	पास में ही स्थित, दूर नहीं है अति निकट समय, आगामी सत्य, आसन्न भविष्यत दूषण रहित निर्दोष
अदूषित अदूषित	विशेषण	मलयालम, गुजराती संस्कृत, हिंदी	1 भ्रष्ट नहीं, ताड़ना योग्य नहीं 2 अविकृत, शुद्ध, निर्दोष, बे ऐब
अदूषणीय अदूष्य	विशेषण	मराठी मराठी	1 जिसे दोष न दिया जा सके, निर्दोष 2 जो दोषयुक्त नहीं, शुद्ध
अदृक्कु	विशेषण	मलयालम	दृष्टिहीन, अधा, जिसे दिखता न हो
अदृढ़ अदृढ़	विशेषण	हिंदी, गुजराती असमी, कन्नड	1 दृढ़ नहीं, अशक्त, कमजोर 2 सख्त नहीं, ढीला, स्थिर नहीं, चंचल
अदृप्त	विशेषण	हिंदी, मलयालम, संस्कृत	दर्प या दम्भ/गर्व रहित, निरभिमान, सरल, सौम्य

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अदृश्	विशेषण	कन्नड, संस्कृत	अधा, नेत्रहीन, जो देख न सके
अदृश्य	विशेषण	हिंदी, संस, गुज, मलया	1 न दिखने वाला, अगोचर, अतद्भित, अव्यक्त,
अदृश्य		मराठी, नेपाली, कन्नड	लुप्त, गायब, अलक्षित, दर्शनातीत
अदृश्य		असमी, उड़िया, बंगला +	2 अदृश्य होने की कला, चौमठ कलाओं में एक,
अदिरुक्षियम्	मज्ञा	तमिल	प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष बनाने की कला (तर्जिल)
अदृष्य		कोंकणी	3 देखने योग्य व्यक्ति या पदार्थ नहीं
अदृश्यमु		तेलुगु	4 परमेश्वर का एक विशेषण
अदृश्युदु	मज्ञा	तेलुगु	5 जो आवरण या ओट में होने के कारण दिखाई न दे
अदृश्यकरणं	मज्ञा	मलयालम	1 एक प्रकार का नाद 2 किसी गान को गायब
अदृश्यकरणम्		संस्कृत	करना
अदृशता	मज्ञा	तेलुगु	दिखाई न देने की अप्रथा
अदृश्यविद्या	मज्ञा	गुजराती	गान गहने की कला, सोपन विद्या
अदृश्यशक्ति	मज्ञा	कन्नड	देवी शक्ति, मुक्ति शक्ति
अदृश्यांजन	मज्ञा	कन्नड	• वह अजन त्रिम आख में लगाने पर व्यक्ति किसी को दिखाई न दे
अदृष्ट	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 न देखा हुआ, जो देखा या जाना न जा सके,
अदृष्ट		मलयालम, संस्कृत	अदृश्य, अज्ञान, अन्भूत नहीं, प्रकल्पित, अर्थांगिन,
अदृष्ट	विशेषण	असमी, उड़िया, नेपाली	दृष्टि में रहे, अविचारित, भाविष्यकाल, अपकट,
अदृष्ट		बंगला, कन्नड, कोंकणी	गायब, लुप्त, अन्तर्धान, अलक्ष, आइने के विरुद्ध
अदिष्ट/अदिक्ख		पंजाबी	2 अवैध, अवाध, अमान्य, अस्वीकृत
अदट		मराठी	3 भाग्य, प्रारब्ध, किस्मत, नगीब, कर्मजन्य-संस्कार
अदृष्टं	मज्ञा	मलयालम	+ 4 धर्म अधर्म (नेपाली) आर्कास्मिक विपत्ति
अदृष्टमु		तेलुगु	+ 5 खुशकिस्मती, मुअवमर (शान्ति) (तेलुगु)
अदिष्टम्		तमिल	+ 6 विनाश (असमी)
अदिरुष्टक्कट्टे	मज्ञा	तमिल	1 अभाग्य 2 दुर्भाग्यगमन
अदिष्टक्कन्मम्	मज्ञा	तमिल	अदृष्टकर्म, अदृश्य कर्म जो मुख-दुख दें
अदृष्टकर्मन्/कम्मा(वि)		संस्कृत, मलयालम	त्रिम कार्य का अभ्यास या प्रयोगात्मक क्रियात्मक
अदृष्टकर्मा/कर्म	मज्ञा	कन्नड, हिंदी	अनुभव न हो, कार्याभ्यास में न देखा गया हो
अदिष्टक्कारन्	मज्ञा	तमिल	भाग्यवान व्यक्ति

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अदिरुष्टपरतन्त्रित्तुवम्	सज्ञा	तमिल	पाप पुण्य के अधीन होना (अदृष्ट परतन्त्रित्व)
अदृष्टक्रमे	अव्यय	बंगला	भाग्यवशात्, अनन्तर के नियम म
अदृष्टस्वर्ध	सज्ञा	मराठी	दान आदि मकिया स्वर्धजिमका फल अगले जन्म मंमिने
अदृष्टगति	विशेषण	हिंदी	1 जिमकी गति, चाल समझ म न आयें 2. चालवाज, कृत्नीति परगयण
अदृष्टघर	विशेषण	बंगला, मलया, संस्कृत	जा पहले न दया गया हो, अलक्षित पूर्व
अदृष्टनरं	सज्ञा	मलयालम	एसी मर्घ जा विना मध्यस्थ के दोनो
अदृष्टनर	सज्ञा	संस्कृत, हिंदी	दल आपस मे मिलकर कर ले
अतिरुष्टजन्मबोक्कियम्	सज्ञा	तमिल	कृत कर्मा का फल, भला या बुरा स्वर्ग नरक वा पुनर्जन्म मे भोगना (अदृष्ट जन्म भाग्य)
अदृष्टपरायण	सज्ञा	बंगला	भाग्य पर निर्भर रहने वाला, अदृष्टवादी
अदृष्टपरीक्षा	सज्ञा	बंगला	भाग्य परीक्षा, भाग्य का श्भाशुभ जानना
अदृष्टपुरुष(धं)	सज्ञा	बंगला, हिंदी, संस, मलया	भाग्य विधाना, अदृष्ट नियामक पुंश्व
अदृष्टपूर्व	विशेषण	हिंदी, गुजराती, बंगला	जा फल न दया हो, अभूतपूर्व, नवीन
अदृष्टपूर्व		नेपाली, कन्नड, संस्कृत	अदृष्ट, विलक्षण अलक्षित पूर्व, अज्ञात.
अदृष्टपूर्व		मलयालम, मराठी	अनया, ० मृत, विना सोचा हुआ
अदृष्टफल	विशेषण	हिंदी, नेपाली, मराठी	1 जिमका फल अज्ञात हो, प्रारब्ध
अदृष्टफल		कन्नड, मलयालम, संस	2 पुण्य पाप का फल जा भविष्य मे मिले, भाग्य
अदिरुष्टबोक्कियम्	सज्ञा	तमिल	1 अच्छे बुरे कर्मों का भावी फल या परिणाम
अदृष्टभोग्यम्		संस्कृत	2 शरब्ध का भाग
अदिरुष्टयत्तिनम्	सज्ञा	तमिल	(अदृष्ट यत्नम्) सफल यत्न
अदृष्टभय	सज्ञा	मराठी	कर्म का फल परलोक मे मिलेगा इसकी चिंता
अदृष्टमत	सज्ञा	मराठी, गुजराती	मरने के बाद फल मिलने का सिद्धान्त, अदृष्टवाद
अदृष्टमतवादी	सज्ञा	नेपाली, मराठी, बंगला	अदृष्ट कर्मफल को मानने वाला, परलोकवादी, भाग्यवादी
अदृष्टवशात्	अव्यय	गुजराती, मराठी	1 दैव वशात्, यद्विच्छा, सहजा सहजी
अदृष्टवंत	सज्ञा	मराठी, कन्नड	भाग्यशाली, नगीब वाला, सुदैवी
अदृष्टवान	सज्ञा	मराठी	जिमे अदृष्ट अर्थात् भाग्य मे लाभ पहुँचा हो
अदृष्टवाद	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	भाग्यपरायणता, नियतिवाद, प्रारब्धवाद,
अदृष्टवाद(वं)		बंगला, नेपाली, मलयालम	भाग्यवाद, परलोक विश्वास

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अदृष्टवादि अदृष्टवादी	मज्ञा	कन्नड नेपाली, मराठी, बंगला	1 वह व्यक्ति जो पुण्य पाप का फल परलोक या पुनर्जन्म में मिलना मानता हो 2 भविष्यवक्ता (कन्न)
अदृश्यविद्या अदृष्टविद्या	मज्ञा	मराठी गुजराती, बंगला	1 अदृष्ट होने या करने की विद्या, जादू 2 भाव्य ज्ञानने की विद्या, जातिप, मार्गदिक शास्त्र
अदृष्टलिपि	मज्ञा	बंगला	अदृष्ट रूप में माथे पर लिखा, भाग्यलेख
अदृष्टशक्ति	मज्ञा	कन्नड, मलयालम	देवी शक्ति, जो देखी न जा सके
अदिरुष्टशालि	मज्ञा	तमिल	भाग्यशाली व्यक्ति
अदृष्टाक्षर	मज्ञा	हिंदी	नीच आदि क्रम में लिखे अक्षर तो दिखने नहीं, भाच पर लगाने में दिखते हैं, गुप्त लेख
अदिरुष्टानुकूलम् अदृष्टाधीन	मज्ञा विशेषण	तमिल बंगला	भाग्य, जो ईश्वर से आधीन है (अदृष्टानुकूल) स्वाधीन नियति से शीघ्र, भाग्य के अंश में
अदृष्टार्थ अदृष्टार्थ अदृष्टार्थ अदृष्टार्थ	विशेषण मज्ञा	हिंदी मलयालम गुजराती संस्कृत	1 आध्यात्मिक या गूढ़ अर्थ ज्ञान ज्ञाना 2 जिसका ज्ञान उद्विधा का विषय नहीं, उद्विधाभाज न हो 3 छिपा हुआ, गुह्य अर्थ 4 एक प्रकार का शब्द प्रमाण (न्याय दर्शन)
अदृष्टार्थमत	मज्ञा	मराठी	मरणोत्तर फल मिलना है यह विश्वास
अदृष्टार्थवाद	मज्ञा	मराठी	भाग्यवाद, नियतिवाद
अदृष्टासयेणें	मज्ञा	मराठी	अर्जित वा न या कार्य ना देवताशाप करना पड़ना है
अदृष्टि अदृष्टि	मज्ञा विशेषण	हिंदी, गुजराती, संस्कृत मलयालम, कन्नड	1 अभाव, साध्याभाव अहमीली या वृषी निगाह, कदाचित् 2 अध्याय, नत्र हीमता
अदेख अदेखा अदिकख	विशेषण	हिंदी, मराठी, नेपाली असमी, उड़िया, बंगला पंजाबी	1 जो देखा न जाय, दिखाए न पड़े, अदृष्ट 2 अज्ञान, अदर्शन, दुर्भाग्योत्तर नहीं, परीक्ष 3 न दिखने वाला, न देखा गया
अदेख/अदेखी अदेखुं/अदेखयुं अदेखाई	विशेषण	मराठी, हिंदी गुजराती गुजराती, मराठी	1 दूसरे के मुख, उल्फ को न देख सकना 2 गन्सगी, ईश्याल, डाही 3 न देखी हुई 4 ईश्या, देव, वेर, अधुना (मज्ञा)
अदेखणा	विशेषण	मराठी	बदमूरत, कुरूप, न देखने योग्य

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अदेय	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 जो दिया न जा सके, जिसे देना अनुचित या
अदेय		नेपाली, बंगला, संस्कृत	अनावश्यक हो (यथा स्त्री, पुत्र आदि)
अदेय		मलयालम	+ 2 जिसे देने के लिए किसी को विवश न किया जा
अदेयम्		तमिल	सक वह वस्तु, यथा पाडुर्निपि (मराठी)
अदेयदान	मज्ञा	मराठी	1 जो नीति, न्याय विधि क अनुसर दिया न जा
अदेयदान	मज्ञा	हिंदी	सकता हो या देना गर्हणीय हो, अविहित दान
अदेयदान		संस्कृत	2 बुरी वस्तु, देना या समर्पण करना, अवध दान
अदेव	मज्ञा	हिंदी	1 जो देवता या देव ममान न हो
अदेव		संस्कृत	2 ईश्वर विहीन अधार्मिक, अभक्त अपावित्र
अदेव		मलयालम	3 क्रम, गक्षम, दैन्य, देव सवधी नहीं
अदेवुडु	मज्ञा	तेलुगु	4 जो देव या भगवान नहीं 5 नास्तिक
अदेवक	विशेषण	हिंदी	जो देवता क निमित्त न हो
अदेवमातृक	विशेषण	मलयालम	1 पोषक मातृरूप में देवता या गेषा का न होना.
अदेवमातृक		संस्कृत, हिंदी	पर्याप्त वर्षा न होना 2 तालाब आदि के जन से मीया जाना
अदेश	मज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	1 अनुपयुक्त अनुचित, वर्जित, निन्दित स्थान
अदेशं		मलयालम	2 विदेश, परदेश, कुदेश, अपना देश नहीं
अदेशकालं	मज्ञा	मलयालम	कुदेश और कुसमय, जो समय या स्थान की दृष्टि से
अदेशकाल		संस्कृत	अनुचित हो
अदेश्य	विशेषण	हिंदी	1 जिसका आदेश, निर्देश, सूचन या वताना उचित न हो
अदेश्य		संस्कृत	2 जो निश्चित अवसर या स्थल पर उपस्थित न हो
अदेश्य		मलयालम	या उममे सम्बद्ध न हो
अदेह (त्र)	विशेषण	हिंदी, मलयालम	बिना देह, अशरीर, विदेह
अदेही	मज्ञा	गुजराती	कामदेव, जिसकी देह या शरीर नहीं है
अदेन्य	मज्ञा विशेषण	हिंदी, संस्कृत	दीनता हीनता रहित, दीनता का अभाव
अदेव	विशेषण	हिंदी, मराठी	1 देवता या उनके कार्यों से सम्बद्ध नहीं, अधार्मिक
अदेव		संस्कृत	2 जो देवताओं या भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित न हो
अदेव	विशेषण	मलयालम	3 अभागा, दुर्भागा +4 हानिकारक, घातक (मराठी)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अदोष/अदोखिल	विशेषण	हिंदी	अदोष, बरैब बेदाग
अदोष्या	विशेषण	हिंदी	अशोषक, विचारवान (नरेश)
अदोष	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 दापहीन निर्दोष त्रुटिहीन, निरपराध बे ऐत्र
अदोष		मलयालम, संस्कृत	2 रचना सबधी दोषो का अभाव (अश्लीलता आदि)
अदोह	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 दूध न देना, दूध न होना या जब दूध दहना संभन
अदोहं		मलयालम	न हा + 2 छोट अदीर्ग (हिंदी)
अपुत्	विशेषण	मलयालम	चमकहीन निमग धुति या दीप्ति न हो
अपूत्य	विशेषण	हिंदी	जाए से नहीं, ईमानदारी से प्राप्त धन
अद्रव	विशेषण	हिंदी, गुजराती, बंगला	1 तरल नहीं, ठोस, मख्त, अप्रवाही पदार्थ
अद्रव		मलयालम	2 द्रव अर्थात् बहने वाली चीज नहीं
अद्रवमु		तेलुगु	3 जो गले या पिगले नहीं वह
अद्रव्य	विशेषण	हिंदी	1 तुच्छ बकार सारहीन नत्वहीन प्रस्तु
अद्रव्य		संस्कृत	2 जिमके पास सम्पत्ति न हो दीरद्र
अद्रव्य		मलयालम	+ 3 कपात्र कृशय्य (सम्कृत)
अद्राव्य	विशेषण	मराठी, गुजराती	1 जिममे रम न हो रमहीन 2 जो पिगले नहीं
अद्रुतं	अव्यय	मलयालम	जल्दी नहीं, धीरे धीरे धीघ्रता से नहीं, फूर्ती से
अद्रुत		कन्नड	नहीं, आदिस्ता आदिस्ता
अद्रोह	सज्ञा	हिंदी, गुजराती	1 द्रोह द्वेष या अशिष्टाचरण आदि का अभाव,
अद्रोहं		मलयालम	विद्वेष शून्यता, द्रोह रहित
अद्रोह		बंगला, संस्कृत	2 अहिंसा, सद्व्यवहार, विनम्रता
अद्रोही	विशेषण	हिंदी, गुजराती, बंगला	शान्तिप्रिय, द्वेष रहित, सद्व्यवहारी, अहिंसक
अद्रोह्य	विशेषण	गुजराती	सद्व्यवहारकारी, जिसका विरोध न किया जा सके
अद्रोह कृति	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	द्वेष रहित आचरण
अद्रुद्ध	सज्ञा	मराठी	1 शत्रुता, प्रतियोगिता या विरोध मतभेद न होना
अद्रुद्ध		हिंदी	2 द्वित्व या दोपन न होना या मानना
अद्रुद्ध		मलयालम	3 गर्मी सदी, सुख दुख, भलाई बुराई को एक सा या
अद्रुद्ध		संस्कृत	तुच्छ मानना 4 आत्मा परमात्मा दो नहीं एक हैं
अद्रुद्धु		तेलुगु	ऐसा मत रखने वाला मनुष्य

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अद्वन्द्वयुक्ति	सज्ञा	मराठी	अद्वैतमतानुमादन, ब्रह्मवादी दार्शनिकता
अद्वय	विशेषण	हिंदी, गुजराती, बंगला	1 दो नहीं एक, अकला, अद्वितीय, अनोखा, विलक्षण
अद्वय	सज्ञा	कन्नड, संस्कृत, मलया	2 अद्वितीयता, एक्य, अभेद, तादान्य
अद्वयं		मलयालम	3 ब्रह्म जगत आत्मा की एकता, अद्वैत, परमसत्य,
अद्वयन्	सज्ञा	मलयालम	परब्रह्म 4 महात्मा वृद्ध का नाम 5 प्रधान, मुख्य
अद्वयवादि	विशेषण	मलयालम, कन्नड	1 वेदान्त मत का अनुयायी 2 वेदान्ती
अद्वयवादिन्		संस्कृत	3 आत्मा और परमात्मा एक ही है और जो कुछ जगत
अद्वयवादी		हिंदी, बंगला	दिखाई देता है माया या मिथ्या है ऐसा मानने वाला
अद्वयानन्द	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	ब्रह्मानन्द, अभेदवाद, आत्मा ब्रह्म की एकता
अद्वयु	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1 दिव्य भाग में युक्त 2 भीतर बाहर से एक रूप
अनुवा	सज्ञा	तमिल	2 दो वस्तुओं में एकत्र अद्वैत
अद्धार	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	द्वार गहन स्थान, गम्हा जिममें द्वार न हो
अद्विज	सज्ञा	हिंदी	1 जो दम या पक्षी या दिव्यमा न 12 निमका सम्कार
अद्विज		कन्नड	द्वारा दूसरा जन्म न माना जाय तथा अचलपर्वीतधारी
			3 अत्राक्षरण या तीन ब्राह्मण + 4 दंत विहीन (कन्नड)
अद्वितीय	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 दूसरा नहीं रहना, एकमात्र अनन्य, अकला
अद्वितीय		असमी, उड़िया, बंगला	2 वजाह, सर्वश्रेष्ठ, विलक्षण अनुग्रह, बेमिसाल,
अद्वितीय		नेपाली, कन्नड, मलया, संस	असाधारण, लागानी, अद्भुत, अनोखा, एककी,
अदुती		पंजाबी	(गुनीक) अगमकक्ष, तुलना विहीन
अद्वितीयम्	सज्ञा	तमिल	3 दंत का अभाव, अद्वैत, परब्रह्म, वृद्ध
अद्वितीयम्		तेलुगु	4 जिमके समान कोई दूसरा न हो
अद्वित्व	सज्ञा	कन्नड	द्विज या दूसरा न होना
अद्विषेण्य	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	गुणा वाग्य नहीं, विरोध योग्य नहीं, समदीदा
अद्वेष	विशेषण	हिंदी, गुजराती	द्वेष वैर, गुणा का अभाव, शान्त, निर्द्वैर
अद्वेष		संस्कृत, मलयालम	किमी के प्रति गुणा या द्वेष का भाव न रखना
अद्वेषता	सज्ञा	गुजराती	द्वेष हीनता, वैर विरोध शून्यता
अद्वेषिन्		संस्कृत	1 जिम किमी से द्वेष न हो, द्वेष हीन

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अद्वेषी	विशरण	हिंदी	2 किसी की शत्रुता या उन्नति से न जलने वाला
अद्वेष्या	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	3 जो शत्रु या दर्शी न हो मित्र शुभ चिन्तक
अद्वैत	विशरण	हिंदी, नेपाली, गुजराती	1 जो दूसरा न हो तैसा दूसरा न हो
अद्वैत	सज्ञा	असमी, उड़िया, बंगला	2 अदितीय अन्वय वेदान्त लोकांतर, सर्वात्मक
अद्वैत		मराठी, कन्नड, संस्कृत	3 भद्रीन द्वैत गहन एकमान श्रुत अपरिचरितनशील
अद्वैतं		मलयालम	3 ऐस्य अभिन्न तादात्म्य सम्भाव अनन्य, दिव्यशून्य
अद्वैतमु		तेलुगु	4 अन्य द्वय मत्रोपरि 5 जीवात्मा परमात्मा की
अनुवैतम्/अतोयतम्	सज्ञा	तमिल	4 एकता नष्ट होने में अभेद द्वैत भाव न होने
अद्वैतकुसरी	सज्ञा	मराठी	अद्वैतमत वेदान्त की गूढता दर्शयता
अद्वैतभाव	सज्ञा	गुजराती	भेदवाद में अभास मुद्रा में और अन्या में भेद नहीं
अद्वैतमति	सज्ञा	कन्नड	एकता एक चित्त द्वैत मन
अद्वैतमत	सज्ञा	गुजराती	1 वेदान्त मत जिसमें द्वय में मिश्रण सब मिथ्या है
अद्वैतवाद	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	2 आत्मा परमात्मा एक मानने का सिद्धान्त
अद्वैतवाद (बादु)		मराठी, तेलुगु (सिंधी)	3 नान्य जगत द्वय एक मानना 4 सब कुछ द्वय है
अद्वैतबाव		असमी, उड़िया, बंगला	3 जगत का मूल तत्त्व एक है यह मान्यता
अद्वैतवादि	सज्ञा	मलयालम, कन्नड	1 जगत का मूल तत्त्व एक और अविभाजित है
अद्वैतवादिन्		संस्कृत	आत्मा परमात्मा में अभेद और जगत मिथ्या है
अद्वैतवादी		हिंदी, गुजराती, नेपाली	दूसरे सिद्धान्त का मानने वाला और प्रचार करने
अद्वैतवादी		असमी, उड़िया, बंगला	माना वेदान्ती 2 प्रकृत्य जगत् मिथ्या जीवो बह्यैव
अद्वैतमतवादी		मराठी	नापर मानने वाला यस्मिन्
अद्वैतसुख	सज्ञा	मराठी, गुजराती	वेदान्त द्वय के एकत्व की प्रतीति में होने वाला
अद्वैतानन्द(दं)		गुज, मलया, बंग, संस, मरा	आनन्द अलौकिक आनन्द
अद्वैति	सज्ञा	तेलुगु, मलया, कन्नड	1 अद्वैतवादी दृष्टिकर जीव में अभेद मानने वाला
अद्वैतिन्		संस्कृत	+ 2 ३, ईसाई वितण्डावादी, ईसाभाम वादी (मलयालम)
अनुवैति	सज्ञा	तमिल	3 अद्वैत वाद का समर्थक
अद्वैती		हिंदी, मराठी	4 द्वैत शून्य में सिद्धान्त का अनुयायी
अद्वैध	विशरण	हिंदी	1 ना दा या कई भागों में न बाटा जा सके
अद्वैध	विशरण	संस्कृत	2 जो वियुक्त या अलग न हो 3 जिसमें असद्
अद्वैध	विशरण	बंगला	भावना न हो, अष्टा 4 दीक माफ, खरा

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अदोहं		मलयालम	दुर्भावना का अभाव
अधन	विशेषण	हिंदी, गुज, मरा, मलया, कन्न	1 धनहीन, निर्धन, गरीब, द्रव्यहीन, कगाल
अधनी		गुजराती, संस्कृत, नेपाली	2 जिनमें स्वतंत्र रूप में जायदाद का अधिकार न हो
अधनुडु	मज्ञा	तेलुगु	3 धनसंपत्ति का प्रतिकार्य
अधनव्यवहार	मज्ञा	मराठी	दीवानी नहीं फाजदारी अभियोग
अधन्य	विशेषण	गुजराती	1 अभाग्य, दुखी, नृच्छर, निन्ध्य, धन्य नहीं
अधन्य		संस्कृत, हिंदी	2 जो धन्यादि में भगपुरा न हो, अगमन्
अधन्य		मलयालम	3 जो उन्नति न कर रहा हो
अधन्यता	मज्ञा	गुजराती	अभाग्यपन, जिस "धन्य हो" किसी ने नहीं कहा
अधर्म	मज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 पाप, अन्याय, कृकर्म, अनीति, गुनाह, दुष्कर्म,
अधर्म		मराठी, कन्नड, संस्कृत	कृकृत्य, अन्याय, अन्याय, दगाव, निरिच्छ कार्य,
अधर्म		असमी, उडिया, बंगला	अपराध, दुग नाम, विद्वम्बना
अधर्मम्/अदरुमम्		तमिल	2 धर्म या शास्त्र श्रुति स्मृति विरुद्ध काय
अधरम् (अधर्मु)		पंजाबी (सिंधी)	3 धर्म का अभाव, अकर्तव्य
अधर्म		मलयालम	4 न्याय में वर्णित चार्वीय गुणों में से एक (संस्कृत)
अधर्ममु		तेलुगु	5 एक राजा का नाम, मूल के एक अन्याय का नाम
अधर्माचरण	मज्ञा	गुजराती, बंगला	1 धर्म विरुद्ध वर्तन या आचरण, पापाचार
			2 असन कार्य या अनुष्ठान
अधर्माचारी	विशेषण	गुजराती, बंगला, संस्कृत	1 धर्मभ्रष्ट, अधार्मिक, धर्मज्ञान शून्य
अधर्मनिष्ठ		बंगला	2 धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला, दुष्ट
अधर्मात्मा(बु)/अधर्मि	मज्ञा	मलयालम	1 पापी, पापाचारी, दुष्ट, वृषी भावना वाला
अधर्मात्मन्/अधर्मिन्		संस्कृत	2 सत्ताई या ईमानदारी रहित, बेईमान, गुणहीन
अदनमर्		तमिल	3 अपवित्र, अन्याय में, दगावारी, अनिष्टकारी,
अधर्मी		हिंदी, गुजराती, नेपाली	दतिकारक, अधर्मगत, धर्मभ्रष्ट, कृकर्म
अधर्मी/ अधर्मी		कन्नड, असमी, बंगला +	4 अधर्म समान (अगमी)
अधरमी		पंजाबी	5 अपने धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला
अदनुमि	मज्ञा	तमिल	धर्मभ्रष्ट स्त्री
अधर्मा	मज्ञा	संस्कृत	गूनी मती दुष्टता

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अधर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकायं अदर्मास्तिकायम्	मज्ञा	हिंदी मलयालम तमिल	1 जैन धर्म में वर्णित द्रव्यों के छः भेदों में से एक जो अरुची और निच्य माना गया है + 2 जो निष्क्रिय होते हुए भी आकर्षित कर सूख दे पद्मास्तिकायो में एक (तमिल)
अधर्मिष्ट	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	अतिदृष्ट, धर्म विरोधी, गवसे ख्यादा दुष्ट
अधर्म्य अधर्म्य अधर्म्य अधर्म्य	विशेषण	हिंदी, बंगला मलयालम गुजराती संस्कृत	1 जो धर्म युक्त न हो या धर्म की दृष्टि में ग्ययुक्त या न्याय मगत न हो 2 धर्म विरुद्ध, पाप जनक + 3 अवैध, अन्याय, गहित, कानून विरुद्ध (मलयालम)
अधर्षणी	विशेषण	हिंदी	जिम दबाया, डगया, धमकाया न ता मकें, निडर, निर्भय, रयन
अधर्षित अधव/अधव अधाक	विशेषण मज्ञा विशेषण	मलयालम, संस्कृत मलयालम, संस्कृत, हिंदी गुजराती	1 अर्थात् 2 अज्ञेय विधवा, वया, गट, जिमका प्रति मर गया हो धाक या दाव विना जिम पर गव, धीम न वनु
अधातु अधातुक	मज्ञा विशेषण	गुजराती, बंगला, हिंदी गुजराती	धातु नहीं धातु में भिन्न (नान मलम) धातु में वना नहीं
अधान्यवाय अधार अधारा	मज्ञा मज्ञा विशेषण	हिंदी, संस्कृत नेपाली हिंदी	यस स्थान या प्रदेश जहाँ धान्य पैदा न हो 1 नीच, मध्य 2 कठिनता, मांशकन 1 जिम शस्त्र में धार न हो, विना धार का 2 अशिन, नसे लारी लड़ी जाँद (नान लेथल)
अधार	विशेषण	गुजराती	आधार विना, अमद्य
अधारणक अधारणक	विशेषण	मलयालम, हिंदी संस्कृत	1 नाभदायक नहीं 2 जो महाग न द मकें 3 जिमसे प्राप्ति कृष् न हो, विना मजदूरी के
अधार्मिक अधार्मिक अधार्मिक अधार्मिकुडु	विशेषण विशेषण मज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली बंगला, संस, मराठी, असमी मलयालम तेलुगु	1 जा कार्य धर्म के अनुसार, अनुकूल या उसमें मवध रखने वाला न हो, धर्मविरुद्ध 2 जा व्यक्ति धर्म विहित कार्य न करना हो 3 धर्महीन, पापी, अधर्मगत, जिममें धर्मभाव न हो + 4 जो दान या भिक्षा नहीं देता (तेलुगु)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अधार्मिकता	संज्ञा	गुजराती	अधर्म की दशा या भाव
अधियुं, अधियो	विशेषण	गुजराती	मूर्ख (अ+धिय=वृद्धि नहीं है जिममें)
अधीर	विशेषण	हिंदी, मराठी, बंगला, संस	1 जो धीर या शान्त न हो, अस्थिर चित्त
अधीर		असमी, उड़िया, पंजाबी	2 जिमका धैर्य टूट गया हो या न रह गया हो
अधीर		नेपाली, कन्नड, मलया	3 व्याकूल, सभ्रमित, आतुर, बेचैन, उद्विग्न, चंचल,
अधीरुं		गुजराती	भीरु, एबगया हुआ, उत्तेजित, बेसब्र, उतावला,
अधीरु (अधीरुं)		सिंधी	असहिष्णु, हडबड़ाया हुआ
अधीरमु		तेलुगु	4 जिममें साहस न हो, कायर, बुजुर्दिल, डरपोक
अधीरता	संज्ञा	हिंदी, बंगला, मराठी	1 धीरज का अभाव, असहिष्णुता, अदृढ़ता,
अधीरता		पंजाबी, तेलुगु	वृजदिली, चाबल्य, अस्थिरता, उद्वेग
अधीरार्ई/अधीरपणुं		गुजराती	2 कायरता, भीरुता, घबराहट
अधीरप्रकृति	संज्ञा	बंगला	1 हृदय दोबल्य, घबराहट की आदत
			2 चंचल स्वभाव, अस्थिर स्वभाव
अधीरा	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	1 साहित्य में मध्या प्रादा नायिकाओं का एक भेद
अधीरा		नेपाली, बंगला	2 वह नायिका जो नायक में अन्य नारी के विलास
अधीरा	संज्ञा	मराठी, असमी	विद्व देख अपलक्ष कोष करे, धैर्यहीनता, चपला
			3 विजनी
अधुपा/अधुबा	विशेषण	मराठी	1 जो धोया नहीं गया, गदा
अधुआ	विशेषण	उड़िया	2 बिना धुला वस्त्र जो अभी कोम है
अधुर	विशेषण	मलयालम, हिंदी, संस्कृत	1 भार या बोझ से मूक 2 चिन्ता रहित
अधुर्य	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	3 भार लादने योग्य न होना
अधूत	विशेषण	मलयालम, हिंदी	1 अर्कामत, निडर + 2 दीठ (हिंदी)
अधूमक	विशेषण	मलयालम, हिंदी	1 धुंआ नहीं, आग जैसा धधकता हुआ, निर्धूम
अधूमक	विशेषण	संस्कृत	2 जलनी आग जिममें धुआ न हो
अधृत	विशेषण	हिंदी, मलया, संस्कृत	1 जो धारण किया, पकड़ा, दबा या नियंत्रित न हो
अधृतन्	संज्ञा	मलयालम	2 अनधिकृत, अनियंत्रित 3 विष्णु की संज्ञा
अधृति	संज्ञा	हिंदी, बंगला, कन्नड	1 अदृढ़ता, असहनशीलता, अगम्य, स्थिरता का अभाव
अधृति		मलया, तेलुगु, संस्कृत	2 धैर्यहीनता, अधीरता, अस्थिरता, असुख

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अधृष्ट अधृष्ट	विशेषण	हिंदी, बंगला मलया, कन्नड, संस्कृत	1 दीठ नहीं, अहकार शून्य, अनुदत्त 2 मलज्ज, विन्म, विनीत, अजेय, जिसे क्षति न पहुँची हो
अधृष्य अधृष्य	विशेषण	मलयालम, हिंदी संस्कृत, बंगला	1 जिसके समीप कोई न पहुँच सके जिस पर वाग न किया जा सके 2 लज्जाशील, अजेय, गर्वीला
अधेनु	मज्ञा	हिंदी, मलया, संस्कृत	दूध न देने वाली गाय, ठाठ, लाती हुई गाय
अधीरज अधैर्य अधैर्य अधैर्य अधैर्य अधैर्य अधैर्य अधैर्य अधैर्य	मज्ञा	पंजाबी, गुजराती हिंदी, गुजराती, नेपाली असमी, उड़िया, बंगला कन्नड, संस्कृत, मराठी मलयालम तमिल, कोंकणी तेलुगु	1 धैर्य का अभाव, बेमद्री, व्याकूलता, अशान्ति 2 माहस हीनता, कायरता, भान्तरता भीरुता, उन्माह हीनता, विकलता 3 अस्थिरता, चंचलता उद्विग्नता, जन्मबाजी 4 धीरज न होने की अवस्था या भाव 5 चित्त में एकग्रता न होना 6 मन की उद्विग्नता या चंचलता का अवगुण
अधोक	विशेषण	मराठी	मूर्गक्षत वे खतरा, हानि भय रक्षित
अधोक	अच्यय	मराठी	बिना हानि या भय के, बखरने (अध्याय)
अधोड	मज्ञा	मराठी	मोटा ताजा, मुस्टडा, पद, बदसुरत, अविवाहिता
अधोडी अधोड़ी	विशेषण मज्ञा	मराठी हिंदी	1 कच्ची खाल का बना (जूता आदि), मोटा चमड़ा 2 मोटा-झोला, बटुगा 3 लालची, लोभी
अधोरी	विशेषण	मराठी	1 चिट जान वाला अधीर, चंचल 2 खान का शौकीन 3 बात को गुप्त न रख सकने वाला, दीली जीभ का
अधुव अधुव अधुव अधुव	विशेषण	हिंदी, गुजराती बंगला, मराठी संस्कृत, कन्नड मलयालम	1 अस्थिर, अनिश्च, अनिश्चिन्, अनवधारित 2 मद्दिग्ध, मशयपूर्ण, अशाश्वत, शकापूर्ण 3 परिवर्तनशील, चंचल, क्षणभंगुर, डावाडोल 4 जो अलग या पृथक् किया जा सके
अधुवन् अध्वनं अध्वस्त	मज्ञा मज्ञा विशेषण	मलयालम मलयालम मलयालम, संस्कृत	जिसमें निश्चिन् ज्ञान या सूचना प्राप्त नहीं हो ध्वनि का अभाव जो नष्ट नहीं हुआ
अध्वर अध्वर	विशेषण मज्ञा	हिंदी, संस्कृत हिंदी, संस्कृत, गुजराती	अकर्तृत्व, मावधान, टिकाऊ, अबाध, व्यतिक्रम रहित साम यज्ञ, आकाश, आठ वय ओं में से एक

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अध्वान्त(त्)	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत, मलया, गुज	हलका अंधग, छाया यात्रा का अंत, मार्ग की सीमा
अनख	विशेषण	हिंदी	नग्वहीन, जिमक नावून नहीं
अनइ	विशेषण	बंगला, हिंदी	जा हिन नहीं, अचन, अनम, अपरिग्वर्तनीय, फूहड
अनत	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 झुका नहीं, सीधा खडा, अन्नम्र, अविनीत, उद्धत
अनत		बंगला, संस्कृत	2 अवक्रीभूत, अप्रणत, निगकुश, अवशीभूत
अनत		मलयालम +	3 अकडा हुआ गर्म मिजाजवाला ठरा (नेपाली)
अनति	सज्ञा	हिंदी, नेपा, बंग, संस, मलया	नमता का अभाव, अविन्य, घमड
अनथ	विशेषण	गुजराती	1 बिना नथा या वीधा, नाक म छुट नहीं किया 2 निगकुश, नन्थ बिना
अनन्द	सज्ञा	मलयालम	1 प्रमन्ना, मृग या हृष का अभाव, बेजोड, अद्वितीय,
अनं (क)	विशेषण	हिंदी, नेपाली, मराठी	आनन्द रहित 2 एक प्रेत लोक का नाम (सज्ञा)
अनम	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1 न झुकने, न नमस्कार करने वाला, उद्धत
अनम		संस्कृत, मराठी	2 ब्राह्मण जो नमस्कार न कर उसके बदले
अनमन्	सज्ञा	मलयालम	आशीर्वाद देना ह
अनमनीय	विशेषण	उड़िया	अन्म्य, जिमका झुकाया या नत न किया जा मके,
अनमनीय		बंगला	कठोर कठार शक्ति अदम्य, दुर्दगनीय, अनम्र
अनमित	भूत कृदत	बंगला	जिस नत न किया गया हो, अपराभूत, अविजित
अनमी	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 जा न झुके, न दवे, स्वाभिमानी, हठी, जिद्दी
अनम्य	विशेषण	बंगला	2 लचीलापन नहीं, कठोर, मरत, दृढ 2 ब्राह्मण जो
अनम्य	सज्ञा	संस्कृत, मलयालम	दूसरे को नमस्कार न कर उत्तर मे आशीर्वाद दे
अनम्र	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मलया, संस	अविनीत, उद्ध, उद्धत, घमडी, न झुकने वाला
अनय	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी,	1 अनीति, अन्याय अमदाचरण, दुर्नीति, कुप्रबध
अनय	विशेषण	कन्नड, नेपाली, संस, मलया	2 द्भाग्य, मुसीबत, दुख विपद, अमगल
अनयं	सज्ञा	मलयालम	3 बुरा चालचलन, बुरी गति, अव्यवस्था
अनयम्		तमिल	4 बदला, हानि, नियमभंग करना, दशचरित्रता
अनयम्		तेलुगु +	5 अन्यायी, दृष्ट, अनीतिमान, दुर्वर्तनी, रापी (मराठी)
अनयन	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	नेत्रहीन, अधा, चक्षु रहित
अनर	विशेषण	गुजराती, कन्नड	नर नहीं, नपुंसक, हिजडा, मादा

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनव्य	मज्ञा	कन्नड	नया नही पुराना, जीर्ण
अनश्वर	विशेषण	मराठी, नेपाली, बंगला	1 नाशवान नही, शाश्वत, चिरकालिक, अक्षय,
अनश्वर		हिंदी, गुजराती, कन्नड, संस	चिरस्थायी, अविनाशी, ध्रुव, नित्य, सनातन
अनश्वर		मलयालम	2 सदा सर्वदा रहन वाला
अनश्वरमु		तेलुगु	3 जा कभी नष्ट न हो, जिसकी कभी समाप्ति न हो
अनश्वरी	मज्ञा	बंगला	अनश्वरता, अनश्वरत्व, जिसका नाश न हो
अनागर	मज्ञा	हिंदी	नगर या शहर का नही, ग्रामीण, गँवार
अनाडी	विशेषण	असमी, सिंधी	1 दूष्ट होने के कारण जो दूसरे से मिलकर न रहे
अनाडी	विशेषण	गुजराती, मराठी	2 गवार, मूर्ख, जिद्दी हठी, इज्जन योग्य नहीं, अज्ञानी
अनाथ	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 जिसका नाथ स्वामी, पालक पोषक न हो या
अनाथ	मज्ञा	असमी, उड़िया, बंगला	जिसका रक्षक, आश्रयदाता, माता पिता न हो
अनाथ		कन्नड, पंजाबी, नेपाली	2 यतीम, अमहाय, अर्निर्वहीन विधवा, बेवारिस,
अनाथ		मलयालम, संस्कृत, सिंधी	अशरण निराश्रित, गरीब, दीन दुखी
अनाथ		तेलुगु	3 निगधार, दरिद्री, बेचारा दलभाग्य
अनादन्		तमिल	+ 4 जिससे उच्य काई न हो इश्वर (तमिल)
अनाधु		सिंधी	+ 5 अन्य कष्ट उसका नाथ या स्वामी न हो सकता हो (तमिल)
अनाथता	मज्ञा	गुजराती	अनाथपन, दरिद्रता, कगाली, दीनहीनता
अनाथनाथ	मज्ञा	कन्नड	दीनबधु, निगधार का आधार
अनाथपिंडिकन्	मज्ञा	मलयालम	1 दरिद्र को भोजन करने वाला
अनाथपिंडिक		संस्कृत	2 बुद्ध का एक भक्त व्यासारी
अनाथप्रेतं	मज्ञा	मलयालम	लान्कारिण मुद्रा
अनादप्पिरेदम्		तमिल	किसी यतीम व्यक्ति का शव
अनाथप्रेत		संस्कृत, मराठी	पेसा शव जिसका दाह सम्कार करने वाला कोई न हो
अनादपिल्लै	मज्ञा	तमिल	अनाथ बालक
अनाथबंधु	विशेषण	मराठी	अमहाय का आश्रयदाता, दीनबधु
अनाथमंदिरं	मज्ञा	मलयालम, संस्कृत	अनाथालय, यतीमखाना, गरीब घर
अनाथा	विशेषण	हिंदी, बंगला	विधवा, अनाथनी, गरीब स्त्री, निराश्रय
अनाथे		कन्नड	स्त्री जिसका भरण पोषण करने वाला न हो
अनादै		तमिल	अमहाया, वमहाय बेचारी

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनाथानुसारी	विशेषण	हिंदी	अनाथों का सहायक
अनाथानुसारिन्		संस्कृत	गरीबों की मदद करने वाला
अनाथ-सभा	सजा	मराठी	अनाथ गृह, भिखारीखाना (होम फार डेस्टीच्युट्स)
अनाथालय	सजा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	जहाँ बिना मा वचक बच्चों का पालन पोषण
अनाथालय (यु)		पंजाबी, सिंधी	माना है, निगधार बालका का पालन गृह, यतीम
अनाथाश्रम		गुजराती, उड़िया, हिंदी	खाना, अनाथा का संरक्षण गृह
अनाथिनी	विशेषण	हिंदी, बंगला	विधवा अनाथा, अग्रहाया
अनादि	विशेषण	मलयालम	1 शब्द विहीन जिसमें नाद या ध्वनि न हो
अनावै/अनाव	सजा	तमिल	2 शरीर में एक योग स्थान, पांडुर, कला आं में एक
अनाम	विशेषण	हिंदी, मराठी, असमी, नेपा	1 नाम रहित गुणनाम अग्रसिद्ध, दुर्नाम, अपकीर्ति
अनामी	सजा	पंजाबी, गुजराती	+ 2 इश्वर, परमेश्वर (गुजराती, मराठी)
अनामि/अनाम		असमी, मलयालम	+ 3 अवर्णनीय उत्तम (गुजराती)
अनामु		सिंधी	+ 4 मलनाम, अनामिका उगली (हिंदी)
अनामधेय	विशेषण	कन्नड	1 जिसका नाम न हो, या न होने के बराबर हो
अनामदेयन्	सजा	तमिल	2 कुछ व्यक्ति हीन शून्यमात्र व्यक्ति
अनामधेयुमु/डु		तेलुगु	+ 3 बदनाम (कन्नड)
अनामक	विशेषण	गुजराती	1 नामहीन अग्रसिद्ध, गुणनाम, बदनाम
अनामक		हिंदी	+ 2 अन्वयज (संस्कृत, गुजराती) मलनाम (हिंदी)
अनामकं	सजा	मलयालम, संस्कृत	+ 3 चवामीर (मलयालम कन्नड) 4 अनामिका उगली (हिंदी)
अनामक		कन्नड	+ 4 जिसका नाम लेना निषिद्ध हो, गर्भ का आठवा मास (हिंदी)
अनामिक	विशेषण	मराठी	1 देख — अनामक
अनामिक		संस्कृत	+ 2 जिस प्रसूतक पर लेखक का नाम न हो (मराठी)
अनामिक		कन्नड	3 नाम छिपाना, गुणनाम, नाम लेने के अयोग्य
अनामिक		गुजराती	+ 4 अछूत, असृश्य पापी, नीच (मराठी)
अनामा	विशेषण	हिंदी, बंगला	नामहीन, ख्याति हीन
अनामिका	सजा	हिंदी, गुज, मलया, मराठी	1 कनिष्ठिका से पहली हाथ की उगली
अनामिका		असमी, बंगला, तेलुगु	2 प्राय अगुठी पहनने की उगली

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनामिके, अनामे अनामिकै		कन्नड तमिल	3 जिगका नाम न हो + 4 गाडाल म्त्री (य...ड)
अनायक	विशरण	हिंदी, गुज, मरा, अस, कन्न	1 नेता, कर्ता, अधीक्षक, गान्धिक या शासक का न होना
अनायकम्	मज्ञा	तमिल	2 अव्यवस्था, अधाधुभी, वे नदिश, कशामन
अनायकमु		तेलुगु	3 अनाथ अगपाय, जो स्वयं नायक न हो
अनायकुडु	मज्ञा	तेलुगु	4 गनकता, म्नामिके अतिरिक्त दूसरा व्यक्ति (अगमी)
अनायकी	मज्ञा	मराठी	अव्यवस्था, अगजकता
अनाश	विशरण	हिंदी	नोकिन, जिमका नाश न हो, जो नष्ट न किया गया हो
अनाशक	विशरण	हिंदी, संस्कृत	1 जो नाशक न हो 2 आमरण अनशन करने वाला
अनाशी/अनाशु	विशरण	हिंदी	3 अनश्वर, शान्ता या ब्रह्म नाश गति ३
अनारी	विशरण	असमी	दृष्ट म्त्री जो दूसरे से गालबंद न कर सक
अनास/अनासिक	विशरण	हिंदी	बिना नास का, नकला
अनासिकमु		तेलुगु	नासिका गति
अनास्तिक	विशरण	मलयालम, संस्कृत	उश्वर विश्वासी, धार्मिक व्यक्ति
अनास्तिक्यं	मज्ञा	मलयालम, संस्कृत	अनास्तिकता, धार्मिकता
अनिदित	विशरण	मराठी, गुजराती	अद्वित्त, निदोय, जिगकी निदा न हो
अनिदित		कन्नड, हिंदी, मलयालम	मृदर, श्रेष्ठ, उत्तम
अनिंदनीय	विशरण	हिंदी, गुजराती	1 जो निदा योग्य न हो, निदोय, त्रुटि विहीन
अनिंध		हिंदी, मराठी, कन्नड, मलया	2 श्लाघ्य, प्रशमनीय, मृदर, उत्तम, श्रेष्ठ
अनिकारं	विशरण	मलयालम, संस्कृत	जो दूसरे के मन को न दुखाये, न अपमान करे
अनिकेत(तं)	विशरण	हिंदी, गुजराती, मलया	1 गृह विहीन 2 जो इधर उधर भूमता फिरे
अनिकेतन्	मज्ञा	संस्कृत, मलयालम	3 मन्यामी, खानाबदोश, आवाग (मज्ञा)
अनिगीर्ण	विशरण	हिंदी, संस्कृत	1 जो गिगला हुआ न हो, अभुक्त, अकथित, प्रकट
अनिगीर्ण		मलयालम	2 जो छियाया, दबाया हुआ न हो, व्यक्त है
अनिगूहित	विशरण	मलयालम, संस्कृत	जो टका, छिया, छद्म वेश में न हो, स्पष्ट
अनिग्रह	मज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 बधन, रोक, दण्ड का अभाव, खंडन का अभाव
अनिग्रहं		मलयालम	2 तर्क में हार न मानने वाला
			3 अनियंत्रित, अजेय, अदण्ड्य, अगीम, रोगरहित

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनिषा	सज्ञा	गुजराती	निगाह या कृपादृष्टि नहीं, अवकृपा
अनिजक	विशरण	हिंदी	अपना नहीं दूसरे का पराया
अनित्य	विशरण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 अस्थायी नश्वर विनश्वर विनाशी, नाशवान,
अनित्य		असमी, उड़िया, बंगला	अध्रुव क्षणिक क्षणस्थायी अचिरस्थायी, मिथ्या
अनित्य		मलयालम	2 नित्य शाश्वत मनत, अपरिवर्तित या सनातन नहीं
अनित्य		संस्कृत, नेपाली, कन्नड	अविकाश नहीं मदिग्ध मशयात्मक
अनित्त		पंजाबी	3 केवल प्रसंगविशेष पर करने का कार्य या विधि
अनित्तम्		तमिल	4 वस्तु का परिवर्तनशील रूप
अनित्यमु		तेलुगु	5 अनियमित असाधारण + 6 शरणार्थी (असमी)
अनित्यकर्म	सज्ञा	मलयालम	1 प्रसंग विशेष या उद्देश्य विशेष से किया अनुष्ठान
अनित्यकर्म		हिंदी, संस्कृत	2 कभी कभी विशिष्ट अवसर पर किया जाने वाला कार्य
अनित्यक्रिया		हिंदी	3 सामायिक कार्य (यज्ञ आदि)
			+ 4 विशेष उद्देश्य से दी गई बलि (मलयालम)
अनित्यता	सज्ञा	असमी, हिंदी, गुजराती	1 अनित्य होने की क्रिया या गुण, भाव या अवस्था
अनित्यतो		कन्नड	2 नश्वरता अचिरता अस्थायिता
अनित्यत्व	सज्ञा	गुजराती	3 क्षणभंगुरता, अस्थिरता, अशाश्वतता
अनित्यत्वम्		तेलुगु	4 किसी वस्तु का क्षण भंगुर या परिवर्तनशील रूप
अनित्यवस्तु	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	वह पत्र जो गाद लिए जान के लिए आरभ मे
अनित्यवस्तु/वस्तक		हिंदी, संस्कृत	अस्थायी रूप से किसी को दिया जाय
अनित्यप्रत्यवेक्षा	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	सजगता जिससे भव वस्तुएँ क्षणभंगुर या नश्वर प्रनीत होती है
अनित्यभाव	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	क्षणभंगुरता, सब नाशवान है यह विचार
अनित्यसम	सज्ञा	हिंदी	1 तर्क मे ऐसा दूषित अमान्य उत्तर या कथन जिसमे
अनित्यसम	सज्ञा	संस्कृत	अपवाद स्वरूप तथ्य के आधार पर असभावित अन्तर्भाव हो 2 असत् उत्तर के 24 भेदो मे एक
अनिंदपूर्वम्	विशेषण	तेलुगु	नया, अपूर्व, अभूतपूर्व अश्रुतपूर्व
अनिद्राण	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	जो सोता न हो, सदा जागृत रहने वाला
अनिद्र	विशेषण	गुजराती, हिंदी, मराठी	1 जिसे नींद न आये, जाग्रत, जागा रूप,
अनिद्र	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत, नेपाली	निद्रा न आना, एक रोग, नींद की कमी
अनिद्रा		असमी, उड़िया, बंगला	2 जागरूक, सावधान, सतर्क, सचेत

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनिद्रित अनींदरा/अनींदा	सज्ञा	हिंदी, नेपाली, असमी पंजाबी	माया नदी, जागृत जिम नींद न आइ हो नींदा न भए जागृत अधरगत
अनिदान	विशरण	हिंदी	क्षण रति निमेष निशान न हो मर
अनिन्दित अनिन्दितमु अनिन्दै	विशरण	गुज, अस, मलया, हिंदी, संस 1 तेलुगु 2 तमिल 3	1 निन्दा दूनीम आगत रतिन निरस्कृत नहा 2 निरक रति घृणा भावना न हो 3 निरीय उत्तम श्रेय सुन्दर
अनिन्दनीय अनिन्द्य अनिन्द्य	विशरण	हिंदी, बंगला हिंदी, गुज, मरा, बंगला तेलु, मलया, नेपा, संस 3	1 श्रेय श्वार या रति विधीन निजा योग्य नही 2 श्रेय पर आगत न योग्यता न मर 3 उत्तम श्रेय वाटया निरीय
अनिन्द्यसुन्दरी	सज्ञा	बंगला	पत्नी सुन्दर या म शा न
अनिपात	सज्ञा	हिंदी	1 निपात भा अभाव न मर 2 शान भा अनरना
अनिपुण	विशरण	हिंदी, बंगला	अज्ञान अरु मर मर
अनिबद्ध अनिबद्ध (द्धं)	विशरण सज्ञा	हिंदी, बंगला, कन्नड संस्कृत, मलयालम	1 अमरुद मर मर अयादा शम र मर 2 मरुत निमम नर मर न हो मर मर
अनिबन्ध अनिबाध	विशरण विशरण	असमी, संस्कृत मलयालम, संस्कृत	1 निरमरुद मर मर मर मर मर मर मर 2 निरमरुद मर मर मर मर मर मर
अनिभृत अनिभृत अनिभृत	विशरण	हिंदी, गुजराती संस्कृत मलयालम	1 निना या गादी मर मर मर मर मर मर 2 मरुत मर मर मर मर मर मर
अनिभृतसाधि	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	अति मर मर मर मर मर मर मर मर
अनिध्य	विशरण	हिंदी	अनिधन दीरु
अनिमंत्रित	विशरण	हिंदी, असमी, बंगला	दिना वलाया मर अनन्त साधान न करन
अनिमज	विशरण	असमी	मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु
अनिमित्त अनिमित्तं अनिमित्तमु अनिमित्त्य	विशरण सज्ञा	मलया, गुज, हिंदी, संस्कृत मलयालम तेलुगु कन्नड	1 अन्तक, अरण्य निरुधर मरु मरु मरु 2 आकर्मिक अशक न मरु मरु 3 उपयुक्त अवसर भा अभाव 4 किरी उपयुक्त कारण भा अभाव

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनिमित्तिक	विशेषण	हिंदी	व्यर्थ, प्रयोजन हीन
अनिमिष	सज्ञा	हिंदी, गुज, मरा, नेपाली	1 जिसकी पलक झपकती न हो या पलक न हो
अनिमेष	विशेषण	उड़िया, बंगला, कन्नड, मलया	2 स्थिर दृष्टि, एकटक निगाह, जागरूक, विकसित, अपलक, खुला हुआ, एकटकी लगाकर देखना
अनिमिष/अनिमिषन्	सज्ञा	मलयालम	
अनिमिषमु	क्रियाविशेषण	तेलुगु	3 देवजाति, देवेन्द्र, विष्णु, मानकाल, माछली, मीन राशि
अनिमिषुडु	सज्ञा	तेलुगु	4 निरंतर, लगातार, एकटक, बिना पलक गिगये
अनिमिषाश्रय	सज्ञा	कन्नड	स्वर्ग, समुद्र
अनिमिषदृष्टि	सज्ञा	कन्नड	बिना पलक झपकाये देखने की क्रिया,
अनिमिषदृष्टि	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	एकटक देखना, एकटक देखने वाला
अनिमिषध्वज	सज्ञा	कन्नड	गन्धर्व, कामदेव
अनिमिषालय	सज्ञा	कन्नड	आश्रम न झपकने वालों का स्थान, स्वर्ग
अनिमिषआश्रयपूर्ति	सज्ञा	कन्नड	विष्णु, शपथार्थी भगवान, देवताओं के आश्रय
अनिमेष	क्रियाविशेषण	हिंदी, गुज, नेपा, मराठी	1 अनिमिष 2 आखा में तेल डाल लेना
अनिमेषे (मिषे)	क्रियाविशेषण	असमी, उड़िया, बंगला +	3 जागरूकता में, अत्यन्त दक्षता में (मराठी)
अनियत	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 अनिश्चित, अनिर्णयित, अनियंत्रित, अबाधित,
अनियत		नेपाली, बंगला	असयत, अव्यवस्थित, नियम या काबू के बाहर
अनियत		कन्नड, मलया, संस्कृत	2 अस्थिर, असीम, अमाधारण, उच्छृंखल
अनियतम्		तमिल	3 आकस्मिक, अकारण, अनिर्दिष्ट, अचौकस
			4 न ठहरा या न ठहराया हुआ
अनियतपुंस्का	विशेषण	मलयालम, संस्कृत, हिंदी	अनिश्चित पतिवादी, व्यभिचारिणी, दुश्चरणाशील स्त्री
अनियतपोक्कियम्	सज्ञा	तमिल	पुरुषों के कर्म का फल जो पहले पुण्य पर बाद में पाप माना गया (शैव दर्शन)
अनियतवृत्ति	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1 जिसका रोजगार या आय नियमित न हो
अनियत वृत्ति	विशेषण	हिंदी	+ 2 शब्द जिसका प्रयोग निश्चित न हो (मलयालम)
अनियताकार	विशेषण	बंगला	जिसका आकार परिवर्तनशील हो, सर्वाकार, निरवयव
अनियतात्मा (मनु)	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	अस्थिर मन, चल वृत्ति, असयमी
अनियति	सज्ञा	गुजराती	असयम, अव्यवस्था

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनियन्त्रणा	मज्ञा	मलयालम, संस्कृत	नियन्त्रण या दबाव का अभाव, स्वच्छदता
अनियन्त्रण	विशेषण	मलयालम, नेपाली	अमयत, उच्छृङ्खल, नियन्त्रण में न रहना
अनियन्त्रणीय	विशेषण	मलयालम	जो नियन्त्रण में न रह सके या रहने योग्य न हो
अनियंत्रित	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 जिस पर नियन्त्रण न किया गया हो, वे गेक गेक
अनियन्त्रित		नेपाली, बंगला	2 प्रतिबन्ध रहित, अर्दागित, अनिचारीत
अनियन्त्रित		मलयालम, संस्कृत	3 स्वच्छद निरकृश, स्वाधीन, उच्छृङ्खल
अनियम	मज्ञा	हिंदी, मराठी	1 नियम, नियन्त्रण, व्यवस्था या नियत आदर्श का
अनियम		नेपाली, असमी, बंगला	अभाव, अनुचित आचरण 2 वेक्यायदगी, अव्यवस्था,
अनियम		गुजराती, संस्कृत	अमयम, अनियमितता अनिश्चितता, गदर
अनियमं		मलयालम	3 अविहित कर्म, नीति विरुद्ध, नियमहीनता
अनियमकै	क्रियाविशेषण	असमी	अनियमित रूप में नियम विरुद्ध
अनियमित	विशेषण	हिंदी, गुज, मरा, कन्नड	1 क्रम रहित, समय मालम नहीं, अनियमित
अनियमित		असमी, उड़िया, बंगला	2 नियम व्यवस्था, विधि आदि रहित
अनियमित		नेपाली, पंजाबी	3 अमयत, अनियमित, अनिश्चित वेक्यायद
अनियमितता	मज्ञा	हिंदी, गुजराती	नियम का अभाव, कायदा न मना
अनियमितपणं		गुजराती	अव्यवस्था नियम विरुद्धता न कायदगी
अनियमपरिवृत्तं (म्)	मज्ञा	मलयालम, संस्कृत	1 सरचना में गुण 2 अनियमितता का अभाव
अनियमोपमे	मज्ञा	कन्नड	एक काव्यात्मक
अनियम्य	विशेषण	मराठी	नियम पर नियन्त्रण न गल अदम्य
अनियुक्त	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 नियमकी औपचारिक रूप में अनियुक्त न हुई हो,
अनियुक्त		मलयालम	कोर्ट अधिकार जिसे वैधानिक अधिकार प्राप्त न हो
अनियुक्तम्		तेलुगु	2 जो अधिकार सम्पन्न न हो, अनियुक्त 3 कोर्ट
अनियुक्तम्	मज्ञा	मलयालम	का अरुमर जिसे गय देने का अधिकार न हो
अनियोग	मज्ञा	कन्नड, हिंदी	अनुपयोग, अगामान्य अर्थ, गूढार्थ, अनुस्यूक्त पद
अनिरंतर	सज्ञा	कन्नड	लगातार नहीं, रुक रुक कर
अनिरुक्त	विशेषण	हिंदी, मलया, संस्कृत	1 जो स्पष्ट न कहा गया हो 2 जिसकी सम्यक
अनिरुक्तम्	सज्ञा	तमिल	व्याख्या न की गई हो, अस्पष्ट, परिभाषा के अयोग्य

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनिरुद्ध	विशरण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 निम गमा न गया या निमका विरोध न हुआ
अनिरुद्ध	विशरण	कन्नड, संस, मलया, बंगला	2 अन्यायित वेगव्याप्त मूल स्वच्छाचारी
अनिरुत्तनु	संज्ञा	तमिल	2 गुत्तर जागुम भद्रिया
अनिरुद्धं	सज्ञा	मलयालम	+ 3 दीन्याय अर्पित्त (नामल) अदम्य अनिवागित
अनिरुद्धन्	सज्ञा	मलयालम	+ 4 पञ्चवान का रमा 5 मन म अनिद्रता (सकृत्)
अनिरूपित	विशरण	बंगला, मलया, संस्कृत	अनिर्दिष्ट अपारभायित आनव्यायत
अनिरूपणीय	विशरण	बंगला	जिसका निश्चय निर्देश निश्चय न किया जा सक
अनिर्जित	विशरण	कन्नड	1 निम किमी न गया नही अर्पित्त
अनिर्जितमु		तेलुगु	2 निमका अर्पित नही किया गया अनिर्जित
अनिर्ज्ञात	विशरण	मलयालम, संस्कृत	3 अन्याय वेगव्याप्त न गया या
अनिर्णय	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी, संस	1 अन्याय या अन्याय का अभाव अनिर्णयता
अनिर्णयनं	सज्ञा	मलयालम	2 अन्याय का निश्चय निष्पत्ताभाव
अनिर्णीत	विशरण	हिंदी, संस्कृत	1 निमका अमता न हुआ या
अनिर्णीत		मराठी, बंगला	2 अन्याय नही हुआ अनिर्णयित अनिर्णय
अनिर्णीत		गुजराती, असमी	3 अन्याय का नही गया या वात नही हुआ
अनिर्दश	विशरण	हिंदी, संस्कृत	निमका अशय का अर्थ अन्याय नही न हुआ
अनिर्दश		मलयालम	(अन्य अर्थ का अन्वय)
अनिर्दिष्ट	विशरण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 अन्याय या अन्याय का अर्थ अन्याय न हुआ या
अनिर्दिष्ट		असमी, उड़िया, बंगला	2 अन्यायित अन्यायित अपारभायित
अनिर्दिष्ट		नेपाली, कन्नड	3 अन्याय न गया या अन्यायित अन्यायित
अनिर्दिष्ट		मलयालम, संस्कृत	4 अन्यायित अन्यायित अन्यायित अन्यायित अन्यायित
अनिर्दिष्टमु		तेलुगु	अन्यायित अन्यायित
अनिर्देश	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	1 अन्यायित निम अन्याय या अन्याय का अभाव
अनिर्देश		बंगला, कन्नड	2 निर्देशित अन्यायित अन्यायित अन्यायित
अनिर्देश्य	विशरण	हिंदी, गुजराती	1 अन्यायित अन्यायित अन्यायित अन्यायित
अनिर्देश्य		बंगला, मलया, संस्कृत	अन्यायित अन्यायित अन्यायित अन्यायित
अनिर्देशनीय		बंगला	अनिर्णयित अन्यायित अन्यायित (सज्ञा)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनिर्धारित	विशेषण	मलयालम	1 अनिर्णीत, अनियमित, अनिश्चित, अनिरूपणीय
अनिर्धारित		हिंदी, बंगला, संस्कृत	2 जो निर्धारित या निश्चित न हो
अनिर्धार्य	विशेषण	बंगला	1 अनिर्धारणीय, जिस का फैसला न हो सके
अनिर्धार्य	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	2 जिसका लक्षण स्थिर न किया जा सके
अनिर्बंध	विशेषण	हिंदी	1 बंधा नहीं, बंधनहीन, स्वतंत्र, स्वच्छ, आग्रह न करना
अनिर्बन्ध		नेपाली, संस्कृत	2 नियमविरोध, नीति या समाज के नियमों के विरुद्ध आचरण करना
अनिर्बन्ध		असमी	
अनिर्भर	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	निर्भर नहीं, थोड़ा, हल्का, अधिक नहीं
अनिर्भेद	मज्ञा	हिंदी, संस्कृत	भेद न खोलना, रहस्य प्रकट न करना, गूँथ
अनिर्भलमु	मज्ञा	तेलुगु	अस्वच्छ, मैला, गदा, शूद्ध नहीं
अनिर्भाल्यपूजा	मज्ञा	मलयालम, संस्कृत	पदार्थ रहित, केवल मानसिक पूजा (विष्णु की)
अनिल्लोडि	विशेषण	मलयालम	1 जिसकी भलीभाँति जाच न की गयी हो, जिसको
अनिलोडित		संस्कृत	भलीभाँति न सोचा गया हो
अनिलोर्चित		हिंदी	2 वृत्ति तरह निर्णीत, अविचारित, अविचेचित
अनिर्वच	विशेषण	हिंदी, नेपा, मरा, गुज	1 जो शब्दों में बताया न जा सके, वर्णनातीत,
अनिर्वचनम्	मज्ञा	तमिल	अवर्णनीय, अकथनीय, अनुल्लेखनीय, परिभाषा
अनिर्वचनीय	विशेषण	अस, उड़ि, बंग, संस, नेपा	में परे, निर्वचन के अयोग्य
अनिर्वचनीय/अनिर्वचनीय		हिंदी, गुज, मराठी, मलया	2 जिसका विवेचन उचित न हो
अनिर्वचनीयं (नीयन्)	मज्ञा	मलयालम	3 माया, ब्रह्म, जगत, परमेश्वर, अज्ञान
अनिर्वचनीयमु		तेलुगु	4 सत्य असत्य निर्णय बोध, ज्ञान की भूल, दोष
अनिर्वाच्य	विशेषण	मलयालम	1 वर्णन में परे, जिसका कथन या निर्वचन न हो सके
अनिर्वाच्य		संस, हिंदी, नेपाली, गुजराती	2 जिसके लक्षण आदि न बताये जा सकें, अनुल्लेखनीय
अनिर्वाच्यम्		तमिल	3 जिसका चुनाव न हुआ हो, निर्वाचन के अयोग्य
अनिर्वाण	विशेषण	बंगला, संस्कृत, हिंदी	1 जो बुझाया न जा सके, प्रज्वलित
अनिर्वाण		मलयालम	2 जिसे मोक्ष या निर्वाण प्राप्ति न हो, अक्षय
			3 मुक्तिहीन, अनिर्वृत्त, अशान्त, अप्रक्षालित, अनधुला
अनिर्वाप्य	विशेषण	हिंदी	1 जो बुझाया न जा सके (आग)
अनिर्वाप्य		नेपाली	2 जिसका शमन न हो सके (शत्रुता), जा ज्ञात न
अनिर्वापित	विशेषण	बंगला	किया जा सके 3 जिसे बुझाया न गया हो

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनिर्वाह	विशेषण	हिंदी, मराठी	1. न निर्माना, अपूर्ति, अनिष्पत्ति, असगति, अनिर्णय
अनिर्वाहं	मज्ञा	मलयालम	2. आय कम होना, गुजारा न होना, पूरा न पड़ना
अनिर्वाह		संस्कृत	+ 3. पंचदार स्थिति जिमका उपाय या तौड न हो (मराठी)
अनिर्वाह्य	विशेषण	हिंदी, मराठी	1. जिमे पूरा करना, चलाना, आगे बढ़ाना कठिन हो
अनिर्वाह्य		संस्कृत	2. निर्वाह के अयोग्य 3. जिमका यातायात न हो सके
अनिर्वाह्यपण्य	मज्ञा	हिंदी	वह माल जिमे नगर या राज्य में लाना मना हो या जिमके आने पर गक लगी हो
अनिर्विण्ण	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1. क्लेश, निर्वेद या दुख रहित, अदुःखित
अनिर्विण्ण		मलयालम	2. न थका हुआ, हतोत्साहित नहीं 3. अनिराश
अनिर्वृत्त (त)	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1. पूर्ण नहीं किया गया. अपूर्ण, अशान्त, दुखी
अनिर्वृत्त (त)		मलयालम	2. जिममें अभी निवृत्ति नहीं हुई, खिन्न, बेचैन
अनिर्वृत्ति (ति)	मज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. खिन्नता, बेचैनी, अशान्ति, चिन्ता, विकलता
अनिर्वृत्ति(ति)		मलयालम	2. निर्धनता, अमनुष्टि, दुःख
अनिर्व्वेदं	मज्ञा	मलयालम	1. दुख, विपाद या खिन्नता का अभाव
अनिर्व्वेद		संस्कृत	2. क्षोभ या निराशा का अभाव
अनिर्व्वेद		हिंदी	3. उत्साह, साम्भ, स्वावलंबन
अनिर्व्वेश	विशेषण	मलयालम	1. वेरोजगार, रोजी गेटी का उपाय न होना,
अनिर्व्वेश		हिंदी	दुखित, भृत्यता या रोजी का अभाव (मज्ञा)
अनिर्व्वेश	विशेषण	संस्कृत	2. जिमने अपने पापों का प्रायश्चित्त नहीं किया
अनिर्हार्य	विशेषण	मलयालम	1. जिमे निचोटा या निकाला न जा सके
अनिर्हार्य		संस्कृत	2. जिसे हटाया या हिलाया न जा सके, विनाश हीन
अनिलय	विशेषण	हिंदी	आश्रय, घर, विश्राम स्थल न होना या वहां से
अनिलय		मलयालम, संस्कृत	निकाल दिया जाना. शरण स्थल रहित
अनिलोडित	विशेषण	हिंदी	1. अनुभव शून्य
अनिलोडित	विशेषण	संस्कृत	2. जो भली भाँति सोचा न गया हो, बुरी तरह निर्णीत
अनिबर्त्ति	संज्ञा	कन्नड	1. मुँह न मोड़ने वाला, वीर
अनिबर्त्ती	विशेषण	हिंदी	2. न लौटने वाला, पीठ न दिखाने वाला; मुस्तैद
अनिबर्त्तन	विशेषण	संस्कृत, हिंदी	3. स्थिर, न त्यागने योग्य, तत्पर

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनिवार अनिवार अनिवार अनिवारणीय	विशेषण	हिंदी, मराठी, संस्कृत बंगला, कन्नड गुजराती बंगला	1 जिसका निवारण न हो सके, जिसे रोका न जा सके, अप्रतिरोधनीय, अप्रतिरोधनीय, अनिवार्य 2 अविन, निम्नतर, तारवार, अजस भाग मे + 3 अनिश्चय, असीम, वेहद, बेकाबू, निरकृप, लाजिमी (मरा)
अनिवारित अनिवारितमु	विशेषण	हिंदी, बंग, मलया, संस तेलुगु	1 जिसे रोका या हटाया नहीं गया 2 निर्दिग्ध, अविरोध, वगैरे रोका, अप्रतिहत, अबाध, अनिश्चिद, अनिश्चित
अनिवार्य अनिवार्य अनिवार्य अनिवार्यमु	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, उड़िया, बंगला, संस नेपाली, मलया, कन्नड तेलुगु	1 जिसे रोका या राना न जा सके, जिसका निवारण न हो सके, न हटाया जा सके 2 अपरिहार्य, अन्यायशुकर, वहत नसरी, अटल आनरोधनीय, दुनिवार लाजिमी, अनिश्चित
अनिवार्यभर्ती	सज्ञा	हिंदी	मानक मवा आ भ लाजिमी नार पर भनी-रथा
अनिविज्ञमान	विशेषण	संस्कृत	अविश्वास चलने वाला, कभी न रुकने वाला
अनिवृत्त	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	सील न मूदन वाला वदादर
अनिवेदित	विशेषण	बंगला	अन्यागित आवज्ञापन
अनिशं(म्) अनिश अनिशमु (अनिशम्)	क्रियाविशेषण	मलयालम, संस्कृत हिंदी, कन्नड तेलुगु, तमिल	1 अनुगत, विना रुक, नगानार, निम्नतर हमशा + गरि गहन, नीद विनीन (कन्नड)
अनिश्चय अनिश्चय अनिश्चयमु	विशेषण	हिंदी, गुजराती, सिंधी असमी, उड़िया, बंगला तेलुगु	1 निश्चय का अभाव, अनिश्चय अस्थिरता 2 मदह मादग्धना मन प्रकफा न नाना, 3 नय न नाना (Un-certainty)
अनिश्चित अनिश्चित अनिश्चित अनिश्चित अनिसचित	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, उड़िया, बंगला नेपाली, कन्नड, संस्कृत सिंधी, मलयालम पंजाबी	1 जिसका निश्चय न हुआ हो नकरी नहीं, प्रकफा विचार नहीं अनिश्चित, अस्थिर, अनिश्चित अनियत, अधुन अनिश्चित 2 मदिग्ध, कृचा, दुनगून, मीगामाधीन 3 थिर न करना, न ठहराना
अनिश्चिद अनिश्चिद	विशेषण	हिंदी, गुजराती संस्कृत, मलयालम	1 जिसकी मनाही, रोका या नियध नहीं 2 अर्वाजन, अविहित, जो निर्दिष्ट नहीं
अनिषेध्य	विशेषण	मलयालम	1 विरोध करने योग्य नहीं, स्वीकार्य 2 अगडनीय हैक

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनिष्कासिनी	सज्ञा	गुजराती, हिंदी	घर से बाहर न जाने वाली, पर्दानशील औरत
अनिष्कृत	विशेषण	मलयालम	ठहरा, बसा या स्थिर स्थित नहीं
अनिष्टुर	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	क्रूर या निर्मम नहीं, दयावान
अनिष्ण	विशेषण	मलयालम	अनिष्ण, अकृशल, अच्छी तरह न कर सकने
अनिष्णात्		मलयालम, हिंदी, संस्कृत	वाला, अनुभव प्राप्त नहीं, उत्तम कार्यकर्ता नहीं
अनिष्पत्ति	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत, हिंदी	पूर्ति या सिद्धि का अभाव, अपूर्णता, अग्रमाप्ति
अनिष्पन्न	विशेषण	हिंदी	1 पूर्णया सिद्ध नहीं हुआ, अपक्व, असिद्ध, अधूरा,
अनिष्पन्न		मलयालम, बंगला	अनिर्णीत, असीमापित, अग्रमाप्त, अनिर्वाहित
अनिष्पन्न		मराठी	2 जिमकी उत्पत्ति या व्युत्पत्ति न हुई हो
अनिष्पन्न		संस्कृत	3 प्रमाणित नहीं, परिणाम नहीं निकला
अनिसृष्ट	विशेषण	हिंदी	1 जिसे म्नीकृति या अधिकार न दिया हो
अनिसृष्ट		संस्कृत	2 जिमका उपयोग या व्यवहार की आज्ञा न ली गई हो
अनिसृष्ट		मलयालम	+ 3 जिसे फेंका या त्यागा न गया हो (मलयालम)
अनिसृष्टोपभोक्ता	सज्ञा	हिंदी	जो स्वामी की आज्ञा क बिना धरोहर का उपयोग
अनिसृष्टोपभोक्तृ		संस्कृत	करे, अनधिकार उपयोग करता
अनिस्तीर्ण	विशेषण	हिंदी	1 जो पार नहीं किया 2 जो अलग नहीं किया गया
अनिस्तीर्ण		मलयालम	3 जिमका उत्तर नहीं दिया गया खडन नहीं किया
अनिस्तीर्ण		संस्कृत	4 जिमसे छुटकारा नहीं मिला
अनिस्तीर्णाभियोग	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	जो आगेप या अभियोग मुक्त या वर्ग न हुआ हो
अनिहनुत	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	जिमे न सिपाया गया, न इन्कार किया गया, न अस्वीकृत किया गया हो
अनीच	विशेषण	मलयालम	1 जो नीचा या ओछा नहीं, सम्माननीय
अनीच		संस्कृत	2 अनुदान नहीं उदात्त उच्चारण
अनीड	विशेषण	हिंदी	1 बिना घोंगले का, आश्रयहीन, जिमका कोई घर,
अनीड		गुजराती, संस्कृत	घर का, या मगा न हो ऐसा व्यक्ति
अनीड		मलयालम	2 अशीर्षी + 3 अग्नि का एक नाम (हिंदी)
अनीत	विशेषण	बंगला	1 नो ले जाया या लाया न गया हो अवाहित
अनीत		हिंदी	2 अन्याय, दुर्व्यवहार, दुष्कर्म, अनुचित कार्य

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनीति	सज्ञा	हिंदी, मराठी, नेपाली	1 नीति का अभाव, अधर्म, दुराचार, कृकर्म, अधेर,
अनीति		असमी, उड़िया, बंगला	अन्याचार, व्यभिचार, कृीति, पाप, अधर्म,
अनीति		गुजराती, संस्कृत	असभ्यता, अशिष्टता, अनैतिकता, ग्राम्यता
अनीति		कन्नड, मलया, तेलुगु	2 नीति या न्याय विरुद्ध कार्य या आचरण
अनीती	सज्ञा	पंजाबी, सिंधी	3 दुष्टता, अनौचित्य, जुल्म, कृचाल समाज धर्म
अनीतम्/अनीदि	सज्ञा	तमिल	एव नीति विरुद्ध आचरण
अनीतिमान	विशेषण	हिंदी, गुजराती	अन्याय युक्त आचरण करने वाला
अनीतिमत्		हिंदी	अन्याय या अनीतिपूर्ण आचरण
अनूतन	सज्ञा	कन्नड	नया नहीं, पुरातन
अनृशंस	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	जो निर्दय या कठोर न हो, मृदुल
अनेय	सज्ञा	कन्नड	1 जिस अनुगामी न बनाया जा सके 2 जिसे निर्माण करना या समाप्त करना उचित न हो
अनेह	सज्ञा	हिंदी, पंजाबी	स्नेह का अभाव, अप्रीति, विरक्ति, निर्मोह
अनेही	विशेषण	हिंदी	प्रेमी नहीं, स्नेह न करने वाला
अनैतिक	विशेषण	नेपाली, हिंदी	नीति विरुद्ध या नीति सगत नहीं
अनैतिकता	सज्ञा	हिंदी	अन्याचार, सदाचार का अभाव
अनैसर्गिक	विशेषण	हिंदी	अप्राकृतिक, अस्वाभाविक
अन्याय	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 न्याय विरुद्ध, बेइन्साफी, अनुचित या गहित कार्य,
अन्याय		असमी, उड़िया, बंगला	अनीति, अधेर, अन्याचार, गुनाह, पाप, जुल्म
अन्याय		कन्नड, नेपाली, संस्कृत	2 धर्म, विधि या कानून के विरुद्ध या खिलाफ कार्य
अन्यायं	सज्ञा	मलयालम	3 अनीतिवर्तन, पक्षपात पूर्ण फैसला
अन्यायम्	सज्ञा	तेलुगु	4 अनुचित दण्ड, निर्दोष व्यक्ति को दण्ड देना
अनिआ/अनिआऊ		पंजाबी	5 दाषी या अपराधी को दण्ड न देना या छोड़ देना
अन्याउ		सिंधी	6 मनमानी करना, अनूपयुक्त कार्य करना
अभियायम्		तमिल	7 दूसरे के साथ किया जाने वाला अनुचित व्यवहार
अन्ने/अन्नैया		कोंकणी	8 न्याय न करने या होने की क्रिया या भाव
अन्यायत्तण्डककळ्	सज्ञा	मलयालम, तमिल	1 अनुचित क़ैद 2 अनुचित टैक्स 3 व्यर्थ व्यय
अन्यायी	विशेषण	हिंदी, मराठी	1 अन्याय करने वाला, न्याय का विरोधी
अन्याधी		गुजराती, नेपाली	2 अनीतिमान, नीति, धर्म, कायदे के विरुद्ध कार्य

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अन्यायिन्/अन्यायकार		संस्कृत	करने वाला + अन्वयी गलत निमात्र करने वाला (मिथी)
अन्याई/अन्याई		पंजाबी, सिंधी	3 अन्यायारी दूगचारी घारी अरगधी, जुल्मी
अन्यायुडु		तेलुगु	4 दूसरी क प्रति अन्यायित व्यवहार करने वाला
अन्यायक्कारन्	मज्ञा	मलयालम	+ 5 फरिगारी मृदुद वारी (नमित्त मलयालम)
अन्यायक्कारन्		तमिल	6 धग काम करने वाला वदन्साफी करने वाला
अनैया		कोंकणी	7 अन्यायित अयोग्य अन्धप्रज्ञा कार्यकता
अन्यायतः	क्रिया विशेषण	बंगला	1 अन्याय मे गलत दृग मे
अन्यायकै	क्रिया विशेषण	असमी	2 अन्यायित रूप मे न्यायार्थि दना मे वदन्साफी मे
अन्यायमुगा	क्रिया विशेषण	तेलुगु	3 अन्याय पूर्वक
अन्यायोपजीवी	विशेषण	बंगला	जसु प्रा वृग मागो मे नीविधा क्रमान वाला
अन्यायप्टुक	अस्मर क्रिया	मलयालम	विशेषण दत्त करने भन्दनी अयोग्यी करने
अन्याययुक्त	विशेषण	गुजराती	गलत काम करने वाला अन्याय वगनने वाला
अन्याय्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मलया, संस	अगमाणिअ अशुध न्याय विरुद्ध अन्यायित
अन्यारा	विशेषण	हिंदी	1 न्याय या अलग नही आबन् 2 अनाखा
अन्यून	विशेषण	हिंदी, मराठी	1 न्यून अथा न गम नही प्रा फमी नही अत्यधिक
अन्यून		असमी, उड़िया, बंगला	2 अन्य पूण पूग आधिक वदत समग्र समूचा
अन्यून		कन्नड, संस्कृत	समूण ठीक ठीक प्रवान रति रहित
अन्यून		मलयालम	+ 3 सरागपूण (सम) + 4 कम मे कम (असमी उड़िया)
अपंकित	विशेषण	हिंदी, मलया, संस्कृत	फीचर मना नही निमत मात्र स्वच्छ शुद्ध
अपंक्त	विशेषण	मराठी	1 जसम माथ परिण मे वदकर भोजन करना शास्त्र प्रा रूढ मे नियम न 2 जाति बहिष्कृत
अपंख	विशेषण	गुजराती	खब चिना
अपंचीकृत	विशेषण	हिंदी	1 मृदम रूप जिगजा परीकरण नही हुआ
अपञ्चीकृत	मज्ञा	संस्कृत	2 पर मलाभता मा अभिषण 3 जो पाच तन्वो मे न वना हो पाच मे पचोम न मित्रा गया हो (सम्कृत)
अपंजरी	विशेषण	बंगला	मेरुदण्डहीन पजरहीन
अपंडित	विशेषण	पंजाबी	1 जो परिण्डित या विद्वान नही मूर्ख अज्ञानी
अपंडित	विशेषण	हिंदी, मराठी, गुजराती	2 विद्याहीन शास्त्रज्ञान रहित अपठित, अशिक्षित

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपण्डित अपंडितुडु	विशेषण	असमी, मलयालम, संस्कृत तेलुगु	3 जो पढ़ना लिखना न जानता हो, निरक्षर भट्टाचार्य 4 जो ब्राह्मण नहीं, विद्याहीन
अपक्व अपक्व अपक्व अपक्वकुवम् अपक्वमु	विशेषण सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, उड़िया, बंगला नेपाली, कन्नड, सिंधी, संस तमिल तेलुगु	1 पका हुआ नहीं अपरिपक्व, कच्चा, अधपका, अधकचरा, हरा, अपरिणत 2 पकाया हुआ नहीं, गंधा हुआ नहीं 3 अन्भवहीन, अन्भव्यन्, आसन्न, अवयस्क, सन्ना, अनाडी, कच्ची वृद्धि वाला
अपक्वता	सज्ञा	हिंदी, गुजराती	अपक्व होने की अवस्था या भाव, कच्चापन
अपक्वकलुष अपक्वकलुष	सज्ञा	हिंदी संस्कृत	1 पुरा स्मरकल वद जीव जो वाग वाग जन्म ले 2 जो रक्षण में स्मरक के दो भेदों में से एक
अपक्वचार	सज्ञा	कन्नड	1 कच्चे का स्वाद, कच्चापन 2 ठीक तरह उबला या पकाया नहीं
अपक्ष अपक्ष अपक्ष	विशेषण	नेपाली, संस्कृत हिंदी, बंगला गुजराती, मराठी	1 बिना पक्ष या पक्ष वाला, निन्दनीय 2 बिना साथी, मित्र हीन, असाहाय 3 निम्नक्ष, त्रिमका किमी से मिल जोल न हो
अपक्षता अपक्षपात अपक्षपातिता	सज्ञा सज्ञा	गुजराती, मराठी हिंदी, गुज, नेपा, बंगला, संस बंगला, असमी	1 निम्नक्षता, पक्षपात न होना, खरापन 2 समदर्शिता, निम्नक्षता, पक्षपातशून्यता 3 न्यायोचित काग, निम्नक्षभाव
अपक्षपाती (पातिन्) अपक्षपाती	विशेषण	हिंदी, संस्कृत असमी, बंगला	1 निम्नक्ष, समदर्शी, निम्नक्ष भाव, न्यायी 2 यथार्थवादी पक्षपात न करने वाला
अपच अपचो अपच अपचन्	सज्ञा विशेषण सज्ञा	हिंदी, नेपाली, पंजाबी गुजराती संस्कृत, मलयालम मलयालम, मराठी	1 भोजन आदि न पचने की क्रिया या भाव, अजीर्ण 2 बुरा पाचक, वह जो राक काय करने में असमर्थ हो 3 खाया भोजन न पचना, बदहजमी, अग्निमांश 4 पकाने योग्य न हो, बुरा रसोडया (मलयालम)
अपट/अप्पट	विशेषण	गुजराती	रट्ट या चतुर नहीं, मूर्ख, बचकफू
अपटान्तर अपटान्तर	विशेषण	मलयालम, संस्कृत कन्नड, हिंदी	1 जो परदे में अलग न किया गया हो, झलमन 2 परदा नहीं बदला (नाटक) 3. अच्यवर्द्धि

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपटी अपटि/अवटि	संज्ञा	हिंदी, गुज, कन्नड, संस मलयालम, तमिल	1 पग्दा, कपडे की दीवार, कनान 2 बम्ब्रावरण, आच्छादन
अपटीक्षेप अपटीक्षेपं	संज्ञा	हिंदी, गुजराती मलयालम	जल्दी या घबराहट में पैरों को हटाकर पात्र का सहसा मच पर प्रवेश अर्थात् पटाक्षेप न होना
अपटु अपटु अपटु अपटु	विशेषण	हिंदी, गुजराती असमी, बंगला कन्नड, मलयालम संस्कृत	1 अन्विपुण, अकृशाल, अक्षम, अयोग्य भोदू 2 अशक्त, भग्यस्थ, मस्त, कच्चा, मादू (स्तो) + 3 जिमका प्रकाश मद पड गया हो ऐसा ग्रह(हिंदी) + 4. वक्तृत्य शक्ति में जो निपुण न हो, रोगी (संस्कृत)
अपठ अपठ	विशेषण	हिंदी, मलयालम संस्कृत	1 जो पढ न सकता हो, जो पढने योग्य न हो 2 अपढ, निरक्षर, अधम पाठक
अपठित अपठित	विशेषण	हिंदी बंगला	1 पाठ या लेख जो पढा न गया हो, अनधीन 2 व्यक्ति जो पढा न हो, निरक्षर
अपह्यमान अपड़	विशेषण विशेषण	हिंदी बंगला	जो पढा न जाय या पढने योग्य न हो 1 जो गिरता न हो 2 ध्वसहीन
अपदुरा अपद अपद	विशेषण	असमी हिंदी, नेपाली गुजराती, बंगला	1 गूब, निरक्षर, अर्शाक्षित, अपठित, अनपढ 2 जो पढा लिखा न हो, बे पढा 3 निरक्षर भद्राचार्य, अक्षर ज्ञान रहिन
अपण्य अपण्य अपण्यं	विशेषण संज्ञा	हिंदी, बंगला संस्कृत मलयालम	1 जो विक्री के लिए न बनी हो ऐसी वस्तु 2 जिमका बेचना धार्मिक आदि कारणों से निषिद्ध हो 3 अविक्रय, विकाऊ नहीं, विक्र नहीं सकती
अपत अपत(अपती) अपत/अपती	विशेषण विशेषण संज्ञा	हिंदी हिंदी पंजाबी	+ 1. पत्रहीन (पड़ पोधे) (हिंदी), नगा, निर्लज्ज प्रतिष्ठा न रहना या न होना, बेइज्जती 3 अप्रतिष्ठित, अधम, उपद्रवी, शरारती, बे हया
अपति अपतिक अपतीज	विशेषण संज्ञा संज्ञा	हिंदी, मलयालम हिंदी, कन्नड, संस, मलया गुजराती	1 निर्लज्ज, दुर्गचारी, दुर्दशा, दुर्गति, अपमान 2. विधवा, कुमारी, पतिहीन, जिसका मालिक न हो अविश्वास, अपपतीज
अपतिव्रता अपतिव्रता	विशेषण	गुजराती मराठी	1. एक पति निष्ठ नहीं, अनेक पतिका 2. व्याभिचारिणी, अनाज्ञाधारी, कुलटा

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपत्नी	विशेषण	हिंदी	जो किसी की पत्नी न हो, अविवाहिता, कुमारी, विधवा
अपत्नीकन्	विशेषण	मलयालम	1 विना पत्नी के, पत्नी रहित, भार्या रहित
अपत्नीक	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	2. (पुरुष) जिसकी पत्नी मर चुकी हो, विध्व
अपत्नीक		असमी, उड़िया, बंगला	3 (पुरुष) जो अभी तक अविवाहित है, कुवारा
अपत्नीक		संस्कृत, कन्नड	4 विपत्नीक, अकृतदार, मृतदार, गृह्णा
अपत्नीकुडु		तेलुगु	5 अकेला जिसकी भार्या उसके साथ नहीं
अपत्य	सज्ञा	हिंदी, मराठी, गुज, बंगला	1 सन्तान, सन्तान, पुत्र पुत्री, बेटा बेटा, छोटा छोटी
अपत्य		असमी, नेपाली, कन्नड	+ 2 बच्चे को पत्र लिखते समय प्रारंभ में सम्प्रदान
अपत्तियम्		तमिल	द्योतक शब्द (मराठी), बच्चों की दृष्टि में बालक
अपत्यमु		तेलुगु	+ 3 सन्तान, जिसमें वंश की रक्षा की जाए (असमी)
अपत्य काम	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	पुत्र या पुत्री की कामना करने वाला सन्तानेच्छु
अपत्य-विक्रयी	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	अपनी सन्तान बेचने वाला
अपत्य शत्रु	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 जिसका शत्रु उसकी अपनी सन्तान हो, सन्तान नहीं
अपत्यघातक (घाती)		बंगला	2 जो अपने अड़े या बच्चे मरवा देता जाए (मात्र)
अपत्यस्नेह	सज्ञा	असमी, बंगला	सन्तान प्रेम, दान्यव्य
अपत्याभिलाष	सज्ञा	असमी	सन्तान हो एसी इच्छा, सन्तानेच्छा
अपत्यवाचक	सज्ञा	मराठी	पिता के नाम में चला नाम जैसे जानकी, पांडव
अपत्यार	सज्ञा	नेपाली	पत्न्यार अर्थात् विश्राम न होना
अपत्यारो	सज्ञा	नेपाली	अविश्राम, यकीन न होना
अपत्र	विशेषण	हिंदी, मलयालम, बंगला	1 वृक्ष जिसमें पत्ते न हों, पत्ती जिसके पत्र न हों
अपत्र		गुजराती, संस्कृत	2 पर्यायहीन, पत्र विहीन, पेड़ जिसके पत्ते गिर गये हों
अपत्रं	सज्ञा	मलयालम	3 अक्षर, नाम के पेड़ की कोपल
अपत्री	विशेषण	गुजराती	1 पृष्ठ विना, पत्र विना (गुजराती)
अपत्री		बंगला	2 पत्र विहीन जीव, मकड़ी आदि (बंगला)
अपथ	विशेषण	हिंदी, मराठी, नेपाली	1 कृपथ, कुमार्ग, गलत या बुरा गमना, दुर्गम मार्ग
अपथ (बंध)	विशेषण/सज्ञा	गुजराती, संस्कृत, मलया	2 पावडी मत, धर्म विरोध, शिक्षाचार के विरुद्ध
अपथ	सज्ञा	असमी, उड़िया, बंगला	वर्तन क्रम, नैतिक पतन
अपथि		कन्नड	3 पथ का अभाव, अन्यायाचरण, निरुपायता

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपथगमन	सज्ञा	मराठी	1 अधर्म पथ पर या कुमार्ग पर जाना
अपथगामी(गामिन्)	विशेषण	हिंदी, मराठी, संस्कृत	2 बुरे मार्ग पर चलने वाला, कुमार्ग गामी
अपथचारी/कर्ता		मराठी	3 बुरे या गलत रास्ते पर (अव्यय)
अपथे	अव्यय	असमी	4 कुमार्ग से, गलत रास्ते द्वारा, दुरुपयोग में लाया हुआ
अपथ्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 रोगी को जो भोजन हानिकारक हो, कुपथ्य
अपथ्य		असमी, उड़िया, बंगला	2 असतुलित, असपूर्ण, अनुपयुक्त, अहितकर भोजन
अपथ्य		नेपाली, कन्नड, संस, मलया	3 निषिद्ध, अभिव्यद्ध, स्वास्थ्य नाशक, प्रतिकूल आहार, खाने के अयोग्य वस्तु
अपत्तियम्	सज्ञा	तमिल	4 बदपरहेजी, स्वास्थ्य नाशक वस्तु का सेवन
अपथ्यं	संज्ञा	मलयालम	5 प्रतिकूल आहार विहार
अपथ्यमु		तेलुगु	6 गेग बढ़ाने वाला आहार विहार
अपत्त्व		पंजाबी	
अपत्तियदोषम्	सज्ञा	तमिल	आरोग्य होकर बद परहेजी के कारण फिर रोगी होना
अपथ्यकारि	सज्ञा	मलयालम	1 अपराधी 2 शत्रु, हानि पहुँचाने वाला
अपथ्यकारिन्	विशेषण	संस्कृत	3 अपथ्य करने वाला अनुचित या अयोग्य करने वाला
अपद	विशेषण	गुजराती, बंगला, हिंदी	1 जिसके पैर न हो, बिना पैर चलने वाला
अपद	विशेषण	मलयालम, हिंदी	+ 2 साप, प्रत्यय (मलयालम), बुरा स्थान
अपदं	सज्ञा	मलयालम	3 जिसके पास कोई पद या ओहदा न हो
अपद	सज्ञा	संस्कृत	4 जिसके पास कोई वासस्थान या कार्यालय न हो
अपदगामी	सज्ञा	कन्नड	1 पावों से न चलने वाला 2 साप
अपदस्व	विशेषण	असमी, उड़िया, संस्कृत	1 पदच्युत, कर्मच्युत, स्थान या सेवा में हटाया गया
अपदस्व		बंगला, हिंदी	2 अपमानित, गौरवहीन, मानहीन, लाछिल
अपदान्तर	विशेषण	हिंदी, मलया, कन्न, संस	सलग्न, सटा हुआ, अतिनिकट, मिला हुआ, पास
अपदार्थ	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 वस्तु कहलाने योग्य नहीं, पदार्थहीन, असार.
अपदार्थ		असमी, उड़िया, बंगला, संस	बेकार, तुच्छ, असत, मिथ्या, अनस्तित्व, नगण्य,
अपदार्थ		मलयालम	नाचीज, अयोग्य, अकर्मण्य, शून्य (नान मैटर)
अपदार्थम्		तमिल	+ 2 जिसका शब्दार्थ न हो ऐसा शब्द (गुजराती)
अपदार्थमु		तेलुगु	+ 3 अभाव, वाक्य में शब्दार्थ न होना (मराठी)
अपदी	विशेषण	बंगला	1 पदहीन प्राणी 2 छद हीन या चरण हीन कव्य

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपघागघ	विशेषण	गुजराती	न गय न पय ऐसी काव्य रचना
अपन्ति	मज्ञा	मलयालम	रुमहीनना, फूहः ज. गडबड, गंवारपन
अपन्या(वु)	मज्ञा	मलयालम	1 रूप्य 2 अगगत उपाय
अपन्या/अपन्यम्		बंगला, संस्कृत	3 द्रुगम मार्ग, अगम्य मार्ग
अपया	मज्ञा	बंगला	(रया-शुभ), शुभनिहन्हीन, अभागा
अपरंच	अव्यय	गुजराती, नेपाली, हिंदी	पुनश्च एगमन्, विशेषतया और भी, इसके पीछे
अपरंपार	विशेषण	हिंदी, नेपाली, मराठी	1 तिमका दूसरा किनाग न य या न दिव्ये अपार, असोम, बहद, अगचाद, असख्य, अगणित
अपरंपार		पंजाबी, सिंधी	2 तुकन तिमका गार नही पाया जा सके देशर
अपरम्पार		संस्कृत	
अपर	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 जा पर या बाद का न तो, पहला
अपर		गुजराती	2 तिमका बाद कोट न से अतिम दो म से एक
अपर	मज्ञा	असमी	3 तिमसे बढकर कोट न तो, सब से उत्तम, श्रेष्ठ
अपर	अव्यय	मराठी	4 प्रमून म अभन्, द्रुगम अन्य आनिर्भन
अपर		कन्नड	5 क्रम श्रष्टता आदि में बादवाला, परवर्ती
अपर		नेपाली	6 तिमना दो चुका हो इसमें अधिक या आग का
अपर		उड़िया	7 पीछ की आग का, पिछला, पश्चातवर्ती
अपरं	मज्ञा अव्यय	मलयालम	8 किमी दूसरी जानि या वर्ण का, विजातीय
अपरम्		तमिल	9 अधम, नीच, अयकृन्, नीचा
अपरमु		तेलुगु	10 हाथी का पिछला भाग या पिछले पैर, जहाज का
अपर		बंगला	पिछला भाग 11 वर्ग, शत्रु, प्रतिकूल, विपरीत
अपरकायं	मज्ञा	मलयालम	शरीर का पिछला भाग
अपरक्रिया	मज्ञा	असमी, उड़िया, बंगला, मराठी	1 अजेय, अर्ननक्रम्य, अयगभूत, + ऊर्ध्व वैदिक (मराठी)
अपर क्रिया	मज्ञा	मलयालम, तेलुगु	2 मृतक क्रिया, अतिम क्रिया
अपरविकारियै/अपरक्रिये		तमिल, कन्नड	3 प्रेतकर्म, मृत के लिए क्रिया जाने वाला क्रियाकर्म
अपरगति	मज्ञा	मलयालम, संस्कृत	सर्गान में एक विशेषता या गुण
अपरज	विशेषण	संस्कृत, मलयालम, हिंदी	छाटा भाई, जो बाद में उन्नत हुआ हो
अपरज्ञानम्	मज्ञा	तमिल	पर ज्ञान, शास्त्र तान, परम ज्ञान नहीं
अपरपक्षम् (पक्षम्)	मज्ञा	तमिल	1 कृष्णपक्ष 2 विरुद्ध पक्ष, प्रतिवादी पक्ष 3 पीछे होना,
अपर पक्ष	मज्ञा	कन्नड, हिंदी, संस्कृत, मराठी	दूसरे नवर पर + 4 वितृपक्ष, दूसरी बाजू (मराठी)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपरता	सज्ञा	मराठी, मलयालम, संस्कृत	1 दूसरापन, पृथकता, भिन्नता, पश्चातवर्तिता
अपरत्तुबम्/अपरत्व		तमिल, मलयालम	2 सामने का, निकटना, परवर्तीपन, दूरी
अपरत्व	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	3 न्याय शास्त्रानुसार चौबीस गुणो में से एक
अपरत्र	अव्यय	बंगला, मराठी, मलया, हिंदी	अन्यत्र, दूसरे पक्ष या विषय में, और कहीं
अपरपुत्ति/अपरबुद्धि	सज्ञा	तमिल	अविवेक वाद में ख्याल आना
अपरमा(माता)	सज्ञा	गुजराती, मराठी	मौतली माता, दूसरीमाता, श्रेष्ठ माता
अपरमुत्ति/अपरमुक्ति	सज्ञा	तमिल	1 मोक्ष नहीं, मात्र स्वर्ग 2 अपूर्ण मुक्ति
अपरांगम्	सज्ञा	तमिल	पीठ, पृष्ठभाग
अपरांग	सज्ञा	हिंदी	गुणी भूत व्यंग्य का एक भेद (साहित्य)
अपरांगमु	सज्ञा	तेलुगु	पीठ का भाग
अपर-रात्तिरि		तमिल	रात्रि का पिछला आधा भाग, मध्यरात्रि, उत्तरी
अपररात्रि	सज्ञा	गुजराती, तेलुगु, कन्नड	रात, रात्रि का अंतिम पहर
अपररात्रि (रात्र)		हिंदी, संस्कृत, मराठी	प्रभात काल, उषा काल, तडका
अपरसूरियन्	सज्ञा	तमिल	1 मृत्यु ममान परज्ञानी तथा परम चरित्रवान
अपर-सूर्य	सज्ञा	मराठी	2 अन्यन्न विद्वा एव बुद्धिमान ब्राह्मण
अपराङ्मुख	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1 मुख न माड़ने वाला, बहादुरी से सामना करने वाला
अपराङ्मुख		हिंदी	2 आमने सामने चेहरे 3 उदामीन नहीं
अपरबयस (वय)	सज्ञा	कन्नड	वृद्धावस्था बुढ़ापा, उत्तरी उग्र
अपरबयसु	सज्ञा	तमिल	पिछली उमर, ढलती आयु
अपरवारिधि	सज्ञा	कन्नड	पश्चिमी माग
अपरा	सज्ञा	नेपाली, हिंदी	1 अध्यान्मावद्या या ब्रह्मविद्या के अतिरिक्त विद्या,
अपरा		बंगला, संस्कृत	लौकिक या पदार्थ विद्या वेद वेदांग आदि
अपरा (विद्या)		मराठी, गुजराती	2 दूसरी श्रेणी की 3 पश्चिम दिशा
अपरा	सज्ञा	मलयालम	+ 4 छोटी, तग, अधूरी, निकट उत्तरी (मराठी गुजराती)
अपरस्पर	सज्ञा	कन्नड	एक के बाद दूसरा नहीं निर्विभन
अपराजित	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 जो हारा या पराजित नहीं हुआ, अपराभूत, अविजित
अपराजित		असमी, उड़िया, बंगला	2 जो जीता नहीं जा सका, अजेय, अनतिक्रम्य
अपराजित		कन्नड, मलयालम, नेपाली	3 विष्णु, शिव, जैन यति, शेषनाग (सज्ञा)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपराजितम्		तेलुगु	+ 4 इद्र के रथ का नाम (तेलुगु)
अपराजितन्	सज्ञा	मलयालम, तमिल	5 एक जहरीला कीड़ा 6 यज्ञ का मुनहरा घडा
अपरनावम्	सज्ञा	तमिल	एक शिवतत्व
अपरबोगम्	सज्ञा	तमिल	इन्द्रलोक तथा परलोक में आनन्द भोगना
अपरवाक्कियम्	सज्ञा	तमिल	गणित में अंतिम समीकरण
अपरवाणीशुवर	सज्ञा	तमिल	शिव का एक रूप, अपरवाणीश्वर (संस्कृत)
अपरवागीसुवरी	सज्ञा	तमिल	एक देवी शक्ति, अपरवागीश्वरी (संस्कृत)
अपराजिता	सज्ञा	हिंदी, मराठी	1 दुर्गादेवी जिनका पूजन दशहरा के दिन होता है,
अपराजिता		असमी, उड़िया, बंगला	महाकाली, शिवा अपराभूता, अजेया
अपराजिता		मलया, नेपाली, संस्कृत	2 उत्तर पूर्व विदिशा 3 शेफालिका, दुर्वा, जयन्ती,
अपराजितै		तमिल	विष्णुकान्ता, शक्तिनी, आदि और्षाधया
अपराजिते		कन्नड	4 एक वर्ण वृत्त 5 अयोध्या नगरी
अपराजिता		गुजराती	+ 6 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एक योगिनी (बंगला)
अपराज्येय	विशेषण	हिंदी, मलयालम, बंगला	जिस दृगया न जा सके या जो जीता न जा सके,
अपराज्येय		संस्कृत, गुजराती	अजेय जिस जीतना असंभव हो
अपराधीन	विशेषण	गुजराती, असमी, बंगला	जो किसी दूसरे के अधीन या वश में नहीं, स्वाधीन
अपराबतारम्	सज्ञा	तमिल	नया या भिन्न अवनार
अपरान्त	सज्ञा	नेपाली, हिंदी	पश्चिमी दश या प्रान्त
अपराह्न	सज्ञा	गुजराती, नेपाली, हिंदी	दिन का उत्तरार्ध, तीसरा पहर
अपराह्(म्)	सज्ञा	मराठी, कन्नड, तेलुगु	मध्याह्न के पश्चात्
अपराणम्		तमिल	दोपहर के बाद का समय
अपरावर्ती	विशेषण	हिंदी	न लौटने वाला, मुँह न मोड़ने वाला
अपरिक्रम	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 चल न रहा हो या चलने में असमर्थ, उद्योग हीन
अपरिक्रम		मलयालम	2 परिश्रम न करने वाला 3 परिक्रम हीन
अपरिविलन्न	विशेषण	हिंदी	आर्द्र या तरल नहीं, सूखा, शुष्क
अपरिवलेश	सज्ञा	गुजराती	परिवलेश या परेशानी का अभाव
अपरिक्षत	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	अक्षत या घायल नहीं, जख्मी नहीं
अपरिगण्य	विशेषण	हिंदी	अनगिनत, बेशुमार, जो गिना न जा सके

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपरिगत	विशेषण	हिंदी	अज्ञान, अप्राप्त, जो पहचाना न हो, अपरिचित
अपरिग्रह	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 दान न लेना, सम्पत्ति त्याग, आवश्यकता से
अपरिग्रह	विशेषण	नेपाली, मलयालम	अधिक धन या अन्न आदि न लेना, दास रहित
अपरिग्रह		गुजराती, मराठी	+ 2 न मागने या न स्वीकारने का व्रत, (तमिल)
अपरिग्रह		बंगला	3 मोहनाज, परिजन विहीन, अकेला, गरीबी, कगाली
अपरिग्रहं	सज्ञा	मलयालम	4 मोह, राग द्वेष, हिमा आदि का त्याग
अपरिविकारहम्		तमिल	+ 5 अप्रलीक, अकृतदार, मृतदार (बंगला), अकिचन
			+ 6 योगशास्त्र में र्शववा यम, मग त्याग, ब्रह्मचर्य
अपरिग्रहव्रत	सज्ञा	गुजराती	कुछ पाम न रखने या अपने लिए कुछ भी न बटोरने का व्रत या नियम
अपरिग्रहि	सज्ञा	मलयालम	1 सग्रह न करने वाला, भेंट, दान अस्वीकार करने वाला
अपरिग्रहिन्		संस्कृत	2 जिसके पाम कुछ भी न हो
अपरिग्रही		गुजराती, मराठी	3 मग रहित
अपरिग्राह्य	विशेषण	हिंदी	जो ग्रहण करने या लेने योग्य न हो
अपरिगृहीत	विशेषण	हिंदी	1 जिसे ग्रहण न किया हो 2 अस्वीकृत, त्यक्त
अपरिगृहीतागमन	सज्ञा	हिंदी	जैन शास्त्रानुसार कुमारी या विधवा से सबंध नामक अर्थचार
अपरिचय	सज्ञा	हिंदी, बंगला, संस्कृत	1 परिचय हीनता, जान पहचान न होना
अपरिचयं		मलयालम	+ 2 अनुभवहीनता, अज्ञता (मलयालम)
अपरिचयिता	सज्ञा	हिंदी	अपरिचित होने की अवस्था या भाव
अपरिचयि	सज्ञा	मलयालम	1 जिसकी जान पहचान अधिक न हो
अपरिचयिन्	सज्ञा	संस्कृत	2 जो मिलनसार न हो, मेल जोल न रखता हो
अपरिचयी	सज्ञा	हिंदी	3. जिससे जान पहचान न हो
अपरिचित	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 जिसका परिचय न हो, अनजाना, अनुभवहीन,
अपरिचित		असमी, उड़िया, बंगला	अजनबी, अज्ञात, अनभिज्ञ, पराया
अपरिचित	विशेषण	नेपाली, मलया, संस्कृत	2 (विषय) जिसका पहले से परिज्ञान न हो
अपरिच्छद	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1 वस्त्रहीन, फटेहाल, नंगा, गरीब, कगाल, मोहताज
अपरिच्छद		मलयालम, संस्कृत	2 जिसकी आवश्यकताएं पूरी न होती हैं

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपरिच्छिन्न अपरिच्छिन्न	विशेषण	हिंदी, बंगला, संस्कृत कन्नड	1 आवरण रहित, ढका नहीं, नगा, मलिन, विवस्त्र 2 सर्वव्यापक 3 अपरिष्कृत
अपरिच्छिन्न अपरिच्छिन्न अपरिच्छिन्नम्	विशेषण	हिंदी, गुज, नेपा, संस असमी, बंगला, उड़िया तमिल	1 अविभाज्य, अपरिभाजित, अंतर रहित, अथाह विभाग रहित, अपरिगमित, असीम, लगातार, बगेकलोक, अर्निर्दष्ट, अखड, अनत, अविशिष्ट
अपरिच्छिन्न	विशेषण	मलयालम	+ 2 अपरिष्कृत, गदा (उड़िया), मतन, अभेद्य
अपरिच्छेदं अपरिच्छेद अपरिच्छेद	सज्ञा सज्ञा	मलयालम संस्कृत हिंदी	1 क्रम या व्यवस्था का अभाव अवच्छिन्नता या अन्वय की स्थिति 2 विभाग, विलगाव या सीमा का अभाव, निरंतरता + 3 विचार या विवेक का न होना (संस्कृत)
अपरिच्छेद्य	विशेषण	मलयालम	1 जिस पृथक न किया जा सके भिन्नता का निर्णय या पहचान न हो सके 2 अनिश्चित, असीम ना पूर्ण तरह ज्ञान न हो अज्ञान, अनजाना अपरिचय, न जानना, जानकारी न होना जिसका माग या पूरा ज्ञान न हो सके
अपरिज्ञात अपरिज्ञान अपरिज्ञेय	विशेषण सज्ञा विशेषण	बंगला, संस्कृत बंगला, संस्कृत बंगला, संस्कृत	
अपरिणत अपरिणत अपरिणत	विशेषण	हिंदी, असमी, बंगला संस्कृत, गुजराती मलयालम	1 अर्थात्मानत, अविश्रुत, अपरिष्कृत, अनपका, रूखा, ब्या का ब्या जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो जा + 2 जो पूर्ण विकसित नहीं, अयुक्त, नरुण (बंगला)
अपरिणतबुद्धि	सज्ञा	बंगला	अपरिष्कृत बुद्धि, चपल या गहन बुद्धि
अपरिणय अपरिणयं	सज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत मलयालम	1 विचार न होने की अवस्था, कामार्थ 2 अद्यतय, चिक्कोमार्थ
अपरिणाम अपरिणामं	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत मलयालम	अविकृतता, अपरिवर्तनशीलता विकार रहित, परिणाम शून्यता
अपरिणामदर्शिता	सज्ञा	बंगला	अदृग्दर्शिता, अविवेचकता
अपरिणामदर्शी अपरिणामदर्शी	विशेषण	हिंदी बंगला	अदृग्दर्शी, अविवेचक, नतीजा क्या होगा यह न सोचने वाला, हठी
अपरिणामी अपरिणामि	विशेषण	हिंदी, नेपाली मलयालम	1 अपरिवर्तनशील, रूप या अवस्था में हेरफेर न होने वाला 2. एकरस, निर्विकार 3. जिसका

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपरिणामिन्		संस्कृत	सतीजा न निकल, जिसमें परिणाम या विकार न हो
अपरिणीत (ता)	विशेषण	गुजराती, नेपाली, संस्कृत	1 जिसका परिणय अर्थात् विवाह नहीं हुआ, कुमार
अपरिणीत (ता)		बंगला, मलया, हिंदी	2 अविवाहिता, कुमारी कन्या
अपरितुष्ट	विशेषण	बंगला	1 असंतुष्ट 2 विरक्त
अपरितृप्त	विशेषण	बंगला	1 अतृप्त 2 अर्गत, असंतुष्ट
अपरितोष	मत्ता	मराठी	असंतोष सब तरह से संतोष नहीं, अतृप्त, पूर्ण तरह से नहीं
अपरितोष		संस्कृत	
अपरित्याग्य	विशेषण	मलयालम, संस्कृत, बंगला	जिसमें त्याग न जा सके, अनिवार्य, अपरिहार्य
अपरिनिश्चित	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	पूर्णतया परिभाषित या स्थापित नहीं
अपरिपथी	विशेषण	बंगला	अप्रातिकूल अधिपथी, अप्रातिबंधक, अनुकूल
अपरिपक्व	विशेषण	हिंदी, उड़िया, बंगला	1 जो अच्छी तरह पخت या पका न हो, अधुग
अपरिपक्व	विशेषण	संस्कृत	2 अधस्वरग अधपका, कच्चा, अमिद्ध, अपट्ट
अपरिपणितसंधि	मत्ता	हिंदी, संस्कृत	1 पत्नी संधि जिसमें मृद्दे या अर्धे स्पष्ट रूप से व्याख्यायित न हो
अपरिपणित-संधि		मलयालम	
अपरिपणित-संधि		गुजराती, बंगला	2 दुग्गे को धरका देने के लिए, की गडे संधि, कपटसंधि
अपरिपाक	मत्ता	बंगला	1 अपरिणति 2 अनेपुण्य 3 अजीर्ण
अपरिपुष्ट	विशेषण	असमी, बंगला	1 अपुष्ट अमीर, पूर्ण विकसित नहीं
अपरिपुष्ट	विशेषण	संस्कृत, हिंदी	2 अधुग अपरिपुष्ट जो पष्ट नहीं
अपरिपूर्ण	विशेषण	असमी, बंगला	पूर्ण नहीं, असम्पूर्ण, दोषयुक्त
अपरिपूर्णता	मत्ता	असमी	पूर्ण न होने की अवस्था
अपरिमाण	विशेषण	हिंदी	1 जिसका परिमाण या नाप तोल का हिसाब न हो
अपरिमाण		संस्कृत, मलयालम	2 बेहिमाव, बेहद, अत्यधिक, अपरिमेय
अपरिमित	विशेषण	हिंदी, मराठी, नेपाली	1 परिमाण, भीमा, मर्यादा का हिसाब न होना
अपरिमित		असमी, उड़िया, बंगला	2 अमात्र, अपरिमेय, अमीम, भीमाहीन, परिमाण से अतिरिक्त, अर्गाणन, असम्बन्ध, बहिमाव, अत्यधिक, बेहद, अनन्त, बे शमात्र
अपरिमित		गुजराती, मलयालम	
अपरिमित		कन्नड, संस, कोंकणी	
अपरिमितम्(अपरिमितम्)		तमिल, तेलुगु	+ 3 मिजुल खर्च (असमी), अप्रचुर, सामान्य (बंगला)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, उड़िया, बंगला कन्नड, नेपाली मलयालम, संस्कृत	1 जिसकी नाप तोल न हो सके, कृता न जा सके 2 जिसका अनुमान न लगाया जा सके 3 बे अन्दाज, ढेर सारा, अमीग, अपार, अमख्य, अगणित, बहुत अधिक
अपरिप्तान अपरिप्तान	विशेषण	बंगला, मलयालम संस्कृत, हिंदी	1 अप्तान धुधला नदी, मैला नदी, प्रफुल्ल 2 मुह उतरा हुआ नही अबसाद या उदासी रहित 3 मुरझाया नही, जिसका क्षय नही हुआ
अपरिवयस्क अपरिवर्त	सज्ञा विशेषण	बंगला हिंदी	बालिग नही पकी बुद्धि का नही, अप्राढ नयीन जिममे फेरबदल न हो सकता हो
अपरिवर्तन अपरिवर्तन	सज्ञा	असमी बंगला	1 परिवर्तन का अभाव, रूपान्तर नही निच 2 एक ही अवस्था अतिकार अविकाम, मदा एकरम
अपरिवर्तनीय अपरिवर्तनीय	विशेषण	बंगला, नेपाली हिंदी	असाध्य, अतल, अवश्यभावी, जिममे फेरबदल न किया जा सकता हो, जो बदले मे न दिया जाय
अपरिवर्तित अपरिवर्तित	विशेषण	हिंदी बंगला, उड़िया	1 जिममे परिवर्तन या बदलाव न हुआ हो अविकेत 2 ज्यो-का न्या, जेम का नैसा, पहले जैसा ही
अपरिवाद्य अपरिवाही	विशेषण सज्ञा	हिंदी बंगला	जा भर्त्सना अथवा निन्दा क योग्य न हो अपरिग्यालक, कृचालक (बेडकन्डक्टर)
अपरिकृत अपरिकृत	विशेषण	हिंदी संस्कृत, मलयालम	1 जा चारा और मे न घिरा हो या न घेर गया हो 2 अपरिच्छन्न जो ढका हुआ न हो
अपरिशीलन अपरिशुद्ध	विशेषण विशेषण	बंगला बंगला	पूरी तरह समझा या ग्रहण किया हुआ नही अविशुद्ध, दोषपूर्ण, भ्रमपूर्ण
अपरिशेष अपरिशेष	विशेषण	हिंदी संस्कृत, मलयालम	जा शय न हो सक, परिपूर्ण व्यापक, ानत्य, अविनाशी, मीमा या शेष का अभाव
अपरिशोधनीय अपरिशोधित	विशेषण विशेषण	बंगला बंगला	1 जिमका शोधन न किया गया हो 2 जिमकी वास्तविकता न जाची गयी हो
अपरिष्कार अपरिष्कार अपरिष्कार	सज्ञा	हिंदी, असमी उड़िया बंगला	1 शुद्धता, सफाई अथवा स्पष्टता की कमी; अशुद्ध 2 मलिनता, भद्दापन, मैलापन, अपरिच्छिन्न अवस्था 3 मस्कार का अभाव, उच्छृखलता

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपरिष्कृत अपरिष्कृत अपरिष्कृत अपरिष्कृत	विशेषण	हिंदी बंगला मलयालम संस्कृत	1 जा धोया या माजा न गया हो, माफ मुथग न किया गया हो 2 मैना कचेला, गदा, भद्दा, अस्मकृत, अपरिष्कारित अभूषित विना पालिश 3 अनगद, बडोल कग छग या यमकाया हुआ नहीं
अपरिसर अपरिसरम् अपरिसर	विशेषण सज्ञा	हिंदी तमिल बंगला	1 निकर नहीं, दूर स्थित 2 विस्तार का अभाव + 3 दूरी (तमिल) 4 अप्रशस्त क्रम लवा चौडा
अपरिसीम अपरिसीम	विशेषण	असमी बंगला	1 जिसकी आखिरी सीमा न हो असीम, अपार 2 सीमा बंधन नहीं अजोष
अपरिस्फुट अपरिस्त्रवि	विशेषण सज्ञा	बंगला मलयालम	अस्पष्ट, अन्यक्त पूरी तरह खिला नहीं न बहने वाला काढ़
अपरिहरणीय अपरिहार अपरिहरणीय अपरिहार	विशेषण विशेषण विशेषण सज्ञा	हिंदी, बंगला, संस्कृत हिंदी, मराठी मलयालम मराठी, हिंदी	1 निमज्जा त्याग चनायेत या निर्भिद्र हो, अटल 2 निमकी मग्मत या टलाज न हो मक, लाइलाज 3 अनिवाय, अखर्नीय, अवश्यभावी, अन्याय 4 दूर करने, टालने के साथ का अभाव, अनिवारण
अपरिहार्य अपरिहार्य अपरिहार्य अपरिहार्यमु	विशेषण	हिंदी, मराठी, नेपाली असमी, उड़िया, बंगला गुजराती, मलया, संस्कृत तेलुगु	1 अनिहार्य, आवश्यकता अन्याय अटल, लाइलाज 2 जिमी असमान जा टाला न जा सक 3 न छीनने न उडा लेने या न चुगने योग्य 4 जिसके बिना काम न चल सक
अपरीक्षित अपरीक्षित अपरीक्षित	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली बंगला, संस्कृत मलयालम	1 जिसकी जाच पडताल आजमाइश परीक्षा नहीं की गयी, अपरिष्कारित 2 मुखता पूर्ण अमिद्र 3 अनिरीक्षित, अनलोचित अविचारित, अनिरूपित
अपरुषवाक्कियम् अपरुष	सज्ञा विशेषण	तमिल हिंदी, नेपाली, संस्कृत	कडवा नहीं मधुर बोलना मृदु भाषा क्रोधरहित कठोर नहीं कोमल, मृदुल
अपरोक्ष अपरोक्ष अपरोक्ष अपरोक्षमु	विशेषण अव्यय	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, बंगला, कन्नड मलयालम, संस तेलुगु	1 आख के परे नहीं, आख के सामने, प्रत्यक्ष, साक्षात, समक्ष, दृष्टिगोचर, पीठ पीछे नहीं, रूबरू, इन्द्रियगोचर, जो दूर नहीं 2 उपस्थिति, मौजूदगी, हाजिरी, वर्तमानता मे

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपरोद्सम्		तमिल	3 जिमे अपने सामने देख, मून, मगझ मके
अपरोक्षज्ञाने	सज्ञा	कन्नड	1 आत्मज्ञान, मोक्षज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान
अपरोक्षज्ञानं		मलयालम, संस्कृत	2 इन्द्रिया से प्राप्त अनुभव, इन्द्रिय गोचर
अपरोक्षविद्या	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	ग्रन्थ विद्या अध्यात्म विद्या, वेदान्त का एक प्रकरण
अपरोक्षानुभूति	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत, हिंदी	प्रत्यक्ष अनुभव इन्द्रियो द्वारा प्राप्त महर्गमियत
अपर्ण	विशेषण	हिंदी, बंगला, कन्नड, मलया	पर शून्य वृक्ष, पत्तहीन, पत्त न होना
अपर्ण		गुजराती, तेलुगु, संस्कृत	पर्यपिन, जिसके पर न हो
अपर्णा	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	सपत्नी जिसने नपकरतया पत्त खान भी छोड़ दिया
अपर्णा		मराठी, संस्कृत, तेलुगु	प्या, महेश्वरी, दुर्गा जिज्ञानी, विमपरा
अपर्णे (र्णा)		कन्नड, मलयालम	दुर्गा या भारती का एक नाम
अपर्यन्त	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1 तिसरका परत बधा न सीमा न हो, असीम
अपर्यन्त	विशेषण	संस्कृत	2 अपार्यमित, सीमा न बधा हुआ नहीं
अपर्याप्त	विशेषण	हिंदी, मराठी, नेपाली	1 जो प्राप्त सामग्र्यपत्ता क अनुसार मनोपजनक
अपर्याप्त		असमी, उड़िया, बंगला	न हो सक, अपूर्ण अवृण ना काफी, अपर्याप्त
अपर्याप्त		गुजराती, संस्कृत	अपर्याप्त +2 पर्याप्त से अधिक, असीम, असम्यक
अपर्याप्त		मलयालम	अपर्याप्त अपर्यामित (असमी, बंगला, नेपाली)
			+ 3 अक्षम, असमय, अयोग्य (संस्कृत)
अपर्याप्ति	सज्ञा	नेपाली	1 अपूर्णता, कमी असंपूर्णता, असामर्थ्य, अप्राचुर्य
अपर्याप्ति		बंगला	2 अपर्याप्त होने की अवस्था या भाव, पूर्णता का
अपर्याप्ति		हिंदी, संस्कृत	अभाव, प्रति 3 अक्षमता, अयोग्यता
अपर्याप्तकर्म	सज्ञा	हिंदी	जैन शास्त्रानुसार वह पापकर्म जिसके उदय से
अपर्याप्तकर्मन्		संस्कृत	जीव का पूर्णता प्राप्त करने में बाधा पड़ती है
अपर्याय	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1 क्रमहीन, अक्रम समानार्थी नहीं
अपर्याय	सज्ञा	बंगला, संस्कृत	2 क्रमहीनता, क्रम या विधि का अभाव (संज्ञा)
अपर्युषित	विशेषण	नेपाली, कन्नड, संस्कृत	वासि नहीं, ताजा, नन्कालीन भोज्यपदार्थ
अपर्व	सज्ञा	हिंदी, असमी	1 जिस दिन कार्त पर्व या पुण्यकाल न हो
अपर्व		बंगला	2 पूर्णिमा, अमावस्या, मकरान्ति आदि के अतिरिक्त

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपवर्ध	विशेषण	मलयालम	समय, उन्मय का अभाव, पूर्व गर्ध का अभाव
अपवर्क	विशेषण	हिंदी	3 जिसमें गाठ या जोड़ या गर्ध न हो
अपवर्न्/अपवर्न	संज्ञा	संस्कृत, मलयालम	+ 4 वसमय, अन क्रतु (संस्कृत)
अपल	विशेषण	हिंदी	1 पल गर्हन, मास गर्हन, निर्गमिप
अपल	विशेषण	संस्कृत	2 द्वार की अर्गला या फिल्ली, आर्लापन या क्रील (संज्ञा)
अपलम्	संज्ञा	तमिल	3 पार तोला स न्यून परिमाण (संस्कृत)
			+ 4 पल की मात्र (तमिल)
अपलक	विशेषण	हिंदी, असमी	1 जिसकी पलक न गिरे, जो टुकड़की लगाये डेख
अपलक	क्रियाविशेषण	बंगला	ग्या ह, निर्निमप 2 एक टुक, बिना पलक डारकाये
अपलायन	संज्ञा	गुजराती	गीठ न दिखाना, भागना स्त्री
अपल्या	संज्ञा	गुजराती	भास गर्हन दुबली स्त्री, क्यदी स्त्री
अपवन	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1 नशा बिना, वायु से सुगंधन, बिना आधी के
अपवन	संज्ञा	हिंदी	2 नगर के मगीप का बाग, अपवन, लता-कज
अपवित्र	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 न अपवित्र, शब्द न हो, अशब्द व सम्बन्ध, अपवित्र, नपाक, अपवित्र संस्कार गीन
अपवित्र		असमी, उड़िया, बंगला	2 संज्ञा, गर्हन, नदीप, द्विपिन, गला
अपवित्र		नेपाली, कन्नड, मलया	3 जा स्पर्श करन योग्य न हो
अपवित्रमु		तेलुगु	4 क्रिमी पाप कर्म के कारण जातिभ्रष्ट या जाति परित (नेपाली)
अपवित्तर		पंजाबी	
अपवित्रु		सिंधी	
अपवित्रता	संज्ञा	गुजराती, नेपाली, सिंधी	1 पवित्र न होने का भाव, अशुद्धता
अपवित्तरता		पंजाबी	2 स्त्री शोध, मलापन, मासिक-भार्मकाल
अपवित्तरताई		पंजाबी	3 मन्निन्ना प्रलय, पाप, गदगी
अपशु	विशेषण	हिंदी	1 जिसके घर पशुधन न हो, निर्धन 2 जो पशु न हो
अपशु		मलयालम	3 गाय घोड़े के अनिर्दिष्ट चर के अनुपयुक्त पशु
अपश्चिम	विशेषण	हिंदी	1 जो पश्चिम या बाद में न हो, प्रथम, चरम
अपश्चिम		संस्कृत	2 जिसके पश्चिम या बाद में कोई न हो, अंतिम
अपश्चिम	विशेषण	मलयालम	3 सबसे आगे वाला 4 पूर्वीय; पश्चिमीय नहीं
अपसन्द	विशेषण	उड़िया	नापसद, अनादृत, अमनोनीत

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपहुंच	विशेषण	पंजाबी	जहाँ पहुँच न सके, पहुँच से दूर, न पहुँचने का भाव
अपांक्त	विशेषण	हिंदी	1 जिसे सबके साथ बैठकर खान पान का अधिकार न हो, जाति-वर्हिष्कृत, जातिच्युत
अपाङ्क्त		बंगला, संस्कृत	
अपांक्त		मराठी	2 दान, श्राद्ध आदि का अनधिकारी ब्राह्मण
अपांक्त		उड़िया	3 अमात्र, अयोग्य, नाअहल, नालायक, कृपात्र
अपांक्त-पत्र	सज्ञा	मराठी	जाति एकत्र होने पर जो कागज किसी व्यक्ति के अपांक्त होने के विषय में वाचा जाता है
अपांक्तेय	विशेषण	संज्ञ, उड़िया, बंगला, तेलुगु	1 एक पक्ति में बैठने के अयोग्य, पामी, जातिच्युत
अपाङ्क्तेयन्		मलयालम	+ 2 अनकैशनेवृल मन (तेलुगु)
अपाक (ज)	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1 पका नहीं, कच्चा, अपांपक, अनपका, जो पकाया नहीं गया है
अपाक		बंगला	
अपाक		मलयालम	2 कच होने की अवस्था या भाव अजीर्ण, अपच
अपाक (ज)	सज्ञा	संस्कृत	+ 3 प्राकृतिक 4 अत्यस्कता (संस्कृत)
अपाकं	सज्ञा	मलयालम	1 भोजन पकाने में दोष 2 बुद्धि की अपांपक्यता
अपाकत		मलयालम	3 त्रुटि, भूल, गलती, कमी, खराबी, अनोचित्य
अपाकी	विशेषण	असमी	1 जो असानी में हजम न हो, हजम न किया हुआ, बढहजगी से उत्पन्न 2 न पका हुआ, कच्चा, अपक्य
अपाक्य	विशेषण	नेपाली	
अपाच्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 जो न पचे या हजम न हो सके, परिपाक के अयोग्य
अपाच्य		बंगला	2 जो पकाया न जा सके
अपाच्य	विशेषण	संस्कृत	+ 3 दक्षिण या पश्चिम दिशा का (हिंदी)
अपाटव	सज्ञा	हिंदी, कन्नड, संस्कृत	1 सटुता या कृशलता नहीं, फहड़पन
अपाटवं		मलयालम	2 अनाडीपन, अपटुता, अयोग्यता, भद्दापन
अपाटवमु		तेलुगु	3 कमजोरी, अस्वस्थता, अदृढ़ता, रोग विमारी
अपाठ (ठं)	सज्ञा	संस्कृत, मलयालम	गलत पाठ पढ़ना या नहीं पढ़ना
अपाडम्		तमिल	अशुद्धि, गलती
अपाठिआ	सज्ञा	उड़िया	अनपढ़, मूर्ख, अशिक्षित, पढ़ा लिखा नहीं
अपाट्य	विशेषण	हिंदी, असमी	1 पढ़ने या पढ़े जाने योग्य नहीं
अपाट्य		उड़िया, बंगला	2 जो पाठ्य नहीं है, जो पढ़ा न जा सके

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपाड	विशेषण	मराठी	1 अतिशय, बहुत, अधिक
अपाडु	अव्यय	मराठी	2 अप्रतिम, अमाधारण, विलक्षण, अमभव
अपाडे	विशेषण	मराठी	3 गलत, अयक्य
अपाणिनीय	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	पाणिनीय व्याकरण के अनुसार नहीं
अपातक	सज्ञा	गुजराती	पाप नहीं, अशाय नहीं, पातक न होना
अपातकी	विशेषण	गुजराती	पारी नहीं, पात-लिनत नहीं
अपात्र	विशेषण	हिंदी, मराठी, नेपाली	1 अयोग्य, अनधिकारी नालायक निन्दित,
अपात्र		असमी, उड़िया, बंगला	अनुपयुक्त, खराब मुख, निकम्मा, क्रात्र
अपात्र		गुजराती, कन्नड, संस्कृत	2 वेकार या खराब वर्तन
अपात्रं	सज्ञा	मलयालम	3 दान, धातु आदि में निम्नत्रण का पात्र नहीं,
अपात्रिरम्		तमिल	अनधिकारी ब्राह्मण, मनु पात्र का जन्म
अपात्रमु	विशेषण	तेलुगु	4 किसी भाव्य विशेष की योग्यता न रखना
अपात्रुडु	सत्ता	तेलुगु	निकम्मा या नालायक व्यक्ति
अपात्र-पात्र	सज्ञा	कन्नड	अनुपयोगी वर्तन या निकम्मा मनुष्य
अपात्रन्यस्त	सज्ञा	बंगला	1 अयोग्य व्यक्ति को दिया हुआ
अपात्रस्थ		बंगला	2 अपात्र में अहित या स्थापित किया हुआ
अपात्रीकरणं	सज्ञा	मलयालम	1 वह कार्य जो किसी को, प्रायः ब्राह्मण को
अपात्रीकरण(कृत्या)	सज्ञा	हिंदी	अनधिकारी बनाना या चुन करना है
अपात्रीकरण	सज्ञा	संस्कृत	2 अशोभनीय कार्य करना, निर्दिष्ट धन लेना
			3 झूठ बोलना, नौ प्रकार के पापों में से एक
अपात्रीदान	सज्ञा	मराठी	अपम व्यक्ति को दिया दान
अपात्रदायी	विशेषण	हिंदी	अपात्र को दान देने वाला
अपाद	विशेषण	मलयालम, गुजराती	पद या पैर हीन, जिममे या जिमके पैर न हो
अपादक		हिंदी	बिना पैर का लगडा या लूला
अपाप	विशेषण	हिंदी, गुजराती, बंगला, संस	पाप रहित, दोष रहित, निष्पाप, धर्मान्सा, पवित्र,
अपापम्/अपापे		तमिल, मलयालम	निर्दोष, शुद्ध, वह जो पाप नहीं अर्थात् पुण्य (सज्ञा)
अपापविद्ध	विशेषण	मलयालम, बंगला	जो पाप या बुराई से प्रभावित न हो, निष्कलक,
अपापी	सज्ञा	बंगला, गुजराती, हिंदी	1 पवित्र, निर्मल, निष्पाप, निरपराध

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपाधि		तमिल, मलयालम	2 पाप ग्रथ शन्य शिशु नुल्य
अपाधिन्		संस्कृत	3 विशद धर्मात्मा, पुण्यात्मा, पवित्रात्मा
अपाय	मत्तम	हिंदी, संस्कृत	1 बिना पैर का लगडा 2 मकट, हानि, नाश, ख़्तारी
अपाय		गुजराती	3 तिमके पास कोई उपाय न रह गया हो
अपार	विशम	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 पारधीन भगीम, विशाल, वेद, अगर्वाद,
अपार		असमी, उड़ि, बंग, संस	अमव्य, अनन, अकल, दूरपार वाला जिमके पार
अपार		कन्नड, मलया, नेपाली	जाना कर्तन हो 2 मानसिक मनाप या तत्स्थना
अपारमु		तेलुगु	3 समुद्र सागर, नदी का सामने वाला किनारा(मत्ता)
अपारम्/अपारं	मत्ता	तमिल, मलयालम	4 अमर्गति 5 साव्य के अनुसार वह त्ति जा
अपारु	विशम	सिंधी	अमान, अश्रम आदि म वचने पर मानी है
अपारमुगा	विशम	तेलुगु	वृत्तान्त म अधिना म
अपारक	विशम	हिंदी, बंगला, मलयालम	अश्रम अवाग्य, योग्यता मीन अक्षम
अपारग	विशम	हिंदी, असमी, उड़िया	1 जो पार न जा सके अपारगामी
अपारग		नेपाली, बंगला	2 असमय अवाग्य अनिपुण
अपारगता	मत्ता	असमी	असमयता कोउ पारने म अक्षमता
अपारगामी	विशम	नेपाली	अपारग ना कथ म सकल नदी अयोग्य
अपारदर्शक	विशम	गुजराती, कन्नड, हिंदी	विमक आर पार न देखा जा सकता हो
अपारदर्शी (शिन्)		हिंदी, संस्कृत	ना पारदर्शी न हो (अधिक)
अपारदर्शिता	मत्ता	हिंदी	पारदर्शिता या आर पार न दिखने का गुण,
अपारदर्शिता		गुजराती	अपारग या भाग (ओपमगी)
अपारगताली	मत्ता	असमी	अपारगता अपारगता, असमर्थता
अपारण(णे)	मत्ता	मलयालम, तमिल	अपारण या वन न मगान करना
अपारता	मत्ता	मलयालम	1 अनन्ता 2 अर्थ 3 आकाश
अपारा	मत्ता	हिंदी	पृथ्वी धरती तिमका कही पार नही,
अपारशक्ति	मत्ता	तमिल	वेद नाकन, अमीम वन
अपारगत	विशम	असमी	निपुण न होना, असमर्थ
अपार्थिव	विशम	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	1 पृथ्वी मवधी या नाकिक नही, अलौकिक
अपार्थिव		उड़िया, बंगला	2 देवीय, स्वर्गीय, मित्री म उच्यत नही
अपार्थिव		मलयालम	+ 3 राजा क विण अनुचित + 4 राजा रहित (मलयालम)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपास्थिबंध	सज्ञा	मलयालम	गजा को जमीन के अतिरिक्त चूरी, टोल, जुर्माना, भेंट आदि से होने वाली आमदनी
अपाढक	विशेषण	उड़िया	अनावृष्टि आदि के कारण शस्य या धान्य हीन
अपाल	विशेषण	हिंदी	1 त्रिमयी पालक या रक्षक न हो 2 जिसकी रक्षा
अपालन	सज्ञा	असमी	न की गई हो भर्गक्षन अमर्गक्षन + 3 अगन्मान उपेक्षा पालन न करना (असमी)
अपावन	विशेषण	हिंदी, नेपाली	त्राणित्व अशुद्ध मिला गदा मालिन
अपाहज	विशेषण	हिंदी, नेपाली	अपग अगहीन गुला लगडा राम करने के
अपाहिज	विशेषण	हिंदी	अप्याग्य, अत्रमण्य आलसी, निक्कमा
अपाही	विशेषण	नेपाली	अदभूल न पचने वाला चन्दा, अमर्जिन
अपिंडी	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	पित्त रहित विना शरीर अशरीरी
अपिच्छिल	विशेषण	हिंदी, बंगला	1 अस्मिलन नहीं कीचड़ ताता नहीं अपकिल
अपिच्छिल		मलयालम, संस्कृत	2 गरना नहीं गरग म्बळ, गारु, निगल
अपितृक	विशेषण	हिंदी, बंगला	1 पिता रहित पितृहीन 2 पतृक नहीं ग्वानडानी नहीं
अपितृक		मलयालम, संस्कृत	3 माता पिता का पुत्र न होना पितृशून्य
अपित्र्य	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, मलयालम	पतृक नहीं ता पुत्रता से प्राप्त न हो
अपिहित	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 म्बळ लजागर 2 गत दिमा हुआ या टुका हुआ नहीं
अपीडन	सज्ञा	हिंदी	पीटा कष्ट न देना दया, अनक्रम्या
अपीत	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 त्रिमने मशयान नहीं क्रिया पदार्थ जो पिया नहीं
अपीत	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	2 पात्र से भिन्न रूप पीला नपी (सज्ञा)
अपीनस	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 नाक की शक्ति 2 घ्राणशक्ति की क्षति जकाम 4 एफ गग
अपुंस्का (स्क)	सज्ञा	संस्कृत, मलयालम	पतिहीन स्त्री विना पति की नागी
अपुग/अपुगदो	विशेषण	नेपाली	अपुण, अपयान पुग नहीं
अपुद्घात	सज्ञा	असमी	न देखा न मूना असाभावित, असाधारण
अपुच्छ	विशेषण	गुजराती	1 फूल नहीं, फूल विहीन शणी
अपुच्छा	विशेषण	असमी, हिंदी, संस्कृत	2 जिसको चाटी नहीं
अपुच्छी/पुच्छिनी	सज्ञा	बंगला	+ 3 शीशम का पेड़ (हिंदी सक्कन) (सज्ञा)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपुण्यम्	विशेषण	तेलुगु	पुण्य नहीं, अधार्मिक, अपवित्र, बुरा, मलिन
अपुण्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती	पुण्य का अभाव, पाप (सजा)
अपुत्र (अपुत्रक)	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 पुत्रहीन, पुत्र पुत्री, छोरा छोरी, बेटा बेटी नहीं, सतानहीन, निम्सतान, निपूता
अपुत्रक		असमी, उड़िया, बंग, संस	
अपुत्रक (कं)	सजा	कन्नड, मलया, नेपाली	2 उत्तराधिकारी न होना, निर्वंश
अपुत्रुडु		तेलुगु	3 वह माता पिता जिनका वंश चलाने के लिए कोई पुत्र न हो
अपुत्रा		पंजाबी	
अपुत्रिक	सजा	हिंदी, उड़िया	वह पिता जिसके पुत्र न हो और पुत्री के भी पुत्र न हो (वह पुत्री उत्तराधिकारिणी नहीं होती) निपूनी स्त्री, नि सतान महिला
अपुत्री	सजा	नेपाली	
अपुत्रिका	सजा	हिंदी, संस्कृत, नेपाली	पुत्रविहीन माँ, जो पुत्र न होने के कारण अपने पिता की मर्पति की अधिकारिणी नहीं हो पाती
अपुत्रणी/अपुत्रणी		गुजराती	
अपुताली	विशेषण	नेपाली	1 पुत्रहीन पिता की मर्पति
अपुत्रकं	सजा	मलयालम	2 उत्तराधिकारी होने या आधार्मिक की सम्पत्ति जो गनकीय में जाती है, राजगामी मर्पति
अपुत्रिकम्		तमिल	
अपुत्रता (त्वं)	सजा	मलयालम, गुजराती	पुत्र या सतान न होना
अपुनर्	अव्यय	मलयालम, नेपाली, संस्कृत	1 फिर नहीं, मात्र एक बार
अपुनरन्वय	विशेषण	संस्कृत	2 दोहराया न गया मत, पुन न दोहराना
अपुनरादान	सजा	संस्कृत	वारिस न लेना पुन न लेना
अपुनरावृत्ति (वर्तन)	सजा	हिंदी, मराठी, बंगला	1 फिर न आना, अपुनरागमन, पुनर्जन्म न होना
अपुनरावृत्ति		संस्कृत	2 मुक्ति मोक्ष, निर्वाण
अपुनर्जात	सजा	कन्नड	जो फिर जन्म न ले, मोक्ष प्राप्त, हिन्दू विश्वास के अनुसार मनुष्य मरने के बाद फिर किसी न किसी प्राणी रूप में जन्म लेता है और कष्ट उठाना है अतः पुनर्जन्म न हो यह श्रेयस्कर मानना है
अपुनर्जन्मा(वु)		मलयालम	
अपुनर्जन्मन्		संस्कृत	
अपुनर्जन्मा		संस्कृत	
अपुनर्भवं (व)	सजा	मलयालम, संस्कृत, हिंदी	1 मोक्ष मुक्ति, पुनर्जन्म शून्यता, निर्वाण
अपुनर्भव	विशेषण	बंगला, मलया, मरा, कन्नड	2 जो दुबारा घटित न हो, आवागमन रहित
अपुनर्भवम्		तेलुगु	3 जिसका फिर प्रादुर्भाव न हो, मोक्ष प्राप्त, अंतिम मुक्ति

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपुनर्म्यारकन्	संज्ञा	मलयालम	जो फिर न मरे, अमर, सर्वदा रहने वाला
अपुनीत	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	अपवित्र, अस्वच्छ, अशुद्ध
अपुरंधि	संज्ञा	कन्नड	बुद्धिमान नहीं, निर्बुद्धि
अपुरता	संज्ञा	मराठी	1. अपूर्णता, अधूरा, जो पूरा नहीं, कम, न्यून,
अपुरा	विशेषण	मराठी	अपरिपक्व, कच्चा, बचकाना 2. टुकड़ा, थोड़ा
अपुराण	विशेषण	हिंदी	पुराना नहीं, आधुनिक या नया
अपुरुष	विशेषण	हिंदी	+ 1. जो पुरुष या मर्द न हो 2. पुरुषन्व, आत्मा, प्रजा
अपूरुष	विशेषण	मलयालम	विहीन (मलयालम) 3. कार्य या बात जो मनुष्य
अपुरुष		संस्कृत	के अनुकूल न हो, अमानुषिक, अमानवोचित
अपुरोदतिका	संज्ञा	बंगला	जिन प्राणियों के आगे वाले दांत नहीं होते यथा
अपुरोवन्ती		बंगला	हाथी, वज्रकीट आदि
अपुष्कल	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1. अधिक नहीं, थोड़ा
अपुष्कल		मलयालम	2. श्रेष्ठ नहीं, नीचा, निम्न, कर्माना
अपुष्ट	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1. पुष्ट नहीं, दुबला पतला, कमजोर, निर्बल.
अपुष्ट		असमी, मराठी	हड्डी पसली भर 2. जिसका पोषण न हुआ हो
अपुष्ट		मलयालम, संस्कृत	3. मन्द, धीमा, कौमल या अप्रखर स्वर
अपुष्ट		नेपाली, उड़िया	4. काव्यशास्त्र में अप्रस्तुत 5. एक अर्थ दोष (साहित्य)
अपुष्ट		बंगला	6. अविकसित, अपरिणत 7. असमर्थित, अप्रमाणित
अपुष्टकं	संज्ञा	मलयालम	1. शब्द का असम्बद्ध पद प्रयोग
			2. संगीत में मंद या कमजोर ध्वनि
अपुष्टार्थ	संज्ञा	मराठी	मुख्यार्थ स्पष्ट न होने पर उसके लिए शब्द जोड़ना
अपुष्प (ष्पा)	संज्ञा	मलयालम, कन्नड	+ 1. स्त्री जिसका मासिकधर्म बंद हो गया हो (मलया)
अपुष्प	विशेषण	हिंदी, बंगला	2. पुष्पहीन, कुसुम शून्य, पुष्परहित, कुसुम रहित
अपुष्पक	संज्ञा	बंगला	3. गूलर, अंजीर के पेड़ जिन पर पुष्प नहीं लगते (संज्ञा)
अपुष्पिक/अपुष्पिनि	संज्ञा	कन्नड	+ 4. बालिका जो रजस्वला नहीं हुई (मलयालम)
अपुष्पित	विशेषण	गुजराती	5. जिसमें फूल न हों या न आये ऐसा वृक्ष
अपुष्पफल (र)	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1. जिसमें फूल न आते हों पर फल आते हों
अपुष्पफलं		मलयालम	2. बिना फूले फल देने वाला पेड़ गूलर कटहल आदि

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपुष्य	सज्ञा	बंगला	1 कृपोष्य 2 जिमका भली प्रकार में पोषण नहीं हुआ
अपूज/अपूज्य	विशेषण	गुजराती	1 जो पूजा न गया हो 2 पूजा बिना
अपूजक	विशेषण	हिंदी	अधार्मिक, अभक्त भाक्तीहीन
अपूजा	सज्ञा	हिंदी	1 आदर, भक्ति, श्रद्धा का अभाव 2 अनादर,
अपूज्य	विशेषण	गुजराती	भयमान का भाव 3 जो पूज्य नहीं
अपूट	विशेषण	मराठी	1 अछूता अदूषित अविकृत निर्दोष बचा हुआ, शेष
अस्पृष्ट		संस्कृत	2 अचूक अशिक्षित मुर तान ताल में अनभिज्ञ
अपूठा(अस्पृष्ट)	विशेषण	हिंदी	अविकसित अनर्णितला, अस्पृष्ट, अपूण
अपूठा (अस्फुट)		हिंदी (संस्कृत)	अनभिज्ञ अनजान अयोग्य, अधकगार
अपूत	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 भयवित्र, अशुद्ध पत या पवित्र नहीं
अपूत		नेपाली	2 पुत्र नहीं निमतान निपूता 3 कुपुत्र कपत
अपूती	विशेषण	नेपाली	पुत्रहीन या निमतान स्त्री
अपूतो (अपूता)	विशेषण	नेपाली, हिंदी	अपुत्रयान या सन्तानहीन पुरुष
अपूप	सज्ञा	संस्कृत, कन्नड, हिंदी, बंग	उक्य अन्न, पूजा माल पूजा अन्नरमा दोसा
अपूर	सज्ञा	मराठी, हिंदी	1 अछूटी तरह भरा हुआ नहीं
अपूरतुं	विशेषण	गुजराती	2 कुछ कमी त्रुटि + 3 भरपूर प्रचुर (हिंदी)
अपूरित	भूतक दत्त	गुजराती	जो पूरा नहीं किया गया
अपूर्ण	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी, संस	1 जो पूरा न भरा हो अधूरा न्यून, कम खंडित
अपूर्ण		असमी, उड़िया, बंगला	2 जो पूरा न हुआ या न किया हो कमीयुक्त अयथेष्ट
अपूर्ण	विशेषण	मलयालम	3 जिममें किसी प्रकार की कमी त्रुटि या दोष हो
अपूरो (अण पूराई)	विशेषण	नेपाली (सिंधी)	4 असंपूर्ण असंतुष्ट अतुष्ट, अगमान, भग्न
अपूर्णभूत	सज्ञा	हिंदी	क्रिया का काल भेद जिममें भूतकाल में उमकी
अपूर्णकाल		गुजराती	समाप्ति नहीं हुई
अपूर्णाकि	सज्ञा	गुजराती, मराठी	गणित में पूर्ण सख्या का बाटा हुआ भाग, बटे
अपूर्णाकि		कन्नड	की सख्या (फ्रैक्शन), fraction
अपूर्णित	सज्ञा	असमी	पूर्ति का अभाव, पूरा नहीं हुआ अथवा पूरा नहीं
अपूर्ति		गुजराती	किया गया, घाटे को भरा नहीं

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपूर्णता	संज्ञा	हिंदी, गुजराती	पूरा न होने की अवस्था या गुण या भाव
अपूर्व	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 जो या जैसा न पहले कभी था, न देखा, न हुआ
अपूर्व		असमी, उड़िया, बंगला	2 विनकुल नया, अद्भुत, आश्चर्यजनक, विलक्षण, असाधारण, अपरिचित, नवीन, अज्ञात, बेजोड़
अपूर्व		कन्नड, संस्कृत	3 दुर्लभ, असाभान्य, अनोखा, अजनबी, उत्तम
अपूर्वक/अपूर्विक		कन्नड	4 जो प्रथम या पूर्विय न हा ऐसा (मलयालम)
अपूर्व		अव्यय	मलयालम
अपूर्वमु		तेलुगु	बहुत था (अव्यय मलयालम)
अपूरुवम्		तमिल	5 ऐसी चीज जिसकी मना अनुमान या प्रत्यक्ष प्रमाण में सिद्ध न होती हो, परब्रह्म (संज्ञा)
अपूर्वन्	संज्ञा	मलयालम	
अपरि/अपूर्वि	संज्ञा	तमिल	वेदज्ञ ब्राह्मण, तीर्थयात्री
अपूर्व	संज्ञा	मलयालम	1 क्रिया का दूरगामी परिणाम
अपूर्व		संस्कृत	2 पाप पुण्य जिनके कारण पीछे सुख दुःख प्राप्ति होती है (मीमांसा)
अपूर्वम्/ अपूरुवम्		तमिल	3 जो पहले नहीं था, नया, असाधारण, अनूठा
अपूर्वपति	संज्ञा	मलयालम	कुमारी, अविवाहिता,
अपूर्व पति	संज्ञा	संस्कृत, हिंदी	जिसके पत्न पति न रहा हो
अपूर्वरूप	संज्ञा	मराठी, हिंदी	अर्थालंकार का एक भेद
अपूर्ववाद	संज्ञा	हिंदी	ब्रह्म के विषय में किया जाने वाला वाद-विवाद
अपूर्वविधि	संज्ञा	हिंदी	1 नया आधिकारिक आदेश
अपूर्वविधि	संज्ञा	संस्कृत	2 अन्य प्रमाणों से अप्रान्त अर्थ का विधान करना
अपूर्वाई	संज्ञा	मराठी	अपूर्वता, अद्भुतता, आश्चर्य, नवीनता,
अपूर्वता	संज्ञा	हिंदी	असाधारणता, दुर्लभता, उत्कृष्टता
अपूर्धि (न्)	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	जिसने पहले कभी प्रवाहित जीवन का सुख न भोगा हो 2 अजनबी, अपरिचित
अपृक्त	विशेषण	हिंदी, मलयालम, संस्कृत	असंयुक्त, असम्बद्ध, अभिश्रित, खालिस, विशुद्ध
अपृथक	अव्यय	नेपाली, संस्कृत	अभिन्न, साथ साथ, सदा साथ रहने वाला, समष्टि रूप से
अपृष्ट	विशेषण	बंगला	पृष्ट या पूछा हुआ नहीं, अनभिज्ञात, अकथित

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपृष्ठवंश	सज्ञा	गुजराती	मेरुदण्ड रहित, अपंजरी प्राणी,
अपृष्ठवंशी	विशेषण	गुजराती, मराठी	मेरु दण्ड हीन जाति का पशु या प्राणी
अपेय	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 पीने योग्य नहीं, अस्वच्छ 2 जिसेपीना उचित नहीं
अपेय		असमी, उड़िया, बंगला	यथा मदिरा शराब आदि
अपेय		कन्नड, नेपाली	3 जो पिया न जा मके (कटु, निक्त, तरल पदार्थ)
अपेयपान	सज्ञा	गुजराती	न पीने योग्य को पीना
अपेल	विशेषण	हिंदी	1 जिसे पेला, टाला, ठेला या हटाया न जा सके 2 अटल, सुनिश्चित, अकाट्य
अपैठ	विशेषण	हिंदी	1 पैठ या पहुँच के बाहर, दुर्गम, अगम्य
अपैतृक	विशेषण	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	जो पूर्वजो से प्राप्त न हो, जो पैतृक न हो
अपैशुन	सज्ञा	गुजराती, मराठी, संस्कृत	1 कजूसी, दुष्टपन, नीचता या चुगली का अभाव
अपैशुन्य		गुजराती, मराठी	2 सच्चा व मरल वर्तनक्रम
अपोगंड	विशेषण	हिंदी	1 जो पोगड न हो, 16 वर्ष में अधिक आयु का
अपोगंड		कन्नड	2 वयस्क, बालिग 3 लूला, लगडा लुजा, जिसके
अपोगण्डन्		मलयालम	अधिक या कम अंग हो
अपोगण्ड		संस्कृत	4 झुर्रियोदार व्यक्ति 5 शिशु, किशोर 6 डरपांक
अपोष्य	विशेषण	बंगला	पोषण के अनुपयुक्त
अपौतिक	विशेषण	हिंदी	वह फोडा या घाव जिसमें विषाक्त कीटाणु न
अपौतिक		नेपाली	पडे हो या जिममें सडाध न आई हो (ए. सेपटिक)
अपौरुष	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 वीरता या मनुष्यता का अभाव, कायरता, कापुरुषता, पुरुषत्वहीनता, भीरुता, अगौरव
अपौरुष		गुजराती	
अपौरुष		असमी, बंगला	2 वह लोकोत्तर गुण या शक्ति जो सामान्य मनुष्यो
अपौरुषं		मलयालम	में न होती हो, अलौकिकता, अमानुषिक दिव्यता
अपौरुष		नेपाली, मराठी	3 जो साधारण मनुष्यो मा न हो, अलौकिक या
अपौरुष		उड़िया	लोकोत्तर हो (विशेषण)
अपौरुषेय	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 जो पुरुष का बनाया न हो, मनुष्यकृत नहीं,
अपौरुषेय		असमी, उड़िया, बंगला	ईश्वरीय, दैवी जैसे वेद, अमानुषेय, असाधारण
अपौरुषेय		नेपाली, मलयालम, संस	2 जो कार्य मनुष्य शक्ति के बाहर हो, दैविक
अपौरुषेयम्		तमिल	3 अति मानवीय, अपुरुपोचित, दिव्य, अलौकिक

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अप्रकंप अप्रकम्प अप्रकम्प	विशेषण	हिंदी मलयालम संस्कृत	1. कम्पनहीन, जिसे हिलाया डुलाया न जा सके, अचल, स्थिर, मजबूत, टिकाऊ 2. जिसका खंडन न किया गया हो 3. जिसका उत्तर न दिया गया हो
अप्रकट (प्रगट) अप्रकट अप्रकट	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, उड़िया, बंगला नेपाली, मलयालम	1. जो प्रकट, स्पष्ट, प्रत्यक्ष, प्रकाशित, व्यक्त न हो 2. छिपा हुआ, गुप्त, अन्तर्हित, अन्तर्धान 3. अज्ञात, जो दिखाई न दे, अप्रसिद्ध
अप्रकर अप्रकर	विशेषण	मलयालम हिंदी	जो मुचाह रूप में काम न करता हो, या करना न जानता हो, अपटु, अकुशल, अनिपुण
अप्रकरण अप्रकरण अप्रकरण	संज्ञा	नेपाली, हिंदी मलयालम संस्कृत	1. प्रकरण या सदर्थ में रहित, अप्राकरणिक, अप्रासंगिकत्व 2. प्रधान या प्रमुख विषय नहीं, अगम्बद्ध, + आकस्मिक या वाहियात विषय (संस)
अप्रकांड अप्रकांड अप्रकाण्ड	विशेषण	मराठी, हिंदी कन्नड मलयालम, संस्कृत	+ 1. जिसमें कांटे न हों, छोटी झाड़ी (मगठी) + 2. दीर्घमान नहीं (कन्नड) 3. प्रकरण, अध्याय नहीं 4. तना न होना, शाखा रहित, छोटा
अप्रकांडकथा	संज्ञा	मराठी	असम्बद्ध कथन, वचन या भाषण, असंगत
अप्रकाश अप्रकाश अप्रकाश अप्पिरकाशम् अप्रकाशं अप्रकाशपु	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, उड़िया, बंगला नेपाली, कन्नड, संस + तमिल मलयालम तेलुगु	1. प्रकाश का अभाव, अंधेरा, अंधकार 2. गोपनीयता, अज्ञान, रहस्य 3. प्राणहीन, जीवहीन, निर्जीव पदार्थ (तमिल) 4. गुप्त, छिपा हुआ, धुंधला, चमकशून्य, अव्यक्त, अनुदित, अप्रकाशित, तिरोहित + 5. स्वतः प्रकाशमान (संस्कृत, हिंदी)
अप्रकाशित अप्रकाशित अप्रकाशित अप्रकाशित अप्रकाशित अप्रकाशित अप्रकाशित	विशेषण	हिंदी, मराठी गुजराती असमी उड़िया बंगला मलयालम, संस्कृत नेपाली	1. जो प्रकाश में न आया हो, छिपा हुआ, गुप्त, रहस्यमय, अव्यक्त, अप्रकट, अप्रगट, तिरोहित 2. उदय नहीं हुआ, अनुदित, चमकीला नहीं, चमक शून्य, स्पष्ट या साफ नहीं, धुंधला, काला 3. जिस पुस्तक आदि का प्रकाशन न हुआ हो, छपकर या अन्य प्रकार से सबके सामने न आई हो 4. जिसमें प्रकाश न हो, अंधकारमय

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अप्रकाशक	विशेषण	मलयालम	1 स्पष्ट, साफ, चमकीला न बनाना 2 धुंधला या अधिकारपूर्ण बनाना
अप्रकाशतस्करन् अप्रकाशतस्कर	मज्ञा	मलयालम संस्कृत	रात में या किसी के सोते हुए, या व्यक्ति के नशे में बेहोश होने पर उसकी चीजे चुराने वाला
अप्रकाश्य अप्रकाश्य	विशेषण मज्ञा	हिंदी, असमी, बंगला मलयालम, संस्कृत	1 गोपनीय, जिसे सब साधारण को बनाना उचित न हो, गुप्त 2 व्यक्तिगत, प्रकाश के अयोग्य
अप्रकृत अप्रकृत अप्रकृत अप्रकृत अप्रकृत	विशेषण मज्ञा विशेषण	हिंदी, मराठी, बंगला नेपाली, मलयालम गुजराती मलयालम संस्कृत	1 अयथार्थ, कृत्रिम, बनावटी, कल्पित मिथ्या, बेतुहा 2 अस्वाभाविक, असंगत असंबद्ध, आकस्मिक ऊट पटाग, ऊलजलूल बेसिर पैर का अप्रामाणिक 3 आनुवंशिक, अपरिणत, उपमान 4 प्रतिपाद्य विषय नहीं, अप्रधान, गौण
अप्रकृति अप्रकृति अप्रकृति	मज्ञा	हिंदी संस्कृत मलयालम	1 प्रकृति का अभाव, जो प्रकृति तन्त्र नहीं आत्मा 2 जो कार्य कारण या प्रकृति पुरुष से भिन्न हो 3- जो प्रकृति या जन्म का आधार न हो यथा प्रत्यय
अप्रकृतिस्थ अप्रकृतिस्थ	विशेषण	हिंदी बंगला	1 जो अपने प्राकृतिक या सामान्य रूप में न हो 2 शरीर या मन में अस्वस्थ, विकल, उद्विग्न, व्याकुल
अप्रकर्ष	विशेषण	मलयालम	1 ऊंचा नहीं नीचा, उच्छ्रित नहीं, अनुच्छ्रित 2 श्रेष्ठ नहीं, अधोष्ठ, ओछा
अप्रकृष्ट अप्पिरविरुष्टम्	विशेषण मज्ञा	हिंदी, मलयालम, संस्कृत तमिल	1 नीच, बुरा, उच्छ्रित नहीं, उतम नहीं, गौण 2 निकृष्ट 3 कौआ (मज्ञा)
अप्रकेत अप्रकेत अप्रकेत	विशेषण मज्ञा मज्ञा	हिंदी हिंदी संस्कृत	1 अविवेकी, अव्यवस्थित 2 प्रकेत या ज्ञान का विरोधी भाव, अज्ञान, अविवेक 3 बिगड़ा हुआ क्रम, अव्यवस्था (मज्ञा)
अप्रखर	विशेषण	हिंदी, बंगला	अतीक्ष्ण, मृदु, कोमल, मुस्त
अप्रगम अप्रगम	विशेषण विशेषण	संस्कृत मलयालम	1 इतना तेज चलन वाला कि कोई पीछा न कर सके 2 जिसका अतिक्रमण न किया जा सके
अप्रगल्भ	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 जो प्रगल्भ, धृष्ट या दुशील न हो, अतः किंमत्र,

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अप्रगल्भ		नेपाली, बंगला	विनीत, निर्गमिनी, शीलवान, मलज्ज, लजालू,
अप्रगल्भ		गुजराती	लज्जाशील, शर्मीला, मरल
अप्रगल्भ		कन्नड	2 अप्रोढ, अस्मात्सी निरुन्माही, निरुद्यमी, ढीला,
अप्रगल्भ		मराठी	गुप्त, दब्ब, भीरु, प्रसन्न, निमृत्वा
अप्रगल्भ		असमी	3 अप्रत्युत्पन्न मति, अचतुर, अज्ञानी, अनिपुण
अप्रगल्भ		मलयालम	+ 4 अपरुच्य अविक्मिन्, कच्चा (नेपाली मगठी)
अप्रगुण	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1 प्रकृष्ट गुण म हीन, व्याकुल
अप्रगुण		हिंदी	2 धवगया या चक्रगया हुआ, विखरा हुआ, व्यग्न
अप्रग्राह	विशेषण	मलयालम, संस्कृत, हिंदी	बलगाम, स्वतंत्र (घाड़ा) अनियंत्रित
अप्रचलन	सज्ञा	बंगला	1 जिसका चलन व्यवहार, प्रयोग न हो या न हो
अप्रचलित	विशेषण	हिंदी, असमी	रहा हो (नान करन्), अव्यवहृत अप्रच्युक्त
अप्रचलित		नेपाली, बंगला	2 जन समाज में जिसकी पथा न हो
अप्रचारित	विशेषण	हिंदी	जिसका प्रचार या प्रसिद्धि न की गयी हो
अप्रचिन्त्य	विशेषण	कन्नड	जिसका समाधान असंभव हो
अप्रचुर	विशेषण	बंगला	अधिक नहीं रहत थोड़ा अल्प परिमाण में, सामान्य
अप्रचोदित	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	अप्रेरित, अनर्गल अप्रवर्तित अनिच्छित
अप्रच्छन्न	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	रक्त या दूका हुआ नहीं, अनावृत, खुला हुआ, स्पष्ट
अप्रच्छिन्न	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	अविभक्त, बँटा हुआ नहीं विभाजित नहीं
अप्रज	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 जिसके बालक पदा न हुआ हो, सतानहीन, सतति
अप्रज		नेपाली, मलयालम, संस	रहित, निम्सतान पुत्र शून्य, निरवश, बाझ
अप्रजस्		संस्कृत	2 स्थान जहाँ जन न हो, निर्जन, उजाड़ या अवसित,
अप्रजा		बंगला	आधवासीहीन स्थान
अप्रजात		मलयालम	1 जिसने जन्म न लिया हो, अजन्मा
अप्यिरजातै	सज्ञा	तमिल	+ 2 वन्द्या स्त्री (तमिल)
अप्रजाता		संस्कृत, मलयालम	3 स्त्री जिसके वच्चे न हुए हो, सतानहीन
अप्रणय	सज्ञा	बंगला	प्रणय या प्रेम नहीं, असद्भाव, विरोध
अप्रणिहित	विशेषण	बंगला	अनवहित, अनवगत, मनोयोग शून्य
अप्रणिधान		बंगला	मनोयोग शून्य, कर्म फल में आसक्ति

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अप्रणीत अप्रणीत अप्रणीत	विशेषण	गुजराती मराठी संस्कृत	1 जो रचा नहीं गया, अकृत, न किया हुआ 2 संस्कारहीन, अनुपदिष्ट + 3. कर्तव्य सगत नहीं (मराठी)
अप्रतर्क्य अप्रतर्क्य अप्रतर्क्य	विशेषण	बंगला, मराठी संस्कृत, कन्नड मलयालम, हिंदी	1 जो तर्क द्वारा स्थिर न किया जा सके, अतर्क्य 2 बुद्धि, तर्क, विचार, समझ, अनुमान से परे 3 दुर्ज्ञेय, अवर्णनीय, अनिर्वचनीय, दुर्बोध
अप्रताप	सज्ञा	कन्नड	शक्ति या सम्मान की कमी
अप्रति अप्रतिम	विशेषण	हिंदी, कन्नड हिंदी, कन्नड, संस्कृत	1 जैसा या जिसकी तुलना का दूराग न हो 2. अप्रतियोगी, अनुपम, बेजोड़, असमान, अद्वितीय
अप्रतिकर अप्रतिकर	विशेषण सज्ञा	हिंदी, संस्कृत मलयालम	1 जो विपरीत न करे, विश्वास पात्र, विश्वस्त 2 विश्रभी गोपनीय 3 विक्षेप या घबराहट का अभाव (संज्ञा)
अप्रतिकर्मन् अप्रतिकरणीय	विशेषण विशेषण	संस्कृत बंगला	1 ऐसा काम करने वाला जैसा और कोई न कर सके 2 अप्रतिरोधनीय, अनिप्रबल, अनिवार्य, प्रतिकार न करने के योग्य, अप्रतिशोध्य
अप्रतिकार अप्रतिकार अप्रतिकार अप्रतिकार अप्रतिकार अप्रतिकारमु अप्रतिकार	विशेषण	हिंदी, संस्कृत गुजराती बंगला मलयालम कन्नड तेलुगु नेपाली	1 जिसका प्रतिकार या बदला न हो सके, अप्रतिरोध, अप्रतिविधान, जिसका सामना न किया जा सके, वार के बदले वार न किया जा सके + 2 जिससे फोड़ा न जा सके, अभेद्य, अजेय (नेपाली) 3. जिसके प्रतिकार का उपाय न हो सके, निरुपाय, लाइलाज, अनिवाग्ण, अदूरीकरण + 4 अकृतज्ञता, कृतघ्नता (तेलुगु) (संज्ञा)
अप्रतिकारी अप्रतिकारन्	विशेषण	हिंदी, गुजराती संस्कृत	प्रतिकार न करने वाला (पैसिव) वदला न लेने वाला, विरुद्ध उपाय या यत्न न करने वाला
अप्रतिकार्य अप्रतिकार्य	विशेषण	गुजराती, बंगला मलयालम	1. अप्रतिविधेय, अप्रतिशोध्य, अचिकित्सनीय 2. अनिवार्य, प्रतिकार न करने या न कर सकने योग्य
अप्रतिकूल अप्रतिकूल	विशेषण	गुजराती बंगला	प्रतिकूल नहीं, अविरोधी, अप्रतिपक्ष, स्वैपक्ष अनुकूल, अप्रतिपक्षी, पक्ष में

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अप्रतिगृह्य (न्)	सज्ञा	हिंदी, मलयालम	1 जिसका दान स्वीकार न किया जा सके
अप्रतिग्रह	सज्ञा	बंगला, गुजराती	2 दान या भेट अस्वीकार करना या न लेना
अप्रतिग्रहण	सज्ञा	बंगला, हिंदी	3 जो भेट न स्वीकार करे, कन्या दान न लेना
अप्रतिग्राहक	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	दान ग्रहण न करने वाला, भेट स्वीकार न करने वाला
अप्रतिग्राह्य	विशेषण	हिंदी	ग्रहण न करने योग्य
अप्रतिष	विशेषण	संस्कृत, हिंदी	1 जिसे रोका या पकड़ा न जा सक
अप्रतिष		नेपाली	2 जिसे जीना न जा सके, अजेय, अक्रुद्ध
अप्रतिघात	विशेषण	हिंदी	प्रतिघात या विरोध से रहित, आघात से बचा हुआ
अप्रतिदेय	विशेषण	नेपाली	1 महायतार्थ दिया धन या दान
अप्रतिदेय	विशेषण	हिंदी	2 वह धन जो लौटाने के लिए न दिया हो
अप्रतिद्वन्द्व	विशेषण	नेपाली, हिंदी, संस्कृत	अद्वितीय, बेजाड, अजेय, बिना प्रतिद्वन्द्वी का
अप्रतिद्वन्द्वु	सज्ञा	तेलुगु	अजेय योद्धा, अद्वितीय योद्धा
अप्रतिद्वन्द्विता	सज्ञा	बंगला	प्रतिद्वन्द्विता, अज्ञानता अविपक्षता, स्वपक्षता, शत्रुशून्यता, अद्वितीयता
अप्रतिद्वन्दी	विशेषण	नेपाली, बंगला, संस्कृत	जिसके मुकाबले का न हो, अप्रतिपक्षी, शत्रुशून्य,
अप्रतिद्वन्द्वु		तेलुगु	अजेय, बेजोड योद्धा, अमदृश
अप्रतिपक्ष	विशेषण	बंगला, संस्कृत, नेपाली	1 विपक्षी शून्य, अज्ञान शत्रु, प्रतियोगी रहित
अप्रतिपक्ष		हिंदी, मलयालम	2 अममान, अमदृश, जिसका प्रतिपक्ष न हो
अप्रतिपण्य	विशेषण	संस्कृत, हिंदी	जिसका विनिमय या विक्रय न हो सके
अप्रतिपत्ति	सज्ञा	हिंदी	1 कर्तव्य के निश्चय का अभाव, निश्चयहीनता,
अप्रतिपत्ति		मलयालम	असम्पादन, उपेक्षा, निरामक्ति, स्फूर्ति का अभाव,
अप्रतिपत्ति		नेपाली	दृढ विचार शून्यता 2 प्रकृत अर्थ समझने की योग्यता
अप्रतिपत्ति		बंगला	का अभाव, अज्ञान 3 प्रकृत विषयो का ज्ञान न होना
अप्रतिपत्ति		संस्कृत	4 विह्वलता, असफलता, अयश, अस्वीकृति
अप्रतिपन्न	विशेषण	हिंदी	1 कर्तव्य ज्ञान से हीन, असपन्न
अप्रतिपन्न		बंगला, संस्कृत	2 बात जो ज्ञात या निश्चित न हो, अनिश्चित
अप्रतिपन्न		मलयालम	3 अप्रमाणित, असम्पादित, अख्यात, अज्ञात

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अप्रतिपादन अप्रतिपादनं	सज्ञा	संस्कृत मलयालम	1 स्पष्ट व्याख्या न करना, पुष्टि न करना 2 स्वीकृति न देना, ज्ञान या बोध न कराना
अप्रतिबंध अप्रतिबंध अप्रतिबन्ध	सज्ञा	हिंदी, गुजराती नेपाली, मराठी बंगला, संस्कृत	1 गेक नही, वेगेक टोक, म्वच्छदता, अप्रतिबद्धता 2 अप्रतिहत, अव्याहत, बिना शर्त, विवाद रहित + 3 प्राप्ति में बाधा नहीं (पितृधन प्राप्ति) (मराठी)
अप्रतिबंधदाय	सज्ञा	मराठी	पैतृक सम्पत्ति के उत्तराधिकार में बाधा नहीं
अप्रतिबद्ध अपिरदिबद्धम्	विशेषण	हिंदी, बंगला, संस्कृत तमिल	1 वेगेकलोक, अबाध, मनमाना 2 जो किमी वायदे, शपथ या समझौते में बाधा नहीं हो, अव्याहत
अप्रतिबल अप्रतिबल	विशेषण	हिंदी, नेपाली संस्कृत	बल शक्ति के विचार में दूसरा नहीं, अजेय शक्ति युक्त, अनन्यवली, अप्रतिम बलशाली
अप्रतिभ अप्रतिभ अप्रतिभ अप्रतिभ अप्यिरतिबै	विशेषण	हिंदी, नेपाली असमी, उड़िया, संस्कृत बंगला, कन्नड मलयालम, तेलुगु तमिल	1 प्रतिभाहीन, मद वृद्धि, वृद्धिहीन, निर्बुद्धि, हतवृद्धि, अप्रतिउत्पन्न मति, अप्रगल्भ, हाजिर जवाब नहीं, प्रतिभा शून्य, स्फूर्ति रहित, निरुत्तर, हतराभ 2 लजानु, अपमानित, दीर्घहीन, उदास, गुस्त + 3 नकं दारं (तामिल), शीलवान, विनम्र (संस्कृत)
अप्रतिभट अप्रतिभट अप्रतिमल्ल	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी मलया, नेपाली, संस मराठी	1 जिसका सामना करने योग्य दूसरा योद्धा न हो 2 प्रतियोगी विहीन शूरवीर, अजेय योद्धा, अद्वितीय वीर, प्रतिपक्षीविहीन, जिसका प्रतिस्पर्धी न हो
अप्रतिभा अप्रतिभा	सज्ञा	हिंदी, मलयालम संस्कृत	1 प्रतिभा का अभाव 2 न्याय में एक निग्रह स्थान जिसमें किसी बात का या पक्ष का खंडन न किया जा सके 3 लज्जा, कायरता, दम्बपन
अप्रतिभात	विशेषण	बंगला	अप्रकाशित, अप्रतीत, अज्ञानगोचर
अप्रतिभाव्य अप्रतिभाव्य	विशेषण	हिंदी संस्कृत	1 जिसका बदला, उत्तर आदि न हो 2 अप्रगल्भ जिसमें जमानत न ली जा सके (नान वेलेबल)
अप्रतिम अप्रतिम अप्रतिम अप्रतिम	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, उड़िया, बंगला कन्नड, नेपाली, संस्कृत मलयालम, तेलुगु	1 जिसकी तुलना न हो, तुलनाहीन 2 अनुपम, वेजोड, अमदृश, अत्युत्तम, अतिउत्कृष्ट, अनुल्य, अद्वितीय, श्रेष्ठ 3 उत्तमता में जिसका मुकाबला कोई न कर सके

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अप्रतिमान	विशेषण	हिंदी, कन्नड, मलया, संस	देख अप्रतिम
अप्रतियोगि अप्रतियोगिन् अप्रतियोगी	विशेषण	मलयालम संस्कृत बंगला, हिंदी	1 जिमका कोट प्रतियांगी वा शत्रु न हो 2 प्रतिपक्ष विहीन जिमकी कोई बगवरी न करे 3 जिमका विरोध करने वाला कोई न हो
अप्रतिरथ अप्रतिरथ अप्रतिरथन्	विशेषण मज्ञा	हिंदी, बंगला, संस्कृत कन्नड मलयालम	1 अनुल्य यान्द्रा, प्रतिशाधहीन, अद्वितीय वीर + 2 सामवेद का प्रास्थापिक मन्त्र (बंगला) + 3 युन्दार्थ प्र-गन का मगलाचरण युद्ध यात्रा (सम)
अप्रतिरव अप्रतिरव	विशेषण	मराठी, संस्कृत मलयालम, हिंदी	1 विवादर्गहन तनममा मुकाबला न किया गया हो + 2 जिममे बाधा रण वाद न हो ऐसा माल मता (मराठी)
अप्रतिरागि अप्रतिरागिन्	मज्ञा	मलयालम संस्कृत	वह मगोर्ण जो मान ही असनी चमक, झलक या विशयता न बनाय
अप्रतिरुद्ध अप्रतिरुध्य	विशेषण	बंगला गुजराती	1 जिमका प्रतिगध न हो 2 त्रवाध प्रतिरुद्ध
अप्रतिरूप अप्रतिरूप अप्रतिरूप अप्पिरतिरूपम्	विशेषण	हिंदी, नेपाली बंगला, कन्नड मलयालम, संस्कृत तमिल	1 जिसके समान रूप का आर कोई न हो, सादृश्यहीन अनपम, अन अनरूप, अद्वितीय अप्रतिम मना फक्षनीन बजोड रूप वाला 2 ना अनरूप या मटीक न हो 3 अरुचिकर
अप्पिरतीरूपकदै अप्पिररूप कथा अप्पतिरोध	मज्ञा मज्ञा मज्ञा	तमिल संस्कृत गुजराती	1 अनोन्वी या अनपम कथा, अप्रतिरूप कथा (सम) 2 अनरनीन वचन निगके विरुद्ध और वचन न हो प्रतिरोध का अभाव मुकाबला न करना
अप्रतिरोध्य अप्रतिरोध्य अप्रतिरोध्यं	विशेषण मज्ञा	मलयालम संस्कृत मलयालम	1 जिमे रोका न जा सक, जिमका विरोध या मुकाबला न किया जा सके 2 लथी, घोडा, रथ, पदल सेना का व्यूह
अप्रतिवार्य अप्रतिवीर्य	विशेषण विशेषण	हिंदी हिंदी, नेपाली, संस्कृत	जिमका निवारण प्रतिकार न हो सके अतुलित शक्तिशाली, बजोड शौर्यशाली, अतिपराक्रमी
अप्रतिबिधान अप्रतिबिधेय	मज्ञा विशेषण	बंगला बंगला	अप्रतिकार, जिसको हटाने या रोकने का उपाय न हो, प्रतिकार के अयोग्य
अप्रतिबिहित अप्रतिबिहित	विशेषण	गुजराती, संस्कृत बंगला	अप्रतिकारित, जिसको रोका न गया हो जिसका निषेध या मनाही न हो

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अप्रतिशासन	विशेषण	संस्कृत	1. जिसका शासन में दूसरा कोई प्रतिद्वन्द्वी न हो
अप्रतिशासन	विशेषण	हिंदी	2. एक ही शासन में रहने वाला
अप्रतिषिद्ध	विशेषण	बंगला	अनिषिद्ध, अनिवारित
अप्रतिषेध	विशेषण	गुजराती, बंगला	जिसके विरोध में कुछ न करा जा सके
अप्रतिषेध्य		संस्कृत, मलयालम	जिसकी मनाही न की जा सके, अनिषेध्य
अप्रतिष्ठ	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 ठोस आधार न होना, अस्थिर, अस्थायी, दृढताहीन,
अप्रतिष्ठ		नेपाली, मराठी	डांवाडोल, स्थितिरहित, टिकाऊ नहीं
अप्रतिष्ठ		बंगला	2. जिसकी प्रतिष्ठा, इज्जत, आबरू या मान सम्मान
अप्रतिष्ठ		मलयालम	न हो, वे आबरू, बदनाम, तिरस्कृत, अपकीर्तिकर
अप्रतिष्ठ		संस्कृत	+ 3 विनश्वर (संस्कृत), फेंका हुआ (हिंदी)
अप्रतिष्ठं	संज्ञा	मलयालम	+ 4 परमात्मा, एक नरक (संज्ञा)
अप्रतिष्ठा	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. प्रतिष्ठा का अभाव, अनादर, अपमान, मानहानि
अप्रतिष्ठा		नेपाली, बंगला, तेलुगु	2 अपयश, अपकीर्ति, अगौरव, दुष्कीर्ति, बेहुर्मती
अप्रतिष्ठा	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	+ 3. अस्थिरता (मलयालम) अस्थिति, अस्थितिशीलता,
अप्रतिष्ठे		कन्नड	मानखंडन, फजीता, क्षुद्रगुण, निन्दा
अप्रतिष्ठान	संज्ञा	गुजराती, संस्कृत, मलया	प्रौढ़ता या दृढता का अभाव; अस्थिरता
अप्रतिष्ठित	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. जो प्रतिष्ठित, सम्मानित या समादरित न हो
अप्रतिष्ठित		असमी, उड़िया, बंगला	2. जिसकी अप्रतिष्ठा या अपमान किया गया हो
अप्रतिष्ठित		मलयालम	3. अस्थापित, संस्कारविहीन, प्रतिष्ठाविहीन, यशहीन,
अप्रतिष्ठित		नेपाली	अपवित्र, स्थापन उत्सवविहीन (देवमूर्ति आदि)
अप्रतिष्ठित		संस्कृत	4. अनिर्दिष्ट, अस्पष्ट, अज्ञात, अनिश्चित
अप्रतिसंख्य	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	जिस पर ध्यान नहीं दिया गया, अनिरीक्षित
अप्रतिसंख्यातिरोधं	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	किमी वस्तु का अप्रत्यक्ष विनाश या समाप्ति
अप्रतिसंबद्ध	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1. जिनका परस्पर कोई लगाव या संबंध न हो
			2 स्वच्छंद, मनमाना, रोक-टोकहीन
अप्रतिसंबद्धा-भूमि	संज्ञा	हिंदी	वह भूमि जो दूसरी से सटी न हो (कौटिल्य)
अप्रतिसम	संज्ञा	बंगला	जिसके दोनों ओर नाप समान न हो
अप्रतिसाम्य	संज्ञा	बंगला	आमने सामने के आकार रूपों में समानता न हो

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अप्रतिहत	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 जिसे रोकने वाला न हो, या जो रोक न गया हो
अप्रतिहत		असमी, बंगला	2 अबाधित, बिना रुकावट, बअटकं, निर्विरोध
अप्रतिहत		गुजराती, मराठी	3 जो द्वारा न हो, जिसे टोकर न लगी हो
अप्रतिहत		नेपाली	4 जो घायल न हो, जिसे आघात न लगा हो,
अप्रतिहत		मलयालम	5 अपराजित, अक्षुण्ण, अजित, अविनाश्य, बलवान
अप्रतिहतमु		तेलुगु	6 जो हतोत्साह न हुआ हो, स्वैर
अप्रतिहतं	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	1 हाथी को पीछे हटाने का अकुश 2 एक व्यूह
अप्रतिहतव्यूह	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	जिसमें हाथी, घोड़े, पदाति अव्यवस्थित खड़े होते हैं
अप्रतिहतगति	विशेषण	संस्कृत, हिंदी	निर्बाध गति, जो रोकी न जा सके ऐसी गति
अप्रतिहतनेत्र	विशेषण	संस्कृत, हिंदी	जिसके नेत्र निर्वल न हों, (सज्ञा) एक बौद्ध देवता
अप्रतिहतप्रभावे	क्रिया विशेषण	बंगला	1 जिसका प्रभाव अबाध क्षमता युक्त हो 2 दुदण्ड प्रताप
अप्रतिहार्य	विशेषण	हिंदी	1 जो प्रतिहार के योग्य न हो
अप्रतिहार्य		संस्कृत	2 जिसका प्रतिहार या निवारण न हो सके
अप्रतीक	विशेषण	बंगला, संस्कृत	1 अगह्न, शरीर रहित, अप्रतिरूप, प्रतीकहीन, गोपनीय
अप्रतीक	सज्ञा	मलयालम, हिंदी	2 ब्रह्म का एक विशेषण
अप्रतीकार	सज्ञा	हिंदी, गुजराती	1 प्रतिकार का अभाव अविरोध (अप्रतिकार)
अप्रतीकार		मलयालम, संस्कृत	2 निरुपाय, लाइलाज 3 विश्वस्त, गोपनीय (मलया)
अप्रतीक्षित	विशेषण	मलयालम	जिसकी प्रतीक्षा, आशा, अनुमान न किया गया
अप्रतीक्षित		संस्कृत	हो, आकास्मिक
अप्रतीघात	विशेषण	मलयालम	बैरोक टोक, बिना आघात या बाधा के, अबाधित,
अप्रतीघात		संस्कृत, हिंदी	निरंतर (अप्रतीघात)
अप्रतीत	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 प्रतीति, अनुभूति या ज्ञानबोध का अभाव
अप्रतीत		नेपाली, मराठी, संस्कृत	2 अगम्य, दुर्बोध, अस्पष्ट, दुर्ग्राह्य, अज्ञात
अप्रतीत		बंगला, मलया, कन्नड	3 अप्रसन्न, नाखुश, असंतुष्ट 4 निर्विरोध
अप्रतीतं	सज्ञा	मलयालम	5 अस्पष्ट शब्दार्थ दोष, अर्थ समझ में न आना (सज्ञा)
			6 जिस तक पहुँचा न जा सके, असामान्य
अप्रतीति	सज्ञा	गुजराती, हिंदी	1 दुर्ग्राह्य, ज्ञान गोचर न होना, दुर्ज्ञेयता
अप्रतीति		मराठी, संस्कृत	2 दुर्बोधता, प्रत्यक्ष ज्ञान या अनुभव का अभाव

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अप्रतीति		मलयालम, कन्नड	3 अविश्वास, विश्वास का अभाव + 4 अप्रसिद्धि, अव्याप्ति (कन्नड)
अप्रतीतिवचन	सज्ञा	कन्नड	शब्द या वाक्य जो ग्रीक तरह समझा न जा सके, अस्पष्ट
अप्रतुल	सज्ञा	हिंदी	1 जिसकी ताल नाप न हो सके, वजन की कमी
अप्रतुल		असमी	2 अप्राचुर्य, अल्पपरिमाण, मामान्य, अभाव, कमी,
अप्रतुल		बंगला	अपर्याप्त, आवश्यकता, जम्हरन +3 बेजोड (हिंदी)
अप्रत्त	विशेषण	हिंदी, मलयालम	अप्रदत्त, जो दिया न गया हो, न लौटाया हुआ
अप्रत्ता	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत, मलया	कुमारी, अविवाहिता, जो किंगी को दी नती गयी
अप्रत्यक्ष	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 जा आंखों के सामने न हुआ हो, परीक्ष, प्रदूषण,
अप्रत्यक्ष		नेपाली, असमी, बंगला	अदृश्य, अकल्पनीय, अज्ञात, अगोचर, इंद्रियान्तर,
अप्रत्यक्ष		कन्नड, संस्कृत	अनुपस्थित, अविद्यमान 2 ज्ञानान्वित, अतीन्द्रिय
अप्रत्यक्ष		मलयालम	+ 3 जा अदृश्यपुति के लिए, मीथा माग न भयनाव,
अप्रत्यक्षमु		तेलुगु	रक्षा, वेदा माग (हिंदी)
अप्पिरतिपट्टसम्	सज्ञा	तमिल	+ 4 अप्रकृत या गुप्त (अदृश्य या लक्ष्य) (हिंदी)
अप्रत्यक्षकर	सज्ञा	हिंदी	वह कर या टैक्स जो वस्तुओं पर लगता है, सम्भोक्तियों पर मीथा नती (इन्डस्ट्रियल टैक्स)
अप्रत्यक्षवाद	सज्ञा	बंगला	संग्रहवाद, किसी अगोचर में ध्यान करना
अप्रत्यय	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	1 प्रत्यय विश्वास या प्रतीति ज्ञान का अभाव
अप्रत्यय		असमी, बंगला, नेपाली	2 अविश्वास, सशय, संदेह, विश्वासीनता
अप्रत्ययं	सज्ञा	मलयालम	3 आत्मसंदेह, आत्मसंशय, अनभिज्ञता
अप्रत्यय	विशेषण	मलयालम	4 विभाजन या प्रत्यय रहित (शब्द)
अप्रत्ययी	विशेषण	बंगला	अविश्वासी, सशयी, संदेहशील, ज्ञान शून्य
अप्रत्याशित	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1 जिसकी आशा न की गई हो, अनसोचा
अप्रत्याशित		उड़िया, बंगला, संस्कृत	2 अचिन्तित, आकस्मिक, अतानक, असंभावित
अप्पिरतियाक्कियानम्		तमिल	अप्रत्याख्यान, काम, लोभ आदि दोष, दुर्गुण
अप्रथित	विशेषण	बंगला	अप्रकाशित, अज्ञात, अख्यात, अप्रसिद्ध
अप्रदक्षिणं	सज्ञा	मलयालम	1 मंदिर में बायें में दायें घूमना
अप्रदक्षिणमु		तेलुगु	2 शय को अपने बायाँ ओर रखकर चक्कर लगाना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अप्पिरवट्टचिणम्		तमिल	3 उल्टी प्रदाक्षणा करना
अप्रदत्त	विशेषण	हिंदी, मलया, संस्कृत	1 विवाह में दान न दिया हुआ 2 कन्या दान नहीं किया
अप्रदत्ता	सज्ञा	हिंदी	1 जो कन्या दान नहीं की गई
अप्रदत्ता		बंगला	2 जो विधि पूर्वक विवाह में नहीं दी गई
अप्रदीप	विशेषण	बंगला	आलोक शून्य, अधकारमय (ब्लैक आउट)
अप्रधर्षणीय	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	परगन न हो सकने वाला, अजय
अप्रधृष्य		मलयालम, संस्कृत, हिंदी	जो जीता न जा सके, अविजित
अप्रधान	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 प्रधान या मुख्य नहीं अन्वृष्ट अस्तवर्ती,
अप्रधान		नेपाली, उड़िया, बंगला, कन्नड	गाण अमुख्य, दृगरे दर्जे का, साधारण, उप
अप्रधान		मलयालम, संस्कृत	2 प्रधानता का अभाव, मातन्ती, तावेदारी, अधीनता, महत्त्वहीन, तुच्छ व्यक्ति गण कर्म
अप्पिरदानम्	सज्ञा	तमिल	हीनता, तुच्छता, लभूता
अप्रधानमु	सज्ञा	तेलुगु	
अप्रनाश	सज्ञा	कन्नड	जिम्मेदार न हो जो विमुक्त न हो या समाप्त न हो
अप्रपंच	सज्ञा	कन्नड	मायाजाल या उलझन युक्त नहीं
अप्रफुल्ल	विशेषण	बंगला	अविकसित, अप्रगन्त, ग्लानियुक्त अस्कारित
अप्रबंधे	अव्यय	असमी	बिना श्रम के बिना चेष्टा के, आसानी से
अप्रबुद्ध	विशेषण	मराठी, कन्नड	1 अस्मत् बुद्धि, न समझ अज्ञानी, मूढ़ अन्वृष्टहीन, अन्विज्ञ, मूर्ख, वेगकृत् +2 अस्मत्चित, अशोद्ध (मरा)
अप्पिरबुद्धन्	सज्ञा	तमिल	
अप्रभ	विशेषण	हिंदी	1 प्रभा शून्य, दमक या च्यवनता रहित, शून्यता, मर, भावहीन, अन्वृष्ट, हीन, नीच
अप्रभ		बंगला	
अप्रभ		मलयालम	2 निम्नकी प्रभा नष्ट हो चुकी हो अन्वृष्ट
अप्रभ		संस्कृत	3 निम्नमे तत्व या मन्व न हो, तुच्छ
अप्रभु	विशेषण	मराठी	1 जो प्रभु या स्वामी नहीं 2 अधिभारहीन, अन्विधिकारी
अप्रभु		नेपाली, संस्कृत	3 अधिभक्त असमर्थ, पराधीन बलहीन, सामर्थ्यहीन, पर नियंत्रित, जिम्मे शासन करने की शक्ति न हो
अप्रभु		मलयालम	
अप्रभूति	सज्ञा	हिंदी	प्रभूत न होने की अवस्था या भाव, अल्पता अल्पयत्न
अप्रमत्त	विशेषण	गुजराती, मराठी, नेपाली, हिंदी	1 प्रमाद, असावधानता, चूक या भूल रहित

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अप्रमत्त		असमी, बंगला, कन्नड	2 सावधान, जाग्रत, धीर, सतर्क, जागरूक, होशियार,
अप्रमत		मलयालम, संस्कृत	दक्ष, बुद्धिमान 3. अनुत्तेजित, नशे में नहीं
अप्रमत्ते	संज्ञा	कन्नड	अमत्तता, सावधानी, सतर्कता
अप्रमद	विशेषण	संस्कृत, हिंदी	हर्ष या प्रफुल्लता रहित, उदास, अप्रसन्न
अप्रमा	सज्ञा	मलयालम, हिंदी	ऐसा नियम जो आधिकारिक न हो, भ्रात ज्ञान,
अप्रमा		संस्कृत, नेपाली, बंगला	अयथार्थ ज्ञान, मिथ्या या भ्रम मूलक ज्ञान
अप्रमाण	सज्ञा	हिंदी, मराठी	1 प्रमाण या सबूत न होना, अप्रमाणित, झूठ
अप्रमाण	विशेषण	असमी, उड़िया, बंगला	2 जो आधिकारिक न हो, अनधिकृत, अविश्वमनीय
अप्रमाण		गुजराती, मलयालम	3 शास्त्र प्रमाण या मर्यादा न होना, अमान्य
अप्रमाण		कन्नड, नेपाली, संस्कृत	4 जो नापा तोला न जा सके, अप्रमाण, असीम
अप्पिरमाणम्	सज्ञा	तमिल	5 जिसे प्रमाण मानकर ग्रहण न किया जाय,
अप्रमाणं	सज्ञा	मलयालम	अमगत, अप्रासंगिक, अस्थापित
अप्रमाणमु		तेलुगु	+ 6 झूठी कसम, झूठी गवाही (तेलुगु)
अप्पिरमाणऐतिहम्	संज्ञा	तमिल	अप्रमाणित परंपरा
अप्रमाणशुभन्मार	सज्ञा	मलयालम	असीम गुण, (संज्ञा) बौद्धों का एक देवता
अप्रमाणाभर	विशेषण	मलयालम	चमक, कानि या दीप्ति, एक बौद्ध देवता (संज्ञा)
अप्रमाणिक	विशेषण	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	1 जिसका प्रमाण न हो फलत अविश्वमनीय, जो
अप्रमाणिक		नेपाली, असमी, कन्नड	मानने योग्य न हो 2 जो आधिकारिक या
अप्पिरमाणिकम्		तमिल	अधिकृत न हो 3 ऐसी आज्ञा या नियम जो किसी
अप्रमाणिकमु		तेलुगु	कार्य में प्रमाण मान कर ग्रहण न किये जायें
अप्रमाणिकते	सज्ञा	कन्नड	अप्रमाणिकता, निगधारता, मिद्ध न किया जाना
अप्रमाणित	विशेषण	असमी, नेपाली	1 जिमका प्रमाण या सबूत न दिया गया हो
अप्रमाणिकुडु	संज्ञा	तेलुगु	2. झूठा, गुण्डा, जिम पर विश्वास न किया जा सके
अप्रमाणिकता	संज्ञा	गुजराती	प्रमाण का अभाव, शास्त्र प्रमाण के विरुद्ध
अप्रमाद	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 प्रमाद, लापरवाही या असावधानी का अभाव
अप्रमाद		असमी, बंगला, संस्कृत	2 सावधानी, सतर्कता, जागरूकता, चौकन्नापन,
अप्रमादं		मलयालम	अप्रमत्त, मुग्ध, परवाह करना, ध्यान रखना
अप्रमादिता/पणुं	संज्ञा	गुजराती	+ 3. निरापद, आपद का अभाव, सुरक्षा (असमी)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अप्रमादि अप्रमादिन् अप्रमादी	विशेषण	मलयालम, कन्नड संस्कृत, हिंदी गुजराती, असमी, बंगला +	1. प्रमादशून्य, भ्रान्तिशून्य, सतर्क, गलती न करने वाला, ध्यान रखने वाला, जाग्रत, अभ्रान्त 2. निर्भूल (असमी), चौकन्ना, बुद्धिमान
अप्रमादे	क्रियाविशेषण	असमी	बिना खतरे, सुरक्षित ढंग से, बिना मुसीबत के
अप्रमित अप्रमित अप्रमित अप्रमित अप्रमित	विशेषण	हिंदी बंगला संस्कृत मलयालम उड़िया	1. जो मापा तोला न गया हो, असीम, अतौल, अतुलनीय, अपरिमित, बहुत अधिक, विस्तृत, अनिर्बंध, + अगणित, अपर्याप्त (बंगला) 2. जो आधिकारिक, सिद्ध या प्रमाणित न हो, अज्ञेय
अप्रमूर	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	ज्ञान युक्त, विवेकवान, मूर्ख नहीं
अप्रमेय अप्रमेय अप्रमेय अप्पिरमेयम् अप्रमेयम् अप्पिरमेयन् अप्रमेयन्	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी नेपाली, बंगला कन्नड, मलया, संस्कृत तमिल तेलुगु तमिल	1. जिमका नाप-माप न हो या न हो सकता हो, बेहद, बेहिसाब, असीम, अपार, अपरिमित, अकल्पनीय, अनन्त, अमर्याद, अगणनीय, अज्ञेय 2. जो यथार्थ रूप से तर्क द्वारा या प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अथवा जिमका निश्चय न किया जा सके गहन, गूढ़, जांच के अयोग्य
अप्रमेयन्	संज्ञा	मलयालम	+ 3. ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा (संज्ञा- तमिल, मलयालम)
अप्रमोद अप्रमोदं	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत मलयालम	कष्ट दूर करने की अक्षमता, प्रसन्नता का अभाव, उदासी
अप्रयत्नम् अप्रयत्न	विशेषण	तेलुगु हिंदी	यत्न का अभाव, उदासीनता उत्साह हीन, प्रयत्न न करने वाला
अप्रयाणि	संज्ञा	संस्कृत	1. गमन न करना, उन्नति न करना 2. कोसने या शाप देने में प्रयुक्त शब्द
अप्रयास अप्रयासं अप्रयासे	अव्यय	गुजराती, संस्कृत मलयालम	बिना प्रयास या यत्न किये, अनायास, आसानी से, सुविधापूर्वक
अप्रयासे	अव्यय	असमी	अनायास, आसानी से, सुगमता से
अप्रयुक्त अप्रयुक्त	विशेषण	हिंदी, बंगला नेपाली, संस्कृत	1. (धस्तु) जो प्रयोग में न लायी गयी हो, अव्यवहृत, 2. लुप्त प्रायः शब्द, अप्रचलित शब्द

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अप्रयुक्त		गुजराती	3 व्यक्ति जो नियोजित या नियुक्त न किया गया हो, अनियोजित, अयोग्य
अप्रयुक्तं	सज्ञा	मलयालम	
अप्रयुक्तता	सज्ञा	बंगला	अनियोजितता, अव्यवहृतता, अप्रयोगता
अप्रयुक्तत्व		हिंदी, नेपाली	काव्य का एक शब्द दोष जिसमें उस शब्द का प्रयोग करना जो कवियों द्वारा कभी प्रयुक्त नहीं हुआ प्रयोग का अभाव, अव्यवहार, दुप्रयोग (शब्द का)
अप्रयोग	सज्ञा	हिंदी, बंगला	
अप्रयोजक	विशेषण	अस, बंग, मरा, कन्न, गुज	1 निरुपयोगी, अमगत, अनावश्यक, अनुचित
अप्रयोजकुडु		तेलुगु	2 निष्फल, निरर्थक, बेजा, मूर्खतापूर्ण, बेकार
अप्रयोजन	सज्ञा	बंगला, असमी	1 प्रयोजन का अभाव अनावश्यकता
अप्पिरयोजनम्		तमिल	2 निष्फलता, निरुपयोगिता, व्यर्थता
अप्रयोजनमु		तेलुगु	3 जो प्रयोजन नहीं, निरुपायता
अप्रयोजनीय	सज्ञा	बंगला, असमी, उड़िया	अनावश्यक, बे जरूरत, निरर्थक
अप्रयोजनीयता	सज्ञा	बंगला	अनावश्यकता, अनर्थकता, निरर्थकता
अप्रलम्ब	विशेषण	हिंदी, मलयालम	अविलंब, शीघ्र, तत्काल, फुरतीला, गुस्त नेज
अप्रलंब	सज्ञा	संस्कृत, कन्नड	+ देर न लगाने वाला, शीघ्रता, फुर्ती (सज्ञा) (हिंदी)
अप्रवक्तव्य	विशेषण	मलयालम	1 जो घोषित न किया जाना हो
अप्रवक्तव्य		संस्कृत	2 जो व्याख्यायित न किया जा सके
अप्रवक्ता(तु)	सज्ञा	मलयालम	जो ठीक ठीक शिक्षा न दे सके तुंग शिक्षक
अप्रवक्तृन्		संस्कृत	जो उचित व्याख्या न कर सके
अप्रवर्तक	विशेषण	हिंदी	कार्य में सलग्न हान के लिये उर्नाजित न करने वाला, जो प्रवर्तक न हो, उत्साहहीन, निष्क्रिय
अप्रवर्तक		बंगला	
अप्रवर्ती	विशेषण	हिंदी	जो क्रियमाण या प्रवर्ती न हो (इन आपर्गटव)
अप्रवास	सज्ञा	बंगला	अपने घर या प्रदेश में रहना, दूसरे देश में न रहना
अप्रवासी	विशेषण	असमी, बंगला	विदेश में न रहना या न रहने वाला, स्वदेश वासी
अप्रवाहिता	सज्ञा	गुजराती	जो बह नहीं रही (नदी), अप्रवाही
अप्रवाही	विशेषण	गुजराती	जो बहता नहीं, ठोस, घन
अप्रविष्ट	विशेषण	मलयालम	1 जिसमें प्रवेश नहीं किया
अप्रविष्ट		संस्कृत	2 जिसका नाम रजिस्टर या लिस्ट में नहीं लिखा गया

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अप्रवीण	विशेषण	गुजराती, मराठी	प्रवीण नहीं, अकुशल, अनभ्यस्त
अप्रवीणता	संज्ञा	गुजराती	प्रवीण न होना की दशा या भाव, अकुशलता
अप्रवृत्त	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1. जो काम में प्रवृत्त अर्थात् लगा हुआ या व्यस्त
अप्रवृत्त		बंगला, संस्कृत	न हो, निश्चेष्ट, कार्य पराङ्मुख
अप्रवृत्त		मलयालम	+ 2 जो प्रारंभ नहीं हुआ, अयुक्त, अमंगल (मलया)
अप्रवृत्ति	संज्ञा	हिंदी	1. प्रवृत्ति या मन का झुकाव न होना, अरुचि,
अप्रवृत्ति		नेपाली, बंगला	अनिच्छा, निष्क्रियता, निश्चेष्टता, अप्रयोग,
अप्रवृत्ति		गुजराती	अनुत्साह, आलस्य, अनागम्य, क्रिया शून्यता
अप्रवृत्ति		मलयालम	+ 2 अन्यथा प्रवृत्ति, कुमार्ग (मराठी), उत्तेजना का अभाव
अप्रवृत्ति		मराठी	3 मलावरोध, कोष्ठबद्धता, कब्ज
अप्रवृत्ति		असमी	+ 4 किसी पद, वाक्य या सिद्धान्त का आशय समझ
अप्रवृत्ति		संस्कृत	में न आना (हिंदी)
अप्रवेद	विशेषण	मलयालम	1 जो कठिनाता में गमना जाय 2 जो अच्छा न हो
अप्रवेद		संस्कृत	3 जिसके विषय में महमति, सम्मति प्राप्त न हो
अप्रवेश्य	विशेषण	बंगला	जहां प्रवेश न किया जाना चाहिये, प्रवेश वर्जित
अप्रशंसनीय	विशेषण	हिंदी, बंगला	जो प्रशंसा के योग्य न हो, जिसकी प्रशंसा न की
अप्रशंसनीय		असमी	जा सकती हो, मुख्याति के अयोग्य
अप्रशंसा	संज्ञा	बंगला	प्रशंसा नहीं, निंदा, बदनामी, अख्याति
अप्रशस्त	विशेषण	हिंदी, मराठी	1 सकीर्ण, संकरा, कम चौड़ा, हलका, उतरना हुआ
अप्रशस्त		गुजराती	2 निदित, निच, अशुभ, प्रतिकूल, बेढब, अनुचित,
अप्रशस्त		असमी	अविहित, ग्राम्य, बेजा, अमस्कृत, अकीर्तिकर,
अप्रशस्त		संस्कृत, मलयालम	असुंदर, घटिया, अप्रशमित, क्षीण
अप्रशस्त		बंगला	3 अकुचित, सभ्य समाज में चलने के अयोग्य
अप्रशस्तमु		तेलुगु	+ 4 व्यर्थ, गुप्त, रहस्य, (तेलुगु), अनुदार
अप्रशिक्षित	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1. उत्तम या विशेष की प्रशिक्षा न पाया हुआ,
अप्रशिक्षित		संस्कृत	अर्ध शिक्षित 2. जो प्रशिक्षित न हो
अप्रसंग	संज्ञा	हिंदी, गुजराती	1. बिना प्रसंग या सम्बन्ध के, असम्बंधित
अप्रसङ्ग		नेपाली, संस्कृत	2. अनुपयुक्त या अनुचित अवसर, कुसमय
अप्रसङ्गं		मलयालम	3. अस्थान, असंगति, अनासक्ति, अनुराग रहितता

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अप्रसंगी	विशेषण	गुजराती	अप्रासंगिक, असमय का
अप्रसक्त	विशेषण	मलयालम, संस्कृत, हिंदी	असंबद्ध, अयोग्य, लत या व्यसन न होना, बेमौक़े
अप्रसक्ति	सज्ञा	हिंदी, बंगला, संस्कृत	1 लगाव या सबध का अभाव, अनासक्ति, निरासक्ति
अप्रसक्ति	सज्ञा	मलयालम	2 तात्पर्यहीनता, असम्यग्गता, समयमत्त विमुक्ति
अप्रसन्न	विशेषण	हिंदी, गुज, मलया, मराठी	1 प्रसन्न, सतुष्ट या आनंदित न होना, असंतुष्ट
अप्रसन्न		नेपाली, असमी, बंगला	2 नागज, नाखुश, विरक्त, विषण्ण क्षुब्ध, म्लान,
अप्रसन्नमु		तेलुगु	दुखी, खिन्न, उदाम, प्रतिकूल
अप्रसन्नता	सज्ञा	गुजराती, नेपाली, बंगला	नागजी, विरक्ति, क्षोभ दुःख
अप्रसम	विशेषण	हिंदी	जो प्रसम न हो बल्कि कुछ आगे बढ़ा या ऊपर
अप्रसमत्तः	क्रिया विशेषण	हिंदी	उठा हो (एबनार्मल), अप्रसम रूप में
अप्रसव	विशेषण	मलयालम	1 प्रसव या सतान जन्म नहीं, निम्नान
			2 फल प्राप्ति नहीं
अप्रसह्य	विशेषण	मलयालम	असह्य, अप्रतिहत, अनिर्वार्य जिसे रोकना न जा सके
अप्रसाद	सत्वा	गुज.मराठी, हिंदी, संस	1 उदासी, शोक, नाखुशी, अप्रीति, अननकूलता
अप्रसादं		मलयालम	+ 2 अवकृता, अमनोष + 3 क्लिप्तता (गुजराती)
अप्रसादि	सज्ञा	कन्नड	1 जो पक्ष न ले या पसंद न करे 2 जो प्रमादी या
			लिगायत मप्रदाय में दीक्षित न हुआ हो
अप्रसार्य	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	जिमका विस्तार न हो सके
अप्रसिद्ध	विशेषण	गुजराती, मराठी, हिंदी	1 विख्यात नहीं, अविख्यात, अप्रकाशित
अप्रसिद्ध		असमी, बंगला, कन्नड	2 मुप्रांरघत नहीं, अप्रचलित, अज्ञात, नगण्य
अप्पिरसित्तम्		तमिल	3 अनादृत अप्रमाणिक, अनिष्पन्न, गुमनाम (सज्ञा)
अप्रसिद्ध		मलयालम, संस्कृत, नेपाली	4 तुच्छ, काल्पनिक, कपोलकल्पित, असाधारण (सम)
अप्रसिद्धमु		तेलुगु	5 जो प्रसिद्ध न हो, जिसे अधिक लोग न जानते हो
अप्रसिद्धं	सज्ञा	मलयालम	छ प्रकार की अजिंया गणक, अनसुनी बात की अर्जी
अप्पिरसित्तविक्षेप्यम्	सज्ञा	तमिल	बहाना जिसमें विरोधी तुच्छ शर्त पर बल देकर
अप्पिरसित्तविक्षेप		संस्कृत	समझौता स्वीकार न करता हो, देखाभाम, झूठ बहाना,
अप्पिरसित्तुबय्यम्	सज्ञा	तमिल	बहाना जिसमें विरोधी बड़ी या छोटी शर्तें मज़ूर न करे

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अप्रसिद्धि	संज्ञा	नेपाली, बंगला, गुजराती	प्रसिद्धि का अभाव, अपयश
अप्रसिद्धि		संस्कृत, कन्नड, तेलुगु	अप्रचलितता, अज्ञातता, अख्याति
अप्यिरसित्तासम्बन्धम्	संज्ञा	तमिल	अयुक्ति सगत बहाना, जिससे विगेधी द्वारा ना-मंजूर शर्तों से मवध न बैठता हो
अप्रसूत	विशेषण	मलयालम	1. अप्रासंगिक 2. अचर्चित 3. अबद्ध 4. अप्रधान 5. आकस्मिक, स्तुत्य नहीं
अप्रसूता	संज्ञा	मलयालम, हिंदी	बाझ स्त्री, जिसके कभी प्रसव पीड़ा नहीं हुई
अप्रस्ताविक	विशेषण	नेपाली	1. प्रस्ताव न रखा हुआ, अप्रासंगिक, असंगत
अप्रस्ताविक		संस्कृत	2. अकथित, अचर्चित, अमम्बद्ध, अयुक्त, अकृत
अप्रस्तुत	विशेषण	हिंदी, मराठी	1. जो प्रस्तुत या सामने नहीं, अनुपस्थित, अविद्यमान
अप्रस्तुत		गुजराती	अनिष्पन्न, अप्रमक्त, अप्रधान, अनुगत, अनारब्ध
अप्रस्तुत		असमी	+ 2. जो उद्यत या तैयार न हो, चकराया हुआ (असमी)
अप्रस्तुत		उड़िया	3. जिसका वर्तमान विषय में कोई संबंध न हो, अवर्ण्य, गौण, अप्राकरणिक, उपमान, उपमा
अप्रस्तुत		कन्नड, संस्कृत	4. अप्रासंगिक, असंगत, प्रसंगविरुद्ध, वाहियान, अर्थ रहित, नैमित्तिक, विजातीय, पृथक, बहिरंग
अप्रस्तुत		बंगला, नेपाली	4. अप्रासंगिक, असंगत, प्रसंगविरुद्ध, वाहियान, अर्थ रहित, नैमित्तिक, विजातीय, पृथक, बहिरंग
अप्रस्तुत		मलयालम	4. अप्रासंगिक, असंगत, प्रसंगविरुद्ध, वाहियान, अर्थ रहित, नैमित्तिक, विजातीय, पृथक, बहिरंग
अप्रस्तुतमु		तेलुगु	+ 5. लज्जित, अपमानित, संकुचित, अप्रसिद्ध, अप्रतिभ (असमी)
अप्रस्तुतप्रशंसा	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. एक अर्थालंकार जिसमें अप्रस्तुत की प्रशंसा द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है
अप्रस्तुतप्रशंसा		नेपाली, मलया, संस्कृत	1. एक अर्थालंकार जिसमें अप्रस्तुत की प्रशंसा द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है
अप्रस्तुतप्रशंसे (स्तोत्र)		कन्नड	2. (इन डाइरेक्ट डिस्क्रिपशन)
अप्रस्रुत	विशेषण	मलयालम	बिना खून निकले शल्य क्रिया हुई
अप्रह्त	विशेषण	हिंदी	1. (व्यक्ति) जिसे चोट न लगी हो, अताड़ित, अनाहत, अनाघातित, ठीक-ठाक, अक्षुण्ण
अप्रह्त		मलयालम	1. (व्यक्ति) जिसे चोट न लगी हो, अताड़ित, अनाहत, अनाघातित, ठीक-ठाक, अक्षुण्ण
अप्रह्त		कन्नड	2. (भूमि) जिस पर हल न चला हो, बंजर, जिसे पैरों से आघात न लगा हो, पथ न बना हो
अप्रह्त		बंगला	2. (भूमि) जिस पर हल न चला हो, बंजर, जिसे पैरों से आघात न लगा हो, पथ न बना हो
अप्रह्त		संस्कृत	3. (वस्त्र) जिसे पहना या धोया न गया हो, कोरा
अप्रहित	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1. न भेजा गया 2. अनाक्रमित 3. जिसे हिलाया नहीं
अप्रांत	विशेषण	मराठी	अपार, असीम, सीमातीत (ज्ञानेश्वरी)
अप्राकरणिक	विशेषण	हिंदी, बंगला	1. जिसका प्रकरण या विषय से संबंध न हो,

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अप्राकरणिक अप्राकरणिक		नेपाली संस्कृत	अप्रासंगिक, प्रकरण-विरुद्ध 2. जो विषय से भिन्न या विरुद्ध हो, असंगत
अप्राकृत अप्राकृत अप्राकृत अपिराकिरुतम् अप्राकृतम्	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी नेपाली, उड़िया, बंगला मलयालम तमिल तेलुगु	1. मूल प्रकृति से सिद्ध नहीं, अमौलिक; प्रकृति विरुद्ध, अस्वाभाविक, कृत्रिम 2. विशिष्ट, असाधारण, अनपढ़ नहीं, संस्कृत, अलौकिक, जगत विषय से परे, अजागतिक + 3. अधम, अश्लील या अपरिमार्जित नहीं (मलयालम)
अपिराकिरुतलोकम् अप्राकृतलोकं	संज्ञा	तमिल मलयालम	स्वर्ग, देवलोक, बैकुंठ, वह लोक जिसमें सत्कर्म करने वालों की आत्माएँ निवास करती हैं
अप्राकृतिक अप्राकृतिक	विशेषण	हिंदी, नेपाली संस्कृत	1. भौतिक प्रकृति या क्रम में भिन्न, अस्वाभाविक 2. अनैसर्गिक, प्राकृतिक नहीं (अननैचुरल)
अप्राकाश्यं	संज्ञा	मलयालम	गोप्य, गुह्य, मंत्र, छिपाने योग्य
अप्राग्रय अप्राग्रय	विशेषण	मलयालम, कन्नड संस्कृत, हिंदी	प्राथमिक नहीं, अप्रधान, माध्यामिक, निम्न कोटि का, गौण, अधीन, निकृष्ट
अप्राधीन अप्राधीन	विशेषण	हिंदी, बंगला मलयालम, संस्कृत	1. प्राचीन नहीं, नवीन, अर्वाचीन, आधुनिक 2. पूर्वीय नहीं, पश्चिमी, अपुगतन, अवृद्ध
अप्राचुर्य अप्राज्ञ	विशेषण विशेषण	बंगला हिंदी, मलया, बंगला	अपर्याप्त, अल्प, प्राचुर्य या अधिकता नहीं ज्ञानहीन, अज्ञानी, नादान, अनपढ़, मूर्ख, प्रज्ञाहीन
अप्राण अप्राणन्	विशेषण संज्ञा	हिंदी, मलयालम संस्कृत, मलयालम	1. प्राण या जीवन शक्तिरहित; मृत, निर्जीव, निःसंज्ञ, जड़ 2. ईश्वर, परमात्मा (संज्ञा)
अप्राणी/अप्राणि अपिराणि	संज्ञा संज्ञा	असमी, बंगला तमिल	1. अचेतन, जड़ पदार्थ या वस्तु, निर्जीव + 2. हानि रहित, कमजोर व्यक्ति (तमिल)
अप्रापणं	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	प्राप्ति न होना, कब्जा न होना
अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्तम्	विशेषण	हिंदी, मराठी नेपाली असमी, बंगला मलयालम, संस्कृत गुजराती तेलुगु	1. जो प्राप्त, लब्ध या मिला नहीं, अनुपलब्ध, अलब्ध, अलभ्य, दुर्लभ, अकृतार्थ, अनुपस्थित 2. न पहुंचा या आया हुआ; अल्पवयस्क, विवाह के अयोग्य 3. न पूरा हुआ, असंपूर्ण 4. अयोग्य, अदक्ष 5. जो नियम लागू न हुआ हो + 6. अकृतार्थ- जिसे ब्रह्मनंद प्राप्त न हुआ हो (मराठी)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अप्राप्तकं	सज्ञा	मलयालम	सफेदी लिये मोना, खोटा मोना
अप्राप्तकाल	विशेषण	हिंदी	1 जिमके लिए समय न आया हो, असमय,
अप्राप्तकाल		बंगला	अनवसर, असामयिक, बेमौक़े, बेमौमम, अनक्रान्तु
अप्राप्तकाल		मलयालम, संस्कृत	2 असमय घटित, अकाल मृत्यु, प्रसंग से अनर्घित
अप्राप्तकाल		गुजराती	3 अप्राप्त व्यवहार, अवयस्क, नाबालिग
अपिराप्तकालम्	सज्ञा	तमिल	4 एक तर्क दोष (न्याय शास्त्र) + भविष्य (हिंदी)
अप्राप्तफल	विशेषण	मलयालम	1 जिम वृक्ष में फल न आये हो
अप्राप्तफल		संस्कृत	2 जो ऋतुभति न हुई हो ऐसी कन्या
अप्राप्तयौवन	विशेषण	हिंदी, गुजराती	अल्पवयस्क, कच्ची उमर का, युवा नहीं
अप्राप्तयौवन		मराठी, बंगला, संस्कृत	जिमे यौवन या तरुणता न आई हो
अप्राप्तवय	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 कानून के अनुसार नाबालिग
अप्राप्तवयस		संस्कृत	2 कच्ची उमर का, अल्पवयस्क
अप्राप्तवयस्क		बंगला	3 एक दृष्टि में मोलह वर्ष से कम,
अप्राप्तवयस्कन्	सज्ञा	मलयालम	एक अन्य दृष्टि में 18 वर्ष से कम,
अप्राप्तव्यवहार		हिंदी, मराठी, बंगला	एक और अन्य दृष्टि 21 वर्ष से कम
अप्राप्तव्यवहार	सज्ञा	गुजराती, संस्कृत	अर्थात् विभिन्न समयों और विभिन्न व्यवहारों
अप्राप्तव्यवहारन्		मलयालम	की दृष्टि में व्यस्क होने की आयु सीमा भिन्न-भिन्न है
अप्राप्तव्यवहारुडु		तेलुगु	+ 4 जो व्यवहार को प्राप्त नहीं हुआ (गुजराती)
अप्राप्ति	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 न मिलना, न पाने की अवस्था, अलाभ, मुनाफा
अप्राप्ति		नेपाली, असमी, बंगला	न होना, अनुपलब्धि, अनुपपत्ति, असंभव
अप्राप्ति		मलयालम, संस्कृत	2 क़ब्जा न होना या न मिलना
अपिराप्ति		तमिल	3 अशक्तता, अभाव, अदक्षता, अयोग्यता
अप्राप्तिसम	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	4 पूर्व नियम से प्रमाणित न होना, घटित न होना
अप्राप्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 जिमकी प्राप्ति न के बराबर अर्थात् कठिन हो,
अप्राप्य		असमी, बंगला, उड़िया	अलभ्य, दुर्लभ
अप्राप्य		नेपाली, मलया, संस्कृत	2 जो पहुँच से परे या वश से दूर हो
अप्राप्यम्		तेलुगु	3 जिसे प्राप्त करना प्रयोज्य या उपयुक्त न हो
अपिराप्यियम्	तमिल	4 जो मिल न सका हो, बाकी, शेष	

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अप्रामाणिक अप्रामाणिक अप्रामाणिक अपिरामाणिककम् अप्रामाणिकते	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी बंगला, कन्नड, नेपाली मलयालम, संस्कृत तमिल कन्नड	1. मान्यता या विश्वास न करने योग्य, अस्वीकार्य, अविश्वसनीय, नाकाबिले एतबार, नाकाबिले एतमाद, ऊटपटांग, धोखेबाज़, झूठा 2. प्रमाणसिद्ध नहीं, अनधिकृत 3. जो आधिकारिक या प्राधिकृत न हो
अप्रामाण्य अपिरामाणियम् अप्रामाण्यं	संज्ञा	हिंदी, बंगला, संस्कृत तमिल मलयालम	1. प्रमाण, सबूत, साक्षी या अधिकार का अभाव 2. युक्तिसम्पन्न नहीं, अमान्य, प्रमाणसिद्ध नहीं 3. विश्वास के अयोग्य, हेय
अप्रायिक अप्रायित अप्रावृत्त अप्राशन अप्राश्युडु	विशेषण संज्ञा विशेषण संज्ञा विशेषण	हिंदी असमी हिंदी हिंदी, संस्कृत तेलुगु	जो प्रायिक या प्रायः न हो (अनयूजुअल) अयाचित, अवांछित, जिसके लिये प्रार्थना नहीं की जो ढका न हो, अनावृत्त, उघड़ा, खुला अनशन, उपवास, भोजन न करना जिसके साथ बैठकर न खाया जाय, अपांक्तेय, जाति बहिष्कृत
अप्रासंगिक अप्रासङ्गिक अप्रासङ्गिक	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, उड़िया, बंगला नेपाली, संस्कृत	1. जिसका प्रसंग या प्रस्तुत विषय से संबंध न हो 2. अयुक्त, असंबद्ध, प्रसंगविरुद्ध, अप्रस्तुत 3. आलोच्य विषय से बहिर्भूत, दूर का या विभिन्न
अप्रिय अप्रिय अप्रिय अप्रियम् अपिरियम् अप्रीय अप्रियं	विशेषण संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, उड़िया, बंगला नेपाली, मलया, संस्कृत तेलुगु तमिल कन्नड मलयालम	1. जो इष्ट, प्रिय, रुचिकर या पसंद नहीं, जिसमें अनुराग नहीं 2. अनिष्ट, अरुचिकर, नापसंद, संतोषजनक नहीं, घृणित, अप्रीतिकर, कठोर, कर्कश, रूखा, अशुभ, तिरस्कृत 3. शत्रु, बैरी, करुणाजनक नहीं, निर्मम, अमैत्रीपूर्ण + 4. उन्नेजक या असौम्य कार्य या शब्द (कन्नड, मलयालम), जो प्यारा न हो, विराग-भाजन
अप्रियकर (कारी) अप्रियकारक अप्रियता	विशेषण विशेषण संज्ञा	हिंदी, गुजराती, बंगला हिंदी गुजराती, नेपाली	1. शत्रुतापूर्ण, घृणायुक्त; शत्रु, वैरी, विरोधी 2. अरुचिकर; अप्रिय करने वाला प्रिय न होने का भाव, प्रेम का अभाव
अप्रियभागि अप्रियभागिन्	विशेषण	मलयालम संस्कृत	दुर्भाग्य ग्रस्त, भाग्यहीन जिसको अप्रियता प्राप्त हो

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अप्रियभागी		हिंदी	जिमके हिस्से बुराई आई हो
अप्रियभाषा	विशेषण	बंगला	कड़वी या कठोर बात, दुखद भाषा
अप्रियभाषी		बंगला	कठोर भाषी, कटुभाषी
अप्रियवादि	विशेषण	मलयालम	प्रिय नहीं कटु भाषी, रूखा, कठोर
अप्रियवादिन्		संस्कृत	कर्कश बोलने वाला, कठोर बात कहने वाला
अप्रियवादी		गुजराती, बंगला, हिंदी	रूखा बोलने वाला, कटुवा बोलने वाला
अप्रीत	सज्ञा	गुजराती	प्रीति का अभाव, ईर्ष्या वैर
अप्रीति	सज्ञा	हिंदी, मराठी, गुजराती	1 प्रीति, रुचि, सतोष, पसंदगी न होना, अरुचि,
अप्रीति		नेपाली, असमी, बंगला	नापसंदगी, नागजगी, दुर्भाव, घृणा स्नेहाभाव
अप्रीति		मलयालम, संस्कृत	2 भ्रमताप, पराङ्मुखता, विराग, विरोध
अप्रीति		कन्नड, उड़िया	वैर, शत्रुता, अमैत्री अभक्ति
अप्रीतिकर	विशेषण	हिंदी, असमी, उड़िया, बंगला	अप्रिय, दुखजनक, दुखद. प्रतिकूल, कठोर
अप्रीतिजनक		बंगला	अनुकूल नहीं, भ्रमतापजनक
अप्रेत	विशेषण	हिंदी	जा मर कर प्रेत न हुआ हो, न गया, न भेजा हुआ
अप्रेम	सज्ञा	कन्नड	अमैत्रीपूर्ण, निःशुभना पूर्ण
अप्रोषित	विशेषण	संस्कृत, हिंदी	जो कहीं भेजा हुआ न हो, अनुपस्थित न हो
अप्रौढ़	विशेषण	हिंदी	1 जो प्रांढ या पृष्ट न हो, अशक्त, कमजोर
अप्रौढ		गुजराती, मराठी	2 अवस्था की दृष्टि से वयस्क न हो, नाबालिग
अप्रौढ		नेपाली	3 जिसमें पूर्णता, परिपक्वता न आई हो, धैर्यहीन
अप्रौढ		कन्नड, संस्कृत	अपरिपक्व, जो सुलझे मस्तिष्क का न हो
अप्रौढ		मलयालम	4 निरहकारी, शान्त, नम्र, भीरु, कायर, अधृष्ट, अप्रमत्त
अप्रौढते	सज्ञा	कन्नड	1 अप्रौढता अनुभवहीनता 2 अनलकृत शब्दावलि, एक काव्य दोष
अप्रौढा	सज्ञा	हिंदी, नेपाली	1 कन्या जिसका विवाह हाल ही में हुआ हो, परन्तु जो
अप्रौढा		मलयालम, मराठी	रजस्वला न हुई हो 2 अविवाहिता
अप्रौढा		संस्कृत	+ 3 कन्या जिसे छुआ न गया हो (नेपाली)
अप्रौढता	सज्ञा	नेपाली	प्रौढता या परिपक्वता का अभाव
अप्सब	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 जो तैरना न हो या तैर न सकता हो
अप्सबन्		मलयालम	2 जिसके पास नाव या जहाज न हो, पोतहीन

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अप्लावित	विशेषण	असमी	जो नदी आदि के किनारे के ऊपर न बह रहा हो
अप्लाव्य	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	तैर कर उम पार जाना असंभव, अप्राप्य
अप्लुत	विशेषण	संस्कृत	जो तीन मात्राओं वाला स्वर या वर्ण न हो
अफल	विशेषण	हिंदी, गुज, मलया, मराठी	1 फल न हो, फल रहित, निष्फल वृक्ष
अफल		नेपाली, पंजाबी, कन्नड	2. अनउपजाऊ भूमि, ऊसर भूमि, मरुभूमि
अफलम्		संस्कृत	3 निरर्थक, व्यर्थ, बेकार, अनुपयोगी, हानिकारक
अफलं	सज्ञा	मलयालम	4 नपुंसक, बाइल स्त्री; प्रयत्न जिसका परिणाम न हो
अफलम्	सज्ञा	तमिल	+ 5 वैल जिसके अष्टकोय नष्ट कर दिये हो (मलयालम)
अवलम्	सज्ञा	तमिल	1. अनाभकारी, निष्कलना, निरुपयोगिता 2 वार्यां ओर
अवलन्	सज्ञा	तमिल	निरुपयोगी व्यक्ति
अफलणं	अकर्मक्रिया	मराठी	कच्चा या अरकर रखना, टकराना, गिरना
अफलदर्शिनी	सज्ञा	बंगला	जिसमें फल दर्शन की या फल लाभ की आशा न हो
अफलदर्शी		बंगला	फल लाभ की आशा नहीं
अफलन्ति	विशेषण	उड़िया, बंगला	निष्फल, फलहीन, बाइल, व्यर्थ, जो फलना नहीं
अफलन्दुरु	सज्ञा	तमिल	नया पाधा, जिस पर अभी फल नहीं लगे
अफला	सज्ञा	हिंदी, गुजराती	1 फल विहीन पेड़, मृतकृमारी, भूम्यामलकी आदि
अफला		बंगला	2 बाइल स्त्री, जिसके मन्तान न हो सकें
अफलाकांक्षी	विशेषण	कन्नड	1. पारिश्रमिक या पुरस्कार की इच्छा न रखने वाला,
अफलाकाङ्क्षी (सिन्)		नेपाली, संस्कृत	निस्वार्थी 2. परिश्रम का पुरस्कार न चाहने वाला
अफलित	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 वृक्ष जिसमें फल न हो, निष्फल
अफलित		बंगला	2 कार्य जिसका परिणाम न निकला हो, परिणाम शून्य
अफल्यु	विशेषण	हिंदी	उत्पादक, लाभदायक, निकम्मा नहीं
अफाट	विशेषण	गुजराती, मराठी	विशाल, विस्तृत, अमर्याद, अपार, अनन्त, वृहद
अफाटगुरु	सज्ञा	मराठी	प्रबल मनमौजी, भटकने वाला, अर्शाक्षित, गवार, गुरुवंदाल
अफाप	विशेषण	नेपाली	हानिकारक, अशुभ, अनिष्टकर, दुखद
अफाल्यु	सकर्मक्रिया	नेपाली	छोड़ना, त्यागना, हटाना, दूर करना
अफुट	विशेषण	असमी	छिपा हुआ, बिना निशान में
अफुट	विशेषण	मराठी	अखंड, साबुत, बिना टूटा हुआ

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अफुटकै	क्रियाविशेषण	असमी	गुप्त रूप में, छिपे हुए में
अफुटन	विशेषण	बंगला	1 जो गर्मी में उबल न रहा हो 2. अविकसित
अफुटी	विशेषण	उड़िया	जो खिला न हो, जो प्रकाशित न हो
अफुर	सज्ञा	पंजाबी	गन की वह अवस्था जिसमें कुछ न मूझे
अफुरन्त	विशेषण	उड़िया, बंगला	असिम, अशेष, जो समाप्त न होता हो
अफुल्ल	विशेषण	हिंदी	1 फूल या वृक्ष जो खिला या फूला न हो
अफुल्ल		बंगला	2 अप्रस्फूर्तित, अविकसित
अफेन	विशेषण	बंगला, संस्कृत, हिंदी	फेन धून्य, विना फेन का, अफीम (सज्ञा)
अबंड	विशेषण	हिंदी	1 जो पगु न हो (हिंदी)
अबंड		गुजराती	2 जो शेरवीखार नहीं, आज्ञाकारी, बडखार नहीं (गुज)
अबंधक	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1 विना जमानत 2 बंधन या उत्तरदायित्वहीन
अबंध	विशेषण	हिंदी	1 जो बंधन में न हो, बंधन रहित, खुला हुआ
अबंध		गुजराती	2 जो किसी के अधिकार या शासन में न हो, स्वच्छद 3 मनमाना आचरण करने वाला, निरक्ष
अबंधन	सज्ञा	गुजराती, हिंदी	बंधन रहित, स्वच्छद, आजाद
अबंधु/अबंधुर	विशेषण	हिंदी, बंगला	1 जिसका कोई इष्ट मित्र या बंधु न हो अकेला
अबन्धु (अबांधव)	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	2 नाते रिश्तेदार न होना
अबंधु	सज्ञा	कन्नड	+ 3 जो सम्बद्ध नहीं, पृथक पृथक हो (कन्नड)
अबंध्य	विशेषण	हिंदी, बंगला	1 जो बाधा न जा सके या बाधने योग्य न हो
अबन्ध्य		मलया, कन्नड, संस्कृत	2 जो निश्चित ही फल देने वाला हो, सफल, अव्यर्थ, उत्पादक
अबद्ध	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 बंधनहीन, छूटा हुआ, स्वतंत्र, अनियंत्रित, असंबद्ध,
अबद्ध		नेपाली, कन्नड	विसंगत, मुक्त, स्वच्छद, आजाद, निर्लज्ज, बेहया
अबद्ध		संस्कृत, मलयालम	2 विना अर्थ का, निरर्थक, व्यर्थ, बाहियात, अशुद्ध,
अबद्धं	सज्ञा	मलयालम	गूर्वतापूर्ण, अनुचित, बेमौके, गलत, बेमतलब
अबद्धमु		तेलुगु	3 बूद्ध, मूर्ख, बेवकूफ, अज्ञानी, विवेकशून्य, अविनयशील
अबद्धम्/अबत्तम्		तमिल	+ 4 असत्य, झूठ, भ्रान्तिमूलक (तेलुगु, तमिल)
अबद्धन्	विशेषण	मलयालम	1. गलत बात बोलने वाला, निर्लज्ज, पापी, झूठा
अबद्धमुख	विशेषण	हिंदी, मरा, कन्न, संस	2 जो मुह में आये बकने वाला, अमंगलकारी, बदजबान

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अबदिकुडु		तेलुगु	अपवित्र शब्द कहने वाला, गाली-गलौज करने वाला
अबत्तक्कळ्ळिजियम्	संज्ञा	तमिल	गलतियों का पुतला
अबद्वगार	विशेषण	कन्नड	झूठ बोलने वाला
अबद्वघरित	संज्ञा	कन्नड	दुर्व्यवहार, दुर्बुद्धि
अबद्वभाषण	संज्ञा	कन्नड	असंगत या अनुचित कथन
अबद्वमूल	विशेषण	हिंदी	जिसकी जड़ दृढ़ या जमी न हो, गजबृत न हो
अबद्वसाक्षि	संज्ञा	कन्नड	झूठा गवाह, अमत्य साक्ष्य
अबध	विशेषण	हिंदी	1. जो बांधा न हो, अबद्ध 2. जो रोका न जा सके, अबाध्य 3. स्वतंत्र रूप से चलने वाला, स्वतंत्र गति अबोध, अज्ञानी, मूर्ख
अबधू	विशेषण	हिंदी	
अबध्य	विशेषण	हिंदी, नेपाली	धर्मशास्त्र के अनुसार जिसका वध करना वर्जित हो, जैसे बालक, स्त्री, ब्राह्मण, गाय आदि
अबध्य		उड़िया	
अबनीबना	संज्ञा	बंगला	अमदभाव, अनवन, असम्प्रीति
अबल	विशेषण	हिंदी, गुज, मलया, मराठी	1. बलहीन, निर्बल, दुर्बल, कमजोर, अर्गक्षन, अशक्त
अबल		नेपाली, बंगला, कन्नड	2. जिसके प्राप्त सेना न हो, सैन्य रहित
अबलन् (म्)	संज्ञा	तमिल	3. बलहीन व्यक्ति 4. नपुंसक, पुरुषत्वहीन (संज्ञा)
अबल		तेलुगु, संस्कृत	5. बलहीनता, कमजोरी (संज्ञा)
अबलं	संज्ञा	मलयालम	6. शक्ति का अभाव, अशक्तता (संज्ञा)
अवलम्	संज्ञा	तमिल	1. शोक रस 2. गरीबी 3. चिन्ता 4. गलती, दोष 5. गेग 6. गेना, संताप, व्यथा 7. माया, चिन्ता
अबलास	विशेषण	मलयालम	जो क्षयकारी नहीं
अबला	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. नारी, स्त्री, जिसमें सामर्थ्य न हो, बल न हो
अबला	विशेषण	असमी, उड़िया, बंगला	2. कमजोर, अशक्त, रक्षिता, आश्रिता
अबला		मलयालम, संस्कृत	3. बल शून्या, अल्पबला, निर्बला
अबला (अबले)		नेपाली, पंजाबी, कन्नड	4. जो लाचार, निम्सहाय, अशक्त हो
अबिला		सिंधी	+ 5. निराश्रया जिसका कोई आश्रय न हो (असमी)
अबलै		तमिल	6. जो पुरुष के मुकाबले में अशक्त या कमजोर है
अबलापण	संज्ञा	पंजाबी	अबला होने का भाव

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अबल्यं		मलयालम	निर्वलता, कमजोरी, बीमारी, अग्वस्थता
अबल्य		हिंदी	जिसमें बल या शक्ति न हो
अबशी	विशेषण	बंगला	अजितेन्द्रिय, अमंयमी, जो ग्वानियंत्रित नहीं
अबस	क्रियाविशेषण	हिंदी	बंकार, व्यर्थ, निरर्थक, बे फायदा
अबशीकृत	विशेषण	बंगला	अनियंत्रित, अदमित, अनधिकृत
अबशीभाव	संज्ञा	बंगला	वशीभूत न होने का भाव, अबाध्यता, अनियंत्रितता
अबहु	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	अधिक नहीं- कुछ, बहुत नहीं- थोड़ा
अबांधव	विशेषण	गुजराती, बंगला, हिंदी	जिसके सगे मवधी न हों, बंधुहीन, अनाथ
अबाट	विशेषण	हिंदी, उड़िया, असमी	कुमार्ग, वुग मार्ग, गलत रास्ता, भिन्न रास्ता
अबाट (अभ्रष्ट)	विशेषण	मराठी	1 अभ्रष्ट, जाति बहिष्कृत नहीं 2 अनिष्ट
अबाटे	क्रियाविशेषण	असमी	गलत, भिन्न या वृंर गस्ते मे
अबाठ	विशेषण	मराठी	जिसका कोई उन्नगाधिकारी न हो
अबाध	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 बाधा, रोक टोक या रुकावट रहित, उपद्रवहीन,
अबाध		असमी, उड़िया, बंगला	वेगोक टोक, निर्विघ्न, कण्टक रहित, पीडा शून्य
अबाध		नेपाली, कन्नड	2 उत्पीड़नहीन, अनियंत्रित, स्वच्छंद, मुक्त, मनमाना
अबाध		संस्कृत, मलयालम	3 अगीम, अपार, अपरिमित, परम, पूर्ण (एबमोल्यूट)
अबाधक	विशेषण	गुजराती, हिंदी	जो विघ्न कारक नहीं, हानिरहित
अबाधव्यापार	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 वह व्यापार जिसमें सरक्षक कर आदि लगाकर
अबाध वाणिज्य	संज्ञा	बंगला	बाधा न डाली जाय 2. मुक्त व्यापार (फ्री ट्रेड)
अबाधा	संज्ञा	हिंदी	1 बाधा, विघ्न या रोक टोक न होना, अखण्डन
			2. त्रिभुज के आधार का खंड
अबाधित	विशेषण	हिंदी, गुज, मरा, संस	1 जिसे करने में कोई विरोध या रोक न हो, जिसका
अबाधित		नेपा, अस, बंग, मलया	खण्डन न हुआ हो
अबाधितम्	संज्ञा	तमिल	2. स्वाधीन, मुक्त, अनियंत्रित, अनिपिद्ध
अबाधितमु		तेलुगु	3. आक्षेप रहित, अखडनीय, अकाट्य, अपीडित
अबाध्य	विशेषण	हिंदी, मराठी	1. जो रोका न जा सके या जिसके कार्य में बाधा
अबाध्य		असमी, उड़िया	डालना उचित न हो, जो बाध्य न हो
अबाध्य		नेपाली, बंगला	2 अनिवार्य, नियंत्रण विहीन, स्वच्छंद, अवशीभूत,
अबाध्य		गुजराती	उच्छृंखल, आज्ञा न मानने वाला

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अबाधे	अव्यय	असमी	बिना रोक टोक के, मुक्त रूप से, आसानी से
अबाध्यता	सज्ञा	बंगला	अवशीभाव, औद्भत्य, उद्वतता
अबान	विशेषण	हिंदी	जिसके हाथ में (वाण) शस्त्र न हो, निहत्था
अबाब	सज्ञा	असमी	रयोजन न होना, अनावश्यक, कारण का अभाव
अबार	सज्ञा	हिंदी	अधिक या बहुत देर, असमय, कुसमय (अवेर)
अबारित	विशेषण	उड़िया	अनिपिद्ध, बेरोक
अबाल	विशेषण	हिंदी, मराठी, संस्कृत	1 जिसमें बचपन न हो 2 जो बालक न हो, युवक, वयस्क
अबाल		मलयालम	3 छोटा नहीं, पूर्णिमा का पूरा चांद
अबाल		तेलुगु	4 अतिशय बालक, कोमल, नाबालिग अवरथा
अबालचंद्र		असमी	अज्ञानी, नादान, अयाना, मार्फीन
अबालर्ण	सकर्म क्रिया	मराठी	निर्ममता में बोलना, दुर्लक्ष्य करना
अबाली	सज्ञा	मराठी	फजीना, दुर्दशा
अबालिश	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	बचपन नहीं, गुरु नहीं, बुद्धियुक्त, बाल बुद्धि नहीं,
अबालिश		हिंदी	ना समझ नहीं, मगझदार, लापरवाह नहीं
अबाह्य	विशेषण	बंगला, मलयालम	बाहरी नहीं, भीतरी, बुद्धिदेशीय नहीं, अभ्यन्तरस्थ,
अबाह्य		संस्कृत, हिंदी	पूर्ण परिचित, जिसमें बुद्धिगर्भ न हो, भीतरी
अबिंदु	विशेषण	कन्नड	विन्दु या विन्दी न होना
अबिनाशी	सज्ञा	हिंदी, बंगला, असमी	अविनाशी, अविनाश्वर, ईश्वर, परमात्मा का नाम
अबिहड़	विशेषण	हिंदी	1 क्या, फटा, टूटा नहीं, अखंड, सावृत
(अविरल)		संस्कृत	2 गिला या सड़ा हुआ 3 परमात्मा में लीन (गहस्य स्रदाय)
अबीज	विशेषण	हिंदी, बंगला	1 बीज हीन, जिसमें थोड़े बीज हो 2 नपुंसक
अबीजपत्री	सज्ञा	बंगला	बीज बिना, बीज पत्र विहीन पोधा
अबुझ	विशेषण	हिंदी	अबुझ, नासमझ, नादान, अयाना
अबुद्ध	विशेषण	नेपाली, मराठी, हिंदी	1 पूर्वनापूर्ण, नाममझ, अनाडी
अबुद्ध		मलयालम, संस्कृत	+ 2 जीवान्मा (मराठी) 3 पूर्व बुद्धिहीन, अबाध
अबुद्धि	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 बुद्धि का अभाव, निर्वुद्धिता, अज्ञान, मूर्खता
अबुद्धि		संस्कृत, नेपाली, बंगला	2 अविद्या, नागमझी, अपरिणत बुद्धि, कुबुद्धि
अबुद्धिपूर्व (क)	विशेषण	हिंदी, बंगला, संस्कृत	1 वे समझ वृत्ते किया कार्य, बिना अभिप्राय के,

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अबुत्तिपूरुवम्		तमिल	विना बुद्धि लगाये किया गया काम
अबुद्धिपूर्वम्		तमिल	2 कार्य शुरू करने से पूर्व बुद्धिपूर्वक न सोचना
अबुध	विशेषण	हिंदी, गुजराती, बंगला	1 निर्बाध, मूर्ख, अशिक्षित, अपठित, अविवेचक
अबुध		कन्नड, मलयालम, संस्कृत	2 दुनियादारी से अर्न्भिज्ञ, जिसे ज्ञान या बोध न हो,
अबुधो (अबोधु)	विशेषण	गुजराती, सिंधी	नासमझ, अबोध व्यक्ति
अबुदन्	सज्ञा	तमिल	3 मूर्ख व्यक्ति, बुद्धिरहित, अज्ञानी,
अबुधन्	सज्ञा	मलयालम	जिसे किसी बात का ज्ञान या परिचय न हो
अबुध्न	विशेषण	मलयालम	जड़ रहित, जिस का आधार ही न हो
अबुध्नं	सज्ञा	मलयालम	आकाश, अनरिक्त, आममान
अबूज	विशेषण	असमी, गुजराती, मराठी	1 वृद्ध विना, फट्टर विना, अगुणज्ञ, निर्वृद्धि.
अबूझ		हिंदी, गुजराती, नेपाली	समझ विना, ना समझ, अबोध, मूर्ख
अबुजन		असमी	2 जिद्दी, अज्ञानी, विवेचनाहीन, अज्ञेय, नादान,
अबुज्झ		पंजाबी	जो समझा वृद्धा न जा सक, जो समझाने पर भी
अबुझ		बंगला, उड़िया	न समझता हो दूबोध, अस्पष्ट
अबुझ		पंजाबी, नेपाली	+ 3 जो ज्ञान न हो सक + 4 जिसका जन्म वद न हो, न वृद्धने वाला (रजावी)
अबेला	विशेषण	बंगला, नेपाली	1 दिन का अन्त अरामय
अबेर	अव्यय	हिंदी	2 खग्व समय, वे मोका, कवेला, देर, विलम्ब
अबेर/अवेर		पंजाबी	3 दिन देर लगाये, जल्दी, शीघ्र (अव्यय)
अबोट	सज्ञा	गुजराती	1 जो छुआ न गया हो, अस्पृष्ट
अबोट		मराठी	2 उपयोग न किया गया हो, अभक्त, शुद्ध, चखा नही गया 3 जैसे का तेसा
अबोध	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 जिसमे बोध, ज्ञान, समझ नहीं, भवगया हुआ,
अबोध	सज्ञा	असमी, बंगला, उड़िया	नादान, अज्ञानी, अनजान, मूर्ख, मूढ
अबोध		मलया, पंजाबी, संस्कृत	2 मूर्खता, नासमझी, ज्ञान का अभाव
अबोधु		सिंधी	3 अवृद्ध, उलटी समझवाना, मद् बुद्धि
अबोदम्		तमिल	+ 4 अज्ञानसिक्त बाने बनाने वाला (रजावी)
अवस्ता	विशेषण	पंजाबी	5 छोटी अवस्था के कारण सांसारिक ज्ञान से अछूता

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अबोधगम्य अबोध्य अबोधनीय	विशेषण	हिंदी, अस, बंग, संस हिंदी, मराठी मराठी	1. जो समझा न जा सके, अचिंतनीय, अस्पष्ट, अज्ञेय, धारणा शक्ति से परे (इनकम्प्रेहेंसीबल) + 2. जो सीखने में बुद्धू या जड़ हो (मराठी)
अबोल अबोल अबोल अबोल अबोल	विशेषण	गुजराती बंगला हिंदी पंजाबी मराठी	1. जो बोल न सके, गूंगा, चुप, अवाक, मूक, मौन 2. जो प्रतिवाद न कर सके, निरीह + 3. जिसके विषय में कुछ कह न सके अनिर्वचनीय (हिंदी) 4. न बोलने की अवस्था, चुप्पी 5. न कहने योग्य बात, गाली, कुबोल, कुवचन
अबोला अबोला (अबोल्या) अबोला अबोला अबोला	विशेषण	हिंदी मराठी नेपाली, बंगला गुजराती पंजाबी	1. जो बोला या कहा न गया हो 2. न बोलने वाला, मूक, मौन, रूठा हुआ, मानी 3. जो प्रतिवाद न कर सके, निरीह 4. न बोलने के स्वभाव वाला, मौनी, मितभाषी 5. कुबोल 6. रोष या मान के कारण न बोलना
अब्राह्मचर्य	विशेषण	गुजराती, नेपाली, संस्कृत	1. ब्रह्मचारी न होना 2. ब्रह्मचर्य में न रहा हुआ
अब्राह्मण्य अब्राह्मण्य अब्राह्मण्य अप्यिरामणियम् अब्राह्मण्यम् अब्राह्मण्यम् अब्राह्मण्यं	विशेषण विशेषण विशेषण संज्ञा अव्यय + संज्ञा	गुजराती, मराठी, कन्नड हिंदी, असमी, संस्कृत नेपाली तमिल मराठी तेलुगु मलयालम	1. ब्राह्मणों के न करने योग्य कार्य यथा चोरी, हिंसा, पापकृत्य, दुष्कृत्य; ब्राह्मणों के प्रतिकूल कार्य 2. समाज की दृष्टि से अनुचित, धर्मविरुद्ध, निंदनीय कार्य 3. ब्राह्मण, वेदों आदि पर श्रद्धा न रखने वाला 4. ब्राह्मण के कर्तव्यों का उल्लंघन, अनुचित कार्य 5. सहायता के लिए आर्तनाद कि अब्राह्मण्य कर्म हो रहा है (तमिल), ब्राह्मण कन्या का पुनर्विवाह
अब्राह्मण अब्राह्मण अब्राह्मण्डु अप्यिरामणन् अब्राह्मणन्	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी नेपाली, बंगला, असमी तेलुगु तमिल मलयालम	1. जो ब्राह्मण न हो, ब्राह्मणेतर, शूद्र या निम्न जाति 2. आचार शून्य ब्राह्मण, हीन ब्राह्मण 3. ब्राह्मणहीन कार्य + 4. जो ब्रह्म नहीं (संस्कृत) 5. ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं 6. अपने कर्तव्य का त्याग करने वाला धर्मच्युत ब्राह्मण
अभंग अभंग अभङ्ग	विशेषण संज्ञा विशेषण	हिंदी, गुजराती कन्नड, पंजाबी नेपाली, बंगला, मलया	1. जो भंग, खंडित, टूटा हुआ न हो, अखंडित, अबाधित, अखंडित, पूरा, समूचा, साबुत, पूर्ण 2. न मिटने वाला, परमेश्वर, अविनाशी, शाश्वत

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभंग		मराठी	न बंटने वाला, जिसका क्रम न टूटे
अभङ्गं	संज्ञा	मलयालम	+ 3 शान्त, तरगहीन, निडर, सुरक्षित(कन्नड)
अबङ्गम्	संज्ञा	तमिल	+ 4. रक्षा या रक्षा का वचन (कन्नड) निर्दोष (तमिल)
			+ 5 एक प्रकार का मराठी पद या भजन (मराठी)
अभङ्ग- पद	संज्ञा	नेपाली, हिंदी, संस्कृत	श्लेष अलंकार का एक भेद जिसमें शब्द को बिना तोड़े दूसरा अर्थ निकाल लिया जाता है
अभंगप्रदान	संज्ञा	कन्नड	किमी को भय मुक्त करने की प्रतिज्ञा या वचन
अभंगहस्त	संज्ञा	कन्नड	आशीर्वाद का हाथ, वरद हस्त, रक्षा का हाथ
अभंगि-अभङ्गि	संज्ञा	तेलुगु, मलयालम	+ 1. असुन्दरता, बेढगापन, भौंडापन, अनौचित्य (मलया),
अभंगी	विशेषण	हिंदी	कृत्स्नता 2 जो किमी प्रकार भग न हो सके
अभंगुर	विशेषण	हिंदी, कन्नड	1 जा अचानक न टूटे, नष्ट न हो, अनश्वर, स्थिर,
अभङ्गुर	विशेषण	मलया, बंगला, संस्कृत	दृढ़, अपरिवर्तनशील
अबङ्गुरम्		तमिल	2 माधारण आघात से न टूटने वाला (इनफ्रेंजिबुल)
अभंगुरम्		तेलुगु	3. नित्य, स्थायी, चिरकालिक, भंगुर नहीं
अभंगुरता	संज्ञा	हिंदी	अभंगुर होने की अवस्था, गुण या भाव
अभंजन	विशेषण	हिंदी	1. जिसका भंजन न हो सके, विभक्त न हो सके
अभञ्जन		मलयालम	2 किसी पदार्थ का कई तत्वों में विभक्त न होना
अभंड	विशेषण	मराठी	1. बहुत अधिक, असीम 2 नटवट, चंट, झरारी, चालाक
अभक्त	विशेषण	हिंदी, मराठी, गुजराती	1. जो ईश्वर में आस्था निष्ठा नहीं रखता, नास्तिक,
अभक्त		असमी, बंगला, उड़िया	भक्तिहीन, अपूजक; जो अनुगामी, श्रद्धावान,
अभक्त		नेपाली, संस्कृत	उपासना करने वाला नहीं 2. न खाया हुआ (हिंदी)
अभक्त		कन्नड	3 जो विभक्त नहीं, जिसके टुकड़े न हुए हों, समूचा
अभक्त		मलयालम	4. जो पृथक नहीं, सलग्न, विभक्त या बँटा हुआ नहीं
अभक्ति	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, आदरभाव का अभाव
अभक्ति		असमी, उड़िया, बंगला	2. अश्रद्धा, अविश्वास, अन अनुगाम, अवज्ञा, घृणा
अभक्ति		नेपाली, संस्कृत, मलया	3. ईश्वर के प्रति आस्था न होना
अभक्ष	विशेषण	हिंदी, गुजराती, बंगला	1 आहार न ग्रहण करना, उपवास या अनशन करना
अभक्षण		हिंदी, गुजराती, बंगला	2. निषिद्ध या कुखाद्य भोजन यथा मद्य-मांस आदि
अभक्षणं	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	3. अपथ्य, अखाद्य, उपवास

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अबोधगम्य अबोध अबोधनीय	विशेषण	हिंदी, अस, बंग, संस हिंदी, मराठी मराठी	1. जो समझा न जा सके, अचिंतनीय, अस्पष्ट, अज्ञेय, धारणा शक्ति से परे (इनकम्प्रेहेंसीबल) + 2. जो सीखने में बुद्ध या जड़ हो (मराठी)
अबोल अबोल अबोल अबोल अबोल	विशेषण	गुजराती बंगला हिंदी पंजाबी मराठी	1. जो बोल न सके, गूंगा, चुप, अवाक, मूक, मौन 2. जो प्रतिवाद न कर सके, निरीह + 3. जिसके विषय में कुछ कह न सके अनिर्वचनीय (हिंदी) 4. न बोलने की अवस्था, चुप्पी 5. न कहने योग्य बात, गाली, कुबोल, कुवचन
अबोला अबोला (अबोल्या) अबोला अबोला अबोला	विशेषण	हिंदी मराठी नेपाली, बंगला गुजराती पंजाबी	1. जो बोला या कहा न गया हो 2. न बोलने वाला, मूक, मौन, रूठा हुआ, मानी 3. जो प्रतिवाद न कर सके, निरीह 4. न बोलने के स्वभाव वाला, मौनी, मितभाषी 5. कुबोल 6. गेष या मान के कारण न बोलना
अब्रह्मचर्य	विशेषण	गुजराती, नेपाली, संस्कृत	1. ब्रह्मचारी न होना 2. ब्रह्मचर्य में न रहा हुआ
अब्रह्मण्य अब्रह्मण्य अब्रह्मण्य अप्पिरामण्यम् अब्रह्मण्यम् अब्रह्मण्यम् अब्राह्मण्यं	विशेषण विशेषण विशेषण संज्ञा अव्यय संज्ञा	गुजराती, मराठी, कन्नड हिंदी, असमी, संस्कृत नेपाली तमिल मराठी तेलुगु मलयालम	1. ब्राह्मणों के न करने योग्य कार्य यथा चोरी, हिंसा, पापकृत्य, दुष्कृत्य; ब्राह्मणों के प्रतिकूल कार्य 2. सगाज की दृष्टि से अनुचित, धर्मविरुद्ध, निंदनीय कार्य 3. ब्राह्मण, वेदों आदि पर श्रद्धा न रखने वाला 4. ब्राह्मण के कर्तव्यों का उल्लंघन, अनुचित कार्य + 5. सहायता के लिए आर्तनाद कि अब्राह्मण्य कर्म हो रहा है (तमिल), ब्राह्मण कन्या का पुनर्विवाह
अब्राह्मण अब्राह्मण अब्राह्मणु अप्पिरामणन् अब्राह्मणन्	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी नेपाली, बंगला, असमी तेलुगु तमिल मलयालम	1. जो ब्राह्मण न हो, ब्राह्मणेतर, शूद्र या निम्न जाति 2. आचार शून्य ब्राह्मण, हीन ब्राह्मण 3. ब्राह्मणहीन कार्य + 4. जो ब्रह्म नहीं (संस्कृत) 5. ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं 6. अपने कर्तव्य का त्याग करने वाला धर्मच्युत ब्राह्मण
अभंग अभंग अभङ्ग	विशेषण संज्ञा विशेषण	हिंदी, गुजराती कन्नड, पंजाबी नेपाली, बंगला, मलया	1. जो भंग, खंडित, टूटा हुआ न हो, अविनष्ट, अबाधित, अखंडित, पूरा, सम्पूरा, साबुत, पूर्ण 2. न मिटने वाला, परमेश्वर, अविनाशी, शश्वत

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभंग		मराठी	न वंटने वाला, जिमका क्रम न टूटे
अभङ्गं	संज्ञा	मलयालम	+ 3. शान्त, तरंगहीन, निडर, सुरक्षित(कन्नड)
अबङ्गम्	संज्ञा	तमिल	+ 4. रक्षा या रक्षा का वचन (कन्नड) निर्दोष (तमिल)
			+ 5. एक प्रकार का मराठी पद या भजन (मराठी)
अभङ्ग- पद	संज्ञा	नेपाली, हिंदी, संस्कृत	श्लेष अलंकार का एक भेद जिसमें शब्द को बिना तोड़े दूसरा अर्थ निकाल लिया जाता है
अभंगप्रदान	संज्ञा	कन्नड	किमी को भय मुक्त करने की प्रतिज्ञा या वचन
अभंगहस्त	संज्ञा	कन्नड	आशीर्वाद का हाथ, वरद हस्त, रक्षा का हाथ
अभंगि-अभङ्गि	संज्ञा	तेलुगु, मलयालम	+ 1 अमुन्दरता, वेढंगापन, भौंडापन, अनौचित्य (मलया),
अभंगी	विशेषण	हिंदी	कृन्मितता 2. जो किसी प्रकार भंग न हो सके
अभंगुर	विशेषण	हिंदी, कन्नड	1. जो अचानक न टूटे, नष्ट न हो, अनश्वर, स्थिर,
अभङ्गुर	विशेषण	मलया, बंगला, संस्कृत	दृढ़, अपरिवर्तनशील
अबङ्गुरम्		तमिल	2. साधारण आघात से न टूटने वाला (इनफ्रैजिबुल)
अभंगुरम्		तेलुगु	3. नित्य, स्थायी, चिरकालिक, भंगुर नहीं
अभंगुरता	संज्ञा	हिंदी	अभंगुर होने की अवस्था, गुण या भाव
अभंजन	विशेषण	हिंदी	1. जिमका भंजन न हो सके, विभक्त न हो सके
अभञ्जन		मलयालम	2. किसी पदार्थ का कई तत्वों में विभक्त न होना
अभंड	विशेषण	मराठी	1. बहुत अधिक, असीम 2. नटखट, चंटे, शरारती, चालाक
अभक्त	विशेषण	हिंदी, मराठी, गुजराती	1. जो ईश्वर में आस्था निष्ठा नहीं रखता, नास्तिक,
अभक्त		असमी, बंगला, उड़िया	भक्तिहीन, अपूजक; जो अनुरागी, श्रद्धावान,
अभक्त		नेपाली, संस्कृत	उपासना करने वाला नहीं 2. न खाया हुआ (हिंदी)
अभक्त		कन्नड	3. जो विभक्त नहीं, जिमके टुकड़े न हुए हों, समूचा
अभक्त		मलयालम	4. जो पृथक नहीं, मलग्न, विभक्त या बँटा हुआ नहीं
अभक्ति	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, आदरभाव का अभाव
अभक्ति		असमी, उड़िया, बंगला	2. अश्रद्धा, अविश्वास, अन-अनुगम, अवज्ञा, घृणा
अभक्ति		नेपाली, संस्कृत, मलया	3. ईश्वर के प्रति आस्था न होना
अभक्ष	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मलया, बंगला	1. आहार न ग्रहण करना, उपवास या अनशन करना
अभक्षण		हिंदी, गुजराती, बंगला	2. निषिद्ध या कुखाद्य भोजन यथा मद्य माँस आदि
अभक्षणं	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	3. अपथ्य, अखाद्य, उपवास

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभक्त्रो		गुजराती	4. जो नहीं खाना चाहिये
अबद्रसगम्		तमिल	5. भक्षण न करने वाला, उपवासी
अभक्ष्यभक्षण	सज्ञा	गुजराती, संस्कृत, मराठी	वर्जित वस्तु खाना, जो नहीं खाना चाहिये उमे
अभक्ष्यभक्षणं		मलयालम	खाना अर्थात् अपथ्य भोजन, निषिद्ध भोजन
अभक्षाभक्ष	सज्ञा	गुजराती	• न खाने योग्य वस्तु खाना
अभक्षणीय	विशेषण	मराठी	1. जो पदार्थ खाने के योग्य न हो, अखाद्य,
अभक्ष्य		हिंदी, गुजराती, मराठी	अभोज्य, अपथ्य- जो रोगी के लिए वर्जित हो
अभक्ष्य		असमी, उड़िया, बंगला	2. जिसे खाना शास्त्र निषिद्ध हो, निषिद्धखाद्य,
अभक्ष्य		नेपाली, संस्कृत	वर्जित खाद्य
अभक्त्र		पंजाबी	3. जो खाया न जा सकता हो
अभक्ष्यं	सज्ञा	मलयालम	4. जिन वस्तुओं को खाना धर्म विरुद्ध हो
अभच्छे		नेपाली	एवं पाप माना गया हो
अभग	विशेषण	गुजराती, हिंदी, संस्कृत	भाग्यहीन, अभागा, अभागी, बदकिस्मत ~
अभग्न	विशेषण	हिंदी, बंगला	क्षयहीन, अक्षयी, टूटा हुआ नहीं, साबुत, पूरा,
अभगन		असमी	पूर्ण, समूचा, अटूट
अभण	विशेषण	गुजराती	1. न बोलना 2. निरक्षर
अभद्र	विशेषण	हिंदी, मराठी	1. जो भद्र, शिष्ट, सभ्य न हो, अशिष्ट, निदित,
अभद्र		उड़िया, बंगला, असमी	निम्नकोटि का, क्लेशदायक, दुष्टतापूर्ण, नीच
अभद्र		गुजराती, मलयालम	2. जो भद्र या सभ्यों के लिए उपयुक्त या शोभन न हो
अभद्र		नेपाली, संस्कृत	3. जो कल्याण या मंगल में बाधक हो, अशुभ,
अभद्र		पंजाबी	अमांगलिक, गदा, वीभत्स + 4. गुण्डा (पंजाबी)
अभद्रता	सज्ञा	हिंदी, बंगला, संस्कृत	1. पाप, बुराई, दुष्टता, दुर्दैव, सकट, अशुभता
अभद्रं	सज्ञा	मलयालम	2. अनुचित या अशिष्ट व्यवहार, असभ्यता
अभद्रा	सज्ञा	बंगला	दुर्योग, विघ्न, अमंगल
अवयङ्गात्तल्	अकर्मकक्रिया	तमिल	अंडे सेना; ध्यान मुद्रा, ध्यानलीन होना (अभयंगा)
अभय	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. भय रहित, निर्भय, निडर, बेखौफ, भयशून्य,
अभय	विशेषण	नेपाली, संस्कृत, कन्नड	सुरक्षित, हैसले वाला + 2. वह जो शरण मांगता है
अभय		असमी, उड़िया, बंगला +	3. वह जिसके पास कोई सम्पत्ति न हो (हिंदी)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभो, अभउ		पंजाबी	शरण स्थान + 4. शोर-गुल (तमिल)
अभयमु		तेलुगु	5 साहस, सरक्षण, आश्रय, निर्भयता, सुरक्षितता,
अभयं	संज्ञा	मलयालम	प्रोत्साहन, आश्वासन, भरोसा, शरण में लेना
अबयम्/अबयम्		तमिल	6 परमात्मा, ब्रह्मज्ञान; उशीर, खस (संज्ञा)
अभयता	संज्ञा	हिंदी, पंजाबी, गुजराती	निडरता, निर्भयता, भय हीनता, त्रासहीनता
अभयकर	विशेषण	हिंदी, गुजराती, कन्नड	निर्भय करने वाला, भय रहित करने वाला
अभयङ्कर		मलयालम, गुजराती, संस्कृत	आश्रय देना, भयावना नहीं, सुरक्षा करने वाला,
अबयक्कल्	संज्ञा	तमिल	बाऊड़ी या परकोटे के पत्थर जो निर्भयता प्रदान करते हैं (अभय पाषाण)
अभयचारी	विशेषण	हिंदी	1 निर्भय विचरण करने या घूमने वाला, स्वच्छद
अभयचारिन्		संस्कृत	2 ऐसे पशु जो अवध्य हों, जिन्हें मारने की मनाही हो
अभयडिंडिम	संज्ञा	मराठी, हिंदी, संस्कृत	1 युद्ध का नगाडा, रणभेरी, सैनिक ढोल
अभयडिण्डिमं		मलयालम	2. सुरक्षा के लिए, डोडी पीटकर सूचना देना
अभयतुन्दुभि		संस्कृत	अभयदान घोषणा
अभयदंड	संज्ञा	गुजराती	अभय करने का डडा
अबयङ्कोडुत्तल्	सकर्मकक्रिया	तमिल	अभयदान देना, हाथ उठाकर सुरक्षा का संकेत देना
अभयदान	संज्ञा	हिंदी, मराठी, गुजराती	1 सुरक्षा का आश्वासन देना, शरण में लेना,
अभयदान		नेपाली, मलया, संस, बंगला	सुरक्षा करना, सलामती बख्शना, अभयवचन
अभयप्रदान		कन्नड, बंगला	देना, मार्फा देना, भयमुक्ति की प्रतिज्ञा
अबयदानम् (पिरदानम्)		तमिल	2 एक जैन दर्शन, एक जैन अर्हन् 3 विष्णु
अभय दक्षिणा	संज्ञा	संस्कृत, बंगला	4 भयमुक्त करने की प्रतिज्ञा या वचन देना
अभयदा		मलयालम, संस्कृत	1 आश्वासन देना, सुरक्षा एवं शरणदाता
अभयदाता	विशेषण	बंगला, कन्नड	2 रक्षा करने वाला, रक्षक, सरक्षक
अभयदायी		हिंदी	3 निर्भय रहो, तुम्हारी रक्षा हम करेंगे ऐसा
अभयदायिन् (रायि)		संस्कृत, मलयालम	वचन देने वाला
अभयदेणें	सकर्मकक्रिया	मराठी	सुरक्षितता की गवाही या आश्वासन देना
अभयन् (अबयन्)	संज्ञा	मलयालम, तमिल	1. शिव 2 निर्भय व्यक्ति
अभयपद	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, कन्नड	1. मुक्ति, मोक्ष, भयरहित स्थिति
अभयपद		गुजराती, संस्कृत	2 निर्भयता प्रदान करने वाली स्थिति

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभयपत्र	संज्ञा	हिंदी	1. संरक्षण का लिखित आश्वासन
अभयपत्र		गुजराती	2. वह पत्र जिसे दिना कर व्यक्ति मकट की स्थिति में
अभयपत्र		मराठी	निरापद पार जा सकता हो
अभयप्रद	विशेषण	हिंदी, मलया, कन्नड	अभय देने वाला, अभयदानी, रक्षा करने वाला
अभयिंचु	सकर्मकक्रिया	तेलुगु	1. आश्वमान या तमल्ली देना 2. हिम्मत बंधाना
अभयमिदुतल्	अकर्मकक्रिया	तमिल	अभय मांगना, सहायता मांगना
अभयमुद्रा	संज्ञा	हिंदी, गुजराती	1. दायें हाथ को कलाई में सामने की ओर खड़ा
अभयमुद्रा		संस्कृत, मराठी	कर निर्भयता का संकेत करना
अभयमुद्रा		मलयालम, नेपाली	2. प्रायः बुद्ध मूर्ति में दर्शित एक योगमुद्रा या
अभयमुत्तिरै		तमिल	तत्रोक्त संकेत
अभयांजलि	संज्ञा	गुजराती	हाथ जोड़कर अभयदान की प्रार्थना
अभयवचन	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत, गुजराती	1. रक्षा का आश्वासन वचन या प्रतिज्ञा या दिलासा
अभयवचन(वाक्य)	संज्ञा	मराठी, मलया, बंगला, नेपा	2. इस बात का आश्वासन या वचन कि तुम्हें
अभयवाक्कु	संज्ञा	तमिल	किसी से डरने की आवश्यकता नहीं
अभयवनं (न)	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत, हिंदी	राज संरक्षित वन, अभयारण्य (सेन्ट्री)
अभयास्तम् (हस्तम्)	संज्ञा	तमिल	1. देव मूर्ति या महान पुरुष का सुरक्षा संकेत का हाथ
अभयहस्त	संज्ञा	मराठी, कन्नड	2. मंदिर में भक्तों को दी जाने वाली चंदन की
अभयहस्तमु	संज्ञा	तेलुगु	देवमूर्ति के हस्त विह वाली बट्टी
अभयात्तम्		तमिल	3. प्रसन्नता, प्रमाद, शान्तिप्रद अभय जनाने वाली
अभयवरदक्कै		तमिल	हस्त मुद्रा, वरदहस्त 4. आशीर्वाद का हाथ
अभया	संज्ञा	हिंदी, मराठी, मलया	1. दुर्गा, भगवती की मिह वाहिनी मूर्ति, भयशून्या
अभया	विशेषण	उड़िया, बंगला, संस्कृत	2. हरड़ या हरीतकी 3. जिसे भय या डर न हो
अभयी	विशेषण	गुजराती	निर्भय, निडर
अभयर्	संज्ञा	तमिल	वीर, योद्धा
अभयन्	संज्ञा	तमिल	1. अर्द्धत जो निर्भय हैं 2. चोलराजा
अभरवसा	विशेषण	मराठी	भरोसा न होना, अविश्वाम, निराशा, धोखा
अभर	विशेषण	हिंदी	1. बहुत भारी, जो ढोया न जा सके, दुर्वह
अभर	विशेषण	गुजराती, मराठी	+ 2. खाली, गरीब (गुज) 3. जो भरा न जा सके (पंजाबी)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभर अभरन	विशेषण	पंजाबी, संस्कृत हिंदी	+ 4 आकठ तृप्ति, पूग सतोप, छकना, अघाना, दिल भर जाना, परम तृप्ति, छाकाछक (मराठी), गिक्त + 5 अपमानित जिमकी प्रतिष्ठा या मान नष्ट कर दिया है (हिंदी)
अम्बर अम्बरवां अम्बरदा	विशेषण विशेषण विशेषण	पंजाबी पंजाबी पंजाबी	1 जो भग्ने योग्य न हो 2 नियम विरुद्ध वमूल किया गया टेक्म आदि 3 नाजायज, अवोग्य, चट्टी, नुकसान
अभराभरण अभराभरण	विशेषण सजा	गुजराती गुजराती	1 गरीब का भरण पोषण करने वाला 2 गरीब का भरण पोषण (सजा)
अभरेभरतुं	विशेषण	गुजराती	आकठ तृप्ति, पृच्छल भरना, समुद्ध करना, पूर्णत
अभर्तृका अभर्तृका	सजा	हिंदी, मलयालम गुजराती, मराठी, संस्कृत	1 पति रहित, गतधवा, विधवा, धनी विना स्त्री 2 विना भर्ता प्राप्त, कृपागी, अविवाहिता
अभल अभल	विशेषण सजा	हिंदी हिंदी	1 भला नहीं, बुरा, खराब 2 भलाई या मंगल का अभाव, अशुभ कामना (सजा)
अभव अभव अभवं (नु) अभव अभवुडु	विशेषण सजा सजा सजा सजा	हिंदी, गुजराती बंगला, कन्नड मलयालम संस्कृत तेलुगु	1 अमागलिक, अशुभ, अदभुत, विनक्षण, भद्रा, भौडा, अशिष्ट, असभ्य 2 न होना, अनस्तित्व, विनाश, प्रलय, मर्माति 3 अजन्मा, उन्वतिहीन, स्वयम्, शिव + 4 जो जन न हो (कन्नड) 5 मोक्ष, नैसर्गिक मृग
अभव्य अभव्य अभव्य अभव्य	विशेषण	हिंदी बंगला नेपाली, संस्कृत मलयालम	1 न होने योग्य, अमागलिक, अमृदर, अभागा, अनुचित, प्राग्बधीन, मदभागी, अशुभ 2 जो भव्य न हो या विशाल न हो 3 जो जीव मोक्ष का अधिकारी न हो (जैन)
अभांड अभांडमु	सजा	मराठी तेलुगु	1 तोहमत लगाना, मिथ्यारोप, निराधार दोषारोपण, कलक 2 अतिशय, मर्यादा से अधिक
अभाऊ	विशेषण	हिंदी	1 जो न भावे या अच्छा न लगे 2 अशोभन
अभाग अभाग अभागं	विशेषण सजा	हिंदी, गुजराती, संस्कृत नेपाली, मलयालम मलयालम	1 जिसका भाग या खंड न हो सके, अविभक्त 2 खोटा कर्म (नेपाली), भाग्यहीन, दुःखी, अभागी शरीर का निषेधित भाग, मर्मस्थल

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभागा	विशेषण	हिंदी, असमी	1. जिसका भाग्य अनुकूल न हो, भाग्यहीन,
अभागा		बंगला, उड़िया	बदनसीब, कम नसीब, दुर्भाग्य शाली (अनफारचुनेट)
अभागु		सिंधी	2. जिसने बहुत ठोकरें खायी हों या कष्ट सहे हों
अभागिया		बंगला	1. जायदाद में हिस्सा न पाने वाला
अभागियुं/अभागियणं	विशेषण	गुजराती	+ 2. जिसे यश न मिला हो (नेपाली)
अभागि	संज्ञा	मलयालम	3. भाग्यहीन, कम नसीब, नालायक
अभागिन्	संज्ञा	संस्कृत	4. शरीक या शामिल न होने वाला, भाग न लेने वाला
अभागी		हिंदी, गुज, नेपा, बंग	5. बदकिस्मत, कमबख्त, बदनसीब
अभाग्य	संज्ञा	हिंदी, मराठी, मलया, गुज	1. भाग्य का अभाव, भाग्यहीनता, बदकिस्मती,
अभाग्य		नेपा, अस, बंग, कन्न	फूटा भाग्य, बुरा नसीब, दुर्दैव, दुर्भाग्य
अबाक्कियम्		तमिल	2. जिसके नसीब में सुख न लिखा हो,
अभाग्यमु		तेलुगु	दुःखी, अप्रमन्न, किस्मत का मार्ग
अभाग्यवान	विशेषण	गुजराती, असमी, बंगला, मराठी	बदनसीब, भाग्यहीन, दुर्दृष्ट, जन्मत्रला, दरखी,
अभाग्युडु		तेलुगु	कम नसीब, बदकिस्मत, फूटे भाग्य वाला
अभाजन	विशेषण	हिंदी, असमी	1. जो उपयुक्त भाजन या पात्र न हो, अपात्र
अभाजन		बंगला, कन्नड	2. अयोग्य, नालायक, कुपात्र, निर्गुणी व्यक्ति
अभानं (म्)	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	आत्मप्रकाश या आत्मानुभूति न होना, मानसिक अंधता, चित्त में परे
अभाल्	विशेषण	असमी	अमगल, दुर्भाग्य, अपकार, बुरा, चोट
अभार	विशेषण	हिंदी	1. इतना भारी कि ढोया न जा सके, दुर्वह
			2. भार का अभाव 3. अनुचित या बुरा भार
अभाव	संज्ञा	हिंदी, सिंधी	1. अस्तित्व में न होने की अवस्था या भाव 2. असत्ता,
अभाव		गुजराती	अस्तित्वहीनता, मृत्यु, नाश, ध्वंस, प्रलय, इन छः
अभाव		असमी	प्रमाणों में से एक+ 3. नास्तिकता (मराठी)
अभाव		मराठी	4. उपस्थिति या विद्यमानता न होने की अवस्था,
अभाव		नेपाली	अनुपस्थिति, अविद्यमानता, अप्रस्तुत
अभाव		उड़िया	5. गुण, वस्तु आदि की कमी होने का भाव,
अभाव		बंगला	दुर्लभता, ज़रूरत, न्यूनता, त्रुटि, अप्राप्ति
अभाव		कन्नड	6. अच्छे या सद्भाव की कमी 7. न मिलने की अवस्था

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभावं		मलयालम	8. वैर-विरोध का भाव या दुर्भाव
अभाव		संस्कृत	9. न्याय शास्त्र में अस्तित्व विरोधी पाँच स्थितियों
अभावमु		तेलुगु	यथा: (प्राग् भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव,
अबावम्		तमिल	संसर्गाभाव, अन्योन्या भाव आदि)
अभावअभियोग	संज्ञा	असमी	शिकायत, दोषारोपण
अभावक	विशेषण	हिंदी	1. भाव या सत्ता से रहित 2. अभाव सूचित या
अभावग्रस्त	विशेषण	असमी, हिंदी, बंगला	उत्पन्न करने वाला, जरूरतमंद, कंगाल, गरीब
अभावक्रिये	संज्ञा	कन्नड	अभावक्रिया, नकारात्मक भाव
अभावणी	संज्ञा	मराठी	आज़माइश करना, परीक्षण कर देखना
अभावन	विशेषण	हिंदी	1. सुन्दर, रुचिकर 2. न भाने वाला, अप्रिय
अभावना	संज्ञा	मलयालम	+ 1. कल्पना न होना, ध्यान न लगना (मलयालम)
अभावना		हिंदी	2. विवेक, निर्णयशक्ति या यथार्थ ज्ञान की अनुपस्थिति
अभावना		संस्कृत	3. ध्यान की कमी, ध्यानशून्यता
अभावनीय	विशेषण	हिंदी, मराठी	1. जो भावना में न आ सके, सोचा-समझा न जा
अभावनीय		असमी, बंगला, संस्कृत	सके 2. अचिंतनीय, अचिंत्य, अकल्पनीय, अगोचर,
अभावनीय		मलयालम	अकल्प्य (इन-कन्सीवेबल), असंभावनीय
अभावपदार्थ	संज्ञा	हिंदी	वह पदार्थ जिसकी सत्ता न हो, असद् पदार्थ
अभावप्रमाण	संज्ञा	हिंदी	कारण के अभाव में कार्य होने का प्रमाण (न्याय)
अभावयोगं	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	आसक्ति का अभाव, शून्यता, आत्मा का ध्यान
अभावात्मक	विशेषण	हिंदी, गुजराती	अभाव रूप या अभाव सूचक होना
अभाविक	विशेषण	मराठी	1. नास्तिक, श्रद्धाहीन, अनिष्ठावान 2. अकल्पित,
अभाक्वित्त	विशेषण	हिंदी, मराठी	आकस्मिक 3. थोड़े प्रमाण में, स्वल्प अंश में (पदार्थ)
अभाक्वित्त		बंगला	1. अचिन्तित, अप्रत्याशित, पहले न सोचा हुआ
			2. जिस पदार्थ में किसी दूसरे पदार्थ की भावना या
			पुट न दिया गया हो (आयुर्वेद)
अभाषी	विशेषण	हिंदी, मराठी	1. जिसकी सत्ता न हो, न होने वाला
अभाविन्	अव्यय	संस्कृत	2. अभाव में, जरूरी होने पर, न होने पर, बजाय
अभाष्य	विशेषण	हिंदी, बंगला	1. जो न है, न होगा, असंभाव्य 2. असंभावनीय,
अभाष्य		मलयालम, संस्कृत	अचिन्तनीय, जिसकी भावना न की जा सके

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभाषण अभाषणं	सज्ञा	हिंदी, बंगला, कन्नड, संस मलयालम	न बोलना, मौन धारण करना, मौनावलबन, चुप रहना, बात न करना
अभाषित अभाषितपुंस्कं अभिआड़ी	विशेषण सज्ञा विशेषण	हिंदी, नेपा, मलया, संस मलयालम, संस्कृत उड़िया	न कहा या न सुनाया हुआ, अनुक्त, अकथित जो शब्द केवल स्त्रीलिंग ही प्रयुक्त हो अविवाहिता, कुमारी, जिसका अभी विवाह नहीं हुआ
अभिन्न अभिन्न अभिन्न अभिन्न अभिन्नम्	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, बंगला कन्नड, नेपाली, गुजराती असमी, उड़िया, मराठी मलयालम तमिल	1 जो अलग या पृथक नहीं, अखंड, अटूट, सलग्न, सबद्ध, साबुत, अविभक्त, अबाधित, एक रूप, अपरिवर्तित, भेद या अंतर रहित, अविच्छेद, अतरंग 2 घना, घनिष्ठ, सटा हुआ, न फूटने वाला या न फूटा हुआ +3 परिणाम न निकलना (मगठी)
अभिन्नता अभिन्नता	सज्ञा सज्ञा	हिंदी, गुजराती संस्कृत	अभिन्न होने की अवस्था, एकरूपता घनिष्ठ सबध, भेद या विलगाव का अभाव
अभिन्नपद अभिन्नपद	सज्ञा	हिंदी नेपाली	1 श्लेष अलंकार का एक भेद (हिंदी) 2 अभगपद (नेपाली)
अभिन्नशाला अभिन्नशाला	सज्ञा	मलयालम संस्कृत	गयुक्त भवन, चौकोर जिसके चारों ओर इमारत हो, वह घर जिसके बीच में आगन हो
अभिन्नहृदय	विशेषण	हिंदी	एक दिल एक जान, वे व्यक्ति जिनके भावों विचारों में भेद न हो
अभिन्नाशक्ति अर्भीज	विशेषण	तमिल गुजराती	शिवशक्ति जो पृथक नहीं हो सकती (अभिन्न शक्ति) जो भीगे नहीं, या भीगा न हो
अभी अभीत (अभीक)	विशेषण विशेषण	हिंदी, संस्कृत, बंगला हिंदी, गुजराती, बंगला, मलया	निडर, निर्भय, भय रहित, निर्भीक, न डरा हुआ, बे खौफ
अभीति अभीति	सज्ञा	हिंदी, गुजराती मलयालम, संस्कृत	1 निर्भयता, अभयमुद्रा निर्भीकता, भय या भीति न होने की अवस्था 2 हमला, धावा 3 नैकट्य
अभीम अभीरुण	सज्ञा	मलयालम, संस, नेपा, हिंदी मलयालम, संस्कृत, हिंदी	भयकर या विशाल नहीं, जो भय उत्पन्न न करे हानि रहित, भयहीन, अभयकर, सौम्य, शान्त, निर्दोष
अभीरु अभीरु	विशेषण	नेपाली, कन्नड, हिंदी मलयालम, संस्कृत	1 निडर, निर्भीक, साहसी, दृढ़, धैर्यशाली, निर्दोष 2 शिव, भैरव; युद्धभूमि (सज्ञा)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभीरुवु		तेलुगु	3 जो भीरु या डरपोक न हो
अभुक्त	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1 न खाया हुआ, अभुक्त पदार्थ, अच्छा, जूठ नही
अभुक्त		गुजराती	2 जिमने भोजन न किया हो, अनाहारी, उपवासी
अभुक्त		असमी, बंगला	3 भोग, उपभाग न किया हो, अव्यवहृत, जिमका
अभुक्त		उड़िया	मुख नहीं उठाया गया, अनभोगा
अभुक्त		मराठी	4 जिमने भोग न किया हो, अतृप्त
अभुक्त		मलयालम	+ 5 जो चोक भुनाया न गया हो (हिंदी)
अभुक्तपूर्व	विशेषण	हिंदी	जिसका पहले भाग उपयोग या व्यवहार न किया
अभुक्तपूर्व		असमी	गया हो, अभोगा, अव्यवहृत
अभुक्तमूल	सज्ञा	हिंदी	च्येष्टा नक्षत्र के अंन के चार और मूल नक्षत्र
अभुक्तमूल		गुजराती, मराठी	के आदि की चार घडियो का सम्मिलित नाम
अभुग्न	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1 न झुका हुआ, मीधा, अकुटिल
अभुग्न		संस्कृत, मलयालम	2 निरोग, स्वस्थ, अच्छा, भला
अभुज	विशेषण	हिंदी, मलया, नेपा, संस	1. भुजाहीन, बाहु रहित, पगु, लजा 2. लूला (नेपाली)
अभुजिष्या	सज्ञा	संस्कृत	स्त्री जो दासी या टहलनी न हो, स्वतंत्र स्त्री
अभू	विशेषण	नेपाली, मलया, संस, हिंदी	1 न जन्मा हुआ, अन उत्पन्न 2 विष्णु, ईश्वर (सज्ञा)
अभूत	विशेषण	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	1 जो अस्तित्व में न आया हो, या घटित नहीं हुआ
अभूत		नेपाली, मराठी	हो, अपूर्व, अज्ञान, अविद्यमान, अघटित, झूठा,
अभूत		बंगला, मलया, कन्नड	मिथ्या 2. अनूठा, जयथार्थ, असाधारण
अभूतमु		तेलुगु	+ 3. भूत काल नहीं, वर्तमान (मलयालम)
अभूतम्		तमिल	+ 4 पांच महाभूतों में से नहीं (मलयालम)
अभूतं	सज्ञा	मलयालम	शरीर का मर्मस्थल, घातक स्थल, नश्वर स्थल
अभूतउपमा	सज्ञा	मराठी	1 पदार्थ न होने पर भी कल्पना की सहायता से
अभूतोपमा	सज्ञा	हिंदी	उपमा देना 2 चमोत्कर्ष सिद्ध करने के लिए, उपमा न देना
अभूताहरण	सज्ञा	हिंदी	1 ऐसी बात कहना जो कभी हुई ही न हो
अभूत-आहरण		मराठी	2 कपटपूर्ण, व्यंग्यमय, धोखेभरी या किसी को
अभूताहरणं		मलयालम	छकाने के लिए झूठी बात कहना
अभूताहरण		संस्कृत	+ 3. सारगर्भित, लाक्षणिक भाषण (मराठी)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभूतघर	विशेषण	मलयालम	जिसका कोई और उदाहरण न हो, बेजोड़
अभूत तद्भाव	संज्ञा	गुजराती	जो नहीं था वह होना
अभूत दोष	विशेषण	हिंदी	जिसमें कभी कोई दोष उत्पन्न न हुआ हो, निर्दोष
अभूतपूर्व	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. जैसा पहले कभी न हुआ हो, अपूर्व, नया,
अभूतपूर्व		असमी, उड़िया, बंगला	अभिनव, अनोखा, अद्भुत, विचित्र, आश्चर्यजनक,
अभूतपूर्व		नेपाली, कन्नड, संस्कृत	लोकोत्तर, बेजोड़, जैसा दूसरा न हो
अभूतपूर्व		मलयालम	2. जो पहले किसी उदाहरण से समर्थित न हो
अभूतशत्रु	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	जिसका कोई शत्रु न हो
अभूति	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. अनस्मिन्त्व, अविद्यमानता 2. धन या शक्ति का
अभूति		नेपाली	अभाव, अत्यन्ताभाव, निर्धनता, कगाली, गरीबी
अभूति		मलयालम	3. दीनता. कष्टग्रस्तता, मुसीबत, विपत्ति, मंकट
अभूमि	संज्ञा	हिंदी, मलयालम	1. अनुपयुक्त स्थान, स्थानाभाव, अयोग्यभूमि
अभूमि		मराठी, संस्कृत	2. पृथ्वी को छोड़ अन्य कोई भी पदार्थ
अभूमिप्राप्त-सैन्य	विशेषण	मलयालम	1. ऐसे स्थान पर पड़ी हुई सेना जहाँ से लड़ना असंभव हो
अभूमिप्राप्त सैन्य	संज्ञा	हिंदी	2. प्रतिकूल भूमि में पड़ी हुई सेना (कौटिल्य)
अभूरि	विशेषण	मलयालम, संस्कृत, हिंदी	बहुत नहीं थोड़ा, कम, कुछ
अभूल	विशेषण	गुजराती	1. बेभान, अनजाने में
अभुल्ल		पंजाबी	2. न भूलने वाला, जो भुलाया न जा सके (पंजाबी)
अभूष	विशेषण	हिंदी	1. जो भूषित या मजाया हुआ न हो
अभूषित		हिंदी	2. जिसके पास आभूषण न हो, भूषण रहित
अभृत	विशेषण	मलयालम	1. जो किराये-भाड़े पर न हो; जिसका किराया
अभृत, अभृत्रिम		संस्कृत	न दिया गया हो + 2. बिना सहाये; असहनीय (मलया)
अभृत		हिंदी	+ 3. न गैका हुआ (मलया) + 4. असमर्थित (संस्कृत)
अभृतक	विशेषण	हिंदी	1. जिसका भाड़ा, वेतन आदि न चुकाया हो (अनपैड)
अभृतक		संस्कृत	2. जिसका भरण-पोषण न किया गया हो
			3. जो भृत या दास न हो; जिसके पास दास न हो
अभृश	विशेषण	हिंदी, मलया, संस्कृत	अधिक नहीं, थोड़ा. कुछ, चंद

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभेग	सज्ञा	नेपाली	विवाह की उमर निकल जाने वाली कन्या
अभेद	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 जिसमे कोई भेद या अन्तर न हो, जो रूप आकार
अभेद		असमी, उड़िया, बंगला	आदि मे किसी के समान, अनुरूप, मिलता जुलता हो
अभेद		नेपाली, कन्नड, संस, मलया	2 जिसके भेद या विभाग न हुए हो, अविभक्त
अभेद	सज्ञा	मलयालम	3 भेद का अभाव, अभिन्नता, अनुरूपता, एकरूपता,
अभेद/अभेद		पंजाबी	गमानता, अद्वैत, निकट सबध, मनिष्टता
अभेदम्		तमिल	4 उपमान का उपमेय पर बिना घटाये बढ़ाये
अभेदमु	विशेषण	तेलुगु	आरोप किया जाय (रूपक अलंकार का एक भेद)
अभेदकट्टसि		तमिल	समाजवाद (अभेदकाक्षि), साम्यवाद
अभेदयोग	सज्ञा	गुजराती	सम्पूर्ण एकता (समदर्शिता)
अभेदात्मा	सज्ञा	बंगला	आत्मा का अभिन्न स्वरूप, ममान मनोभाव सम्पन्न
अभेदज्ञान	सज्ञा	बंगला	समदर्शिता, भेद ज्ञान रहितता
अभेदभाव	सज्ञा	गुजराती	समान समझना, किसी को ऊचा या नीचा न मानना
अभेदमार्ग	सज्ञा	गुजराती	अद्वैत पथ, वेदान्त मान्यता
अभेदवाद (मत)	सज्ञा	मराठी	जीवान्मा-परमात्मा मे भेद न मानना
अभेदवादम्		तमिल	अद्वैत वाद जो जीव और परमात्मा मे अभेद बतावे
अभेदवादी	विशेषण	हिंदी, तमिल	अद्वैतवादी, आत्मा परमात्मा को एक मानने वाला
अभेदशैवम्	सज्ञा	तमिल	सोलह शैवों मे एक जो ध्यानतत्परता मे स्वय तथा शिव मे एकत्व या अद्वैत मानता है
अभेदि	विशेषण	मलयालम	1 न काटना, विभक्त न करना, विभक्त न कराना
अभेदिन्		संस्कृत	2 काटने, तोड़ने, छेदने विभाजन करने योग्य नहीं
अभेदीकरण	सज्ञा	गुजराती	भेद रहित अर्थात् एक करना, एकीकरण
अभेद्य	सज्ञा	हिंदी, मराठी, नेपाली	1 जिसका भेदन न हो सके या जो बेधा, तोडा-फोडा
अभेद्य	विशेषण	असमी, उड़िया, कन्नड	या अलग न किया जा सके, अखंडनीय
अभेद्य		गुज, बंगला, संस, मलया	2 जिसमे घुसा न जा सके, जिस पर कब्जा न किया
अभेद्यं	सज्ञा	मलयालम	जा सके, जिसका भेद रहस्य पता न लगे
अभेदनीय	विशेषण	हिंदी	3 अभग, अटूट, अनश्वर, अविभाज्य, ठोस, अछेद्य
अभेद्यमु		तेलुगु	+ 4 हीरा (मलयालम, संस्कृत) (सज्ञा)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभेद्यता	संज्ञा	असमी, गुजराती, बंगला	1. अभेदपन, भेद न रख सकने की अवस्था
अभेद्यता	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	2. अप्रवेश्यता, अविभाज्यता
अभेरना	क्रिया	हिंदी	1. भेद दूर करना 2. मिश्रित करना, मिलाना 3. अनुरक्त या प्रवृत्त करना
अभेष	विशेषण	संस्कृत	1. भेष या वेश रहित (साधु), जो किसी भी वेश में हो
अभेख		पंजाबी	2. जिमका कोई मत, पंथ या सम्प्रदाय न हो
अभोक्ता (बु)	विशेषण	हिंदी, बंगला, मलया	1. जो वस्तु का उपयोग, उपभोग न करे, उससे
अबोक्ता		तमिल	मिलने वाला मुख न प्राप्त करे या न करता हो
अभोक्तृ		संस्कृत	2. परहेज़ी, उपवामी 3. विरक्त, उदासीन
अभोग	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	1. भोग, उपभोग का अभाव, व्यवहार में न लाया हुआ, अछूता 2. जो चलन में न हो, अनुपयुक्त
अभोक/अभोग		गुजराती	+ 3. ध्रुपद के तीन भागों में से अंतिम (गुजराती)
अभोगं		मलयालम	+ 4. काव्य की अंतिम पंक्ति जिममें कवि का नाम हो (गुज)
अभोगी	विशेषण	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	भोग न करने वाला, विरक्त, त्यागी, अभोक्ता
अभोग्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. जिसका भोग या उपयोग अनुचित, वर्जित या
अभोग्य		नेपाली, असमी, बंगला	अयोग्य हो, अनुपयुक्त
अभोग्य		मलयालम, संस्कृत	2. जिससे संभोग करना निषिद्ध हो
अभोजनं	संज्ञा	मलयालम	1. भोजन न करना, उपवास रखना
अभोजन		हिंदी, संस्कृत	2. खाने से परहेज़, भोजन का अभाव
अभोजनग्राही	विशेषण	हिंदी	1. न खाने वाला, परहेज़ी, उपवामी
अभोजनग्राहिन्		संस्कृत	2. जिसे भोजन देकर न खा जाता हो (नान-डाइटेड)
अभोजनीय	विशेषण	असमी	1. खाने के अयोग्य, अखाद्य, अशुद्ध या निषिद्ध
अभोज्य		अस, बंग, गुज, नेपा	खाद्य, अपथ्य, वर्जित भोजन
अबोधि्वयम्		तमिल	2. जिस व्यक्ति का अन्न खाना निषेध हो
अभोज्य		मलया, संस, मराठी, हिंदी	3. धर्म शास्त्रानुसार जो पदार्थ खाने की मनाही हो
अभोज्यभोजि	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1. वर्जित या निषिद्ध भोजन करने वाला
अभोज्यभोजी		हिंदी	2. अखाद्य या कुखाद्य पदार्थ भक्षण करने वाला

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभोल	क्रियाविशेषण	पंजाबी	1 वेसुधी या अचेता अवस्था 2 महज स्वभाव से
अभोल	विशेषण	मराठी	3. दुर्बल, अशक्त, कमजोर
अभौतिक	विशेषण	हिंदी, असमी	1 जो पचभूतों से न बना या उनसे सर्वाधिक न हो
अभौतिक		मलयालम, संस्कृत	2 आध्यात्मिक, अपार्थिव, असाधारण, अयथार्थिक
अभौम	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1 जो पार्थिव या सागारिक नहीं, भूमि से उत्पन्न नहीं
अभौम		संस्कृत	2 देविक, अपार्थिव, असाधारण
अभ्रम	विशेषण	हिंदी	1 भ्रम रहित, भूल से परे, स्पष्ट
अभ्रम	सज्ञा	गुजराती	2 स्थिरता, दृढ़ता, भ्रम का अभाव (संज्ञा)
अप्पिरमु/अप्पिरमै	सज्ञा	तमिल	पेरुवत की साथिन पूर्व दिशा की दैथिनी
अभ्रमु	सज्ञा	हिंदी, संस, कन्नड, मलया	पेरुवत की पत्नी, पूर्व के दिग्गज की पत्नी
अभ्रांत	विशेषण	हिंदी	1 जिसे भ्रम या शका न हो, समाधान प्राप्त
अभ्रान्त		असमी, उड़िया	2 भ्रमशून्य, निर्मूल, स्थिर 3 जिम बात में शका न हो
अभ्रान्त		मलयालम	4 रागल या भ्रान्तिमान नहीं, यथार्थज्ञाना, धीर
अभ्रान्त		नेपाली	5 जिसमें गलती या भूल नहीं हूट हा
अभ्रान्त		संस्कृत, बंगला	6 जो कल को कल और नहीं समझा
अभ्रान्तलक्ष्य		बंगला	निश्चित लक्ष्य या लक्ष्य में भ्रमहीन
अभ्रांति	सज्ञा	हिंदी	भ्रम या भ्रान्ति न होने की अवस्था या भाव
अभ्रातृक	विशेषण	मलया, बंगला, संस्कृत	भ्रातृहीन, जिसके भाई न हो
अभ्रातृष्य	विशेषण	हिंदी, मलया, संस्कृत	रतियोगी रहित, प्रतिद्वन्दी हीन, अचरुगठन
अभ्रापगा	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	स्वर्गारोहिणी, गया
अभ्रेषं	संज्ञा	मलयालम	1. अपने धर्म से न हटना (न्यायशास्त्र)
अभ्रेष		हिंदी, संस्कृत	2 सामजस्य, औचित्य, न्यायानुमोदित
अभ्रं (अभ्रवं)	सज्ञा	मलयालम	1 असार शक्ति, भीमाकारता, विशालता, समनता
अभ्र	विशेषण	हिंदी	+ 2. आपत्ति, विपत्ति 3 सामीप्य 4 जल, बादल (मलया)
अभ्रंग	विशेषण	उड़िया	अम्वीकृत, नामजूर
अभ्रंगल	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 अशुभ, अकल्याणकर, अनिष्टकर, दुर्भाग्य,
अभ्रंगल		असमी, उड़िया, बंगला	दुर्दशा, बदशगुनी, वृग, खराब, बुरी घटना,
अभ्रंगल		नेपाली, कन्नड, संस्कृत	हानि, अहित, भाग्यहीन, जो मंगलकारी न हो

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अमङ्गलं	मज्ञा	मलयालम	+ 2 अस्वच्छ, दुर्गन्धयुक्त (मराठी) + 3 मृणित,
अमंगलमु		तेलुगु	घिनौना (तेलुगु)
अमङ्गलम्	मज्ञा	तमिल	+ 4 जिसका मंगल न हुआ हो, अलाच्छिनी (नेपाली)
अमंगलकर	मज्ञा	कन्नड	अनिष्टकारी, कल्याणकारी नहीं
अमंगलकारि	मज्ञा	कन्नड	व्यक्ति जो अनिष्ट करने वाला हो, अनिष्ट दायक
अमंगलसूचक		बंगला	अनिष्टज्ञापक, अपशकन, हानि का संकेत
अमंगलहारि	मज्ञा	कन्नड	दुर्भाग्य दूर करने वाला, भगवान
अमङ्गलि	मज्ञा	मलया, तमिल, संस्कृत	जिसका मंगलमूल नहीं रहा, विधवा
अमंगले/अमङ्गलै		कन्नड, तमिल	जिसका पति नहीं रहा ऐसी स्त्री
अमंगल्य	विशेषण	हिंदी, बंगला, संस्कृत	1 अशुभ सूचक, भ्रमंगल जनक अनिष्ट कर
अमंगलीया		असमी	2 अशुभ, अकल्याणकर, भाग्यहीन
अमंत्र	विशेषण	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	1 मंत्र पाठ की उपेक्षा करने वाला
अमंत्रक		हिंदी, मराठी, मलयालम	2 वेदिक मंत्रों का ज्ञान न होना, वेद पढ़ा हुआ नहीं
अमंत्र		नेपाली	3 वेदमंत्र की शिक्षा का अनधिकारी स्त्री शूद्र आदि
अमंत्र		मराठी	4 मंत्र का अभाव, व कार्य जिनमें मंत्रों की जरूरत
अमंत्र		बंगला	नहीं, मंत्र शून्य, अर्दीक्षित
अमंत्र		मलयालम	5 चिकित्सा जिसमें जादू टोने की क्रिया न हो
अमण्डं (ड)	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1 मजावट या अलंकार रहित 2 जिसमें गाड़ न हो
अमंड	विशेषण	हिंदी	+ 3 अलंकृत या मजा हुआ नहीं (हिंदी)
अमण्डित	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	मुसाम्मिन नहीं, आभूषित नहीं, आलंकारिक नहीं
अमंद	विशेषण	हिंदी, कन्नड, संस्कृत	1 निगलम्य, क्रियाशील, परिश्रमी, उत्तम, तीव्र
अमन्द		मलयालम	प्रकाशवान, तेज, उग्र, प्रतिभावान, महत्त्वपूर्ण
अमंदमु		तेलुगु	2 दृढ़, कुशल, त्वरित, द्रुत, प्रयत्नशील, सुन्दर
अमंदं	अव्यय	मलयालम	वेग में, तीव्रता में, उग्रता में, शक्तिपूर्वक
अमंदारमुगा	क्रियाविशेषण	तेलुगु	बहुतायन में, पर्याप्त रूप में
अमग्ग (अमग्गी)	विशेषण	हिंदी	अनुचित या कुमार्ग पर चलने वाला
अमग्जक	विशेषण	हिंदी	मज्जा रहित, दुबला पतला, गूदे रहित
अमड़ा	विशेषण	उड़िया	कुमार्ग, अवाट, क्वाट

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अमणिआ	विशेषण	उड़िया	अमनिया, अशिक्षित, अबाध्य
अमणिब	विशेषण	हिंदी	मणिहीन, रत्नहीन
अमत	विशेषण	असमी, बंगला, हिंदी	1. अननुभूत, जिसका अनुभव न हो
अमत		नेपाली, कन्नड	2. असम्मत, अस्वीकार्य, अस्वीकृत, अमान्य, इष्ट नहीं,
अमत		गुजराती, मलयालम	नापसंद, अतर्कित, अविज्ञात, अज्ञात, अभावित
अमत		संस्कृत	3. मत या सहमति का अभाव, + गेग, मृत्यु (संज्ञा)(हिंदी)
अमति	संज्ञा	हिंदी	1. मति, बुद्धि, या ज्ञान का अभाव, अज्ञानता,
अमति		बंगला	अदृग्दर्शिता, नादानी
अमति		मलयालम	2. मति या सम्मति न होना, असहमति, असम्मति
अमति		कन्नड	3. अच्छी मति न होना, कुवृद्धि, दुर्वृद्धि, दुर्मति,
अमति		संस्कृत	दुष्टबुद्धि, कूटिलता, चरित्रभ्रष्टता
अमते	अव्यय	बंगला, असमी	असम्मति से, इच्छा के विरुद्ध, बिना मर्जी के
अमत्त	विशेषण	हिंदी	1. मद या नशे में नहीं, मही दिमाग का, सावधान,
अमत्त		संस्कृत	विचारशील, अप्रमत्त
अमत्त		मलयालम	2. शक्ति या अधिकार के मद में नहीं, सयत मन
अमत्सर	विशेषण	कन्नड, मलया, बंगला	1. ईर्ष्या रहित, उदार, प्रतियोगी भावना रहित
अमत्सर		संस्कृत, हिंदी	2. अगुया रहित, डाह रहित, मत्सर नहीं
अमधुं	विशेषण	गुजराती	व्यर्थ, नाकाम, अहेतुक, बिना मूल्य या बिना मेहनत का, मुफ्त का
अमद	विशेषण	हिंदी, मलयालम	अभिमान रहित, नशे में नहीं, गभीर
अमद		संस्कृत	प्रसन्न नहीं दुखी, विकल बंचेन, शोकान्वित
अमद्य	विशेषण	असमी	1. सुग, शराब नहीं 2. गर्व हीन, विनम्र
अमधुर	विशेषण	मलयालम, संस्कृत, हिंदी	मीठा नहीं, स्वादिष्ट नहीं, रुचिकर नहीं
अमन	संज्ञा	नेपाली, हिंदी, बंगला	1. जिसका किसी काम में मन न लगे 2. अरुचि
अमनस्		संस्कृत	3. जिसे अनुभूति ज्ञान न हो, बुद्धि न हो
अमनस्क	विशेषण	हिंदी, मराठी	1. मन की चंचलता या इच्छा में रहित, उदासीन,
अमनस्क		गुजराती, मलयालम	उदास, अनमना, विवेक शक्ति हीन
अमना		हिंदी, बंगला	2. जिसका चित्त कहीं और हो, अन्यमनस्क,

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अमनस्क		संस्कृत	लापरवाह, बेफिक्र, अनाविष्ट, किकर्तव्यविमूढ
अमनस्क		नेपाली	3 स्नेह शून्य, सकीर्णमन, नीच, ना समझ, मूर्ख
अमनस्क		बंगला	4 जिमका मन वश मे न हो, अमनोयोगी
अमनाक्	विशेषण	हिंदी, मलयालम	जो मनाक या थोडा न हो, अधिक
अमनाक्	अव्यय	संस्कृत	अधिकता से (अव्यय), अल्प नहीं, स्वल्प नहीं
अमनुष्य	विशेषण	असमी, उड़िया	1 मनुष्य नहीं शैतान, गक्षम, अज्ञानी, नीच व्यक्ति,
अमनुष्य		मलयालय, कन्नड	मनुष्यता हीन, पशुवत 2 पुरुषत्व नहीं, कापुरुष
अमनुष्य		संस्कृत, हिंदी	3 जहा मनुष्यो का नाम या अना जाना नहीं,
अमनुष्य		बंगला	मानवहीन 4 मनुष्येतर प्राणी
अमनुष्यता	मज्ञा	असमी	मनुष्य के अयोग्य गुण, अमान्यता, क्रूरता,
अमनुष्यत्व		बंगला	इन्मानियत नहीं इवानियत
अमनोयोग	मज्ञा	असमी	मनोयोग न होना, उदासीनता मनोयोगाभाव
अमनोयोगी	विशेषण	असमी, बंगला, उड़िया	ध्यान में या मन लगाकर काम न करने वाला
अमनैक	मज्ञा	हिंदी	लापरवाह, अमनस्क, अन्यमनस्क, मन्गामी करने वाला
अमनैकी	मज्ञा	हिंदी	स्वेच्छाचार, मनमाना आचरण या व्यवहार
अमन्यु	मज्ञा	मलयालय, संस्कृत	क्रोध रहित, गव रहित, दभ रहित, उद्धत नहीं
अमम	विशेषण	हिंदी	अहंकार शून्य, ममता कामनाहीन, निर्निग
अमम		संस्कृत	इच्छा/वाग्मना माह आसक्ति रहित, निःस्वार्थ
अममता	मज्ञा	गुजराती, संस्कृत	ममता या माह का अभाव
अममत्व	मज्ञा	गुजराती, संस्कृत	स्वार्थ रहितता अनासक्ति, उदासीनता
अमर	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 मृत्युहीन, जो मर नहीं, चिरजीवी सदाजीवी,
अमर		असमी, उड़िया, बंगला	अविनाशी, शाश्वत, चिरस्मरणीय, अव्यर्थ,
अमर		मलयालय, संस्कृत	चिरग्यात नामा, क्षय रहित, चिरस्थायी
अमर		नेपाली, कन्नड, पंजाबी	2 मज्ञा देवता, पाग, स्वर्ण, 40 पर्वों में से एक का नाम
अमरु		सिंधी	+ 3 नक्षत्रों का एक गण या वर्ग जो वर कन्या
अमरर्	मज्ञा	तमिल	क विवाह के पूर्व मिलाया जाना है (ज्यो. हिन्दी)
अमरुडु		तेलुगु	4 एक प्रकार का देवदारु का वृक्ष
अमरण (णं)	मज्ञा	असमी, हिंदी, मलया, संस	मृत्यु न होना, मृत्यु में परे, जो कभी मरै नहीं

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अमरता	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	न मरना, नष्ट न होना, अमरपन की स्थिति,
अमरता		नेपाली, बंगला, सिंधी	अमरपन की अवस्था या भाव या पद
अमरणत्व		कन्नड	अमरता, देवत्व, देवधर्म, मृत्युंजय, मोक्ष,
अमरत्व	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	अविनश्वरत्व, अविनश्वरता, चिरस्थायित्व,
अमरत्व		असमी, बंगला, कन्नड	कीर्तिस्थापन द्वारा चिरस्थायित्व, मुक्ति
अमर-अंगना	संज्ञा	कन्न, मरा, गुज, नेपा, संस 1.	अप्सरा, देवांगना, देव स्त्री 2. स्वर्ग की वेश्या
अमर-अधिप	संज्ञा	मराठी, संस्कृत, नेपाली	इंद्र, देवताओं का राजा, ईश्वर
अमर-आचार्य	संज्ञा	मराठी, संस्कृत	वृहस्पति, दंत्यगुरु
अमर गुरु	संज्ञा	नेपाली, कन्नड, संस, मलया, हिंदी	वृहस्पति, देवगुरु
अमर-आपगा	संज्ञा	मराठी, तेलुगु, संस्कृत, तमिल	गंगा, मन्दाकिनी, स्वर्ग की नदी
अमर-आलय	संज्ञा	मराठी, संस्कृत	स्वर्ग, देवलोक
अमर कंद	संज्ञा	मराठी	अमर बेल का कंद, गडूची, एक औषधि
अमर कुंज	संज्ञा	कन्नड	कल्पवृक्ष, सुरलोक का वृक्ष
अमररुर्कर्मम्	संज्ञा	तमिल	अमरगर्भम् (संस) देवलोक, स्वर्ग
अमरजननि	संज्ञा	कन्नड	इन्द्र की माता
अमर तटिनी	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत, मलया	देवनदी-गंगा
अमर तरु (दारु)	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, मराठी, मलया 1.	कल्पवृक्ष + 2. देवदारु वृक्ष (नेपाली)
अमरत्तुवम्	संज्ञा	तमिल	अविनाशिता, अमरता
अमर द्विज	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	1. पुजारी, वह ब्राह्मण जो मंदिर या मूर्ति संबंधी
अमर द्विज (त्रु)		संस्कृत, मलयालम	कार्य करता है + 2. देवालय का प्रबंधक (संस)
अमर धाम	संज्ञा	हिंदी	देव लोक, स्वर्ग
अमर धेनु	संज्ञा	कन्नड	कामधेनु, देवताओं की गाय
अमर नगेन्द्र	संज्ञा	कन्नड	ऐरावत ढाशी
अमरनदि (नदी)	संज्ञा	कन्नड, मलया, नेपाली	अमर गंगा
अमर पक्कम् (पक्ष)	संज्ञा	तमिल, नेपाली, हिंदी, मलया	पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष, जिसमें पितरों का श्राद्ध करते हैं
अमर पटो	संज्ञा	गुजराती	अमरता का ताम्रपत्र या आश्वासन
अमर पट्टा		हिंदी, मराठी	मृत्यु से मुक्ति की अनुज्ञा
अमर पत्र		मराठी	अमरपन का वरदान लेख

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अमर पति अमरर् पति	सज्ञा	गुजराती, कन्नड तमिल	इंद्र, देवाधिप, देवताओं का राजा या स्वामी अमरो अर्थात् देवताओं का पति
अमर पद (वं)	सज्ञा	हिंदी, नेपाली, पंजाबी, मलया	देवपद, मोक्ष, अमर पदवी, मुक्ति
अमर पुर (रं) अमर पुरी	सज्ञा सज्ञा	हिंदी, तमिल, नेपाली, मलया संस्कृत, गुजराती, सिंधी 2	देवनगरी, अमरावती, इंद्रपुरी स्वर्ग, अमरपुर जहाँ देवता निवास करते हैं
अमर पुष्प अमर पुष्पक (कं)	सज्ञा सज्ञा	हिंदी, संस्कृत हिंदी, संस्कृत, मलया	कंतकी, कासतृण, आम, तालमखाना, गोखरू कल्प वृक्ष, स्वर्ग का वृक्ष
अमर फल	सज्ञा	गुजराती	अमरता देने वाला फल
अमर बेल अमर बेल	सज्ञा	हिंदी, पंजाबी गुजराती, मराठी	1 दृष्ट्योग में कूर्मलिनी का वह रूप जब उसके सङ्ग्रह में बहुतने पर ब्रह्मर्षि में अमृत प्रवाहित माना जाता है 2 आकाश बेल नाम की एक लता
अमर रत्न (नं) अमर राज अमराद्रि (रांचल) अमरारि	सज्ञा सज्ञा सज्ञा सज्ञा	हिंदी, संस्कृत, मलया हिंदी हिंदी, कन्नड हिंदी	स्फटिक मणि देवताओं का रत्न इंद्र, देवलोक का राजा देव पर्वत, सुमेरु पर्वत केव शत्रु, राक्षस, अमर
अमर लता अमर बल्लि	सज्ञा सज्ञा	कन्नड, हिन्दी, मलया तमिल, नेपाली, कन्नड	आकाश बेल आकाश बेल
अमरमुनि (ऋषि)	सज्ञा	कन्नड, मलयालम	नागद, कोई भी देवर्षि
अमर लोक अमर लोकम् (कं)	सज्ञा सज्ञा	गुज, मरा, पंजा, नेपा, कन्न तमिल, मलयालम	1 देवलोक, स्वर्ग, इंद्रपुरी + 2 माधु समर्ग (पंजाबी)
अमर सरित अमर सिंधु अमर वर (न्)	सज्ञा सज्ञा सज्ञा	गुजराती कन्नड कन्नड, हिंदी, (मलया)	आकाश गंगा स्वर्ग की नदी गंगा देव श्रेष्ठ इंद्र
अमरा अमरा अमरा अमरा	सज्ञा सज्ञा सज्ञा विशेषण	मलयालम गुजराती, हिंदी नेपाली, संस्कृत बंगला	1 जन्मते बालक की नाभि नाल, नाभिसूत्र 2 गर्भाशय जरायु, गर्भ झिल्ली 3. मन्मथ 4 एक पौधे का नाम 5 अमरावती + 6 मरण रहित, अक्षया (बंगला)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अमरावती अमरावति अमरावदि		हिंदी, गुज, मरा, नेपा, अस कन्नड, तेलुगु, मलयालम तमिल	देव नगरी, इन्द्र की राजधानी इंद्रपुरी, इन्द्र लोक स्वर्ग, इन्द्र की नगरी का नाम
अमरी अमरी	संज्ञा	नेपाली, पंजाबी कन्नड, हिंदी, मलया	1. देवांगना, देवी, देवपत्नि 2. इंद्रपुरी, इन्द्र की राजधानी 3. देव कन्या
अमरुडु	संज्ञा	तेलुगु	अविनाशी ईश्वर; जो कभी मरे नहीं (विशेषण)
अमरेन्द्र (अमरीश) अमरेशन्	संज्ञा संज्ञा	कन्नड तमिल, मलयालम	अमरों अर्थात् देवताओं का मुखिया- इंद्र इंद्र, वृहस्पति, शिव
अमर्त्य अमर्त्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी नेपाली, कन्नड, बंगला	1. न मरने वाला, अमर, अविनाशी, दैवी 2. मृत्यु लोक का नहीं, स्वर्गीय, दिव्य
अमरोर्	संज्ञा	तमिल	देवता (संज्ञा)
अमर्त्य (अमर्त्यन्) अमर्त्युडु	संज्ञा	मलयालम तेलुगु	देवत्व, मरणरहिता, अमरता अविनाशी जो कभी मरे नहीं- ईश्वर, देवता
अमर्त्यता अमर्त्यनदी अमर्त्यपथं	संज्ञा संज्ञा संज्ञा	मलयालम मलयालम, संस्कृत मलयालम, संस्कृत	मरण रहिता, देवत्व, अविनाश्वरता सदा अमर रहने वाली नदी- गंगा देवमार्ग, आकाश, अंतरिक्ष
अमर्त्यभुवन अमर्त्यराजन्	संज्ञा संज्ञा	मलयालम, संस्कृत, कन्नड मलयालम	स्वर्ग, अमरापुरी, देवलोक इंद्र, देवराज, देवाधिप
अमर्त्यलोकं अमर्त्यापगा अमर्दित	संज्ञा संज्ञा विशेषण	मलयालम मलयालम, हिंदी, संस्कृत बंगला, हिंदी	स्वर्ग लोक, देव लोक, अमर लोक, इन्द्र की नगरी गंगा, देवलोक की सरिता-स्वर्गगंगा 1 जो कुचला न गया हो, अनिष्पीडित 2. अक्षुण्ण, अपराजित, अपराभूत
अमर्म (अमर्मन्)	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	शरीर का मर्म या कोमल स्थान नहीं
अमर्मबेधि अमर्मबेधिन्	विशेषण	मलयालम संस्कृत	1. मर्म स्थान को न बंधने वाला 2. कोमल, मुलायम, नरम
अमर्ष्यता — — अमर्ष्यतासि	विशेषण विशेषण	असमी असमी	असंभ्रम, लघुकरण, अपमान, अशिष्टता 1. नीच आचरण वाला, जिसका मान न हो ऐसा मनुष्य 2. नीच व्यवहार, अभद्रता, अपमान
अमर्ष्यतीया	विशेषण	असमी	मर्यादा शून्य, नीच, निर्लज्ज, असम्मान-जनक

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अमर्यात्	सज्ञा	असमी	निर्लज्जा, मानहानि, भय रहितता, नीचता
अमर्याव	सज्ञा	हिंदी, उड़िया	1 मर्यादा या सीमा से रहित, असीम, अंत रहित
अमर्याव	विशेषण	नेपाली, असमी, बंगला	2 नियम या व्यवस्था में बाहर, अनुचित
अमर्याव		तेलुगु, मलया	3 अप्रतिष्ठित, अनादृत, अपमानित, निर्लज्ज
अमरियावै		तमिल	4 कार्य जिसमें मर्यादा का ध्यान न रखा जाय
अमर्याव		गुजराती, मराठी	5 व्यक्ति जो सीमा का ध्यान न रखता हो (इममाडरेट)
अमर्यादि		कन्नड	6 स्वेच्छाचारी, अनाचारी, निरकृश, धृष्ट, अशिष्ट
अमर्याव		संस्कृत	7 योग्य परिमाण से अधिक
अमर्यादा	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 सीमा या मर्यादा का अभाव, सीमाल्लघन
अमर्यादा		असमी, उड़िया, बंगला	2 आचरणहीनता, अप्रतिष्ठा, असम्मान, अवमानना
अमर्यादा		नेपाली, मलयालम, संस्कृत	3 अनादर, बेअदबी, बेइज्जती, अक्रम, अन्याय
अमर्यादा		असमी	4 असद्व्यवहार, उद्दण्डता, निर्लज्जता, अशिष्टता
अमर्यादि	सज्ञा	मलयालम	उचकृखल, उद्दण्ड, आचरणहीन, असभ्य
अमर्ष	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 असहनशीलता, असहिष्णुता, मत्सर, अमूया,
अमर्ष		असमी, बंगला, उड़िया, संस	ईर्ष्या, अक्षमा, नागजगी, उपेक्षा, अधीरता,
अमर्ष	सज्ञा	नेपाली, मलया, कन्नड	अप्रीति, ईर्ष्या से उत्पन्न क्रोध
अमरुटम् (अमरिषणम्)		तमिल	2 शत्रु या प्रतियोगी का अपकार न कर सकने की
अमर्षमु		तेलुगु	अवस्था में उठा एक मचारी भाव, कोप
अमर्षण	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 जो क्षमा न करे, अधैर्यवान, अमाहिष्णु
अमर्षण	विशेषण	बंगला, उड़िया, संस्कृत	2 रूठा हुआ, रोष परवश, क्रोधाभिभूत
अमर्षण		नेपाली, मलया, कन्नड	3 प्रचण्ड, उग्र, दृढ प्रतिज्ञ, आशु क्रोधी
अमर्षणमु		तेलुगु	4 अमर्ष करने वाला, अमर्ष वशीभूत
अमर्षपरायण	विशेषण	बंगला	1. असहिष्णु, असहनशील, अधीर, अधैर्यवान
अमर्षि		मलयालम	2 आशुक्रोधी, क्षमा शून्य, उग्र, प्रचण्ड
अमर्षिन्		संस्कृत	3 रूठा हुआ, रोष परवश, दृढ प्रतिज्ञ
अमर्षी		हिंदी, गुजराती, नेपाली	4 अपनी अवज्ञा या तिरस्कार से उत्पन्न क्षोभयुक्त
अमर्षित	विशेषण	बंगला, मलयालम, संस्कृत	कुपित, क्रोधित, क्रोधाभिभूत, अधीर
अमल	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 मल रहित, निर्मल, बेदाग, निष्कलंक, निर्दोष,

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अमल		असमी, उड़िया, बंगला	निष्पाप, विशुद्ध, साफ-सुथरा, उज्ज्वल
अमल		नेपाली, पंजाबी, कन्नड	2. शुभ्र, श्वेत, प्रकाशयुक्त, चमकीला, सच्चा
अमल		मलयालम	3. मल का अभाव, स्वच्छता, सफ़ाई
अमलम्		तमिल	+ 4. अबरक, परब्रह्म (हिंदी)
अमलमु		तेलुगु	5. मलिनता रहित फलतः उज्ज्वल एवं पवित्र
अमलतर	संज्ञा	कन्नड	अति स्वच्छ, शुद्ध
अमलतरं	संज्ञा	मलयालम	अभ्रक, अमलमणि
अमलन्	संज्ञा	तमिल	ईश्वर, निर्मल, निष्कलंक
अमलं	संज्ञा	मलयालम	शुद्धता, परिशुद्धि, निष्कलंकता, स्वच्छता
अमलता		हिंदी, संस्कृत	निर्दोषता, निर्मलता, शुद्ध, पवित्र होने की अवस्था
अमलते, अमलत्व		कन्नड	या भाव, बेदागपन
अमल पांडुर	संज्ञा	कन्नड	शुद्ध धवल, बिलकूल सफेद
अमल मणि (रत्न)	संज्ञा	हिंदी, मराठी, संस्कृत	स्फटिक पत्थर, बिल्लौर
अमलांशु	संज्ञा	कन्नड	सफेद किरण
अमला	संज्ञा	हिंदी, असमी, बंगला, नेपा	1. लक्ष्मी, शीतला, सरस्वती देवी
अमला	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	2. पतिव्रता स्त्री, सच्चरित्र स्त्री
अमलै/अमले	संज्ञा	तमिल, कन्नड	3. भू-आँवला; नाभिसूत्र, नाल
अमलिन	विशेषण	कन्नड, गुजराती, हिंदी	जिसमें मैल न हो, साफ-सुथरा, बेदाग, सच्चा,
अमलिन	विशेषण	बंगला, मलयालम, संस्कृत	मलिन नहीं, धूलरहित, शुद्ध, स्वच्छ, निर्दोष,
अमलिनुडु	संज्ञा	तेलुगु	उज्ज्वल, निर्मल, पवित्र, निष्पाप, निष्कलंक
अमसृण	विशेषण	मलयालम, हिंदी	1. कोमल या मसृण नहीं, परुष, कठोर, कर्कश
अमसृण		संस्कृत, बंगला	+ 2. असमतल (बंगला)
अमहस	विशेषण	हिंदी	1. जिसका कोई घर न हो, इधर-उधर घूमने वाला 2. साधु, सन्यासी 3. वह जो सब जगह व्याप्त हो
अमांस	विशेषण	हिंदी, नेपाली	जिसके शरीर पर मांस न हो, अर्थात् बहुत
अमांस		कन्नड, संस्कृत	कम मांस हो, दुबला-पतला, दुर्बल
अमांसमु	विशेषण	तेलुगु	2. वह जो मांस न हो, मांस से भिन्न पदार्थ

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अमातृ	विशेषण	असमी	पीडा के कारण बोल न सकना, वाक् शक्ति हीन
अमातृक	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	जिसके माता न हो, विना माँ का
अमातृक		असमी, बंगला, मलया, संस	माता विहीन, मातृ हीन, माँ जीवित नहीं
अमात्र	विशेषण	हिंदी	1 मात्रा नियम रहित 2 सीमा रहित, नि सीम
अमात्र		मलयालम	3 जिमकी माप तोल न हो सक. असमग्र
अमात्र		संस्कृत	4 परब्रह्म परमात्मा (सज्ञा), अमौलिक, अनारभिक (
अमान	विशेषण	हिंदी, बंगला	1 अहकार या गर्व रहित, निर्गमानी, विनयी, विनय
अमानम्	सज्ञा	तमिल	2 मान, माप, सीमा नहीं, असीम, परिमाण रहित, अन्यधिक
अमानं	सज्ञा	मलयालम	3 जिसका मान आदर न हो, अनादर, निरङ्कार,
अमान		गुजराती, नेपाली	अप्रतिष्ठा, अपमान, अवज्ञा, गलमटोल
अमानन		संस्कृत, हिंदी, बंगला	4 निन्दा, वे अदबी, गुस्ताखी, अभद्रता, उदासीनता
अमाननं	सज्ञा	मलयालम	5 अनुसरण न करना
अमान्ति	विशेषण	असमी	असम्मत, असम्मति
अमाननीय	विशेषण	हिंदी	(वान) जो मानी जाने योग्य नहीं, (व्यक्ति) जो आदर योग्य नहीं
अमानव	विशेषण	असमी, संस्कृत	1 मानव स्वभाव का न होना, अनिमानव, अमाधारण,
अमानव		बंगला, मलयालम	अलौकिक, देवता, राक्षस, क्रूर, कूर्तमत्मानव
अमानवम्	सज्ञा	तमिल	2 मनु की मतान नहीं 3 मनुष्य से भिन्न जीव
अमानवीय	विशेषण	नेपाली, बंगला	1 आसुरी, दानवी, जो मानव न हो 2 अलौकिक
अमानवीयता	सज्ञा	नेपाली	अमानवीय होने का भाव, दानवीयता
अमानस्य	सज्ञा	कन्नड, हिंदी, संस्कृत	1 वेदना, दुख, पीडा, दर्द, व्यथा
अमानस्यं	सज्ञा	मलयालम	2 दुखित, पीडित (विशेषण)
अमानि	सज्ञा	मलयालम	1 निरभिमानी, विनीत, अहकारशून्य, घमङ्गरहित,
अमानिन्		संस्कृत	विनय, विनयी, नम्र, मान न करने वाला
अमानी	विशेषण	हिंदी, नेपाली, बंगला	2 अप्रतिष्ठित, नगण्य, न मानने वाला
अमानी	विशेषण	गुजराती, मराठी	3 जिमकी कहीं मान्यता न हो, निरादृत
अमानित	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मलया, संस	अपमानित, अनगदृत, अवहेलित, उपेक्षित
अमानिता	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मलया	1 गर्व या मान का अभाव, अनभिमानिता, अमान्यता

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अमानित्व		गुजराती, मराठी	1 नम्रता, शालीनता, वणकम्, दीनता (तमि, मलया)
अमानितं (घ)	सज्ञा	मलया, तमिल, संस्कृत	+ 2 अपमानित मेना मे मिला कष्ट (मलयालम)
अमानुष	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 मनुष्य स्वधी नहीं अमानवीय, अमनुष्योचित,
अमानुष		संस्कृत, बंगला कन्नड	मनुष्य को जो शोभा न दे, मनुष्यन्व वर्जित,
अमानुष		नेपाली, असमी, उड़िया	पाशविक, पेशाचिक, राक्षसी, क्रूर 2 निर्जन, जहा
अमानुष		मलयालम	मनुष्य न हो 3 अलौकिक, देवीय, अतिमानवीय
अमानुषमु		तेलुगु	4 मनुष्य के अतिरिक्त भिन्न जीव, ज्ञान हीन प्राणी
अमानुषन्	सज्ञा	मलयालम	+ 5 मानवता में गिरा हुआ, मृणित (तेलुगु)
अमानुषी	विशेषण	असमी, गुजराती, नेपाली	1 अमानवीय, मनुष्य की शक्ति में बाहर
अमानुषी		बंगला, उड़िया, संस्कृत	2 अति मानुषी, अलौकिक, देवीय
अमानुषिक		हिंदी, असमी, मलया	3 पाशविक, पेशाचिक, निरादर
अमानुषीय		हिंदी, संस्कृत, मलयालम	4 ऐसा निर्दिष्ट आचरण जो मनुष्य स्वभाव के विपरीत हो
अमानुषकिरुतियम्		तमिल	देवी कार्य, मनुष्य की अधिकार शक्ति में बाहर का
अमानुष्य	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, बंगला	अलौकिक, देवीय अतिमानुषी
अमानुह	विशेषण	असमी	विद्याहीन मनुष्य, अज्ञानी, ज्ञान रहित
अमान्तं	सज्ञा	मलयालम	1 विनम्र, मदगर्न, आलस्य 2 लापरवाही, उपेक्षा, सुस्ती, निरुद्योग 3 असमजस, कमी, विरलता
अमान्तक्कारन्	सज्ञा	मलयालम	सूत, मदा, शतान या कष्टकारी व्यक्ति
अमान्ति	विशेषण	असमी	असम्मत, बहुमत विरोधी, भिन्न मत प्रकाशक
अमान्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 असम्मत, स्वीकृति के अयोग्य, नामजूर, न्याय्य, जो मानी जाने योग्य नहीं, विश्वास के अयोग्य
अमान्य		असमी, उड़िया, बंगला	2 जो मान आदर योग्य नहीं, अनादरणीय, अपूज्य
अमान्य		मराठी, कन्नड	असम्माननीय, अश्रद्धेय, अवमाननीय
अमान्यता	सज्ञा	गुजराती	1 ना मजूरी, अस्वीकृति 2 असम्मान
अमापित	विशेषण	हिंदी	जो नापा या मापा न गया हो (अन मेजर्ड)
अमाप		उड़िया, हिंदी	अपरिमित, असीम, बहुत अधिक परिमाण में
अमाप्य	विशेषण	हिंदी	जो मापा न जा सकता हो, अमापनीय
अमाय	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, मलया	1 निष्कपट, निश्छल 2 जो नापा न जा सके,
अमायं	अव्यय	मलयालम	कपट रहित, वचना रहित, बिना छल कपट के

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अमाया अमाया अमाया	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, बंगला संस्कृत, मलयालम	1. माया का अभाव, सत्यज्ञान, परमात्मज्ञान, अविद्या या भ्रान्ति नहीं, प्रामाणिकता 2. निष्कपटता, ईमानदारी, माया से अप्रभावित, सरलता, विश्वसनीयता, यथार्थ
अमायिक अमायिक अमायिकुडु अमायी अमायि	विशेषण संज्ञा विशेषण	हिंदी, संस्कृत, गुजराती उड़िया, असमी, बंगला तेलुगु हिंदी, मराठी मलयालम	1. भोला-भाला, निष्कपटी, निश्छल, सच्चा 2. प्रामाणिक, विश्वस्त, साधु, स्पष्टवक्ता 3. ईमानदार, सत्य साधक, स्वार्थ शून्य 4. सांसारिक प्रेम, मोह, माया आदि से रहित 5. जिसमें राग द्वेष, मोह आदि न हो
अमायिकता अमार	संज्ञा विशेषण	असमी, बंगला मलयालम, संस्कृत, हिंदी	सच्चाई, ईमानदारी, निष्कपटता, निश्छलता मरण रहित, न मरने वाला, अनाश
अमार्ग अमार्ग अमार्ग अमार्कर्म	संज्ञा	मलयालम हिंदी, संस्कृत कन्नड, मराठी तमिल	1. मार्ग या रास्ता न हो, अयोग्य गमना, कुमार्ग, भला रास्ता नहीं, मार्ग रहित, मार्ग का अभाव 2. कुपथ, धर्महीनता, धर्म विरुद्ध मार्ग 3. निंदनीय आचरण, बुरा चाल चलन
अमार्गगमनं अमार्गगमनम्	संज्ञा	मलयालम संस्कृत	1. कुमार्ग जाना 2 दुर्व्यवहार करना 3. आकर्षण-विकर्षण आदि कर्म का युद्ध में प्रयोग करना
अमार्जित अमार्जित अमार्जित अमार्जित	विशेषण	हिंदी, नेपाली असमी, उड़िया बंगला संस्कृत	1. मार्जित या साफ़ न किया गया, अशुद्ध, गंदा, अपरिष्कृत, अशोधित, अनलंकृत, अनगढ़, भद्दा 2. असंस्कृत, अशिष्ट, ग्राम्य, अध्ययन द्वारा जिसने बुद्धि को तीक्ष्ण या शीघ्र ग्राहिणी न बनाया हो
अमार्ज्य अमार्ज्य	विशेषण संज्ञा	हिंदी, नेपाली मराठी, संस्कृत	जो स्वच्छ न हो सके या न किया जा सके मृदुता या कोमलता का अभाव
अमेट अमिट अमिट्टु	विशेषण	पंजाबी हिंदी सिंधी	1. जो मिटाया न जा सके, सदा रहने वाला 2. अटल, स्थायी, अवश्यभावी 3. जो मिटने या नष्ट होने वाला न हो
अमित्त अमित्त अमित्त	विशेषण	हिंदी, नेपाली गुजराती, संस्कृत असमी, उड़िया, बंगला	1. जो मित या सीमित न हो, सीमाहीन, अपरिमित, असीम, अपार, अत्यधिक, प्रचुर, ढेर सारा, विपुल, असंख्य, बेहद, बेहिसाब, विशाल, अमर्याद

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अ.
अमित		मराठी, कन्नड	(इन आर्डिनेट)
अमित		मलयालम	+ 2. जो माया न गया हो, अमापिन (गुजराती)
अमितम्		तमिल	3. उपेक्षित, अज्ञात, अगम्यकृत, अवज्ञा किया हुआ (मस)
अमित्तमु		तेलुगु	+ 4. अक्षय (तेलुगु) अशिष्ट, तिरस्कृत, अज्ञात (संस्कृत)
अमदु	विशेषण	सिंधी	+ 5. अतुल या अतुल्य (सिंधी)
अमितक्रतु	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1. असीम शक्ति या बुद्धि सम्पन्न, ज्ञानवान
अमित क्रतु		हिंदी	2. अपरिमित माहसी
अमित गति	विशेषण	कन्नड	असीम वेगवान
अमित तेजा(आभ)	विशेषण	बंगला, हिंदी, संस्कृत	अपरिमित तेज व कान्ति सम्पन्न, सर्वशक्तिमान
अमित बल (वीर्य)	विशेषण	बंगला, हिंदी	अत्यन्त सामर्थ्यवान या शक्तिशाली
अमितवादि	विशेषण	मलयालम	1. अतिवादी, नीच अतिवादी विचार रखने वाला
अमितवादि		तमिल	2. बहुत बड़ा चढ़ा कर बोलने वाला, अतिप्रसंगी
अमितवादिन्		संस्कृत	3. गम्पवाज़, बातूनी, फालतू बोलने वाला
अमित विक्रम	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	अति पराक्रमी, असीम शक्तिशाली
अमित विक्रमन्	संज्ञा	मलयालम	विष्णु का एक नाम (संज्ञा)
अमित व्यय	विशेषण	बंगला	आय से अधिक व्यय, फिज़ूल खर्ची
अमित व्ययिता	संज्ञा	बंगला	अतिरिक्त व्ययशीलता, अनुचित व्यय करना
अमित व्ययी	विशेषण	बंगला	अपरिमित व्ययशील, धन उड़ाऊ
अमितभाषी	विशेषण	बंगला	बहुत अधिक वाचाल, अकारण बकझक करने वाला
अमिताक्षर	विशेषण	गुजराती	अपद्योग्य, काव्य रचना जो न पद्य हो न गद्य
अमिताक्षर	संज्ञा	बंगला	अमिताक्षर (एक भाषा दोष)
अमिताचार	संज्ञा	बंगला	भोजन, भोग विलास में असंयम, अयथाचरण
अमिताचारी	विशेषण	बंगला	असंयत व्यवहारकारी
अमिताभन्	विशेषण	मलयालम	1. अति कान्तिवान या तेजस्वी, अत्यधिक आभा वाला
अमिताभ		बंगला, हिंदी, नेपाली, संस	2. बुद्ध का एक नाम (संज्ञा), पाँच बुद्धों में से एक
अमिताशन	विशेषण	हिंदी, नेपाली, बंगला, संस	1. बहुत खाने वाला, सर्वभक्षी, बहुभोजी, पेढू
अमिताशनन्		मलयालम	2. अग्नि, विष्णु (संज्ञा)
अमिति	संज्ञा	हिंदी	असीमता, हद ही न होना, सीमातीत
अमिता	विशेषण	असमी	सीमाहीन, अपार, असीम

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अमितौजस अमितौजसु	विशेषण	हिंदी , संस्कृत मलयालम	1 असीम शक्तिवाला, असीम ओजम् युक्त 2 गवं शक्तिमान, मागर्ध्ववान
अमित्र अमित्र अमित्र अमित्रं अमित्तिरन् अमित्तुडु	विशेषण मज्ञा	हिंदी, मराठी, नेपाली असमी, उड़िया, बंगला कन्नड, संस्कृत, गुजराती मलयालम तमिल तेलुगु	1 मित्र नही, शत्रु, वेरी, दुश्मन, विरोधी 2 मित्र हीन, बंधुहीन, जिसका कोई मित्र न हो 3 प्रतिपक्षी, विरोधी, विपक्षी, मित्र न होने का भाव 4 भिन्न व्यक्ति (नेपाली) 5 अशुभ गिन्तक, हितैषी नहीं 6 दूरग्रे के भले की दृष्टि न कर बुरा चाहने वाला
अमित्रघाति अमित्रघातिन् अमित्रघाती	विशेषण	मलयालम संस्कृत हिंदी	1 शत्रु नाशक, शत्रुओं का दमन करने वाला 2 शत्रु विजयी, विर्गायियों पर विजय पाने वाला 3 शत्रुओं का घात करने वाला
अमित्रजित्नु(अमित्रह्म) अमित्र जित् अमित्रान्तकन्	विशेषण मज्ञा	मलयालम, संस्कृत हिंदी मलयालम	1 शत्रुओं को जीतने वाला 2 शत्रुध्वर्गी 3 प्रति दुन्दुभी का हगने वाला 4 शत्रु के लिए यमराज के समान
अमित्रता अमित्राक्षर	मज्ञा मज्ञा	गुजराती, नेपाली हिंदी, संस्कृत, बंगला	शत्रुता, मित्रता न होने का भाव वह छंद जिसमें मात्राओं की गणना न होनी हो
अमित्रो अमित्र्य अमित्रीय	विशेषण	हिंदी संस्कृत मलयालम	मित्रो जेमा नहीं, शत्रुवत्, वेरी, विपक्षी विरोधी, विद्वेषी, उद्वेगितता पूर्ण, शत्रुतापूर्ण मित्र का नहीं शत्रु का
अमिल अमिल अमिल	विशेषण	हिंदी असमी बंगला	1 बेमेल, असादृश्य, पार्थक्य, भिन्न वर्ग का 2 ऊबड़ खावड़, विरोध, दुन्दु, झगडा 3 दुर्लभ, अमूल्य (बंगला) अप्राप्य (हिंदी)
अमिलुवा अमिलित अमिलता अमिल्याइ अमिल्वो	विशेषण विशेषण मज्ञा मज्ञा विशेषण	नेपाली हिंदी हिंदी, तेलुगु नेपाली नेपाली	मिलनसार नहीं, बेमेल, न मिला हुआ जो मिला न हो, पृथक अलग या बेमेल होने की अवस्था या भाव न मिलने की क्रिया या भाव जो मिलनसार न हो, बेमेल का
अमिश्र अमिश्रण अमिश्रित	विशेषण	हिंदी, असमी, बंगला, संस हिंदी, संस्कृत, गुजराती नेपाली, मलया, संस, बंगला	1 विना मिलावट, विशुद्ध, खालिस, असली 2 पृथक, असयुक्त, निर्मेल 3 जिसमें किसी दूसरी चीज का पट या मेल न हो

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	उ.व
अमिश्र राशि	विशेषण	हिंदी, बंगला	टकाट मख्या, एक म नो तक अक पूण मख्या
अमिष	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, मलया	1 निश्चलन कुल कपूर नही मन्वयय टमानदार
अमिषं	सज्ञा	मलयालम	मन्वा धाखवान नरो वतानवाज नही
अमिषमु		तेलुगु	2 गोरव गाधन विनाम वन्तु मागार्गिक भाग पदाथ 3 टमानदारी मन्वाट माग गाधन (मला)
अमीट	विशेषण	गुजराती	विना पलक अपक एक एक अनिमय
अमीत	सज्ञा विशेषण	हिंदी, मलयालम	1 गिर नही, जाय 2 तिस क्षान न पट्टी हा
अमीमांसा	सज्ञा	हिंदी, बंगला	1 विरचन मा अभाव 2 आन्वयान नि दान शून्यता
अमीमांसित	विशेषण	बंगला	1 विरचन विरचनमादन 2 आन्वयान अनर्णित
अमुक्त	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 ना मुक्त न टाओ ना वरन म रना टाओ
अमुक्त		असमी, बंगला, उड़िया	2 निर्धारित मासावन्द परनर अन्वय
अमुक्त		नेपाली, कन्नड, संस, मलया	3 जन्म मरण क वधन म पडा जमाकप्रान जीव
अमुक्तं	सज्ञा	मलयालम	4 एक नान वाना वधयार नही नाकू नन्यार भादि
अमुक्त हस्त	विशेषण	मलयालम, संस्कृत, हिंदी	1 गतव्यगी कतुस जा दानी नही कृपण अन्वयव्यधी
अमुक्ताभरण	सज्ञा	मराठी	भाद्रपद शुक्लमासमी का डवी की पूजा विधि
अमुक्ति	सज्ञा	नेपाली, गुजराती	उत्कारग नही स्वतन्त्रता नही भाओ नही मन्त्रि
अमुक्ति	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	का अभाव बधन, आधागमन क वरन म वरना टाओ
अमुख	विशेषण	मलयालम, हिंदी	मुख तीन जिमका मुख न ता
अमुख्य	विशेषण	नेपा, हिंदी, बंग, मलया	1 मुख्य नही अप्रधान महत्वहीन गाण
अमुखकन्		तमिल	2 निम्न श्रेणी का प्रथमत धर्मिया
अमुत्तन्	सज्ञा	तमिल	तथ म र्थयार लिए हुए अमुत्तन
अमुख्यते	सज्ञा	कन्नड	प्रधानता नही गाणता
अमुख	विशेषण	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	1 मुख नही चतुर 2 गाहिन नही अनाम्यत विरक्त
अमुद	सज्ञा	कन्नड	जाक, दख, निगशा
अमुद्र	विशेषण	हिंदी	जिसके पास कहीं जाने का परवाना या महर न हो
अमुद्रितमु	विशेषण	तेलुगु	जिस पर महर नही लगी, विना महर मा
अमुस्त्रिम	सज्ञा	मलयालम	नो मुमलमान नही
अमू	विशेषण	मराठी	जिनके वाणी न हो, पशु पक्षी भादि, गुगा

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अमूक	विशेषण	हिंदी	जिसके वाणी हो, भाषण कर सकने वाला, चतुर
अमूढ़	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 जो घबराया नहीं, भ्रमित चित्त नहीं, मूढ़ नहीं
अमूढन्		मलयालम	2 पागल नहीं, बुद्धि हीन नहीं 3 चतुर, विद्वान
अमूप	विशेषण	मराठी	जिसका माप न हो, वृष्कल विपुल
अमूर्च्छ	विशेषण	गुजराती	मूर्च्छित या वेहोश नहीं, सावधान, स्वस्थ
अमूर्च्छित	विशेषण	गुजराती	जे मूर्च्छित नहीं है ऐसा, सावधान, सतर्क
अमूर्त	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 मूर्त, आकार या रूप नहीं, अशरीरी, अरूप,
अमूर्त		अस, उड़ि, बंग, नेपा	उद्ग रहित, निराकार, अस्पष्ट,
अमूर्त		कन्नड, सिंधी, संस, मलया	निर्वयव, अप्रत्यक्ष, मूर्ति रहित
अमूर्तन्	सज्ञा	तमिल, मलयालम	2 शिव, काल, वायु, आकाश, आत्मा, ब्रह्म (सज्ञा)
अमूर्तम्		तमिल	3 जिसका मगुण या स्थूल रूप न हो
अमूर्तक	विशेषण	असमी	उग्र, प्रबल, भयानक, प्रचंड
अमूर्तगुण	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	धर्म, अर्थ, क्रम आदि गुण जो अमूर्त हैं (वैशेषिक दर्शन)
अमूर्तगुणं		मलयालम	भावनात्मक गुण जो अमूर्त हैं
अमूर्तता	सज्ञा	गुजराती	निराकारता, निर्माणता, अरूपता
अमूर्तत्तुवम्		तमिल	आकार हीनता, अदृश्यता (अमूर्त तत्व)
अमूर्ति (ति)	विशेषण	नेपा, मलया, हिंदी, संस, तमि	1 आकार नहीं, आकृति विहीन, रूप शरीर रहित
अमूर्तिमान	विशेषण	नेपाली, हिंदी, मलया	2 विष्णु, शिव, आत्मा, परमात्मा, अगोचर, अप्रत्यक्ष
अमूर्तिसादाविक्रयम्	सज्ञा	तमिल	अग्नि की लपटों में शिव रूप दर्शन, पांच यज्ञों में एक
अमूल	विशेषण	हिंदी	1 जड़ आधार रहित, निर्मूल, निर्गधार, तथ्यहीन
अमूल		गुजराती	2 ता मूल ग्रथ में न मिले, प्रमाणहीन, असत्य,
अमूल		नेपाली	कल्पित, मनगढ़त
अमूल		बंगला, मलयालम	3 अकारण, अनधिकार, उपादान कारण रहित,
अमूल		कन्नड, संस्कृत	निमित्तहीन, भौतिक कारण हीन, मिथ्या
अमूलक	विशेषण	हिंदी, नेपाली	+ 4 जो वृद्धा न हुआ हो (नेपाली)
अमूलक	सज्ञा	असमी, उड़िया, बंगला	+ 5 अनमोल, अमूल्य (हिंदी)
अमूलख	विशेषण	गुजराती	1 जिसकी कीमत न आकी जा सके बहुमूल्य, उत्तम,
अमूल्य		नेपाली, मराठी, मलयालम	वेशक्रीमती, अनमोल, श्रेष्ठ, मूल्य देकर भी अप्राप्य

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अमूल्य		असमी, उड़िया, बंगला	2 जो वस्तु अत्यधिक धन देकर भी प्राण न हो
अमूल्य		हिंदी, कन्नड, संस्कृत	3. विना कीमत का, विना मोल का
अमूल्यमु		तेलुगु	4. मुल्य धन, तुच्छ, जिसके लिए कोई मोल न चुकाना पड़े
अमौलिक		कोंकणी	मुफ्त का,
अमुल्ल (अमुल्लु)		पंजाबी, सिंधी	जिसकी उचित कीमत आंकना सामर्थ्य से बाहर हो
अमृत	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 जो मृत या मग हुआ नहीं, जीवित
अमृत		असमी, उड़िया, बंगला	2. जो मरना नहीं, अमर, अविनाशी, जीवात्मा, ब्रह्म,
अमृत		नेपाली, कन्नड, मलया	मरणहीन अमरत्व, मोक्ष, वैवल्य, (नेक्टर)
अमृत (त्रु)	सज्ञा	संस्कृत, मलयालम	3. जिसका सेवन अमरत्व दे, मृधा, आंबेहयान, पीपुष
अमृतमु		तेलुगु	4 जो अमर माने जाते है धन्वन्तरि, देवगमूद, इद्र, मुर्य
अमरत	संज्ञा	पंजाबी	5 जिन वस्तुओं को अमृत माना जाता है जल, घी
अमरुत		कोंकणी	भात भोजन, दही, शहद, मक्खन, दूध आदि
अमृतु		सिंधी	6 देवचरणामृत, अतिप्रिय या अतिकाम्य वस्तु,
अमिर्तम्/अमिर्तुम्	सज्ञा	तमिल	अमीष्ट, सुन्दर, किरण, घृति
			7 गुरु का मद्दोष्ट 8 समृद्ध स्थल से निकला एक पदार्थ
अमृत करन्	सज्ञा	मलयालम, संस, हिंदी	1 अमृत समान किरणों वाला चंद्रमा
अमृतकर	सज्ञा	नेपाली, कन्नड, बंगला	+ 2 वैद्य (नेपाली)
अमृत कला	सज्ञा	मराठी, मलयालम	चन्द्रमा की कला चारदी, प्रतिदिन बढ़ने
अमिर्त कलै		तमिल	वाली चंद्रमा की किरण
अमृत कल्प	सज्ञा	बंगला	सुधाकण, पीपुष विन्दु, अमृत विन्दु
अमृतकिरण (णं)	सज्ञा	कन्नड, मलयालम	चंद्रमा की शान्ति दायिनी किरणें
अमिर्तकिरणन्	सज्ञा	तमिल, मलयालम	अमृत जैसा द्रव को ठंडक देने वाला चाद
अमृत कुंड	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत, बंगला	1. रात्र जिसमे अमृत हो 2 मान मंगेचर (दृष्टयोग का)
अमृत कुंडली		मराठी, हिंदी	1. एक छद 2 स्वर मडल का वाद्य
अमृतकूप	संज्ञा	गुजराती, बंगला	अमृत का कूआ, अमृत कुंड, सुधा कनश
अमिर्तगणत्ताद्	सज्ञा	तमिल	1. ग्राम पचायत के पंच 2. मंदिर धन दान की रमीद देने वाले, मूनीम
अमिर्तगुणम्	संज्ञा	तमिल	उत्तम गुण, उच्चगुण
अमृत गर्भ	संज्ञा	हिंदी, नेपा संस, मलया	जीवात्मा, परब्रह्म, व्यक्तिगत आत्मा

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अमृदगटिकै	संज्ञा	तमिल, मलयालम	अमृत घटिका, प्रतिदिन का शुभसमय (ज्योतिष)
अमृत जटा	संज्ञा	हिंदी, मलयालम	जटामांसी औषध (एक जड़ी बूटी)
अमृत जड़ी	संज्ञा	गुजराती	जिममे मरण रुक जाय वह वनस्पति, संजीवनी बूटी
अमृतत्व (तु)	संज्ञा	गुजराती, हिंदी, कन्नड, मलया	अमरण, अमरता, मोक्ष
अमृततरंगिणी	संज्ञा	बंग, हिंदी, कन्न, नेपा, संस 1	चंद्रिका, चांदनी, ज्योत्सना + 2 जून, नदी (नेपानी)
अमृत तुल्य	विशेषण	बंगला	सुधा सदृश, अति मधुर
अमृत दृष्टि	संज्ञा	असमी	जीवन दायिनी, मुखकर निगाह
अमृदपारदै		तमिल	प्रेमिका की प्रेमी को देखने वाली दृष्टि
अमृत पडि	संज्ञा	कन्नड	चावल, देवता को भात का नैवेद्य,
अमृद पडि		तमिल	चावल का देव प्रसाद
अमृद पडै-त्तल्	असंस्कृत क्रिया	तमिल	भात या भोजन परोसना
अमृदप्पिराणायाम	संज्ञा	तमिल	पूर्ण सन्नुष्टि तक प्राणायाम करना (हठयोग)
अमृत धुनि	संज्ञा	हिंदी, कन्नड, मलया	वद्रमा, मुधा कर
अमृद दारै	संज्ञा	तमिल	1 अमृत की धारा, एक वर्ण वृत्त का नाम-
अमृत धारा	संज्ञा	मलया, गुज, संस, हिं, बंगला 2.	निर्गच्छिच्छन् मुख स्रोत
अमृत धुनि	संज्ञा	हिंदी	1 वाह्य अक्षरों के वृत्त का नाम
अमृत ध्वनि	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	एक छंद का नाम (कूर्डानिया)
अभित्तनादम्	संज्ञा	तमिल	एक उपनिषद
अमृतप	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 अमृत पान करने वाले देवता, विष्णु 2 शगव पीने वाला
अमृतपयोधि	संज्ञा	कन्नड	अमृतसागर, संज्ञा देवता, विष्णु
अभित्तप्पाल्	संज्ञा	तमिल	मां का दूध, जो अमृत समान माना जाता है
अमृत फल	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, गुज, बंग, मराठी	नाशपानी, द्राक्षा, अमर, आवला, परवल, आम,
अभित्तपलम्		तमिल	अमर फल, रहस्य मंत्रदाय में मोक्ष प्राप्ति
अमरतफल(अमृतफल)		पंजाबी, मलयालम	अमृत के समान गुणकारी फल
अमृदु पारै	संज्ञा	तमिल	विष्णु मंदिरों में चावल दही या इमली के रस को मिलाने का शिला फलक, पट्टिया
अमृत बंधु	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	देवता, वद्रमा जो अमृत के साथ ममृद में निकला था
अमृत बिंदु	संज्ञा	हिंदी	1. सिंदूर का रस, पारा 2. एक उपनिषद का नाम
अमृदु बिन्दु	संज्ञा	तमिल	+ 2. तेजोवह का प्रतीक गोल बिन्दु (तंत्र) (तमिल)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अमरत -बेला	संज्ञा	पंजाबी	1 उपाकाल, प्रभात काल 2. प्रातः काल, मवेग
अमृतमण्डपम्	संज्ञा	तमिल	अमृतमण्डप, मंदिर का रमोई घर
अमृत मूरि (मणि)	संज्ञा	हिंदी, बंगला	मजीवनी वृत्ती
अमृदमथनम्	संज्ञा	तमिल	अमृत प्राणि के लिए समुद्रमथन
अमृतमंथनं		मलयालम	
अमृदभेन्दल	संज्ञा	तमिल	माधु महान्याओ को भोजन कराना
अमृत योग (गं)	संज्ञा	हिंदी, असमी, बंगला, मलया	फलित ज्योतिष में एक ग्रहयोग जो शुभ होता है
अभित्त योगम्		तमिल	वार, तिथि नक्षत्र का शुभ योग जो ७ योगों में है
अमृत रश्मि	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, कन्नड, मलया	चंद्रमा जिसकी किरणें अमृत वर्षा करती हैं
अमृत सता	संज्ञा	मलया, हिं, गुज, बंग, कन्न, संस	गुडूची, अमरखेल
अमृद/अमृतबल्लि		तमिल, मलयालम	गिलोय की दल
अमृतलोक	संज्ञा	हिंदी, बंगला, मलयालम	स्वर्ग, जहां पुण्यात्याग, निवास करती हैं
अमृत वर्षा (वर्षा)	संज्ञा	सिंधी, बंगला	1 मृधा स्रवा, अमृत की वर्षा + 2 मृगधूर (बंगला)
अमृत वपु (सु)	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	चंद्रमा, विष्णु, शिव
अमृत वायु	संज्ञा	नेपाली, मलयालम	पाणवायु, जाक्सीजन
अमृतविग्रह	संज्ञा	कन्नड	अमर शरीर, यश शरीर
अमृत वाणी	संज्ञा	सिंधी	मृगमाचार शुभ मृत्युना
अमृदवेणि	संज्ञा	तमिल	अमृतवेणि, शिववर्षण गंगा
अमृत संजीवनी	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मलया	1 मजीवनी वृत्ती, मरने को तिलाने वाली विद्या
अभित्तसञ्जीवनि		तमिल	2 मरने हुए, या प्रायण को बचाने वाली औषध
अमृतसम्भूतन्	संज्ञा	संस्कृत, मलयालम	अमृतोत्पन्न, अमृत में उत्पन्न होने वाला
अभित्तसम्भूवन		तमिल	दुग्ध सागर या क्षीर सागर में उत्पन्न चंद्रमा
अमृतसार (रं)	संज्ञा	हिंदी, मलया, गुज, संस, कन्न	मकरधन, खाड, शींग, भी
अभित्तसित्तयोगम्		तमिल	एक शुभ समय, अमृत सिद्ध योग
अमृतसिद्धियोग	संज्ञा	मराठी	ज्योतिष में एक योग जो सिद्धिद्वंद माना गया है
अमृतसू	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत, मलयालम	चंद्रमा, जिसमें अमृत झड़ना है, पानी मान्यता है
अमृत सोदर (रं)	संज्ञा	कन्नड, संस्कृत, हिंदी, मलया	समुद्र मंथन में अमृत घट के साथ निकला उच्चैश्चवा श्रेष्ठ
अमृत स्रवा	संज्ञा	नेपाली, हिंदी, मलया	1 पानी का लहराना 2 रुदनी नामक पौधा
अमृद सुरभि	संज्ञा	तमिल	मणिमेखला के साथ का दार्द्रो को खिलाने का

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
(अमृत सुरभि)			वर्तन जो कभी खाली नहीं होता था
अमृतु सैय-तत्	सकमक क्रिया	तमिल	अमृत छींकिये, प्रसाद पाइय, भोजन कीजिए
अमृतस्रवियुं(स्रावी)	विशरण	गुजराती, बंगला	अमृत झरना, त्रिगमे अमृत टपके
अमृतहस्तुडु	मज्ञा	तेलुगु	वह वैद्य जिसके हाथ में अमाध्य रोग दूर हो जाय
अमृतहस्त	मज्ञा	कन्नड	जिसके हाथ में अमृत है ऐसा वैद्य
अमृतांध	मज्ञा	कन्नड	दवता, दवमूर्ति, जिनका भोज्य अमृत है,
अमृतांधसु (सु)		हिंदी, संस्कृत, मलया	अविनाशी, अजर अमर, नित्य
अमृतांशु	मज्ञा	मलया, हिं, गुज, मरा, नेपा, कन्न	चंद्रमा, जिसकी किरण अमृत वर्षा करती हैं
अमृता	मज्ञा	हिंदी, असमी, नेपाली, बंग	1. गिलोय, इलायच, दूब, तुलसी, मालकागर्नी, अलीम,
अमितै	मज्ञा	तमिल	हरड, लाल निसोन, आवला, बड़ी पीपल
अमृते		कन्नड	+ 2. गदिग, फिटकरी, खुरबूजा, योगिनी, मुदरी ग्री (कन्नड)
अमृताई	मज्ञा	गुजराती	अमृतच, अमरता, कभी भी नष्ट न होने की स्थिति
अमृताक्षर	विशरण	हिंदी	1. जो कभी मर नहीं, अक्षर, अविनश्वर, अजर
अमृताक्षर	मज्ञा	हिंदी	2. अमृत के से गुण वाल शब्द या अक्षर
अमृतान्न	मज्ञा	कन्नड	अमृत रस कायकर भाजन
अमृताधि	मज्ञा	कन्नड	चंद्रमा जिसकी किरण अमृत के समान है
अमृताशन (नन्)	मज्ञा	मलया, हिंदी, कन्न, मरा, संस	विष्णु, शिव, अमृत भाजी दवता, आवनाशी
अमुदाशन	मज्ञा	तमिल	जिसका भोजन अमृत है
अमृताहरण (न्)	मज्ञा	कन्नड, हिंदी, मलयालम	अमृत को चुरा ले जाने वाला, गरुड
अमृतेश (न्)	मज्ञा	हिंदी, मलयालम	शिव, चन्द्रमालि, दवता, विष्णु (जो जल में सोने हैं)
अमृतोद्भव (वं)	विशरण	बंगला, मलयालम	1. मुधा जान 2. वेल का वृक्ष
अमृत्यु	विशरण	हिंदी, नेपा, मरा, मलया	मृत्यु रहित, अमरन्, अमर, विष्णु (मज्ञा)
अमृषा	अध्यय	मलयालम, संस्कृत	निर्व्याज युक्त, झटाई में नहीं, मृत्युयुक्त
अमृष्ट	विशरण	हिंदी, संस्कृत	1. बिना मला या रगडा हुआ, साफ न किया हुआ
अमृष्ट		मलयालम	2. अस्पष्ट, मैला, गदा, न माजा हुआ
अमेदस्क	विशरण	हिंदी, मलयालम, संस्कृत	मेद, वसा या चर्बी रहित, दबला पतला
अमेधसु (अमेधा)	विशरण	संस्कृत, हिंदी	1. मेधा शक्ति या बुद्धि रहित, निर्वुद्धि, मूर्ख
अमेधसु		मलयालम	2. महामूर्ख, बुद्धि या मेधा शून्य

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अमेध्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 यज्ञ बलि के योग्य पशु नहीं यथा कुत्ता, गधा,
अमेध्य	सज्ञा	अस, उड़ि, बंग, संस	अपवित्र, अशुद्ध अस्वच्छ, दुर्गन्धयुक्त
अमेध्य (यं)		नेपाली, कन्नड, मलया	2 मल मूत्र, गदगी, अपशकुन, जूठन, विष्टा
अमेध्यमु		तेलुगु	3 जो यज्ञ या हवन करने योग्य न हो (मनुष्य, वस्तु
अमेत्तियम्		तमिल	स्थान), जो यज्ञ कराने के अयोग्य हो
अमेय	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी, बंग	1 जो मापा न जा सके, अपरिमित, असीम
अमेय		मलया, कन्न, नेपा, संस	2 अज्ञेय, विशाल, अगणित, अविन्त्य
अमेयम्		तमिल	3 जिसका अनुमान न लगाया जा सके
अमेयमु		तेलुगु	4 बहुत मोटा (मराठी) 5 जो जाना या ममझा न जा सके
अमेयात्मा (वु)	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मलया	1 जिसका स्वरूप, आकार, महान हो, आत्मा महान हो
अमेयात्मन्	सज्ञा	संस्कृत	2 महादेव, विष्णु का एक नाम
अमेरु दण्डी	विशेषण	बंगला	मेरु दण्ड विहीन, कशेरुका हीन प्राणी
अमेल	विशेषण	हिंदी, उड़िया	1 बमेल, असम्बद्ध, जो किसी से मेल न खाता हो
अमेल		नेपाली	2 फूट, वैमनस्य, मेल मिलाप नहीं
अमेह	सज्ञा	हिंदी	पेशाब न उतरना, मूत्र रुकना
अमेथुनी	विशेषण	गुजराती	जो नर मादा संयोग से उत्पन्न न हो
अमोक्ष	विशेषण	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	1 छूटकाग नहीं, बधन, जिसका मोक्ष न हुआ हो
अमोक्षं	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	2 वधुआ, अस्वतंत्र, अमुक्त
अमोघ	विशेषण	हिंदी, गुज, मलया, मराठी	1 निशाना न चूकने वाला, अचूक, अव्यर्थ
अमोघ	सज्ञा	असमी, उड़िया, बंगला	2 अकृषित, त्रुटिहीन, फलोत्पादक, अमूल्य
अमोघ		नेपाली, कन्नड, संस्कृत	3 अतिगुणकारी, महान, शानदार, शक्तिशाली (अस्त्र
अमोघं (घ)	सज्ञा	मलयालम, पंजाबी	औषधि मंत्र आदि)
अमोगम्		तमिल	विष्णु, शिव (सज्ञा)
अमोघमु (अमोघु)		तेलुगु (सिंधी)	4 अपने उद्देश्य या लक्ष्य तक ठीक पहुँचने वाला
अमोघकिरण	सज्ञा	हिंदी, नेपाली	1 उदय या अस्त होते हुए सूर्य की किरणे (हिंदी, नेपाली)
अमोघकिरण		मलयालम	2 उगते सूर्य की किरणे (मलयालम)
अमोघ दण्ड		हिंदी, संस्कृत, मलया	1 वह जो दण्ड देने में कभी न चूके
अमोघदृष्टि	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	2 शिव का नाम अचूक निगाह, जिसकी दृष्टि कभी न चूकनी हो

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अमोघवाक्	विशेषण	हिंदी	जिसके वचन व्यर्थ न जायें
अमोघवाञ्छित	विशेषण	नेपाली, हिंदी	निराश न होने वाला, आशावादी
अमोघबाणम्	विशेषण	तमिल	जिसके बाण अचूक हों, रामबाण
अमोघविक्रमुद्गु	विशेषण	तेलुगु	अपार शक्ति सम्पन्न
अमोघविक्रम (न्)	सज्ञा	हिंदी, मलयालम	सज्ञा शिव का नाम
अमोघ वीर्य	सज्ञा	बंगला	जिसका वीर्य निष्फल न जाय
अमोघसिद्धि	सज्ञा	नेपाली	दैवी पंच बुद्धों में एक
अमोघा	सज्ञा	हिंदी, मलयालम	1 हरड, वायबिडिंग, पाटला, भिलावा
अमोघा	सज्ञा	असमी	2 शिव की पत्नी या कश्यप की पत्नी, एक शक्ति विशेष
अमोघन	सज्ञा	हिंदी, असमी	न छूटना, न टूटना, न डूटना, मुक्ति क्षमता
अमोघनीय	विशेषण	बंगला, असमी	1 उद्धार के अयोग्य, अपरिच्युत, अपरिशोधनीय
अमोघ्य	विशेषण	असमी, बंगला, मलया, संस	2 स्वतंत्रता के अयोग्य 3 अविनाशी, अविनश्वर
अमोघित	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	स्वतंत्र नहीं, मुक्त नहीं, निवृद्ध, बंधा हुआ
अमोघि	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	जो मैनिंक युद्ध में स्वयं मृत्यु वर्ण करता है
अमोघ	विशेषण	मराठी	अतिशय, पुष्कल, अगणित
अमोड़	विशेषण	पंजाबी	जो हटाने पर भी न हट, हटी, जिद्दी
अमोद	विशेषण	हिंदी	मोद रहित, निगनन्द, आनन्दहीन
अमोल	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 बहुमूल्य, दुर्लभ, अमूल्य, जिसका मूल्य न लग सके,
अमोल (क)	विशेषण	नेपाली, असमी, पंजाबी, हिंदी	अनमोल, बढिया, कीमती, बहुत अधिक मूल्य का
अमोलिक/अमोल्य	विशेषण	मराठी, कन्नड	+ 2. जिसके बिना काम ही न चले (पंजाबी)
अमोही	विशेषण	हिंदी	निर्गोही, निष्पूर, जिसे किसी में ममता न हो, विरक्त
अमोहन	सज्ञा	तमिल, संस्कृत	अज्ञान रहित, ज्ञान युक्त
अमोदय	विशेषण	कन्नड	मूढ या मूर्ख नहीं, बुद्धिमान
अमौन	सज्ञा	हिंदी	1 मुनि न होने की अवस्था, मुनि के कर्तव्यों का पालन न करना 2 मौनाभाव 3 आत्मज्ञान
अमौलिक	विशेषण	हिंदी	1 जो रचना स्वयं की स्वतंत्र न हो, दूसरों की कृति पर आधृत हो या अनूदित हो
अमौलिक	विशेषण	नेपाली	2. निर्मूल, जिसकी कोई जड़ न हो, अर्थार्थ
अमौलिक	विशेषण	कन्नड	3 जिसका संबंध मूल से न हो

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अघ्नियमाण	विशेषण	हिंदी	अमर, जो मरता न हो
अम्लान	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. अमलिन, निर्मल, स्वच्छ, विमल, कुम्हलाया हुआ
अम्लान		असमी, उड़िया, बंगला	2. नहीं, प्रफुल्ल, अविषण्ण, पारदर्शी, उदास नहीं,
अम्लान		नेपाली, कन्नड, संस, मलया	3. प्रसन्न, चमकीला, अकुंचित, द्विधाहीन, तेजस्वी
अम्लानमु		तेलुगु	4. असंकुचित, खिला हुआ 4. बिना बादल का
अम्लानी	विशेषण	हिंदी	1. माफ, स्वच्छ, निर्मल, खिला हुआ
अम्लानि		बंगला, संस्कृत, हिंदी	2. सशक्त, मुरझाया नहीं
अम्लानिन्	संज्ञा	संस्कृत	+ 3. शक्ति, नयापन, ताज़गी, हरियाली (बंगला, संस)
अम्लान कुसुम	संज्ञा	बंगला	चिर प्रफुल्ल पुष्प, जो कभी मुरझाये नहीं
अम्लान वदने (मुखे)	क्रियाविशेषण	बंगला	1. प्रफुल्ल मुख से 2. बिना मकोच के
अयंत्र	संज्ञा/विशेषण	हिंदी	1. जो यंत्र न हो 2. जो नियंत्रण में न हो, नियंत्रण का अभाव 3. यंत्रों का न होना
अनियंत्रित	विशेषण	हिंदी, बंगला	अनियंत्रित, असंयत, उच्छृंखल, अनर्गल, मनमानी
अयन्त्रित		संस्कृत, मलयालम	करने वाला, स्वेच्छाचारी, जो वश में न हो
अयक्ष्म	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1. यक्ष्मा या अन्य रोग नहीं, नीरोग, स्वस्थ, आरोग्य
अयक्ष्मं	संज्ञा	मलयालम	2. उपद्रव या बाधा रहित, सुस्वस्थता
अयजनीय	विशेषण	हिंदी	1. जिसका आदर या पूजन न किया जाता हो, निन्दनीय 2. यज्ञ करने या कराने योग्य नहीं
अयज्ञ	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1. यज्ञ न करने वाला, यज्ञहीन, बुरा यज्ञ, अंगहीन
अयज्ञ		गुजराती	या असम्पूर्ण यज्ञ 2. बलिदान के अयोग्य (मलया)
अयज्ञ		बंगला, मलयालम	3. यज्ञ का अभाव, यज्ञ न करना (संज्ञा)
अयज्ञक	विशेषण	मलयालम, हिंदी, संस्कृत	यज्ञ कार्य के योग्य नहीं, यज्ञ न करने वाला
अयज्ञीय	विशेषण	बंगला	1. यज्ञ के अयोग्य व्यक्ति, अनधिकारी, अधार्मिक
अयज्ञिय		हिंदी	2. यज्ञ में व्यवहार के अयोग्य, अपवित्र, अनुपवीत
अयज्ञिय		संस्कृत	3. जिसके साथ यज्ञ का कोई संबंध न हो
अयज्या (बु)	विशेषण	मलयालम	जो यज्ञ में भेंट न दे अथवा जो व्यक्ति यज्ञ की
अयज्यन्		संस्कृत	उचित दक्षिणा आदि न देता हो
अयत	विशेषण	हिंदी, मलयालम, संस्कृत	असंयत, अनियंत्रित, नियम भंगकर्ता, असंयमी

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अयता	विशेषण	मराठी	अयलत, श्रम या कष्ट विना, अनर्पेक्षित, अकल्पित
अयति अयति अयती	विशेषण	हिंदी मलयालम बंगला	1 यति या मन्यासी नही, इद्रियागक्त व्यक्ति 2 साध्वी नही 3 जिसने अपनी इच्छाओ पर विजय प्राप्त नही की या इद्रियो को वश मे नही किया
अयतेन्द्रिय अयतेन्द्रिय	विशेषण	हिंदी संस्कृत	1 जिमकी इद्रिया नियत्रण मे न हो अमयत, अमयगी 2. इन्द्रिय लोलुप 3 ब्रह्मचर्य भ्रष्ट
अयत्न अयत्न अयत्न अयत्नमु अयत्तिनम्	विशेषण मज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, उड़िया, बंगला नेपाली, कन्नड, संस, मलया तेलुगु तमिल	1 यत्न न करने वाला, अनुयागी, निष्प्रयत्न, चेष्टा हीन, सरल, सुगम 2 जिसमे यत्न न करना पड़े, अनायास, अविचारित 3 यत्न या श्रम का अभाव, अनिच्छा, उपेक्षा, अनास्था, अवहेलना अनादर
अयत्नत अयत्न/अयत्नेन अयत्ने	अव्यय अव्यय अव्यय	हिंदी, मराठी मलयालम, संस्कृत असमी	सरलता या सुगमता मे, अनायास, काशिश न करना विना श्रम के, काशिश किये विना, चेष्टा का अभाव, कार्य का अभाव, उपेक्षा
अयत्नकृत अयत्नज (लभ्य) अयत्नलब्ध (संभूत) अयत्नसिद्ध	विशेषण	हिंदी, बंग, कन्न, संस हिंदी बंगला मराठी	1 अनायास सम्पन्न, विना चेष्टा या उद्योग किये उत्पन्न, अयत्न सिद्ध, सरलता से प्राप्त 2 स्वभाव सिद्ध विना खटपट किये गिला या बना कार्य, विना काशिश के मिल जाना, हो जाना
अयथा अयथा अयथा अयथा अयथा	अव्यय	हिंदी, मराठी असमी, उड़िया मलयालम, संस्कृत गुजराती, कन्नड बंगला, नेपाली	1 जैसा होना चाहिए, वैसा नही, अनुचित या गलत तरीके मे, अन्याय से, अयोग्य गति मे 2 जो यथार्थ नही मिथ्या, अनुपयुक्त रूप मे + 3 प्रयोजनहीनता, अगमन, अनावश्यक, अन्याय (असमी) + 4 मिथ्या, अमूलक (उड़िया, बंगला)
अयथातथ (बंध) अयथातथ्य अयथापूर्व	विशेषण मज्ञा विशेषण	मराठी, हिंदी, मलया मराठी, हिंदी मलयालम, हिंदी	जैसा चाहिए, वैसा नही, अयथार्थ, विपरीत, अयोग्य अपयोग्यपन, निरर्थकता, अनौचित्य, व्यर्थता, अयथार्थता पहले जैसा नही, जैसा था वैसा नही
अयथात्थ अयथात्थ	विशेषण	मलयालम गुजराती, संस्कृत	1 कृत्रिम, नकली, अर्थशून्य, असम्बद्ध, अप्रकृत 2 जो यथार्थ या वास्तविक नही, अवास्तविक

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अययार्थ	विशेषण	हिंदी, मराठी, नेपाली +	3. अमन्य, मिथ्या, झूठ (तमिल)
अयतार्तम्	संज्ञा	तमिल	4. असंगत, खोटा, अनुचित
अयथार्थ		असमी, उड़िया, बंगला	5. यथार्थता का अभाव, असत्यता, असंगति (संज्ञा)
अयथावत्	अव्यय	मराठी, मलयालम	अन्यथा, संशयित, अयोग्य, गलत ढंग से,
अयथावत्		संस्कृत, हिंदी	अनुचित रीति से, जैसा था वैसा नहीं
अययेष्ट	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1. इच्छानुकूल नहीं, इष्ट नहीं, अनिच्छित, अपर्याप्त,
अययेष्ट		संस्कृत	2. ना काफी, कम, थोड़ा
अययोधित	विशेषण	हिंदी	जैसा या जितना उचित हो वैसा या उतना नहीं
अयमित	विशेषण	संस्कृत, हिंदी	1. अमंयन, अनियंत्रित, अयोग्य, स्वेच्छाचारी,
अयमित		बंगला, मलयालम	उच्छृंखल, बेकाबू, अनर्गल, मनमानी करने वाला
अयमित		कन्नड	2. अमज्जित, जो काट-छंट न गया ह्ये (नख-बाल),
अयमधलनम्	संज्ञा	तमिल	बिना रुकावट बढ़ने वाला, बिना संभाला हुआ
अयवं	संज्ञा	मलयालम	1. कृष्ण पक्ष 2. पेट का एक कृमि, वीर्य; शत्रु
अयव	विशेषण	हिंदी	+ 3. जिसमें यव न हों, यव रहित, पितृकर्म जिसमें जौ
अयव	संज्ञा	संस्कृत	काम में नहीं लाये जाते; बे मेल शत्रु (हिंदी)
			+ 4. जो पूरा न हो जिसमें कुछ अभाव हो (हिंदी)
अयश	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, असमी	अपयश, दुष्कीर्ति, बदनामी
अयश (स्)		कन्नड, मराठी, (संस्कृत)	कलंक, अख्याति, अपमान, लांछन
अयशं		मलयालम	निन्दा, अपकीर्ति
अयशमु		तेलुगु	यश का अभाव, निंदनीय कार्य जिनसे अकीर्ति हो,
अयशः		बंगला	दुर्नाम, अपख्याति
अयशस्कर	विशेषण	हिंदी, बंगला, संस्कृत	1. अपकीर्तिकारी, अख्यातिजनक, दुष्कीर्तिकर
अयशस्करम्		तेलुगु	2. बदनामी करने वाला, अयश का हेतु
अयशस्य	विशेषण	हिंदी, मलया संस्कृत +	3. दुष्टता करने वाला (मलयालम)
अयशस्वी	विशेषण	हिंदी, नेपाली, बंगला	4. जिसे यश प्राप्त न हो, कीर्तिहीन
अयशस्तु		मलयालम	5. बदनाम, अपमानित, तिरस्कृत
अयशी (अयशस्वी)		हिंदी	6. जिसे कार्य करने पर भी उसका श्रेय प्राप्त न हो
अयशस्विन्		संस्कृत	7. जो काम बदनामी दिलाये

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अयाचकन्	सज्ञा	मलयालम	1 जो भीख नहीं मागता, पूर्ण काम
अयाचक		हिंदी, गुज, नेपा, संस	2 न मांगने वाला, याचना न करने वाला
अयाचकम्	सज्ञा	तमिल	3 कामना रहित, सतोषी, सकोची, सतुष्ट
अयाचितबिष्यै	सज्ञा	तमिल	साधु जो न स्थान छोड़ कहीं जाते हैं और न मागतें हैं
अयाचित भिक्षा		संस्कृत	उनको मिला भोजन, बिना मांगी भिक्षा
अयाचकवृत्ति	सज्ञा	गुजराती	बिना मागी भिक्षा पर गुजर करना, याचना न
अयाचकव्रत	सज्ञा	गुजराती	करने का दृढ निश्चय, सतोषी स्वभाव,
अयाचितवृत्ति/व्रत		संस्कृत, मराठी, हिंदी	बिना मागे जो मिले उस पर निर्भर रहने का व्रत
अयाचनीय	विशेषण	बंगला	1 मागने के अयोग्य वस्तु, अप्राथनीय, तुच्छ
अयाच्य (न्)		हिंदी, बंगला, संस, मलया	अथवा अति मूल्यवान वस्तु 2 पूर्ण काम व्यक्ति
अयाचित	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 बिना मागा, अप्रार्थित, अनभ्यर्थित, स्वत प्राप्त,
अयाचित		उड़िया, असमी, बंगला	बिना मागी भीख, जिसके लिए याचना नहीं की
अयाचित		नेपाली, कन्नड, संस्कृत +	2 अमृतनामक आहार (संस्कृत), अप्रार्थित्वात्
अयाचित		मलयालम	की वस्तु (बंगला)
अयाचितम्		तेलुगु	+ 3 याचना के बिना जीवन बिताना (तेलुगु)
अयाचिती	सज्ञा	मराठी	1 अयाचक वृत्ति वाले को दिया आहार धान्यादि
अयाचिते	अव्यय	असमी	2 बिना मागे या खोजे हुए, आकस्मिक रूप से प्राप्त
अयाची	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1 न मागने वाला, कामना रहित, पूर्ण काम
अयाचिन्		संस्कृत	2 जो प्राप्य हो उसी में सतुष्ट रहने वाला
अयाचनीय	विशेषण	बंगला	1. जिसे यज्ञ-पुरोहित बनाना उचित न हो
अयाच्य		हिंदी, गुजराती, संस्कृत	2. यज्ञ कराने के लिए निषिद्ध वस्तु
अयाच्य		नेपाली, बंगला, मलया	3. व्रात्य, पतित, जातिच्युत, जातिबहिष्कृत पुरोहित
अयाच्ययाजन	सज्ञा	हिंदी	1 अनधिकारी से यज्ञ कराना, पतित को पुरोहित
अयाच्ययाजन (न्)		बंगला, मलयालम	बनाना 2. निषिद्ध यज्ञानुष्ठान
अयाच्ययाजी	सज्ञा	बंगला, मलयालम	पतित लोगों का पौरोहित्य करने वाला
अयाच्य-संयाच्य	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	पतित के लिए यज्ञ कराना (जो उप-भातक है)
अयात	विशेषण	हिंदी, मलयालम, संस्कृत	जो गया नहीं, जो समय बीता नहीं, अभी समय है

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अयातयाम	विशेषण	हिंदी	1 जिसे एक याम या पहर नहीं बीता, बासी नहीं
अयातयाम	विशेषण	संस्कृत	2 नाजा, तुरन्त का बना, टटका, दोषग्रहित
अयातयाम		मलयालम	3 उपयोग से जीर्ण नहीं हुआ, शुद्ध, पवित्र
अयातरीया	विशेषण	असमी	यात्रा के समय अपशकुन, कि समय यात्रा योग्य नहीं
अयात्रा	संज्ञा	असमी	1 अशुभ, अनिष्टकर, अप्रशस्त यात्रा
अयात्रा	संज्ञा	बंगला	2 यात्रा में देवा अशुभ चिह्न, यात्रा के लिए, अशुभ क्षण
अयाथार्थिक	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 अमन्य, झूट 2 अनुचित, असली नहीं, अवास्तविक
अयाथार्थ्य	विशेषण	बंगला, संस्कृत	3 अमगत, अमलग्न 4 युक्ति विरुद्ध
अयान	भ्रम	हिंदी, कन्नड	1 न जाना, न चलना, ठहराव, स्थिरता
अयानं	संज्ञा	मलयालम	2 प्रकृत स्वभाव, टिकन का स्वभाव (संज्ञा)
अ-यान	संज्ञा	संस्कृत	3 जिमके पाम यान, मवारी न हो, पैदल
अयानता	संज्ञा	हिंदी, पंजाबी	अनजानपन, अज्ञान, भोलापन, अयानपना
अयाना (अयानो)	विशेषण	हिंदी, सिंधी	1 अज्ञानी, वृद्धिहीन, ना समझ 2 अनजान अपरिचित
अयाणा (अयाणो)		पंजाबी, सिंधी	3 बालक, शिशु, अवोध, जो मयाना नहीं
अयानयं	संज्ञा	मलयालम	1 बुरा या भला भाग्य
अयानय		संस्कृत, हिंदी	2 शतरज की १ रु चाल, मोहगे की विशेष स्थिति
अयाम	संज्ञा	हिंदी	1 याम या समय का अभाव 2 तीन घंटे का समय नहीं 3 पथ हीनता
अयावनं	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	1 मयोग या मिश्रण न होने देना
अयावन		हिंदी	2 कच्ची धातु (अयस्क) होने के अयोग्य, सगठित
अयास	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	विना प्रयास के, सहज ही, अनायास
अयास्य	विशेषण	हिंदी	1 जो फका या हटाया न जा सके 2 अटल,
अयास्य	संज्ञा	हिंदी	निश्चल, शान्त 3 अत्र, विरोधी, प्राण वायु (संज्ञा)
अयुक्	विशेषण	संस्कृत, मलयालम	1 लग्न में विषम गति 2 समतल नहीं, विषम
अयुक्त	विशेषण	हिंदी, मराठी	1 जो जुड़ा हुआ या सबद्ध न हो, अलग, पृथक,
अयुक्त		असमी, उड़िया, बंगला	असबद्ध, असयुक्त, स्वतंत्र
अयुक्त		नेपाली, कन्नड	2 जो सबद्ध के विचार से उचित, उपयुक्त या ठीक

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अयुक्त		संस्कृत	न हो; अयुक्ति संगत, अयोग्य, परस्पर विरोधी,
अयुक्त		गुजराती	असंगत, युक्ति विरुद्ध
अयुक्त		मलयालम	3. जो प्रयोग या व्यवहार में न लाया गया हो
अयुक्तम्		तमिल	4. जो भक्त या धार्मिक न हो, अधार्मिक
अयुक्तम्		तेलुगु	5. अनमना, अन्यमनस्क, जिसका चित्त न लगा हो,
अयुक्तिक		कन्नड	अनभ्यस्त, योगविरत, असावधान, आपदग्रस्त
अजुद्ध		पंजाबी	+ 6. अविवाहित; पशु जो जोता नहीं गया (हिंदी, संस्कृत)
अयुक्ति	संज्ञा	हिंदी, बंगला	1. संबंध या लगाव का अभाव, सामंजस्यविहीन,
अयुक्ति		गुजराती	पार्थक्य, स्थायित्वहीनता, एक रूपता का अभाव
अयुक्ति		असमी, उड़िया	2. युक्ति या तर्क का अभाव, युक्तिसंगत न होना,
अयुक्ति		नेपाली, संस्कृत	युक्तिहीनता, अनौचित्य
अयुक्ति		कन्नड	3. पुष्टि की कमी, असहमति, प्रमाण पुरःसर नहीं
अयुक्ति		मलयालम	+ 4. अन्याय, वियोग, कुपरामर्श, अनुपयोगिता (बंगला)
अयुक्ति		मराठी	+ 5. बंसी बजाते समय छेदों पर उंगलियाँ रखना (हिंदी)
अयुक्शक्ति	संज्ञा	हिंदी	शिव, महादेव
अयुक्शर (बाण)	संज्ञा	हिंदी	कामदेव, असमबाण कंदर्प, मनमिज
अयुगशरन्/बाण		मलयालम	कामबाण जिनकी संख्या सम नहीं है
अयुगक्ष (नयन)	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	शिव, महादेव, जिनके नेत्रों की संख्या विषम है
अयुग	विशेषण	हिंदी, मलयालम, संस्कृत	1. जो युग या जोड़ा न हो, अकेला, पृथक, अलग
अयुगल	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, मलया	2. संख्या जो सम न हो, विषम, असम
अयुग्म/अयुग्मा		असमी, बंगला, मलया	3. जो मिला या सटा न हो
अयुगलम्	संज्ञा	तमिल	+ 4. अकेलापन (तमिल)
अयुगु	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	1. स्त्री जिसका साथी न हो 2. मां की एकमात्र पुत्री
अयुगु	संज्ञा	हिंदी	3. एक संतान के बाद वंध्या हो जाने वाली स्त्री
अयुगुत	संज्ञा	असमी	अन्याय, अनुचित कार्य
अयुगुति		असमी	दुर्भाग्य, परेशानी, गरीबी
अयुग्म	विशेषण	हिंदी, उड़िया, बंगला	1. जोड़ा नहीं अकेला 2. विषम संख्या; पृथक, स्वतंत्र
अयुग्मा		असमी	3. जो किसी से जुड़ा या मिला न हो

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अयुग्मनयन अयुग्मनेत्रन्	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत मलयालम, संस्कृत	शिव, महादेव, त्रिनेत्र, त्र्यंबक शिव, अगम नेत्र, शंकर
अयुग्मवाहन अयुज	संज्ञा विशेषण	मलयालम, हिंदी हिंदी, मलयालम, संस्कृत	जिसके वाहनो की संख्या विषम हो, मृत्यु सगी साथी न होना, अकेला, पृथक, विषम
अयुत अयुत अयुतं	संज्ञा विशेषण संज्ञा	हिंदी, संस्कृत, कन्नड गुजराती, मलयालम मलयालम	1 असंयुक्त, अगलग्न, असंवेद, पृथक, बांटा हुआ 2 दस हजार की संख्या का स्थान 3 वर्चिन, रहित या हीन
अयुतसिद्ध अयुतसिद्धि अयुध (न्)	विशेषण संज्ञा विशेषण	गुजराती, हिंदी गुजराती, हिंदी, संस्कृत संस्कृत, हिंदी, मलयालम	जिसका पृथक अग्नित्व न सिद्ध हो सके (न्याय) अयुत सिद्ध होने की अवस्था या क्रिया युद्ध न करने वाला, वह जो न लड़े
अयुद्धय अयुध्य	विशेषण	मलयालम हिंदी, संस्कृत	1 अजेय, जिसमें युद्ध न किया जा सकता हो 2 जो युद्ध करने या लड़ने योग्य न हो (हिंदी)
अयोगं अयोग अयोग अयोग अयोगम् अयोगन्	संज्ञा संज्ञा संज्ञा संज्ञा संज्ञा संज्ञा	मलयालम हिंदी, गुजराती, मराठी नेपाली, असमी, बंगला संस्कृत, कन्नड, पंजाबी तमिल, मलयालम	1. योग या संबंध न होना, असंलग्नता, अयुक्तता 2 वियोग, अलगाव, अन्तगल, अवकाश, विच्छेद, विरह 3 अनुचिन, अन्याय युक्त, कुर्यांग 4 कूट शब्द (हिंदी) 5 अप्राप्ति, अक्षमता, अयोग्यता, अरुचि, नापसंदगी 6 ज्योतिष में दुष्ट ग्रहयोग, दुर्योग 7 कठिन कार्य 8 मुनार का हथौड़ा 9 विधुर
अयोगव अयोगवाह	संज्ञा संज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत हिंदी, असमी	शूद्र पिता एवं वैश्या माता की वर्ण संकर संतान अनुस्वार, विसर्ग, उपाध्यायीय और जिह्वा मूलीयवर्ण
अयोगि अयोगिकेवलि	संज्ञा संज्ञा	तमिल तमिल	वे जिन साधु जो प्रारब्ध भोग में मुक्त हैं एवं गुण स्थान वर्तिको में एक हैं
अयोगी	विशेषण	हिंदी	जिगने शास्त्रानुसार योग अनुष्ठान नहीं किया
अयोग्य अयोग्य अयोग्य (अयोग) अयोग्य अयोक्कियम् (न्)	विशेषण विशेषण संज्ञा संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, उड़िया, बंगला संस्कृत, कन्नड, पंजाबी नेपाली, मलयालम तमिल	1 जो योग्य न हो, जिसमें पूरी योग्यता न हो, अपात्र, योग्यताहीन, अक्षम, अनधिकारी 2 अनुपयुक्त, बेकार, निकम्मा, नाकाबिल, नालायक, अकर्मण्य, अनुपयोगी, अनिपुण 3. ना मुनासिब, गैरवाजिब, अनुचित

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अयोग्यमु (युडु)		तेलुगु	4 अमज्जन, अशोभन, शर्मनाक
अयोग्यु		सिंधी	5 जो उपयुक्त, संगत या सटीक न हो
अयोग्यता	सज्ञा	हिंदी, मराठी, गुजराती	1 योग्य न होने का भाव या अवस्था
अयोग्यता		नेपाली, असमी, बंगला	2 नालायकी, अपात्रता, कृपात्रता, निकम्पापन
अयोग्यता		तेलुगु, मलयालम	3. अनौचित्य, गुणहीनता, अनुपयोगिता
अयोगता		पंजाबी	4 अन अनुकूलता, अनुपयुक्तता
अयोक्त्रिकयतै		तमिल	5 किसी कार्य को करने की क्षमता या वृद्धि का अभाव
अयोग्य	विशेषण	मलयालम, गुजराती	निरुपयोगी, बेकार, अयोग्य
अयोत्र	विशेषण	असमी, बंगला	दीन, धन हीन, नि सबल, सम्पत्ति हीन, दिवानिया
अयोद्धा	संज्ञा	हिंदी, बंगला	1 जो योद्धा नहीं या जो अच्छा योद्धा नहीं
अयोद्धा		संस्कृत	2 निम्न श्रेणी का योद्धा, अपटु योद्धा
अयोध्य	विशेषण	हिंदी, कन्नड, संस्कृत	जा युद्ध करने योग्य न हो, जिमके माथ युद्ध
अयोध्य	विशेषण	मलयालम	न किया जा सकता हो, अतिप्रबल, अजेय
अयोनि	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 जो गर्भ में पैदा नहीं हुआ, योनि मार्ग में नहीं
अयोनि		असमी, उड़िया, बंगला	आया, जगयुज नहीं, अगर्भजात, अजन्मा
अयोनि		नेपाली, कन्नड	2. उत्पत्तिहीन, स्वयम्भू, जो जन्म नहीं लेता, मुक्त,
अयोनि		मलयालम, संस्कृत	अनादि, नित्य, मौलिक, अलौकिक जन्मा, अनन
अजूनी		पंजाबी	+ 3. आदिम (बंगला) अवैध रूप में उत्पन्न (रस)
अयोनिज(जा)	विशेषण	हिंदी, गुज, मलया, मराठी	1 योनिज नहीं, अगर्भजात यथा. उर्ध्वभज, देवता आदि
अयोनिज	संज्ञा	असमी, बंगला, कन्नड	2 ब्रह्मा, विष्णु, ईश्वर के गर्भी मान्म पुत्र
अयोनिजुडु		तेलुगु	3. जिमकी उत्पत्ति माता पिता के लौकिक संबंध में नहीं हुई
अयोनिजन् (जन्मन्)		मलया, तमिल, संस्कृत	4 स्त्रिया लक्ष्मी, सीता, द्रौपदी आदि जो योनि से
अयोनिसंभव		गुजराती, मराठी, कन्नड	उत्पन्न नहीं हुई
अयोनिसंभवा		संज्ञा, हिंदी, कन्नड, मलया	5 जो स्त्री पुरुष संगम में पैदा न हो, जिमका प्रादुर्भाव
अयोनिसंभूत		असमी, बंगला	योनि द्वारा संभव न हो
अयोक्तिक	विशेषण	उड़िया, मलयालम, हिंदी	युक्ति विहीन, युक्ति विरुद्ध, असंबद्ध तर्क,
अयोक्तिक		संस्कृत, बंगला	अनुपयुक्त, असंगत
अयोगपद्य	संज्ञा	संस्कृत	समकालीनता का अभाव

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अयौगिक	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 जो प्रकृति प्रत्यय योग में मिल्द न हो सकें
अयौगिक		नेपाली	2 शब्द साधन उपाय में मिल्द या उत्पन्न नहीं
अयौगिक		बंगला	3 अनियमित रूप में व्युत्पन्न, अव्युत्पन्न, रूढ
अयौगिक		संस्कृत	4 व्युत्पत्ति में निकला अर्थ नहीं, रूढार्थ
अयौतुकम्	संज्ञा	तमिल	1 स्त्री को विवाह के अवसर को छोड़ अन्य अवसर
अयौतक	संज्ञा	मराठी	पर मिला धन 2 धन का एक प्रकार
अयौन	विशेषण	हिंदी, नेपाली	जिसका यौन संबंध न हो, अलंगिक
अरंग	संज्ञा	हिंदी	1 वृग या वृगान् रग दृग, दुर्दशा 2 महक, सुगंध
अरंगी	विशेषण	हिंदी	1 रग रंगित 2 रग रंगित
अरंजित	विशेषण	गुजराती	जा रंजित या रंगा हुआ नहीं
अरक्त	विशेषण	गुजराती	जिस रंग या आसक्ति नहीं
अरक्षक	विशेषण	असमी	रक्षक या सहायक हीन, अग्ररक्षित
अरक्षा	संज्ञा	असमी	रक्षा का अभाव
अरक्षणीय	विशेषण	गुजराती, बंगला	जिसकी रक्षा न की जा सकती हो या करनी उचित
अरक्षणीय		असमी	न हो जो रक्षणीय नहीं
अरक्षणीया	विशेषण	बंगला	जिस कन्या की शादी किये बिना उसे रखा जाय
अरक्ष्य	विशेषण	बंगला	1 असहाय, पानेहीन, जिसकी रक्षा या बचाव न
अरक्षित	विशेषण	हिंदी, मराठी	किया गया हो, जिसकी रक्षा ठीक ढंग में न की
अरक्षित		नेपाली, असमी	गई हो जिसकी रक्षा करने वाला कोई न हो
अरक्षित		बंगला, उड़िया	+ 2 अपालित, अग्ररक्षित (वस्तु) (वगना) बिना बचाव,
अरक्षित		गुजराती	रक्षित न होना, देख भाल न किया जाना, पहरा
अरक्षित	अव्यय	असमी	न दिया जाना, सामरिक रक्षा का प्रबंध न होना,
अरखिया	विशेषण	असमी	जिसकी देखभाल को कोई न हो
अरघने	संज्ञा	कन्नड	उचित क्रम नहीं, अक्रमता
अरज	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 वामना रहित, कामना रहित, निष्काम
अरजस्क	विशेषण	संस्कृत, हिंदी	2 जिसमें रज या धूल न हो 3 स्वच्छ, साफ
अरजस्का	संज्ञा	संस्कृत, हिंदी	1 अरजम्बला, जिसको मासिक धर्म न हो
अरजा	संज्ञा	हिंदी, बंगला	2 रजोधर्म होने से पूर्व की अवस्था की कन्या

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अरजस्वला	मज्ञा	बंगला	3 महिला जिमका ऋतु काल समाप्त हो गया हो + 4 रजो गुण कार्य हीन, निर्मल, धूल शून्य/बंगला
अरज्जु अरण	विशेषण विशेषण	हिंदी, संस्कृत, मलया मलयालम, संस्कृत	1 जिममे रग्गी न हो 2 कागगार, जेल (सज्ञा) युद्ध न करना, रण से रहित
अरत अरत अरत अरत	विशेषण	हिंदी, मराठी बंगला, संस्कृत नेपाली, कन्नड मलयालम	1 जो किमी काम मे रत या लगा हुआ न हो, विरक्त अगम्वद्ध, सुस्त, काहिल, अनामक्त 2 जो अनुरक्त न हो, प्रेमहीन, उपेक्षित, अमनुष्ट + 3 पीमने कूटने की क्रिया, पिमाई, कटाई (कन्नड)
अरति अरति अरति अरति अरति अरति अरति	मज्ञा	हिंदी, संस्कृत गुजराती नेपाली मराठी कन्नड तमिल असमी बंगला, मलयालम	1 रग का अभाव, मनोष का अभाव, भोग विमुखता, उदासीनता, विरक्ति अनुष्ट 2 अनामक्ति, अमनोष, अरुचि, प्रेम या प्रीति हीनता, अनुक्ति, क्लेश, व्यथा, दुःख, उन्माद हीनता, विकलता, जडता, मुस्ती, अशान्ति, उचाटना, उद्विग्नता, काहिली, भवगदट, शोक, चिन्ता, कष्ट, पीडा, जडता, क्रियाहीनता, दुर्गति 3 एकै पतिक रग या उदर व्याधि 4 क्रोध (मज्ञा)
अर्त्तरदन् (अरथरधिन्)	मज्ञा	तमिल संस्कृत	रथचढकर युद्ध करने वाला यद् योद्धा जो हार कर भाग जाय, चार प्रकार के भगोडा मे एक
अरथी अरथी	विशेषण मज्ञा	हिंदी गुजराती, नेपाली	जो रथ पर सवार हो युद्ध करने वाला योद्धा नहीं, महान योद्धा नहीं, पैदल
अरद अरंधन अरम अरम	विशेषण मज्ञा विशेषण अव्यय	हिंदी, मलयालम, कन्नड बंगला मलयालम संस्कृत	विना दात का, दन्हीन, जिमके दांत टूट गये हो 1 खाना न बनाना 2 भाद्र सक्रान्ति पर्व नीच, निन्दनीय, अश्लील शीघ्रता, अत्यन्त, पर्याप्त, काफी, पूरा
अरमण अरमण अरममाण अरममाण	विशेषण विशेषण विशेषण विशेषण	मलयालम हिंदी, संस्कृत हिंदी संस्कृत	1 जो रमण (मन बहलाव) न कर सके 2 आनंद न देने वाला, अरुचिकर, असुखद, कुरूप, नापसंद, अमन्तोषकारक, प्रतिकूल, अधिराम 3 जिममे रमण न किया जा सके, अप्रसन्नता कारक

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अरमणीय अरम्य	विशेषण	बंगला, गुजराती मलया, संस्कृत, बंग, गुज	अगुन्दर, बुग, अनाकर्षक, रम्य या मनोहर नहीं, अरमणीय, अमुन्दर, रमण के अयोग्य
अरमा अरस	संज्ञा विशेषण	उड़िया गुजराती	कुन्सित (स्थान), अपरिष्कृत निरोगी, मोटा, मूर्ख
अरब अरबं अरबमु	विशेषण संज्ञा	गुज, हिंदी, बंगला, मलया मलयालम तेलुगु	1. नि.शब्द, ध्वनिहीन, शब्दहीनता, जिसमें स्वर न हो 2. चुप मौन, शान्त, मूक, बिना आवाज़, खामोशी 3. नीरव, रव या शब्द का अभाव (संज्ञा)
अरस अरसम् अरस	विशेषण संज्ञा	हिंदी, बंगला, मराठी तमिल नेपाली, संस्कृत	1. रमहीन, नीरस, रस का अभाव, फीका, अगुणकारी, शुष्क, वेम्बाद 2. अनाड़ी, रंगवार, अरमज्ञ 3. सुस्त, निर्बल, कर्कश, अमध्य, निस्तेज, मंद
अरसिक अरसिक अरसिक अरसिक अरसिकन् अरसिकुडु	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, उड़िया, बंगला नेपाली, मलयालम संस्कृत तमिल तेलुगु	1. जो रस को समझ न सके, काव्य के मर्म को न जानने वाला, काव्यमाधुरी का जिम पर प्रभाव परिणाम न हो या जिसे उससे प्रेम न हो 2. रसबोध शून्य, अमहदय, रसहीन, शुष्क स्वभाव, कला में रस न लेने वाला, रूखा स्वभाव, मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, जो रसिक नहीं, रूखा हो
अरसिकता अरसज्ञता अरहित	संज्ञा संज्ञा विशेषण	गुजराती, मलयालम बंगला हिंदी	रस न सँझने का भाव या अवस्था अमहदयत्व, रस बोध शून्यता रहित का विशेषण. भरा पूरा, सम्पन्न
अराग अरागम् अरागिन्	विशेषण	गुज, हिंदी, संस, मलया तमिल संस्कृत	1. राग, मोह रहित, राग का अभाव, अरति, शान्त 2. निर्विकार, अप्रीति, वामना रहित, उदासीन 3. अनवनाव, अनासक्त, स्थिर, पक्षपात शून्य
अरागी/अरागि अराज (अराज्य) अराज	विशेषण संज्ञा विशेषण	हिंदी, मलयालम असमी हिंदी	जिम्में राग (प्रेम रंग, मनोविकार आदि) का अभाव हो जहाँ जन बसना न हो, सुनसान जगह 1. बिना राजा का (देश) 2. क्षत्रियो रहित 3. अराजक
अराजक अराजक अराजक	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, उड़िया बंगला, संस्कृत	1. राजा या शासनहीन राष्ट्र, स्वामी रहित, कुशासन, अव्यवस्था, अध्याधुंधी, नियमहीनता, बदअमली, अफरातफरी, चौपट राज

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अराजक		नेपाली, कन्नड	+ 2 शासन सत्ता को न मानने वाला या उल्लंघन करने
अराजक		मलयालम	वाला (नेपाली), विद्रोही, षडयंत्रकारी
अराजकमु		तेलुगु	3 अराजकतावादी, विरुद्धी, राजद्रोही (अनार्किस्ट)
अराजकता	मज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 समाज में तन्त्र, विधि या व्यवस्था का शासन
अराजकता		उड़िया, नेपाली	न रह गया हो, शासन का अभाव
अराजकता		बंगला, संस्कृत	2 शासक के अभाव में उत्पन्न विश्र्वनता,
अराजकम्		तमिल	अशान्ति, हलचल, अव्यवस्था
अराजकतावाद	सत्ता	हिंदी, गुजराती	1 राज्य मन्तव्य व्यवस्था का प्रतिपादन करने वाला
अराजकतावाद		नेपाली, संस्कृत	गन या मिद्वन्त 2 अक्ष विना स्या न व्यवस्था
अराजकतावादी	विशंगण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 अराजकता का समर्थक, प्रतिपादक अन्यायी
अराजकतावादिन्		संस्कृत	2 राज्य शासन होने जिमका मिदान न हो
अराजन्	मज्ञा	संस्कृत	गजा नहीं
अराजन्य	विशंगण	हिंदी	1 (व्यक्ति) जो राजन्य या क्षत्रिय न हो
			2 राज्य जिममें क्षत्रिय न हो
अराजपण्यन्	मज्ञा	मलयालम	विना लाइसेंस शराब बेचने वाला
अराजपण्य		संस्कृत	विना गजाज्ञा के जो व्यापार कर
अराजबीजि	मज्ञा	मलयालम	1 जो गजा की मन्तव्य न हो
अराजबीजिन्		संस्कृत	2 गजा के खानदान का न हो
अराज बीजी	विशंगण	हिंदी	+ 3 अराजकता फेलाने वाला, गन विद्रोह पचारक
अराजि	विशंगण	मलयालम	शोभा रहित
अराजी	अव्यय	नेपाली	गजी या महगन नहीं, विराजी
अराति	मज्ञा	हिंदी	1 शत्रु, दुश्मन, विरोधी, वैरी
अराति		नेपाली	2 काम, क्रोध, मद, लोभ, माह और मत्सर ये छ
अराति		तमिल	मनाविकार जो मदगुण व मूग्ध नष्ट कर देते हैं
अराति		मलयालम	3 उक्ति आधार पर छ की मन्तव्य
अरातिन्		संस्कृत	4 ज्योतिष में जन्म लगन में छटा गथान .
अराद्धि	मज्ञा	हिंदी	1. दुर्भाग्य 2 विफलता 3. अपराध, दोष 4 पाप
अराद्धि		मलयालम, संस्कृत	5 ईर्ष्या, अगुय 6 विपत्ति 7 सम्यक् सिद्धि नहीं

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अराधस्तु अराधस्तु	विशेषण	मलयालम संस्कृत	1 जिसमें यज्ञ करने की सामर्थ्य न हो, गरीब 2. जो सामर्थ्य रहते यज्ञ न करे, कज्जम, म्यार्थी, अनुदार
अराम अराम	विशेषण	गुजराती बंगला	+ 1 बिना व्याज का (गुजराती) + 2 बिना गम का (बंगला), गमभून्य
अराय अराष्ट्र	विशेषण संज्ञा	मलयालम हिंदी	1. निर्धन 2. कंजूम राष्ट्र नहीं, राज्य सत्ता का अन्त
अरि अरि अरि	संज्ञा	मलयालम हिंदी, नेपाली संस्कृत	1 देखें श्रगति + 2 स्वामी, मालिक, दुर्गंध, दवा, धार्मिक व्यक्ति, रथचक्र, वान गग (हिंदी) + अनुदार (मलया)
अरिच अरिपु अरिप्र अरिट्टनेमि/अरिष्टनेमि	विशेषण विशेषण विशेषण	हिंदी, संस्कृत कन्नड मलयालम, संस्कृत, कन्नड तमिल, हिंदी	शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुघ्न मित्र, दोस्त, गिपु अर्थात् बगी नहीं वदाग, निष्प्राप, दोषभून्य, त्रुटिहीन निर्मल, स्वच्छ तीर्थकर नेमि, मोलहवे प्रजारति, कश्यपके पुत्र
अरिष्ट अरिष्ट अरिष्ट अरिष्टम् (अरिष्टै) अरिष्टम् अरिष्टमु अरिष्टं	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली असमी, पंजाबी, संस्कृत कन्नड, मराठी तमिल तमिल तेलुगु मलयालम	1 हानि, नुकसान, दुर्भाग्य, आपत्ति, अधुम, क्लेश, दाग्द्वय, वृगी प्राग्ध, बदकिस्मती, शत्रु, अनिष्टकर्मक ग्रहयोग, मृत्यु मूचक चक्षण या शकुन, भूमिप आदि उत्पात, अति उष्णता + 2 सौभाग्य, हर्ष, अमंगल न होना, प्रमन्नता (असमी) + 3 पीडा या मृत्यु घटाने वाले ग्रह नक्षत्रों का योग (असमी) + 4 अविनाशी, अन्न, अक्षत, दृढ, मूर्गक्षत (मलया)
अरिष्टित्तल अरिष्टगृह (हं) अरिष्टांश अरीण अरिष्टते (ताति) अरिष्ट-नुष्ट-पि	संज्ञा संज्ञा संज्ञा विशेषण संज्ञा	तमिल कन्नड, हिंदी, संस, मलया कन्नड मलयालम कन्नड, संस्कृत, मलया कन्नड	मार डालना 1 घर में पडा रहना, रुग्णावस्था +2 प्रसव गृह (हिंदी, मस) दुष्ट नक्षत्र या बुगी ग्रह दशा का अंतिम भाग 1 पूरा भरा हुआ 2 जो पिघला न हो 3 जो गायब नहीं 1 सौभाग्य 2 शुभ बनाना 3 शुभ करने वाला मृत्यु संभावना
अरीत अरीति अरीतिक	संज्ञा विशेषण विशेषण	हिंदी हिंदी, असमी हिंदी, नेपाली	1 जो नियम शैति के अनुसार न हो, अनेपचारिक (इनमर्मन) 2 शिष्टाचार रहित, शास्त्रविरुद्ध आचार, अनाचार, अनुचित या बुरा काम

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अरीतिया	विशेषण	असमी	1 हिन्दू धर्म की एक शाखा जो शास्त्र विरोधी है 2 शास्त्र नियम विरुद्ध प्रवर्ता, अनाचारी
अरुण	विशेषण	हिंदी, बंगला	1 जो रुग्ण न हो 2 नीरोग, तन्दुरुस्त
अरुक् (ज)	विशेषण	हिंदी	3 रोगग्रस्त, स्वस्थ
अरुचतुं	विशेषण	गुजराती	अरुचिकर, नापसद
अरुचि	मज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 कोई वस्तु अच्छी न लगना, आहार के लिए
अरुचि		असमी, उड़िया, बंगला	अनिच्छा, भ्रूत न लगना, अग्निमाद्य रोग
अरुचि		मलयालम, कन्नड, संस्कृत	2 अप्रवृत्ति, अप्रीति, दिलचस्पी न होना, घृणा,
अरुचि		नेपाली, तेलुगु	नकरत, विरग, विरक्ति, अश्रद्धा अस्वीकृति
अरुचि/अरुसि		तमिल	3 अमान्यता, न पसन्दी मतापजनक समाधान का
अरुची		पंजाबी	अभाव 4 रस न लेना
अरुचिप्यित्तम्	मज्ञा	तमिल	पित्त रोग जिसमें भोजन के प्रति स्वाद नहीं रहना
अरुचिकर	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 नापसद, अप्रवृत्तिजनक अमतापजनक, खाने का
अरुचिकर		असमी, उड़िया, बंगला	मन न होना, कूटन पैदा करने वाला
अरुचिकर		नेपाली, संस्कृत	2 अरुचि उत्पन्न करने वाला, अस्वादिष्ट
अरोचगम्/अरोचिनम्		तमिल	3 अरुचिजनक, न रुचने वाला भोजन या आहार
अरुध्य		हिंदी, नेपाली, संस्कृत	1 अगुदर, विरक्ति जनक, भला न लगने वाला,
अरुचिर	विशेषण	गुजराती, बंगला	कूटन पैदा करने वाला, मन को न माना
अरुचिर	विशेषण	संस्कृत	+ 2 मनाहर न हो, अशुभ, अगमल (सम्कृत)
अरुज	विशेषण	हिंदी, कन्नड	गग रहित, नीरोग, स्वस्थ, तन्दुरुस्त, भला चंगा,
अरुज		मलयालम, संस्कृत	वेदना रहित
अरुष	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, मलया	1 चगकीला 2 अक्षत 3 अक्रुद्ध, रूठा हुआ नहीं
अरुष्ट	विशेषण	असमी, संस्कृत	अक्रुपित, अक्रुद्ध, रूठा हुआ नहीं, मतुण, शान
अरुष्कर	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, मलया	व्रणकारक, क्षत कारक, मायल या चोटिल करने वाला
अरुक्ष	विशेषण	मलयालम	1 सूखा नहीं, गुद, कोमल, कठिनताहीन
अरुक्ष	विशेषण	हिंदी	2 अन्निर्दय, दयावान 3 स्निग्ध
अरुद्ध	विशेषण	गुजराती, हिंदी	प्रचलित न होना, जो रूढ़ न हो

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अरूप	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. रूप या आकारहीन, निराकार, आकृति रहित
अरूप		असमी, उड़िया, बंगला +	2. ईश्वर, सृष्टिकर्ता (शैव), सिद्ध शिला स्वर्ग जहां
अरूप		कन्नड, संस्कृत	सिद्ध रहते हैं (जैन, तमिल) 3. असुन्दर रूप, विकृत
अरूप		नेपाली, पंजाबी	अंगयुक्त, कुरूप, बदशकल, भद्दी शकल
अरूप/अरूपं	विशे, संज्ञा	मलयालम	4. असमान, असदृश, विसदृश; सांख्य दर्शन का
अरूपम् (अरुवम्)		तमिल	प्रधान और वेदान्त का ब्रह्म 5. शब्द, वायु
अरूपक	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1. आकृतिहीन, अपार्थिव, रूपकालंकार रहित (शाब्दिक)
अरूपक		संस्कृत	2. बौद्ध दर्शन के अनुसार योग की एक अवस्था
			जिसे निर्बीज समाधि कहते हैं (संज्ञा), अविकल
अरूपावचर	संज्ञा	हिंदी	वह चित्तवृत्ति जिसमें अरूपलोक का ज्ञान प्राप्त
			होता है (बौद्ध)
अरूपिन्	विशेषण	संस्कृत	अशरीरी, आत्मा, देह रहित, आकार रहित,
अरूपि	संज्ञा	तमिल, मलयालम	अवयवहीन, रूप विहीन, शिव (संज्ञा)
अरेचिकम्		तमिल	कंला जो रेचक नहीं है
अरेणु	विशेषण	मलया, हिंदी, नेपा, संस	धूल रहित, जिसका धूल से स्पर्श न हुआ हो
अरेपस्तु	विशेषण	मलयालम	1. पाप रहित, निष्पाप, निष्कलंक
अरेपस्		संस्कृत	2. पवित्र, अच्छ, निर्मल, शुद्ध
अरोक	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1 जो रोक न जा सके या जिस पर नियंत्रण न हो
अरोक	संज्ञा	कन्नड +	2. अंधकार, निराशा भरा (कन्नड), छिद्ररहित
अरोक	क्रियाविशेषण	पंजाबी	3. कान्तिहीन, निष्प्रभ, धुंधला, बे-चमक
अरोक	विशेषण	संस्कृत	बिना रोक के, बिना संदेह, निःसंदेह(क्रिया विशेष)
अरोगविडकात्तिरम्	संज्ञा	तमिल	अरोगदृढगात्रम्, हृष्टपुष्ट शरीर
अरोग	विशेषण	हिं, गुज, बंग, कन्नड, मलया	1. रोग रहित, नीरोग, स्वस्थ, तंदुरुस्त
अरोगम् (अरोगु)	संज्ञा	तमिल, संस्कृत, सिंधी	2. रोग का अभाव, आरोग्य, रोगमुक्तता
अरोगी	विशेषण	हिं, गुज, बंग, असमी, पंजा	1. निरोगी, स्वस्थ, जिसे रोग न हुआ हो
अरोगि		मलया, कन्नड	2. तंदुरुस्त, रोग मुक्त, सेहतमंद
अरोगता	संज्ञा	पंजाबी, सिंधी, मलया	रोग न होने का भाव, निरोगावस्था,
अरोगिता		असमी	सुस्वास्थ्य, आरोग्य, स्वस्थता

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अरोचक	विशेषण	हिंदी, गुजराती, संस, मलया	1 अरुचिकर, अप्रीतिकर, भूख मंद करने वाला
अरोचक		नेपाली, बंगला, कन्नड	2 रुचिहीनता अग्निमाद्य रोग, रोग जिसमें मुह में
अरोचकं		मलयालम	स्वाद नहीं आता भोजन में ऊब या घृणा पैदा होती
अरोसगम् (चिकन्)		तमिल	है, बदहजमी + 3 जो चटकीला चमकीला न हो
अरोचकमु		तेलुगु	गलिन (नेपाली संस्कृत, हिंदी) + 4 गदा (कन्नड)
अरोचिका		बंगला	अरुचिजनक, अप्रीतिकर
अरोचकि (अरोचि) विशेषण		मलयालम, कन्नड	1 अग्निमाद्य रोग से पीड़ित (व्याप्त)
अरोचकिन्		संस्कृत	भूख न लगना ना पसंदगी
अरोचकी		हिंदी	+ 2 साहित्य में अरुचि (मलयालम)
अरोचिकमु		तेलुगु	+ 3 जिसे प्रगल्भ करना कठिन हो (मंगालीयक)(मलया)
अरोचिष्णु	विशेषण	मलयालम	1 अशांभत विरूपी मंद, चमकहीन
अरोचिष्णु		संस्कृत	2 जो दृष्ट न हो अप्रीतिकर
अरोचित्तल्	अकार क्रिया	तमिल	घृणा होना ऊबना
अरोघ्य	विशेषण	हिंदी	1 जिसे रूढ़ किया या रोकना न जा सक, अबाधित
अरोघ्य		बंगला	2 अबाध्य, दुर्दमनीय 3 जिसे रोकना रचित न हो
अरोष	मज्ञा	बंगला	क्रोध रहित, जिसमें रोष न हो
अरोमक	मज्ञा	कन्नड	गजा, सिंग पर वाल न हाना
अरौद्र	विशेषण	हिंदी	जा भयकर न हो, रोम्य, विष्णु का एक नाम (मज्ञा)
अर्वाचिक (अर्वाचिक) विशेषण		मराठी	अपक्व, अनभ्यस्त, अकुशल, अनुभवहीन
अर्वाच्य (अर्वाच्य)	मज्ञा	मराठी	अश्लील, ग्राम्य, अनुचित बोलने वाला
अलंघ	अव्यय	गुजराती	दूर, अनग
अलघधलंघ	अव्यय	गुजराती	अधर, बिना आधार का
अलंघन	विशेषण	बंगला	1 लघन या उपवास न करना 2 लघन या उल्लघन न किया जा सके, पालन करना, मानना
अलंघनीय	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 जिसे लाघा न जा सके, पार न किया जा सके
अलङ्घनीय		उड़िया, बंगला, असमी	2 जिस नियम या आदेश का पालन आवश्यक हो,
अलङ्घनीय		नेपाली, मलयालम, संस्कृत	अनतिक्रमणीय, जो अनतिक्रमण योग्य नहीं
अलंघनीयम् (अलंघ्यम्)		तेलुगु	3 जो अमान्य करने योग्य न हो
अलंघ्य		हिंदी, गुज, मरा, बंग	4 अटल, जो टाला न जा सके

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अलङ्घ्य अलङ्घ्य		अस, उड़ि, कन्न, नेपा मलयालम, संस्कृत	5. जिसके बीच में गुजरा न जा सके 6. (वस्तु) जिसे लांघा न जा सके या लांघना उचित न हो
अलङ्घ्यता अलंबी	संज्ञा विशेषण	तेलुगु मराठी	पहुंच में बाहर, अनतिक्रमणीयता जिसका आधार, आश्रय या टेक न हो, अस्थिर
अलक्त अरक्तम्/अलक्तम्	संज्ञा संज्ञा	नेपा, हिंदी, संस्कृत, गुज तमिल	1. आलता, जिसे स्त्रियां पांव पर या कभी होठों पर लगाती हैं 2. जो लाल है पर रक्त नहीं है
अलक्ष अलक्ष	संज्ञा	कन्नड, कोंकणी, नेपाली गुजराती	1. उपेक्षा, लापरवाही, बिना देखे चलना + 2. गरीबी, अलक्ष्मी (गुजराती)
अलक्षण अलक्षण अलक्षण अलक्षणे (क्षुणे) अलच्छिनी अलक्षणी	विशेषण	हिंदी, गुजराती नेपाली, बंगला, संस्कृत कन्नड, मलयालम बंगला नेपाली उड़िया	1. चिह्न/निशान/पहचान/संकेत या परिचायक चिह्नों से रहित, अशुभ चिह्न, रूपभेदहीन 2. अनुपयुक्त परिभाषा, परिचय के चिह्नविहीन 3. अशुभ, वर्जित, खराब लक्षण युक्त, कुलक्षण 4. भाग्यहीन, अमंगलकारी, अपशकुनी, अपलक्षणी 5. भद्दा, तृच्छ भाग्य, अप्रमिद्ध, दुर्भाग
अलक्षित अलक्षित अलक्षित अलक्षित	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, उड़िया, बंगला नेपाली, कन्नड, मलयालम संस्कृत	1. अन देखा, अनिरीक्षित, अकृत लक्षण, अनुद्दिष्ट 2. अनर्कित, महत्वहीन, जिसे देखा समझा न गया हो, ध्यान में बाहर, लक्ष्य से बाहर, अप्रकट, न दिखना हुआ, अप्रत्यक्ष, गुप्त, अदृश्य, अज्ञात न देखना, बिना समझे या बिना निरीक्षण किये, उपेक्षा कर, महत्व न दे, बिना देखे रह
अलक्षिते अलक्षिसु	क्रियाविशेषण क्रिया	असमी कन्नड	
अलक्ष्मी अलक्ष्मी अलक्ष्मी अलक्ष्मि	विशेषण संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, बंगला नेपाली, संस्कृत मलयालम, कन्नड	1. लक्ष्मी का अभाव, गरीबी, दरिद्रता, दुर्भाग्य की देवी, विघ्ननावस्था, अभागापन, दुर्दशा 2. पुराणों में कथित लक्ष्मी की बड़ी बहिन दारिद्र्य की देवी 3. ऐसी स्त्री जिसमें अशुभ लक्षण हों
अलक्ष्मीक	विशेषण	मलयालम	भाग्यहीन, सौन्दर्य शोभाहीन, अभाग
अलक्ष्य अलक्ष्य अलक्ष्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, उड़िया, बंगला नेपाली, कन्नड, संस, मलया	1. दृष्टि के अगोचर, अदृष्ट, अदृश्य, अज्ञात, अकल्प्य, अज्ञेय, चिह्न रहित, अप्रकट, गुप्त (ब्रह्म) 2. जिस का लक्षण न किया जा सके

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अलक्ष्यं	सज्ञा	मलयालम	3 जिसका निरीक्षण न किया जा सक
अलक्ष्यमु		तेलुगु	+ 4 जिसे पृथक न जाना जा सक (अगमी)
अलक्ष्यम्		तमिल	5 जिस पर ध्यान न दिया गया हो
अलक्षिक्यम्		तमिल	+ 6 उदासीनता, उपेक्षा, निरस्कार, अवज्ञा (तेलुगु)
अलक्ष्यम्	सज्ञा	संस्कृत	1 जिस बनाना उचित न हो 2 उद्देश्य रहित
अलक्ष्यं	सज्ञा	मलयालम	3 असन्मान, उदासीनता अवज्ञा निरस्कार
अलक्ष्यगति	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 ऐसे चलना कि कोई देख न ल 2 अदृश्य रूप से गमन करने वाला
अलक्ष्यसिङ्ग	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	वेश बदल हुआ, नाम पता छिपाये हुए
अलक्ष्यतेखणें	क्रिया	मराठी	तुच्छ समझना उपेक्षा करना निरस्करणीय समझना
अलक्ष्यधारणें	सज्ञा	मराठी	दुर्लक्ष्य अनग्रधानता ध्यान न देना
अलक्ष्यवादी	विशेषण	गुजराती	अलखवादी, ब्रह्मवादी निर्गुणवादी
अलक्ष्या	सज्ञा	मराठी	यागियों का एक प्रकार का आसन
अलख	विशेषण	पंजाबी, गुजराती	1 अलक्ष्य अदृश्य अप्रत्यक्ष इन्द्रियातीत अज्ञेय
अलख		हिंदी, नेपाली, मराठी	अगोचर, ईश्वर का एक विशेषण ब्रह्म
अलखु		सिंधी	+ 2 योगी सन्यासियों द्वारा भिक्षा के समय उच्चारित
अलख	सज्ञा	मराठी	शब्द (नेपाली) + 3 ब्रह्मवादीशब्द (मराठी)
अलखपारी	सज्ञा	नेपाली, हिंदी	अलख (धूनी) जलाकर निर्वात करने वाला माधु
अलखनामी	सज्ञा	नेपाली, हिंदी	गोरखपथी संप्रदाय का अनुयायी भिक्षार्थी
अलखनिरंजन	सज्ञा	गुजराती, मराठी, हिंदी	ब्रह्मवादी शब्द अज्ञेय निर्गुण ब्रह्म
अलखवादी	सज्ञा	गुजराती	ब्रह्मवादी, निराकार का उपासक
अलखिते	क्रियाविशेषण	बंगला	अज्ञात रूप से, गोपनीय रूप से
अलखबम्बु	सज्ञा	नेपाली	जागी द्वारा भिक्षा मागने का मंत्र या उच्चारित शब्द
अलग	विशेषण	हिंदी, गुज, मरा, नेपा	1 जुदा, पृथक, भिन्न, लगा हुआ नहीं, असलग्न
अलग्ग		पंजाबी, उड़िया, नेपाली	दूर, विभक्त, अस्पष्ट, निराला, आधार रहित
अलग्न		बंगला	न्याग, तटस्थ, गुर्गक्षित, विशिष्ट, अक्षिश्लिष्ट
अलगुं		गुजराती	2 गुण, प्रकार, रूप आदि के विचार से औरों से भिन्न
अलाककु		तमिल	3 गति समूह आदि में से निकाल कर अलग रखा हुआ
अलगि		सिंधी	4 जिसका सपर्क या सबध न हो या न रह गया हो
			+ 5 अशुभ लगन (बंगला)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अलगाना	सकर्मकक्रिया	हिंदी	अलग करना, दूर रखना, छाटना
अलगाना	अकर्मकक्रिया	हिंदी	अलग होना
अलघु	विशेषण	हिंदी, बंग, कन्नड, संस	1 छाना या हल्का नदी, बड़ा, भारी, लवा, दीर्घ, गुरु
अलघु		मलया, तेलुगु, नेपाली	2 गभीर, सर्गान, प्रचण्ड, प्रबल, उग्र, महान, मारवान
अलघुत्तर	सज्ञा	कन्नड	असाधारण भारी, लवा, बड़ा
अलघु-उच्चारण	सज्ञा	कन्नड	दीघ स्वर, लवा स्वर खींचकर बोलना
अलघुदु	विशेषण	तेलुगु	प्रतिष्ठित व्यक्ति, भारी भ्रमकम व्यक्ति
अलघुवु	सज्ञा	तेलुगु	हम्य नहीं, दीघ स्वर, द्विमात्रिक वर्ण
अलज्ज	विशेषण	गुज, पंजाबी, बंगला, हिंदी	1 जिसे लज्जा नहीं, निर्लज्ज, वैशरग, बेहया, धृष्ट
अलाजुक	विशेषण	उड़िया	2 लज्जा का अभाव, लज्जाहीनता
अलत्थ	विशेषण	पंजाबी	3 बलिहाज, उद्वण्ड,
अलब्ध/अलब्धि	विशेषण	मलयालम, बंगला	अप्राप्त, जो मिलना नहीं, अनुपलब्ध, जो हाथ
अलब्ध/अलब्धि	विशे सज्ञा	गुजराती, हिंदी, संस्कृत	न आया हो, अर्थात्, अनुपलब्धि, हस्तगत न होना
अलभ/अलम्ब	विशेषण	गुजराती, पंजाबी	1 जो प्रयास में भी प्राप्त न हो, अप्राप्य, दुष्प्राप्य
अलभ्य		हिंदी, गुजराती, मराठी	2 याग में जिसे समर्पण की भूमिका न प्राप्त हुई हो
अलभ्य		असमी, उड़िया, बंगला	3 अनुपलब्ध वस्तु का, अनमोल, अमूल्य, अनपेक्षित
अलभ्य		नेपा, कन्नड, संस, मलया	4 जो प्राप्त योग्य नहीं, जो न मिलता हो, दुर्लभ
अलभ्यमु (अणलभु)		तेलुगु, सिंधी	5 जो लभ्य न हो, अथवा न मिल सकें, फलत दुर्लभ
अलभ्य लाभ	सज्ञा	मराठी	1 बहुत मोटा लाभ 2 दुर्लभ की प्राप्ति
अलम्पट	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, मलया	1 जो लम्पट या विषयी न हो 2 शुद्ध चरित्र वाला
अलय	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 गृहीत, इधर उधर भटकने वाला, आवारा, यायावर
अलय	सज्ञा	असमी	2 अविनाशी, नाशहीन, नित्य, जन्म, उत्पत्ति (मस)
अलय	विशेषण	मलयलाम	3 बिना लय का, जिसमें लय न हो
अलवण	विशेषण	गुजराती, मराठी	अलोना, फीका, बिना नमक का, बे मजा
अलर	विशेषण	असमी	गतिहीन, शक्तिहीन, अपरिवर्तनशील
अलररूपे	क्रियाविशेषण	असमी	निश्चित रूप से, अवश्य ही
अलस	विशेषण	हिंदी, असमी	1 आक्रियाशील, सुस्त, कार्हील, आलसी, कामचोर,
अलस	विशेषण	मलयालम	चेष्टा हीन, निष्क्रिय, थका हुआ

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अलस	विशेषण, संज्ञा	संस्कृत	2 श्रात, क्लान्त, मद, मंद बुद्धि, सामर्थ्यहीन
अलससू/अलसल	विशेषण	तमिल	3 इंद्रियो की निष्क्रियता, मदता, आलस्य (संज्ञा)
अलसम्	संज्ञा	तमिल	+ 4 पैरो की उगलियो के चमड़े का सडना (हिंदी, सस)
अलस/अलसता	विशेषण, संज्ञा	नेपाली, मलयालम	5 एक विषैला जन्तु, एक वृक्ष, हंसपदी लता (संज्ञा)
अलसक	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1 अकर्मण्य, मुस्त, काहिल +2. अजीर्ण रोग का
अलसक	विशेषण	संस्कृत	एक भेद (हिंदी)
अलसाना	अकर्मकक्रिया	हिंदी, नेपाली	1 आलस्य युक्त हेना 2 उदासीन, विन्न या विरक्त हेना
अलागतीया	विशेषण	असमी	अनावश्यक, व्यर्थ, जो टिकाऊ न हो
अलापब	विशेषण	गुजराती	निरर्थक विस्तार एक शैली दोष, गोरव
अलाजुक	विशेषण	उड़िया	निर्लज्ज, बेहया, जिसे लाज शर्म न आनी हो
अलाभ	विशेषण	गुजराती, नेपाली, असमी	1 लाभ का अभाव, हानि, नुकसान, अप्राप्ति
अलाभ	विशेषण	हिंदी, बंगला	2 घाटा होना, फायदा न होना, क्षति, नाश
अलाबम्	विशेषण	तमिल	3 हानि का पर्यायवाची शब्द
अलाभकर	विशेषण	हिंदी, नेपाली	आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं, बेफायदा, व्यर्थ
अलायक	विशेषण	असमी, हिंदी	अयोग्य, निकम्मा, योग्यता विहीन, नानायक
अलास्य	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	जो नृत्य न कर रहा हो, आलसी, काम में नहीं लगा
अलिंग	विशेषण	हिंदी, गुजराती, कन्नड	1 बिना चिह्न या लक्षण का, जिसके कोई लिंग न हो
अलिंग्ग	विशेषण	मलया, संस्कृत, नेपाली	2 जो सब लिंगों में समान रूप से प्रयुक्त हो (शब्द)
अलिंग्ग	संज्ञा	मलयालम	+ 3 बुरे चिह्नो वाला (संस्कृत)
अलिंगी	विशेषण	गुजराती	1. जाति रहित, शरीर रहित
अलिंग्गि	संज्ञा	मलयालम	2 परमात्मा की एक उपमा +3. कपटी माधु (मलयालम)
अलिखित	विशेषण	हिंदी, नेपाली, गुजराती	1 लिखा हुआ नहीं 2. न लिखा होने पर भी
अलिखितम्		तेलुगु	लिखित के समान मान्य यथा अलिखित विधान
अलिप्त	विशेषण	हिंदी	1. लीपा पोना हुआ नहीं, बिना लेप के
अलिप्त		गुजराती	2. असंलग्न अनावृत, सम्पर्क रहित, अलग, अछूता.
अलिप्त		मराठी, संस्कृत	निर्दोष, संबन्ध विरहित, अमिलित, विभक्त, पृथक,
अलिप्त		नेपाली	बेलाग, मिराला 3. अमलिन
अलिप्त	संज्ञा	मलयालम	आग्रह विहीन, इच्छा से मुक्ति
अलिप्ता		संस्कृत	लोभ-लालच न होना, लालसा रहित

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अलीक अलीक अलीकम्/अलिकम्	विशेषण	हिंदी, मराठी, संस, गुज उड़िया, असमी, बंगला तमिल	1. अप्रिय, खोटा, मिथ्या, झूठ, मनगढ़त, असत्य 2. असत्य भाषण या वचन + 3. अल्प, कुछ, अमूलक (कल्पना), सार हीन, बे-मिर पैर का + 4. कृत्रिम अप्रतिष्ठा, अप्रिय विषय (तमिल)
अलीक अलीकिन् अलीकता	संज्ञा विशेषण संज्ञा	हिंदी, संस्कृत, बंगला संस्कृत, हिंदी असमी	ललाट, माथा, स्वर्ग, मर्यादा अरुचिकर, अप्रमन्नकर, झूठ, मिथ्या असत्यता, झूठ, मिथ्याभाव
अलीन अलीन	संज्ञा विशेषण	हिंदी नेपाली	1. जो लीन न हो, विग्न + 2. अनृचिन, अग्राह्य (हिंदी) 3. दरवाजे की चौखट का खड़ा बाजू (मञ्जा)
अलुआं	विशेषण	पंजाबी	कम उम्र का बच्चा, जिसके दाढ़ी मूँछ न हों
अलुक अलुक	संज्ञा संज्ञा	हिंदी, गुजराती बंगला	1. जिस समास में विभक्ति लोप न हो (मनमिज) 2. जिसका लोप न हो सके ऐसा, लोप रहित
अलुकसमास अलुक समासं	संज्ञा संज्ञा	मराठी, संस्कृत, गुजराती मलयालम, बंगला	जिस समास शब्द में पहले पद की विभक्ति लुप्त न हो
अलुप्त अलुप्त	विशेषण	बंगला, मलयालम संस्कृत	1. लोप हुआ नहीं, लोप विहीन, विद्यमान, छिया नहीं 2. जिसे छोड़ा या मिटाया न जाय, अक्षुण्ण, अव्याहृत
अलुप्तशक्ति अलुप्तन् अलुप्त अलुप्त	संज्ञा संज्ञा विशेषण विशेषण	तमिल तमिल बंगला मलयालम संस्कृत, हिंदी	अलुप्तशक्ति (संस्कृत) अमीम दया (शैव) निर्लोभ, आसक्ति हीन, रागहीन, आकांक्षाहीन अनामक्त, लालच रहित रूखा नहीं, कोमल, नय
अलूणां (णुं) अलूना (णी)	विशेषण विशेषण	गुजराती, पंजाबी हिंदी, सिंधी	1. नमक बिना 2. अलोना खाने का व्रत 2. अलूणां-गोसे व्रत का दिन जिसमें नमक वर्जित हो
अलून	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	न काटा-छांटा हुआ, ज्यों का त्यों
अलेख अलेख अलेख अलेख	विशेषण	हिंदी, मलयालम गुजराती असमी, कन्नड उड़िया	1. बिना लिखा, खाली, कोरा पृष्ठ जो सहज समझ में न आवे, दुर्बोध, जो जाना न जा सके- अज्ञेय 2. असंख्य, अगणित, बेहिसाब, जितना लिखा न जा सके + 3. लिखने के लिए तैयार किये ताड़ के पत्ते (तमिल)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अलेख		नेपाली	+ 4. धनाढ्य, संपत्तिशाली, सम्पन्न. खूब धनी (नेपाली)
अलेखं	सज्ञा	मलयालम	5. निराकार. अदृश्य, अलक्ष्य, अज्ञात
अलेकम्		तमिल	+ 6. इस नाम का धार्मिक संप्रदाय (उडिया)
अलेखपा	अव्यय	गुजराती	असंख्य रीति से, अनेक प्रकार से
अलेखवुं	सकर्मकक्रिया	गुजराती	लेखे में न लेना, गिनती में न लेना
अलेखा	विशेषण	हिंदी	1 अनगिनत, वृथा 2 देखें. अलेख
अलेखी	विशेषण	हिंदी	1 अन्यायी, अधर करने वाला 2 बे हिमाव 3 अभूतपूर्व
अलेखुं	विशेषण	गुजराती	लेखे बिना, नाकाम, असफल
अलेखे	अव्यय	गुजराती	पुष्कल, बेहिसाब, असंख्य
अलेणभाव/अलेणुं	सज्ञा	गुजराती	लेन देन न होना, अनबनाव
अलेप	विशेषण	गुजराती	1 किसी से लेप लगाव या संपर्क न रखन वाला,
अलेपक		मलयालम	सबध रहित, अलिप्त, बिना लेप का
अलेपक	विशेषण	हिंदी	2 निर्मल, विशुद्ध, बेदाग, कलक रहित परमात्मा
अलेपक		संस्कृत	3. पाप आत्मा का लिप्त नहीं कर सकता एगमा
अलेपकन्	सज्ञा	तमिल	मिद्धान्त (दर्शन)
अलेक्ष	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	थोड़ा नहीं, अधिक, पर्याप्त, लेश मात्र नहीं
अलैंगिक	विशेषण	हिंदी	जिसमें नर मादा के चिह्न न हों, (अन सेक्सुअल)
अलैङ्गिक		नेपाली, संस्कृत	नपुंसक, लिंग न होना
अलोक	विशेषण	हिंदी, कन्नड, पंजाबी	1 अदृश्य, निर्जन, एकान्त, जनरहित + पानाल (बंग)
अलोक		गुजराती, बंगला	2. परलोक, देवलोक, जगत नहीं केवल आकाश (जैन)
अलोक		मलयालम, संस्कृत	+ 3 मिथ्या दोष, कलंक, मिथ्या (नेपाली), पुण्यहीन
अलोक		नेपाली	+ 4 अलौकिक, आमगानी (गुजराती, पंजाबी)
अलोकम्		तमिल	+ 5 इस लोक या मसार का विनाश (हिंदी)
अलोकम्	सज्ञा	तमिल	1 सृष्टि जहा सूर्य की किरणों की पहुंच नहीं
अलोक	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	2. वह स्थान जो पंच भूतों से निर्मित नहीं
अलोकनं	सज्ञा	मलयालम	1 अदृश्यता, अप्रत्यक्षता
अलोकन		संस्कृत	2. न देखना, अवलोकन न करना
अलोकनीय	विशेषण	मलयालम, हिंदी	अदृश्य, अप्रत्यक्ष, दूर्बोध्य

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अलोकित	भूत केंद्रित	मलया, बंगला, संस्कृत, हिंदी	अन्दकवा, अप्रत्यक्ष, जिसे दखा न गया हो
अलोकी	विशेषण	गुजराती	अलौकिक, इस लोक का नहीं, असाधारण
अलोक्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 अलौकिक, असाधारण, लोक विपरित, अर्न्वित
अलोक्यम्		संस्कृत	2 अद्रव्य आत्मा आदि + 3 ग्याज के अन्सारन्दी (गुज)
अलोक्य	विशेषण	मलयालम	4 पुण्यलोक प्राप्त होन में विघ्नरूप या जिसे करन में म्यग प्राप्ति न हो
अलोचन	विशेषण	हिंदी	1 नेत्रहीन 2 भवन जिसमें खिडकी झगेखे न हो
अलोचन जागरण	गञा	मराठी	1 आव् उपहोये विना जागन 2 नीद का अभाव
अलोट	विशेषण	मराठी	अतिशय, अमार, वेष्ट, युक्ल (मर्पति, वृद्धि)
अलोड़ा	गञा	उड़िया, पंजाबी	वज्ररुत, जिसकी आवश्यक्ता (लोड) नहीं
अलोना	विशेषण	हिंदी, उड़िया	1 जिसमें नमक न हो फीका, नीरम
अलूणो/अलोणि		सिंधी, मराठी	2 नमता, स्वाद रहित, जिसमें कोइ रस न हो
अलूणा/अलूणी		पंजाबी, उड़िया	3 निरम लागण्य या मान्दर न हो अमुन्दर
अलोप	विशेषण	पंजाबी, गुजराती, हिंदी	1 नून न होन (पण आदि का)
अलोप		नेपाली	+ 2 व्याकरण का वह नियम जिसके अन्सार शब्द
अलोप्य		गुजराती	माधन में काट र्ण निरान या काट द (पंजाबी)
			3 नून नहीं, अलून, जो लोप न हो
अलोभ	गञा	बंगला, मराठी	1 लाभ शून्य निलोभ, नृणाहीनता
अलोभ		संस्कृत	+ 2 प्रेम, लालसा, कामना का अभाव (मराठी)
अलोभमु		तेलुगु	+ 3 काम्यता का अभाव (तनुगु)
अलोभी	विशेषण	बंगला, असमी	निलोभी, निरगकाक्षी, इच्छा लालसा मुक्त
अलोमक	विशेषण	हिंदी	कश रहित
अलोमिका	विशेषण	गुजराती	जिसके शरीर पर लोम या रोम न हो
अलुआं		पंजाबी	जिसमें अभी दाढ़ी मोर न साट न
अलोल	विशेषण	नेपाली, बंगली, मराठी	1 अचगल न चित्तने इगने शला, स्थिर, डूड, मन्दा
अल्लोल	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, मलया	शान्त, तिया हुआ, मजबूत
अलोल्ल	विशेषण	कन्नड	2 जो प्यासा न हो, इच्छा, रित, कामना शून्य
अलोलम्		तमिल	+ 3 निरिच्छ, लपट नहीं, नृणा रहित (मराठी)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अलोलीक	विशेषण	मराठी	अलौकिक, असामान्य, गौम्य, प्रेमल स्वभाव मनुष्य
अलोलुप (न)	विशेषण	संस्कृत, हिंदी, मलया	जो लालची न हो, कामना शून्य
अलोलुप	विशेषण	गुजराती, मराठी	निरिच्छ, अलोभी अलपट, कामना वामना रहित
अलोहित	विशेषण	मलयालम	1 जो लाल न हो, रक्त शून्य + 2 रक्त में भंग हुआ (हिंदी)
अलोहित	मज्ञा	संस्कृत, हिंदी	3 लाल रंग से भिन्न रंग वाला
अलौकिक	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 जो लौकिक न हो, लोकान्तर अर्थात् असाधारण
अलौकिक		गुजराती, उड़िया	+ 2 साधारण भाषणा से विरुद्ध, इस पृथ्वी का न होना (असमी)
अलौकिक		मराठी, असमी	3 लोकमर्यादा रहित असामान्य, अस्वाभाविक असामान्यी
अलौकिक (अलौकिक)		मलयालम (सिंधी)	दिव्य, अदभुत, विस्मयकारक, लाकान्तर अनुभूत अप्रव
अलौकिक		बंगला, नेपाली	4 आलौकिक अर्थात् अलौकिक विरल चमत्कारजन्य
अलौकिक		कन्नड, पंजाबी	+ 5 दुर्कीर्ति बदलौकिकी (मराठी)
अलौकिकम्	मज्ञा	तमिल	+ 6 सामाजिक लोगो में रहनेवाला अण्यवामी (मराठी)
अलौकिकतन	मज्ञा	कन्नड	+ 1 सामाजिक गति में काम न करने पर हुए अज्ञान
अलौकिकता (अलौकिका)		असमी	अपयश, मानमानि (असमी)
अलौकिकता		गुजराती	2 दिव्यता असाधारणता विस्मयजन्य अर्थात् अज्ञान
अलौकिक प्रत्यक्ष	मज्ञा	मलयालम, संस्कृत	अपयश बोध, दिव्य ज्ञान दिव्य दर्शन
अलौ भली	अव्यय	असमी	वसत-वच असमन् वान
अलौलिक	विशेषण	हिंदी	1 युवा उमर में कारण दीक आचरण न कर सकना
अलौल्य	विशेषण	कन्नड	2 अल्पवयस चाल, अशुभ, नरग युक्त
अलौलिक	विशेषण	हिंदी	जिसमें लाल या लालाश न हो (नान फ्रेंच)
अवंचकत्व	मज्ञा	कन्नड	भाव्या नहीं, निष्कपटना, समलता, वास्तविकता,
अवञ्चनं	मज्ञा	मलयालम	इमान्तारी, सन्वाट
अवंध्य	विशेषण	कन्नड, हिंदी, मराठी	1 साथक चलवान, उबर, उपजाऊ, जो ऊसर न हो
अवन्ध्य	विशेषण	बंगला, संस्कृत, मलया	2 मतान युक्त स्त्री बछड़ा बछड़े वाली गाय
अवंश	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1 त्रिगके वंश में कांड न बया हो 2 मत्तान हीन
अवंश	मज्ञा	हिंदी, बंगला	3 छाटा कुल या नीच वंश (संज्ञा)
अवक्तव्य	विशेषण	हिंदी, असमी, बंगला, नेपा	1 कहने के अयोग्य, अनुचित कथन, असत्य

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवक्तव्य (मु)		मलयालम, तेलुगु	2 दुर्वाच्य, अश्लील वाच्य, वर्णनातीत, अप्रकाश्य
अवक्त्र	विशेषण	बंगला	1 जिसमें मुँह न हो, जिसका मुँह नीचा या ओंथा हो
अवक्त्र	विशेषण	हिंदी	2 बिना मुँह का (फोडा, वर्तन आदि)
अवक्र	विशेषण	कन्नड, हिंदी, संस, मलया	1 चालवाज नहीं, मीधा भला, टेढ़ा नहीं
अवक्रमु		तेलुगु	2 ईमानदार, मर्यादा
अवग्गी	विशेषण	हिंदी	जो वाग या गम के नियंत्रण में न रहे, उद्वत, उच्छ्रुखल
अवग्र	विशेषण	मराठी	मर्ब, ममग्र, मारा, ममूचा, मपूर्ण (मराठी)
अव्यग्र		संस्कृत, हिंदी	व्यग्र नहीं, स्वस्थ, शान्त, निस्पृह, धीर, तन्य
अवचन	मत्ता	हिंदी, संस्कृत	1 घृषी, मोनावलवन, निन्दा, वाणी रहिनता
अवचनीय	विशेषण	हिंदी, गुजराती	2 अवक्नव्य गदा बालना, अश्लील गाली गलौज,
अवचनीय	विशेषण	संस्कृत, मलयालम	झिडकी, भर्त्सना, अनुचित दूषित या बुरा वचन
अवचनीया		असमी	+ 3 निन्दा के योग्य नहीं, भर्त्सना योग्य नहीं (मस्कृत)
अवट्ट	मत्ता	मलयालम, हिंदी, संस्कृत	1 बालक या ब्रह्मचारी नहीं 2 जो ब्राह्मण नहीं
अवत्ता	विशेषण	पंजाबी	+ 3 अबूद्ध, उलटी समझ वाला, अप्रामाणिक बातें करने वाला, मद वृद्धि (पंजाबी)
अवदान्य	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1 अनुदार, नीच, जो वदान्य या उदार न हो, मकीर्ण
अवदान्य	विशेषण	हिंदी, नेपाली	हृदय, कजूस 2 नियम सीमा का उल्लंघन करने वाला + 3 वीर पराक्रमी (नेपाली, हिंदी)
अवदन्य	विशेषण	कन्नड, हिंदी, संस्कृत	वन्दना के अयोग्य, निदनीय
अवध	विशेषण	बंगला, नेपाली, मलया	1 अक्रथ्य, निदनीय, हीन, अधम, नीच, निकृष्ट,
अवध		गुजराती, संस्कृत	निन्द्य, कुत्सित, गर्ह्य, दोषी, पापी, त्याज्य,
अवध		असमी, कन्नड, हिंदी	त्रुटिपूर्ण, अप्रशमनीय, अनुदान्त, निम्न कोटि का
अवधितियम्		तमिल	2 अनुचित होने के कारण मुँह में निकालने के
अवधं	मज्ञा	मलयालम	अयोग्य कथन या शब्द
अवधमु		तेलुगु	3 अपराध, दोष, पाप, दुष्टकर्म, कलक, लज्जा (मज्ञा)
अवद्धय (अवध्य)	विशेषण	मलयालम, असमी, कन्नड	1 जिसकी हत्या वर्जित हो ऐसा पवित्र, निर्दोष
अवध्य		उड़िया, गुजराती, संस्कृत	2 जिसे मारना निषिद्ध हो, वध करने के अयोग्य

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवध्य अवध्यम्		हिंदी, नेपाली, मराठी, बंगला तेलुगु	3 जो जान से मारने योग्य नहीं मौत से बगी 4 निसे जान से मारना अनुचित या विनाश के अयोग्य
अवधूकन् अवधूक	विशेषण	मलयालम संस्कृत, हिंदी	भाषा रहित विपुल अविवाहित वधू रहित पत्नी रहित या जिसे पत्नी प्राप्त नहीं रहे
अवन्य अवन्य	विशेषण विशेषण	हिंदी, मलयालम संस्कृत	(भाग) का उग्रर नहीं उपजाऊ मर (मर्ता) का मतान हीन नहीं मतान बनी
अवयस्क	मज्ञा	नेपाली, हिंदी, संस्कृत	रुम रय हा अल्प उयस्क नावालिग (माइनर)
अवर अबर अवर अवरं	विशेषण मज्ञा	हिंदी, मलयालम उड़िया, बंगला मराठी, कन्नड, नेपाली मलयालम	1 पशुवन कात पीर जन्मा पञ्जातपी रनिष्ट निकृष्ट 2 माताहत अधस्तन श्रेण नीचा दूसरा निम्नपुत्र्य 3 अथरु हीन ह्य श्रेण रनिष्ठाण्य मर हा विद्वाना 4 अतीतमान हाथी हा पठना भाग (मज्ञा)
अवरकर्मसचिव	मज्ञा	बंगला	निम्न कार्यरता उपसर्ग
अवरजन्, अवरयन् अवरज	मज्ञा	मलयालम, तमिल मलया, कन्नड, मराठी, हिंदी	1 रनिष्ट भ्रान्ता श्रेण मर 2 नच कृत से अन्यन्न व्यक्ति +3 अरु (हिंदी)
अवरजा अवरजे	मज्ञा	मराठी, हिंदी, मलया कन्नड	श्रेणी मानन कान्ठ मणिनी मर नन्मा मरन
अवरवर्ण अवरिष्ठ	मज्ञा मज्ञा	बंगला, हिंदी, संस्कृत कन्नड	रनु रण अरु नच रण (जात) मरनिम नरा श्रेण निम्न कार्यर का
अवरेण्य अवरीठा	विशेषण मज्ञा	बंगला, संस्कृत कन्नड	अपुत्रनाय सम्मान से अनुपयुक्त अरु नहीं, हीन दापयुक्त निन्दनीय ह्य, अरु निकृष्ट
अवर्ग (मर्) अवर्ग	विज्ञ, मज्ञा	हिंदी, गुजराती, मलया नेपाली, मराठी, कन्नड	1 का किगी वग म न का निमकी श्रेणी न हुड हा य रनि 2 अ आरु खर जो वगीकृत नहीं है (रज्ञा)
अवर्गित अवर्गीय (अवर्गी) अवर्गीयव्यंजन अवर्ज/अवर्जित	विशेषण विशेषण मज्ञा मज्ञा	हिंदी कन्नड, गुजराती कन्नड कन्नड, मलयालम	का किगी वर्ग का काट म न रवा गया हो 1 जो वर्गीय न का शत्रुकी काट काटि न हा य र ल व आदि व्यंजन 1 न त्यागना 2 गेकर वही खाता, आय व्यय का शक्षण
अवर्जनीय अवर्ज्य	विशेषण	बंगला कन्नड, मलयालम	जा छांदा न जा फर अपरिहार्य जा त्यागन के योग्य न हो, वर्जन के अयोग्य

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवर्ण	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 गद्यन वर्ष हीन विवर्ण वदग्न 2 वर्षाथम धर्म गदित,
अवर्ण		बंगला, कन्नड, संत, मराठी	वर्ण धम गदित अन्यन विजातीय
अवर्ण		मलयालम	3 निन्दा दाप फलक अपवाद आगप (मज्ञा।
अवर्णिकामर	सज्ञा	कन्नड	वारर आदित्या क नाम
अवर्णनीय	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 वर्णन के अपाग्य अप्रफाज्य अनिवचनीय
अवर्णनीय	विशेषण	बंगला, असमी, मराठी	2 अदभत मुदर गद्वतीत वर्णनातीन
अवर्णनीय		मलयालम	3 जो वर्ण्य घा नमप न हो अथान नममान
अवर्णवाद	सज्ञा	कन्नड	निन्दा दायागपण
अवर्णित	विशेषण	हिंदी	जिसका वर्णन या निम्न न शिषा गज्ञा हो
अवर्ण्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 वर्णनातीत अप्रणनीय जिसका वर्णन न हो सक
अवर्ण्य/अवर्ण्य		नेपाली, संस्कृत, मलया	2 नममान अप्रमृत जा वर्ण्य विप्रय नही
अवर्णियम्	सज्ञा	तमिल	3 जो वर्ण्य घा नमप न हो
अवर्ण्य		मलयालम	+ 4 नममय एव प्रमृत नही (मलयालम)
अवर्तन	सज्ञा	हिंदी	1 जीविका या वृत्ति का अभाव जीविका हीन 2 आरम्भिक वर्नाव या व्यवहार का अभाव
अवर्तमान	विशेषण	हिंदी	1 जो वर्तमान, विद्यमान या प्रमृत न हो
अवर्तमान		बंगला	2 भूत या भविष्य काल 3 वर्तमान न होने की अवस्था
अवर्तमाने	अचय	बंगला, असमी	मृत्यु के बाद, अनुस्थिति म
अवर्धमान	विशेषण	हिंदी	जा वर्धमान या बढ़ने वाला न हो
अवर्ष/अवर्षम्	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	1 वर्षा की कमी, सूखा अनावृष्टि, अकाल
अवर्षण		मलया, नेपा, मरा, हिं, कन्न	2 वर्षा न होना, वर्षा का अभाव, न्यूनता या कमी
अवल्युज	विशेषण	मलयालम, कन्नड	1 जो उत्कृष्ट कुल में न जन्मा हो, नीच कुल जन्मा
अवल्युज	विशेषण	संस्कृत, हिंदी	+ 2 माम गजी नामक एक पौधा (कन्नड, हिंदी) (सज्ञा)
अवश	विशेषण	हिंदी, मराठी, नेपाली	1 विवश, अमहाय, कमजार, बेवम, शिथिल, व्यग्र
अवश		गुजराती, संस्कृत	परतत्र, इन्द्रियदास, अमचमी, क्षीणशक्ति वाला,
अवश		उड़िया, कन्नड	निस्तेज, दूसरो द्वारा चालित, लाचार
अवश		मलयालम	2 जिसपर वश नहीं, जो अधीन नहीं, स्वतंत्र, स्वैर,
अवसन्/अवसम्		तमिल	उच्छुखल, स्वच्छदी, अनियत्रित, स्वाधीन

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवस्स		पंजाबी	3 आज्ञा न मानने वाला, अवज्ञाकारी, स्वेच्छाचारी,
अवश्		असमी, बंगला	जिसका आपा वश में न हो, निरंकुश
अवशमु		तेलुगु	+ 4 लकवा मारग हुआ, अकडा हुआ (असमी)
अवशं	अव्यय	मलयालम	अमहायता में, क्षीणता में, पराश्रयता में
अवशमुगा	अव्यय	तेलुगु	अनियंत्रित, असयत, स्वेच्छाचारी
अवशात	क्रियावशेषण	कन्नड, तेलुगु	अकस्मात्, अनजाने में, देववशान्, एक दम
अवशता	सज्ञा	नेपाली, हिंदी	अवश होने का भाव बेवसी लाचारी
अवशंगम्	सज्ञा	संस्कृत	जो दूसरे के कहने में न हो, स्वेच्छाचारी
अवशांग	सज्ञा	बंगला	शिथिल या अवगन्त रह
अवशी	विशरण	बंगला	अजितन्द्रिय जिसकी इन्द्रिया उसक वश में नहीं
अवशीकृत	विशरण	बंगला	अनियंत्रित अर्थात्
अवशीभाव	सज्ञा	बंगला	शीघ्रता न होने का भाव अवाभ्यता
अवशीभूत		बंगला	वश में न रहना, अनायत, अवाभ्य, अवश्रय
अवशेन्द्रिय	सज्ञा	बंगला	1 इन्द्रिय प्रयोग 2 जिसकी कष्ट इन्द्रिय गुण धर गयी न
अवश्यंभाविन्	विशरण	संस्कृत	1 जिसका घोटन जाना निश्चय न हो
अवश्यंभावि	विशरण	कन्नड, गुज, मलया, मराठी	2 जो घने में न रहे, अप्राप्त्य (दुर्लभत्व)
अवश्यंभावी		हिंदी, नेपाली, बंगला	3 अगुणता की ऐसा नियन्त्रित
अवश्य	विशरण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 जिस पर वश न हो, जो वश में न किया जा सके, अदस्य
अवश्य		असमी, उड़िया, बंगला	2 अप्राप्त्य, अनिवाय, जरूर, सवेया, वेशक,
अवश्य		नेपाली, कन्नड, संस, मलया	अनियंत्रित अशासनीय, निश्चय
अवश्य (अवसि)		पंजाबी (सिंधी)	आवश्यक, प्रयाजनीय
अवश्यं (अवश्यमु)	सज्ञा	मलयालम, (तेलुगु)	3 निश्चित रूप में, जरूर ही, निश्चय,
अवशियम्	सज्ञा	तमिल	तुर्ग ही, बिना कोई अंतर हुए (अव्यय)
अवश्यमेव	अव्यय	हिंदी, गुज, मरा, नेपाली	जरूर ही, निश्चय ही, बिना टले, हर हालत में
अवश्या	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 मनमाना आचरण करने वाली स्त्री, स्त्रीगिणी
अवश्या	सज्ञा	नेपाली	2 कलटा, दुर्गचारिणी 3 पाला, कुहरी, ओंस
अवसत	विशरण	तेलुगु	जो बसा नहीं, न बसा हुआ, उज्जड

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवसित	विशेषण	हिंदी	न बसा हुआ; रहने का स्थान (मंज़ा)
अवस्तु	विशेषण	हिंदी, नेपाली, मराठी	1. अपदार्थ, व्यर्थपदार्थ, अवात्मव, अपकृष्ट पदार्थ, अलाभकारी, बेकार 2 वस्तु का अभाव 3. घटिया, अमार, तुच्छ, नगण्य, हीन, घृणित, असन्ध 4. अमार जगत (दर्शनशास्त्र) (बंगला) मार हीनता
अवस्तु	संज्ञा	असमी, बंगला	
अवस्तु		तमिल	
अवस्तु		मलयालम, संस्कृत	
अवस्त्र	विशेषण	मलयालम	वस्त्र हीन, नग्न
अवह	विशेषण	हिंदी	जिसे वहन न किया जा सके, ढोया न जा सके
अवह	संज्ञा	हिंदी	1. जिस प्रदेश में नदी नाले न वहने हो 2. आकाश के तृतीय स्तर पर पायी जाने वाली वायु
अवाङ्गमनसगोचरम्	संज्ञा	तमिल	वाणी और मन की पहुँच में परे, अचिन्त्य (देव)
अवाङ्गमनसगोचर	संज्ञा	बंगला, हिंदी, संस, मलया	अनिर्वचनीय, अभावनीय
अवाञ्छित	विशेषण	हिंदी	1. जो वाञ्छित न हो, अनिच्छित, अनभीष्ट
अवाञ्छित	विशेषण	उड़िया	2. जिसकी इच्छा न की गई हो, अनचाही
अवाञ्छनीय	विशेषण	हिंदी, नेपाली	3. वाञ्छना का अनधिकारी या अपात्र
अवाक	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. वाकहीन, वाक् शक्तिविहीन, मूक, चुप, खाली वाक्य, खामोश, मन्थ आश्चर्य चकित, न बोलना हुआ 2. अधोवदन, अवाङ्मूख (बंगला, मराठी) 3. दक्षिण का, दक्षिण की ओर (मरा, कन्न, तमि, हिंदी)
अवाक्		असमी, बंगला, नेपाली, संस	
अवाक्		कन्नड, पंजाबी, उड़िया	
अवाक्कु	संज्ञा	तमिल, कन्नड	
अवाचीनम्	संज्ञा	तमिल	अवाचिन दक्षिण दिशा
अवाक्य	विशेषण	असमी	बुरी बात, निद्रा, कृवाक्य, अनुचित वान
अवाक्भव	संज्ञा	कन्नड, संस्कृत	दक्षिण में पैदा हुआ, दक्षिणी
अवाक श्रुति	विशेषण	हिंदी, कन्नड, संस्कृत	गूंगा और बहरा, वाक् एव श्रवण शक्ति रहित
अवाकभाग	संज्ञा	कन्नड	नीचे का भाग
अवाक्-मुख (मुखी)		कन्नड, संस्कृत	1. नीचे की ओर देखते हुए 2. मिर के बल
अवाष्	विशेषण	संस्कृत	1. गूंगा, मूक, जो न बोल सके
अवाष	विशेषण	गुजराती, हिंदी	2. जिसका वाचन या उच्चारण न हो सकता हो, अवाक
अवाष	संज्ञा	कन्नड, संस्कृत	1. नीचे की ओर 2. नीचे देखना 3. दक्षिण 4. गूंगा
अवाचिन	संज्ञा	कन्नड	दक्षिण दिशा, दक्षिणी, दक्षिण में पैदा हुआ

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवाचीन	विशरण	हिं, संस, मरा, गुज, बंग, मलया	अधोगम्य लोखित मूह न पचाये या झुकाये हुए
अवाचक (कं)	विशरण	गुजराती, मलयालम	गुण न मान निकल मरा से आया न निकल
अवाची	सज्ञा	गुजराती, संस, बंग, हिंदी	दक्षिणी दक्षिण दिशा नीचे का एक दक्षिणान्त्य
अवाधि	सज्ञा	तमिल, कन्नड, मलया	1 अर्थ्य निर्दिष्ट ताका 2 निश्चिन्ता योग्य लोखित
अवाध्य	विशरण	हिंदी, मराठी, संस्कृत	1 माने के अयोग्य अवश्य अश्लील लज्जा जनक
अवाध्य		गुजराती, मलयालम	भद्र अयमान्तर 2 गाती लोखित 3 दक्षिणी
अवाध्य		नेपाली, असमी, बंगला	4 न जदी प्रय प्रक ना प्र ना स प्र ना प्रक या
अवाध्यमु		तेलुगु	सप्र न नो 5 नो रा नो प्रक नो न प्रक
अवाच्चियम् (न्)		तमिल	सप्र वा न प्रक म प्रक ना प्रक
अवाच्यता	सज्ञा	गुजराती, मलयालम	वसाय नोना मूह से ज द न निकलना स्तनना
अवाट	विशरण	गुजराती	गो या मरा नो नो स नो नो या नो प्रक
अवाट	सज्ञा	गुजराती	प्राय मन्थ रुग्णो नाना
अवाट	विशरण	गुजराती	नो प्रक नो प्रक ना प्रक ना प्रक
अवात	विशरण	हिंदी, बंगला, मराठी	1 विना प्रक ना प्रक ना प्रक ना प्रक
अवात		मलयालम	नियम प्रक नो या नो ना प्रक
अवात्रा	विशरण	असमी	इसवाद अयमक
अवादी	विशरण	हिंदी, संस्कृत	1 अयोग्य अयना नो नो ना ना 2 नो वादी नो
अवापित	सुत्र कृदन्त	हिंदी	1 जन् जा बोधा न गया तो कलत गया हुआ
अवापित	विशरण	संस्कृत	2 नो मया नो ना प्रक या प्रक
अवाय (अवार्य)	विशरण	हिंदी	1 नो मका नो जा सकना ही अनिवाय
अवार्य	विशरण	संस्कृत	2 अर्थ्यजन, अर्थ्य निर्गृह
अवार	सज्ञा	हिंदी, संस, बंगला, नेपाली	1 वा प्र विप्रयाय 2 निकटवर्ती दुम ओर का
अवारम् (र)	सज्ञा	तमिल, मलयालम	3 समीप म नदी नो नदी का इधर का किनारा
अवारण	विशरण	हिंदी, मलयालम	1 जिम मकर नो जा मक, जिमकर वारण या निषेध नो मक
अवारणमु		तेलुगु	2 मुनिश्चित, अनिवाय + 3 रोक्ना, मक्का करना (तेलुगु)
अवारणमुगा	क्रियावशरण	तेलुगु	दुर्निवाय रूप म, अनिवाय रूप से
अवारणीय	विशरण	हिंदी, बंगला	1 जिमका वारण या निवारण न किया जा सके

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवारणीय		गुजराती, मलयालम	2 जो दूर न हो सके, अनिवार्य, अमाध्य
अवारित	विशेषण	हिंदी, गुज, मरा, संस, मलया	1 अनिवारित, जिसके सवध में बाधा, रुकावट न हो
अवारितमु		अस, उड़ि, बंग, कन्न	2 बाधा शून्य, अनवरुद्ध, उन्मुक्त, अप्रतिहत
		तेलुगु	3 अटल, अनिवार्य, वद नहीं, खुला हुआ
अवार्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 अवारणीय, अपरिहार्य, अमाध्य, अनिवार्य, अटल
अवार्यमु		तेलुगु	2 जिसका निवारण, निषेध न हो सके, ला इलाज
अवार्य		बंगला, कन्नड, संस, मलया	3 प्रतिरोध न होना, बाधा रहित, अवरोध या
अवारि	सज्ञा	तमिल	रुकावट न होना
अवासस्सु	विशेषण	मलयालम	1 वस्त्र हीन, नग्न, नगा जो कपड़े न पहने हो
अवासस् (अवासा)		संस्कृत, हिंदी	2 दिगम्बर जैन साधुओं का एक सम्प्रदाय
अवास		कन्नड	3 निवास धारण न करने वाला
अवास्तव	विशेषण	हिंदी, मराठी, नेपाली	1 यथा तथ्य नहीं, यथार्थ नहीं, असली नहीं
अवास्तव		गुजराती, संस्कृत	2 सच्चा नहीं, असत्य, मिथ्या, निराधार,
अवास्तव		उड़िया, बंगला	वनावटी, अयोक्तक
अवास्तवं		मलयालम	3 जो वास्तविक या सत्य नहीं फलतः काल्पनिक
अवास्तविक	विशेषण	गुजराती	असत्य, अयथार्थ, अप्रकृत, मिथ्या, अलीक,
अवास्तविक		नेपाली, बंगला	भ्रमान्मक, युक्ति मगत नहीं
अवाहक	विशेषण	गुजराती	जिसे वहन या सहन न किया जा सके (गर्मी आदि)
अवाहन	विशेषण	मलयालम, हिंदी	जिसके पास सवारी न हो, जो वाहन पर न बैठा हो
अवाहि	विशेषण	मलयालम	1 जिसके बीच से विजली न गुजर सके
अवाहिन्	विशेषण	संस्कृत	2 विद्युत कुचालक (नान कण्डक्टर)
अविकच	विशेषण	नेपाली, हिंदी	1 अविकसित, न फूला हुआ 2 असफल, वद
अविकत्थ	विशेषण	नेपाली, हिंदी, संस, मलया	शेखी/दंभ या घमंड न करने वाला, श्लाघा शून्य
अविकल	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 ज्यों का त्यों, बिना घटाये बढ़ाये, त्रुटिहीन,
अविकल		कन्नड, मलयालम, संस	सम्पूर्ण, बिना विगाड़े, यथावत
अविकल		असमी, उड़िया, बंगला	2 व्यवस्थित, हू व हू, अविकृत, क्रमित, बिना बदले,
अविकलमु		तेलुगु	पूर्णंग, पूरा, समूचा, अखंडित
			3 व्याकूल या घबड़ाया हुआ नहीं, शान्त

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अविकल्प	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1 विकल्प या सदेह रहित, निस्सदेह, निश्चित, अपरिवर्तनीय, निर्विकल्प, सशयरहित
अविकल्प		गुजराती	
अविकल्प		बंगला, संस्कृत	2 आत्मा परमात्मा की अभिन्नता, भेदबुद्धि रहित
अविकल्प		मलयालम	3 सदा निश्चित रूप से एक सा रहने वाला, पक्षान्तर छिन
अविकर्षम्		तमिल	4 एक के बदले दूसरी वस्तु का विधान न होना
अविकसित	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1 जो खिला या खिलता हुआ न हो, अपरिस्फुट, अव्यक्त, अप्रकाशित 2 जिसमें उन्नति या विकास न हुआ हो, विपुलता न आई हो
अविकसित		हिंदी	
अविकसित		असमी	
अविकार	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 जिसमें विकार/परिवर्तन/बदलाव खराबी या फेरफार न हुआ हो, अपरिवर्तनशील भेदविहीन
अविकार	विशेषण	मलयालम, नेपाली	भेद भाव नहीं, भाषान्तर विहीन 2 विकार का अभाव, निर्विकार (सत्ता) + 3 निरोगी, स्वस्थ (असमी)
अविकार		असमी, बंगला	
अविकारम्	सज्ञा	तमिल, संस्कृत	
अविकारक	विशेषण	गुजराती	व्याकरण में शब्द का वह अंग जिसमें गुण वृद्धि न हो सके, अविकारी (प्रत्यय आदि)
अविकारतै	सज्ञा	तमिल	अविकारता (संस्कृत) अपरिवर्तनीयता
अविकारी	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1 व्याकरण में अव्यय शब्द, जिसमें लिंग वचन से अन्तर नहीं पड़ता यथा, परन्तु, बहुधा, प्राय आदि
अविकारी		गुजराती, मराठी	
अविकारी		असमी, उड़िया, बंगला	2 गणित में काण्टेन्ट या इनवेरिण्डबल
अविकारि		मलयालम, तमिल	3 अपरिवर्तनीय, अव्याभिचारी, अविकृत, अविनाशी
अविकारिन्		संस्कृत	+ 4 रोगशून्य, निरोगी, स्वस्थ (असमी)
अविकार्य	विशेषण	हिंदी, बंगला	1 जिसमें विकार या परिवर्तन न होता हो तथा न किया जा सकता हो, नित्य, अपरिवर्तनीय
अविकार्य		गुजराती, मराठी	
अविकार्य		नेपाली, मलयालम	2 जिसमें विकृति, फरक या बदलाव न आता हो
अविकार्य		संस्कृत	+ 3 जिसमें विभक्ति, प्रत्यय आदि न लगें (मराठी)
अविकामी	विशेषण	हिंदी	1 जो फला या बढ़ा न हो, विकासी नहीं
अविकामिन्		संस्कृत	2 जिसमें चमक न हो
अविकृत	विशेषण	हिंदी, मराठी, नेपाली	1 विकृत/बदला/विगड़ा हुआ नहीं, शुद्ध, स्वच्छ
अविकृत		गुजराती	2 अपरिवर्तित, रूपान्तरहीन, जो सड़ा-गला न हो

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अधिकृत अधिकृत		असमी, उड़िया, बंगला मलयालम, संस्कृत, कन्नड	3. मुन्दर, अचंचल 4. ज्यों का त्यों अथवा एक ही अवस्था में रहना
अधिकृत स्वरं	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	संगीत में स, प, शुद्ध स्वर
अधिकृति अधिकृति	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, संस्कृत मलयालम, कन्नड	1. विकृति का अभाव, मूल प्रकृति (सांख्यदर्शन) 2. वस्तु में परिवर्तन न होना, विकार न आना
अविक्रम अविक्रम अविक्रम	विशेषण	हिंदी, नेपाली मलयालम, संस्कृत बंगला	1. शक्तिहीन, पराक्रमरहित, निर्बल, कमजोर 2. भीरु, कापुरुष, विक्रमहीन 3. भीरुता, कापुरुषता, कायरता (संज्ञा)
अविक्रय अविक्रिय अविक्रान्त	विशेषण विशेषण विशेषण	हिंदी, नेपाली, मलयालम हिंदी, नेपाली, मलया, बंगला हिंदी	बिक्री न होना, (नान-सेल) अविकारी 2. निर्विकार, ब्रह्म (संज्ञा) 1. जिसमें कोई बढ़ा हुआ न हो, अतुलनीय 2. कमजोर, दुर्बल, शक्ति हीन
अविक्रीत अविक्रेय	विशेषण विशेषण	गुजराती, बंगला हिंदी, गुजराती, बंगला	1. न बेचा हुआ, जो बेचा न जा सके 2. जो बिक्री या बेचने के लिए न हो
अविक्लब अविक्लबं अविक्षण	विशेषण अव्यय विशेषण	मलयालम मलयालम बंगला, असमी	अक्षीण, स्थिर, दृढ़, अनुत्तेजित, जो थका न हो बिना परेशानी के या बिना थके दृष्टि हीनता, अदर्शन, न देखना
अविक्षत अविक्षत	विशेषण	हिंदी, मलयालम संस्कृत, बंगला	1. अक्षत, जिसे चोट न लगी हो 2. क्षति न हुई हो 3. पूरा, सम्पूर्ण, समूचा, समग्र, टूटा फटा नहीं
अविक्षिप्त अविक्षिप्त अविक्षिप्त	विशेषण विशेषण विशेषण	हिंदी, बंगला मलयालम संस्कृत	1. जो फेंका न गया हो 2. एकाग्रचित, सावधान 3. अचंचल, अव्याकुल + 4. जो बिछर हुआ न हो (बग) 5. पागल नहीं, धीर शान्त, समझदार
अविक्षुब्ध अवीक्षित अविख्यात	विशेषण विशेषण संज्ञा	बंगला बंगला तेलुगु, हिंदी, संस्कृत	अनालोडित, प्रशान्त, अचंचल, अव्याकुल जो देखा न गया हो, अदर्शित, अदृष्ट गुप्त, छिपा हुआ, अदर्शन, जो विख्यात नहीं
अविगत अविगत	विशेषण	हिंदी, गुजराती मलयालम, संस्कृत	1. जो गया-बीता न हो, हाज़िर, मौजूद, नित्य 2. जो जाना न गया हो, अज्ञात, अज्ञेय, अविनाशी

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अविगतता	संज्ञा	गुजराती	पति या नायक द्वारा रोकी गयी अज्ञात यौवना
अविगति	विशेषण	हिंदी	1. जिसकी गति-विधि का पता न चले
अविगति	संज्ञा	हिंदी	2. अविगत होने की अवस्था या भाव (संज्ञा)
अविगान	संज्ञा	हिंदी	1. असामंजस्य या विरोध का अभाव 2 एकता, मादृश्य
अविगीत	विशेषण	हिंदी	1. जो विगीत (कुस्मित या निंदित) न हो, अनिष्ट
अविगीत		संस्कृत	2. जिसमें परस्पर असामंजस्य या विरोध न हो
अविगृहीतन्	विशेषण	मलयालम	1 जिसके विचारों का विरोध न हो
अविगृहीत		संस्कृत	2. जिसमें असहमति न हो
अविग्रह	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 जिसका आकार, शरीर न हो, अशरीरी, निराकार
अविग्रह		गुजराती	2. जो अक्षरी तरह जाना न गया हो, अनिज्ञान
अविग्रह		नेपाली	3. जिसके विषय में विग्रह विवाद न हो, निर्विवाद
अविग्रह		बंगला	4. जिस वाक्य के विभाग न हो, निव्यसमाग
अविग्रहवान्		गुजराती	+ 5. व्यास वाक्य शून्य: युद्ध रहित (बंगला) शान्त (गुज)
अविघात	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	विघ्न-बाधा का अभाव, विघान का अभाव
अविघ्न	विशेषण	गुजराती, नेपाली, बंगला	1 निर्विघ्न, निर्बाध, रुकावट विहीन, निरापद
अविघ्न (नं)	अव्यय	संस्कृत, कन्नड, मलया	2. प्रतिबध शून्य, अबाध, विघ्नभाव
अविघ्निकनम्	संज्ञा	तमिल	विघ्न बाधा के, बाधामुक्ति (अव्यय)
अविचक्षण	विशेषण	बंगला, मलयालम	अचतुर, नादान, अज्ञानी, विवेकहीन,
अविचक्षण		संस्कृत	अनिपुण, अपरिणित
अविचल	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1. न चलने वाला, अचल, स्थिर, अचंचल, अटल
अविचल	संज्ञा	असमी, उड़िया, बंगला	2. जो विचलित न हो, दृढ़ संकल्प वाला, धीर,
अविचल		कन्नड, मलया, तमिल	शान्त, अव्याकुल, दृढ़, गतिहीन
अविचलता	संज्ञा	गुजराती	अविचल होने की अवस्था या भाव
अविचलित	विशेषण	गुजराती, नेपाली, मलया	1. स्थिर, अटल, निव्य, अचंचल, दृढ़
अविचलित	विशेषण	कन्नड, बंगला, संस्कृत	2. जो कभी विचलित न हो, अस्थिर या डौंवा डौंल न हो
अविचार	संज्ञा	हिंदी, मराठी, नेपाली	1. विचार का अभाव, विचार शून्यता, अविवेक
अविचारं		गुज, संस, कन्न, मलया	2. कुविचार, निषेधात्मक विचार

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अविचार अविचारम्		असमी, बंगला, उड़िया तमिल	3 अन्याय, अनीति, युक्तिहीन, अनुचित सिद्धान्त + 4. निश्चिन्ना, चिन्ता से मुक्ति (तमिल)
अविचारणीय	विशेषण	मलयालम	जिसके विषय में विचार का प्रश्न ही न उठे
अविचारित अविचारित अविचारित	विशेषण	हिंदी, गुजराती, बंगला नेपाली, कन्नड मलयालम, संस्कृत	1. जिसके संबन्ध में कभी कोई विचार न हुआ हो 2. बिना समझे बूझे किया हुआ, अविचेचित 3. आकार्मिक, अप्रतीक्षित, उर्ध्वोक्षित, अनिरूपित
अविचारिता अविचारिदण्डम्	संज्ञा	गुजराती तमिल	मूर्खता, न सोचना समझना, अविचारीपन 1. अन्याय पूर्ण दण्ड 2. अनमने मन से व्यर्थ खर्च
अविचारी अविचारी अविचारि अविचारिन्	विशेषण	हिंदी, गुजराती नेपाली, मराठी कन्नड संस्कृत	1. जिसमें विचार करने की शक्ति न हो या जो विचार न कर सके, ना समझ, मूर्ख, अज्ञानी 2. जो औचित्य, न्याय, समिति आदि का विचार न करना हो, उतावला, विवेक हीन, असावधान
अविचार्य अविचार्य	विशेषण	हिंदी, कन्नड संस्कृत	1. जिसका विचार न हो सकता हो 2. (असंभव या निकृष्ट) जिसपर विचार न किया जा सके
अविचालि अविचालिन्	विशेषण	मलयालम, तमिल संस्कृत	1. जो झिंके, झुके नहीं 2. गतिहीन, मूर्ख
अविचालित अविचाल्य	विशेषण विशेषण	हिंदी, नेपाली, कन्नड मलयालम	1 अटल, स्थिर, एकाग्रचित्त 2 विजयी 3 जो स्थानान्तरित न हो सके, फलतः अचल
अविच्छिन्न अविच्छिन्न अविच्छिन्न अविच्छिन्नम् अविच्छिन्नम् अविच्छिन्न	विशेषण संज्ञा विशेषण	हिंदी, मराठी, असमी संस्कृत, गुजराती, नेपाली कन्नड, मलयालम तमिल तेलुगु उड़िया, बंगला	1. जिसमें छेद न हो या जिसके टुकड़े न हों, विच्छेद हीन, अविभक्त, अटूट, अखंड, समूचा 2. बिना रुकावट के, निरंतर, लगातार चलता रहने वाला, सतत, अविराम, धारावाहिक, अबाध 3. अविच्छिन्न होने का भाव या अवस्था 4. जो बीच में से कटा या टूटा न हो
अविच्छिन्नता अविच्छिन्नमुगा	संज्ञा क्रियाविशेषण	गुजराती तेलुगु	निरन्तरता, सततता, विरामहीनता, अखंडता निरन्तरता से, बिना अवरोध के
अविच्छेद	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1. अविभाजित, सम्पूर्ण, विच्छेद न होना या

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अविच्छेद		असमी, बंगला	जिसका विच्छेद न हुआ हो, राशिलष्ट
अविच्छेद	विशेषण	कन्नड, मलयालम	सातत्य, निरन्तरता, निरवच्छिन्नता (सज्ञा)
अविच्छेदं	सज्ञा	मलयालम	2 विच्छेदाभाव, खडश न होना, बिलगाव का अभाव
अविच्छेदम्		संस्कृत	+ 3 दाह सम्कार के समय पहने जाने वाले वस्त्र (मलयालम)
अविच्छेद्य	विशेषण	गुजराती, मलया, उड़िया	1 जिसको अलग न किया जा सके, अविभाज्य
अविच्छेद्य	विशेषण	बंगला, असमी	2 अपरित्यज्य, अविद्युक्त, अभ्रष्ट, मलग्न, अच्छेद्य
अविच्छेदे	क्रिया विशेष	असमी	विना रुकावट के, अविद्युत, अभ्रष्ट
अविद्युत	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, बंगला	जो स्थान भ्रष्ट न हुआ हो, शाश्वत, नित्य, सलग्न
अविज्ञेय (अविजित)	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	अज्ञेय, अपरिगजित, जिसे कोई जीत नहीं सका
अविज्ञ	विशेषण	हिंदी, नेपाली, असमी	अज्ञान, अनाडी, अपडित, मूर्ख, अज्ञानी,
अविज्ञ	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	जो कूल न जानता हो अज्ञान, नादान, ज्ञान हीन,
अविज्ञन्		तमिल	वृद्धि हीन निरक्षर, जो विज्ञ नहीं
अविज्ञता	सज्ञा	हिंदी, नेपाली	1 विज्ञ या जानकार न होने की अवस्था या
अविज्ञता		असमी, संस्कृत	भाव 2 मूर्खता, अज्ञान, नादानी
अविज्ञत	विशेषण	हिंदी, नेपाली, मलया, बंगला	जिगके मन्त्रध में जानकारी न हो, अज्ञान,
अविज्ञातृ	विशेषण	संस्कृत	अस्पष्ट, सादिग्ध अज्ञ, परमात्मा (सज्ञा)
अविज्ञात्क्रय	सज्ञा	हिंदी	कांड वस्तु चोरी में इस प्रकार खरीदना कि वस्तु का मालिक को पता न चले
अविज्ञाता	विशेषण	हिंदी	1 जो जानने वाला न हो 2 जिससे बढ़कर जानने
अविज्ञातृ	सज्ञा	संस्कृत	वाला और कोई न हो, परमेश्वर
अविज्ञातार्तम्	सज्ञा	तमिल	नर्क या विवाद का एक दोष
अविज्ञेय	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1 जिसे जाना न जा सके या जानना उचित न हो
अविज्ञेय		बंगला	2 जिसे जानने का साधन न हो, अज्ञेय
अविज्ञेय		संस्कृत, गुजराती	3 परमेश्वर (सज्ञा)
अविधीन	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	पक्षियों की सीधी उड़ान
अवितत्	विशेषण	हिंदी	उलटा, विपरीत, विरुद्ध
अवितत् करण	सज्ञा	हिंदी	वह कार्य करना जो गर्हित या निन्दनीय हो (जैब शास्त्र)
अवितत्	विशेषण	हिंदी, कन्नड, मलया	1. मिथ्या नहीं सत्य, इतना ठीक तथा वास्तविक

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवितर्क अवितर्क	अव्यय	मलयालम संस्कृत	कि जिसमें भूल भ्रम संभव न हो (प्रिमाइज) 2. कार्य रूप में परिणत, फल रहित नहीं; सच्चा
अवितदुभाषण अवितदुभाषण	संज्ञा	हिंदी संस्कृत	ग़ैरी बात करना जो सामान्यतः उपयुक्त या वास्तविक न हो, निरर्थक बातचीत
अवितर्क अवितर्क	अव्यय	मलयालम संस्कृत	निःसंशय, निश्चय पूर्वक, जिसके विषय में कोई तर्क-वितर्क न हो सके, निर्णीत
अवितर्कित अवितर्कित अवितर्कित	विशेषण	हिंदी, नेपाली बंगला, संस्कृत मलयालम	1. जिसके संबंध में तर्क या वाद-विवाद न किया गया हो 2. अभावित, अदृष्टपूर्व, असादिग्ध, निःसंदेह, निस्संशय, तर्क रहित
अवित्त अवित्त	विशेषण	हिंदी, बंगला मलयालम, संस्कृत	1 धन-हीन, निर्धन, दरिद्र, ग़रीब, सम्पत्ति हीन 2 अविख्यात, अपरिचित, अज्ञात, अप्रसिद्ध
अविता (बु) अवित्ति अवितृष्ण	संज्ञा संज्ञा विशेषण	संस्कृत, मलयालम हिंदी हिंदी, बंगला	सरक्षक, शरणदाता वित्त या धन न होने की अवस्था, निर्धनता, ग़रीबी वितृष्णा शून्य, साभिलाष
अवित्यज अवित्यजं	विशेषण संज्ञा	हिंदी, संस्कृत मलयालम	जो छोड़ा या त्यागा न जा सके, अनिवार्य, अत्यावश्यक जैसे रमायन के लिए पारा, पारद
अविद अविद	विशेषण	हिंदी	जो विद या जानकार न हो, अनजान
अविदग्ध अविदग्ध अविदग्ध अविदग्ध	विशेषण	हिंदी मलयालम नेपाली संस्कृत	1. जो जला नहीं, अधजला; जो पका नहीं; जो पचा या हज़म नहीं हुआ 2. अपंडित, मूर्ख, नौसिखिया 3. जो अनुभव से पूर्णता को नहीं पहुंचा, अकुशल, 4. सामर्थ्य, योग्यता या निपुणता हीन, अधकचरा
अविदार्य अविदित अविदित	विशेषण विशेषण	मलयालम, संस्कृत हिंदी, संस्कृत, मलया बंगला, असमी, उड़िया	जो तोड़ा न जा सके, विभक्त न हो सके 1. विदित या ज्ञात नहीं, अज्ञात, अपरिचित 2. अप्रकाशित, गुप्त, अविख्यात, अप्रकट
अविदुषी अविदूर	विशेषण विशेषण	बंगला मलयालम, संस्कृत	विद्वता रहित, मूर्खा, अपंडिता बहुत दूर नहीं, पास, समीप, निकट
अविद्ध अविद्ध	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मरा, संस	न बिधा, न छिदा, न तोड़ा, न मारा अर्थात्

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अविद्ध		बंगला, मलयालम, कन्नड	अनविधी, अछिद्र, अवाधित वस्तु
अविद्ध कर्ण	विशेषण	कन्नड, मलयालम, हिंदी	1. जिसके कान छिदे नहीं हो 2. पाढा लता (मंजा)
अविद्ध योनि	विशेषण	गुजराती, मराठी	कुमागी कन्या, पुरुष सम्पर्क रहिता, अक्षत योनि
अविद्य	विशेषण	हिंदी, नेपाली, मराठी	1. विद्याहीन, अपढ़, अज्ञानी, अर्शाक्षित, अनाडी,
अविद्य		बंगला, संस्कृत	गवार, मूर्ख, विद्या से परे ज्ञान का अविषय
अविद्य		कन्नड, मलयालम	2. आत्म ज्ञान या आध्यात्म ज्ञान हीन (मलयालम)
अविद्यमान	विशेषण	हिंदी, नेपाली, मराठी	अवर्तमान, अनुपस्थित, अस्मित, अगत, मिथ्या,
अविद्यमान		उड़िया, असमी, बंगला, संस	अस्तित्वहीन, असत्य, मत्ताहीन, अन्यास्थित
अविद्यमानता	मज्ञा	असमी	अस्तित्वहीनता, अनुपस्थिति, गत्ता हीनता
अविद्यमाने	अव्यय	असमी, बंगला	वर्तमान न होने पर, मृत्यु होने पर
अविद्या	मज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. विद्या या ज्ञान का अभाव, अध्यात्मिक अज्ञान
अविद्या		असमी, उड़िया, बंगला	2. विपरीत ज्ञान, भ्रान्ति, भ्रान्तवृद्धि, मोह, जड़ता
अविद्या		नेपाली, मलया, संस्कृत	3. वह भ्रान्ति जिसके कारण ब्रह्म में जगत की
अविद्ये		कन्नड	मृग अनित्य में नित्य की प्रतीती होती है, माया,
अवित्तिथे		तमिल	प्रकृति, मिथ्या ज्ञान + 4. रक्षिता नागी, उग्रली (कमला)
अविदिआ		पंजाबी	+ 5. कर्म काण्ड, पाच क्लेशों में से एक (तमिल)
अविद्वत्ता	विशेषण	हिंदी	1. अशिक्षित होने की अवस्था 2. अज्ञान, मूर्खता
अविद्वान	विशेषण	हिंदी, बंगला	विद्वान न होना, मूर्ख, अज्ञानी, अपरिचित
अविधवा	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. जिसका पति जीवित हो, सधवा, सुमंगली
अविधवा		बंगला, मलया, संस्कृत	2. सोभाग्यवती, सुहागिन
अविधवा- नवमी	संज्ञा	मराठी	भाद्रपद कृष्ण नवमी, सोभाग्यवती स्त्री को
अविधवा नौमि	संज्ञा	गुजराती	पिंडदान देने का दिन या उसका श्राद्ध दिवस
अविदा (अविद्या)	अव्यय	तमिल, संस्कृत	आपत्ति में पुकार, आओ, बचाओ! बचाओ!
अविधान	संज्ञा	हिंदी	1. विधि-विधान या नियम व्यवस्था का न होना
अविधानं		मलयालम	2. नियमरहित, क्रमरहित, अव्यवस्था, अस्थाय विधान
अविधान		बंगला	3. विधि विशुद्ध, उलटा, अवेध, अविहित
अविधि	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. विधि विरुद्ध, अशास्त्र सम्मत, नियम विपरीत

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अविधि	विशेषण	तेलुगु, कन्नड, संस्कृत	आचरण, गैर कानूनी, अवेध
अबिधि		असमी, उड़िया, बंगला+ 2	दुर्भाग्य, विपत्ति, मृगीवन (तेलुगु)
अविदि		तमिल	3 विधि का अभाव (सजा), विधि के अनुसार नहीं
अविधिक	विशेषण	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	कानून की दृष्टि में निरिद्ध (इल लीगल)
अविधिपूर्वक	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	नियमानुसार नहीं, विधिपूर्वक नहीं
अविधृत	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	जिसमें धारण नहीं किया या सहाय नहीं दिया गया हो
अविधेय	विशेषण	बंगला, कन्नड	1 जो नहीं करना चाहिए, अनुरोधित, प्रतिकूल
अविधेय		मलयालम, संस्कृत	2 अनाज्ञाकारी, अनियंत्रित, विपरीत, धृष्ट, अविनीत
अविनद्ध	विशेषण	कन्नड	बधा हुआ नहीं, जुदा नहीं, ठीना
अविनयं	सज्ञा	मलयालम	1 विनय, समता, शिष्टता या शील का अभाव
अविनयम्		संस्कृत, तमिल	2 धृष्टता, गुन्नाखी, असभ्यता, अविवेक, अशिष्टता
अविनय	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	3 अज्ञेयता, शिष्टाचार हीनता, स्व्याचन
अविनय		असमी, बंगला, कन्नड	4 उद्वेगता (इम माइस्ती), निमंमता, घमण्ड,
अविनय	विशेषण	नेपाली	विनय हीन (विशेषण)
अविनयी	विशेषण	गुजराती, बंगला	विनयशून्य, उद्वेग, असभ्य, अशिष्ट, गुस्ताख
अविनश्वर	विशेषण	हिंदी, असमी, नेपाली	1 अविनाशी, नाशहीन, अक्षय, (इम्परिश्वल)
अबिनश्वर	सज्ञा	बंगला, उड़िया	2 परब्रह्म, परमेश्वर
अविनाभाव	सज्ञा	हिंदी, गुजराती	अविचोग, अविज्ञेय, अविच्छेद्य संबन्ध, (जैसे
अविनाभाव		नेपाली, मराठी, संस्कृत	आग धूँआ), साहचर्य, अदृष्ट संबन्ध,
अविनाभावं		मलयालम, तमिल	अविच्छिन्नता, स्वभावमिद्धता, लगाव
अविनाभाविन्	सज्ञा	संस्कृत	आवेनाभाव वाला, अभिन्न शक्ति युक्त,
अविनाभावी	विशेषण	गुजराती	अविच्छिन्न शक्ति सम्पन्न
अविनाबावि		तमिल	जो पृथक न हो, अनिवार्य पारस्परिक संबंध वाला
अविनाबाव शक्ति	सज्ञा	तमिल	अविनाभाव शक्ति, शिव शक्ति, जो पृथक नहीं है
अविनाबूतम्	सज्ञा	तमिल	जो पृथक करने पर बच न सके, पृथक न हो सके
अविनाश		हिंदी, गुजराती	विनाश का अभाव, नित्यता, अमरता,
अविनाश	सज्ञा	मराठी, पंजाबी	स्थायिता, अक्षयता, कृशलक्षेण
अविनाशत्व	सज्ञा	गुजराती	स्थायित्व, नित्यता, शाश्वतता,

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अविनाशिता अविनाशीपणुं	सज्ञा	बंगला गुजराती	अमग्ना अक्षयता सरक्षण, अविनश्वरता, अविनाशिन्य, नाश न होने की अवस्था
अविनाशवादिन् अविनाशवादि	सज्ञा	संस्कृत तमिल	1 जा मसार को नाशवान नहीं मानता (दर्शन) 2 मसार को नित्य एव सनातन मानने वाला
अविनाशि अविनाशिन् अविनाशी अविनाशी अबनाशी/अविनासी	विशेषण सज्ञा	मलयालम, तमिल संस्कृत हिंदी, गुज, नेपा, मरा असमी, उड़िया, बंगला पंजाबी, सिंधी	1 चिरस्थायी अविनश्वर, मूर्ताविल नित्य, अनन्त, कायमी सनातन, प्रक्षय, क्षमर शाश्वत 2 जिसका नाश न हो परमेश्वर 3 कोयम्बटूर का शिव मंदिर (नामल) 4 हिमो के द्वारा स्रष्ट न होने वाला
अविनाशिनी	विशेषण	गुजराती, बंगला	प्रक्षय, जिसका नाश न हो
अविनीत अविनीत अविनीत अविनीतुडु	विशेषण	हिंदी, बंगला, नेपाली असमी, उड़िया कन्नड, मलयालम, संस्कृत तेलुगु	1 जो नम्र न हो, दुर्निनीत, उजड़ट, अशिष्ट, असभ्य, गवार, घमडी भ्रष्ट, अशिक्षित, अग्रत 2 दुर्दान्त, दीठ, दूरा उदण्ड, अन्नघ, उद्वृत 3 इम्पान्देस्ट (immodest)
अविनीता अविनीता	सज्ञा सज्ञा	मलयालम संस्कृत, हिंदी	1 गतिप्रत्यहीन दुर्गमिच स्त्री, अग्रती 2 विनय हीन स्त्री कूलटा, व्याभचारिणी
अविन्यस्त अविन्यस्त	विशेषण विशेषण	बंगला संस्कृत	विशुश्वल रूप में स्थापित, न सभली हुई अवस्था, अस्त व्यस्त, अर्गात्तित, अप्रवृत्त, अव्यवस्थित
अविन्यास	सज्ञा	बंगला	अस्त व्यस्त अवस्था विन्या या क्रम रहित
अविपक्व अविपक्व	विशेषण	हिंदी संस्कृत	1 पका नहीं, अधकवग फल आदि 2 व्यक्ति जो किमी विषय या कार्य में निपुण न हो
अविपत्ति अविपद	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत हिंदी	विपत्ति रहित, सुरक्षा, कल्याण कष्ट दस्त आदि का अभाव, समृद्धि
अविपन्न अविपन्न	विशेषण	हिंदी, मलयालम संस्कृत	1 जो क्षतिग्रस्त नहीं, प्रक्षत जिसे चोट न लगी हो 2 निष्कलूप, पवित्र 3 स्वस्थ, नीरोग
अविपर्यय	सज्ञा	हिंदी	विपर्यय या विचार का अभाव, विकार या क्रमभंग न होना
अविपाक	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 अजीर्ण, बदहजमी

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अविपाकं		मलयालम	2 अजीर्ण या मदाग्नि गग में ग्रस्त
अविपाककम्		तमिल	3 खाये भोजन का विपाक या राचन न होना
अविबुध	विशेषण	हिंदी	1. बुद्धिहीन, मुख्य 2 विबुध या देवता नहीं, अमुर
अविभक्त	विशेषण	हिंदी, गुज, नेपा, मराठी	1 जो बांटा हुआ न हो, अविभाजित, सम्मिलित,
अविभक्त		असमी, उड़िया, बंगला	संयुक्त, मावृत, ममूया, अर्वाडिन, अभग
अविभक्त		कन्नड, मलया, संस्कृत	2 अभिन्न, पूर्ण साग, अट्ट, मूल के साथ मटा हुआ
अविभक्तमु		तेलुगु	3 एक रूप, अर्नाकित, इकट्ठे साथ साथ रहना
अविबागम्		तमिल	+ 4 जिन्होंने धन का बटवाग न किया हो (बंगला)
अविबक्तकुटुम्बम्	सज्ञा	तमिल	सम्मिलित परिवार (अविभक्त कुटुम्बम्)
अविभाज्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 जो बाटा न जा सके या बट न सके, अविच्छेद्य
अविभाज्य		असमी, उड़िया, बंगला	2 वह गणित जिसमें किसी सख्या का भाग न जाय
अविभाज्य	विशेषण	मलया, मराठी, संस्कृत	3 अवटनीय, विभाग के अयोग्य 4 शेष सख्या (गणित)
अविभाज्यता	सज्ञा	गुजराती	विभाजन न होना, बंटवारे के अयोग्य
अविभात	विशेषण	बंगला	1 अनुज्वल, अदीप्त, अपरकाशित 2 अपरिणीत
अविभावन	सज्ञा	हिंदी	उत्थान का अभाव, निर्णय या विभद का अभाव
अविभावनीय (भाव्य)	विशेषण	बंगला	अचिन्तनीय, अविचारणीय
अविभावित	विशेषण	बंगला	अचिन्तित, अर्वाक्षित, अनुदभावित
अविभेदि	विशेषण	कन्नड	जो पृथक् न हो सके, भिन्नताहीन
अविभ्रम	सज्ञा	बंगला	भ्रमहीनता, धीरता, मदेक शून्यता
अविमर्श (म्)	अव्यय	मलयालम, संस्कृत	विना विचारे, आलाचन विना
अविमिश्र	सज्ञा	उड़िया, बंगला	विना मिलावट, विशुद्ध, पवित्र
अविमुक्त	विशेषण	हिंदी, नेपाली, बंगला	1. छुटकाग पाया हुआ नहीं, बंधन ढील नहीं हुए हों,
अविमुक्त		कन्नड, मलयालम, संस्कृत	मुक्त, वद्ध, परतत्र, अमुक्त, अपरिन्त्यक्त
अविमुक्तमु		तेलुगु	+ 2 जाता हुआ कैल या गांड़ (मलयालम)
अविमुक्तम्	सज्ञा	तमिल	3. (पंचक्रोशी सहित) काशी, वाराणसी, कनकटी
अविमृश्य	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	निस्मंदेह, मंदेह शून्य, अविचारणीय,
अविमृश्य		बंगला	प्रश्नातीत, अविचेक्य
अविमृश्यकारि	विशेषण	मलयालम, बंगला	1 बिना विचारे करने वाला, अपरिणामदर्शी
अविमृश्यकारिन्		संस्कृत	2 हठी, जिद्दी, आलोचना न करने वाला

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अविमृश्यकारिता	सज्ञा	बंगला	अविचेकितता, हठकारिता, अपाँगणामर्दाश्रिता
अवियुक्त	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1 जो अलग नहीं हुआ, मयुक्त, अविच्छिन्न
अवियुक्त		बंगला, मलयालम, संस्कृत	2 अव्यवहित, अविभक्त, सम्मिलित
अवियोग	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 वियोग या पृथक्ता का अभाव, मयोग उपस्थिति
अवियोगं		मलयालम, संस्कृत	2 अविभक्त, कोई भाग कृता नहीं
अवियोगव्रत	सज्ञा	हिंदी	गार्गशीर शस्त्र नात्र को मंत्रियों द्वारा किया जाने वाला एक अवैधव्य व्रत (परागणानुसार)
अवियोगव्रत		गुजराती	
अवियोज्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती	जो अलग या जुदा करने असमर्थ या अर्न्वित या
अविरक्त	विशेषण	असमी	विरक्ति या विरगम शून्यता, अदृग्म
अविरत	विशेषण	हिंदी, गुज, नेपा, मरा	1 विरत नहीं, रुकावट या विरगम विना अन्त रूप,
अविरत	विशेषण	असमी, उड़िया, बंगला	विना रुके, लगातार, सतत, सवेदा, लगा हुआ
अविरत	अव्यय	कन्नड, मलयालम, संस्कृत	2 अर्न्वित, अविश्रान्त, विरगमार्ण, अविग्न, अपरिभक्त
अविरतमु	अव्यय	तेलुगु	3 अवसान नहीं, निच, निरन्तर
अविरदम्		तमिल	4 निरन्तर चलता रहने या सता रहने वाला
अविरति	सज्ञा	बंगला	1 अर्न्वृति, विरगम का अभाव, विषय में चिन्त की
अविरति		हिंदी, मलयालम	पक्ष का लगाव, अर्न्वृति, आर्म्भिक, नीन्ता व्यभिचार,
अविरति		संस्कृत, नेपाली	अर्न्वृति 2-यम आख्या के अर्न्वृति आदर्ण
अविरल	विशेषण	हिंदी, गुज, मरा, नेपाली	1 सघन, घना निरवट, समस्त, अव्यवहित,
अविरल		कन्नड, मलयालम, संस्कृत	सयुक्त, विरल नहीं, दूर दूर नहीं, समीप
अविरलमु		तेलुगु	2 विना थक, धारा प्रवाह
अविरल	विशेषण	असमी, बंगला, उड़िया	3 दुर्लभ नहीं, मुलम 4 स्थूल मोटा
अविरलं	अव्यय	मलयालम	निकटता में, निरन्तर रूप में, ध्यान में,
अविरल	अव्यय	मराठी, संस्कृत	लगातार, सतत, विना रुके हुए
अविरहित	विशेषण	हिंदी	अवियुक्त, अपृथक्, जो अलग न हो सकें
अविरहि	विशेषण	कन्नड	विरह युक्त नहीं, प्रिया में दूर नहीं, संयोगी
अविराम	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 जिमकें बीच में विरगम या ठहराव न हो,
अविराम	विशेषण	असमी, बंगला, उड़िया	अविश्रान्त, निर्राध, सतत, निरन्तर

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अविराम अविराममु	क्रियाविशेषण विशेषण	मलयालम, संस्कृत तेलुगु	2. बिना रुके या बिना ठहरे हुए, लगातार, बगेर फ़र्मत के, विराम का अभाव (संज्ञा)
अविरामी	विशेषण	गुजराती	थके बिना करने वाला; अविश्रान्त
अविरुद्ध अविरुद्ध अविरुत्तम्	विशेषण विशेषण संज्ञा	हिंदी, बंगला, कन्नड मलयालम, संस्कृत तमिल	1. जो विरुद्ध, प्रतिकूल या विपरीत न हो 2. अप्रतिकूलता, अनुकूलता, सुसंगति, अप्रतिषिद्धता 3. न्यायपूर्ण, अनुमोदित, निर्दोष, अनुकूल, अनुयायी
अविरोधन	संज्ञा	हिंदी, मराठी	कोष्ठ वद्धता उपलब्ध करने वाली चीज़, विरंचन में बाधक
अविरोध अविरोध (धं) अविरोदम्	संज्ञा संज्ञा संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली, संस असमी, बंगला मलयालम तमिल	1. विरोध, विवाद या प्रतिकूलता का अभाव, अनुकूलता 2. मनैक्य, सामंजस्य, मेल, स्नेह, सुसंगति, सहमति 3. पूर्वा-पर संगति, समानता, साधर्म्य, सर्व सम्मति
अविरोधी अविरोधि (न्)	विशेषण	हिंदी, गुज, असमी, बंगला कन्नड, संस्कृत	जो विरोधी नहीं, अप्रतिकूल, अनुकूल, अनुयायी, अविरोद्ध, लाभदायक, हितकर, सामंजस्य, मेल
अविरोधे	क्रियाविशेषण	असमी	बिना विरोध के, शान्ति पूर्वक
अविलंब अविलम्ब अविलम्ब	क्रियाविशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी कन्नड, संस, मलया, नेपाली उड़िया, बंगला, असमी	1. विलंब या देर किये बिना, तत्काल, तुरन्त, फ़ौरन, झटपट, शीघ्र, बिना टील के 2. विलम्ब का अभाव, शीघ्रता (संज्ञा)
अविलंबन (नं) अविलंबनमु	संज्ञा	बंगला, कन्नड, मलया तेलुगु	विलंब का अभाव, शीघ्रता, त्वरित गति, तत्काल, झटपट, तुरन्त, फ़ौरन
अविलम्बित अविलम्बितमु (त्तं)	विशेषण अव्यय	बंगला, कन्नड, संस्कृत तेलुगु, मलयालम	1. शीघ्र, विलंब रहित, शीघ्र घटित 2. जो लटक़ाया न गया हो (बंगला)
अविलम्बे	अव्यय	उड़िया, बंगला, असमी, मराठी	जल्दी में, शीघ्रता में, तुरन्त
अविलक्ष्य अविलक्ष्य	विशेषण	हिंदी नेपाली	1. जिसका कोई लक्ष्य न हो, उद्देश्यहीन 2. असाध्य (रोग या रोगी), अचिकित्स्य
अविल्लासी अविलिख	विशेषण विशेषण	बंगला हिंदी	जो शौकीन नहीं, विलासी नहीं, अभोगासक्त 1. न लिखने वाला, जो लिखना न जानता हो 2. अनुचित या हानिकारक बात लिखने वाला
अविलुप्त	विशेषण	बंगला	1. जो लुप्त या गायब न हुआ हो 2. विद्यमान, अनष्ट

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अविलेय	मज्ञा	मलयालम, संस्कृत	अमूलनशील, ठोस, अद्रव्य पदार्थ
अविलोल	विशेषण	बंगला	अचंचल, शान्त, स्थिर, दृढ़
अविवक्षा	मज्ञा	बंगला, गुजराती	1 बोलने की आनच्छ, वक्ता जो बोलना न चाहता हो
अविवक्षा	मज्ञा	संस्कृत	2 विवक्षा या बोलने की इच्छा का अभाव
अविवक्षित	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 जिस कर्म या प्रकृत कर्म अदृष्ट न हो,
अविवक्षित		मराठी, मलयालम	जिस प्रकार कर्म अपेक्षित न हो, अनर्दिष्ट
अविवक्षित		संस्कृत, बंगला	2 जो कहे जाने योग्य या अभिप्रेत न हो
अविवक्षिवाध्यधनि	मज्ञा	मलयालम	व्यय मूलक लक्षणा, लक्षणा व्यक्ता एक साथ
अविवक्षितार्थत्व	मज्ञा	गुजराती	जो अभिप्रेत या विवक्षित अर्थ माना न हो
अविवर्त्य	विशेषण	हिंदी	जिसमें कभी किसी प्रकार का विचलन या
			स्वतंत्रता न हो (अन-आलम्बन)
अविवादं (म्)	मज्ञा	मलयालम, तमिल, संस्कृत	1 विवाद विवाद न हो सम्यक् न हो
अविवादमु		तेलुगु	2 निर्विवाद, समर्पित, मन समर्पित स
अविवाद	मज्ञा	हिंदी, नेपाली, गुजराती	3 वाद विवाद रहित, निर्विवाद, अर्थात्
अविवादी	विशेषण	बंगला	1 विवाद का अभाव, शान्ति प्रिय
			2 समीप में एक प्रकार का म्यर
अविवाहित	विशेषण	कन्नड, नेपाली, संस, मलया	विवाहित नहीं, कृषाग, ब्रह्मचारी,
अविवाहित	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	अपरिणीत, अश्रुता, विनयाया, जिसका लग्न
अविवाहित		असमी, उड़िया, बंगला	न हुआ हो, कुमार
अविवाहिता	विशेषण	गुजराती, नेपाली	कुमारी, जिसका विवाह न हुआ हो
अविविक्त	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	आवर्धित, अविचारित, भेदरहित, विवेक रहित
अविवृत्त	विशेषण	कन्नड	जो मोड़ा या उलटा गया न हो
अविवेक	मज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 भना वृगममज्ञनेकी शक्ति का अभाव, विचार शून्यता
अविवेक		असमी, उड़िया, बंगला	2 अविचार, नादानी, विचार हीनता, मूर्खता, अज्ञान
अविवेक		नेपाली, कन्नड	3 किसी विशिष्ट ज्ञान का अभाव या मिथ्या ज्ञान
अविवेक		तेलुगु	4 व्याकुलता के कारण मोह, अभेद ज्ञान, दुःसाहस,
अविवेकं (म्)		मलयालम, संस्कृत	उतावनापन, हृदयहीनता, मूर्खता, विवेचना शून्यता
अविवेकु		सिंधी	5 भ्रम, गवनी, अनिर्णय, ना समझी, अन्याय

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अविवेकता अविवेकित	सज्ञा	हिंदी नेपाली, बंगला	मूढता, विवेक न होने का भाव, निर्विवेकता, अविचारपूर्णता, विचार हीनता
अविवेकि अविवेकिन् अविवेकी अविवेकी अविवेकी (कि)	विशेषण	मलयालम, तमिल, कन्नड संस्कृत हिंदी, गुजराती, नेपाली असमी, उड़िया, बंगला सिंधी, मराठी, (तेलुगु)	1 अविचारी, विवेचना न करने वाला, न्याय अन्याय/हिताहित मद् अमद् निर्णय शून्य 2 मूढ, मूर्ख, नाममज्ञ, अन्यायी असभ्य 3 असमज्ज या दुविधा में रहनेवाला 4 विवेक रहित, विवेचना हीन
अविवेचक अविवेचक	विशेषण	असमी बंगला	1 न्याय अन्याय, हिताहित आदि दोनों पक्षों पर विचार न करने वाला 2 मूर्ख बूझ न करने वाला
अविवेचना अविवेचनीय अविवेचित	सज्ञा विशेषण विशेषण	असमी, बंगला बंगला बंगला	हित अहित, मद् अमद् विचार शून्यता विवेचना क अयोग्य, गुण दोष विचार के अयोग्य अनानुचित, जिसकी विवेचना न की गई हो
अविशंक/अविशङ्क अविशङ्क	विशेषण अव्यय	हिंदी, नेपाली, बंगला, संस मलयालम	1 निःशय, भयहीन, निर्भय, निडर, शका रहित 2 बिना झिझक, निर्भयता में, बिना मदेह सकोच के
अविशंका अविशङ्कित अविशङ्कितं अविशिष्ट अविशिष्ट लिंग अविशिष्ट वचन अविशीर्ण	सज्ञा विशेषण अव्यय विशेषण सज्ञा सज्ञा विशेषण	संस्कृत गुजराती, बंगला, नेपाली, संस मलयालम कन्नड कन्नड कन्नड बंगला	मदेह या भय का अभाव विश्वास, भरोसा निःशङ्क, भय शून्य, निडर, मदेहहीन वेडिझक निःमदेह रूप में, निडरता में कुछ भी, काइ भी, अनिर्दिष्ट, जो विशिष्ट नहीं काई लिंग, उभय लिंग, अलिंग कोई भी वचन, एक वचन या बहु वचन अक्षीण, अम्नान, अन्ष्ट
अविशुद्ध अविशुद्ध अविशुद्धि	विशेषण विशेषण सज्ञा	हिंदी बंगला हिंदी	1 अशुद्ध, मिश्रित, मिनाचयी, अनिर्मल, मदीष, अपवित्र 2 अस्फुट, अव्यक्त, दुष्ट, खल (बंगला) विशुद्ध न होने की अवस्था, मलिनता अपवित्रता
अविशेष अविशेषं अविशेषण अविशेषज्ञ	विशेषण सज्ञा विशेषण विशेषण	हिंदी, बंगला, कन्नड, संस मलयालम कन्नड बंगला	1 विशेषता हीन, असाधारणता या भेदयुक्त नहीं 2 अभिन्नता, अभेद, प्रभेदशून्य, विशेषाभाव, समानता जो विशेषण नहीं विशेष या भेद ज्ञान शून्य, मर्यादित, अबहुदर्शी

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अविश्रम्भ	सज्ञा	हिंदी	विश्राम का अभाव, अविश्राम
अविश्रांत	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 न थकने वाला, विश्राम या आराम न करने वाला,
अविश्रान्त		नेपाली, मलयालम, संस	लगातार चलने वाला, गतन, न ठहरने रुकने वाला
अविश्रांत		असमी, उड़िया, बंगला	2 निरन्तर चलने या होने वाला, अनवरत
अविश्रांत	अव्यय	मलयालम	लगातार, बिना रुके, बिना थके, न थमना
अविश्रान्तरूपे	क्रियाविशेषण	असमी	विश्रान्ति न लेना, बिना रुक, निरन्तर
अविश्राम	अव्यय	असमी, बंगला, हिंदी	अविगम, बिना थके, बिना रुके, निरन्तर
अविश्रामं (म)	अव्यय	मलयालम, संस्कृत	बिना आराम के, विश्राम हीन, अनवरत
अविश्लेष्य	विशेषण	गुजराती	जो कुछ न हो सके, जिगका विशेषण न हो सके,
अविश्लेष्य		संस्कृत	जो अलग अलग न किया जा सके
अविश्वसनीय	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 जिस पर विश्राम या भरोसा न किया जा सके,
अविश्वसनीय		असमी, उड़िया, बंगला	बेभरोसे का अविश्वस्य विश्रामघातक
अविश्वसनीय		नेपाली, मलया, संस्कृत	2 वेईमान, धोखेवाज, विश्राम के अयोग्य
अविश्वसनीयमु		तेलुगु	3 अविश्राम्य, विश्राम पात्र नहीं
अविश्वासजोगु		सिंधी	4 जा विश्राम का अधिकारी नहीं
अविश्वास	सज्ञा	हिंदी, गुज, नेपा, मरा, कन्न	1 विश्रामहीनता, बे एतवार, मदेह, शक
अविश्वास		असमी, उड़िया, बंगला	2 अनवन्वार, शक, मशय
अविश्वासु		सिंधी	+ 3 अकृतज्ञता (नामिल)
अविश्वासं (स)		मलयालम, संस्कृत	4 विश्राम का अभाव, अनास्था, अनिश्चय
अविशुवासम्		तमिल	5 निश्चय धारणा का या निश्चय का अभाव
अविश्वास पात्र	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	जिस पर विश्राम न किया जा सके, अविश्वसनीय
अविश्वासप्रमेय	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	लाकतरी मस्था आ म किरी अधिकारी पर विश्राम
अविश्वास प्रस्ताव		हिंदी, संस्कृत	न रह जाने का सकल्प स्परिथत करना, जिसमे वह परच्युत हो जाय
अविश्वासि	विशेषण	मलयालम, तमिल	1 जो विश्राम न करना हो, यहमी, श्रद्धा हीन,
अविश्वासिन्		संस्कृत	मशयकोर, बे एतवार, मशक, जिगका भरोसा न
अविश्वासी	विशेषण	मराठी, गुजराती	किया जा सके
अविश्वासी		हिंदी, नेपाली, असमी +	2 कृतघ्न (नामिल)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अविश्वास्य	विशेषण	गुज, बंग, मलया, संस	अविश्वासनीय, जिम पर यकीन न हो
अविष	विशेषण	हिंदी, मलयालम, संस्कृत	1 विषहीन, जहरीला नहीं, विषहरक, जो विष न हो
अविष	मज्ञा	हिंदी	2 विष का प्रभाव दूर करने वाला
अविषन्/अविषं	मज्ञा	मलयालम	3 ममूद्र, आकाश, गजा, रक्षक (मज्ञा)
अविषम	विशेषण	कन्नड	समान, बराबर, समतल, नियंत्रित, एकता
अविषय	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 जो ईत्थ का विषय न हो, उद्घ्यानीन
अविषय	मज्ञा	नेपाली, बंगला	2 विषय वासनाहीन, विषयानीन, निर्विषय, अगाचर,
अविषय		मराठी	उद्घ्याज्ञान रक्षित, निरिच्छ अदर्शन, अप्रकाश्य
अविषय		संस्कृत	3 पदच या ममज्ञ से पर, अप्रतिपाद्य, अनिर्वचनीय,
अविषय	विशेषण	मलयालम	भज्ञान मयादा से बाहर, अद्घ्य, दुबोध अप्राय
अविषयी	विशेषण	बंगला	अविषयायकन असमगी सपत्तिहीन
अविषह्य	विशेषण	गुजराती, मलया, बंगला	1 जो मज्ञ न जा सके असहनीय, असह्य
अविसह्य	विशेषण	हिंदी	2 जिमका विरोध न किया जा सके 3 रोग उत्पादक (हिंदी)
अविषा	मज्ञा	हिंदी, संस्कृत	एक कृती ने मीष विच्छ के विष का दूर करनी है, निर्विषा
अविषि (षी)	मज्ञा	मलयालम, हिंदी, संस्कृत	भूमि (पृथ्वी), नदी आकाश, म्यग
अविसम्बाव	विशेषण	उड़िया, बंगला	विरोध हीन, मिलन
अविसम्बादी	विशेषण	गुजराती, बंगला	1 मगीन में स्वर विशेष
अविसम्बादि (न्)		मलया, संस्कृत	2 विरोधी नहीं, सहमत 3 जो वचन भग न करे
अविसम्बादित	विशेषण	बंगला, मलयालम	सर्व प्रकार विरोध हीन, सर्व सम्मत, अविरोद्ध
अविसंबादितभावे	अव्यय	बंगला	निर्विरोध रूप में, सर्व सम्मति क्रम से
अविसम्बादिता	मज्ञा	मलयालम, संस्कृत	वादा न नाचना वादा पूरा करना, मत्वमध
अविसर्गी	विशेषण	हिंदी	1 जो बीच में रुकना या रुकना न हो, न हटने वाला
अविसर्गिन्		संस्कृत	2 बराबर बना रहने वाला त्वर (मज्ञा)
अविसर्पण	विशेषण	बंगला	अप्रमार, चागे दिशाओं में न फैला हुआ
अविस्तर	विशेषण	हिंदी	थोड़ी लंबाई चौड़ाई, मक्षिप्त, सीमित क्षेत्र वाला
अविस्तर	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	थोड़ी मात्रा में, जिसका विस्तार अधिक न हो
अविस्तीर्ण	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 विस्तार शून्य, अल्प आयतन, जो अधिक

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अविस्तीर्ण अविस्तीर्ण	विशेषण	नेपाली बंगला	स्थान न घेरता हो 2. जो अधिक न फैलाकर छोटा कर दिया गया हो
अविस्तृत अविस्तृत	विशेषण	हिंदी नेपाली	1. फैला हुआ नहीं, जिसका विस्तार न हुआ हो 2. ठसा हुआ, घना, थोड़े विस्तार वाला
अविस्पष्ट	विशेषण	कन्नड, संस, मलयालम	जो साफ या स्पष्ट न हो, धुंधला
अविस्मरणीय अविस्मरणीय	विशेषण विशेषण	मलयालम, संस्कृत हिंदी, बंगला	न भूलने योग्य, जिसे भुलाया न जा सके, मन से न हटाये जाने योग्य
अविस्मृत/अविस्मर्य अविहस्त	विशेषण विशेषण	बंगला, मलयालम हिंदी, मलयालम	जिसे भुलाया नहीं गया, स्मृत, जो याद है बिना रुकावट, अबाधित
अविहित अविहित अविहित	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, बंगला संस्कृत, कन्नड, मलया	1. जो विहित उचित या ठीक न हो, न करने योग्य, अनुचित, अनिर्दिष्ट, नियम विरुद्ध, अनुपयुक्त 2. शास्त्र विरुद्ध, निषिद्ध, अकर्तव्य, अवैध, हराम
अविहितसंधि अविहीन/अविहने	संज्ञा विशेषण	कन्नड असमी	शब्दों की व्याकरणानुसार रचना न होना अनुपस्थित में, मृत्यु के बाद, अवर्तमान
अवीचि अवीचि	विशेषण	हिंदी, असमी, संस्कृत मलया, तमिल, कन्नड	1. तरंग हीन, बिना लहरों के, निस्तरंग 2. झूठे गवाह के लिए नरक (असमी) 3. एक नरक का नाम (संज्ञा)
अवीट	विशेषण	मराठी	1. जो फीका न पड़े, खराब न हो, पक्का (रंग) 2. जिससे जी न ऊबे, बहुत समय तक चलनेवाला 3. अटल, अक्षय्य, आकर्षक, दिलचस्प, विपुल, बेहद कम न होने वाला प्रेम या भक्ति
अवीट-आवड़ी		मराठी	
अवीर अवीर	विशेषण	मलयालम कन्नड, संस्कृत	1. वीर नहीं, पौरुषहीन, शक्तिहीन, कमजोर, वीरात्मा हीन, कायर 2. जिसके कोई पुत्र न हो (सस)
अवीरा अवीरा अवीरा	विशेषण	हिंदी, नेपाली बंगला मलयालम, संस्कृत	1. जिस स्त्री के पति पुत्र या अभिभावक न हों, निपुती, विधवा, पुत्रहीन, असहाया, अनाथा; जो वीर नहीं 2. प्रष्टाचरण स्त्री, मनमाना आचरण करने वाली (हिंदी)
अकृत अकृत अकृत	विशेषण	हिंदी संस्कृत मलयालम	1. टका हुआ नहीं, जिसे रुकावट नहीं 2. जो चुना नहीं गया +3. जो रक्षित नहीं, जो अधीन नहीं (हिंदी) + 4. अस्वीकृत (मलयालम), अपराभूत (हिंदी)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवृत्ति	संज्ञा	हिंदी, बंगला	1. वृत्ति या जीविका का अभाव, स्थितिहीनता
अवृत्ति		संस्कृत, मलयालम	2. अस्तित्व हीनता, अवृत्त अवस्था 3. अन्न वस्त्राभाव
अवृत्तिक	विशेषण	बंगला	वेतन भोगी नहीं (आनरेगी), अवैतनिक
अवृथा	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	जो व्यर्थ नहीं, सफल; जो वृथा न हो
अवृद्ध	विशेषण	बंगला	अवृद्धि प्राप्त, अपरिपक्व, नवीन (इम मंच्योर)
अवृद्धिक	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	विनाव्याज का, (संज्ञा) मूलधन, न बढ़ने वाला
अवृष्टि	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	वर्षा का अभाव, अनावृष्टि, सूखा, अकाल
अवृष्य	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	पोषकता रहित, बलकारक न होना
अवेच	विशेषण	मराठी	खर्च करने में ना खुश, कृपण
अवेणि	विशेषण	हिंदी	1. कठोर रहित 2. नदी जो साध मिल कर प्रवाहित न हो
अवेणी सम्बद्ध	विशेषण	बंगला	जो बाल वेणी या जूड़े में न बंधे हो
अवेदन	संज्ञा	बंगला	अनुभूति का लोप, वेदना शून्य, ज्ञान शून्य
अवेदि	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	अज्ञाना, अविद्या, अज्ञानता, अपंडित, मूर्ख,
अवेदम्	संज्ञा	तमिल	विस्मृति अज्ञान
अवेदनिक	विशेषण	बंगला	अनुभूति लोपकारी (अनस्थिशिया)
अवेदनीय	विशेषण	बंगला	1. जो वेदन द्वारा न जाना जा सके या न जानने
अवेद्य		कन्नड, हिंदी, संस, मलया	योग्य हो अज्ञेय, अज्ञात, गुप्त, अलभ्य
अवेत्तियन	संज्ञा	तमिल	2. जो प्राप्त न हो सके या प्राप्ति योग्य न हो
अवेद्या		बंगला	1. जिसके साथ विवाह न किया जा सकता हो
अवेद्या		हिंदी, मलयालम, संस	2. विवाह के अयोग्य स्त्री
अवेर (अवेर)	विशेषण	हिंदी, पंजाबी, गुजराती	1. विलम्ब से, जिसकी कोई समय सीमा न हो
अवेरे	क्रियाविशेषण	पंजाबी	2. आकस्मिक, असामयिक, कुसमय, अकालिक
अवेस	विशेषण	मराठी, मलया, संस्कृत	1. अमंगल समय, अनुपयुक्त समय, प्रतिकूल समय
अवेसा	विशेषण	हिंदी, मलया, गुज, संस	वेकत, देर से, विलम्ब से
अवेसै	विशेषण	तमिल	2. अकालिक, असामयिक, अनुचित समय
अवेसमु	संज्ञा	तेलुगु	3. असीमता, ज्ञान गोपन, अपहनव
अवेस-सुवेस	संज्ञा	मराठी	शुभ-अशुभ समय, योग्य अयोग्य समय
अवेर-सवेर		हिंदी, पंजाबी	आगा-पीछा: देरी-विलम्ब

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवेश	विशेषण	हिंदी	जिसका कोई वेश न हो, वेश रहित
अवैज्ञानिक	विशेषण	हिंदी	1. व्यक्ति जो विज्ञान ज्ञाता न हो 2. विषय-जिसका संबंध विज्ञान से न हो 3. विषय जिसका वैज्ञानिक रीति से प्रतिपादन न हुआ हो
अवैज्ञानिक		नेपाली	
अवैतनिक	विशेषण	हिंदी, नेपाली	बिना वेतन काम करने वाला (आनरेरी) मुफ्त का, बे तलबी, बिना फीम के
अवैतनिक		असमी, उड़िया, बंगला	
अवैदिक	विशेषण	हिंदी, कन्नड	1. वेदों के अनुरूप नहीं, वेदोक्त नहीं, वैदिक विधि से नहीं, वैदिक कर्म से संबंधित नहीं 2. वेद ज्ञाता नहीं, वेद विरुद्ध, धर्म विरुद्ध
अवैदिक		बंगला	
अवैदिक		मलयालम, तमिल	
अवैद्य	विशेषण	हिंदी	1. वैद्यक या आयुर्वेद ज्ञाता नहीं, नीम हकीम 2. विद्वान नहीं, कुणिकित्सक, नादान, नारामझ
अवैद्य	विशेषण	बंगला	
अवैध	विशेषण	हिंदी, गुज, नेपा, संस	विधि-विधान के प्रातिकूल, (इल लीगल) अवैधानिक, नियम विरुद्ध, निषिद्ध, शास्त्र विरुद्ध, आवहित
अवैध		असमी, उड़िया, बंगला	
अवैध्याव्रत	संज्ञा	गुजराती	विधवापन न आये इसके लिए व्रत, सौभाग्यव्रत
अवैधाचरण	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	विधान विरुद्ध कार्य (इल-लीगल प्रेक्टिस)
अवैधानिक	विशेषण	हिंदी, नेपाली	सविधान या विधान के विरुद्ध, गैर-कानूनी
अवैमत्य (यं)	संज्ञा	हिंदी, मलयालम	मतभेद का अभाव, एकमतता, ऐक्य, मतैक्य, सर्व सम्मत, जिगमे वैमनस्य या मतभेद न हो
अवैमत्य	विशेषण	संस्कृत	
अवैयाल	विशेषण	असमी	उग्र स्वभाव युक्त, जिद्दी, बदमिजाज़, स्वेच्छाचारी
अवैर	संज्ञा	गुजराती	वैर का अभाव, प्रेम, दोस्ती
अवैरनिष्ठा	संज्ञा	गुजराती	वैरभाव नहीं, प्रेम में निष्ठा
अवैराविक्यम्	संज्ञा	तमिल	बुद्धि के आठ गुणों में एक, हठ या जिह्व का अभाव
अवैषम्य	संज्ञा	असमी	विषमता नहीं, पक्षपात नहीं
अवैष्णव	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	विष्णु से संबंध नहीं, वैष्णव मतानुयायी नहीं
अव्यंग	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. जो व्यंग या टेढ़ा न हो, सीधा, त्रुटि-कमी हीन 2. भलीभांति निर्मित, सम्पूर्ण, सुडौल, समरूप + 3. वाच्यार्थ या सादा-अर्थ (गुजराती), सांगोपांग अंग-भंग रहित अविकलांग, सांगोपांग, परिपूर्ण
अव्यङ्ग	विशेषण	संस्कृत, मलयालम	
अव्यंगांग	विशेषण	हिंदी	

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अव्यंजन अव्यंजन	विशेषण	हिंदी, संस्कृत कन्नड	1 व्यंजन नहीं स्वर ही स्वर 2 चिह्न या लक्षण रहित 3 शुभलक्षण हीन 4 (पशु) जिमके सींग न हों
अव्यक्तं (नू) अव्यक्त अव्यक्तुडु अधियत्तनु	संज्ञा संज्ञा संज्ञा संज्ञा	मलयालम मराठी, हिंदी, संस्कृत, नेपाली तेलुगु तमिल	1 संसार प्रपंच का आदि कारण, मूल प्रकृति, माया 2 ब्रह्म, परमात्मा, शिव, कामदेव, सूक्ष्म शरीर, आत्मा + 3. मोना, मुवर्ण (कन्नड) एक उपनिषद (तमिल) + 4 बृद्धि की सीमा में परे अगम्य 5 गृह, पूर्व, अज्ञानी
अव्यक्त अव्यक्त अव्यक्त अव्यक्त अव्यक्तमु	विशेषण	हिंदी, मराठी, गुजराती नेपाली, कन्नड, संस्कृत मलयालम असमी, उड़िया, बंगला तेलुगु	1 व्यक्त/कथित/प्रत्यक्ष या स्पष्ट नहीं, अनिर्वचनीय 2 अकथित, अप्रत्यक्ष, अगोचर, अस्पष्ट, अचिन्त्य, अदृश्य, अज्ञान, अनुच्चरित, अनिर्दिष्ट, अप्रकट, निराकार, अनाविर्भूत, अवयव रहित, अज्ञेय 3 गणित में अज्ञान या विशिष्ट गणि
अव्यक्तक्रिया अव्यक्त गणित अव्यक्तध्वनि अव्यक्तगति	संज्ञा संज्ञा संज्ञा विशेषण	मराठी, संस्कृत, हिंदी हिंदी, मराठी कन्नड हिंदी	बीज गणित की क्रिया, अव्यक्त गणि की विधि बीज गणित का एक ढिमाब अस्पष्ट स्वर, अजीब आवाज़ अलक्षित गमन करने वाला
अव्यक्तपद अव्यक्तपद	विशेषण विशेषण	हिंदी, संस्कृत मलयालम	1 वह पद जिसका उच्चारण न हो सकें 2 पशु पक्षी की बोली
अव्यक्त मूर्ति अव्यक्तराग	संज्ञा संज्ञा	मलयालम संस्कृत, कन्नड, हिंदी	परमात्मा, ईश्वर, निराकार ब्रह्म थोडा लाल, गुलाबी, गहरा लाल, +उषा का रंग (कन्नड)
अव्यक्तराशि अव्यक्तराशि	संज्ञा	हिंदी, बंगला, संस्कृत मलयालम, मराठी, गुजराती	अज्ञान सख्या या मात्रा (बीज गणित में) वह गणि जिसका मान निश्चित न हो
अव्यक्तरूपनू अव्यक्त लक्षण अधियत्तलक्कनै	संज्ञा संज्ञा संज्ञा	मलयालम, संस्कृत मलयालम, संस्कृत, हिंदी तमिल	विष्णु जिनका रूप अव्यक्त है शिव, शिव की उपाधि अव्यक्त लक्षणा (संस्कृत), पार्वती
अव्यक्तलिंग अधियत्तलिङ्गम् अव्यक्तलिंगं	विशेषण	हिंदी, मराठी, गुजराती+ तमिल मलयालम	1. जिमके शरीराग न हों, शालिग्राम, शिवलिंग (मलयालम) + 2. जिस रोग के लक्षण स्पष्ट न हो (हिंदी) 3. महत तत्व, संन्यासी, निराकार ब्रह्म 4. जिसके लिंग, स्वरूप आदि का पता न चले

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अव्यक्तवाच	सज्ञा	कन्नड	ऐसा बोलना जो समझ में न आये
अव्यक्त वेदना	सज्ञा	बंगला	भाषा में अप्रकटनीय दुख या पीडा
अव्यक्त साम्य	सज्ञा	हिंदी, मराठी, गुजराती	अव्यक्त राशि का ममीकरण (गणित)
अव्यक्तानुकरण	सज्ञा	हिंदी	1 अर्थ रहित ध्वनियों का अनुकरण (भाषाशास्त्र)
अव्यक्तविक्र	सज्ञा	तमिल	2 पशु पक्षी आदि की बोली 3 एक धूमकेतु
अव्यक्तिक	विशेषण	हिंदी	1 व्यक्ति शून्य, जिसका कर्ता न हो 2 व्यक्तिगत
अव्यक्तिक	विशेषण	बंगला	नहीं (इम्पर्सनल) 3 राग द्वेष रहित, निर्लिप्त
अव्यग्र	विशेषण	हिंदी, मराठी, कन्नड	1 व्यग्र या उत्तेजित नहीं, शान्त, धीर
अव्यग्र		बंगला	2 अक्षुभित, स्थिरचित्त दृढ़, प्रशान्त, घबड़ाया नहीं
अव्यग्रं	अव्यय	मलयालम	3 जो किसी व्यापार में मलग्न न हो निस्पृह, उदासीन
अव्यग्र	विशेषण	संस्कृत, मलयालम	4 सावधान, तन्पर, श्रद्धा युक्त, स्वस्थ, दक्ष
अव्यतिरेकम्	सज्ञा	तमिल	वह तर्क जिसमें साध्य साधन की अग्नित्व हीनता
अव्यतिरेक		संस्कृत	प्रदर्शित की जाती है परन्तु उनकी परस्पर व्याप्ति नहीं
अव्यत्ययं	अव्यय	मलयालम, संस्कृत	बिना परिवर्तन के, निश्चित रूप में
अव्यथ	विशेषण	हिंदी, मलया, संस्कृत	1 पीडा या वेदना रहित, निर्वेद, व्यथा रहित
अव्यथे		कन्नड	2 पीडा न देने वाला, दयावान, दयालु, दुःख रहित
अव्यथा	सज्ञा	हिंदी, मराठी	1 व्यथा हीन, कष्ट या पीडा का अभाव
अव्यथा	सज्ञा	मलयालम	2 सौफ, हरीतकी, आँवला, मारु, स्थल-कमल
अव्यथिन्	सज्ञा	संस्कृत	3 घोडा, जो बहुत चलने पर भी व्यथित नहीं होता
अव्यथी	विशेषण	हिंदी	जो व्यथित न हो, न व्यथित करे, निडर
अव्यथ	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1 जो बेधा या छेदा नहीं गया, अनविधा
अव्यथ		तेलुगु, संस्कृत	+ 2 दुःख रहित, शोक रहित (तेलुगु)
अव्यपदेश्य	विशेषण	हिंदी	1 जिसका शब्दों में वर्णन न हो सके, अपरिभाष्य
अव्यपदेश्य		मलयालम	2 अनिर्वचनीय, अनिर्णय, लक्षण निर्देशरहित
अव्यपदेश्य		संस्कृत	3 निर्विकल्प ज्ञान, ब्रह्म (सज्ञा)
अव्यपेक्षा	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	अश्रद्धा, लापरवाही, उदासीनता, अनासक्ति
अव्यपेत (तं)	विशेषण	हिंदी, मलयालम, कन्नड	जो अलग न हो संयुक्त, यमक अलंकार का एक भेद

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अध्यपेत यमक	संज्ञा	कन्नड	जहाँ प्रथम पंक्ति में द्विअर्थी दुहरें शब्द हो
अध्यभिचारित	विशेषण	गुजराती, मलयालम	नित्य साहचर्य, एक निष्ठ, वफादार
अध्यभिचार	संज्ञा	गुजराती, मराठी	1 एकनिष्ठा, नित्य साहचर्य, अविच्छेद, अविच्छेद
अध्यभिचार	संज्ञा	हिंदी, बंगला	अपार्थक्य, वफादारी, साधना में अविचलितता, आवाग नही 2 अविमगवाद, नित्यता, सत्य
अध्यभिचार		संस्कृत	
अध्यभिचारी	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1. जो उचित या मत मार्ग में भटकने नहीं, सदाचारी, पुण्यात्मा, धर्मानुयायी, नीतिमान, एकनिष्ठ, नित्य
अध्यभिचारिन्		संस्कृत	2 अविरोधी, अनुकूल, अपवाद रहित, स्थायी
अध्यभिचारी		मराठी, असमी	3 जो पर स्त्री गमन न करे, धर्ममत में रहने वाला
अध्यभिचारी		बंगला	4 (न्याय) वह हेतु जो माध्य-साधक दोनों में जुड़ा हो
अध्यभिचारी		मलयालम	
अध्यभिचारिता	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	1 निश्चिंत मार्ग में न भटकना, आवाग न होना
अध्यभिचारिता	संज्ञा	बंगला	2 चूटि हीनता, दृढ सकल्प, व्यभिचार हीनता
अध्यय	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 जिसमें व्यय या विकार न हो, विकार शून्य
अध्यय		असमी, उड़िया, बंगला	2 अपरिवर्तनीय, अनाशयान, नाशहीन, नित्य, क्षय हीन, अनादि अनन्त, सतत प्रवाही, निर्विकार, शाश्वत भचल, स्थिर, परिणाम रहित
अध्यय		नेपाली, संस्कृत, मलया	3 जिस शब्द में लिंग, वचन, विभक्ति में रूप न बदले
अध्ययम्/अविद्ययम्		तमिल	4 जो व्यय या खर्च न करे, कजूस, मिनव्ययी
अध्ययम्		तेलुगु	
अध्ययुद्	संज्ञा	तेलुगु	1. परमेश्वर, ईश्वर, विष्णु, ब्रह्म, शिव, अविनाशी
अध्ययन्/अध्ययं	संज्ञा	मलयालम	2 जो सदा एक रूप रहता है, अविकारी शब्द
अध्यय क्रियापद	संज्ञा	कन्नड	क्रिया का वह रूप जो काल वचन लिंग में न बदले
अध्यय शब्द	संज्ञा	असमी	प्रत्यय जिसका रूप अपरिवर्तनीय है
अध्यय लिंग	संज्ञा	कन्नड	प्रत्ययों का लिंग
अध्यया	संज्ञा	बंगला	1 व्यय शून्या 2 दुर्गा
अध्ययीभाव	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	1. समास शब्द जिसमें पूर्व पद अव्यय हो,
अध्ययीभाव		नेपाली, मराठी, कन्नड	जिस समास के रूप में बने क्रिया विशेषणात्मक
अध्ययीभावं		मलयालम	2. व्यय का अभाव (गरीबी के कारण)
अध्ययी भाव	संज्ञा	बंगला	+ 3. अविनाशीपन, अविकारी स्थिति अनश्वरता (गुजराती)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अव्यर्थ	विशेषण	हिंदी, नेपाली, संस, मलया	1 जा व्यर्थ या निष्फल न हो
अव्यर्थ	विशेषण	असमी, उड़िया, बंगला	2 सफल, अचूक, अमोघ, सार्थक
अव्यलीक	विशेषण	संस्कृत, हिंदी	झूठा नही मच्या, अनुकूल, प्रिय
अव्यवधान	सज्ञा	हिंदी, बंगला, असमी	1 बीच म ओट परदा विघ्न-बाधा दूरी का अभाव
अव्यवधानमु	सज्ञा	तेलुगु	+ 2 अतिराम, निरन्तर, (नेलुगु) अभेद, अनवर्गित (बंगला)
अव्यवधान	सज्ञा	संस्कृत, मराठी, नेपाली	3 नैकट्य, लगाव, लापरवाही, अनावृत्तता, अस्वलन
अव्यवधानमुगा	क्रियाविशेषण	तेलुगु	तत्काल, फौरन, अविलम्ब
अव्यवसाय	विशेषण	हिंदी	1 जो कोई व्यवसाय, उद्योग, धन्धा न कर रहा हो
अव्यवसाय		नेपाली	निकम्मा, आलसी
अव्यवसाय		बंगला	2 व्यवसाय या उद्योग का अभाव 3 निश्चय का अभाव, श्रम का अभाव
अव्यवसायि	विशेषण	मलयालम	1 जो व्यवसाय न करता हो या न कर रहा हो
अव्यवसायिन्		संस्कृत	निरुद्यमी, गृहमहीन, अनुद्यमी, जीविकापात्र-
अव्यवसायी		हिंदी, गुजराती	मे नियुक्त नहीं, वक्रा
अव्यवसायी		असमी, बंगला	2 जिसमें व्यवसाय बुद्धि न हो, अनुभव अभ्यास न हो
अव्यवसायी		नेपाली	+ 3 अजाग्रत निश्चिन्त अभावधान (मलयालम,
अव्यवस्थ	विशेषण	बंगला, संस्कृत, मराठी	1 चलन, अस्थिर, अनिश्चित, एक स्थान पर नियत नहीं
अव्यवस्थ	विशेषण	मलयालम, गुजराती	2 अचिर स्थायी, अनियमित क्रमहीन श्रवणाश्रय
अव्यवस्था	सज्ञा	हिंदी, गुजराती	1 नियम, क्रम गयादा आदि का अभाव
अव्यवस्था		नेपाली, मराठी	2 अनियमितता, विशृंखलता, क्रमहीनता, विधिविरुद्ध
अव्यवस्था		असमी, उड़िया	या शास्त्र विरुद्ध आचरण, प्रवृध म गडबडी
अव्यवस्था		कन्नड, बंगला	3 बकायदगी, बदअमनी, अराजकता, घातला,
अव्यवस्था		मलयालम, संस्कृत	गोलमाल, अनिश्चितता, कुव्यवस्था
			4 किसी धार्मिक, दीवानी मामले में दी अनुचित सम्पति
अव्यवस्थित	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 जो नियम या कानून के अनुकूल या अनुसार
अव्यवस्थित		नेपाली, मराठी	नहीं, व्यवस्थाहीन, शास्त्र गयादा विरुद्ध
अव्यवस्थित		असमी, उड़िया, बंगला	2 विशृंखल, प्रवृधहीन, गडबड, मीमासाहीन, चलन,
अव्यवस्थित		मलयालम, संस्कृत	अस्थिर, बेढगा, विधि पूर्वक नहीं, वेत्तीव
अव्यवहार	विशेषण	गुजराती	1 असदाचरण, अपप्रयोग, खोटाव्यवहार, बुरा कर्म,

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अव्यवहार	विशेषण	असमी, बंगला	व्यवहार या काम में लाने के अयोग्य, अधुँचि
अव्यवहार		मलयालम, संस्कृत	2 जातिच्युत, जाति निमर्के, साथ व्यवहार या
अव्यवहार		मराठी	खाना पीना न करनी हा, वनिकृत 3 कानून की
अव्यवहार		उड़िया	गिरफ्त में नहीं, मुकदमा चलाने के अयोग्य
अव्यवहार्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 व्यवहार या काम में न लाया जा सक, अनुपयोगी
अव्यवहार्य		नेपाली, संस्कृत	निरुपयोगी, जो व्यवहार न जानता हो
अव्यवहार्य		असमी, उड़िया, बंगला	2 व्यवहार या संबध रखने योग्य नहीं, जातिच्युत,
अव्यवहार्य		मलयालम	वनिकृत, पतित, अनभ्यस्त, व्यवहार कुशल नहीं
अव्यवहित	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 जिसमें कोई व्यवधान गैरकथाम बाधा न हो,
अव्यवहित		असमी, उड़िया, बंगला	व्यवधान रहित, प्रकट, स्पष्ट, निकटस्थ
अव्यवहित		मलयालम, संस्कृत, कन्नड	2 शान्तिहित, मनगन, मर्गीर, अग्र्य
अव्यवहितमु		तेलुगु	+ 3 जिस दफना, गैरकना, धामना न हो सक (मराठी)
अव्यवहितपूर्वगामी	विशेषण	गुजराती	दिना पूर्व व्यवधान के तुल्य आया या रहा हुआ
अव्यवहृत	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1 जो व्यवहार या उपयोग में न लाया गया हो
अव्यवहृत		असमी, बंगला	2 जो व्यवहार में न आता हो, अनुपयुक्त, अनावर्गित
अव्यवहृत		संस्कृत	3 जिसका व्यवहार या प्रचलन न हो अत्रचलित
अव्यवहितपूर्वकाल	सज्ञा	कन्नड	आगन्तभूत, निकटस्थ भूतकाल
अव्यवाय	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	बाधा, विघ्न, रुकावट न होना अबाध
अव्यवहित भ्रातृ	सज्ञा	कन्नड	जिन भाइयों के बीच में अन्य कोई भाई रहने न हो
अव्यवहितउत्तरकालगता		कन्नड	आगन्त भविष्य, निकट भविष्य
अव्यसन	विशेषण	बंगला, हिंदी	1 वामना काम क्रोध या इन्द्रिय लिप्सा का अभाव,
अव्यसन		संस्कृत, कन्नड	जिसमें कोई बुरी आदत या लत न हो
अव्यसन		असमी, उड़िया	2 निर्दोष, अस्खलित 3 व्यसन का अभाव
अव्यस्त	विशेषण	मलयालम	+ 1 काम में लगा नहीं, खाली, फुर्सत में (हिंदी)
अव्यस्त		हिंदी, संस्कृत	2 दूसरा काम नहीं + 3 अलग नहीं मर्गटिन (मलया)
अव्याकुल	सज्ञा	कन्नड, संस्कृत	1 शान्तिहित, दृढ, मनुष्य, व्याकूलना हीन
अव्याकुल	विशेषण	बंगला, मलयालम	2 अनुत्तेजित, निश्चिन्त, शान्त, अचंचल, मर्गी
अव्याकृत	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1 जिसमें विकार न आया हो, अविकसित

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अधियाकिरुतम्	सज्ञा	तमिल	2 जो प्रकट या स्पष्ट रूप में न हो, अप्रकट, अस्पष्ट
अध्याकृत		गुजराती	3. जो कारण के रूप में न हो, अव्यक्त, अतर्क्य
अध्याकृत		मराठी	+ 4. वेदान्त में अप्रकट बीजरूप जगतकारण अज्ञान (मस)
अध्याकृतं	सज्ञा	मलयालम	+ 5 ब्रह्म, प्रधान, मायोपाधिक ईश्वर (मगठी)
अध्याकृतम्	सज्ञा	संस्कृत	6 वह मूल तत्व जिसमें सब उत्पन्न हुआ, प्रकृति (सारथ्य) + 7 सृष्टि प्रपञ्च का मूल, ब्रह्म (मलयालम)
अध्याकृत धर्म	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	वह स्वभाव जगमें शुभ अशुभ दोनों प्रकार के काम किये जा सकें (बौद्ध)
अध्याक्षेपं	अन्वय	मलयालम	दृढ़ता में, बिना घबराये हुए
अध्याख्येय	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1. जिसकी व्याख्या या स्पष्टीकरण न किया जा सकें
अध्याख्येय		गुजराती	2. ऐसी विलक्षण या असाधारण बात जिसकी व्याख्या
अध्याख्येय		मराठी, मलयालम	संभव न हो या मूल समझ में न आवे
अध्याघात	विशेषण	हिंदी	1. बेगोक टोक, जो टूटा फूटा या रुका न हो
अध्याघात	विशेषण	संस्कृत	2 व्याघात रहित। सज्ञा व्याघात का अभाव
अध्याज	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मलया	1 व्याज/बहाना या छल कपट बिना, मत्त
अध्याज	सज्ञा	मराठी, संस्कृत	2 अकपट, ईमानदार, अकृत्रिम, प्रामाणिक, सरल
अध्याज		बंगला	भोला भाला, निष्कपटी, मासूम
अध्याजं	सज्ञा	मलयालम	3 जो कार्य छलपूर्ण न हो, जो झूठा न हो
अध्याजमु		तेलुगु	छल कपट का अभाव, सरलता ईमानदारी (सज्ञा)
अध्याजं	अन्वय	मलयालम, संस्कृत	1 सरल मन से, सच्चाई के साथ
अध्याजे		बंगला	2 ईमानदारी से + 3 बिना बढ़ाने, शीघ्रता से (बंगला)
अध्याजकरण	सज्ञा	तेलुगु	बिना व्याज के, बिना सूद के
अध्याजकरुणै	सज्ञा	तमिल	अकारण अनुग्रह, रहमत (अध्याज करुणा)
अध्यापक	विशेषण	बंगला, मराठी, संस्कृत	1 अविस्तीर्ण, सीमाबद्ध, संकीर्ण, जो व्यापी न हो
अध्यापकमु		तेलुगु	2. जो सब जगह न पाया जाय + 3. व्यक्ति विशिष्ट (मराठी)
अध्यापकत्वमु	सज्ञा	तेलुगु	सीमाबद्धता, व्यापकता का अभाव
अध्यापन्न	विशेषण	हिंदी	जो मरा न हो- जीवित
अध्यापार	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1 काम धंधे या व्यवसाय-उद्योग का अभाव, खाली,

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अव्यापार	विशेषण	बंगला	वगजगार वक्राम अनभ्यास निक्कमा निठल्ला
अव्यापार	सज्ञा	गुजराती	2 अपन काम म न भान वाला अपन म सबध न
अव्यापार		मराठी	ग्वन वाला वा जा काम समझ म न आव
अव्यापार		कन्नड	3 आपस क सबध म न हाने वाला काम
अव्यापार		संस्कृत	4 अनुचितकाय अधिकार शुन्य काय पराधिकार
अव्यापारी	विशेषण	हिंदी	1 जा कौटे व्यापार या क्रय विक्रय न करना न
अव्यापारिन्		संस्कृत	2 स्वभावत अरुता य क्रियाशून्य आत्मा(माग्व्य)
अव्यापी	विशेषण	मराठी, हिंदी	1 जा हर जगह न पाया जाय, जा सबव्यापी न स
अव्यापि	विशेषण	तमिल	2 सीमित परिच्छिन्न 3 जा नामान्य न स विशेष
अव्याप्त	विशेषण	हिंदी, नेपाली, मराठी	1 जा व्याप्त या फला त जा नही विस्तृत नही
अव्याप्त	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	2 सीमा बद्ध मत्र व्याप्त नही परिच्छिन्न
अव्याप्ति	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 लक्ष्य का लक्षण पर घटित न होने का दोष (न्याय)
अव्याप्ति	सज्ञा	नेपाली, कन्नड, संस्कृत	2 व्याप्ति का अभाव अनुगी व्याप्ति या व्याख्या
अव्याप्ति	सज्ञा	मलयालम, बंगला	3 पूर्णता की कमी वह व्याप्ति जा मागे स्थिति पर लागू न हो + 4 एक वाक्य दोष (तमिल) दुगमता
अध्वियाप्ति	सज्ञा	तमिल	+ 5 वस्तु क किमी एक भाग का अधिकार (मनयालम)
अव्याप्य	विशेषण	संस्कृत, हिंदी	1 व्याप्ति रहित 2 जिसका कार्य क्षेत्र सीमित हो जा पूरे विस्तार पर न लागे न
अव्याप्य- वृत्ति	सज्ञा	मलयालम, कन्नड	वह वृत्ति जा दश फल प्राप्त की दंड म सीमित हो,
अव्याप्य- वृत्ति	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	व्यापक न न (जैसे मुख दु स दश सीति आदि)
अव्यावृत्त	विशेषण	मलयालम, बंगला	1 अधिकतम अत्र परिच्छिन्न 2 जिसका क्रम टूटा या रुका न न 3 जिसमें शब्द उलट कर या परिवर्तन न हुआ हो, ज्यों स ल्या
अव्यावृत्त	विशेषण	असमी, संस्कृत	
अव्याहृत	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 अवाध अव्यर्थ अर्थात्त, वगक टाक अर्थात्त
अव्याहृत	विशेषण	असमी, संस्कृत, बंगला	2 व्यापार रहित प्रमाण अर्थात्त, अट्ट पूरा, मच्चा
अव्याहृत	विशेषण	मलयालम	3 मतन, लगातार, बिना बाधा या रुकावट के (अव्यय)
अव्याहृति	सज्ञा	असमी, उड़िया, बंगला	मुक्ति, छूट, परित्राण निस्तार, निष्कृति, निर्विघ्नता
अव्याहृते	अव्यय	असमी	बिना रुकावट के मुक्त रूप में बिना चोट के

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अव्याहृत अव्याहृत	विशरण	बंगला, संस्कृत मलयालम	अर्थात्, अनुगत मान, अव्यक्त, अर्नाभव्यक्त अनकृती, न वालन हाण, अर्नाभव्यक्ति
अव्युत्पन्न अव्युत्पन्न अव्युत्पन्न	विशरण विशरण विशरण	हिंदी, गुजराती नेपाली, बंगला संस्कृत, मलयालम	1 अर्नाभज्ञ अर्नाटी अकशल अदक्ष, अनुभवहीन, याकरण ज्ञान शून्य व्यक्ति, शब्दाथे अर्नाभज्ञ 2 अक्ष जिनकी व्युत्पत्ति शास्त्रीय रूप में सिद्ध न की जा सके
अव्यूढ अव्यूढान्न	विशरण मज्ञा	बंगला बंगला, संस्कृत	1 अविवाहित, कृतारा 2 विवाहित आव्याहित अवस्था में लिया गया अतिम अन्न
अव्रण अव्रण अव्रण	विशरण मज्ञा विशरण	हिंदी मराठी, संस्कृत मलयालम	1 विना चोग याया हुआ, अक्षत 2 विना पाव जखम या फोड़े के निर्दोष 3 आव्रण का एक रूप (मज्ञा)
अव्रत अव्रत अव्रत अखिरतम्	विशरण	हिंदी बंगला मलयालम, संस्कृत तमिल	1 जो धार्मिक गति ग्रहण या अनुष्ठान न करता हो या पूरे न करे 2 शान्तिविहीन नियमों या कतव्यों का पालन न करने वाला व्रतहीन, व्रत त्याग, नियम विहीन (जन धर्म), अनुपनीत
अव्रती अव्रतिक	मज्ञा मज्ञा	बंगला कन्नड	जिसका यज्ञापूर्वीय न हुआ हो ऐसा ब्रह्मचारी जो धर्म धर्म का पालन न करे व्रत त्यागी
अवृत्यं अवृत्य	मज्ञा विशरण	मलयालम हिंदी, संस्कृत	1 अर्थात् कतव्य या प्रणय का पालन 2 जो व्रत के लिए उपयुक्त न हो 3 व्रत के समय मिथ्या बालन आदि अविहित कार्य
अशंक अशङ्क (कं) अशङ्को	विशरण मज्ञा मज्ञा	हिंदी, गुजराती बंगला, मलयालम तमिल	1 अक्षा रक्षण, निरमशय, निश्चिन्त, निरापद, निर्भय 2 अशका, निर्भयता, सुरक्षितता (मज्ञा) 3 जिसे किसी प्रकार का संदेह न हो
अशंकनीय	विशरण	हिंदी	जिसके विषय में किसी प्रकार का संदेह न किया जा सके
अशंकित अशङ्कित/अशङ्कितं असङ्को/अशङ्कैयन्	विशरण अव्यय	हिंदी, गुजराती, असमी बंगला, नेपाली, मलया तमिल	1 अशक, निरुद्ध, संदेहहीन, निडर, निरापद 2 जिसे कोई शका, संदेह न हो, संशयहीन, भयहीन 3 विना द्विचक्राकार के, विना डर के (अव्यय)
अशंक्य	विशरण	गुजराती	जिसके विषय में शका न हो, जो शका योग्य न हो

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अशंभु	सजा	हिंदी	अकल्याण, अशुभ, अशुभ, अशुभ
अशकुन	सजा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	1 युग समझा जान वाला आर्गमक लक्षण
असगुन		हिंदी, नेपाली	2 शकुन का अभाव, अशुभ या युग शकुन
असगन		पंजाबी	अशुभ लक्षण, अशुभ
अशक्त	विशेषण	हिंदी, नेपाली, गुजराती	1 शक्तिहीन क्षीण दुर्बल, निर्बल, कमजोर
अशक्त		मराठी, संस्कृत	2 असमर्थ, अक्षम, कम ताकत, ना ताकत अयोग्य
अशक्त		असमी, उड़िया, बंगला	नालायक अस, अयोग्य बलहीन
अशक्त		मलयालम, कन्नड	+ विकलांग, बीमार, गरी (तेलुगु)
असत्तन्		तमिल	3 जिसमें काम करने का हम न हो या हम कम हो
अशक्तम्/अशक्तुडु	सजा	तेलुगु	4 जिसमें ऊर्जा या शक्ति अथवा शक्ति की कमी हो
असक्त (कै)		कोंकणी	+ 5 शक्ति का बेकाम नाना (साम्ब्य) (हिंदी)
अशक्तता	सजा	हिंदी, नेपाली, असमी	1 अशक्त होने का भाव, कमजोरी शक्ति का
अशक्तता		मलयालम	अभाव, शक्तिहीनता, निर्बलता अक्षमता
अशक्ति		मलया, नेपाली, गुज, तेलुगु	2 अभावना, गैरगमना, अयोग्यता, असदता,
असत्ति		तमिल	असामर्थ्य, असमर्थता अयोग्यता, बल हीनता
अशक्तिमान	विशेषण	गुजराती, संस्कृत	शक्ति विना, असमर्थ, जिसमें बल न हो
अशक्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 जो न हो सके, असाध्य, असभव, सामर्थ्य में परे
अशक्य		अस, उड़ि, बंग, संस	अयोग्य, असभावित, नामाशक्ति (काम)
अशक्य		कन्नड, मलया, नेपाली	2 प्रयोग के अयोग्य, जो वश में न किया जा सके
अशकिक्यम् (यन्)	सजा	तमिल	वेक्याव् + 3 अजेय (तेलुगु) असाध्य (तेलुगु)
अशक्यम्	विशेषण	तेलुगु	+ 4 अक्षल, अक्षम व्यक्ति (तमिल)
अशक्युडु	सजा	तेलुगु	5 शक्ति के बाहर, ताकत के बाहर, अत्यवहारिक
अशक्यता	सजा	हिंदी, नेपाली	न कर सके का भाव या अवस्था, लाजारी
अशक्यं	सजा	मलयालम	आश्चर्य चकितता, हैरानी, अचम्भा (पुरातन प्रयोग)
अशग	विशेषण	गुजराती	1 शून्य, विना, नोक विना 2 अयाल बिना (जानवर)
अशशु	विशेषण	मलयालम, हिंदी	1 शत्रु रहित 2 जो शत्रु न हो, मित्र
अशशुरु		तमिल	3 जिसका शत्रुओं की ओर में विरोध न हो
अशशु		कन्नड, संस्कृत	4 चंद्रमा 5 शत्रु रहितता (सजा)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अशब्द	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 जा शब्दों में व्यक्त न हुआ हो, शब्द रहित, मूक
अशब्द		गुजराती	नि शब्द, नीरव 2 अपेक्षिक 3 वक्र, प्रधान (माख्य)
अशब्द		मराठी	शब्द सा अभाव (सज्ञा) 4 निद्रा (मराठी)
अशम	सज्ञा	हिंदी	1 मनावृत्ति का निगह न करना
अशम	विशेषण	मराठी	2 शान्ति सा अभाव, अशान्ति, अस्थिरता क्षम
अशम		बंगला	3 पत्रक फल, पत्रक बादल फल, लोच, चम्पक (सज्ञा)
अशरण	विशेषण	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	आश्रय या रक्षण रहित अमान्य निगधार
अशरण		तमि, नेपा, बंग, मलया	असुरक्षित अनाथ, निगधय वसणार व पनाथ
अशरणशरण	विशेषण	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	निगधार का आश्रय प्रभु भगवान
अशरणीया	सज्ञा	असमी	जिसमें मूक गाण्टक का पाथम में धर्म दीक्षा न ली हो
अशरणन्	सज्ञा	तमिल	वह पुरुष जिस सुरक्षा प्राप्त न हो
अशरणै	सज्ञा	तमिल	अशरणा वह स्त्री जिस सुरक्षा प्राप्त न हो
अशरीर	विशेषण	हिंदी, गुजराती, कन्नड	1 निरमल शरीर दूर आकार न हो असाक्षिय
अशरीर		मराठी, नेपा, संस, मलया	2 शून्य द्रव प्रेम सा द्यना परमात्मा, मन्यागी
अशरीरन्	सज्ञा	तमिल	1 दूर गन्त निगकार असाक्षय अलौकिक
अशरीरि	विशेषण	मलया, तेलुगु, कन्नड, तमि	2 ना शरीरधारी न हो जिसका रूप आकार
अशरीरिन्	सज्ञा	तमिल, संस्कृत	द्वित्रिणावर न हो यथा ब्रह्म, कामदेव दवना,
अशरीरी		हिंदी, गुज, मरा, नेपा	अलौकिक आत्मा देवी वाणी आकाश वाणी
अशरीरिणी	सज्ञा	गुजराती, बंगला	3 चित्त परमार्थि अथान् पूर्ण व्यक्ति
अशरीरवाक/अशरीर वाणि	सज्ञा	कन्नड	1 दैविक वाणी आकाश वाणी
अशरीरिवाक्	सज्ञा	मलयालम	2 असाक्षय व्यक्ति या वस्तु में आन वाली
अशरीरी वाणि		तेलुगु	आवाज अदृश्य वाणी
अशर्म	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 दूरी विकल अज्ञान, वेग्न 2 विना पर वार का (हिंदी)
अशर्मन्		संस्कृत	3 मुख या प्रमन्नता का अभाव, काष्ठ, दुख, शोक
अशर्म्य	सज्ञा	मलयालम	अशम, उदासी, अप्रमन्नता, दुर्भाग्य (सज्ञा)
अशलाग	सज्ञा	असमी	अकृतज्ञता कृतघ्नता, एहसान फगमौशी
अशलागी	विशेषण	असमी	अकृतज्ञ, उपकार न मानने वाला
अशस्त्र	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 शस्त्रहीन, नि शस्त्र, आयुधहीन, विना हथियार

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अशस्त्र		मलयालम, संस्कृत	2 जिसका शस्त्रों में गर्व न हो, जिसमें शस्त्रों का प्रयोग न हो
अशांत	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 शान्ति रहित, बेचैन, उद्विग्न, क्षुब्ध, उत्तेजित,
अशान्त		असमी, उड़िया, बंगला	अस्थिर, चंचल, अपरिचित, अधार्मिक, अमूर्खी
अशान्त		सिंधी, नेपाली, संस्कृत +	2 दुर्दान्त, जो प्रबोध न मानता हो (बंगला)
अशान्त		मलयालम, कन्नड	3 बेचैन व्यक्ति, अधीर, व्यग्र, अम्वस्थ
अशान्तनु	संज्ञा	तमिल	कोलाहल पूर्ण या क्षोभ युक्त वातावरण
अशान्तकर	विशेषण	गुजराती, नेपाली	अशान्ति उत्पन्न करने वाला
अशान्ति	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, मराठी	1 मानसिक अस्थिरता, असंतोष, अम्वस्थता,
अशान्ति		गुजराती	संदेह, क्षोभ, चिन्ता, आतुरता, बेचैनी
अशान्ति		असमी, उड़िया, बंगला	2 विद्रोह, नृक्रान्त, बगैडा, हलचल, गडबडी, उपद्रव,
अशान्ति		सिंधी	खलवनी, शान्ति का अभाव
अशान्तता	संज्ञा	गुजराती	अस्थिरता, चंचलता, शान्ति का अभाव
अशान्तिकारक	विशेषण	गुजराती	कष्टकर, चिन्ता या अशान्ति उत्पन्न कारक
अशान्तिमन	विशेषण	सिंधी	बे मना, बेजागर, उदास, अनमना
अशाम्य	विशेषण	हिंदी	1 जिसका शमन न किया जा सके, दबाया न
अशाम्य		संस्कृत	जा सके 2. प्यास जो बुझाई न जा सके
अशाम्य		मलयालम	3. लाइलाज, जो शान्त या मनुष्ट न किया जा सके
अशालीन	विशेषण	हिंदी, गुजराती	विनयहीन, दौट निर्लज्ज, उद्धत, अमध्य, धृष्ट
अशालीनता	संज्ञा	हिंदी	अशालीन होने की अवस्था, अशिष्टता, उद्दण्डता
अशाश्वत	विशेषण	गुजराती, मराठी	शाश्वत या स्थायी नहीं, अचिरस्थायी,
अशाश्वत		असमी, बंगला, संस्कृत	अचिरतन, अल्पकालिक, अनित्य, क्षणभंगुर,
अशाश्वतमु		तेलुगु	फ़ानी, अस्थायी, शीघ्र नाशकारी, नश्वर
अशाश्वतता	संज्ञा	गुजराती	शाश्वतता या नित्यता का अभाव, अचिरंतनता
अशासन	संज्ञा	हिंदी	1. शासन का अभाव, अराजकता, अव्यवस्था, निकृष्ट
अशासन		बंगला	शासन 2. शासन हीन, जो किसी के शासन में न हो
अशासनीय	विशेषण	बंगला	जिस पर शासन न किया जा सके, दुर्दमनीय
अशासित	विशेषण	बंगला	जिस पर शासन न किया गया हो, या शासन न हो

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अशास्त्र	विशरण	गुजराती, मराठी, बंगला	1 शास्त्र विरुद्ध शास्त्रानुकूल नये आश्रित
अशास्त्र		मलयालम, संस्कृत, कन्नड	2 नास्तिक दर्शन जिसमें शास्त्र नियम न हों लौकिक
अशास्त्रीय	विशरण	हिंदी, नेपाली, मराठी	1 शास्त्र विरुद्ध शास्त्र विरुद्धी आश्रित
अशास्त्रीय		गुजराती, संस, मलया, कन्नड	2 शास्त्र के अनुकूल नहीं जिसमें शास्त्र नियम न हों
अशास्त्रियम्		तमिल	+ 2 गेर मान्नी (बर्गी) गाई (गुजराती)
अशास्त्रियुचिं		तमिल	+ 3 अवज्ञानिक (मलयालम)
अशास्त्रीयम्		तेलुगु	4 ना ह्ये शास्त्र के अनुकूल नहीं आश्रितियुचिं हा
अशिक्षकन्	सज्ञा	मलयालम	ना शिक्षक न हो ना पढ़ाने हा व्ययगार
अशिक्षक		संस्कृत	न करता हा जिसमें शिक्षक है गण न हो
अशिक्षा	सज्ञा	उड़िया, बंगला	शिक्षा का अभाव शिक्षा अज्ञान
अशिक्षित	विशरण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 जिस शिक्षा न हो मरी या सिखाया न गया न
अशिक्षित		असमी, उड़िया, बंगला	2 अपर बन्धु मरु अन्धी मरु अज्ञात
अशिक्षित		कन्नड, संस्कृत	3 शिक्षा अभाव जिसमें शिक्षा अज्ञान
अशिक्षित		नेपाली, मलयालम	+ 3 ना सिखने ना सिखाने हा मरु मरु (पञ्जाबी)
असिक्ख		पंजाबी	+ 4 मरु सिखाने शिक्षण अज्ञान (मलयालम)
अशित	विशरण	हिंदी, संस्कृत	+ 1 चीण निवन इन्द्रा या पाला नही (गम)
अशित		मलयालम	2 (नाशयार) ना मरु मरु मरु मरु न हो
अशियिल	विशरण	बंगला, कन्नड	अनात्म दीना नही दुद धान्द
अशिर	सज्ञा	कन्नड, बंगला, असमी, हिं.	1 अग्नि मुख वायु वज्र हीम मरु ग्रह (मज्ञा)
अशिरस्सु	विशरण	मलयालम	2 मन्त्र विहीन मरु वामर का इन्द्र, मरु वड या शरीर जिसमें मरु न हो
अशिरस्सु		संस्कृत	
अशिरस्नानं	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	मरु हा मरु मरु मरु शरीर का मन्त्र
अशिवं	सज्ञा	मलयालम	1 अकल्याणकर अमंगलकारी अशुभ, शिवहीन
अशिव	विशरण	हिंदी, गुजराती, मराठी	2 बदकिस्मत, उग, भयकर, दुर्दैव, पीडा, दुर्भाग्य
अशिव		नेपाली, कन्नड	3 अशिव उगवना अभागा, अमंगल
अशिव		बंगला, संस्कृत	3 अकल्याण बदकिस्मती अभाग्य, उपद्रव (मज्ञा)
अशिशिर	विशरण	मलयालम, संस्कृत	ठडा नही, गम

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अशिशिरकरन् अशिशिरकर	सज्ञा	मलयालम संस्कृत	मृग्य जिगकी किरण ठड पैदा करन वाली नही गर्म किरण वाला
अशिशु	विशेषण	हिंदी	1 जो शिशु नहीं 2 जिमके आगे शिशु या मतान न हो 3 शिशुत्व का अभाव, तारुण्य (सज्ञा)
अशिश्विका अशिश्वि	सज्ञा	मलया, हिंदी, संस्कृत तेलुगु, कन्नड	1 वाझ म्त्री, नि मतान म्त्री जिमके शिशु न हो 2 बिना बछडे की गाय
अशिष्ट अशिष्ट अशिष्ट अशिष्ट	विशेषण	हिंदी, मराठी असमी, उड़िया, बंगला नेपाली, मलयालम संस्कृत, गुजराती	1 शिष्ट नहीं अमभ्य, अविनीत, दुश्शील, अकुलीन, अमस्कारी, अभद्र, अमाधु, दुर्वृत्त, अधार्मिक, दुर्व्यवहार करने वाला, उजड्ड, बेहूदा ग्राम्य + 2 व्यभिचारी, नास्तिफ, अशान्त, अश्लील (बंगला)
अशिष्टता अशिष्टता	सज्ञा सज्ञा	हिंदी, नेपाली असमी, संस्कृत	1 अशिष्ट व्यवहार, शिष्ट न होने का भाव 2 अमाधुता, अभद्रता, अनग्रता, अमभ्यता, उजड्डपन
अशिष्टाचार अशिष्टाचरण	सज्ञा सज्ञा	उड़िया, बंगला बंगला	अभद्र व्यवहार, दुर्व्यवहार, बदतमीजी अशिष्ट आचरण, बदतहजीवी
अशिस्त	विशेषण	गुजराती	क्रम बिना, नियमबद्धता न होना, अनियमित
अशीत अशीत (ल)	विशेषण	हिंदी, गुजराती मलयालम, संस्कृत	जा ठडा न हो फलत गर्म शीतल नहीं, उष्ण
अशीतकर	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	मृग्य जिगकी किरण ठडी नहीं
अशीतलम्	सज्ञा	तमिल	रूप
अशीतिद्वय	सज्ञा	कन्नड	यजुर्वेद के दोनो भाग
अशीर	विशेषण	मराठी	प्राकृतित, सकुचित किया गया
अशीर्य	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	अक्षय, अविनाशी, जिसका विनाश न हो
अशीर्षक अशीर्षक	विशेषण	मलयालम संस्कृत	1 मस्तक हीन 2 बिना शीर्षक का लेख 3 धड, कबध + 4 बिना नेता या कप्तान के (मलया)
अशील अशील	विशेषण	मलया, बंगला, कन्नड संस्कृत, गुजराती, मराठी	दु शील, दुश्चरित्र, चरित्रहीन, बदचलन दुगचारी, अभद्रा शील रहित, अमभ्य, दुर्वृत्त
अशुक्ल	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	सफेद नहीं- अश्वेत, श्याम या कृष्ण

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अशुचि	विशेषण	हिंदी, मराठी, मलया	1 अस्वच्छ, अशुद्ध, अपवित्र, मलिन, गदा, मैला, नापाक
अशुचि		गुजराती, संस्कृत, कन्न	+ 2 सूतकी, ऋतुमती स्त्री (गुजराती, बंगला)
अशुचि		नेपाली, असमी, बंगला	3 अपवित्रता, अपकर्ष, अस्वच्छता (सजा)
अशुचि		उड़िया, तेलुगु	4 मृतक पातक, अध पात
असुचि (असुच्य)		तमिल (पंजाबी)	+ 5 काला (मस्कृत, हिंदी) जूठा (पजाबी)
अशुचिता	सजा	असमी	अपवित्रता, अशुद्धि, मलिनता
अशुचित्व		कन्नड, असमी	शुचिता अर्थात् स्वच्छता न होना
अशुद्ध	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 जो शुद्ध न हो, पवित्रता का अभाव मलिनता,
अशुद्ध		असमी, उड़िया, बंगला	अपवित्र, अनिर्मल, अस्वच्छ 2 शास्त्र विरुद्ध
अशुद्ध		नेपाली, मलया, कन्नड	3 लिखने में भूल/दोष गलती/त्रुटि आदि होना
अशुद्धम्	सजा	तमिल	4 अपरिष्कृत, अमस्कृत, भ्रमयुक्त, जो मही न हो,
अशुद्धम्		तेलुगु	गलत + 5 अप्रामाणिक, मदोष (मलयालम)
अशुद्धन्	सजा	तमिल	अपवित्र शरीर या मन का व्यक्ति
अशुद्धता	सजा	हिंदी, गुज, मलया, तेलु	1 अपवित्रता, दोष, प्रदूषण, अस्वच्छता, गदगी
अशुद्धत्व/अशुद्धि		गुजराती	2 व्याकरण आदि की गलती
असुच्य		पंजाबी	3 अशुद्ध होने की अवस्था या भाव
अशुद्धतत्त्वम्	सजा	तमिल	अशुद्धत्व, अशुद्ध अत करण, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय,
अशुद्धतुबा		तमिल	तन्मात्रा, भूत आदि तत्व (शैव दर्शन) (अशुद्धध्वन)
अशुद्धप्रपञ्चम्	सजा	तमिल	अशुद्ध प्रपञ्च, अशुद्ध माया से उत्पन्न कला तत्त्व से
अशुद्धप्रपञ्च		संस्कृत	लेकर भू तत्त्व तक तीस तत्व
अशुद्धमायै	सजा	तमिल	उक्त प्रपञ्च का कारण माया
अशुद्धया	विशेषण	मराठी	सदा चूक करने वाला
अशुद्धावि	सजा	तमिल	अशुद्धात्मा, पिशाच, प्रेत भूत आदि
अशुद्धै	सजा	तमिल	अशुद्धा, व्यभिचारिणी स्त्री
अशुद्धि	सजा	हिंदी, नेपाली, मलया	1 अशुद्धता, अशुचिता, भ्रम, गलती, त्रुटि, भूल
अशुद्धि		असमी, बंगला, संस्कृत	2 अशोधित अवस्था, अशौच, अपवित्रता, मलिनता
अशुद्धि		गुजराती, सिंधी, कन्नड	3 स्वच्छ या साफ सुथरा न होना, गंदा, अपावन
अशुद्धि		तमिल	4 मल रहित नहीं अर्थात् गंदगी, खराब

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अशुद्धिपत्र	संज्ञा	बंगला	1. पुस्तक की अशुद्ध छापाई का भ्रमनिर्देश पत्र
अशुद्धि प्रदर्शक पत्र		बंगला	2. अशुद्धि प्रदर्शक पत्र, संशोधन पत्र, भूलसुधार पत्र
अशुभ	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. अमंगलकारी, दोषयुक्त, अकल्याणकर, वीभत्स,
अशुभ		असमी, उड़िया, बंगला	द्वेषी, मनहूस, अनिष्टसूचक, दुर्देव, अभागा
अशुभ		नेपाली, सिंधी, संत, मलया	2. अमंगल, नहूसत, दुर्भाग्य, पाप, सकट, अपराध (संज्ञा)
अशुबम्/असुबम्		तमिल	+ 3. गंदा, अपवित्र, विपत्ति, मुसीबत, अहित (तमिल)
अशुभं	संज्ञा	मलयालम	4. जो शुभ या प्रसन्नता देने वाला न हो फलतः बुरा
अशुभम्		तेलुगु	5. जो भला या हितकर न हो- अमांगलिक
अशुबकिरिहम्	संज्ञा	तमिल	अशुभ ग्रह, दुख दायी ग्रह (ज्योतिष)
अशुभ कार्य	संज्ञा	मराठी	हानि कारक या अकल्याणकारी काम
अशुबकिरिये	संज्ञा	तमिल	अशुभक्रिया, अशुभ गीति, प्रथा कार्य आदि यथा मृतक क्रिया आदि
अशुबबावने	संज्ञा	तमिल	अशुभ भावना (मस) अशुच अनित्य शरीर की बावन चिन्ता करना (बौद्ध)
अशुभचिह्न	संज्ञा	मराठी	अनिष्टकारी संकेत, अकल्याण कर चिन्ह
अशुभलक्षण	संज्ञा	मराठी	अमंगलकारी चिह्न, नुकसान देह इशाग
अशुरनि	विशेषण	असमी	बदसूरत स्त्री
अशुष्क	विशेषण	असमी	सूखा नहीं, गीला, तीता, आर्द्र
अशुभाप्तिविश्वास	संज्ञा	मलयालम	निराशावाद, विषाद वाद
अशुश्रूषा	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	अभिभावक की आज्ञा में न रहने का अपराध
अशून्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. खाली या रीता नहीं, पूर्ण, परिपूर्ण (पात्र या स्थान)
अशून्य		मलयालम, संस्कृत	2. पूरा किया हुआ, सफल किया हुआ, अव्यर्थ
अशूर	विशेषण	गुजराती	कायर, नामर्द, शूरवीर नहीं
अशृत	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	बिना पकाया हुआ, कच्चा, अनपका, अपक्व
अशेष	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. बाकी कुछ न बचा, पूर्ण, समूचा, समस्त, परिपूर्ण,
अशेष		असमी, उड़िया, बंगला	पूरमपूर, तमाम, सब का सब, ढेर, असीम,
अशेष		नेपाली, कन्नड, संत, मलया	मर्व, सब, अपार, अनन्त, शेषहीन, बहुविध
अशेषम्/अशेषं	अव्यय	तमिल, मलयालम	2. समाप्त, शेषाभाव, शेष न रहना, कुछ न बचना
अशेषम्		तेलुगु	3. पूर्णतया पूर्ण रूप से, समूचा ही (अव्यय)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अशेषज्ञ	विशेषण	बंगला	सब विषयों का ज्ञाता, पारदर्शी, बहुज्ञ
अशेषप्रकार	संज्ञा	बंगला	नानाविध, बहु प्रकार, सभी तरह
अशेषविध		बंगला	बहुत से ढंगों से
अशोक	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. शोक रहित, दुखशून्य, बे-गम, दुख रहित,
अशोक	संज्ञा	नेपाली, कन्नड, संस, मलया	शोक मुक्ति, जिसे या जिसमें शोक न हो
अशोक		असमी, उड़िया, बंगला	2. प्रसन्न, हर्षित, आनंदित, खुश
अशोकम्/अशोकं		तमिल, मलयालम	3. एक मौर्य सम्राट का नाम 4. एक वृक्ष का नाम, पाग
अशोकमु		तेलुगु	5. अशोक वृक्ष का फूल जो कामदेव के पाँच शरों
असोग/असोगी		पंजाबी	में से एक माना जाता है (संज्ञा)
अशोकन् (अशोकि)	संज्ञा	तमिल, कन्नड	जिसे शोक या दुःख नहीं
अशोका	संज्ञा	बंगला	शोक रहिता, जिसको कोई गम न हो
अशोक पूर्णिमा	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत, मलयालम	फाल्गुन मास की पूर्णमासी
अशोक पौर्णिमा		मराठी	होली का दिन, मौज मजे का दिन
अशोकवनम्	संज्ञा	तमिल	1. गवण का उद्यान जिसमें मीठा कंद थी
अशोकबाटिका (बनिका)		हिंदी, संस्कृत, मराठी	2. राजा की क्रीड़ा का बाग जहाँ अशोक के कई वृक्ष हों
अशोकबनिकान्याय	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. अनेक मार्ग होने पर भी किमी एक को
अशोकबनिकान्याय	संज्ञा	मराठी, संस्कृत, मलयालम	ही तरजीह देना, पसंद करना (लोक व्यवहार का न्याय)
अशोकबनिकानियायम्		तमिल	2. जिसका कारण न बताया जा सके वह न्याय
अशोक विनायक	संज्ञा	नेपाली	प्रसिद्ध चार गणेशों में एक, काठमाण्डौ टोल के गणेश
अशोकाष्टमी	संज्ञा	असमी, मराठी, हिंदी	चैत्र कृष्णाष्टमी, जब अशोक वृक्ष की तीन कलियों
अशोकाष्टमी		संस्कृत, तमिल	का रस पीने से शोक पास नहीं फटकता यह मान्यता है + चैत्र शुक्ल अष्टमी (हिंदी, मराठी)
अशोकि	संज्ञा	कन्नड	शोक रहित व्यक्ति
अशोचनीय	विशेषण	अस, बंग, मलया, संस, हिंदी	1. जिसके विषय में सोच या चिन्ता करना उचित
अशोच्य		हिंदी, अस, बंग, गुज, मलया	न हो, शोक के अयोग्य 2. जो सोचा न जा सके
असोच		पंजाबी	+ 3. शोच रहित, निश्चिन्त, बेफिक्र (पंजाबी)
अशोचित	विशेषण	बंगला	1. जिसके लिए शोक न किया गया हो 2. जो सोचा
अशोच	संज्ञा	हिंदी	न गया हो 3. शांति, नम्रता 4. चिन्ता का अभाव (संज्ञा)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
असोषा	विशेषण	पंजाबी	1 चिन्ता रहित, बेफिक्र, 2. अपवित्र, अशुद्ध
असोची	विशेषण	पंजाबी	बेपरवाह, मौजी, मदा प्रमन्न
अशोत्रीय	संज्ञा	असमी	वेदज्ञ ब्राह्मण नहीं, वेद पढ़ा हुआ ब्राह्मण नहीं
अशोधन	संज्ञा	बंगला	शुद्ध न करना, अमस्करण, अमार्जन, अपरिशोधन
अशोधनीय	विशेषण	बंगला	पवित्र करने के अयोग्य, अपरिशोध्य, असंस्कारी
अशोध्य		बंगला	जिसे संस्कारिन नहीं किया जा सकता
अशोधित	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, मराठी	1 जिसका शोधन या संस्कार न किया गया हो,
अशोधित		नेपाली, कन्नड	साफ न किया हुआ, अमार्जित, अपवित्रीकृत
अशोधित		असमी, बंगला	2. अशुद्ध वाक्य, शुद्ध न किया हुआ शब्द
अशोभन	विशेषण	हिंदी, नेपाली, मराठी	1 जो देखने में भला या मुन्दर न लगे. असुन्दर,
अशोभन		असमी, उड़िया, बंगला	कुरूप, अपवित्र, अमंगल, अशुभ, अपशकुनी,
अशोभनम्		संस्कृत	अमांगलिक, अभद्र, न फवने वाला
अशोभनं	संज्ञा	मलयालम	2 अनुचित, अनुपयुक्त +(संज्ञा)अपकार, अगघ (मरा)
अशोभनीय		हिंदी, नेपाली, संस	बदसूरत, बे-मेल, सुहाना नहीं, बे-ठीक, भद्दा
अशोभा	संज्ञा	असमी	1. असौन्दर्य, कान्तिहीनता, सजा हुआ नहीं
अशोभे		कन्नड	2. सीधा सादा, शोभा का अभाव 3. अलंकार आदि द्वारा
अशोभित	विशेषण	असमी, कन्नड	मुसज्जित नहीं 4. अपने स्वाभाविक रूप में रहना
अशोष्य	विशेषण	गुजराती, मलया, संस्कृत	जिसे सुखा न सकें या जो सूखा न हो
अशौच	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 अशुद्धि, मलिनता, भ्रष्टता, अपवित्रता, नापाकी,
अशौच		असमी, उड़िया, बंगला	मैलापन, गंदगी, अस्वच्छता, अमंगलपन
अशौच		नेपाली, कन्नड, संस्कृत	2. जन्म-मरण के कारण कुटुम्बियों को लगने वाला
अशौचं		मलयालम	सूतक /पातक, जिस अवस्था में शास्त्रीय कार्य नहीं
अशौचमु		तेलुगु	किया जा सकता +3 स्वामि भक्ति हीनता (मलयालम)
अशौचान्त	संज्ञा	बंगला	अशौच या सूतक-पातक की समाप्ति
अशौची	विशेषण	हिंदी	अपवित्र, अशुद्ध, नापाक
अशौचीया	विशेषण	असमी	जिसको अशौच लगा हुआ हो
अशौर्य	संज्ञा	गुजराती	कायरता, शौर्य का अभाव, वीरता का अभाव
अश्यान	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	जो सूख नहीं रहा

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अश्रद्धधान अश्रद्धधान	विशेषण	हिंदी, संस्कृत मलयालम	1 श्रद्धाहीन, विश्वास रहित, भक्ति रहित 2 लापरवाह, विश्वास के अयोग्य
अश्रद्ध अश्रद्ध अश्रद्धन्	विशेषण	बंगला, मलया, संस्कृत मराठी, हिंदी तमिल +	1 श्रद्धा हीन, विश्वासहीन, भक्ति हीन, नाट्ययहीन 2 आस्थाशून्य, उदासीन असावधान अविश्वासी 3 नीच व्यक्ति (तमिल)
अश्रद्धा अश्रद्धा अश्रद्धा अश्रद्धे असिरत्ते	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी नेपाली, असमी, बंगला मलया, तेलुगु, संस्कृत कन्नड तमिल	1 अनास्था अभक्ति, अविश्वास अगम्यान अनादर, असावधानी, लापरवाही, उदासीनता ध्यान की कमी, उपेक्षा, अयत्न, श्रद्धा का अभाव, अवहेना, निरम्कार अवज्ञा घृणा 2 किसी विशिष्ट के प्रति पूज्य भाव न होने की अवस्था
अश्रद्धेय अश्रद्धेय	विशेषण	हिंदी, असमी, संस्कृत बंगला, मराठी	1 जिसके प्रति श्रद्धा न हो, अनादरणीय 2 भरोसे का पात्र नहीं, भ्रष्ट के अयोग्य
अश्रद्धालु अश्रद्धित	सज्ञा विशेषण	गुजराती बंगला, असमी	श्रद्धा, विश्वास रहित व्यक्ति अनादर अवज्ञा जिस पर श्रद्धा न हो
अश्रम अश्रमं	सज्ञा अव्यय	बंगला, असमी मलयालम, संस्कृत	श्रम न करना श्रम का अभाव अनवगम निष्प्रयास अनायास बिना थके प्रयत्न
अश्रमण	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	क्षीणता विहीन जो थक नहीं
अश्रवण अश्रवणं	विशेषण सज्ञा	हिंदी मलयालम, संस्कृत	1 वहण कण हीन त्रिमूर्ति कान न हो, जो सुन नहीं 2 साप 3 वहणन
अश्रवणीय	विशेषण	गुजराती, मराठी, संस्कृत	सुनने के अयोग्य जिसे न सुन सक
अश्रान्त अश्रान्त (तं) अश्रान्तमु	विशेषण अव्यय	हिंदी, गुजराती, मराठी बंग, कन्न, मलया, संम तेलुगु	1 बिना थके, सतत, निरन्तर रीति से, अनवरत, अथक, लगातार श्रान्तिहीन, मदा, सर्वदा 2 थकान का अभाव (सज्ञा)
अश्राव्य अश्राव्य अश्राव्य अश्राव्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, बंगला, उड़िया संस्कृत, मलयालम + नेपाली, कन्नड	1 जो सुना न जाय, जिसे सुन न सकें, या जिस सुना न जाना चाहिए, श्रुति कट्ट 2 कृत्स्न, अश्लील, रूचि विरुद्ध, कट्टीर (असमी) 3 जो किसी को सुनाने योग्य न हो

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अश्री	मंज्ञा	मलयालम	1. श्री विहीन, ऐश्वर्यहीन
असिरि	संज्ञा	तमिल	2. दुर्भाग्य की देवी, श्री की बड़ी बहन
अश्रि		तमिल	+ 3. गंदा व्यक्ति (तमिल) 4. दुर्भाग्य, पाप
अश्रीक	विशेषण	हिंदी, मराठी	1. श्री रहित, ऐश्वर्य रहित, अमगलयुक्त, दुर्देवी,
अश्रीक		मलयालम	भाग्यहीन, समृद्धिहीन, अभागा, शोभा विहीन
अश्रीक/अश्रील		संस्कृत	2. विवर्ण, निस्तेज, मौन्दर्य विहीन, अनुज्ज्वल,
अश्रीर		मलयालम	चमक छैन +3. जिसके पास संपत्ति न हो (मराठी)
अश्रुत	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. जो सुना न गया हो, अज्ञात
अश्रुत		असमी, उड़िया, बंगला	2. श्रुति वेद विपरीत, जिसने वेदाध्ययन न किया हो,
अश्रुत		नेपाली, कन्नड	वेद के अमम्मत या अमान्य, अश्रुति गोचर
अश्रुत		संस्कृत, मलयालम	3. अशिक्षित, विद्याहीन, अवैदिक, ज्ञानशून्य, मूर्ख
अश्रुतपूर्व	संज्ञा	मराठी, गुजराती, हिंदी	1. जो पहले न सुना गया हो
अश्रुतपूर्व		नेपाली, बंगला, उड़िया	2. अद्भुत, विलक्षण, विचित्र, अभूत पूर्व
अश्रुतपूर्व (पूर्व)	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	3. जैसा पहले कभी कान में सुनाई न दिया हो
अश्रुति	संज्ञा	बंगला, हिंदी, मलयालम	1. न सुनने वाला, जिसकी श्रवणेन्द्रियों न हो
अश्रुति	विशेषण	हिंदी	2. विस्मृति, न सुनना, भूल जाना (संज्ञा)
अश्रुतिधर	विशेषण	हिंदी	1. वेद न जानने वाला 2. ध्यानपूर्वक न सुनने वाला 3. स्मरण न रखने वाला
अश्रेय	संज्ञा	हिंदी, मराठी	1. अकल्याण, दुःख, अधर्म, उपद्रव
अश्रेय	विशेषण	बंगला	2. हीनतर, निकम्मा, अभद्र, बुरा, उपयोगिताहीन,
अश्रेयस्	विशेषण	असमी, संस्कृत	घटिया, अनुत्कृष्ट, अनिष्टकर, अपकृष्टकर
अश्रेष्ठ	विशेषण	असमी	अभद्र, मंद, नीच
अश्रेयस्कर	विशेषण	बंगला	अप्रशस्त, अनुचित, अनुत्तम, अकल्याणजनक
अश्रोतव्य	विशेषण	बंगला	अश्राव्य, अश्लील
अश्रोत	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	अवैदिक, अवेदोक्त, वेद विरुद्ध
अस्त्राघ्य	विशेषण	हिंदी, गुज, नेपाली, असमी	1. अप्रशंसनीय, निन्द्य, स्तुति का पात्र नहीं
अस्त्राघनीय		संज्ञा, बंग, हिंदी, मरा	2. प्रशंसा या बखान के योग्य नहीं, दूषित, निन्दनीय

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अश्लिष्ट	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1 जिसके एक से अधिक अर्थ न निकलने हो
अश्लिष्ट		बंगला, संस्कृत	2 श्लेष रहित, असम्पत्तित, परम्पर अगच्छद, असम्पुक्त
अश्लील	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 अभद्र, कूर्वाचपूर्ण, लज्जा जनक श्लील गर्हन,
अश्लील		असमी, उड़िया, बंगला	काम विषयक, कृत्वाध्य, मृणात्मादक भाषा,
अश्लील		नेपाली, कन्नड, मलया	फूहड बोलचाल, अमभ्य भाषा गाम्भ्य, गदा, भद्रा
अश्लीलम् (लं)	मज्ञा	संस्कृत, मलयालम	+ 2 अप्रिय, कृन्तित, कुरूप, अमगल की व्यजना
अश्लीलमु		तेलुगु	करने वाले काव्य दोषों में से एक (तनुगु)
अश्लीलता	मज्ञा	हिंदी, गुजराती	1 अश्लील शब्द प्रयोग, भद्रावन, फूहडना
अश्लीलता		नेपाली, बंगला	2 लज्जा जनक, गाम्भ्य मृणाजनक, अभद्रता
अश्लीलता	मज्ञा	मलयालम	+ 3 अमगल जनक पद प्रयोग के कारण काव्य दोष (नग)
अश्लीलभाषी	विशेषण	बंगला	1 गदे, अमभ्य, गाली गलोज के मृणाजनक शब्द
अश्लील भाषिणी		बंगला	बोलने वाला 2 अश्लील शब्द व्यवहार करने वाली
अश्लेष	मज्ञा	मलयालम	असंगठन, विच्छद, अनैक्य
अश्लेष	विशेषण	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	श्लेष रहित, जिसमें दूसरा अर्थ न हो
अश्लेषा	मज्ञा	हिंदी, मलया, संस, नेपाली	1 नवा नक्षत्र, चंद्रमा से मानवा घर 2 अनमिल, अनैक्य
अश्वस्तन	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	केवल आज के दिन में सबंध रखने वाला
अश्वस्तनिक	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	जो आज सब खर्च कर दे कल के लिए न बचाव
असङ्कल्पमासम्	मज्ञा	तमिल, संस्कृत	जिसमें मृत्यु मास में दो बार चन्द्रमा उदय हो
असंकीर्ण	विशेषण	कन्नड, बंगला	1 जो मर्कीण नहीं, अम्बच्छ नहीं, अशुचि नहीं
असङ्कीर्ण		मलयालम	2 विम्बृत, उदार अर्माश्रित, शुद्ध 3 अद्विधाग्रस्त
असंकल्पितमु	विशेषण	तेलुगु	विना विचार, अप्रस्तावित, अनिच्छित, अनचाहा
असंकुचित	विशेषण	बंगला	अकृठित, अनग्र, वक्र या कुटिल न हो, अकुचित
असंकुल	विशेषण	बंगला, हिंदी	1 प्रशस्त, विगतीर्ण, अर्माश्रित +परस्पर अविच्छद (बग)
असङ्कुल		नेपाली, मलया, संस्कृत	2 जहा ज्यादा भीड़ न हो, खुला हुआ, चौड़ा
असंकुलन	सज्ञा	बंगला	पूरा न पडना, परिपूर्ण न होना
असङ्कोष	विशेषण	बंगला	1 संदेह न करना, संकोच न करना, द्विधाहीनता
असङ्कोष	विशेषण	असमी	2 निर्भय, विना लजाये, विना झिझके
असंक्रान्त	विशेषण	हिंदी, बंगला	1 जिसका मक्रमण न हुआ हो

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
असंक्रान्त मास	मज्ञा	बंगला, हिंदी, संस्कृत	2 जो एक क्षेत्र में दूसरे में न गया हो
असङ्क्रान्ति-मास	मज्ञा	नेपाली	3 मल मास, अधिक मास, पुरुषान्तम मास (मज्ञा)
असंख्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	अगणित अनगिनत, बहुत अधिक मख्या हीन,
असङ्ख्य		असमी, उड़िया, बंगला	बहुमात्र, बहुमात्र गणनाहीन, मख्याहीन,
असङ्ख्य		नेपा, मलया, कन्न, संस	असंख्येय, अमख्यात (अन्तर लय),
असंख		पंजाबी	जिसकी गिनती न हो सके,
असङ्कियम्	मज्ञा	तमिल	जो गिनना में बहुत अधिक हो
असङ्ख्यं	मज्ञा	मलयालम	जिस मख्या में 140 अन्य लय
असंख्यथा	अख्य	गुजराती	अमख्य गीत में, अमख्य विधि में
असङ्ख्यात	विशेषण	असमी, बंगला, नेपाली +	1 समय की बहुत लम्बी अवधि (मलयालम)
असङ्ख्यात		कन्नड, मराठी, संस्कृत	2 मख्या विहीन अनन्त मख्या वाला, मख्याहीन
असङ्ख्यात	मज्ञा	मलयालम	3 अगणित वे द्विमात्र २ शमार
असंगियादम्		तमिल	4 इतना अधिक जिस गिनना अगभव हो गणनाहीन
असंख्येय	विशेषण	हिंदी, मराठी, कन्नड	1 इतना अधिक कि जिसकी गिनती न हो सके
असङ्ख्येय		मलया, बंगला, संस, नेपाली	2 देख अमख्य (अनन्तमात्रवत्)
असंख्येयम्		तेलुगु	3 जो गिनना साध्य न हो, दूर मास, ज्यादा
असङ्कियेयम्		तमिल	+ 4 बहुत बड़ा मख्या, शिव विष्णु (मज्ञा) (हिंदी)
असङ्गै	मज्ञा	तमिल	असंख्या, अममान, अनादर गिनती में न लना
असंग	विशेषण	गुजराती, हिंदी, मराठी	1 मग साथ मानवत दुनियादारी मारागिक प्रयत्न/
असङ्ग	विशेषण	बंगला, मलयालम	अनुराग आदि में रहित नित्य
असङ्ग		नेपाली, संस्कृत	2 अनामकत, निर्लित, विरक्त एकाकी अकेला
असङ्गम् (गं)	मज्ञा	तमिल, मलयालम	3 माख्य दर्शन में पुरुष, आत्मा, जीव, माया रहित
असङ्गमम्	मज्ञा	तमिल	+ 4 मन्त्री के अयोग्य, निर्लेख, जिसके साथ न रहना
असङ्गमन्	मज्ञा	तमिल	चाहिए (मराठी) 5 अनामकित, निर्लनता (मज्ञा)
			+ 6 मृष्ट तथा अन्य गन्ने का परस्पर विपरीत वेना (तमिल)
असंगत	विशेषण	हिंदी, कन्नड, गुजराती	1 वेपेल, असवद्ध, अयुक्त, विषम, अमान, अत्रासंगिक
असङ्गत		नेपाली, उड़िया, बंगला	2 अमगादित, अनुचित, अयोग्य, भद्दा, झट्टा, अमन्य,
असङ्गत		मलया, संस्कृत, असमी	युक्ति विरुद्ध, परस्पर विरोधी, सयोगवर्जित

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
असङ्गदम्	मज्ञा	तमिल	+ 3 अनियमितता प्रगाद, अस्यच्छता (तमिल)
असंगतम्		तेलुगु	4 अशिष्ट, गवार, उजड़ड, अमम्बद्धता, बेमेलपन (संज्ञा)
असंगतक	मज्ञा	कन्नड	माथ न चलना, सलग्न नहीं
असंगति	मज्ञा	हिंदी, मराठी, तेलुगु	1 अमलग्नता, मर्मर्गाभाव, मेल न होना, जुडा न होना,
असंगति		गुजराती	मगत न होना, परस्पर विरोध, उचित साधन न होना,
असङ्गति		असमी, उड़िया, बंगला	अगभव, असभाव्यता, बेमिलसिलापन, अनुपयुक्तता,
असङ्गति		नेपाली, मलया, संस्कृत	अनौचित्य, अकारणता, वैराग्य
असङ्गति/असङ्गदि		तमिल	2 कारण कार्य के भिन्न स्थानों को वर्णन करने वाला असंगति अलंकार
असङ्गन्	मज्ञा	तमिल, मलयालम	1 पार्थक्य, अमामंजम्य, अनेक्य, दुनियादारी के
असङ्गम्	मज्ञा	नेपाली, संस्कृत	सवधो से मुक्त 2 भेद, पृथकता, विरह, विच्छेद
			+ 3 मूर्य के विरोधी ग्रहों का योग (ज्योतिष, तमिल)
असङ्गमं	मज्ञा	मलयालम	1 अलगाव, विरह, विच्छेद, पार्थक्य, अमामंजम्य
असङ्गम		बंगला, नेपाली, हिंदी	+ 2 नान्यय विहीन, रुकावट विहीन (मलयालम)
असङ्गम		संस्कृत, असमी	+ 3 अमिलन, अमैथुन (बंगला), मगति का अभाव
असंगरो	विशेषण	गुजराती	मोहबन बिना रहने वाला, अमामाजिक
असङ्गतियाडु-त्तल	सक्य क्रिया	तमिल	उपेक्षा करना, हसी उडाना
असङ्गिन्	विशेषण	संस्कृत	1 किसी से सग माथ या सबध न रखने वाला
असंगी		हिंदी, गुजराती	2 त्यागी, वेरागी, अनासक्त, संसार से विरक्त
असङ्गचारी	विशेषण	हिंदी, बंगला	3 अबाधित रूप से और अकेला विचरण करने वाला
असङ्ग्रह	मज्ञा	तमिल	अयाचना, संग्रह करके न रखना, अपरिग्रह
असंचय	विशेषण	हिंदी	जमा या इकट्ठा न करना, जिगके पाम
असञ्चय		नेपाली, संस्कृत	आवश्यक वस्तुएं न हो, सभार हीन
असञ्चयिन्	विशेषण	संस्कृत	1 उपयोगी वस्तुएं एकत्र या जमा न करने वाला
असंचयी		हिंदी	2 जा कुछ मिले सब खर्च कर देने वाला
असंचयिक		हिंदी	सचय न करने वाला, अपरिग्रही
असंचर	मज्ञा	हिंदी	1. गमनागमन के लिए खुला मार्ग न हो, यातायात
असञ्चर	मज्ञा	नेपाली	के लिए निषिद्ध मार्ग, अगम्य + 2. एकान्त (नेपाली)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
असंघसित	सज्ञा	कन्नड	अकल्पित, धरधरगना हुआ नहीं, स्थिर
असंघार	संज्ञा	असमी	संचार या संबध का अभाव, गति न होना
असञ्चित	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1 जो ढेर या एकत्रित न की गयी हो
असञ्चित		बंगला	2 जो पूर्ण तरह व्यवस्थित न हो
असञ्चितं	सज्ञा	मलयालम	वह मंदिर जिसमें खड़ी मूर्ति हो
असंजात	सज्ञा	असमी	अविश्वाम, विश्वाम का अभाव
असंजाती	विशेषण	असमी	विश्वाम के अयोग्य, अविश्वमर्न्य
असंछन्न	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	जो ढका न हो, अनावृत
असंज्ञ	विशेषण	हिंदी, बंगला	1 सज्ञा या घेतना रहित, ज्ञान शून्य, मूर्छित
असंज्ञ		संस्कृत	+ 2 जिसकी कोई सज्ञा या नाम न हो, बेनाम (संस्कृत)
असंज्ञा	सज्ञा	हिंदी	1 सज्ञा का अभाव, सामजस्य का अभाव
असंज्ञा	सज्ञा	संस्कृत	2 विरोध, झगडा, टटा
असंज्वर	विशेषण	हिंदी	संज्वर अर्थात् काट, द्वेष, गेग, क्राध, शोक
असंज्वर		संस्कृत	आदि से रहित
असंत	विशेषण	हिंदी, गुजराती	असाधु, अधर्मी, अपवित्र, खल, दृष्ट, अमञ्जन
असंतति	विशेषण	हिंदी	जिसके मतान, औलाद, बाल बच्चे न हो, लावलद
असंतान	विशेषण	बंगला, हिंदी	संतान हीन, बे औलाद
असंतुष्ट	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 अतृप्त, अप्रमन्न, जिसका समाधान न हुआ हो
असन्तुष्ट		कन्नड, बंगला, मलया	2 विरक्त, अप्रीत, अमन्तोषी
असन्तुष्ट		नेपाली, असमी, उड़िया	3 जिसे किसी कार्य, बात आदि में मनोष न हो
असंतुष्टि	सज्ञा	हिंदी, तेलुगु, कन्नड	1 सतुष्ट न होने का भाव, असनोष, अतृप्ति,
असन्तुष्टि		बंगला, असमी, मलयालम	अप्रमन्नता, नाराजगी, बेसब्री, लोभ
असन्तुष्टि		तमिल	2 जब कोई बात या काम इच्छानुकूल न हो और
असन्तुष्टि	सज्ञा	नेपाली, मराठी	व्यक्ति खिन्न या रुष्ट हो (डिस्सेटिस्फाइड)
असन्तुष्टि	सज्ञा	मलयालम, बंगला	तृप्ति का अभाव, सन्तुष्टि हीनता
असंतोष	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 अतृप्ति, अप्रसन्नता, बेसब्री, नाराजी
असन्तोष (षं)		कोंकणी, कन्नड, मलया	2 लोभ, अधिक प्राप्ति की इच्छा
असन्तोष (ष)		नेपाली, असमी, बंगला	3 मन न भरने के कारण खिन्न या रुष्ट रहना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
असन्तोषु		सिंधी	4 न अमाना आनन्द हीनता अशान्ति, विक्षोभ
असंतोषी	विशेषण	हिंदी, मराठी, नेपाली	1 जिसे रुभी मनाप न होना हो मदा अधिक
असंतोषिन्		संस्कृत	ही कामना रचना हो वेमत्र लोभी अतृप्त
असन्तोषिया		असमी	2 अममाधानी मन्वरी
असंदर्भमु	सज्ञा	तेलुगु	1 असवद्वता वगार विषय सर्गति से रहित
असन्दर्बम्/असन्दर्पम्		तमिल	2 जुडा हुआ नहीं अमगत मदभ रहित
असंदर्भ		कन्नड	असुविधाजनक मगल नहीं
असंदिग्धता	सज्ञा	बंगला	सदर शून्यता मशय हीनता अफानीनता
असंदिग्धं	अव्यय	मलयालम	विना मशय निर्दिष्टन रूप म
असंदिग्ध	विशेषण	हिंदी, गुज, मरा, नेपाली	1 सदर रहित निश्चित परम पामम सदर न हो सक
असन्दिग्ध		अस, उड़ि, बंग, मलया, संस	2 रगत, साफ स्वच्छ विरामत आशका न होना
असंध	विशेषण	हिंदी	1 तमम मधि या नाड न हो 2 ना मिना हुआ न हो
असन्ध	विशेषण	संस्कृत	3 जिसके एकडे न होना 4 अग्र दगाबाज
			+ 5 अपने वचन को पूरा न करने वाला शीखवाज (सम)
असंधना	क्रिया	हिंदी	मना जुडा या पृथक करना जुडा होना
असंधि	विशेषण	हिंदी	1 चाकरण म एम शब्द जिनम परस्पर मधि न हुई
असन्धि	विशेषण	संस्कृत	ही मधि रहित 2 अवद म्वतत्र जा मिल जुडे न हो
			3 सम्पक या मधि का अभाव (गजा)
असन्नद्ध	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, नेपाली	1 जा तथियाग से नम न हो 2 परिणतममन्य, ममडी
असन्नद्ध		मलयालम	3 तिमन कवच नहीं पहना, ना तैयार नहीं है
असंपर्क	सज्ञा	हिंदी	1 मवध या लगाव का न होना, मपक हीन, संबध हीन
असम्पर्क		बंगला, असमी	2 मपक हीनता मवधाभाव
असम्पर्कित		बंगला, असमी	जिमक साथ कोई सम्बन्ध न हो या न किया गया हो
असंपत्ति	विशेषण	हिंदी	1 श्रीमन्त नहीं, गरीब, भाग्यहीन, निर्धन
असम्पत्ति	सज्ञा	संस्कृत	2 दुर्भाग्य, अमफलता, अमपूर्णता, गरीबी
असंपन्न	विशेषण	मराठी, असमी	1 पूरा नहीं हुआ मिल्द नहीं हुआ 2 निर्धनता, दुर्भाग्य,
असम्पन्नता	सज्ञा	हिंदी, असमी	मपन्न न होना की अवस्था, भाग्यहीनता

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
असम्पुष्ट	विशोऽण	मलयालम, संस्कृत	पुष्टि प्राप्त नहीं, विकसित नहीं, अपुष्ट
असंपूर्ण	विशोऽण	हिंदी, असमी, कन्नड	1 जो पूरा या समाप्त नहीं हुआ, अग्रमय,
असम्पूर्ण		उड़िया, बंगला, संस्कृत	अधूरा, वृष्टियुक्त, अस्मात्, अपूर्ण
असंपूर्णमु		तेलुगु	2 समूचा नहीं, थोड़ा थोड़ा, कुछ कुछ
असंपूर्ति	संज्ञा	तेलुगु	असंपूर्णता, पूरा न होने का भाव
असम्पृक्त	विशोऽण	असमी, संस्कृत	1 जो किसी के साथ लगा मिला या मटा न हो
असंपृक्त	भूत हृदन्त	हिंदी, बंगला	2 अमिश्रित, जिसका किसी में मयक न हो,
असंप्रज्ञात	विशोऽण	हिंदी, गुजराती	जो अच्छी तरह जाना हुआ न हो, अज्ञात, अविचेष्टित,
असम्प्रज्ञात		मलया, नेपाली, संस्कृत	सम्यक् प्रकार से न जाना हुआ, निर्विकल्प
असम्प्रज्ञात समाधि		तमिल	1 वह समाधि जिसमें ज्ञाना, ज्ञेय, ज्ञान का भेद
असंप्रज्ञातसमाधि	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	नहीं रह जाता
असंप्रज्ञात योगं		मलयालम, संस्कृत	2 निर्विकल्प समाधि
असम्प्रेक्ष्य	संज्ञा	तमिल	असम्प्रेक्ष्य (संस्कृत), पहले न सोचना
असंप्रेक्षणं (ण)	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	अविचक्षणता, अविवेक, जन्मदात्री, अमावस्यानी
असंप्रेक्षकारि	संज्ञा	मलयालम	जन्मदात्र, उतावलापन, बिना सोचे करना
असम्प्रेक्षकारित्व	संज्ञा	तमिल	अविचेकत्व, मनकना का अभाव
असंबद्ध	विशोऽण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. जिसमें अच्छी तरह न बाधा हो, असंगत, अलग, दूर,
असम्बद्ध	विशोऽण	असमी, उड़िया, बंगला	बेलगाव, बेतुका, बेमेल, अन्वित, गलत, बेहूदा,
असम्बद्ध	विशोऽण	नेपाली, कन्नड, संस्कृत	विमगन, अर्थशून्य, संबधहीन, सम्पर्कहीन
असम्बद्ध	विशोऽण	मलयालम	2 प्रसूत विषय से संबंध नहीं, किसी तथ्य से संबंध नहीं
असंबन्धीय	विशोऽण	असमी	न जुड़ा हुआ, असंगत, संबध हीन
असम्बन्धीया	विशोऽण	असमी	तारतम्य न होना, मेल या जोड़ न होना
असंबंध	संज्ञा	हिंदी, कन्नड, मराठी	1. संबंध का अभाव, अलगाव, पृथकता, अलगपन
असम्बन्धं		मलयालम, संस्कृत	2. अर्थ हीन, आत्मीयता रहित, भद्दापन
असाक		पंजाबी	3. बिना सम्बन्ध के, संबंध रहित
असंबन्धम्		तमिल	4. बे मतलब, परस्पर कोई मेल या संबध न होना,
असम्बन्धमु		तेलुगु	असम्बद्ध, बेमेल, बेलगाव, असंगत, बेतुका, बेढगा

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
असंबंधातिशयोक्ति असंबंधातिशयोक्ति	संज्ञा	हिंदी, मलयालम संस्कृत	एक अलंकार जिसमें अप्रस्तुत को योग्य, समर्थ होने पर भी प्रस्तुत की अपेक्षा हीन दिखाते हैं
असंबाध असम्बाध असम्बादे	विशेषण संज्ञा	हिंदी, संस्कृत, गुजराती मलयालम, कन्नड तमिल	1. बंधन में नहीं 2. संकीर्ण न हो अतः चौड़ा या विस्तृत 3. कष्ट रहित 4. सुनमान, एकान्त 5. बिना बाधा, अबाध, उपद्रव रहित, भीडरहित
असम्भवपर	विशेषण	बंगला	अघटनीय, विस्मयकारी
असंभव असंभव असम्भवं असम्भव असंभवमु असंभय	विशेषण संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी नेपाली, कन्नड, संस, मलया मलयालम तमिल असमी, उड़िया, बंगला तेलुगु हिंदी, संस्कृत, मलया	1. ना मुगकिन, अशक्य, कभी न हो सकने वाला, घटित न हो सकने वाला, अर्नाग्नत्व, अमंगत, अमाधारण घटना, अघटनीय, विस्मयजनक, अलौकिक, अबोधगम्य, माध्यातीन, अकल्पनीय, लक्ष्य लक्षण की असम्भवदत्ता 2. जिस पर परिभाषा पूरी तरह लागू न हो 3. एक अर्थालंकार
असंभार असम्भार असम्भाल	संज्ञा विशेषण	हिंदी नेपाली उड़िया	1. जो संभाला न जा सके, भारी, विशाल, अपार, ढेर 2. ज्यादा आवश्यक वस्तुएं पाम न होना, बिना महारे का 3. न संभाल या समेट सकने वाला (नेपाली) 4. असयत, उद्विग्न, अस्तव्यस्त, बहुत बड़ा (उड़िया)
असंभविक असंभावी असंभावनीय असम्बाविदम् असम्भाव्यत्व	विशेषण विशेषण	बंगला, असमी, नेपाली + मराठी, हिंदी, गुजराती हिंदी, बंग, मलया, संस तमिल कन्नड	1. अमत्ता, शून्यता, मिथ्यात्व (तमिल) 2. अघटनीय, अकल्पनीय, असंभव 3. संकल्पित माध्य विहीन 4. जो घटित न हो सकता हो (इम्प्रोबेबल) 5. जो भविष्य में घटने या होने वाला न हो
असंभावना असंभावना	संज्ञा संज्ञा	गुजराती, नेपाली हिंदी, संस्कृत, मलया	1. हो सकने की आशा न होना, संभावना का अभाव 2. अशक्यता, अबद्ध बोध, अनहोनापन, अभवितव्यता
असंभावित असम्भावितम् असम्भावित (बिन्)	विशेषण	हिंदी, गुजराती, बंगला तमिल असमी, नेपाली, संस्कृत	1. जिसके घटित होने का अनुमान या कल्पना न हो 2. असंभव, अघटनीय, अतर्क्य, आकस्मिक, अशक्य पूर्वानुमान बिना
असंभाय	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. असंभव, अकल्प्य, अबोधगम्य, असाध्य, असमी,

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
असंभाष्य असंभाष्य		कन्नड, नेपाली, संस्कृत बंगला, मलयालम	वेहद 2 जिसके घटित होने की आशा या कल्पना न हो (इम्प्रोवेबल), नामुमकिन
असंभाष्य असम्भाष्य असम्भाष्य	विशेषण	हिंदी मलयालम संस्कृत	1 व्यक्ति जिसमें वान करना उचित न हो, तुच्छ, हीन 2 वचन जो कट्टे जान याच्य न हो, कृत्रिम 3 जो सम्भाषण में कथनीय न हो, वार्तालाप के अयोग्य
असम्भावितोपमै असंभावितोपमा	संज्ञा	तमिल संस्कृत	एसी उपमा जिसमें जो गुण वस्तु में न हो उसको तुलना में स्थापित करना (एक अलंकार)
असम्भिन्न असंभूति	विशेषण संज्ञा	मलयालम, संस्कृत हिंदी	अविभाजनीय, अभिन्न, अटूट संभूति या अस्मिन्त्व का अभाव, अस्मिन्त्व, अजात
असंभूत असंभूत	विशेषण	बंगला कन्नड	1 अविद्यमानता, अव्याकृत प्रकृति, पुनर्जन्म न होना 2 अनहोनी वान (इम्प्रोवेबल)
असम्भृत असंभृत	विशेषण विशेषण	बंगला, संस्कृत हिंदी	1 प्राकृतिक, अकृत्रिम, नैसर्गिक, वनावटी नहीं 2 जिसका पोषण सम्पन्नित गति में न हुआ हो
असम्भोग	विशेषण	बंगला, संस्कृत	1 अन उपभोग, उपयोग न करना 2 सम्भाग न करना
असंभोज्य असम्भोज्यन्	विशेषण	हिंदी, संस्कृत मलयालम	जिसके साथ बैठकर भोजन करना उचित नहीं या वर्जित हो
असंभ्रम असम्भ्रम असम्भ्रम	संज्ञा संज्ञा	गुजराती, हिंदी संस्कृत, असमी नेपाली, बंगला	1 सम्भ्रम का अभाव, अव्याकृतता, धीरता, शान्ति + 2 असम्मान, अनादर, अमर्वादा (असमी, बंगला) 3 शान्त, हडबड न करने वाला, चंचलता शून्य
असम्भ्रान्त असमसमन्	विशेषण संज्ञा	बंगला तमिल	1 सम्मान हीन 2 स्थिर 3 अव्यग्न श्रेष्ठतम के समान
असंयत असंयत असंयत	विशेषण	गुजराती, नेपाली, मराठी हिंदी, असमी, बंगला कन्नड, मलयालम, संस्कृत	1 नियम नियंत्रण नहीं, अनियमित, अनियंत्रित 2 अरुद्ध, उच्छृंखल, अबाधित, शासन न होना 3 बधन में मुक्त, समय रहित, मन-इंद्रिय वश में न होना
असंयम असंयम असंयमं असंयमी	संज्ञा विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली असमी, बंगला, संस्कृत मलयालम बंगला, असमी, संस्कृत	इंद्रियो या आवेगों को दबा कर न रखना या उन पर काबू न पाना, अजितेन्द्रिय, यथेच्छाचार, स्वैच्छाचार, समयहीनता, विलासिता अजितेन्द्रिय, उच्छृंखल, जिसकी इन्द्रिया वश में न हो

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
असंयुक्त	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 असयोगी, असलग्न, अगिलित, विलग, पृथक
असंयुक्त		मराठी, बंगला, मलया	2 एकक, जुदा, सधिरहित, अस्मिलित, योग हीन,
असंयुत	विशेषण	मलयालम, हिंदी	अमिश्रित, अगम्वद्, जो जुडा न हो, न मिलाया हुआ
असंयुक्त मुद्रा	मज्ञा	मलयालम	नाच की एक मुद्रा
असंयोग	मज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 सयोग मेल योग सुयोग का अभाव फलत वियोग,
असंयोग		असमी, बंगला	क्याग विच्छेद, अस्म्पक
असंयोगं		मलयालम	2 जिसके साथ सपक निषिद्ध हो
असंयोगी	विशेषण	असमी	जो एक दूसरे से जुड़ न हो
असरन्ति	मज्ञा	उड़िया	अक्षय न समाप्त होने वाला
असरम्भं	मज्ञा	मलयालम	1 जिसका आरंभ न हो, अनुपरिस्थिति 2 क्रोध, क्षोभ
असंरोध	मज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 अक्षति, क्षति का अभाव
असंरोधं		मलयालम	2 उपद्रव हीनता, चोट न पहुँचना
असंलक्ष्य	विशेषण	नेपाली, हिंदी	1 जिसको लक्ष्य न किया हो, जो अनुभव गम्य नहीं
असंलक्ष्य		मलयालम, संस्कृत	2 जो लक्षित न हो सके
असंलग्न	विशेषण	असमी, उड़िया, बंगला	1 अयुक्त, विच्छिन्न, पृथक, अलग्न, टूटा हुआ
असंलग्न	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	2 पूर्वा पर विरुद्ध, विच्छृंखल, प्रसंग से बाहर
असंवरणीय	विशेषण	बंगला	अनिवार्य, अवारणीय, गुप्त या छिपा ढका नहीं
असंवृत	विशेषण	हिंदी, नेपाली, मलयालम	1 न ढका हुआ, अनावृत, खुला हुआ, नग्न
असंवृत		बंगला, संस्कृत	+ 2 मत्प्रसंगित, जिसके कपड़े ढीले हो गये हो (बग)
असंब्यबहार्य	विशेषण	मलयालम	1 जो शब्दों में न कहा जा सके
			2 पारम्परिक आदान प्रदान के अयोग्य
असंब्यबहित	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	अवकाश रहित, व्यवधान रहित
असंशय	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली, कन्न	निस्सन्देह, निश्चित, सदेह मुक्त, निःशक, शंका हीन.
असंशय		असमी, उड़िया, बंगला, संस	निश्चिन्त, अवश्य ही, जिसके मन में संशय न हो.
असंशयम् (यं)		तमिल, मलयालम	संशय का अभाव, जिसके विषय में संशय न हो (संज्ञा)
असंशयी	विशेषण	असमी, बंगला, गुजराती	जो संदेह न करता हो, निश्चिन्त, संदेहमुक्त
असंशये/असंशय	क्रियाविशेषण	असमी, हिंदी	निश्चिन्तता से, निःसंदेह, बेशक

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
असंशोधन	संज्ञा	बंगला	शुद्ध या शुद्धि न करना, न सुधारना
असंशोधित	विशेषण	बंगला	जिसका दोष दूर नहीं किया गया
असंश्रव	विशेषण	संस्कृत, हिंदी	1 जो गुनने में परं हो 2 जो गुनाई न दे
असंश्रव	विशेषण	मलयालम	+ 3 गुनने की मीमा में पर (मलयालम)
असंश्लिष्ट	विशेषण	बंगला, मलयालम	अमयुक्त, अमबद्ध, परस्पर विच्छिन्न, फूटा हुआ
असंश्लिष्ट	विशेषण	नेपाली, हिंदी	या वद्ध नहीं, अमगठित, घनिष्ट मयर्क न होना
असंसक्त	विशेषण	बंगला, मलयालम	विच्छिन्न, मयर्ग रहित, अयुक्त, असलग्न
असंसक्ति	संज्ञा	हिंदी, मलयालम, संस्कृत	अनयुक्त, विरक्ति, वामनाहीनता, निर्निजता,
असंसत्ति	विशेषण	तमिल	उदासीनता, आनन्दान की मानवी सीद्धि, स्वध का अभाव
असंसर्ग	संज्ञा	गुजराती	पारंगत का अभाव, मयर्क या मयाग का अभाव
असंसदीय	विशेषण	नेपाली	मयर्क की मयादा के विरुद्ध, जो समदीय न हो
असंसारी	विशेषण	हिंदी	1 मयर्क की बातों में अलग, विरक्त, दुनियादार नहीं
असंसारि (न्)	विशेषण	कन्नड, संस्कृत	2 जो इस मयर्क में न होना हो, अलीकिक, स्वर्गीय
असंसृति	संज्ञा	मलया, हिंदी, संस्कृत	पुनर्जन्म न होना, मोक्ष
असंसृष्ट	विशेषण	बंगला, हिंदी	1 मयर्क विहीन अमिलित, अमिश्रित, अमपृक्त,
असंसृष्ट	विशेषण	मराठी, संस्कृत	माथ न रहने वाला, शामिलान में न रहने वाला
असंसृष्ट	विशेषण	मलयालम	+ 2 मृथक, उन्नत न किया हुआ, अमबद्ध (मराठी)
असंसृष्टि	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1 अमिश्रण 2 कृद्व का वह व्यक्ति जो सम्पत्ति के वटवारे के बाद अलग रहता हो
असंस्कार	संज्ञा	कन्नड	संस्कार हीनता, अपरिमाजितता
असंस्कारिता	संज्ञा	गुजराती	असंस्कारीपन, संस्कार हीनता, शुभगुण हीनता
असंस्कारी	विशेषण	गुजराती	संस्कार बिना, शोधन बिना, अपवित्र, अमाजित
असंस्कृत	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 जिसका सुधार न हुआ हो, अपरिमाजित, अशोधित,
असंस्कृत	विशेषण	असमी, बंगला, नेपाली	अपयुक्त, अपवित्रीकृत, संस्कारहीन, असंभ्य, अशिष्ट
असंस्कृत	विशेषण	मलयालम	2 जिसका यज्ञोपवीत या मूडन संस्कार न हुआ हो
असंस्कृतन्	संज्ञा	मलयालम	+ 3 निर्वस्त्र; जिस पर पालिश न हो (असमी), कच्चा
असंस्कृत	विशेषण	संस्कृत	+ 4 अपकृष्ट संस्कृत भाषा (बंगला)
असंस्कृता	संज्ञा	मलयालम	5 स्त्री जिसने या जिससे गंधर्व विवाह किया हो

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
असंस्कृत असंस्कृतज्ञ	विशेषण	कन्नड गुजराती	6. व्याकरण नियम विरुद्ध शब्द, अपशब्द, अविन्यस्त जिमे संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं
असंस्तुत असंस्तुत	विशेषण विशेषण	नेपाली, मलयालम हिंदी, संस्कृत	1 अज्ञान, अप्रसिद्ध, अप्रसिद्धित 2 असाधारण, विचित्र विलक्षण 3 सामान्य रहित, अप्रशसनीय, अनुत्कृष्ट
असंस्थान असंस्थान	मज्ञा	हिंदी, संस्कृत बंगला	1 संस्थान या अच्छी स्थिति न होना, संयोगाभाव 2 अव्यवस्था, गड़बड़ी, अव्यवस्थिति, अभाव, कमी 3 क्रम या मिलमिले का अभाव, प्रणाली रहित, न्यूनता
असंस्थित असंस्थिति असंस्थिति	विशेषण मज्ञा	मलया, हिंदी, संस्कृत हिंदी संस्कृत	1 निरन्तर गतिशील स्थिर नहीं मदा भूमने वाला 2 अव्यवस्थित, अक्रमित जा संस्थान में युक्त न हो 3 घूमककड़ एकरात्रित नहीं, फैला विरग अग्र
असंहत असंहत	विशेषण	हिंदी, नेपाली, संस्कृत बंगला, मलया, कन्नड	1 असंयुक्त, असंगत, असंगत एकरात्रित 2 मिल कर न रहने वाला 3 विरग हुआ 4 किसी प्रकार का संबंध या परिचय न रखने वाला
असंहतं (म्) असंहतब्यूह	मज्ञा मज्ञा	मलयालम, तमिल हिंदी, संस्कृत	पुरुष या आत्मा (साध्य दर्शन) फैली व्यह रचना, असंगत मना
असंहार्य असंहार्य	विशेषण	मलयालम संस्कृत	1 जिमका विरोध या अतिक्रमण न किया जा सके 2 जो दबाया न जा सके
असकृत असकृत	अव्यय अव्यय	बंगला, मलया, संस्कृत कन्नड, नेपाली, मराठी	1 एक बार नहीं, बार बार, अकसर, अनेक बार 2 पुन पुन, फिर फिर
असक्त असक्त असक्त	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली बंगला, कन्नड मलयालम, संस्कृत	1 अनासक्त, उदासीन, सामाजिक पदार्थ या फलाभिलाष में रहित, तात्पर्य विहीन 2 विषय विरागी, असलम, बे लगाव
असक्ति असक्त्य (विभ)	मज्ञा विशेषण	गुजराती, मलया, संस्कृत मलयालम, हिंदी, संस्कृत	विरक्ति, अनासक्ति, वैराग्य, तात्पर्य हीनता जिमके जघा न हो, बिना जाँघो बाला
असखा (बु) असखि	विशेषण मज्ञा	मलयालम मलयालम, संस्कृत	अविश्वामी मित्र, मित्र मिन्न शत्रु अविश्वामी मित्र (स्त्री लिंग)
असगुन असगन	मज्ञा मज्ञा	हिंदी, नेपाली पंजाबी	अपशकुन असंगल, खराब या बुरा समझा जाने वाला आरंभिक लक्षण

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
असगोत्र	विशेषण	नेपाली, बंगला, हिंदी	1 जिनका गोत्र एक न हो
असगोत्र	विशेषण	गुजराती, संस्कृत	2 भिन्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति
असगोत्री	विशेषण	गुजराती	भिन्न गोत्र या वंश का
असजात्य	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, बंगला	जिसके साथ रक्त संबंध न हो, अर्थात् भिन्न गोत्रीय
असचरित्र	संज्ञा	बंगला	दुष्टस्वभाव, दुर्वृत्त, अच्छे चरित्र का नहीं
असच्छल	विशेषण	बंगला	तगी या अभाव युक्त
असच्छास्त्र	विशेषण	हिंदी	अधर्म की ओर ले जाने वाला शास्त्र
असजिलो	विशेषण	नेपाली	न मिला हुआ, अनमिला
असजू	विशेषण	असमी	अशिष्ट जन, दुष्ट जन, नीच या बुरा आदमी
असज्जन	विशेषण	मलयालम	जो मज्जन या शिष्ट या भला आदमी नहीं,
असज्जन		गुजराती, बंगला, हिंदी, संस	दर्शन, किसी की भलाई न करने वाला
असज्जनता (पणुं)	संज्ञा	गुजराती	मज्जन या भला आदमी न होने का भाव
असत्	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 जिसका अस्तित्व या सत्ता न हो, अवास्तविक,
असत्		असमी, उड़िया, बंगला	काल्पनिक, अविद्यमान, निस्स्वरूप, शून्य
असत्		संस्कृत, कन्नड	2 जो मत्त न हो, झूठ, मिथ्या, खराब, खोटा, अयोग्य,
असत्		नेपाली, मलयालम	निरूपयोगी, नाशवान, अनुचित, अहित
असत्/असत्तु/असत्त		तेलुगु, तमिल, पंजाबी	3 निकृष्ट, अल्प गन्त, अधर्मी, दुष्ट, असाधु, अमज्जन, दोषी
असत्-अर्थ	संज्ञा	कन्नड	काव्य के अर्थ दोषों में से एक
असत् (असत्)	संज्ञा	तमिल	अस्तित्व हीन, जो दो वस्तुओं के बीच में स्थित होने का भ्रम मात्र हो, हेन्वाभास (न्याय)
असत्कियाति	संज्ञा	तमिल	1 अपदार्थ को पदार्थ मानने की भूल या भ्रम,
असत्ख्याति		संस्कृत, हिंदी	2 मिथ्या ज्ञान (दर्शन शास्त्र)
असत्-आख्याति	संज्ञा	कन्नड	उचित उपमा द्वारा व्यक्ति की दुष्टता का वर्णन
असतत	विशेषण	गुजराती	जो अखंड नहीं, चालू
असतत	अव्यय	गुजराती	रह रह कर, बीच बीच में क्रम भंग
असतर्क	विशेषण	बंगला	असावधान, अमनोयोगी
असतला	संज्ञा	बंगला	असाधुता (डिसआनेस्टी)
असति	संज्ञा	मलया, कन्नड, तमिल	1 जो पतिव्रता न हो, अपतिव्रता, असाध्वी

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
असती		संस्कृत, नेपाली, तेलुगु	2 कलटा जागिणी भण्ण, दुश्चरिण बवफा,
असती		हिंदी, गुजराती, मराठी	पुश्यनी वध्या भद्राहीन पत्नी व्यभिचारिणी
असती		असमी, उड़िया, बंगला	3 पाते म निष्ठा न रखन वाली स्त्री
असतिसुत	मज्ञा	कन्नड	अपतिव्रता स्त्री का पुत्र
असती	विशेषण	नेपाली	दूर दुराचारी भूत बड़मान
असत कथे	मज्ञा	कन्नड	बुरे या निम्न जाति की कथा
असत्कर्मा (कर्मन्)	विशेषण	बंगला, संस्कृत	निर्दिष्ट कर्म करने वाला दूतकर्म म मूलम
असत्कार	मज्ञा	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	अनादर भणमान आहन आभयन न करना
असत्कार्य	मज्ञा	हिंदी	बुरा कथा या बुरा काम
असकारियम्		तमिल	निश्चय मचन बादर मा अभाव
असत्क्रिया	मज्ञा	संस्कृत	असम्मानित भणमानित
असत्कृत	विशेषण	हिंदी, नेपाली	जिमके साथ दु वध्या किया गया ज अनदर
असत्कृत	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	बुरा या दूर कार्य असत्कार्य
असत्कृतं	मज्ञा	मलयालम, संस्कृत	दुष्टकार्य अनोच कथे
असत्कृत्य	विशेषण	हिंदी	1 बुरा काम करने वाला 2 अनोचित या बुरा काम
असत्ता	मज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 अमित्य या विशमानता न तना अमायता
असत्ता	मज्ञा	बंगला, संस्कृत, मलया	2 गाय भय, अमित्य नीन्ता मता विनीन्ता
असत्तु	मज्ञा	मलयालम, तमिल	+ 3 दुषित दूर बुरा (मलयालम)
असत्त्व	विशेषण	बंगला	अत्रर्हित निष्कृत्य
असत्पथ	मज्ञा	गुजराती, हिंदी, संस्कृत	1 कृमाग वृगमार्ग 2 खगव मडक
असत्पथ	मज्ञा	मराठी	3 दुराचार का मार्ग
असत्पथगामी	विशेषण	गुजराती, संस्कृत	कृमाग पर चलनेवाला दुराचारी दुराचरणी
असत्परिग्रह	मज्ञा	हिंदी, संस्कृत	अनुपयुक्त वस्तु या अनुपयुक्त व्यक्ति की वस्तु
असत्परिग्रह	मज्ञा	बंगला	गण्य करना (धर्म शास्त्र), कृमाग ग्रहण करना
असत्पात्तिरम्	मज्ञा	तमिल	प्राप्तन या दान पाने के अयोग्य व्यक्ति
असत्प्रतिज्ञ	विशेषण	मराठी	रचनभग करने वाला कह कर मुकर जाने वाला
असत्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 जो मत्य न हो या मत्य के अनुरूप न हो

	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
प	विशेषण	कन्नड, नेपाली, संस्कृत	2. झूठ, मिथ्या, अयथार्थ, धोखा, काल्पनिक, भ्रम, गलत
प	सज्ञा	असमी, उड़िया, बंगला	झूठापन, झूठाई, काल्पनिकता, खोटापन,
।		तमिल, पंजाबी	अवाग्नविक, असत्य होने की अवस्था या भाव,
पं	सज्ञा	मलयालम	मिथ्यात्व, मच्चाई न होना, अयथार्थता,
पमु		तेलुगु	अस्थापिता (सज्ञा), मिथ्या वादी
पकतनम्	सज्ञा	तमिल	असत्य कथनम् (सम्कृत), झूठ बोलना
पता	सज्ञा	हिंदी, नेपाली	असत्य होने की अवस्था या भाव, मिथ्यात्व
तेयम्	सज्ञा	तमिल	मच्चाई न होना, अयथार्थता
पवाद	सज्ञा	हिंदी	मिथ्याभाषण, झूठ बोलना
पलापं	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	डाटना, अश्लील या गदी भाषा का प्रयोग
पवादी	विशेषण	हिंदी, नेपाली, असमी	झूठ बोलने वाला, झूठा, मिथ्यावादी
पभाषी		मराठी, बंगला, गुजराती	असत्य भाषण करने वाला, असत्यवक्ता
पविन्/वादि		संस्कृत, मलयालम	सत्य बात न कहने वाला
पशील	विशेषण	हिंदी, मराठी	जो आदरण या भाषण आदि में झूठ बोलने की प्रवृत्ति वाला हो
पसंध	विशेषण	हिंदी, बंगला	सत्य का ध्यान न रखने वाला, प्रायः धोखा
पसंध		मराठी, संस्कृत	देने वाला, कपटी, छली, कपटाचारी, कृतघ्न
प	विशेषण	हिंदी	1 सत्य या सारहीन, गृणहीन, निःसत्य, सत्य गुणहीन
प	सज्ञा	गुजराती	2 जो सच्चा या वास्तविक न हो, फलतः दुष्ट
प		मलयालम	खराबपन, अनुवस्थान, असाधुता, असत्यता (सज्ञा)
प		बंगला	3 सना रहित, शक्तिहीन, चूस्ती रहित, कापुरुष
।		तमिल	+ 4 समृद्ध नहीं, माल बिना (गुजराती)
प		संस्कृत	+ 5 अप्राणी, अचेतन पदार्थ, निर्जीव (बंगला)
पवर्णनं	सज्ञा	मलयालम	वेदान्तज्ञान, मायाज्ञान, जगतभ्रम है-ब्रह्म नहीं यह वर्णन
पसंग	सज्ञा	बंगला, संस्कृत	असाधुसंग, सत्संग न करना, बुरी संगति
पतिरु	सज्ञा	तमिल	असाधु (संस्कृत) मांसाहारी, शूद्र, धर्महीन
पश	सज्ञा	गुजराती	अनिष्ट या खराब अंश

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
असवल	विशेषण	कन्नड	असाध्य, अशक्त, अव्यवहृत, अमदृश
असदृश	विशेषण	गुजराती, नेपाली, मलया	बराबरी का नहीं, अममान, भिन्न, बेमेल, पृथक,
असदृश		संस्कृत, कन्नड, हिंदी	विसदृश, विरुद्ध, अयोग्य, अनुचित, अनुपम
असदृश		असमी, उड़िया, बंगला	एक जैसा न होना, भिन्न प्रकार का
असदृशम्		तेलुगु	सादृश्य हीन, तुलना विहीन
असद्गति	सज्ञा	गुजराती	दुर्गति, अवगति, नरकगामिता
असर्कारियवादम्		तमिल	मृष्टि सिद्धान्त जिसके अनुसार उत्पत्ति से पहले प्रभाव नहीं होता असद्वाद (असन्कार्यवाद)
असद्ग्राह	सज्ञा	गुजराती	पूर्वाग्रह, ओम्नि या नृच्छ इच्छ, बुरा अभिप्राय या वृत्ति
असदागम	सज्ञा	हिंदी	1 अनुचित उपायो या माधनो से आने वाली आय
असदागम		संस्कृत	2 वेद, आगम, शास्त्र, नीति विरुद्ध उपलब्धि
असदाचरण	सज्ञा	गुजराती, बंगला, हिंदी	1 अभद्र व्यवहार, अन्याय, असर्वाग्रता
असदाचार	सज्ञा	असमी, बंगला, गुजराती	2 बुरे कार्य करना, दुर्गचार, धर्म विरुद्ध आचरण
असदाचारी	विशेषण	असमी, बंगला, गुजराती	3 बुरे कार्य करने वाला, दुर्गचारी, दुःशील, दुष्काम
असद्बुद्धि	सज्ञा	हिंदी	जिसकी बुद्धि सदा बुरी बातों से लगी रहे, मूर्ख
असद्भाव	सज्ञा	हिंदी, गुजराती	1 अस्तित्व या सत्ता का अभाव, अविद्यमानता
असद्भाव		नेपाली, बंगला	असत्ता, अर्धमान+ अनिन्यता का ज्ञान (मलया)
असद्भाव		असमी	2 अनर्चित या बुरी भावना या विचार, दुर्भावना,
असद्भावम्		संस्कृत	अप्रणय, मनोमालिन्य, दुर्गभिमाधि, अनादर
असद्भावं		मलयालम	3 अनर्चित या बुरा स्वभाव, दुष्ट मम्मति या स्वभाव
असत्तियोनिर्वाणदीप्तै	सज्ञा	तमिल	(असर्गनिर्वाण दीक्षा) मरने के बाद निर्वाण हागा ऐसी दीक्षा (शैव धर्म)
असद्वाद	सज्ञा	हिंदी	गंगा सिद्धान्त कि समार असत् या मिथ्या है
असद्विचार	सज्ञा	गुजराती	दुष्टता पूर्ण विचार, बुरे खयालगत
असद्बुद्धि	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1 नीच कर्म या पेशा, अभद्र उपाय या व्यवसाय
असद्बुद्धि		असमी, बंगला	2 गर्हित प्रवृत्ति, दुष्टता, दुर्गचार
असद्बुद्धि		मलयालम, संस्कृत	3 निम्न कौटि का स्वभाव, स्वभावतः बुरे कर्म करने वाला
असद्व्यवहार	सज्ञा	असमी, बंगला	असाध आचरण, दर्व्यवहार, असदाचरण

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
असद्व्यवहारी	विशेषण	असमी	अमदाचारी, दुष्ट, नीच कर्म गत
असन्नद्ध	विशेषण	नेपाली, मलयालम	1 युद्ध के लिए कमर कसे, हथियार लिए, कवच पहने
असन्नद्ध		संस्कृत	तैयार नहीं असुगर्जित, उद्यत या तैयार नहीं
असन्नद्ध	विशेषण	हिंदी	+ 2 रडितम्पन्य (हिंदी, मस्कृत)
असन्नद्ध		बंगला	+ 3 घमण्डी, निरम्भ, अहंकारी (नेपाली)
असन्नारी	विशेषण	गुजराती, संस्कृत	अच्छी स्त्री नहीं, खराब स्त्री, दुष्टगित्री
असन्निकृष्ट	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1 समीप नहीं, दूर+- अन सोचा, अर्कल्पित (मस्कृत)
असन्निकर्ष	सज्ञा	मलयालम	1 निकट नहीं, दूर होना (किमी वस्तु का)
असन्निकर्ष		संस्कृत, हिंदी	2 समझ के बाहर
असन्नियानं	सज्ञा	मलयालम	असामीप्य, अनुपस्थित
असन्नियान		संस्कृत, हिंदी	अभाव, दूर होने की स्थिति
असन्निति	सज्ञा	हिंदी	1 सन्नियध या समीपता का अभाव
असन्निति		संस्कृत	2 सग साथ या प्रसन्नता न होना
असन्निविष्टनु	सज्ञा	मलयालम	अविवाहित, क्वारा
असन्निवृत्ति	सज्ञा	संस्कृत	न लौटने की भावना या क्रिया
असन्न्यति	सज्ञा	मराठी	1 मिथ्या मानना, खोटाग्रह, असद्बुद्धि
असन्न्यति	विशेषण	असमी	2 अनिच्छा अमन, अस्वीकार, इन्कार
असन्नहित	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1 समीप या मयुक्त नहीं, दूरवर्ती, दूरस्थित
असन्नहित		बंगला, संस्कृत	2 ठीक क्रम या ढंग से रखा हुआ नहीं, अनुपस्थित
असपत्न	विशेषण	हिंदी, बंगला, मलया	1 सोत या सपत्नी न होना 2 शत्रु गदितता, निष्कटक
असपिंड	विशेषण	गुजराती, बंगला, असमी	1 सपिंड या पूर्वजों के संबध के अन्तर्गत न होना
असपिंड		हिंदी, मलया, संस्कृत	2 भिन्न वंश का, रक्त संबध नहीं
			+ 3. जो मात पशतो के अन्तर्गत न हो (बंगला, असमी)
असफल	सज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	विफल, ना कामयाब, मनचाहे परिणाम से वंचित,
असफलु		सिंधी	अपूर्ण मनोरथ, जिसका मनचाहा नहीं हुआ
असफलता	सज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	सफलता का अभाव, निष्फलता, विफलता
असभ्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 सभा में बैठने योग्य नहीं, अशिष्ट भभद्र,

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
असभ्य		नेपाली, कन्नड, सिंधी	अमाभाजिक, अपात्र, बदतमीज, बेतमीज,
असभ्य		असमी, उड़िया, बंगला	नाशाइस्ता, ग्राम्य, गवार, जगली, खल, नीच,
असभ्य		मलयालम, संस्कृत	अमान्य, निम्न श्रेणी का, उजड़, नालायक
असभ्य		पंजाबी	2 अश्लील, गैर मुहज्जब, सामाजिक व्यवस्था
असभ्यियम्		तमिल	में सिछडा हुआ, अविनयी, बर्बर, उदृण्ड
असभ्यु		तेलुगु	3. अश्लील भाषा बोलने वाला
असभ्यता	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	अशिष्टता, गवारपन, जगलीपन, अभद्रता,
असभ्यता		नेपाली, असमी, बंगला	अश्लीलता, सभ्य न होने का भाव,
असभ्यता		सिंधी, तेलुगु	बदतमीजी, बदतहजाबी
असभ्यता		पंजाबी	सभ्यता का अभाव, शिष्ट न होने का भाव
असभ्यपणुं		गुजराती	व्यवहार जो भले समाज या सभा के उपयुक्त न हो
असभ्यन्	सज्ञा	तमिल, मलयालम	अशिष्ट, दुष्ट, भालबाज व्यक्ति
असभ्यस	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 अशिष्ट, अव्यंग्य, अयोग्य, मूर्खतापूर्ण, अयुक्त
असभ्यस		नेपाली, असमी, बंगला	अनुचित, युक्तिविहीन नामनामिव, असम्बद्ध,
असभ्यस		कन्नड, मलया, संस्कृत	व्यमनलव, अयोग्य चाहियान
असभ्यसम्	सज्ञा	तमिल	2 द्विविधा, दुविधा कठिनाई, झटन स्थिति (सत्ता)
असभ्यसम्		तेलुगु	+ 3 अविच्छेदी, अविचारी, नाममझ, अमझ, अगमान (मराठी)
असभ्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 जस का तल सम न हो, ऊचा नीचा, उबड़ खाबड़,
असभ्य		असमी, उड़िया, बंगला	ना समचार, अगमान
असभ्य		नेपाली, कन्नड	2 जो किसी के तुल्य, अनुरूप या सदृश न हो, विषम
असभ्य		संस्कृत	वर्जोड, अतुल्य, अप्रतिम, अयुग्म, असदृश
असभ्य		मलयालम	3 त्रिम मख्या में दो का भाग न जाय, विषम मख्या
असभ्य		तेलुगु	4 एक अखलमत्र त्रिमो उपमान का मिलना असभव है
असभ्य	विशेषण	बंगला	अप्रत्यक्ष, परोक्ष, अगाचर
असभ्य	विशेषण	बंगला, मलया, संस्कृत	अपूर्ण, अगमस्त, अगम्यक, अगमपूर्ण,
असभ्य		तेलुगु	अधुग, विभाजित, आशिक
असभ्य	विशेषण	गुजराती, मराठी	1 अनगमझ, भ्रान्त धारणा, नाममझी, न समझने वाला,
असभ्युती (जूत)		गुजराती, मराठी	कठिनाई में समझने वाला, मूझ रहित, गैर समझ

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
असमजुत्या		मराठी	2 अनाड़ी, अवोध, मूर्ख, अज्ञानी
असमझ (णुं)		पंजाबी, मराठी(गुज)	+ 3 अन्वन्नाव (गुजगनी)
असमतल	विशेषण	बंगला	ऊबड़ खाबड़, बजर, बधुर, ऊयी नीयी
असमता	सज्ञा	हिंदी, बंगला, मलया	समता का अभाव, असादृश्य, अयुग्मत्व
असमद	विशेषण	मलयालम	कलह या विरोध न होना
असमदर्शी	विशेषण	बंगला	जो मव को समान रूप में न देखना हो, पक्षपाती
असमधु	विशेषण	असमी	सवध का अभाव, अगम्यक
असम्बन्ध		असमी, हिंदी	आपस में सवध न होना, सवध हीनता
असमन	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 विभिन्न रंगों या मता वाला 2 विभिन्न मार्गों पर जाने वाला, असम, विषम
असमनयन (नेत्र)	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, मलया	विषम सख्यक नेत्र वाल, त्रिनेत्र
असम नेत्रु	सज्ञा	तेलुगु	शिव महादेव की स्थापना
असमबाणन्	सज्ञा	मलयालम	कामदेव, पंचबाण धारी, असम सख्या, अर्थात्
असमबाण (शरुडु)		हिंदी, संस्कृत(तेलुगु)	बाण की सख्या क बाण धरने वाला
असमय	सज्ञा	हिंदी, नेपाली	1 खराब या बुरा समय, दुर्दिन, अशुभसमय,
असमय		संस्कृत, कन्नड	अकाल, विपत्तिकाल, अन्वसर, लगी का समय
असमय		असमी, उड़िया, बंगला	2 अन्वयुक्त समय या स्थिति, कृत्वग्ग, कृवेला,
असमयम्		तमिल	प्रतिकूल समय, वेमाके
असमयं	क्रियाविशेषण	मलयालम	3 अप्यक्त समय में फलने या वाद का समय, देवत्र,
असमयमु		तेलुगु	अन्वयुक्त समय में, समय से पूर्व या पश्चात्
असमर्थ	सज्ञा	मलयालम	शब्द में वह शक्ति न होना जो ठीक या अभिप्रेत
असमर्थ-पद		हिंदी	अर्थ प्रकट कर सके
असमर्थ	विशेषण	मलयालम	1 कार्य करने के अयोग्य, सामर्थ्यहीन, निर्बल, अशक्त,
असमर्थ		हिंदी, गुजराती, मराठी	दुर्बल, कमजोर, नाकाबिल, अकाल, अक्षम, अदक्ष
असमर्थ		असमी, उड़िया, बंगला	+ 2 नामद, नालायक (मराठी)
असमर्थ		नेपाली, कन्नड, संस्कृत	3 अशक्ति शक्ति या योग्यता न रखने वाला
असमर्थुं		सिंधी	4 अभीष्ट अर्थ व्यक्त न कर सकने वाला शब्द
असमर्थमु		तेलुगु	5 योग्यता अथवा कार्य क्षमता विहीन
असमरथ		पंजाबी	6 निर्बलता, अपारगता, अयोग्यता, ना काबलियत

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
असमर्पुडु असमर्त्तन्	संज्ञा	तेलुगु तमिल	7. जिसमें किसी विशिष्ट कार्य को करने की योग्यता या सामर्थ्य न हो
असमर्बता असमर्बता असमरयता	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, बंगला संस्कृत, असमी पंजाबी	1. असमर्थ होने का भाव या अवस्था, निर्बलता, कमजोरी, अयोग्यता, असामर्थ्य 2. नाकाबलियत + 3. अपारगता (असमी)
असमर्थन असमर्थनीय असमर्थ-समास असमर्पित	संज्ञा विशेषण संज्ञा विशेषण	बंगला असमी, बंगला हिंदी, संस्कृत बंगला	अनुमोदन न करना, समर्थन या पोषण न करना समर्थन न करने योग्य, असह्यगति योग्य अव्यय दोष युक्त समास, अनियमित समास अप्रदत्त, अन्यस्त, अनर्पित
असमत्पोषन असमदाय	संज्ञा विशेषण	हिंदी, कन्नड, संस्कृत मराठी	विषम संख्या अर्थात् तीन नेत्र वाले शिष्य आवश्यक या नित्य कारण कार्य संबंध न होना
असमवायिकारण असमवायिकारण असमवायिकारण	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत गुजराती मलयालम	वैशेषिक सिद्धान्त के अनुसार कारण का कार्य से नित्य नहीं केवल आकस्मिक संबंध होना (ऐसा कारण केवल कर्म या गुण होता है द्रव्य नहीं)
असमवायि असमवायिन् असमवायी	विशेषण	मलयालम संस्कृत गुजराती, हिंदी, बंगला	1. नित्य नहीं, आकस्मिक या आनुषंगिक संबंध 2. सहज या अविच्छेद्य संबंध नहीं 3. जो समवायी न हो, नित्य संबंध से रहित
असमवृत्त	विशेषण	मलया, हिंदी, संस्कृत	वह वर्णवृत्त जिसके सब चरणों में समान वर्ण न हों
असमवेत असमवेत	विशेषण	गुजराती मलयालम	असंलग्न, संगटित नहीं, एकत्रित नहीं, असंबद्ध, अन्तर्निहित नहीं, समवाय संबंध में जुड़ा नहीं
असमशर (शायक) असमशरन् (शायकन्)	संज्ञा	हिंदी, कन्नड, संस्कृत मलयालम	पांच बाण वाला, कामदेव जिसके बाण सम-संख्या में नहीं हैं, ऐसा-कामदेव
असमसमन्	संज्ञा	तमिल	अतिश्रेष्ठ से तुलना करने योग्य व्यक्ति
असमस्त असमस्त असमस्त	विशेषण	हिंदी संस्कृत, कन्नड मलयालम	1. असम्पूर्ण, थोड़ा सा, अधूरा, आंशिक; असंक्षिप्त 2. जिस पद में समास न हो, पृथक, धिस्तृत, असम्बद्ध, समास रहित (शब्द, वाक्य या भाषा)
असमशीर्ष असमसत्त्व	विशेषण संज्ञा	बंगला बंगला	जिसकी ऊपरी सतह समान न हो 1. भिन्न जातीय 2. विरुद्ध प्रकृति विशिष्ट

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
असमसामयिक	विशेषण	बंगला	जो एक काल में उत्पन्न या वर्तमान न हो
असमसाहस	विशेषण	बंगला	अतुलनीय साहस, दुःसाहस, बेमिसाल हिम्मत
असमसाहसिक	विशेषण	बंगला	1. जिसके साहस की तुलना न हो सके 2. जो खतरनाक काम करने से न डरता हो
असमसाहसी	विशेषण	बंगला	अनुपम साहसी, बेमिसाल हिम्मती
असमाप्त	संज्ञा	कन्नड	त्रिनेत्र, शिव जिनके नेत्र सम संख्या में नहीं हैं
असमाप्तनु		मलयालम	एक पक्षी (कन्नड)
असमाख्यात	संज्ञा	कन्नड	जो प्रसिद्ध या यश प्राप्त न हो अथवा बदनाम हो
असमाप्ति	विशेषण	मलयालम	अनुल्य, बेजोड़, अनुपम
असमाप्तुं	विशेषण	गुजराती	जो समाप्ति नहीं, जिसका समाप्ति न हो, जो मूल मिल न सके
असमाधान	संज्ञा	गुजराती, मराठी	1. जिसकी शका, समाप्ति न हो, प्रश्नों के सतोषजनक
असमाधान		कन्नड	उत्तर न मिलें, सवाल का तसल्लीबख्श हल न हो
असमाधान		संस्कृत	2. अतृप्ति, अमृतुष्टि, नाखुशी, अमहमति, नागजी,
असमाधानं		मलयालम	शान्ति का अभाव, बेचैनी, बेमत्री, गडबडी
असमाधानमु		तेलुगु	+ 3. रोग, बीमारी, अस्वस्थता (मराठी)
असमाधानकारक	विशेषण	गुजराती	जो शका दूर न करे, समाधान न करे
असमाधेय	विशेषण	गुजराती, मलया, संस्कृत	जिसका उत्तर न हो, शका निवारण का उपाय न हो
असमान	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. जो किसी और जमा न हो, असदृश, भिन्न
असमान		असमी, उड़िया, बंगला	2. बराबर नहीं, विजानीय, असमृच्चय
असमान		नेपाली, पंजाबी, मलया	3. समतल या सपाट नहीं, ऊंचा नीचा, विषम,
असमान		कन्नड, संस्कृत	ऊबड खाबड, एक श्रेणी का नहीं
असमानम्	संज्ञा	तमिल	4. तुल्यता न होना, वे जोड़ होना, जिसकी किसी से
असमानमु		तेलुगु	समानता या बराबरी न हो सके
असमानगिरि	संज्ञा	कन्नड	1. चदोवा 2. मोर पखो से अलंकृत चवर आदि
असमानरूपक	संज्ञा	कन्नड	काव्य में एक प्रकार की उपमा
असमानता	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	समान न होने की अवस्था या भाव, असदृश्यता
असमापक	विशेषण	बंगला, मलयालम	असमाप्ति कारक, असम्पूर्ण कारक
असमापिका	विशेषण	बंगला	असम्पूर्ण कारिणी, असमाप्ति कारिणी

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
असमापित	विशेषण	बंगला	अनिष्ठादित, असपूर्ण, अधूरा
असमाप्त	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 जो पूरा न हुआ हो पूरा होना शेष हो
असमाप्त		मलयालम, संस्कृत	2 अगिद्ध, अवमानहीन, अधूरा, ना तमाम
असमाप्त		असमी, उड़िया, बंगला	3 जो अभी तक बचा हुआ है, अधूरा है
असमाप्त		नेपाली, कन्नड	4 जिसका अस्तित्व अभी शेष है
असमाप्तक्रिये	सज्ञा	कन्नड	क्रिया में लगा प्रत्यय, प्रत्यय
असमाप्ति	सज्ञा	हिंदी, बंगला	असपूर्णता भवमान हीनता, समाप्त न होने का भाव
असमावर्तक	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 विद्यार्थी जिसका समावर्तन सम्कार न हुआ हो
असमावृत्त	विशेषण	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	2 वेदाध्ययन पूरा न हुआ हो, ऐसा ब्राह्मण
असमावृत्तिक	सज्ञा	गुजराती, हिंदी	वह धार्मिक लाज जो गुरुगृह में अभी शिक्षा
असमावृत्तन्	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	समाप्त कर न लाया हो
असमास	विशेषण	कन्नड, संस्कृत	1 अमर्याद, अनिबध, विस्तृत, अगाणत, अमर्य्य
असमास	विशेषण	मराठी	2 जिसमें समास न हो ऐसा पद
असमास्त्र	सज्ञा	कन्नड	असम मख्या (पाच) अस्त्र वाला कामदेव
असमाहार	सज्ञा	हिंदी	अगयोग, पार्थक्य, किरी यस् की अप्राप्त
असमाहित	विशेषण	गुजराती	ध्यान रहित, ध्यान या विचार में डूबा हुआ नहीं
असमाहित		हिंदी	व्यग्र, एकाग्र चित्त नहीं चलन
असमीक्ष्य	अव्यय	मलयालम, संस्कृत	1 उचित आलोचना न होने, अस्मिणामदर्शी
असमीक्ष्यकारि	विशेषण	मलया, तेलुगु, कन्नड	2 बिना विचारे काम करने वाला, जल्दबाज
असमीक्ष्यकारी (कारिन्)		तेलुगु, (संस्कृत), बंगला	3. बिना समीक्षा किये काम करने वाला, अविचारी
असमीक्ष्यकारित्यम्		तेलुगु	बिना विचारे काम करना, अविगृह्यकारी
असमीचीन	विशेषण	मलयालम	अनुपयुक्त, अनुचित, गलत, अनुत्तम, असंगत, अयुक्ति युक्त
असमुन्नद्ध	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	गर्वयुक्त नहीं, तेजामजाज या घमंडी नहीं
असपेक्षण	सज्ञा	कन्नड	शिव, त्रिनेत्र
असम्मत	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 अस्वीकृत, नामज़र, अमान्य, विरोधी, प्रतिकूल, निश्चिद
असम्मत	विशेषण	असमी, उड़िया, बंगला	2. अप्रतिकर, अनादरणीय, जो बहुमान योग्य न हो, मृषित

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
असम्मत	विशेषण	नेपाली, कन्नड, संस्कृत	3 अनिच्छुक, मन न देना, मतभेद रखने वाला
असम्मत	विशेषण	मलयालम	+ 4 शास्त्र को निषिद्ध मानने वाला (मराठी)
असम्मतम्	संज्ञा	तमिल	5 असमर्थन, त्याज्य, अमान्य प्रस्ताव, असहमत, शत्रु
असम्पत्ति	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	1. अस्वीकार, अनिच्छा, अग्रहमति, अस्वीकृति, इन्कार
असम्पत्ति	संज्ञा	असमी, बंगला, नेपाली	2. अनंगीकार, अस्वी, नाचमंदगी, विरोधी मत या गय
असम्पत्ति	संज्ञा	तमिल, तेलुगु, मलया	3. विकर्षण, असम्मान, निगदर, सम्मति का अभाव
असम्मान	संज्ञा	उड़िया, बंगला, असमी	1. निगदर, वेङ्गजनी, अपमान, असभ्रम, अनादर
असम्मान	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत, नेपाली	2. अमर्यादा, सम्मान या आदर न होना
असम्मानित	विशेषण	बंगला, असमी	असमानित, अनादृत, ठुकराया हुआ, वेङ्गजत किया गया
असम्मित	विशेषण	हिंदी	1. जिसके सब अंग एक अन्वयान में न हों (अन गिम्मेट्रिकल)
असम्मित	विशेषण	मलयालम	2. अपरिगमित, असमी, विरन्त, वृत्त अधिक
असम्पोह	संज्ञा	गुजराती	1. सम्पोह या सभ्रम का अभाव, सत्य ज्ञान, यथार्थ ज्ञान
असम्पोह	संज्ञा	संस्कृत, बंगला	2. दृढता, श्रान्ति, चित्त की स्थिरता, अभ्रान्ति, श्रान्ता, उद्यम
असम्प्यक्	विशेषण	गुजराती, बंगला, मलया	1. असंपूर्ण, अनुगित, कृन्मित, अप्रचुर, गलत, अधुग
असम्प्यच्च	विशेषण	संस्कृत	+ 2. खराब, असुन्दर (बंगला), अशुद्ध, भूलभग, त्रुटियुक्त
असरल	विशेषण	बंगला	टेढ़ा, मेढ़ा, ठक, वाका
असवर्ण	विशेषण	मलयालम	1. भिन्न जाति या वर्ण का, ऊची जाति का नहीं
असवर्ण		हिंदी, गुजराती, संस्कृत	2. एक रंग, श्रेणी या रूप का नहीं 3 एक ही
असवर्ण		मराठी, नेपाली	प्रकार की उत्पत्ति का नहीं, भिन्न जातीय
असवर्ण		असमी, उड़िया, बंगला	+ 4. समान अक्षर का न होना (मलयालम)
असवर्ण-विवाह	संज्ञा	हिंदी, असमी	अन्नजातीय विवाह, गेरजाति विवाह,
असवर्ण-विवाह		बंगला	वर कन्या की जाति भिन्न होना (एक्सोगामी)
असह	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. असाहिष्णु, दुःसह, अधीर, बेसब्र, असहनशील,
असह		संस्कृत, पंजाबी	असह्य, बरदाश्त के बाहर, जो कुछ सहन न करे
असह		नेपाली, बंगला, मलया	+ 2. क्षमाशून्य (बंगला), शत्रु, दुश्मन (संज्ञा-हिंदी)
असहि	संज्ञा	पंजाबी	असाहिष्णुता, बेसब्री, अधीरता

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
असहकार	संज्ञा	गुजराती, हिंदी	असहयोग, साथ साथ काम न करना, एक दूसरे का हाथ न बँटाना, सहकार या संबंध न रखना
असहकारिता	संज्ञा	हिंदी	सहयोग न देने की अवस्था या भाव
असहकारिता		मराठी	मिलकर काम न करने की बुद्धि या प्रवृत्ति
असहकारी	विशेषण	गुजराती	असहयोगी व्यक्ति, सहयोगी नहीं, साथी नहीं
असहज	संज्ञा	असमी	अभ्यास का अभाव, अनभ्यास के कारण
असहिजु		सिंधी	भूला हुआ
असज (असजिआ)	संज्ञा	उड़िया	असुविधा, बासी
असहन	विशेषण	हिंदी, मराठी	1. बेमद्री, अधैर्य, अग्रन्तोष, सहन न करने वाला
असहन		असमी, बंगला, नेपाली	2. असहनीय, असह्य, नाकारबिले वर्दाशन
असहन		कन्नड, मलया, संस्कृत	3. ईर्ष्यालु, डाही, न टिकने वाला, अगृयापूर्ण
असहनं	संज्ञा	मलयालम	शत्रुता, वैर, असहनशीलता असहिष्णुता
असहनशील	संज्ञा	हिंदी	असहिष्णु, चिडचिडा, क्रोधी, सहन न करने वाला
असहनीय	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. जो कष्ट सह न जा सके या भोगना कठिन हो
असहनीय (असह्य)		नेपाली, संस्कृत, मलया	2. जो सह न जा सके या सहने लायक न हो
असहनीय (असह्य)		असमी, उड़िया, बंगला	3. जिसे सहना अपनी क्षमता या सामर्थ्य से बाहर हो
असहमान	विशेषण	संस्कृत, बंगला, मलया	1. क्षमता विहीन 2. सहन या क्षमा करने में असमर्थ
असहयोग		नेपाली, बंगला	1. औरों के साथ काम न करने का भाव
असहयोग	संज्ञा	हिंदी, उड़िया, असमी	2. सहयोग या सहायता का अभाव (नान को अपरेशन)
असहयोगु		सिंधी	3. किसी के साथ मिल कर काम न करने की वृत्ति
असहयोगवाद	संज्ञा	नेपाली	असहयोग द्वारा सरकार पर प्रभाव या दबाव
असहयोगवाद		हिंदी	डालने का सिद्धान्त
असहयोगवादी	विशेषण	नेपाली, हिंदी	असहयोग वाद के सिद्धान्त का अनुयायी
असहयोगी	विशेषण	असमी, बंगला	सहयोग या सहायता न करने वाला
असह्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. सहायक/संगी साथी/मित्र विहीन, निःसंग
असह्य		असमी, उड़िया, बंगला	2. निराश्रय, निस्सहाय, एकाकी, अकेला
असह्य		नेपाली, कन्नड, मलया	3. अनाथ, निराधार, दीन-हीन, विपन्न, निरुपाय

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
असहायम् असहायम्/युद्ध असहाइ		तमिल तेलुगु सिंधी	4. जिसका कोई मददगार न हो 5. मित्रहीन, बेमहारा, विवश (हेलालैम) 6. जिसे किसी से आश्रय मिलने की आशा न हो
असहायता	संज्ञा	तेलुगु, गुजराती	अकेलापन, एकान्त, संन्यासी जीवन
असहायशूरम् असहायशूरु	संज्ञा	तमिल तेलुगु	1. अकेला ही युद्ध जयी 2. बड़ा बहादुर योद्धा जो दूसरों की मदद बिना शत्रु में लड़े
असहित्य	विशेषण	नेपाली	असह्य, जो सहा न जाये
असहितु असहिंषु	सकर्मकक्रिया क्रिया	कन्नड तेलुगु	असहिष्णु होना, जिसके प्रति घृणा हो नापसंदगी होना, निराशा होना
असहिष्णु असहिष्णु असहिष्णु असहिष्णु	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, उड़िया, बंगला नेपाली, मलयालम, संस तेलुगु	1. न सह सकने वाला, अमृयापूर्ण, इंध्यालु, डाही 2. अनुदार, अधीर, अक्षम, क्षमाशील नहीं 3. सामाजिक व्यवहार में जो सहनशील नहीं 4. मन के विरुद्ध परिस्थिति में तत्काल क्रोधी, विरोधी
असहिष्णुता असहिष्णुत्व	संज्ञा	मलया, हिंदी, गुजराती मलयालम, संस्कृत	1. जलन, डाह, अधीरता, अक्षमा, अमृया 2. सहिष्णु न होने की अवस्था या भाव
असह्य असह्य असह्य असह्यम् (यं) असहियम्/असहयुद्ध असहि/असहयम्	विशेषण संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, उड़िया, बंगला नेपाली, कन्नड, मलया संस्कृत, मलयालम तमिल, तेलुगु पंजाबी, तेलुगु	1. न सहने योग्य, दुस्सह, जो सहा न जा सके 2. बहुत उग्र, विकट, कष्टकारक, बरदाश्त के बाहर 3. सहनशक्ति की मर्यादा से परे 4. निराशा (तमिल, तेलुगु), अपार कष्ट की स्थिति 5. घृणा में भरा, भिनौनापन (तेलुगु) 6. मेना का एक समूह (मलयालम)
असह्यत्व	संज्ञा	कन्नड	सहिष्णु न होना, सहने की शक्ति न रखना
असह्यता	संज्ञा	मलयालम	असहनशीलता, उपद्रव, तंग करना
असह्यभाव	संज्ञा	कन्नड	न सहने की अवस्था या स्थिति
असह्यवृत्ति	संज्ञा	कन्नड	असह्य व्यवहार, न सहने का स्वभाव
असह्योक्ति	संज्ञा	कन्नड	गंदे अश्लील शब्द
असांकेतिक असाकल्प	विशेषण संज्ञा	गुजराती कन्नड	जो संकेत नहीं करता, सांकेतिक नहीं अपूर्णता, अधूरापन, सकल या सारा नहीं

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
असाक्षात्	विशेषण	असमी, बंगला	आंखों के सामने नहीं, अप्रत्यक्ष, अगोचर,
असाक्षात्	सज्ञा	संस्कृत	परोक्ष, अनुपस्थिति, अविद्यमानता, दर्शनाभाव
असाक्षात्कार	विशेषण	बंगला	दर्शन न होना, परोक्ष ज्ञान
असाक्षिक	विशेषण	हिंदी, नेपाली, मराठी	1 चश्मदीद गवाह न हो, किसी ने आखों से न देखा हो,
असाक्षिक		मलयालम, संस्कृत	असत्यापित, अप्रमाणित, जिसका अधिष्ठता न हो
असाक्षिकमु		तेलुगु	2 बिना गवाह का, जिसकी तसदीक न हुई हो
असाक्षी	विशेषण	हिंदी	1 गवाह बनने के अयोग्य, जो प्रत्यक्षदर्शी न हो
असाक्षिन्		संस्कृत	2 जिसकी गवाही मान्य या वैध न हो (पागल, चोर, शराबी)
असाक्ष्य	सज्ञा	हिंदी	गवाही का अभाव, कोई गवाह न मिलना या न होना
असाख	विशेषण	पंजाबी	1 जिसका विश्वास नहीं, बेईमान, निकम्मा
असाख	विशेषण	गुजराती	2 जिसकी शाखा न हो 3 जिसकी प्रतिष्ठा न हो
असांगत्य	सज्ञा	मलयालम	असंगत होना, अप्रामाणिकता, अनुचित ढंग में
असाध	विशेषण	गुजराती	झूठा, असत्य, क्षण भंगुर, अयथाथ
असांच	विशेषण	हिंदी	जो सत्य न हो फलत मिथ्या
असाधकट	सज्ञा	गुजराती	सचाई का अभाव, अप्रामाणिकता
असाजन्त	विशेषण	बंगला	अशोभन (इन एंग्रेजिंग)
असाइ	विशेषण	बंगला	बोध हीन, अनुभूतिहीन, निशब्द, निस्पन्द
असाइ	अव्यय	बंगला	असाइ अवस्था में, अज्ञानावस्था में
असांद्र	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	विग्न, जो घना न हो
असांप्रत	विशेषण	गुजराती, हिंदी	सांप्रत या वर्तमान से संबन्ध नहीं, प्राचीन, अयोग्य,
असाम्प्रतं	अव्यय	मलयालम, संस्कृत	अप्रामाणिक, अप्रस्तुत, अनुचित, प्रस्तुत विषय में
असांप्रत	विशेषण	मराठी, संस्कृत	असंबन्ध, अयुक्त, कालान्तर का
असांप्रदायिक	विशेषण	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	किमी संप्रदाय से संबन्ध नहीं, परंपरा विरुद्ध,
असाम्प्रदायिक	विशेषण	बंगला, मलयालम, असमी	परंपरावादी नहीं, संप्रदाय निरपेक्ष, सर्वजनीय
असांसतु	विशेषण	गुजराती	धीरजहीन, घबगने वाला
असांसव	विशेषण	हिंदी	1 जो संसद या उसके सदस्यों की मर्चादा के
असांसद		नेपाली	अनुकूल न हो 2 जो संसद सदस्य नहीं

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
असात्म्य	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	अस्वास्थ्यकर आहार, अपथ्य, प्रकृति के प्रतिकूल
असात्स्य	सज्ञा	गुजराती	सतत या लगातार न होना, सातत्य का अभाव
असात्त्विक	विशेषण	बंगला, हिंदी, संस्कृत	सत्वशून्य, मन्व्यगुण शून्य, धर्म रहित
असादर	सज्ञा	असमी	आदर श्रद्धा या प्रेम का अभाव
असादृश्य	विशेषण	बंगला, कन्नड	मादृशता या समानता न होना, असम, अतुल्य,
असादृश्य		संस्कृत	बेमेल, अनैक्य, भिन्नता
असाध्य	विशेषण	बंगला, पंजाबी	1 अनिच्छा, शौक न होना 2. असाध्य, दुष्कर
असाध	विशेषण	हिंदी	कठिन 3 जिसके मीरोग होने की संभावना न हो
असाधन	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 साधन का अभाव 2 अनुचित या अनुपयुक्त साधन
असाधनीय	विशेषण	बंगला, मराठी	1 साधनीय 2 अचिकित्स्य 3 जिसका समाधान न हो सके
असाधनीय	विशेषण	संस्कृत	4 जो साध्य न हो, जिस पर वश न चले, असिद्ध
असाधारण	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपा +	1 नित्य परिचय से भिन्न, आम नहीं, असामान्य (मनया)
असाधारण		असमी, उड़िया, बंगला	2 विशिष्ट, विशेष, अनेखा, अपूर्व, विचित्र, विलक्षण,
असाधारण		मराठी, संस्कृत	दुर्लभ, दुर्ग्राय, खाम, अन्ध, गेर मामूली, अद्भुत.
असाधारण		कन्नड, मलया, कोंकणी	अजीबों गरीब, लोकोत्तर, अनौकिक
असाधारणु (णं)	सज्ञा	सिंधी, मलयालम	3 अतुल्य प्रान्त-शाली, विशेष मर्यात, अप्रतिम
असाधारणम्		तमिल	4 पक्ष विपक्ष, साध्य असाध्य दोनों में न रहने वाला
असाधारणमु		तेलुगु	दुष्ट हेतु 5 एक हेन्वाभाम (न्याय शास्त्र)
असाधारण उपमा	सज्ञा	कन्नड	एक अलंकार
असाधारणता	सज्ञा	गुजराती	साधारणता का अभाव, असामान्यता
असाधारण धर्म	सज्ञा	गुजराती	1 साधारण धर्म को छोड़ने पर वस्तु का शेष धर्म
असाधारण धर्म		हिंदी	2 वस्तु का मुख्य धर्म या विशेषता
असाधित	विशेषण	बंगला, हिंदी	1 असंपादित, अकृत, जिसकी साधना न की गई
असाधित		संस्कृत	हो 2 विना साधा हुआ (काम), असिद्ध
असाधु	विशेषण	हिंदी, नेपाली, मराठी	1 भला नहीं बुरा, दुष्ट, दुर्जन, खोटा, शठ, कपटी,
असाधु		गुजराती, संस्कृत, पंजाबी	दुर्वृत, असदाचारी, अशिष्ट, अभद्र, असंगत, अमत
असाधु		असमी, उड़िया, बंगला	2 अविनीत, अनुदार, अधर्मी, असच्चरित्र, निदित,
असाधु		मलयालम	वृग, अमस्कृत (शब्द), अपभ्रंश, अशुद्ध, ग्राम्य

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
असाधुवु		तेलुगु	3. अप्रिय, अश्लील, सज्जन व्यक्ति नहीं
असाधुता	मज्ञा	असमी, उड़िया, गुजराती	शठता, दुष्टता, क्रूरता, निर्दयता, कपटता
असाध्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1. दुष्कर कार्य, जो साधा न जा सके, मिद्ध न हो सके
असाध्य	विशेषण	असमी, बंगला, संस्कृत	2. जिसका समाधान न हो सके, जो साधना शक्ति
असाध्य	विशेषण	कन्नड, मलयालम, मराठी	या सामर्थ्य से परे हो, अप्राप्य, अशक्य, असंभव
असात्तियम्	मज्ञा	तमिल	3. कठिन, जो कावू या बश मे न किया जा सके,
असादृश्य	विशेषण	मलयालम	जो उपाय या प्रयास मे मिद्ध न हो साधनातीत
असाध	विशेषण	पंजाबी	4. अगिकित्य या ना इलाज रोग
असाध्यम्	विशेषण	तेलुगु	5. गयी जिसके स्वस्थ होने की सम्भावना न हो
असाद्धे	विशेषण	नेपाली	+ 6. ज्यादा देख (नेपाली) मरकार्मदीन शब्द (पंजाबी)
असाध्यता	मज्ञा	तेलुगु	असम्भवता, निरुपायता, अवशता, अमिद्ध
असात्तिरोगम्	मज्ञा	तमिल	ला इलाज रोग, तीन महारोगों मे से कोई एक
असाध्य साधन	मज्ञा	हिंदी, बंगला, नेपाली	दुष्कर कर्म समादन, असम्भव को सम्भव बनाना
असाधी	विशेषण	हिंदी, बंगला, गुजराती, संस	1. अपनिव्रता, असती, दुर्गचारिणी, कुलटा
असादृधि	विशेषण	मलयालम	2. अभद्र स्त्री, दुग्ग या व्यभिचारिणी
असान्निध्यं	मज्ञा	मलयालम, संस्कृत	अनुपस्थिति, मानिध्य का अभाव, समीप न होना
असान्मार्गिक	विशेषण	मलयालम	मदाचार के विरुद्ध होना, मन्मार्गी नहीं
असामंजस्य	मज्ञा	बंगला, असमी	असंगति, बेमेलपन अयोग्यता, मेल न होना
असामयिक	विशेषण	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	नियत या ठीक समय पर नहीं, वे मौसम,
असामयिक		असमी, बंगला, उड़िया	बेवक्त, बेमौके, अकालिक, असमय, कुसमय,
असामयिक		गुजराती	निर्णीत समय पर नहीं, कालानुपयुक्त
असामयिकता	मज्ञा	संस्कृत, मलयालम	सामयिकता का अभाव, वे अवसर का, बिना समय
असामर्थ्य	मज्ञा	मलयालम	1. अक्षमता, अशक्तता, अकुशलता
असामर्थ्य		गुजराती, हिंदी, संस्कृत	2. शब्दों में
असामर्थ्य		बंगला	अभिलषित भावाभिव्यक्ति की शक्ति न होना,
			सामर्थ्य या शक्ति का अभाव, निर्बलता
असामाजिक	विशेषण	उड़िया	1. समाज के नियम, रीति/प्रचलन के विरुद्ध
असामाजिक		बंगला	2. समाज को हानि पहुंचाने वाला, व्यक्तिनिष्ठ
असामाजिक		हिंदी	3. समाज में अजनबिन अथवा स्वयं से देखे न गये ऐसे

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
असामान्य	विशेषण	हिंदी, गुज, मलया, नेपाली	सामान्य म भिन्न, विशेष, जा ओग म न मिले
असामान्य		असमी, उड़िया, बंगला, संस	द्वय असाधारण (अनक्रमण)
असाम्य	मज्ञा	बंगला, हिंदी	समता या सादृश्य का अभाव, अन्तर, अन्तःकूलता
असार	विशेषण	हिंदी, मराठी, संस्कृत	1 निमम तन्व न ता सारहीन तन्वशून्य निम्सार
असार		नेपाली, गुजराती, पंजाबी	2 निर्यक्त तच्छ, अल्प मिथ्या, निरुपयोगी निकम्मा
असार		असमी, उड़िया, बंगला	3 शक्र, नीरम अपराध, अक्रमण्य, वदम, गरीत
असारं	मज्ञा	मलयालम	4 माधुनविहीन मून्हीन शक्तिहीन, निर्दल कमजोर
असारु		सिंधी	5 लाभगर्हित अनावश्यक अल्पकर्मिक शीघ्रनाशी
असार	विशेषण	कन्नड, मलयालम	+ 6 भूमि जिसका लगान पदाथ म दिया जाय (मलया)
असारम्		तमिल	+ 7 अन्तर कामना दीवार की चौड़ाई (मरा) एण्ड वृक्ष अमरु चदन (मलयालम) थोडा थाथा, शून्य खाली
असारता	मज्ञा	हिंदी, नेपाली	निम्सारता, निर्यक्ता तच्छता मिथ्यापन
असारता		असमी, संस्कृत	तन्वशून्यता सारहीनता
असारकथा	मज्ञा	असमी	व्यर्थ वानगीत सारहीन वाना
असारस्य	मज्ञा	गुजराती	सम्पना या मधुरता का अभाव
असार्यक	विशेषण	असमी	असफल, अर्थ निष्फल
असावध	विशेषण	गुजराती, मराठी	1 वयवर्ग गाभिल चौकन्ना या मनग नहीं
असावधान	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	2 समतक अमनोयोगी, चंचल, तापवार्ध
असावधान		नेपाली, असमी, बंगला	3 असुरक्षित अनवहित सावधान नहीं
असावधानता	मज्ञा	हिंदी, असमी, उड़िया	गफलत, वयवर्ग वपराही (इल एडवर्टन्स)
असावधानी	मज्ञा	हिंदी, नेपाली, गुजराती	प्रमाद, मनवाग या सावधानी का अभाव
असाष्टम	मज्ञा	उड़िया	अज्ञान, अचेतना, वेगबरी
असाहजिक	विशेषण	असमी	अनभ्यमित, अमग्न, असाधारण अनभ्यम्न
असाहसम्	मज्ञा	तमिल	+ 1 शिष्टता, भलमन्सी, सौम्यता (तमिल)
असाहस	मज्ञा	संस्कृत	2 वेग या अचण्डता का अभाव मशीनता
असाहसिक	विशेषण	असमी	साहस या हिम्मत बिना भयातुर
असाहस्य	विशेषण	गुजराती	असाहाय, निराधार
असित	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 श्वेत या सफेद नहीं काला या नीला रंग

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
असित	सज्ञा	असमी, कन्नड, बंगला	2 अंधेरा, धुंधला, श्याम वर्ण का
असित	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	3 दुष्ट, खराब, बुरा, टेढ़ा, कूटिल, वक्र
असितम्		तमिल	4 शनि, कृष्णपक्ष, कृष्णवर्ण, काला सांप (मज्ञा)
असित कंधर	सज्ञा	कन्नड	शिव
असित खग	सज्ञा	कन्नड	काला पक्षी
असितगिरि	सज्ञा	हिंदी, मलयालम, संस्कृत	1 नीलगिरि, नीलाचल पर्वत 2 अग्नि (मज्ञा)
असितग्रीव (त्रु)	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत, मलयालम	गोर, अग्नि, काली गर्दन वाला
असित रक्त	सज्ञा	कन्नड	अग्नि की एक जिह्वा का नाम
असित रसे	सज्ञा	कन्नड	असित रसा, काली मिट्टी
असितांग (त्रु)	विशेषण	हिंदी, मलयालम	काले अंगो वाला, शिव का एक रूप
असितापाङ्गि	विशेषण	मलयालम	काली आखो वाली स्त्री, श्याम नेत्री
असिता	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मलया	1 यमुना, अत पुर की अमित केशा दासी या स्त्री
असिता		संस्कृत	2 नील का पौधा, दक्षगन्धी, पजाब की एक नदी
असितै		तमिल	+ 3 शैवागम में एकपरा शक्ति का नाम (नगिल)
असितानन्	सज्ञा	कन्नड	लगूर, काले मुह का बदर
असिताम्बर	सज्ञा	कन्नड	कृष्ण का बड़ा भाई, बलराम
असिताम्बुज	सज्ञा	तमिल, संस्कृत, हिंदी, बंगला	नील कमल, नीलोत्पल
असिताशम	सज्ञा	कन्नड, संस्कृत	वेदर्यमणि, एक काला पत्थर, काला नीला पत्थर
असिताहि	सज्ञा	कन्नड	कृष्ण सर्प, कालिया नाग
असितोत्पल	सज्ञा	हिंदी, बंगला, संस्कृत	नील कमल
असितोपसं (ल)		मलयालम, हिंदी, संस	काला या नीला पत्थर, नील मणि
असिद्ध	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 गिद्ध या पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण, अधूरा, असंपादित,
असिद्ध		असमी, उड़िया	जिसका परिणाम न निकला हो, फल न मिला हो
असिद्ध		मराठी, मलयालम	2. अपक्व, कच्चा, असफल, निष्फल, विफल, व्यर्थ
असिद्ध		नेपाली	3 अप्रामाणिक, अप्रवीण, असम्पन्न 4. योगसिद्धि न मिली हो
असिद्ध		बंगला	5. शब्द जो किसी नियम द्वारा सिद्ध न हुआ हो
असिद्ध		संस्कृत	6 एक हेत्वाभास जिसमें हेतु स्वयं असिद्ध होता है
असिद्धं	सज्ञा	मलयालम	+ 7 युक्ति द्वारा असमर्थित, न्याय में असिद्ध (मलयालम)
असित्तम्		तमिल	+ 8 बिना उबला भोजन (असमी) अरिधित्त (बंगला)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
असिद्धि असिद्धि असिद्धि असिद्धि	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली असमी, बंगला, मलया संस्कृत तमिल	1 असफलता, विफलता, पक्ष का समर्थन न होना 2 प्रमाणित या साबित न होना, साधना की अपूर्णता 3 कच्चापन, मिद्धि का अभाव, असम्पन्नता 4 असिद्ध होने की अवस्था या भाव
असीम असीम असीम	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली असमी, उड़िया, बंगला मलयालम, संस्कृत	सीमा रहित, अतहीन, बेहद, अपार, अनंत, अपरिमित, अशेष, ढेर, ज्यादा, अति, प्रभूत, प्रचुर, पृथ्वी, बेहिमाव+ अनन्त ब्रह्म (बंगला)
असीमित असीमित असीम्य	विशेषण विशेषण	हिंदी नेपाली हिंदी	1 जिमकी हद न हो, जो सीमित न हो, जिमकी सीमा निर्धारित या, निश्चित न की जा सके 2 अपरिमित, ढेर, ज्यादा (इल लिमि टेबुल)
असुकर असौकरियम्	विशेषण संज्ञा	हिंदी तमिल	जिमे करना कठिन हो असुकर, अमरल, कठिन
असुख असुख असुख (खं) असुखम् असुगम् असौकायै असौक्कियम्	विशेषण संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, उड़िया, बंगला नेपाली, मलयालम, संस्कृत तेलुगु तमिल कोंकणी तमिल	1 दुःख, वेदना, पीडा, बेचैनी, कष्ट, क्लेश, रोग 2 अमतोष, अशान्ति, अस्वस्थता, शोक, प्रसन्नता का अभाव, अव्यवस्था, अनियमितता (ऋतुकाल) 3 कष्ट या दुःख पैदा करने वाला, कठिन परिश्रम साध्य, सुख हीनता + 4 अप्रिय, गगी, बीमारी (उड़िया) + 5 स्त्रियों का वेदना युक्त समय (मराठी)
असुखकारी असुखद असुखाबह	विशेषण विशेषण विशेषण	गुजराती बंगला, मलयालम बंगला	दुःखकारी, मादगी, रोगी होना क्लेशप्रद, दुःख देने वाला दुःखद, दुःख कर, क्लेश पहुँचाने वाला
असुखिन् असुखी असुखीया	विशेषण विशेषण	संस्कृत गुजराती, मराठी, असमी, बंगला असमी	दुःखी, शोकाकुल, शोक निमग्न, व्याकुल, बेचैन, जिसे जरा भी सुख न मिले, जो सुखी न हो, दुःख भरा, असन्तुष्ट
असुखोदय असुगम असुघड़	विशेषण विशेषण विशेषण	हिंदी गुजराती गुजराती	दुःख कारक, दुःखान्त, दुःख देने वाला जो सुगम नहीं, दुर्गम, मुश्किल मुघड़ नहीं, जिसकी बनावट सुन्दर नहीं

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
असुषङ्गता	सज्ञा	गुजराती	सुषङ्ग न होने का भाव, अमुन्दरता
असुषल	सज्ञा	असमी	आसानी से न किया जाना, अमुविधा, अलाभ
असुज्ञ	विशेषण	मराठी	अजान, अपांडित, गैर वाकिफकार
असुत	विशेषण	संस्कृत	बे औलाद, जिसके कोई बाल वन्ध्या न हो
असुति/असूति	विशेषण	तमिल	बाझ, निपूती, निष्पुत्री
असुय	विशेषण	पंजाबी	बेमुध, बेखबर, बहोश
असुदे	सज्ञा	तमिल	(अमुधा.) विष, अमृत नहीं
असुन्दर	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 मुन्दर नहीं, कुरूप, भद्दा, अशोभन विकृत
असुन्दर		उड़िया, बंगला, मलया, संस	कुन्मिन, कुबडा 2 अनुगित अप्रशस्त
असुन्नति	सज्ञा	तेलुगु	मुन्नत न होना (एक मुस्लिम रमम)
असुप्त/असुत्त	विशेषण	हिंदी, मलया, संस्कृत, तमिल	जो सोया न हो, जागा हुआ, जागृत
असुरक्षित	विशेषण	हिंदी, मलया, संस्कृत	जो सुरक्षित न हो
असुर	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 सुर या देवता नहीं, गक्षम, दैत्य, पिशाच, दानव
असुर		असमी, उड़िया, बंगला	2 दयाहीन मनुष्य खल दृष्ट नीच गति मानव
असुर		नेपाली, तमिल, संस्कृत	+ 3 दानवों की जाति विशेष (नामिन)
असुरु (असुरन्)	विशेषण	कन्नड, मलयालम	4 मूर्य, गहू, वादल, हाथी, देवदार, समुद्री, नमक (मत्ता)
असुरुडु	सज्ञा	तेलुगु	+ 5 अपार्थिव, अर्नाकिक्, जीवित ब्रह्म तथा वरुण (हिंदी)
असुर	सज्ञा	तमिल	दानव गण, दैत्यो म भिन्न जाति
असुरकिरुत्तियम्	सज्ञा	तमिल	अनि माहमिक काय, दानवों जैसा अति भीषण काय
असुर-कुमार	सज्ञा	हिंदी	जेन मतानुसार भुवनरति देवता
असुर गुरु/पतिरि	सज्ञा	हिंदी, कन्नड, मलया, तमिल	शुक्राचार्य, दैत्यो के गुरु माने जाने वाले शुक्र
असुरधुवम्	सज्ञा	तेलुगु	दक्षिणी ध्रुव
असुरनात् (असुरं)	सज्ञा	तमिल, मलयालम	उन्नीसवा नक्षत्र, मूल नक्षत्र
असुर नाशनी	सज्ञा	बंगला	दुर्गा दानवों को दलित करने वाली
असुर राज	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	राजा बलि जो दैत्यों के गजा बाने जाते हैं
असुर रिपु	सज्ञा	हिंदी, कन्नड, संस्कृत, मलया	विष्णु जो असुरों का नाश करते हैं
असुरम्	सज्ञा	तमिल	अमुर विवाह जिसमे वर द्याग वधू को अलकार व
असुरमणम्		तमिल	उसके सबधियों को धन दिया जाता है
असुरवात्तियम्	सज्ञा	तमिल	अमुरवाय, दोन आदि वाद्य

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
असुरविद्या	मज्ञा	हिंदी	1 वह विद्या जिसे गं गक्षसो के कार्यों का अध्ययन विवचन होना है (डेमनोलाजी) 2. आसुरी विद्या
असुरविद्या		नेपाली	
असुरसंध्या	मज्ञा	तेलुगु	प्रदोष का समय, माघकाल शाम की चोदनी, मन्ध्या काल
असुरसन्धि		तमिल	
असुरा	मज्ञा	हिंदी, संस्कृत, बंगला	1 रात्रि 2 वध्या 3 रात्रि शून्य क्रिया चिकित्सा (मर्जरी), घावों के वेद्य, जर्जर
असुरवैद्यियम्	मज्ञा	तमिल	
असुराचार्य (न्)	मज्ञा	हिंदी, गुज, मरा, संस, मलया	असुरों के आचार्य या गुरु, शक्राचार्य, शुकग्रह असुरों का राजा बलि जो प्रह्लाद का पौत्र था
असुराधिप	मज्ञा	हिंदी, गुज, मरा, संस	
असुरारि	मज्ञा	हिंदी, संस्कृत	विष्णु देवता जो असुरों के शत्रु है
असुरी (असुरस्त्री)	मज्ञा	हिंदी, मराठी, बंगला, संस	1 गक्षसी, असुर की स्त्री, दानव गक्षसी 2 असुर सबधी, क्रूर, कठोर, नामस स्वभाव
असुरि/असुरै	विशेषण	मलयालम, कन्नड	
असुरेश	मज्ञा	गुजराती	असुर का राजा, राजा बलि
असुलभ	विशेषण	गुजराती, मलया, संस्कृत	जिस बात करना कठिन हो, दुर्लभ, अप्राप्य
असुविधा	मज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	सुविधा या सुभीता न होना, अडचन बाधा, कठिनाई, विघ्न, तकलीफ, कठिन परिस्थिति
असुविधा		असमी, उड़िया, बंगला	
असुस्थ	विशेषण	हिं, असमी, बंग, उड़ि, मलया	असुस्थ, पीठिन, गोगामन, जिसका मन स्वस्थ न हो गंग बीमारी अस्थ न होना
असुस्थता	मज्ञा	हिंदी, असमी	
असुहाता/ती	विशेषण	हिंदी	न सहाना, अरुण न लगना, अप्रिय, कटु, बुरा
असुहृद	विशेषण	गुजराती, कन्नड, संस्कृत	महृद या मित्र नहीं, शत्रु, वैरी, अमित्र, डाही, तिरस्कार डाह या ईर्ष्या करने वाला, दुश्मन
असुहृत्तु		मलयालम, तेलुगु	
असूक्षण (णं)	मज्ञा	हिंदी, मलयालम	अनादर, अवमान, तिरस्कार, अपमान अवज्ञा, अवहेलना, अप्रतिष्ठा
असूक्षण		संस्कृत	
असूक्ष्म	विशेषण	गुजराती	जो सूक्ष्म नहीं है फलतः स्थूल स्थूल बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि हीन, अदूरदर्शी
असूक्ष्मदर्शी	मज्ञा	बंगला	
असूक्ष्म	विशेषण	हिंदी	1 न दिखना, अंधकारमय होना 2 वार पार न होना, उपाय न सोच पाना, न सूझना 3 ध्यान न जाना 4 बुद्धि न होना, कल्पना न होना 5 सूक्ष्म, सूक्ष्म, सूक्ष्म, सूक्ष्म (गन्त)
असूक्ष्म		पंजाबी	
असूक्ष्म	विशेषण	मराठी	

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
असूत-असूतिक	विशेषण	संस्कृत, मलयालम	1. जिसने बच्चा न जना हो, वंध्या
असूता, असूतिका	विशेषण	हिंदी, संस, मलया, मराठी	2. प्रौढ़ा, वृद्धा, बांझपन (संज्ञा)
असूति	संज्ञा	संस्कृत, मलयालम	1. उत्पादन हीनता + 2. स्थानान्तरितकरण, अड़चन बंजरपन (संस्कृत)
असूभित	विशेषण	गुजराती	1. सूत्र द्वारा जोड़ी न गयी, गांठे बिना 2. क्रमबद्ध नहीं की गयी
असूम	विशेषण	गुजराती	जो सूम न हो-उदार, कंजूस नहीं
असूर्य	विशेषण	गुजराती, संस्कृत	सूर्य बिना, सूर्य-रहित
असूर्यम्यश्या	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	1. कड़े परदे में रहने के कारण सूर्य को भी न देखने वाली, अंतः पुरवासिनी राजमहिषी या रानी
असूर्यम्यश्या		मलयालम, तेलुगु	2. पतिव्रता स्त्री, घर के भीतर बंद रहने वाली
असूर्यम्यश्या		संस्कृत, बंगला	
असृष्ट	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	जिसका सृजन नहीं हुआ
असेचन	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	जिसे देखने में तृप्ति न हो, अत्यधिक सुन्दर,
असेचनक		हिंदी, कन्नड, संस्कृत	परम मनोहर, प्यारा
असेचन (क)	संज्ञा	संस्कृत, मलयालम	सेचन का अभाव (संज्ञा)
असेचनीय	विशेषण	हिंदी	1. जिसे सींचना उचित न हो 2. जिसे देखने से तृप्ति न हो
असेत्त	विशेषण	हिंदी	अश्वेत, मफेद से भिन्न, श्याम, कृष्ण वर्ण
असेत्वन	विशेषण	हिंदी	1. सेवा, उपासना, आराधना न करने वाला 2. अभ्यास न करके परित्याग करने वाला; उपेक्षा, त्याग
असेत्वनीय	विशेषण	असमी, बंगला	1. जो सेवन या व्यवहार योग्य न हो, उपेक्षणीय,
असेत्वनीय	विशेषण	गुजराती, हिंदी, संस्कृत	अनुपयोग्य, उपयोग के अनुकूल नहीं
असेक्विष्य	विशेषण	असमी	2. सेवा के अयोग्य, अनादरणीय, अनाराधनीय
असेव्य	विशेषण	असमी, बंगला	3. जिमकी पूजा वर्जित हो, जिसकी चाकरी नहीं करनी,
असेव्य	विशेषण	गुजराती, हिंदी, संस्कृत	जिसके साथ खाना-पीना वर्जित हो
असेव्य	विशेषण	मलयालम +	4. जिससे भोग वर्जित हो (मलयालम)
असेक्ति	विशेषण	बंगला	1. अनाराधित, अनादृत, उपेक्षित 2. अगृहीत,
असेक्ति		हिंदी	अनुपयुक्त, अभुक्त 3. जिससे परहेज किया गया हो
असेवा	संज्ञा	हिंदी	(रोगी, वृद्ध की) सेवा शुश्रूषा न करना, उपेक्षा

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
असैनिक	विशेषण	हिंदी	1 जो सेना में न हो, सेना में सर्वधित नहीं या
असैनिक	विशेषण	नेपाली	अगबद्ध 2 जो सैनिक नहीं उससे भिन्न हो
असैनिकीकरण	सज्ञा	हिंदी, नेपाली	क्षेत्र विशेष में सेना हटाना, सेना रहित करना
असोच	विशेषण	हिंदी	1 चिन्ता रहित, निश्चिन्त, बेफ़िक्र, सोच रहित
असोच		पंजाबी	2 जो सोचा न जा सके 3 निर्द्वन्द्व
असोची	विशेषण	पंजाबी	बेपरवाह, मदा प्रमत्त, मोजी
असोता	विशेषण	पंजाबी	जागा हुआ, जागरण, मोना हुआ नहीं
असोदर्यन्	सज्ञा	मलयालम, तमिल	मगा भाई नहीं, मासी वृआ आदि का पुत्र
असौकर्य	विशेषण	मलयालम	1 असुविधा, कठिनाई 2 अवसर प्राप्त न होना
असौक्विक्यम्	सज्ञा	तमिल	रोग वीमारी, अस्वस्थता, सुख का अभाव,
असौख्यम्		संस्कृत	दुख कष्ट, परेशानी, आफत
असौजन्य	विशेषण	बंगला	अशिष्टाचार, अभद्रता
असौंध	सज्ञा	हिंदी	असुगन्ध, दुर्गन्ध, सौंध या गंध का अभाव
असौन्दर्य	विशेषण	असमी, मलया, संस्कृत	सुन्दरता नहीं, बदसूरती, अशोभा, कुरूपता
असौम्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	1 असज्जन, अप्रीतिकर, क्रूर, कठोर, उग्र, तीखा
असौम्य		नेपाली, मलया, कन्नड	2 भद्रा, अशुभकर, कुरूप, नम्र या मृशील नहीं
असौम्यस्वर	सज्ञा	कन्नड	कर्कश आवाज या स्वर
असौष्टव	सज्ञा	नेपाली, बंगला	1 मोष्ठव या मनोहरता का अभाव, कुरूपता,
असौष्टव		हिंदी	असूयडता, विकलाङ्गता, भद्रापन, सोन्दर्यहीनता
असौष्टव		संस्कृत	2 अशिष्टता, निकम्मापन, गुण का अभाव
अस्कवित	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	अनाक्रान्त, जो गया नहीं, जो फटा नहीं
अस्कन्न	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	अविदीर्ण, अनावृत्त, स्थायी, जो उड़ला नहीं
अस्खलित	विशेषण	हिंदी, मराठी	1 जो स्वलित अर्थात् फिसला, डगमगाया, हिला या
अस्खलित		गुजराती	पथभ्रष्ट न हुआ हो, अव्याकुल, अचूक
अस्खलित		कन्नड, बंगला	2 स्थिर, सावधान, अडिग, अच्युत, अटूट, अखड,
अस्खलित		नेपाली, संस्कृत	निरतर, धारावाही, सुरक्षित, अव्यभिचारी
अस्खलित		मलयालम	3 दृढ ब्रह्मचर्यव्रती, अविवाहित, शुद्ध
अस्खलितम्		नेपाली	4 उच्चारण में भल चक न करने वाला

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अस्तब्ध	विशेषण	हिंदी	1 स्तब्ध नहीं हुआ अतः अस्थिर, चंचल, विकल
अस्तब्ध		संस्कृत	2 विनयी, विनयशील
अस्तुति		हिंदी, संस्कृत, नेपाली	1 स्तुति या प्रशंसा न करना, भर्त्सना, निंदा, अपवाद
अस्तेयनन्	सज्ञा	मलयालम	जो चोर नहीं, स्तय या चोरी न कर
अस्तेयम्	सज्ञा	तमिल, संस्कृत	1 चोरी न करना, योग के अनुसार एक यम
अस्तेय (यं)		हिंदी, नेपाली, मलया	+ 2 न चुराना पाच महाव्रतों में एक (तर्गिल)
अस्तेय		मराठी, गुजराती	+ 3 आवश्यकता से अधिक वस्तु न रखना (गृजगती)
अस्तेयव्रत	सज्ञा	हिंदी, गुजराती	आवश्यकता से अधिक वस्तु को चोरी मानना
अस्तोक	विशेषण	मलया, कन्नड, संस्कृत	1 अल्प नृत्य नहीं 2 मग्न होकर
अस्तोकमु		तेलुगु	3 जो थोड़ा न हो फलन अधिक
अस्तोकत्वमु	सज्ञा	तेलुगु	मग्नता श्रेष्ठता, स्तयप्रति भाव
अस्थान	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	भर्त्सना, निंदा क्लृप्त अपवाद
अस्त्रीक	विशेषण	मलयालम, हिंदी, बंग	1 भार्या रहित विना स्त्री के, विधुर, कजाग
अस्त्री	विशेषण	संस्कृत	+ 2 व्याकरण में पुल्लिंग और नपुंसकलिङ्ग (संस्कृत)
अस्थान	सज्ञा	गुजराती, मराठी, संस्कृत	1 अयोग्य स्थल या प्रसंग अनुपयुक्त स्थान या समय
अस्थानं		मलयालम	2 अनुचित स्थान वस्तु या अवसर
अस्थान	विशेषण	हिंदी	+ 3 बहुत गहरा, बरा स्थान, गहन जगह या मोक्षा (हिंदी)
अस्थानवृत्ति	सज्ञा	मराठी	पूजा आदि का अधिकार या वृत्ति
अस्थानिक	विशेषण	बंगला	बाहर से आया हुआ
अस्थानकपदं	सज्ञा	मलयालम	गहन जगह या गहन मोक्ष पर इस्तेमाल किये शब्द
अस्थायि	विशेषण	मलयालम	1 क्षणिक, परिवर्तनशील, अप्रधान, स्थायी नहीं
अस्थायिन्		संस्कृत	2 गदा या अधिक न टिकने या रहने वाला
अस्थायी		हिंदी, गुजराती, मराठी	3 थोड़ा समय का, अनस्थायी, अनित्य, चल,
अस्थायी		अस, उड़ि, बंग, नेपा	चंचल, मियादी, ध्वमशील, (अनस्टेबल, टेम्पोररी)
अस्थायिता	सज्ञा	बंगला	नश्यता, क्षणभंगुता, अनित्यता,
अस्थायित्व		हिंदी, बंगला	अल्पकालिकता, तात्कालिकता
अस्थावर	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	जा एक जगह स्थिर न रहे, जगम, चलनशील
अस्थावर		बंगला, असमी, संस्कृत	जा स्थानान्तरित किया जा सके, हिलने झुलने वाला

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अस्थावर संपत्ति	सज्ञा	बंगला	चल सम्पत्ति (मूवेवल प्रापटी)
अस्थित	विशेषण	बंगला	1 अनुपस्थित, अनिश्चित, अस्थिर 2 धनहीनता, दैन्य
अस्थिति	सज्ञा	बंगला, हिंदी	1 न घना, अस्मानि, चयलता, अस्थिरता, टह्यगव न ह्येना
अस्थिति	सज्ञा	संस्कृत	2 मर्यादा का अभाव, दृढता/धिष्टता या यस्त्रि का अभाव
अस्थिर	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 स्थिर नहीं, चयलता युक्त 2 दृढ नहीं, क्षणस्थायी,
अस्थिर		नेपाली, मलयालम, कन्नड	क्षणिक, नाशवान, नश्वर 3 दुलमूल, चयल,
अस्थिर		असमी, उड़िया, बंगला, संस	गतिमान, डगमगाना हुआ, डावाडाल
अत्यरा/अत्यर		पंजाबी	4 एक बात या सिद्धान्त पर न टिकने वाला,
अस्थिरमु		तेलुगु	वेभरंगे का अनिन्य, अनिश्चित, अचिरस्थायी
अथिरु (अणथिरु)		सिंधी	चयलता रहने वाला चयल प्रकृति, कापता हुआ
अत्तिरम्		तमिल	5 न्यान्कूल, अस्थायी परिवर्तनशील
अस्थिर चरित	सज्ञा	कन्नड	चयला म्नी
अस्थिरचित्त	सज्ञा	बंगला, कन्नड	चयल मन, अच्ययस्थित चित्त
अस्थिर बुद्धि/प्रकृति		बंगला	चयल बुद्धि चयल स्वभाव
अस्थिरता	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	1 अस्थिर हान की अवस्था या भाव, अनिश्चितता
अस्थिरता	सज्ञा	नेपाली, तेलुगु, असमी	2 चयलता दृढता न होना (अनस्मर्तविलिटी)
अस्थिरत्व	सज्ञा	कन्नड	स्थायी न होने की स्थिति
अस्थूल	विशेषण	हिंदी	स्थूल नहीं फलत मृक्ष, महीन वारीर
अस्थैर्य (म्)		मलयालम, संस्कृत	दृढता का अभाव, चयलता, चयलता.
अस्थैर्य		मराठी, हिंदी	अस्थिरता, परिवर्तनशीलता
अस्नात	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	बिना नहाया हुआ, बिना नहाये
अस्नात		बंगला, संस्कृत	स्नान नहीं किया, अकृत स्नान
अस्नातक	सज्ञा	गुजराती	1 स्नातक नहीं (अण्डर ग्रेजुएट)
अस्नातक		बंगला	2 ब्रह्मचर्य समाप्ति से पूर्व गृहस्थ में प्रवेश (बगला)
अस्नाथि	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	स्नायुहीन, स्थूल शरीर रहित
अस्निग्ध	विशेषण	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	1 चिकना नहीं रूखा, कठोर, शुष्क, कोमल नहीं
अस्निग्ध		कन्नड, मलयालम	2 स्नेह बिना, प्रेमरहित, निर्दय, कर्कश, अरमिक
अस्नेह	सज्ञा	असमी	स्नेह या कोमलता का अभाव

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अस्पन्द अस्पन्द	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी बंगला, मलयालम	स्पंदनहीन, न हिलने डुलने वाला, निष्कम्प, गतिहीन, धडकन रहित
अस्पन्वित	विशेषण	बंगला	अंकुषित, सजाहीन, निष्कपित
अस्पर्श अस्पर्श अस्पर्शन (म्)	सज्ञा	गुजराती, नेपाली मराठी, बंगला, संस्कृत मलयालम, तमिल	1 आसक्तिहीनता 2 स्पर्श के अयोग्य, अपवित्र, अशुचि, नापाक, सूतक पातक लगा, अस्पृश्य, ऋतुमति स्त्री 3 स्पर्शाभाव, सम्पर्क न करना, अससर्ग
अस्पृशनीय अस्पृश्य	विशेषण	असमी, गुजराती, बंगला बंगला	अस्पृश्य, न छूने योग्य, अछूत, अशुचि, अस्वच्छ, अपवित्र, नापाक, ससर्ग के अयोग्य
अस्पृष्ट अस्पृष्ट अस्पृष्ट अस्पृष्टम्	विशेषण	हिंदी, मराठी, संस्कृत गुजराती, मलयालम असमी, उड़िया, कन्नड तेलुगु	1 स्पृष्ट नहीं, व्यक्त नहीं, धूमला, माफ न दिवने 2 मदिग्ध, अवोधय, अधोन्गारिन, अपरिष्कृत 3 माफ समझ में न आये+असमतल (असमी) 4 जो समझने या देखने योग्य न हो (संस्कृत)
अस्पृष्टादी अस्पृष्टभाषी	सज्ञा	बंगला बंगला	1 किसी भी कारण माफ साफ न बोल सके या न बना सके 2 लज्जा के कारण स्पृष्ट बात न करे
अस्पृश्य अस्पृश्य (यं) अस्पृश्य अस्पृश्यन् अस्पृश्यम्	विशेषण सज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली मराठी, संस्कृत, कन्न, मलया असमी, उड़िया, बंगला मलयालम तेलुगु	1 छूने योग्य नहीं, अशुचि, जानि या सामाजिक निकृष्टावस्था के कारण छुआ न जाण, अस्वच्छ 2 अपवित्र, हरिजन, अछूत, अन्यज, घृण्य 3 नीच जाति या नीच वर्ण का व्यक्ति 4 इन्द्रियानीन (हिंदी)
अस्पृश्यता अस्पृश्यता	सज्ञा	बंगला, नेपाली, हिंदी गुजराती, मलया, संस्कृत	छुआछूत की भावना, अछूतान, (अनटचेविलिटी) अस्पृश्य होने का भाव या अवस्था
अस्पृश्यतानिवारण अस्पृश्योद्धार	सज्ञा सज्ञा	गुजराती मराठी	अमुक्त व्यक्ति या जाति छूने योग्य नहीं इस मत का दूर करना, अछूतोद्धार, छुआछूत मिटाना
अस्पृश्या	विशेषण	बंगला	स्पर्श के अयोग्य (रजम्वला स्त्री)
अस्पृष्ट अस्पृष्ट अस्पृष्टं	विशेषण सज्ञा	हिंदी, गुज, मराठी, मलया नेपाली, बंगला, कन्नड मलयालम, संस्कृत	1 जिसको छुआ न गया हो, अछूता, नवीन 2 जिसका स्पर्श जिहवा से न हो, अनुच्छिष्ट 3 अनुस्वार तथा स्वर वर्ण (मलयालम)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
रस्पृह	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 व्यक्ति जिसमें स्पृहा या इच्छा अथवा कामना न हो
रस्पृह		असमी, बंगला, मलया	2 पर द्रव्य इच्छा न रखने वाला, जिसे लालच न हो
रस्पृह		संस्कृत	3 निर्लोभ, निस्पृह, उदामीन, निरिच्छ, अनासक्त
रस्पृह्य	सज्ञा	असमी, बंगला, मलया	अप्रवृत्ति, अरुचि, उदामीनता, वेगम्य, अनिच्छा
रस्पृहणीय	विशेषण	गुजराती, बंगला	अवाछनीय, अनभिपलषणीय, निकृष्ट
रस्फीति	सज्ञा	बंगला	स्फीति हीनता, अवृद्धि
रस्फुट	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 अनखिण, अविकसित, अव्यक्त, अप्रकट
रस्फुट		असमी, बंगला, नेपाली	2 सदिग्ध, अस्पष्ट, धुंधला, अप्रकाशित, सर्कीण
रस्फुट		कन्नड, मलया, संस्कृत	3 अदृष्ट, गुन, अन्मना, अनदेखा, गूढ या जटिल (विषय)
रस्फुटमु	विशेषण	तेलुगु +	4 सदिग्ध भाषण (सज्ञा) (संस्कृत)
रस्फुट कंठ	सज्ञा	बंगला	अव्यक्त या क्षीण आवाज, अस्पष्ट कंठ स्वर
रस्फुट वाच	सज्ञा	कन्नड	जिस बोलना नहीं आया ऐसा शिशु
रस्फुट-फल	सज्ञा	संस्कृत	सदिग्ध या अस्पष्ट परिणाम
रस्फुटता	सज्ञा	गुजराती	स्फुट न होने का भाव या अवस्था
रस्फूर्ति	सज्ञा	मराठी	स्फुरण न होना, प्रादुर्भाव न होना, विकसित न होना
रस्मर्य	विशेषण	गुजराती	जो याद न आने, विस्मृत, याद रखने के अयोग्य
रस्मार्त	विशेषण	हिंदी	1 जो स्मृति या धर्मशास्त्र के अनुकूल न हो
रस्मार्त		गुजराती	2 जो स्मरणान्तर्गत न हो
रस्मार्त		मराठी	3 परंपरा विरुद्ध, स्मार्त संप्रदाय का अनुयायी नहीं
रस्मार्त		संस्कृत	4 स्मरणातीतकाल वाची, अतिपुरातन
रस्मार्तकाल/कालिक संदा		मराठी	अतिप्राचीन काल का, पुरातन कालीन
रस्मृति	सज्ञा	गुजराती, संस्कृत	स्मरण शक्ति का अभाव, विस्मृति, भुलक्कडपन
रस्व	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	दरिद्री, धनहीन, जीवनोपाय विहीन, अकिंचन
रस्वक	विशेषण	मलयालम	निजी नहीं, किसी और का, अपना नहीं
रस्वकीय		संस्कृत, मलयालम	1 दूसरे का, निजी अधिकार में नहीं
रस्वकीयमु		तेलुगु	2 स्वयं के नियंत्रण में नहीं, अन्य के नियंत्रण में
रस्वच्छंद	विशेषण	बंगला, कन्नड	स्वच्छंद न होना, पराधीन, स्वच्छंदताभाव, अनायत
रस्वच्छ	विशेषण	गुजराती, उड़िया, बंगला	जा स्वच्छ या साफ नहीं, अनिर्मल, अशोधित.

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अस्वच्छम्		तेलुगु	गदला, अपारदर्शी, मलिन
अस्वच्छता	सज्ञा	गुजराती	स्वच्छ न होने का भाव
अस्वतंत्र	विशेषण	हिंदी, गुजराती, बंगला	1 स्वतंत्र नहीं, परतंत्र, पराधीन, गुलाम, पराश्रित,
अस्वतंत्र	विशेषण	मलयालम, कन्नड	पर निर्भर, आत्मनिर्भर नहीं, परवश
अस्वतंत्रम्		तेलुगु	2 आज्ञाबह, वश्य 3 नम्र, विनीत, आश्रित
अस्वतंत्रुडु	सज्ञा	तेलुगु	किमी की अधीनता में काम करने वाला
अस्वतंत्रता	सज्ञा	गुजराती	पराधीनता, परवशता, गुलामी
अस्वत्व	सज्ञा	मराठी, बंगला	स्वत्वहीन, अनधिकार, एक या अधिकार चला जाना
अस्वन्न	विशेषण	हिंदी, बंगला, कन्नड	1 निद्रागदित, आर्निद्रित, जागरण, अर्निद्र
अस्वन्न	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	2 जागना हुआ, साया हुआ नहीं 3 स्वप्नाभाव,
अस्वप्नुत्	सज्ञा	तेलुगु	देवता, देवता लोग जो माने नहीं
अस्वभाव	विशेषण	हिंदी	भिन्न या विपरीत स्वभाव वाला
अस्वभाव	सज्ञा	हिंदी	भिन्न या अस्वाभाविक लक्षण
अस्वर	विशेषण	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	1. अस्पष्ट/भोड़ी भरी या अनिश्चित आवाज वाला
अस्वरुडु		तेलुगु	2 मृद स्वर, स्वरहीन, अव्यक्त स्वर, धीमी आवाज
अस्वरं	सज्ञा	मलयालम	3 स्वर नहीं व्यक्त वर्ण, स्वर का अभाव
अस्वरम्	अच्चा	संस्कृत	धीमी आवाज म, जोर म नहीं
अस्वरसं	सज्ञा	मलयालम	1 अप्रसन्नता, ना पगदी 2 प्रेम का अभाव, अप्रीति
अस्वरस		संस्कृत, मराठी	3 अपक्षपात, स्वयं को पसंद न होना
अस्वरित	विशेषण	गुजराती	वह शब्द जिसके अंत में स्वर न हो, हलन्त, नि.स्वर
अस्वर्ग	सज्ञा	मलयालम	1 स्वर्ग नहीं, नरक 2 स्वर्ग प्राप्ति का उद्देश्य या मार्ग नहीं
अस्वर्ग्य	विशेषण	गुजराती, हिंदी, संस्कृत	3 जो स्वर्ग की ओर न ले जाय, जिसमें स्वर्ग प्राप्ति
अस्वर्ग्य	विशेषण	मलयालम	न हो, स्वर्ग प्राप्ति में विघ्नरूप
अस्वस्ति	सज्ञा	बंगला	1 अमंगल, कल्याण कर नहीं 2 अस्वाच्छन्द्य
अस्वस्थ	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 स्वस्थ नहीं रागी, पीड़ित, अप्रकृतस्थ
अस्वस्थ		नेपाली, उड़िया, कन्नड	2. दुर्बल, निर्बल, कमजोर, भला चंगा नहीं
अस्वस्थ		असामी, संस्कृत, मलया	3 अशांत, बेचैन, अनमना, व्याकुल, चिन्ताग्रस्त

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अस्वस्थन्	सज्ञा	मलयालम	+ 4 विवचन में व्यस्य (मगठी) दृषित ((विचार) हिंदी)
अस्वस्थता	सज्ञा	नेपाली, गुजराती, मराठी	स्वस्थ न होने का भाव, रुग्णता, निर्बलता, दुर्बलता
अस्वातंत्र्य (यं)	सज्ञा	बंगला, मलयालम	पराधीनता, परतंत्रता, स्वाधीनता नहीं
अस्वाद	सज्ञा	गुजराती	स्वाद का अभाव, अरुचि, स्वाद न लेना
अस्वादव्रत	सज्ञा	गुजराती	स्वाद के वश में न होने का निश्चय या निर्णय
अस्वादु	विशेषण	गुजराती, बंगला	स्वादहीन, स्वादिष्ट नहीं, अरुचिकर
अस्वादु		तेलुगु	स्वाद के खराब के स्वाद
अस्वाधीन	विशेषण	हिंदी, मराठी, संस्कृत	1 अन्य के अधीन या वश में होना स्वच्छानुसार
अस्वाधीन		मलयालम	प्रवर्तित न हो सकना, पराश्रित
अस्वाधीनमु		तेलुगु	2 अन्य का आज्ञाकारी होना, परतंत्र पराबलवी
अस्वाधीनता	सज्ञा	मलयालम	अयोग्यता, योग्यताहीनता, परतंत्रता, गुलामी
अस्वाध्याय	सज्ञा	कन्नड	1 ब्राह्मण जिमने वेद अध्ययन नहीं किया
अस्वाध्याय	सज्ञा	संस्कृत, हिंदी	2 जिसका यज्ञोपवीत मस्कार नहीं हुआ
			3 अध्ययन में पढ़ने वाला व्यवधान अडघन या अवकाश
अस्वाभाविक	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 स्वाभाविक या प्रकृत नहीं प्रकृति या स्वभाव
अस्वाभाविक		असमी, उड़िया, बंगला	के विरुद्ध बनावटी, कृत्रिम, अनेमर्गिक
अस्वाभाविक		नेपाली, कन्नड	2 अति प्राकृतिक अमामान्य, मृष्टि नियम के
असुभाविक		सिंधी, पंजाबी	विरुद्ध, अप्राकृतिक
अस्वाभाविकता	सज्ञा	असमी, नेपाली	स्वाभाविक न होने का भाव, अप्राकृतिकता
अस्वामिक	विशेषण	बंगला, असमी	1 स्वामीहीन, लातारिम, सर्वाधीन, गज्याधिकृत.
अस्वामिक		हिंदी, संस्कृत	सम्पत्ति जिसका कोई मालिक या दावेदार न हो,
अस्वामिक		नेपाली, मराठी	कर्तृहीन, जिम पर सर्वसाधारण का अधिकार हो
अस्वामिक		मलयालम	+ 2 जिस खेत या दश का मालिक, धनी, पशु या नियन्ता न हो (मराठी)
अस्वामिकता	सज्ञा	हिंदी	1 वह स्थिति जब कोई वस्तु मिलने पर उसका स्वामी
अस्वामिकता	सज्ञा	नेपाली	दिखाई न दे 2 माल धनी न होने का भाव
अस्वामिन्	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	1 स्वत्व हीन, हकदार नहीं, बेवारिसी, दावागीर नहीं,
अस्वामी		हिंदी, बंगला	+ 2 निधन. (पदार्थ) जिमका अध्वर्यनकारी न हो (मलया)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अस्वामी (भि)		नेपाली, मलयालम	2 व्यक्ति जिसका स्वत्व न हो 3 वस्तु जिसका दावेदार नहीं
अस्वामिकिक्रय	सज्ञा	हिंदी, कन्नड	1 पडी पाई, छिनी हुई या चुराई वस्तु को स्वयं मालिक बनकर बेचना या बेच डालना 2 चोरी से अधिकृत कर बेची हुई वस्तु
अस्वामिकिक्रय		मलयालम	
अस्वामिन् विक्रय	विशेषण	संस्कृत	
अस्वाम्य	सज्ञा	मराठी	1 सम्पत्ति पर अधिकार न होना या कायदे के अनुसार हक चला जाना या न रहना, लावारिस 2 स्वामित्व खो देना, बिना वगिरी, अन्य व्यक्ति की वस्तु
अस्वाम्य		संस्कृत	
अस्वाम्यं		मलयालम	
अस्वारस्यं (म्)	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	1 रस हीनता, नीरसता, पहले जैसा स्वाद न आना 2 अरुचि, ना पसदगी, स्वाभाविक स्वाद का अभाव अरुचिकर, ना मुआफिक
असुआरसियम्		तमिल	
अस्वारस्य		मराठी, कन्नड	
अस्वार्थ	विशेषण	हिंदी	1 व्यक्ति जो स्वार्थी न हो, नि स्वार्थी 2 कार्य या बात जो स्वार्थ से रहित हो, जिसमें अपना स्वार्थ न हो + 3 उदासीन, निकम्मा (हिंदी)
अस्वार्थ		संस्कृत	
अस्वार्थ	सज्ञा	कन्नड	
अस्वार्थपर	सज्ञा	असमी	रुचि या स्वार्थ हीनता
अस्वास्थ्य	सज्ञा	हिंदी, बंगला, मराठी	1 मेहत या तबीयत ठीक न होना 2 उपद्रव, पीड़ा, बीमारी या रोग होना, अस्वरथता 3 व्याकुलता, बेचैनी, आराम का अभाव, प्रान्ति का अभाव
अस्वास्थ्य		गुजराती, कन्नड	
अस्वास्थ्यं		मलयालम	
अस्वास्थ्यकर	विशेषण	उड़िया	स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, अस्वास्थ्यजनक जो अच्छी तरह उबाला या पकाया न गया हो स्वीकार न करना, ना मजूरी, न मानना (रिजैक्शन)
अस्विन्न	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	
अस्वीकरण	सज्ञा	नेपाली, हिंदी	
अस्वीकारं	सज्ञा	मलयालम	1 इन्कार करना, असहमति, प्रत्याख्यान, असम्पत्ति, मान्य न करना, न मानना, न लेना, अनुरोध, आग्रह या प्रार्थना स्वीकार न करना 2 ना मजूरी, अस्वीकृति, दोष न मानना
अस्वीकार		हिंदी, मराठी, नेपाली, संस	
अस्वीकार		असमी, बंगला, उड़िया, गुज	
अस्वीकारु		सिंधी	
अस्वीकारुं	सकर्मक क्रिया	गुजराती	स्वीकार न करना, मान्य न करना
अस्वीकार्य	विशेषण	बंगला, मलया, गुजराती	1 स्वीकार योग्य नहीं, मजूरी योग्य नहीं 2 अस्वीकार के योग्य, ग्रहण योग्य नहीं
अस्वीकार्यम्		तेलुगु	

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अस्वीकृत अस्वीकृत	विशेषण	हिंदी, नेपाली असमी, बंगला	1. नामंजूर किया हुआ, इन्कार किया हुआ, अमान्य 2. अन अनुमोदित, असमर्थित, ग्रहण न किया हुआ
अस्वीकृति	मंज्ञा	हिंदी, नेपाली, बंगला	स्वीकृति का अभाव, असहमति, इन्कार, अस्वीकार
अस्वेद (न)	मंज्ञा	हिंदी	पसीना न निकलना या न आना
अस्वैरिणि	मंज्ञा	कन्नड	मंयगी या जितेन्द्रिय स्त्री
अस्वैरिन्	विशेषण	संस्कृत	परतंत्र, पराधीन, परवश, स्वतंत्र नहीं
अहंतष्य	विशेषण	कन्नड	अवध्य, जो मारने योग्य न हो, या जिसे मारना अनुचित हो
अहक	मंज्ञा	गुजराती, हिंदी	1. हक नहीं वह 2. हक बिना, गैरवाजिबी (विशेषण) + 3. मन में दबी रहने वाली तीव्र लालसा या इच्छा (हिंदी)
अहत अहत अहत	विशेषण	गुजराती, मलयालम हिंदी, संस्कृत कन्नड	1. जो हत या चोट खाया हुआ न हो, अनाहत, पीड़ा कष्ट पाये बिना 2. जो हताश न हो 3. बिना धुला कपड़ा, कोग, बेदाग, स्वच्छ कपड़ा
अहरणीय अहरणीय	विशेषण विशेषण	गुजराती, हिंदी संस्कृत	1. हरण करने, छीनने, या चुराने योग्य नहीं 2. जो स्थानांतरित न किया जा सके, दृढ, स्थिर
अहरिषणम्	मंज्ञा	तमिल	1. नापमदगी = अफ़सोस
अहल अहल्य	विशेषण विशेषण	मलयालम, हिंदी संस्कृत, हिंदी, मलया	1. जिम भूमि पर हल न चलाया गया हो. अनजुती 2. कृषि योग्य भूमि नहीं (खेत-आदि)
अहस्त	विशेषण	हिंदी	ग्रथ गहन, व्यक्ति जिमके हाथ न हों या कट गये हों
अहार्य अहार्य अहार्य अहार्यमु	विशेषण मंज्ञा	हिंदी, गुजराती, मलया नेपाली, कन्नड, संस्कृत मलयालम तेलुगु	1. जिसको हरा या चुगया न जा सके 2. जिसे दूर ले जाया या हटाया न जा सके 3. जो वस्तु चकमा देकर न ली जा सके 4. न बदलने वाला, दृढ, स्थिर 5. अपरिहार्य, अविभाज्य + 6. जिसे धन देकर वश में न किया जा सके (हिंदी)
अहिंस	विशेषण	बंगला	हिंसा शून्य, बल प्रयोग विहीन, निरुपद्रव
अहिंसक अहिंसक	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, बंगला, नेपाली	1. हिंसा न करने वाला, जो दूसरों को चोट न पहुंचाता हो 2. साधु, अनपकारी, अहिंसा वादी, दयावान
अहिंसनीय	विशेषण	बंगला	जो हिंसा के योग्य न हो, वध योग्य नहीं

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अहिंसा	मंज्ञा	हिंदी, गुज, मराठी, मलया	1. मन वाणी कर्म से किसी भी जीव को पीडा न पहुंचाने
अहिंसा		उड़िया, असमी, बंगला	की भावना, भारकाट न करना, हिंसा का अभाव
अहिंसा		नेपाली, सिंधी, तेलुगु, संस	2 किसी का चित्त न दुखाना, दूसरों का अनिष्ट न करना
अहिंसे (सै)		कन्नड, तमिल	3 धर्म शास्त्रानुसार प्राणि मात्र को पीडा न पहुंचाना
अहिंसात्मक	विशेषण	हिंदी, गुजराती	पीडा न देने का सिद्धान्त, व्रत जिसमें हिंसा न हो
अहिंसामय	विशेषण	गुजराती	जिममे हिंसा न हो, शान्तिमय
अहिंसाबाद	मंज्ञा	हिंदी, नेपाली	किसी को पीडा न पहुंचाने का सिद्धान्त, प्राणियों मे ईश्वर की सत्ता मानना
अहिंसावादी	विशेषण	हिंदी, नेपाली, गुजराती	अहिंसा के सिद्धान्त पर चलने वाला
अहिंसित	विशेषण	बंगला	अविद्विष्ट, जिमकी हिंसा न की गयी हो, अनाहत
अहिंस्य	विशेषण	बंगला	हिंसा के अयोग्य, जिसका कोई कुछ न बिगाडता हो
अहिंस	विशेषण	बंगला, गुज, मलया, हिंदी, संस	जो किसी का अनिष्ट न करता हो, पीडा न पहुंचाये.
अहिंसक		नेपाली	अहिंसक, अश्वापद, निर्दोष, जो हिंसा न करे
अहित	मंज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 हित या भलाई नहीं, अशुभ, शत्रुता, वैर, हानि.
अहित		असमी, उड़िया, बंगला	• नुकसान, अपकार, क्षति, बुगई, अशुभ, अनिष्ट.
अहित		नेपाली, कन्नड, संस्कृत	अकल्याण, हित का विपरीत भाव
अहित, अहितं	विशेषण, मंज्ञा	मलयालम	2 वह हितु जो आत्मीय या शुभचिन्तक न हो,
अहितम्	मंज्ञा	तमिल	विरोधी, वैरी, शत्रु, अपकारी, अनिष्टकारी,
अयिबम् अयितम्		तमिल	प्रतिकूल, द्वेषी, हानिकारक
अहितम्		तेलुगु	+ 3 अधिकार या दावा न कर सकना (तमिल)
			+ 4 अप्रमन्ता, चोट, विरोध, अधिकार न होना (तमिल)
अहितन्	मंज्ञा	मलयालम, तमिल	1 शत्रु, प्रतिपक्षी, विरोधी, अनिष्टकारी
अहितुडु	मंज्ञा	तेलुगु	2. स्वास्थ्य को खराब करने वाला
अहित कर	विशेषण	गुजराती, हिंदी	3 अहित करने वाला, जिससे अहित होता है, अपकारी
अहितकर		कन्नड	अपकारी, अनिष्टकारी, दूसरों को कष्ट व
अहितकारी		हिंदी, गुजराती, बंगला	पीडा देने वाला, दूसरों का बुरा घाहने वाला,
अहितकारिन् (कारी)		संस्कृत, असमी	किसी की हानि करने या उसे नुकसान पहुंचाने वाला
अहितब	मंज्ञा	कन्नड	शत्रुता, दुश्मनी, विरोध, प्रतिकूलता
अहितबल	मंज्ञा	कन्नड	शत्रु सेना हानिकारी जनबल

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अहिताचरण	संज्ञा	बंगला	हानिकारक व्यवहार या कार्य
अहिताचार		बंगला	क्षतिजनक आचरण
अहिम्नू	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	जो हिन्दू न हो, इतर धर्म को मानने वाला
अहिम	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, मलया	1. जो ठंडा नहीं है प्रत्युत गर्म है 2. जो हिम नहीं हैं
अहिमकर (किरणनू)	संज्ञा	कन्नड़, हिंदी, संस्कृत (मलया)	गर्म किरणों वाला सूर्य
अहीन	विशेषण	हिंदी	1. जो हीन या तुच्छ न हो, जिसमें त्रुटि न हो, अन्यून
अहीन	विशेषण	संस्कृत	2. तुलना में कम नहीं, हीन नहीं 3. जातिच्युत नहीं
अहीनवादी	संज्ञा	हिंदी	1. जो गवाह गवाही देने योग्य न हो
अहीनवादिन्		संस्कृत	2. जो वाद-विवाद में निरुत्तर नहीं, हारा नहीं
अहुत	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, मलया	1. जिसकी आहुति न दी गयी हो, नेवेद्य न मिला हो
अहुत	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	2. ध्यान, स्तव, स्वाध्याय, वेदाध्ययन
अहृदय	विशेषण	गुजराती, नेपाली	1. हृदयहीन, निर्दय, निष्ठुर, कोमल भावना रहित
अहृदय	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	+ 2. विस्मरणशील, भुलक्कड़ (हिंदी)
अहृष	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, मलयालम	अप्रिय, अनभिलषित, अनिच्छित
अहेत	संज्ञा	गुजराती, संस्कृत	हित या प्रेम का अभाव
अहेतु	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1. अकारण, वारणशून्य, निष्प्रयोजन, उद्देश्यहीन
अहेतु		मराठी, बंगला, मलया	2. निष्काम, सहज, निमित्त रहित, स्वाभाविक
अहेतु		कन्नड़, संस्कृत	3. हेतु का अभाव, एक अर्थालंकार
अहेतुक	विशेषण	हिंदी, गुज, मराठी, मलया	1. हेतु रहित, अनर्थक, आकस्मिक, व्यर्थ, बिना
अहेतुक		उड़िया, बंगला, कन्नड़, संस	तात्पर्य, नि.स्वार्थ, फल की इच्छा बिना
अहेतकुडु	संज्ञा	तेलुगु	2. तर्क से न स्पष्ट होने वाला, तर्क शून्य
अहेतुमुगा	क्रियाविशेषण	तेलुगु	अकारण ही, फलाकांक्षा रहित
अहेतुकी	विशेषण	बंगला, गुजराती	कपटभाव शून्य, निस्वार्थ, फलाकांक्षाहीन
अहोणी	संज्ञा	पंजाबी	अनहोनी, जो न होना था वह हो जाना
अहीक	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मलया	1. निर्लज्ज, बेशर्म 2. अभिमानी, घमंडी
अहीक	संज्ञा	संस्कृत	3. बौद्ध मत में दस क्लेशों में एक; बौद्ध भिक्षुक
अहीकन्	संज्ञा	मलयालम	+ 4. निर्लज्ज व्यक्ति (मलयालम)
अह्य	विशेषण	हिंदी, मलया, नेपाली, संस	निर्लज्ज, घमंडी, अभिमानी, टीठ
अहस	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, नेपाली	जो घबड़या हुआ न हो, दृढ़, स्थिर

अनु-अन-अण उपसर्गों की व्याप्ति

'अनु' उपसर्ग भी मस्कृत से आगत है, यह वास्तव में 'अ' उपसर्ग का विकल्प रूप है। 'अ' उन शब्दों से पहले जोड़ा जाता है जो व्यंजन से आरम्भ होते हैं। 'अनु' का 'नु' इत्यन्त है अर्थात् इसमें स्वर नहीं है। यह उन शब्दों से पहले जोड़ा जाता है जो स्वरवर्ण से आरम्भ होते हैं। अतः उनके आरम्भिक स्वर में यह जुड़ जाता है। 'अ' की तरह इसका अर्थ भी 'न' होता है।

संस्कृत के अनन्त, अनन्त, अनाचार, अनादि, अनर्पास्थित, अनेक, अनौचित्य आदि इसी प्रकार के शब्द हैं। जिनके क्रमशः अन्त, अन्त, आचार, आदि, उपस्थित, एक, औचित्य के आरम्भिक स्वरो में यह संयुक्त हो गया है। शब्दों में पूर्व जुड़कर यह निम्नलिखित अर्थों का द्योतन भी करता है।

अर्थ-संकेत

अभाव

गह्रित्य या हीनता

किमी क्रिया के अतीत या पर

अनुचित, गिरुद्ध, विगीत होन का भाव

उदाहरण

अनुधिकार, अनध्याय, अनहोनी

अनुछद, अनगद, अनदग्वा

अनुगिनत, अनमाल

अनुकृत, अनर्गित

'अनु' में व्याकरण के 'नु' इत्यन्त उच्चारण की सूक्ष्मता को सभी जन भाषाएँ नहीं समझ सकीं। पर 'अनु' का ग्रहण किये गया और 'अन' रूप को स्वीकार किया। फलस्वरूप काश में धाड़ी में इन्दी गुजराती, तेलुगु, मराठी और हिन्दी शब्दावली में 'अनु' का प्रयोग भी देखें। 'अनु' के 'नु' के इत्यन्त न रहने का परिणाम यह हुआ कि उक्त भाषाओं में यह 'अ' की तरह व्यंजन से आरम्भ होने वाले शब्दों में भी जोड़ा जाता है। अनगद, अनर्गिता, अनपद आदि ऐसे ही शब्द हैं।

'अण' भारत की प्राच्य भाषाओं में 'अ' का 'ण' उच्चारण प्रचलित है अतः इनमें 'अन' का 'अण' हो गया है। पंजाबी में कुछ कम परन्तु गुजराती, सिंधी में 'अण' उपसर्ग से बने शब्द अधिक मिलते हैं। 'अण' के व शब्द जो 'अन' से बने उपसर्ग युक्त शब्दों के साथ खप सकते थे सम्मिलित क्रम में खपा लिये हैं।

संस्कृत अर्णित, इन्दी में ना 'अनर्गिनत, पंजाबी में 'अणर्णित,' सिंधी में 'अणर्णिया,' हिन्दी, अनघट, पंजाबी में अणघट, सिंधी अणघडया अथवा हिन्दी, अनघट, पंजाबी, गुजराती में अणजाण, सिंधी में अणजाण्य इसी प्रकार के शब्द हैं जो 'अन' के अन्तर्गत दिये हैं।

शेष गुजराती, सिंधी में 100 शब्द 'अण' उपसर्ग युक्त मूलान्त में बच गये थे जो अतः अलग से दिये गये हैं।

उक्त उपसर्गों के कुल शब्द 3232 हैं। जिनमें 477 मलयाळम्, 138 तमिळ्, 168 तेलुगु तथा 152 कन्नड अर्थात् कुल 935 शब्द दक्षिणी भाषाओं के हैं। ये सब 'अनु' उपसर्ग युक्त हैं। अण में 704 हिन्दी के, 100 अण उपसर्ग युक्त अलग शब्द जिनमें अधिकतर गुजराती व सिंधी के शब्द हैं तथा 1493 शब्द अन्य भारतीय भाषाओं के हैं, जिनमें अनु, अन, अण तीनों के शब्द सम्मिलित हैं।

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनंक	विशेषण	गुजराती	1 विना मर्यादा 2 असम्य
अनंक पृष्ठ	मज्ञा	मराठी	पुस्तक का पृष्ठ जिम पर पृष्ठाक न हा
अनंकुश	विशेषण	मराठी	1 अनिर्वचित, निरकृश 2 स्वर वनन 3 उद्दण्ड, स्वच्छ
अनङ्कुश	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	4 कवि स्वातंत्र्य का उपयोग करने वाला
अनंग	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 अशरीरी, निरवयव आकार हीन, देह हीन
अनङ्ग	विशेषण	बंगला, असमी, उड़िया	2 एक प्रकार का मुख्य वाचनीय पदार्थ (ईश्वर)
अनङ्ग	मज्ञा	नेपाली, कन्नड, संस्कृत	+ 3 आकाश, मन, वायु, समीन की एकतात्म (हिंदी, मलयालम, तमिल)
अनङ्ग (न्)	मज्ञा	मलयालम	4 कामदेव, मन्मथ, कन्दर्प, मन्मथज जो अशरीरी है
अनङ्ग	विशेषण	तेलुगु	+ 5 रूप आकृति रत्न निगकर त्रय (ज्ञानेश्वरी मगरी)
अनङ्गम् (न्)	मज्ञा	तमिल	+ 6 वह जो अग न्नी या निगक कोट अग न्नी (असमी)
अनंगक	मज्ञा	हिंदी	नित्त, मन, जन करण
अनंगक्रीड़ा	मज्ञा	हिंदी	1 कामरत्न, रत्नविनाम, वृत्त आलिंगन आदि
अनंगक्रीड़ा (केलि)		मराठी	+ 2 एक मुक्तक छंद विशेष (मलयालम, हिंदी)
अनङ्गक्रीडा		मलयालम, असमी, संस	3 प्रमी प्रथमी का प्रमाला, प्रीटन
अनंगद	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	काम वागना उत्पादक कामान नर
अनंगमदना/रूपा	मज्ञा	मलयालम	शास्ता द्वारा कामना की जान वाली देवी की
अनंगमेखला		मलयालम	नामावलि म म ये नीन नाम
अनंगमुद्रा	मज्ञा	कन्नड	प्रेम प्रदशन की चपरा या भाव भांगमा
अनङ्ग-मोहन		बंगला	1 मदनमोहन, श्री कृष्ण 2 अति मुन्दर
अनंगरंग	मज्ञा	कन्नड, हिंदी, संस्कृत	ममशास्त्र का एक ग्रथ, कोक शास्त्र
अनंगरिपु	मज्ञा	कन्नड, मलयालम	शिव, महादेव, कामदेव के शत्रु
अनंग लेख	मज्ञा	मराठी, हिंदी, संस्कृत, बंगला	प्रमपत्र, रणाय पत्रिका
अनंग लेखं (लेखन)		मलयालम	काम लेखन, मुहूर्त्तनामा
अनंगवती	मज्ञा	हिंदी, संस्कृत	कामिनी, कामवासना युक्त स्त्री, कामवती
अनंगवैरि	मज्ञा	कन्नड, गुजराती	1 काम विध्वंसकारी
अनंगशत्रु	मज्ञा	हिंदी, मलयालम, संस	2 शिव जिन्होंने कामदेव को जला दिया था
अनंगशेखर (रं)	सज्ञा	हिंदी, मलयालम, संस	1 एक वर्ण-वृत्त, दण्डक छंद का एक भेद

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनङ्गसत्तानम्	सज्ञा	तमिल	अनगस्थानम्, कामदेव का मंदिर
अनंगहर	सज्ञा	कन्नड	कामदेव नाशक, शिव
अनङ्गागमं	सज्ञा	मलयालम	कामशास्त्र, वासना का सागोपांग वर्णन करने
अनङ्गागमम्	सज्ञा	तमिल	वाला ग्रंथ, काम ज्ञानदायी शास्त्र
अनङ्गारि	सज्ञा	हिंदी, नेपा, मलया, कन्न	कामदेव के शत्रु, शिव
अनङ्गारि	सज्ञा	मलयालम	प्रेम पीडा, काम पीडा, दर्दे इश्क
अनङ्गि (नू)	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	1 निरवयव, अशरीरी 2 कामदेव, मनजिम, कदर्प
अनङ्गी		हिंदी	3 कामुक व्यक्ति, कागवामनापूर्ण
अनङ्गी		नेपाली	4 ईश्वर, निगकार, निर्गुण
अनङ्गीकरण	सज्ञा	हिंदी	1 अग रहित करने की क्रिया 2 अगीकार न करने का भाव 3 उत्तरदायित्व अगाह्य करना (रिपूडिणेशन) अस्वीकार, तिरस्कार, ग्रहण न करना जिमके उगली या उगलिया न हो
अनङ्गीकारम्	सज्ञा	तेलुगु	
अनुङ्गुति	विशेषण	मलयालम, हिंदी	
अनञ्जन	विशेषण	हिंदी, बंगला, मलया	1 काजल या गलेप बिना, बिना रजन 2 दाग, धब्बा
अनञ्जनं	सज्ञा	मलयालम	कलक रहित 3 निर्दोष, निष्पाप, निर्विकार, नि मबध
अनञ्जन	सज्ञा	संस्कृत	4 आकाश 5 परब्रह्म, विष्णु या नारायण
अनंत	विशेषण	हिंदी, मराठी, मलया	1 अतहीन, अपार, असीम, अशेष, निस्सीम, अवसान रहित 2 असम्य 3 अक्षय, अविनाशी, परमेश्वर नित्य, शाश्वत, सज्ञा शाश्वतता, अविनाशिता
अनंत	सज्ञा	गुजराती, संस्कृत	
अनंत		कन्नड, पंजाबी	
अनन्त		बंगला	4 मेम, आकाश 5 विष्णु, प्रेषनाग, शिव, लक्ष्मण, बलराम
अनन्त		असमी	6 अभ्रक 7 श्रवणनक्षत्र 8 एक जैन तीर्थंकर
अनन्त		उड़िया	9 बुद्ध 10 मोक्ष 11 बाह पर पहनने का एक गहना
अनन्त		नेपाली	+ 12 पृथ्वी (संस्कृत) 13 एक बूटी, एक पेड़
अनन्तं		मलयालम	14- दशमलव का 333 भाग + 15 स्वर्ग (तमिल)
अनन्तम्		तमिल	16 A hundred thousand quadrillion
अनन्तम्		तेलुगु	17 मयूरशिखा + 18 एक खनिज, विष (तमिल)
अनन्तक	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1 अवसान रहित 2 शून्य 3 नित्य, सीमा हीन
अनन्तकं	सज्ञा	मलयालम	4 अनन्तदेव (जैन), विष्णु 5 शिव, रुद्र
अनन्तक		संस्कृत	6 छ मे से एक चलासन

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनन्दर अनन्तकर	सज्ञा विशेषण	तमिल संस्कृत, हिंदी	1 वृहत् अधिक कर देने वाला 2 वृद्धाकर अमीम करने वाला 3 शिव, जन तीर्थकर
अनंतकाय अनंतकार्य	सज्ञा सज्ञा	हिंदी संस्कृत	1 जैन मत में भक्षण निषिद्ध वनस्पति + 2 अमीम या वृहताकार शरीर वाला (विशेषण)(हिंदी)
अनन्तकाल अनन्तकालचक्रं	सज्ञा सज्ञा	बंगला मलयालम	चिरकाल, आवहमान काल (सृष्टि के आरंभ में) समय का अनन्त चक्र, समय अमीम है
अनन्तकालस्थायी अनन्तकालस्थायी	विशेषण विशेषण	बंगला बंगला	1 चिरस्थायी, शाश्वत, सदा सर्वदा व्याप्त 2 अविनश्य, जो सदा स्थायी रहेगा
अनन्तकोटि अनंतग	विशेषण विशेषण	गुजराती हिंदी	असंख्य, करोड़ों की सीमा नहीं, करोड़ों-करोड़ों अनन्तकाल तक चलने वाला या विचरने वाला
अनन्तचतुष्टयम् अनन्तचतुष्टय	सज्ञा सज्ञा	तमिल संस्कृत	आत्मा द्वारा मोक्षप्राप्ति के समय प्राप्त चार गुण या अनन्त (जैन)
अनंतचतुर्दशी अनन्तचतुर्दशी अनन्तचतुर्दशि (ईश्वर)	सज्ञा सज्ञा सज्ञा	हिंदी, बंगला, गुजराती मराठी, असमी, नेपाली तमिल, मलयालम	भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, व्रत चतुर्दशी, विष्णुपूजा का विशेष दिन अनन्त (विष्णु) की पूजा करने का दिन
अनन्तजित् अनन्तज्ञानम् अनन्तज्ञानि अनन्तटंक अनन्तता अनन्ततान अनन्ततृतीया अनंतत्व	सज्ञा सज्ञा सज्ञा सज्ञा सज्ञा सज्ञा सज्ञा सज्ञा	हिंदी, संस्कृत तमिल तमिल हिंदी, संस्कृत हिंदी, मलयालम, गुजराती मलयालम मराठी, संस्कृत, मलया गुजराती, कन्नड	1 चादहवें जैन अर्हत् 2 वामुदेव अमीम ज्ञान, ज्ञान की अमीमता अर्हत्, सर्वज्ञानी, अनन्तज्ञानी मेघराग का पुत्र एक राग (सगीत) अमीमता, निव्यता, शाश्वतता, अपारत्व अतहीन, विस्तृत, मार्ग में फैला हुआ भाद्रपद, मार्गशीर्ष, वैशाख शुक्ल तृतीया शाश्वतता, असीमता, अखंडता, असंख्यता
अनन्तदर्शिनम् अनन्तदर्शन	सज्ञा सज्ञा	तमिल हिंदी	असीमदर्शिता, अनन्तदर्शी होना सब बानों का पूरा ज्ञान (जैन), सम्यक् दर्शन
अनन्तदृष्टि अनन्त दृष्टि	विशेषण सज्ञा	हिंदी, मलयालम संस्कृत	1. दूर दृष्टि, जो बहुत दूर तक देखता हो 2 इन्द्र या शिव का एक नाम
अनन्तदेव	सज्ञा	हिंदी, बंगला, मराठी	1 शेषनाग 2 शेषशायी विष्णु, ब्रह्म, पतंजलि,

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनन्तदेबन्	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	बलराम, वासुकी
अनन्तान्		तमिल	+ 2. सखिया भस्म(तमिल)
अनन्तुडु		तेलुगु	3. जिसके कई नाम हो ऐसा परमेश्वर
अनन्तदेबनायनार	संज्ञा	तमिल	शिव का सृष्टिकर्ता रूप
अनंतनाथ (नाबन्)	संज्ञा	हिंदी, तमिल	जैनियों के चौदहवें तीर्थंकर
अनन्तनिद्र	संज्ञा	बंगला	अंतहीन निद्रा, मृत्यु, चिरनिद्रा
अनन्तपटं	संज्ञा	मलयालम	गले का एक गहना
अनन्तपीतम्	संज्ञा	तमिल	दक्षिणी-काष्ठ
अनन्तप्रकार	संज्ञा	बंगला	बहुत प्रकार के
अनन्तपार	विशेषण	मराठी, हिंदी, संस्कृत	अमर्याद, अपार, असीम, निम्मीम, मीमा गहन
अनन्तपुरं	विशेषण	मलयालम	1 वैकुण्ठधाम 2 त्रिवेन्द्रम, तिरुवनन्तपुरम्
अनन्तबाहु	विशेषण	गुजराती	असंख्य हाथ वाला, परमेश्वर
अनन्तघटी	संज्ञा	मराठी	1. बिना ज्ञान घमंड दिखाना 2 एक ग्रन्थ का नाम
अनन्तमाबि(यी)	संज्ञा	मलयालम, हिंदी	धूर्त, अनेक मायाजाल रचने वाला, छल छद्मवाला
अनंतमूल(सं)	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी, मलया	मारिवा, सहदेवा, सागिका आदि नामों की एक
अनन्तमूल		नेपाली, बंगला, असमी	रक्त शोधक औषधि
अनन्तयात्रा	संज्ञा	बंगला	महायात्रा, मृत्यु, सदा के लिए चले जाना
अनन्तराशि	विशेषण	गुजराती, मराठी, तेलुगु	1. असीम संख्या 2 धर्मराज का शंख
अनन्तराशि	विशेषण	हिंदी	3. असीम गशि या परिमाण
अनन्तबाधि	संज्ञा	तमिल	अनन्तवाची, अनेक अर्थ देने वाला शब्द
अनन्तबिबदे	संज्ञा	तमिल	अनन्त विभवा, पार्वती
अनंतर	क्रियाविशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. निकटवर्ती, सन्निकट, परवर्ती, अव्यवहित
अनन्तर	विशेषण	असमी, उड़िया, बंगला	2 करीब, विरामहीन, तुरंत बाद, निरंतर, लगातार,
अनन्तरं	अव्यय	मलयालम	उपरान्त, पश्चात, अंतर रहित, क्षामीप्य
अनन्तरम्	विशेषण	तेलुगु	3 पडोस का, बगल का, आनुक्रमिक, सतत
अनन्तर		तमिल, कन्नड, मलया	4. ब्रह्म, शिव, रुद्र 5. छः चलासनों में एक
अनन्तरम्	क्रियाविशेषण	तमिल	6. पश्चात, बाद में, पहले के पीछे, परवर्ती
अनन्तरज	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. जिसके पिता का वर्ण माता से एक दर्जे ऊंचा हो

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनन्तरजात		हिंदी, संस्कृत	जैसे वध्या माता आर क्षत्रिय पिता से उत्पन्न
अनन्तरजन्		मलयालम	2 आगे पीछे के भाई बहन, तरंगरिया भाई बहन
अनन्तरावकाश	सजा	मलयालम	क्रमिक, जन्मजात, मध्यान्तरकाल
अनन्तरन्	सजा	मलयालम	1 उत्तराधिकारी 2 पड़ोसी 3 प्रतिद्वन्दी
अनन्तकारन्		मलयालम	4 निकट संबंधी
अनन्तरभाक्ति	विशेषण	मलयालम	1 जो शामिल न किया गया हो 2 विशिष्ट
अनन्तरवन्	सजा	मलयालम	1 बहन का बेटा 2 वारिस 3 छोटाभाई
अनन्तरवारिसु		तमिल	4 अगला संबंधी 5 पश्चात्त अधिकारी
अनन्तरतिलवन्		तमिल	6 उत्तराधिकारी पुत्र, दूसरा उत्तराधिकारी
अनन्तरवावं	सजा	मलयालम	वचाव कानून प्रतिवाद
अनन्तरस्थानं	सजा	मलयालम	उत्तराधिकार, स्थानापन्नता
अनन्तरापुत्रन्	सजा	मलयालम	उच्चवर्ण मा का नीच वर्ण प्रति से पैदा पुत्र
अनन्तरय	सजा	हिंदी	अपरिव्याय अन्तर का अभाव
अनन्तराय	विशेषण	गुजराती, मलयालम, हिंदी	1 निरन्तर 2 निर्विघ्न अन्तरहित अर्थात् 3 अविगम अविगल लगातार
अनन्तरायमु		तेलुगु	
अनंतरित	विशेषण	हिंदी	1 जिसमें अस्थान न पड़ा हो या जिसमें बीच में अंतर न हो 2 अर्थात् अन्तर
अनंतरीय (न्)	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, मलया	जन्म विकास आदि क्रम में ठीक बाद का
अनन्तरूपत्व	सजा	कन्नड	विगतस्वता अन्वस्वता स्वयंकीर्त आकार प्रसर का
अनंतरूप	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 असम्यग् रूप वाला विगतरूप
अनंतरूपन्	सजा	मलयालम, संस्कृत	2 विष्णु, कृष्ण का एक विशेषण
अनन्तहित	विशेषण	हिंदी	1 अश्वनावद 2 क्रमबद्ध 3 अर्थात् 4 मिला, लगा या सग हुआ
अनंतलोचनन्	सजा	तमिल	वृद्ध तिमकी असम्यग् आर्ष्वे त्
अनन्तवाधि	सजा	तमिल	अन्क, वस्तु असम्यग् मा वाचक शब्द
अनन्तवात	सजा	मराठी	अनन्त वात वैसा एव वायु राग शरीर अकडना
अनन्तवान(न्)	विशेषण, सजा	हिंदी, मलयालम	असीम, नित्य शाश्वत
अनन्तवत्	सजा	हिंदी	विष्णु या ब्रह्मा के चार चरणों में से एक

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनंतविजय (यं)	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत, मलया	युधिष्ठिर के शंख का नाम
अनंतवीर्य	विशेषण	हिंदी, बंगला, कन्नड	1 अति पराक्रमी 2 जैनियों के 23वे(भावी)तीर्थंकर का नाम
अनन्तवीरियन्	संज्ञा	तमिल	अनन्तवीर्य, सर्वशक्तिमान, परमेश्वर, अमित तेज
अनन्तवीरियम्/न्	संज्ञा	तमिल	
अनंतव्रत	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	विष्णुप्रीत्यर्थ अनन्त चतुर्दशी व्रत
अनन्तव्रत		असमी, बंगला, संस्कृत	अनन्त चतुर्दशी का उपवास
अनंतव्रतं		मलयालम	+ श्रावण में पद्मनाभ का महोत्सव (मलयालम)
अनन्तव्रतमु		तेलुगु	+ मार्ग शीर्ष में विष्णु का एक व्रत (मलयालम)
अनन्तविरतम्		तमिल	+ भद्र शुक्ल चतुर्दशी का व्रत (असमी, बंगला, हिंदी, मराठी)
अनंतशक्ति	विशेषण	हिंदी, तेलुगु, मलयालम	1 सर्वशक्तिमान, असीम बलशाली
अनन्वशक्ति		तमिल	2 जगन्नियन्ता, परमेश्वर
अनंतशयन	संज्ञा	बंगला, कन्नड	1 शेषशायी विष्णु (अनन्त शेषनाग)
अनंतशयनं (शायि)		मलयालम	+ 2 शैया जिस पर नीद न खुलने, मृत्यु (बंगला)
अनन्तशयनम् (शायि)		तमिल	3 विष्णु का शेषशायी रूप 4 त्रिवेन्द्रम के मंदिर का नाम
अन्तशयनमु	संज्ञा	तेलुगु	+ 5 विष्णु का शय्य जिसमें शेषनाग जैसी वलि या घुमाव है (तेलुगु)
अनन्तशायिन्	संज्ञा	संस्कृत	
अनन्तशिरसा	संज्ञा	मलयालम	वासुकि नाग, असख्य फन वाला शेषनाग
अनन्तशीर्ष (न्)	संज्ञा	(मलयालम), हिंदी	विष्णु, अनन्त शीर्षा: पुरुषा: (गीता)
अनन्तशीर्षा		हिंदी, बंगला, संस्कृत	(वासुकी) वासुकि नाग की पत्नी
अनन्तशय्याशायी	संज्ञा	बंगला	1 अनन्त शीर्ष नाम की शैया पर सोने वाला विष्णु 2 जो मदा गोया रहे, मृत्यु शैया पर सोने वाला असीम ऐश्वर्य या शोभा वाला, परमेश्वर
अनंतश्री	विशेषण	हिंदी	अनन्त पद वाली श्रेणी (गणित)
अनन्तश्रेणी	संज्ञा	गुजराती, मराठी	अनन्त मुख, असीम सुख, ब्रह्मानन्द
अनन्त सुगम्	संज्ञा	तमिल	
अनंता	संज्ञा	हिंदी	1 जिसका अन्त या पारावार न हो
अनन्ता	विशेषण	गुजराती, बंगला	2. असीम सख्या 3. शिवशक्ति, पृथ्वी, पार्वती,
अनन्तै, अनन्ते	संज्ञा	तमिल, कन्नड	दूब घास, अनंतमूल, छोटी पीपल, जकासा, अरणी
अनन्ता	संज्ञा	संस्कृत	4 अनन्त चतुर्दशी का 14 गांठों का धागा + 5 शरीर का रहस्य केन्द्र खोदने कला में एक (तमिल)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनन्तागमम्	संज्ञा	तमिल	उपागम ग्रथ
अनन्तात्मा (तु)		हिंदी, मराठी, मलयालम	परमात्मा, अनन्त आत्मा वाला
अनंतानुबंधी	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	ऐसा दोष या दुष्ट स्वभाव जो कभी न छूटे (जैन)
अनंताभिधेय	संज्ञा, विशेषण	हिंदी, संस्कृत	परमेश्वर, अग्रख्य नामो वाला
अनन्तालयं	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	वैकुण्ठ धाम, गोलोक, मोक्षपद
अनन्तिरस्ति	संज्ञा	मलयालम	भतीजी, भान्जी
अनंती	संज्ञा	हिंदी, मराठी	1 बाह पर बांधने का धागा 2 बाह का एक गहना 3 अत हीन होने की अवस्था या गुण (इन्फिनिटी)
अनन्त्य	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मलया	1 सावकालिक, शाश्वत, नित्य, सर्वदा के लिए,
अनन्दियम्		तमिल	2 अवसान हीन, अविनाशी अनन्त होने का भाव या गुण
अनन्त्यम्		तेलुगु	3 हिरण्यगर्भ के चरण 4 अत तक नहीं
अनंबर	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 वस्त्र हीन, नगा 2 दिगम्बर जैन माधु
अनंभ/ (भसु)	विशेषण	हिंदी	1 जल हीन 2 वाधा रहित
अनंश	विशेषण	हिंदी, कन्नड	1 पैतृक सम्पत्ति में भागीदार न होना
अनंश	विशेषण	संस्कृत, मलयालम	2 जिमका कोई भाग न हो

अन-उपसर्गयुक्त हिंदी-तेलुगु-गुजराती-मराठी शब्दावली

अन-अहिवात	संज्ञा	हिंदी, तेलुगु	मौभाग्यहीनता, वैधव्य
अन- इच्छित	विशेषण	हिंदी	जिसकी इच्छा न की गई हो, बिना चाह
अन-इत	क्रियाविशेषण	हिंदी, मलयालम	दूसरी जगह, कहीं और
अनइस (अनैस)	संज्ञा	हिंदी, तेलुगु	शका, डर, नाश या ध्वंस का भय, बुराई, खराबी
अन-ऋतु	संज्ञा	हिंदी, गुजराती	1 वे मौसम, ऋतु विरुद्ध, ऋतु विपर्यय 2 स्त्री को रजोधर्म न होना
अन-कंप	विशेषण	हिंदी	1 कपन रहित 2 स्थिर, दृढ़, पक्का
अनक	विशेषण	हिंदी	नृच्छ, कमीना
अन-कल	विशेषण	हिंदी	1 जिमका अनुमान या कल्पना न हो सके 2 बहुत अधिक
अन-कहा	विशेषण	हिंदी	1 जो न कहा गया हो, बे कहा, अकथित
अनकहा		तेलुगु	2 जो व्यक्ति कहना न माने
अन-कही	विशेषण	हिंदी	1 जो पहले कभी न कही गयी हो

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनकही		तेलुगु	2 न कहने योग्य फलत अनुचित, अश्लील
अन-काढ़ा	विशेषण	हिंदी	जा निकाला न गया हो, बिना उवाला
अन-कलित	विशेषण	मराठी	उपद्रव रहित अस्पृश

अनु-उपसर्गयुक्त शब्दावली

अनकस्पात	अव्यय	हिंदी, संस्कृत	अचानक नहीं भकारण नहीं
अनक्ष	विशेषण	हिंदी, बंगला, संस्कृत	1 नेच हीन, अध्या नयनहीन, आँखों क बिना
अनक्ष		मलयालम	2 दृष्टि इन्द्रिय रहित अक्षि रहित
अनक्षी		बंगला	+ 3 बिना चक्र आदि का (संस्कृत)
अनक्षज्ञ	विशेषण	मलयालम	गोपद के नामे खलन का ज्ञान नहीं
अनक्षर	विशेषण	हिंदी, गुज, मलया, मराठी	1 लुप्त अक्षर अक्षर लाप 2 वण ज्ञान हीन, अनपठ
अनक्षर		बंगला, कन्नड, असमी	3 अक्षर जो रचाराण न किया जा सक
अनक्षरं(१)	मज्ञा	मलयालम, संस्कृत	4 गृणा 5 मूर्ख 6 दुर्वचन कयाच्य, गाली अनंगन
अनक्षरमु		तेलुगु	या अश्लील शब्द 7 अस्पष्ट रचाराण अक्षर
अनक्षर-कुक्षि	मज्ञा	मलयालम	अक्षर ज्ञान रहित, जिसके पर मे विद्या नहीं
अनक्षर-ध्वनि	मज्ञा	कन्नड	अस्पष्ट या निरर्थक ध्वनि या आवाज
अनक्षि	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1 हाना 2 अधा, नत्रहीन
अनक्षिक		हिंदी	3 मद नेत्र, खगव अस्थि वाला

अन-अण-उपसर्ग युक्त हिन्दी-पंजाबी-तेलुगु-गुजराती शब्दावली

अनख (अनक्ष)	मज्ञा	हिंदी	1 क्रोध, खिन्नता, नागजगी, ईर्ष्या, झझट, डिठौना
अणख	मज्ञा	पंजाबी, गुजराती	+ 2 स्वाभिमान, अपनी प्रतिष्ठ या गौरव का अभिमान (पंजा)
अनखी	विशेषण	हिंदी, तेलुगु	+ 1 स्वाभिमान, गौरवमद (पंजाबी)
अणखी/अणखीला		पंजाबी	2 नन्दी गुम्मा करने वाला, क्रोधी, नखरेवाज
अनखाना	क्रिया	तेलुगु, हिंदी	क्रोध करना, झुझलाना, खीजना, छट होना
अनखिला	विशेषण	हिंदी	बिना खिला, अभी खिला नहीं, अधिकसिन
अनखुला	विशेषण	हिंदी	1 जा खुला न हो 2 त्रिमका भेद या रहस्य प्रकट न हो 3 गभीर, गहन
अनखौंछ	विशेषण	हिंदी, तेलुगु	चिडाचिडा, गुम्मिल, जल्दी कुपित भाव वाला, बुरा

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनगढ़	विशेषण	हिंदी, तेलुगु	1 जा प्रकृत रूप में हो, छीला या गढ़ा न गया हो
अणघड	विशेषण	गुजराती	2 अण्गिच्छत 3 वेगिण पर का, वतुका, वेडाल, टेढा मेंढा
अनघड	विशेषण	मराठी, नेपाली, पंजाबी	4 अक्यड, उजदद 5 अण्गकृत, अण्गवद, अशिक्षित
अनगिना	विशेषण	हिंदी, तेलुगु	1 अण्गिनन, अण्गिनत, जो गिना न गया हो
अणगण्यो (गण, गण्युं)		सिंधी, गुजराती	2 जिसकी गिनती न की जा सक, अण्गव्य
अनगन/गिन		हिंदी, तेलुगु, गुजराती +	3 गर्भ का आठवां मास (मत्ता रिदी)
अनगिनत/गिनती		हिंदी, नेपाली	1 जो दनना अधिक हो कि गिना ही न जा सक
अणगिणत		पंजाबी	2 अण्गव्य, अण्गव्य, व शुमार, वदन
अनगन्ती		नेपाली	3 गव्यातीत

अन्-उपसर्गयुक्त शब्दावली

अनगत्यमु	विशेषण	तेलुगु	अनगत्यम् अण्गित्त
अनगार	विशेषण	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	1 गुा विहीन, जिसके पास घर न हो
अनगारिक	सत्ता	गुजराती, मलयालम	2 जो घर छोड़ दे, निष्पग, भ्रमणकारी
अनगारन्	सत्ता	मलयालम	3 मन्यागी, माधु परियाजक
अनगारिका (स्त्री)		हिंदी	भ्रमणकारि मन्यागी का जीवन या अवस्था

अन-उपसर्गयुक्त शब्दावली

अनगुना	विशेषण	हिंदी	1 जिस माया समझा या विचार न हो 2 निगुण
--------	--------	-------	---------------------------------------

अन्-उपसर्गयुक्त शब्दावली

अनगिन	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 अग्नि का भाव जिसमें आग न हो
अनगिन	सत्ता	गुजराती	2 अग्निमार, मदाग्नि पीड़ित 3 मन्यागी
अनगिन		मलयालम	4 अग्निहात्र न करने वाला 5 अविवाहित
अनगिनदग्ध	विशेषण	मलयालम	1 जिस पिता पर न लाया गया पर, आग में न जलाया हो
अनगिनदग्ध		मराठी, संस्कृत +	2 एक विशेष सम्प्रदाय के लोग (मलयालम)
अनगिनहोत्रि		संस्कृत, मलयालम	अग्निहात्र न करने वाला, यज्ञ न करने वाला
अनघ	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी, संस	1 वृषि, दाघ या पाप रहित, निमन, निष्पगध,
अनघ		असामी, बंगला, कन्नड	अप में रहित, निष्पाप, शाक हीन
अनघ		मलयालम	2 शूद्र, अवित्र, निरापद, सुन्दर, सुरक्षित, पाप शून्य

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनघमु		तेलुगु	3 जिसे चोट न लगी हो, अचोटिल, दु ख रहित (र)
अनघम्		तमिल	4 शिव, विष्णु 5 जो पाप न हो फलत पुण्य (सज्ञा)
अनगन्	सज्ञा	तमिल	निर्मलता शुद्धता, सुन्दरता (तमिल)
अनघुडु	सज्ञा	तेलुगु	1 निष्पाप, निर्दोष, निरपराध व्यक्ति, विशेष सुन्दर
अनघन्	सज्ञा	मलयालम, तमिल	2 ईश्वर, जो पाप रहित है + 3 सुन्दर पुरुष (तमिल)
अनघै	सज्ञा	तमिल	अनघा निष्पाप स्त्री
अन-अण-उपसर्गयुक्त हिन्दी-तेलुगु-मराठी-सिंधी-पंजाबी शब्दावली			
अनघैरी	विशेषण	तेलुगु, हिंदी	अनिमत्रित, अपरिगंचन, अनादृत, बिना कृपाया
अनघटित		मराठी	1 अघटित अमभव 2 अद्भुत 3 कठिन परिश्रम
अनघड	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1 बिना गद्दा, बंडोल नेटा मेटा
अनघः		मराठी, गुजराती	2 अप्रबुद्ध, अमस्कारी, अशिक्षित अपद
अणघड		पंजाबी	3 अमस्कृत, अमभ्य उद्दण्ड, उजड्ड
अणघडयो		सिंधी	4 जो घड छीलकर रवाया सुधाग नहीं गया, अपरिष्कृत
अनघोर		हिंदी, तेलुगु	1 जो घोर न हो, फलत सौम्य 2 सुशील, नम्र
अणघयो	विशेषण	सिंधी	अनकृपा, बिना कृपाया
अणघयुं	विशेषण	गुजराती	न खाया हुआ, न खाया हुआ
अनघाखा	विशेषण	हिंदी	जिम चखा न हो, अनास्वादित
अणघाख्यु	विशेषण	गुजराती	बिना चखा, बिना खाया
अनघाहा	विशेषण	हिंदी	जिम चाहा न हो, ना पसंद, अनिच्छित
अणघाह्यो (घाहिया)		सिंधी, पंजाबी	अनआकांक्षित, अरुचिकर, अवांछित
अनघाहत	विशेषण	हिंदी, तेलुगु	1 वस्तु की प्राप्ति की इच्छा न होना, चाहत या प्रेम
अणघाह्यु	विशेषण	सिंधी	न होना (सज्ञा) +2 अप्रत्याशित (सिंधी)
अणघिन्त	विशेषण	पंजाबी	1 विचार शून्य, ध्यान रहित, बे खबर, नगण्य, नुच्छ
अणघिंतयुं	विशेषण	गुजराती	2 अनधीना, बिना सोचा, आकस्मिक, यकायक
अण घित्त	विशेषण	पंजाबी	भुला हुआ, विस्मृत, मन से उतरा हुआ
अनघीता	विशेषण	हिंदी	1 जो सोचा ही न हो 2 अनचाहा 3, अचानक हुआ
अनघीन्त	विशेषण	हिंदी, तेलुगु	अज्ञात, अपरिचित, बिना पहचाना, बे जाना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनधेन	संज्ञा	हिंदी	वेचैनी, घबराहट, विकलता, व्याकुलता
अन-उपसर्गयुक्त शब्दावली			
अनच्छ	विशेषण	हिंदी, कन्नड, मलयालम	1 मैला कूचैला, अम्वच्छ, मलिन, अगुन्दर
अनच्छ	विशेषण	बंगला	2 जिगमें में प्रकाश रश्मि पार न हो, अपारदर्शी
अणच्छ	विशेषण	गुजराती	+ 3. अनिच्छा, ना-मर्जी (गुजराती)
अनच्छता	सज्ञा	हिंदी	अच्छा न होने की अवस्था
अन-अण-उपसर्गयुक्त शब्दावली			
अणछतुं	विशेषण	गुजराती	गुप्त, छिपा हुआ, प्रकट नहीं
अणछड	विशेषण	गुजराती	जिगमें में छिलका अलग नहीं किया गया
अणछणिआ	विशेषण	पंजाबी	बिना छाना, जो छाना न गया हो
अणछुहुलु	विशेषण	सिंधी	1 अछूता, न हुआ गया, नवीन, कोरा
अणछोहिआ	विशेषण	पंजाबी	2 जिमें छूआ न गया हो या आरंभ न किया हो
अनजन्मा	विशेषण	हिंदी	1 जिसने जन्म न लिया हो 2 ईश्वर
अनजान	विशेषण	हिंदी, नेपाली, तेलुगु	1 अपरिचित जिस को कोई जानना न हो
अणजाण	विशेषण	गुजराती, पंजाबी	2 नाममझ, अज्ञानी, अवोध, अनभिज्ञ, अज्ञ
अणजाणु	विशेषण	सिंधी	3. जो कुछ जानना न हो, जो किसी को जानना न हो
अणजाणई	सज्ञा	सिंधी	अज्ञता, अज्ञानता, अनजानपण
अनजाने	क्रिया विशेषण	हिंदी	बिना जाने या बिना समझे हुए, अनजाने में
अण जाणयस	विशेषण	सिंधी	अनिश्चित अनिर्धारित
अनजोखा	विशेषण	हिंदी	1 जिसे तोला न गया हो 2 जिसकी जांच पड़ताल न की गई हो
अणजोड़	विशेषण	पंजाबी	1. इकसार न होना 2 मेल न होना, अनबन
अनडीठ (डीठ)	विशेषण	हिंदी, तेलुगु	1 बिना देखा हुआ 2 जो दिखाई न दे, अलक्षित
अणडिट्ट (डीठ-बीठुं)	विशेषण	पंजाबी, गुजराती	3. लुप्त, अन्तर्धान, गायब, अदृष्ट
अणडिले	विशेषण	सिंधी	4 अनोखा, नया, नवीन, विचित्र, अभूतपूर्व
अन- उपसर्ग युक्त शब्दावली			
अनइ	विशेषण	हिंदी	1. नम्र, सभ्य, सुशील नहीं, उजड़ फूहड़

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनणु	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 जो सूक्ष्म न हो, फलतः स्थूल या मोटा
अनणु		मलयालम	2 महीन पिसा न हो, मोटा अन्न
अनति	विशेषण	हिंदी, मलया, तेलुगु, संस	अधिक नहीं, थोड़ा, कूछ, कम, अति का उलटा
अनतिकाल	विशेषण	बंगला	कम समय, शीघ्र, तत्काल
अनतिक्रम	सज्ञा	बंगला	1 पर्यादा या औचित्य का उल्लंघन नहीं
अनतिक्रमं		मलयालम	2 अनतिवर्तन 3 उल्लंघन नहीं
अनतिक्रमण	सज्ञा	बंगला	4 अतिक्रमण का अभाव अलघन
अनतिक्रमणीय	विशेषण	हिंदी, बंगला, मलया	1 अलघनीय, अनुल्लघनीय
अनतिक्रम्य		बंगला	2 जिसका अतिक्रमण करना अमाध्य हो या न हो म फ
अनतिक्रान्त	विशेषण	बंगला	अलघित अनतीन, अनतिवाहित, अनतिवाकित
अनतिगत	विशेषण	बंगला	अधिक उत्तम या क्रोधित नहीं
अनतिदीर्घ	विशेषण	बंगला	बढ़न बड़ा या लम्बा नहीं
अनतिदूर	विशेषण	उड़िया, बंगला, कन्नड, संस	1 जो अधिक दूर न हो, पास ही निकटस्थ
अनतिदूरमु		तेलुगु	2 निकटवर्ती, पास का, समीपवर्ती, अल्प दूरस्थ
अनतिदूरवर्ती		बंगला	3 थोड़ा कमले पर, ज्यादा कमले पर नहीं
अनतिपूर्व	विशेषण	बंगला	बढ़न पहले का नहीं, आगन्तुकालीन
अनतिप्रीत	विशेषण	मलयालम	अधिक प्रसन्न नहीं, आनन्दित नहीं
अनतिरिक्त	विशेषण	बंगला	1 आवश्यकता से अधिक नहीं, निरपराजित नहीं
अनतिरिक्त		मलयालम	2 पास पास 3 अभिन्न, अप्रचूर, अपारपूर्ण, अव्यय
अनतिरेकं	सज्ञा	मलयालम	1 बढ़न अधिकता नहीं 2 फानतु नहीं
अनतिरेक	सज्ञा	संस्कृत	3 अभेद, भेद रहित, अभिन्न, पास पास (सम्बन्ध)
अनतिलंघ्य	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	अलघनीय, उल्लंघ्य नहीं
अनतिवर्तन	सज्ञा	बंगला	1 अनुल्लघन, अनतिक्रम 2 पालन, रक्षा
अनतिवर्तनीय	विशेषण	बंगला	1 अलघनीय, अनतिक्रमणीय 2 अवश्य पालनीय
अनतिवर्तित	भूत कृदन्त	बंगला	1 अलघित 2 अनतिक्रान्त
अनतिविलम्ब	विशेषण	बंगला	अधिक देर नहीं शीघ्र, समयानुकूल
अनतिविलम्बी	विशेषण	बंगला	देर करने वाला व्यक्ति नहीं
अनतिविलम्बे	क्रिया विशेषण	असमी, बंगला	1 शीघ्र ही, बिना देर किये 2 धारा प्रवाह

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनतिविलम्बित	संज्ञा	मलयालम	1. विलम्ब का अभाव 2. पैंतीस वागु गुणों में एक
अनतिविलम्बिता	संज्ञा	संस्कृत	3. धारा प्रवाहित
अनतिविस्तार	विशेषण	मलयालम	1. अधिक विस्तार नहीं 2. अल्प प्रसर,
अनतिविस्तृत	विशेषण	बंगला	अल्पव्यापी, संक्षिप्त, साधारण विस्तार
अनतिशय	विशेषण	कन्नड	अधिक नहीं, थोड़ा, यत्किंचित, छोटा
अनतिशयित	विशेषण	मलयालम	सीमा से अधिक नहीं, आवश्यकता से अधिक नहीं
अनतीत	विशेषण	मलयालम	समय बीता नहीं, देर नहीं हुई
अनतीत बाल्य	संज्ञा	बंगला	जिसकी बाल्यावस्था बीती नहीं, जो बालक ही है
अनत्यय	विशेषण	मलयालम	1. अवसान या नाश नहीं 2. अनंत, अनश्वर
अनत्याचारी	विशेषण	मराठी	1. अत्याचारी नहीं 2. अहिंसक 3. सात्विक 4. वैद्य, कन्नूनी
अनदिद्रय (अन)	विशेषण	हिंदी	1. जो दिखई न पड़ता हो 2. जो पहले कभी न देखा गया हो
अनदेखा (अन)	विशेषण	हिंदी, तेलुगु, असमी	अपरिचित, बिना देखा हुआ, जिसे पहले कभी न देखे

अन्-उपसर्गयुक्त शब्दावली

अनद्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	अखाद्य, खाये जाने योग्य नहीं, जो खाया न जा सके
अनद्यतन	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मलया	1. आज का नहीं, आजतक नहीं, आज से भिन्न
अनद्यतन		मराठी, नेपाली, तेलुगु	2. आज की गिनती में नहीं, पहले या बाद का
अनद्यतन		कन्नड, संस्कृत	3. दिनातीत, पुराना 4. आधुनिक नहीं, प्राचीन
अनद्यतन भविष्य	संज्ञा	हिंदी, तेलुगु	1. आने वाली आधी रात के बाद का
			2. भविष्य काल का एक भेद (व्याकरण)
अनद्यतन भूत	संज्ञा	हिंदी, तेलुगु	1. बीती आधी रात से पहला, आज से पहले का
अनद्यतनभूत		कन्नड, मराठी	2. भूत काल का एक भेद, आज से पीछे का
अनधिक	विशेषण	हिंदी, बंगला, संस्कृत	1. अधिक नहीं थोड़ा 2. जिससे बढ़कर कोई न हो, पूर्ण
अनधिक		मलयालम	3. अपरिमित, त्रुटिहीन, असीम
अनधिकार	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. अधिकार का अभाव 2. बेबसी, लाचारी
अनधिकार		नेपाली, कन्नड, संस्कृत	2. शक्ति, योग्यता, पात्रता आदि की कमी
अनधिकार		असमी, उड़िया, बंगला	3. स्वत्व हीनता, क्षमताशून्यता, अपात्रता
अनधिकार		मलयालम	4. जिसके अधिकार छीन लिए गये हों
अनधिकार्य		तेलुगु	5. जो अधिकार के योग्य नहीं, जिसका हक नहीं

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनधिकार चर्चा	सझा	हिंदी	1 जिस विषय का ज्ञान न हो उस पर बोलना
अनधिकार चर्चा		असमी	2 बिना अधिकार या क्षमता के दखल देना
अनधिकार चर्चा		बंगला	3 बिना जाने समझे दखल देना या हस्तक्षेप करना
अनधिकार चर्चा		संस्कृत, तेलुगु	4 क्षमता या अभिज्ञता बिना आलोचना करना
अनधिकारचेष्टा	सझा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	अधिकार या क्षमता के बाहर किमी काम में हस्तक्षेप
अनधिकारप्रवेश	सझा	हिंदी, बंगला	1 निषिद्ध या अननुमत स्थान में प्रवेश
अनधिकार प्रवेश		असमी	2 बिना स्वत्व या अनुमति के कहीं घुस जाना
अनधिकारिता	सझा	हिंदी	अधिकारी न होने की अवस्था या भाव
अनधिकारिन्	सझा	संस्कृत	1 स्वत्व, क्षमता, योग्यता पात्रता न रखनेवाला
अनधिकारि		मलया, कन्नड, तेलुगु	2 जिसे अधिकार या हक प्राप्त न हो
अनविगारि		तमिल	3 जिसने अधिकार खो दिया हो
अनधिकारी		हिंदी, गुजराती, मराठी	4 अपात्र, अयोग्य, अनुमति प्राप्त नहीं
अनधिकारी		नेपाली, बंगला, असमी	5 शक्ति या विशेषता प्राप्त नहीं
अनधिकृत	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 अप्राप्त, अनुपलब्ध, अनायत, वश में बाहर
अनधिकृत		नेपाली	2 जिस विषय की क्षमता या योग्यता प्राप्त न की गई हो
अनधिकृत		मलयासम	3 अवैध अधिकार, बे कायदा हक जमाना, जबदस्ती
अनधिकृत		बंगला	4 कब्जा जो अधिकार पूर्वक न किया गया हो
अनधिकृत		गुजराती	5 जिमका अध्ययन न किया गया हो
अनधिगत	विशेषण	हिंदी	1 जो हस्तगत न हुआ हो
अनधिगत		नेपाली	2 जो अधिकार या वश में न आया हो
अनधिगत		बंगला	3 जिम पर विचार न किया गया हो
अनधिगत		मलयासम	4 अविदित, अपठित, अनजाना, अज्ञात
अनधिगत		संस्कृत	5 अप्राप्त, उपलब्ध नहीं
अनधिगत मनोरथ	विशेषण	हिंदी	जिमकी अभिलाषा पूरी न हुई हो, निराश
अनधिगत शास्त्र	विशेषण	हिंदी	जिसे शास्त्रों का ज्ञान न हो
अनधिगम	सझा	बंगला	1 अप्राप्य, अनायतता, अपठन, अज्ञेय
अनधिगम	सझा	हिंदी	2 जिम विषय को समझना असंभव हो
अनधिगम्य	विशेषण	हिंदी, बंगला	1 पहुंच के बाहर 2 अज्ञेय 3 अप्राप्य, समझ से परे

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनधियुक्त अनधियुक्त	संज्ञा	हिंदी नेपाली	1. अनियोजित 2. काम में न लगा हुआ 3. जीविका साधन रहित 4. बेकार (अन एम्पलायड)
अनधियुक्ति अनधियोजन	भूत कृदन्त संज्ञा	हिंदी, नेपाली हिंदी	1. काम में नियुक्ति नहीं (अन एम्पलायमेंट) 2. खाली पड़ा रखना 3. बेकारी
अनधिरुद्ध	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1. ऊपर न चढ़ा हुआ 2. उतरा हुआ
अनधिष्ठित अनधिष्ठित	विशेषण	हिंदी बंगला	1. जो पदामीन या पद प्राप्त न हो, अस्थापित, अनामीन 2. अनुपस्थित, अप्रतिष्ठित, अनारोपित, अनवस्थित
अनधीत	विशेषण	बंगला, कन्नड	जो पढ़ा या सीखा न गया हो, अपठित-विषय
अनधीन अनधीन अनधीनन्	विशेषण विशेषण संज्ञा	हिंदी, बंगला, संस्कृत मलयालम, कन्नड मलयालम	1. अवशीर्ण, अनायत, कब्जे के बाहर 2. स्वाधीन, स्वतंत्र कार्य करने वाला, काबू में नहीं + 3. बढई जो स्वतंत्र काम करता हो (संज्ञा) (मलया)
अनध्यक्ष अनध्यक्ष अनध्यक्ष	विशेषण	हिंदी, बंगला मलयालम कन्नड, संस्कृत	1. अप्रत्यक्ष, अगोचर, अदृश्य, दृष्टिगत नहीं, इन्द्रियातीत 2. जिम्मा कोई नियन्त्रा न हो, शासक हीन 3. जो अध्यक्ष या नियंत्रक न हो, अध्यक्ष भिन्न
अनध्ययन अनध्ययनं अनत्तिययनम् अनध्ययनमु	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत मलयालम तमिल तेलुगु	1. अध्ययन-पठन का अभाव, वेद शास्त्रादि की पठन समाप्ति, अध्ययन न करना 2. अध्ययन के बीच का अवकाश, वेदपाठ का मध्यान्तर 3. पढ़ाई के दिन की छुट्टी
अनध्यवसाय अनध्यवसाय	संज्ञा	हिंदी तेलुगु	1. मनोयोग एवं परिश्रम का अभाव 2. साधारण अनिश्चय वर्णन का एक अर्थालंकार
अनध्याय अनध्याय अनध्यायं अनध्यायम्	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी, संस नेपाली, बंगला, कन्नड मलयालम तेलुगु	1. पठन का अवकाश, छुट्टी का दिन 2. वेदादि पठन का निषिद्ध दिवस 3. शास्त्रानुसार प्रतिपदा, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा अनध्याय के दिन हैं
अनध्यात अनन अननुकरणीय अननुकूल	विशेषण संज्ञा विशेषण विशेषण	हिंदी, संस्कृत हिंदी, मलया, मराठी, संस बंगला गुज, कन्नड, बंगला, मलया	विस्मृत भूला हुआ, जो याद न हो 1. श्वास-प्रश्वास 2. जीवन, प्राण धारण करना 1. अनुकरण के अयोग्य 2. अनुकरण असाध्य 1. जो हितकर न हो 2. प्रतिकूल, विरुद्ध, विपक्षी

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अननुगत	विशेषण	बंगला	1 पश्चातगामी या सहगामी नहीं 2 अबाध्य
अननुज्ञप्त	विशेषण	हिंदी	1 व्यक्ति जिसे अनुज्ञा या अनुमति नहीं मिली
अननुज्ञात	विशेषण	हिंदी, बंगला	2 कार्य जिसकी अनुमति नहीं मिली, या कार्य जिसे जाहिर नहीं किया गया, अनुमोदित नहीं
अननुज्ञापित		हिंदी	
अननुध्यान	संज्ञा	बंगला	अचिन्तित, अनालोचित, अस्मृत, अननुशीलित
अननुनासिक	विशेषण	गुजराती, कन्नड	अनुनासिक नहीं, ड, ञ, ण, म को छोड़ अन्य व्यंजन
अननुभवनीय	विशेषण	बंगला	अनुभव के अयोग्य, अचिन्तनीय, धारणा के अतीत
अननुभवी	विशेषण	मराठी	जिसे अनुभव नहीं, ना तजुबेकार, अनुभवहीन कव्या
अननुभावक	विशेषण	मलयालम	1 अनुभवजन्य नहीं, मन से साध्य नहीं
अननुभावुक	विशेषण	संस्कृत, मलयालम	2 धारणा के अयोग्य, समझने योग्य नहीं
अननुषाषण	संज्ञा	हिंदी	1 न्याय में वादी के तीन बार कहने पर प्रतिवादी का चुप रहना, मौन स्वीकृति
अननुषाटणम्		तमिल	+ 2 तर्क उपस्थित करने या वाद विवाद में त्रुटि (तमिल)
अननुभूत	विशेषण	हिंदी, बंगला, मराठी	जिसका अनुभव न किया गया हो, अज्ञात
अननुभूतपूर्व		बंगला	अद्भुत, अलौकिक, अनुपलब्ध
अननुमत	विशेषण	हिंदी	1 मत के विरुद्ध, अननुमोदित 2 जिसे अनुमति या
अननुमत्		बंगला	जिसकी अनुमति न मिली हो 3 जो रुचिकर न हो 4 अयोग्य कार्य
अननुमित	विशेषण	बंगला	1 कारण-कार्य देखकर अनुमान न किया गया
			2 पहले से अनवधारित
अननुमेय	विशेषण	बंगला	1. अनुमान के अयोग्य 2 जिसकी धारणा न की गई हो
अननुमोदन	संज्ञा	बंगला	1 मत का विरोध करना 2. नामजूर करना, असम्मत
अननुमोदित	विशेषण	बंगला	असम्मत, नामजूर, मतविरुद्ध, असमर्थित
अननुमरुष	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1 अनुपयुक्त 2 मर्यादा के अनुकूल नहीं 3 असमान
अननुशीलन	संज्ञा	बंगला	1. चर्चा न करना 2. विचार-मनन न करना
			3 ध्यान से न पढ़ना, पढ़कर गुनगुना नहीं
अननुष्यन	संज्ञा	बंगला	1 अकरणीय, अविधान 2. शास्त्रानुकूल न करना
			3 नियम पूर्वक न करना 4. कार्य आरंभ न करना
अननुष्ठित	विशेषण	बंगला	अनुष्ठान का न होना, अकरणीय, अविधान

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनन्न	संज्ञा	हिंदी	अन्न से भिन्न पदार्थ जो खाने योग्य न हो
अनन्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 अन्य या दूसरा नहीं 2. एकमात्र, एकाकी
अनन्य		असमी, उड़िया, बंगला	3. एकसा 4. अभिन्न 5. अनुपम, बेजोड़ 6. अद्वितीय
अनन्य		संस्त, नेपाली, कन्नड, मलया	7. एकनिष्ठ 8. एक रूप, जिसका मंत्र्य किसी और से न हो
अनन्यम्	संज्ञा	तमिल	9. अविभक्त 10. एकाश्रयी, वफादार 11. एकाग्र
अनन्यम्		तेलुगु	12. स्वकीय, निजी 13. विष्णु का एक नाम (संज्ञा)
अनन्यम्	संज्ञा	तमिल	जिसं और कोई महारा न मूझे
अनन्यकार्य	संज्ञा	बंगला	1 अन्य कम शून्य, दुचिन्ता नहीं, एकाग्र कार्य कर्ता
			2. किसी एक विशेष कार्य के लिए दूसरे कार्य त्याग देना
अनन्यगति	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 एकाश्रय, एक मात्र सहारा, केवल एक मार्ग
अनन्यगति		कन्नड, मलया, बंगला	2 निराश्रय, उपायान्तर विहीन, गत्यन्तर शून्य
अनन्यगतिम्		तेलुगु	3 अन्य उपाय का अभाव, दूसरा रास्ता न मिलना
अनन्यगतिक		संस्कृत, गुज, मलया, मराठी	4. मार्ग, युक्ति, आश्रय, आधार, सहाय्य न होना
अनन्यगतिकम्		तेलुगु	5 एक निष्ठ जिसे अन्य कोई महारा न हो
अनन्यगति		तमिल	6. लाचार, विवश, बेबस, अन्य आधार रहित
अनन्यगामिनी	संज्ञा	बंगला	1 जो दूसरे स्थानों पर न जाय 2. अन्य किसी से
अनन्यगामी		बंगला	महवास न 3. एकानुरक्त, एकनिष्ठ
अनन्यगुरु	विशेषण	हिंदी	1. जिससे कोई और बड़ा न हो
अनन्य गुरु	विशेषण	संस्कृत	2. जिसका कोई और गुरु न हो
अनन्यचित्त	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. एकाग्रचित्त 2. एक ही ओर ध्यान या मन लगाने वाला
अनन्यचित्त		मलयालम, बंगला, संस्त	3 एक लक्ष्य, एक उद्देश्य पर टिकने वाला
अनन्यचेतस् (मनस्)		संस्कृत	4. एकनिष्ठ, एक इष्ट देव का ध्यान करने वाला
अनन्यचेता		हिंदी	5. एक में लीन, तन्मय, लौलीन
अनन्यचित्ता		बंगला, गुजराती	6. एक विषय में निविष्टता रखने वाला
अनन्यज	विशेषण	हिंदी, कन्नड	1. जो दूसरों से उत्पन्न न हुआ हो 2. कामदेव
अनन्यजन्मा		संस्कृत, हिंदी	3. स्वयंभू 4 मनसिज, मनुष्य में स्वतः उत्पन्न होने
अनन्यजन्म	संज्ञा	मलयालम	वाला भाव
अनन्यजानि	विशेषण	मलयालम	एक पत्नी वाला, जिसके दूसरी पत्नी न हो

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनन्यता अनन्यत्व अनन्यत्वं	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, तेलुगु गुजराती मलयालम	1. किसी दूसरे से संबन्ध न होने का भाव 2. अभिन्नता, एकनिष्ठता, एक में लीनता 3. अनन्यपन, एकत्व, अद्वैतता
अनन्यतांत्र अनन्यदृशम् अनन्यदृष्टम्	विशेषण विशेषण विशेषण	मलयालम, बंगला तेलुगु तेलुगु	स्वतंत्र, स्वाधीन, अपराधीन, मौलिक 1. जैसा दूसरा न देखा हो 2. सर्व श्रेष्ठ 1: जो और कहीं दिखाई न दे 2 अपूर्व, अनुपम
अनन्यदृष्टि अनन्यदृष्टि अनन्यदृष्टि	विशेषण	हिंदी, संस्कृत बंगला मलयालम	1. एकटक देखना, निरंतर देखना 2. दूसरी ओर दृष्टि न होना 3. निष्ठापूर्वक या एकाग्रचित होकर देखने की स्थिति
अनन्य देव अनन्य देवन्	विशेषण	हिंदी, संस्कृत मलयालम	1. जिसका और कोई देवता न हो, इष्टदेव, एक देव का आराधक 2 परमेश्वर, परमात्मा
अनन्यधर्म अनन्यधर्म	संज्ञा	बंगला असमी	1. एकमात्र धर्म विशिष्ट 2 एक ही गुण युक्त 3. जिसका और कोई धर्म कर्तव्य न हो
अनन्यपर अनन्यपरता	विशेषण संज्ञा	मलयालम हिंदी, संस्कृत	1. विशिष्टरूप में आसक्त या अनुरक्त 2. एक निष्ठता 3 एक ही की भक्ति
अनन्यपरायण	विशेषण	मलयालम, संस्कृत, हिंदी	एक ही में रत रहने वाला, अन्य किसी से प्रेम न
अनन्यपूर्व अनन्यपूर्वन्	विशेषण संज्ञा	हिंदी, संस्कृत मलयालम	जिसके दूसरी स्त्री न हो, जिसने पहले कभी किसी अन्य स्त्री से प्रेम न किया हो, दूसरी भार्या न
अनन्यपूर्वा अनन्यपूर्वा अनन्यपूर्वा	विशेषण संज्ञा संज्ञा	हिंदी, संस्कृत बंगला मलयालम	1. वह स्त्री जो दूसरे की नहीं हुई 2. अविवाहिता, कुमारी 3. निर्मल चरित्र स्त्री 4. किसी दूसरे द्वारा न भोगी गयी स्त्री
अनन्यभाक्कु अनन्यभाज्	विशेषण	मलयालम संस्कृत	1. अन्य किसी का भक्त या सेवक न होना 2. अन्य किसी से अनुराग न रखने वाली स्त्री
अनन्यभक्ति	विशेषण	कन्नड	1. एक ही की शरण में जाने का भाव 2. एक ही देवता की दृढ़ भक्ति
अनन्यभाव अनन्यभाव अनन्यभाव	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत गुजराती मराठी	1. एक निष्ठ भक्ति या साधना 2. सरलभाव 3. आस्था 4. अनन्यता 5. परमभक्ति + 6. प्रामाणिकता (मराठी)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनन्यमन	विशेषण	असमी	1 एक ही ओर चित्त वृत्ति वाला
अनन्यमनस्क		हिंदी, मराठी	2 अनन्यचित्त, एकाग्रचित्त, एक मे लीन
अनन्यमानसु		संस्कृत, मलयालम	3 एकनिष्ठ मनोवृत्ति होना, चंचल चित्त नहीं
अनन्यमना (मनः)		हिंदी, बंगला	4 एक ही ओर ध्यान लगाने वाला
अनन्ययोग	विशेषण	हिंदी	1 अटूट सबंध 2 अच्छा मयोग या शकुन 3 जिसका
अनन्ययोग		गुजराती	सबध दूसरे से न हो, जो अन्य के योग्य न हो
अनन्यराग	विशेषण	मलयालम	दूसरे से प्रेम नहीं, अनन्य अनुराग
अनन्यविषय	विशेषण	मराठी, संस्कृत	1 ओर विषय से सबंध नहीं 2 जिस विषय का और
अनन्यविषय		मलयालम	किसी से सबंध नहीं 3 एकाग्रता, एकनिष्ठता
अनन्य विषयात्सा	विशेषण	हिंदी	4 जिस पर अन्य विषय की मत्ता न हो, एक लक्ष्यता
अनन्यवृत्ति	विशेषण	हिंदी, बंगला	1 जिसकी मनोवृत्ति एकाग्र हो, एक ही विषयलीन,
अनन्यवृत्ति		मराठी, कन्नड	पूर्ण अवधान 2 एक ही स्वभाव का
अनन्यवृत्ति		मलयालम, संस्कृत	3 जिसकी वृत्ति या जीविका का और साधन न हो
अनन्य वेद्य	विशेषण	मराठी	दूसरे लोग जो न जानते हो
अनन्यव्रत	विशेषण	बंगला	निर्दिष्ट कार्य निष्ठ, एकमात्र व्रत परावण
अनन्यव्रता	सज्ञा	बंगला	पतिव्रता गमणी, एक पति परावणा स्त्री
अनन्यशरण	विशेषण	हिंदी, बंगला	1 अन्य आश्रय रहित, निराश्रय, गृह आश्रयहीन
अनन्यशरण		मराठी, मलयालम	2 एक आधार के अतिरिक्त अन्य आश्रय नहीं
अनन्यशरणागति	भूत कृदन्त	कन्नड	3 एक ही की शरण में आया हुआ
अनन्यशासन	विशेषण	मराठी	1 स्वतंत्र 2 सार्वभौमिक शासन
अनन्य शासन	विशेषण	संस्कृत	3 जहा दूसरे की आज्ञा न चले
अनन्यसहाय	विशेषण	बंगला	1 दूसरा कोई सहारा न होना 2 सहायान्तर रहित
अनन्यसदृशम्	विशेषण	तेलुगु	1 दूसरे से श्रेष्ठ, जिसका किसी से साम्य न हो
अनन्यसदृश	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	2 जिसके समान दूसरा न हो, निरुपम
अनन्यसाधारण	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 असामान्य 2 अन्यत्रअप्राप्त, असाधारण प्रतिभा
अनन्यसाधारण		बंगला, मलया, संस्कृत	3 दुर्लभ, विशिष्ट, केवल एक का होना दूसरे का नहीं
अनन्यसामान्य	विशेषण	मराठी, मलया, हिंदी, संस	4 एकानुरक्त, अलौकिक, जिसमें दूसरे का अधिकार न हो
अनन्यसापेक्ष	विशेषण	बंगला	1 स्वाधीन 2 किसी पर निर्भर नहीं

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनन्यसुलभ	विशेषण	बंगला	असाधारण, जो दूसरे आसानी से न पा सकें
अनन्यहृत्तु	विशेषण	मलयालम	1. अनन्य चित्त, एक ही ओर हृदय रखने वाला
अनन्यहृद (हृदय)		संस्कृत, मलयालम	2. एक ही ओर मन लगाने वाला, पूर्ण आसक्त
अनन्याधिकार	संज्ञा	हिंदी	एकाधिकार, किसी अन्य का स्वत्व नहीं
अनन्याधीन	विशेषण	मलयालम	स्वाधीन, स्वतंत्र, किसी का गुलाम नहीं
अनन्यापेक्ष	विशेषण	मलयालम	1. अन्य की आवश्यकता नहीं, स्वावलंबी,
अनन्याहर्म	संज्ञा	तमिल	2. सर्वोच्च- जिस पर और किसी का दावा न हो
अनन्याश्रित	विशेषण	मलयालम	1. स्वाधीन, स्वावलम्बी, जो किसी के आश्रित न हो
अनन्याश्रित		हिंदी	2. सम्पत्ति जिस पर कोई ऋण न लिया गया हो
अनन्योपयोग	विशेषण	उड़िया	1. जिसका कोई और उपयोग न हो
अनन्योपयोग		बंगला	2. जिसका किसी अन्य के लिए उपयोग न हो
अनन्योपाय	विशेषण	उड़िया	1. कोई दूसरा उपाय न हो, उपायान्तर रहित
अनन्योपाय	विशेषण	बंगला	2. विवश, बाध्य
अनन्वय	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. अन्वय शून्य, उपमा रहित 2. संबन्ध रहित, साधन- साध्य
अनन्वय		नेपासी, बंगला, कन्नड	मम्मिलित कर उदाहरण देना जो मिथ्या तर्क है
अनन्वयं		मलयालम	+ 3. वंश हीन 4. असंगति (बंगला)
अनन्वयम्		तेलुगु	+ 5. एक अर्थालंकार-अनुपम अलंकार (मलयालम)
अनन्वयम्		तमिल	6. एक अलंकार जिममें उपमेय स्वयं अपना उपमान हेक्ता है
अनन्वयालंकारम्		तमिल	जिस अलंकार में उपमेय को ही उपमान माना जाय
अनन्वित	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. असम्बद्ध 2. बंधनहीन 3. बे-लगाव, खोटा, अनियमित
अनन्वित		मलयालम, बंगला	4. लोकाचार विरुद्ध, असंगत, वंचित, रहित
अनन्वितम्		तेलुगु	+ 5. पैशाचिक, नारकीय, क्रूरतापूर्ण, भयंकर अत्याचार
अनन्वित		गुजराती	आदि (मराठी) 6. असंगत 7. जिसका अन्वय न हुआ है
अनप	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	जल-रहित, जिसमें अधिक जल न हो
अनपकरणं	संज्ञा	मलयालम	1. निर्दोषिता, भुगतान न होना, प्राप्त न होना
अनपकरण	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	2. हानि न पहुंचाना 3. ऋण न चुकाना (कानून)
अनपकर्मन्		संस्कृत	1. ऋण न चुकाने वाला, नादिहंद (कानूनी)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनपकर्म		संस्कृत, नेपाली	+ 2. प्रतिज्ञा भंग करना, विश्वासघात, कहकर मुकर जाना (नेपाली) + 3. नुकसान न करना (हिंदी)
अनपकर्म		हिंदी	
अनपकसु (अण)	विशेषण	सिंधी	जो पका नहीं, कच्चा, हरा
अनपकर्ष	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	अवनति का अभाव, गिरावट नहीं, उत्कर्ष, उन्नति
अनपकार	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. अहित का अभाव, हानि रहितता, भलाई, हित 2. निर्दोषता, उपद्रवहीनता 3. प्रतिशोध हीनता, प्रतिक्रिया * करना
अनपकारं		मलयालम	
अनपकारमु		तेलुगु	
अनपकारक	विशेषण	हिंदी	1. जो अपकार न करे, अहित शून्य, उपद्रवी नहीं 2. हानि रहित, निरीह, निर्दोष, बे-गुनाह 3. नुकसान देह नहीं, खतरनाक नहीं 4. वह व्यक्ति जो बुराई नहीं करता, भला मानुष जिसको हानि न पहुंची हो, अहित न किया गया हो
अनपकारि	संज्ञा	मलयालम, कन्नड	
अनपकारिन्		संस्कृत	
अनपकारी		हिंदी	
अनपकृत	विशेषण	हिंदी	1. अपक्रम का अभाव 2. दूर न जाना, न हटना
अनपक्रम	संज्ञा	हिंदी	
अनपक्रिया	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत, हिंदी	1. हानि रहितता 2. ऋण न चुकाना पृथक न होना, दूर न होना आघात या क्षति न पहुंचाना
अनपग	विशेषण	मलयालम	
अनपघात	संज्ञा	हिंदी	

अन-उपसर्गयुक्त शब्दावली

अनपघ	संज्ञा	हिंदी, तेलुगु	1. भोजन न पचने का रोग, अजीर्ण, बदहजमी
अनपद्	विशेषण	हिंदी, तेलुगु, नेपाली	1. बे-पढ़ा, अशिक्षित, निरक्षर, उजड़्ड, गँवार 2. पढ़ा-लिखा व्यक्ति नहीं, ना-खाँदा 3. तालीम-याफ़ता नहीं, निरक्षर भट्टाचार्य
अणपद्दयसु		सिंधी	
अणपद् (पढ़िआ)		पंजाबी	

अन्-उपसर्गयुक्त शब्दावली

अनपत्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. संतानहीन, निःसन्तान, जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो 2. बाँझ 3. अपूता 4. जो बच्चों के अनुकूल न हो 5. जिसके संतान पैदा न हुई हो या जीवित न हो 6. जिम व्यक्ति के संतान नहीं, अकेला, निर्वंश 7. उत्तराधिकारी या वारिस न होना, वंशज न होना 8. तर्पण श्राद्ध कर्म-कर्ता न होना
अनपत्य		नेपाली, बंगाली, संस्कृत	
अनपत्य		कन्नड, मलयालम	
अनपत्यमु		तेलुगु	
अनपत्यक	विशेषण	हिंदी	
अनपत्युडु		तेलुगु	

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनपत्यता अनपत्यं	सज्ञा	मलयालम, हिंदी मलयालम	सतान छीनता, पुत्र पुत्री पेदा न होना, नि सतान रहना निर्वंश रहना, उत्तराधिकारी रहित
अनपत्यदोष अनपत्रप अनपदेश	सज्ञा विशेषण सज्ञा	हिंदी, संस्कृत हिंदी, संस्कृत, मलया, नेपाली हिंदी	स्त्री का बाझपन, सतानोत्पत्ति न होने का दोष निर्लज्ज, बेशर्म, बेहया लचर दलील, अग्राह्य तर्क व्यर्थ विवाद
अन-उपसर्गयुक्त शब्दावली			
अनपत्यार	सज्ञा	नेपाली	1 अविश्वाम 2 अनिशचय
अन-उपसर्गयुक्त शब्दावली			
अनपञ्चश अनपञ्चश	सज्ञा सज्ञा	हिंदी संस्कृत	1 जो शब्द विकृत न हुआ हो 2 शब्द तन्मम रूप तद्भव नहीं 3 व्याकरण की दृष्टि से शब्द शब्द
अनपर अनपर	विशेषण सज्ञा	हिंदी, संस्कृत मलयालम	1 अदितीय एक मात्र 2 दूसरे से रहित 3 जिसका कोई अनुयायी न हो 4 ब्रह्म (सज्ञा)
अनपराद्ध अनपराध अनपराध	विशेषण सज्ञा विशेषण	हिंदी असमी, बंगला हिंदी, नेपाली	1 जो कार्य अपराध न हो 2 जिसका कोई अपराध न हो (व्यक्ति) निर्दोष 3 निरपराधता निर्दोषता अपराध शून्यता
अनपराधि अनपराधिन् अनपराधी	विशेषण	तेलुगु, मलयालम, कन्नड संस्कृत हिंदी	निर्दोषी उपद्रवी नहीं बेकसूर निरपराध जिसने दोषयुक्त कार्य नहीं किया अपराधी नहीं बे गुनाह अपराध शून्य
अनपत्तनीय अनपट्ट	विशेषण विशेषण	मलयालम कन्नड	अनिन्ध, निन्दनीय नहीं म्वच्छ निर्मल, निर्दोष प्रतिकूल नहीं, संयागवश
अनपसर अनपसर	विशेषण सज्ञा	हिंदी, मलयालम संस्कृत	1 जिसमें से निकलने का मार्ग न हो 2 बल फुक्क अधिकार करने वाला, जबरदस्ती कब्जा करना + 3 स्त्रीर्ष, अग्राह्य, अगम्य (मलया), अक्षम्य, अन्याय पूर्ण
अनपसारन् अनपहृत	विशेषण	मलयालम बंगला	छल कपट करने वाला, कपटी, दौंधी चुराया हुआ नहीं, अलुटित, अगृहीत
अनपाकरण अनपाकरणं	सज्ञा	हिंदी मलयालम	1 ऋण न चुकाना 2 भुगतान न करना, न मौपना 3 अलग न करना 4 इकारर पूरा न करना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनपाकर्ष अनपाकर्म्म	संज्ञा	हिंदी मलयालम	प्राप्ति न होना, भुगतान न होना, अलग न करना उधार वापिस न होना, देनदारी न देना
अनपाय अनपाय अनपायं अनपायमु	विशेषण संज्ञा	हिंदी, नेपाली, मराठी मलयालम, कन्नड, संस मलयालम तेलुगु	1. भय या अपाय रहित, अविघ्नकारी, बाधा रहित 2. अविनाशिता, अविनश्वरता, क्षय रहितता 3. नित्यता, शाश्वतता, अनश्वरता 4. संकट रहित, खतरे से खाली, क्षय शून्य
अनपायन् अनपायि (न्) अनपायी (पायिनी)	संज्ञा विशेषण	मलयालम मलयालम, संस्कृत हिंदी, नेपाली, मराठी	1. शिव, कल्याणकारी, शंकर 2. नाशहीन 3. दुख रहित, अविकारी, अविनाशी 4. अचल, अटल 5 ध्रुव 6. स्थिर, निश्चल
अनपायिपद अनपाश्रय	संज्ञा विशेषण	हिंदी, संस्कृत हिंदी, संस्कृत	परमपद, मोक्ष, जन्म मरण से छुटकारा, स्थिरपद 1. जो किसी के आश्रित न हो 2. स्वतंत्र
अन-उपसर्गयुक्त शब्दावली			
अनपास(पाश) अनफांस	संज्ञा	हिंदी तेलुगु, हिंदी	1. पाश या बंधन हीनता 2. छुटकारा, मोक्ष 3. फंदे या फांस से छुटकारा या मुक्ति
अनपू-अधपू	संज्ञा	असमी	तरह तरह की दुर्लभ एवं उत्तम वस्तुएं
अन-उपसर्गयुक्त शब्दावली			
अनपेक्ष अनपेक्ष अनपेक्षं अनपेक्षमु	विशेषण विशेषण संज्ञा	हिंदी, नेपाली, मराठी बंगला, संस, मलया, गुज मलयालम तेलुगु	1. अपेक्षा/इच्छा/आस्था/सम्मान अथवा पक्षपात न रखनेवाला, निष्पक्ष, तटस्थ, निरपेक्ष, निरिच्छ 2. उदासीन, संयमी, योगी, लापरवाह, निस्पृह, वीतराग 3. जिसे किसी की चिंता या परवाह न हो. अपेक्षा न हो
अनपेक्षा अनपेक्ष	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मलया नेपाली, कन्नड, संस्कृत	1. जिसकी अपेक्षा या स्पृह न हो. आसक्ति हीनता, बेवस्ता 2. इन्द्र रहितता, लानसा बिना, वीतरागता, स्वाक्लंबन
अनपेक्षन् (प्यक्ति) अनपेक्षी, अनपेक्षिन्	संज्ञा	मलयालम गुजराती, बंगला, संस	1. बेपरवाह, स्वतंत्र, संयमी, योगी, उदासीन 2. अपेक्षा शून्य, तटस्थ, चाह न रखने वाला
अनपेक्षं	क्रिया विशेषण	मलयालम	लापरवाही से, बेरुखी से, स्वतंत्र रूप से
अनपेक्षित अनपेक्षित	भूत कृदन्त	हिंदी, गुजराती बंगला, तेलुगु	1. अप्रत्याशित, अनसोचा, आकस्मिक, असंभावित 2. जिसकी परवाह न की गई हो. अचितितपूर्व

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनपेक्ष्य अनपेक्ष्यमु	विशेषण	हिंदी, मराठी तेलुगु	+ 3. अनिच्छित, बिगाड़, अनिष्ट, अनावश्यक (मराठी) 4. अकल्पित रीति से, अनुमान-संकल्पादि न होना
अनपेत अनपेत अनपेत	विशेषण	हिंदी, गुजराती, संस्कृत नेपाली, बंगला मलयालम, कन्नड	1. व्यतीत नहीं हुआ, दूर नहीं निकला 2. विश्वास पात्र 3. अपृथक, युक्त 4. विहीन या वर्जित नहीं 5. विपथगामी नहीं, अभ्रष्ट, गया बीता नहीं
अनपत्सु	विशेषण	संस्कृत	रूप रहित, कर्महीन (वैदिक)
अन-अण-उपसर्गयुक्त शब्दावली			
अनबन अणबण अणबनाव (बनती) अनबनाव अणबणति	विशेषण	हिंदी, तेलुगु पंजाबी गुजराती मराठी सिंधी	1. खटपट, मनमुटाव, बिगाड़, विरोध 2. भिन्नता, अनमेल, जो साथ वाले के मेल का न हो 3. बेढंगा, भद्दा, भिन्न, दूसरे प्रकार का 4. विविध, अनेक प्रकार का 5. झगड़ा, दो पक्षों में विचारों की एकता न होना
अनबात	सज्ञा	हिंदी	अनुचित या बुरी बात, बिना बात
अनबिध अणबिद अणबीधुं अनबिधा (बेधा)	विशेषण	हिंदी पंजाबी सिंधी, गुजराती हिंदी, तेलुगु	1. जो बेधा या छेदा न गया हो, अछिद्रित 2. जिस मोती को छेद कर माला के योग्य न बनाया हो 3. जिस कन्या के नाक-कान न छेदे गये हों 4. किशोरी या युवती जिसका विवाह न हुआ हो
अनबीह	विशेषण	हिंदी	निर्भय, निडर, अभय
अनबुझ	विशेषण	हिंदी	1. जो समझ में न आ सके 2. जिसे समझ न हो 3. नादान, नासमझ
अणबुज अणबुद्ध	विशेषण विशेषण	मराठी गुजराती	1. अपरिचित, नया 2. विलक्षण, विचित्र, अजीब अज्ञानी, बुद्धिशून्य, ना-समझ
अनबोस अनबोसा अणबोस्युं	विशेषण	हिंदी, तेलुगु, पंजाबी हिंदी गुजराती	1. चुप, मौन 2. बेज़बान, गूंगा, न बोलने वाला 3. जो अपना मुख-दुख न कहे या न कह सके 4. किसी का कहना न मानने वाला
अणबोसायुं	विशेषण	गुजराती	+ 5. नाराज़, क्रुद्ध (पंजाबी), अनियंत्रित बिन बुलाया (गुज) अनुचित, न बोलने योग्य बात

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनव्याह्य अणविआहिआ	विशेषण	हिंदी, तेलुगु पंजाबी	अविवाहित, जिस पुरुष का विवाह न हुआ हो कुआँरा, अकेला, + छड़ा (पंजाबी)
अनभग्न अणभंग	विशेषण	मराठी गुजराती	1 अनभ्यस्त 2 अपक्व, कच्चा 3 टूटा हुआ नहीं अखंड, बिना भाग के, संपूर्ण
अनभा अनभल अनभला	संज्ञा संज्ञा विशेषण	मलयालम हिंदी, तेलुगु हिंदी	चंद्र से 12 वें घर में सूर्य के सिवा अन्य ग्रह होना बुराई, हानि, अहित, नुकसान जो भला न हो, निंदनीय, बुरा, कुत्सित
अनभाया अनभाक्ता अण भावतुं	विशेषण संज्ञा विशेषण	हिंदी हिंदी गुजराती	1. ना पमद, अग्रिय, अरुचिकर 2 आपस का वैर विरोध या द्वेष 3 न भाने या अच्छा न लगने वाला

अन-उपसर्गयुक्त शब्दावली

अनभिग्रह अनभिग्रह अनभिग्रह	विशेषण संज्ञा संज्ञा	हिंदी मलयालम संस्कृत	1. जिसमें भेद भाव न हों 2. भेद शून्यता, एकरूपता 3 सब मतों को उत्तम-मोक्षप्रद मानने का गलत सिद्धान्त (जैनशास्त्र)
अनभिग्राह्य	विशेषण	मलयालम	1 जिस पर आक्षेप न किया जा सके 2 अनाक्रमणाय, जिसे चुनौती न दी जा सके अकुरीन, नीच वंश में पैदा, निम्नवर्गीय
अनभिजात	विशेषण	बंगला, असमी	
अनभिज्ञ अनभिज्ञ अनभिज्ञ अनभिज्ञ	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, उड़िया, बंगला नेपाली, कन्नड, तेलुगु संस्कृत, मलयालम	1. परिचय हीन, अनजान, अपरिचित 2. अज्ञानी, मूर्ख, अपारदर्शी, अनुभवहीन. बुद्धिहीन 3. अज्ञ, अनाड़ी, नावाकिफ़. अनभ्यस्त, मूढ़ 4. जिसे किसी विशिष्ट विषय में जानकारी नहीं
अनभिज्ञता अनभिज्ञात	संज्ञा संज्ञा	हिंदी, नेपाली, तेलुगु कन्नड	परिचय, पहचान या जानकारी न होना अज्ञात, अविदित, न जाना हुआ
अनभिज्ञान अनभिध्या	संज्ञा संज्ञा	गुजराती मलयालम	अज्ञानता, मूर्खता, अनजानपन, मूढ़ता इच्छा विहीनता, आसक्ति हीनता
अनभिध्येय अनभिध्येय	विशेषण	मलयालम संस्कृत	1. जिसका अभिध्यान या संकल्प न किया जा सके 2 जो ध्यान या श्रद्धा योग्य न हो, मानने योग्य नहीं
अनभिप्राय	विशेषण	हिंदी, बंगला, असमी	इच्छा का अभाव, असम्मति, मंतव्य नहीं

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनभिप्रेत	विशेषण	हिंदी, बंगला, असमी	अवांछित, अनुद्दिष्ट, जो अभीष्ट नहीं, अनिष्ट
अनभिभूत	विशेषण	हिंदी	1 जो प्रभावित, वशीभूत, चकित या व्याकुल नहीं
	विशेषण	संस्कृत	2 जो किंकर्तव्यविमूढ अथवा पराजित न हुआ हो
अनभिमत	विशेषण	हिंदी, बंगला, असमी	1 इच्छा विरुद्ध, असम्मत, मत विरुद्ध, अवांछित
	अव्यय	कन्नड, असमी	2 तात्पर्य या अभीष्ट के विरुद्ध, अप्रिय, अनभीष्ट
अनभिमान	विशेषण	असमी	गर्व या अहंकार का अभाव
अनभिमानिता	सज्ञा	गुजराती	अभिमानहीनता, नम्रता
अनभिम्तान	विशेषण	मलयालम	1 जो धूमला या धूमिल न हो, अधूमिल, उज्ज्वल
	विशेषण	संस्कृत	2 मुरझाया नहीं, कुम्हलाया नहीं, खिला हुआ
अनभियोग	सज्ञा	बलभास्य	1 अनभ्यास 2 क्रियान्वयन का अभाव 3 मुकद्दगा
	सज्ञा	संस्कृत, बंगला	न चलने की अवस्था 4 माध्य का अंत
अनभिरूप	विशेषण	हिंदी	जिसका रूप एक मा न हो, बेडोल भ्रमुन्दर
अनभिलक्षितन्	सज्ञा	मलयालम	कपटी, धोखेबाज विश्वासघाती, छलिया
अनभिलक्षित	विशेषण	हिंदी, मलयालम, संस, बंगला	अवांछित, अवाछनीय, अनभिप्रेत, अनुचिन
अनभिलक्षणीय	विशेषण	मलयालम, बंगला	1 जिसके लिए आग्रह या प्रार्थना की इच्छा नहीं
	सज्ञा	मलयालम	2 जिसे इच्छा न हो 3 अभिलाषा का अभाव
	विशेषण	हिंदी	4 रस या रसाग्रवादन का अभाव 5 भूख का अभाव
अनभिवाद्य	विशेषण	हिंदी	1 जो अभिवादन का पात्र या अधिकारी न हो
	संस्कृत	2 जिसका अभिवादन अभी न हुआ हो	
अनभिव्यक्त	विशेषण	हिंदी, बंगला	गुप्त, अस्पष्ट, अप्रकाशित, जो व्यक्त नहीं
अनभिव्यक्ति	सज्ञा	बंगला	अस्पष्टता, अपरिस्पष्टता, अप्रकाश
अनभिज्ञस्त	विशेषण	संस्कृत	निर्गपराध (वैदिक)
अनभिधिक्त	विशेषण	मराठी	जिसका अभिषेक या ताजपोशी न हुई हो, बे ताज
अनभिसंधानं	सज्ञा	मलयालम	1 उद्देश्य या योजना का अभाव, सूक्ष्मभाव
	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	2 तात्पर्यहीनता, रुचि न होना, अविच्छा
अनभिसंधि	सज्ञा	हिंदी	अभिप्राय या प्रयोजन का अभाव
अनभिहित	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1 अन उक्त, अकथित 2 जिसका नाम न लिया गया हो

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनभिहित		गुजराती	3 जो बंधन मुक्त हो 4. अघोषित, अनामित
अनभीष्ट	विशेषण	हिंदी, नेपाली	अभीष्ट नहीं, अप्रिय, अनुदिष्ट, अवांछित
अण-अन-उपसर्गयुक्त शब्दावली			
अनभे	विशेषण	गुजराती	निर्भय, निडर, भय रहित
अनभेवादी	विशेषण	गुजराती	निडर वाणी बोलने वाला
अनभेदी	विशेषण	हिंदी	1 जो भेद या गृहस्य न जाने 2. पराया
अनभो (भव)	संज्ञा	हिंदी, पंजाबी	1. अचभा, अद्भुत, विलक्षण, अलौकिक, अपूर्व
अनभो		तेलुगु	2. अनहोनी बात. अप्राकृतिक बात
अणभोज्य	विशेषण	गुजराती	अखाद्य, खाने योग्य वस्तु नहीं, जो न खाया जाय ऐसा
अणभोल	विशेषण	पंजाबी	1 न भूलने वाला 2 भोला, मीधा मादा
अनभोरी	संज्ञा	हिंदी, तेलुगु	भुलावा, चकमा, धोखा
अन्-उपसर्गयुक्त शब्दावली			
अनभ्यस्त	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. जिसने अभ्यास न किया हो, जिसका अभ्यास नहीं
अनभ्यस्त		तेलुगु, नेपाली, बंगला	2 मुहावरे लिंगा 3 पुनरावृत्ति हीन, अपरिपक्व
अनभ्यस्त		संस्कृत, मलयालम	4 अनाचारित 5 अपठित 6 जिसे आदत न हो
अनभ्यास	संज्ञा	हिंदी, बंगला, मराठी	1 अनध्ययन, अव्यवहार + 2 पाठान्तर (मराठी)
अनभ्यास		गुजराती	3 अभ्यास का अभाव, अकुशलता, आदत न होना
अनभ्यासमु	संज्ञा	तेलुगु	+ 4 शिक्षा का अभाव (मराठी)
अनभ्याश (स)	विशेषण	संस्कृत, मलयालम, (हिंदी)	समीप नहीं दूर, निकटता नहीं - दूरी
अनभ्यासी	विशेषण	हिंदी, मराठी	जिसने अभ्यास न किया हो, कार्य करके उसमें
अनभ्यासिन्		संस्कृत	निपुणता प्राप्त न की हो, जिसे कार्य करना आना ही न हो
अनभ्र	विशेषण	हिंदी, गुज, संस, मलश	1 मेघ हीन 2 स्वच्छ आकाश, मेघ विवर्जित
अनभ्रवृष्टि	संज्ञा	हिंदी	1 बिना मेघ वर्षा 2. अप्रत्याशित लाभ, वह लाभ
अनभ्रवृष्टि	संज्ञा	संस्कृत	जिसकी आशा न की गयी हो
अन-अण-अन्-उपसर्गयुक्त शब्दावली			
अणमठयुं	विशेषण	गुजराती	अप्रिय, अननुकूल, अरुचिकर, ना पसंद
अनमद	विशेषण	हिंदी	जिसे घमड़ न हो. मद मस्त नहीं, निरहकार

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनमना	विशेषण	हिंदी	1. अन्यमनस्क 2. अस्वस्थ, बीमार, बिना मन के
अणमनुं (णुं)		गुजराती	3. अन्यमना, जिसका मन न लगता हो, चंचलमन
अनमना	विशेषण	तेलुगु	4. एकाग्रता की कमी, उदास या खिन्न
अनमनापन	संज्ञा	हिंदी	1. उदासी, खिन्नता 2. अन्यमनस्कता
अणमण्युं		गुजराती	3. बातचीत में रूखापन 4 नाराज, नाखुश, क्रुद्ध
अनमांगा	विशेषण	हिंदी	अयाचित, बिना मांगा हुआ
अनमान	संज्ञा	मराठी	1. उपेक्षा, बेपरवाही, उदासीनता, अनादर, अवगणना
			2. संशय, शक 3.संकोच, हिचक 4.दुर्लक्ष्य
अनमानधें	क्रिया सक्रमक	मराठी	अवज्ञा, उपेक्षा करना, ध्यान न देना, नजर अंदाज करना
अनमानि	विशेषण	मराठी	अनिश्चित, सदिग्ध
अनमानीक	विशेषण	मराठी	आस्था रहित, उदासीन, बेफिक्र, शकास्पद
अनमानीत	विशेषण	मराठी	1. अस्पष्ट 2.अस्वच्छ 3. अनिश्चित
अणमानीतुं	विशेषण	गुजराती	अप्रिय, जिसका मान भग हुआ हो
अनमापा	विशेषण	हिंदी	1. जो मापा या नापा न जा सके 2. जिसकी थाह
अनमापा		तेलुगु	न हो 3.असीम 4.जो मापा न गया हो
अनमारग	संज्ञा	हिंदी, तेलुगु	1 कुमार्ग 2. अनुचित या बुरा आचरण या व्यवहार
अनमित्तम्-पघ	संज्ञा	कन्नड	बिना नापे-तोले न पकाना, भोजन पकाने में
अनमित्तपघ	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	कजूसी करना, कृपण
अनमित्र	विशेषण	मलयालम	1. जिसका अमित्र न हो, शत्रुहीन
अनमित्र (नुं)	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत, (मलया)	2. अमित्र न होने की अवस्था 3.अजातशत्रु
अनमित्त	विशेषण	हिंदी, तेलुगु	1. बेमेल 2. स्वभावतः जिसका किसी से मेल न हो
अनमित्त	विशेषण	तेलुगु, हिंदी	3 जो वस्तु गुण-रूप आदि में दूसरे से न मिले
अणमित्त्यु		सिंधी	4. पराया + 5. अगम्य (सिंधी), बे-जोड़, असंबद्ध
अनमित्तता	विशेषण	हिंदी	1. अप्राप्य, दुष्प्राप्य, जो कहीं भी मिले नहीं
अनमित्तना		तेलुगु	2. अलभ्य, जो सरलता से उपलब्ध न हो
अनमीध	विशेषण	हिंदी	आकस्मिक या असमय में होने वाली मृत्यु
अणमीधु	विशेषण	गुजराती	मीचा हुआ या दबाया हुआ नहीं
अनमीसना	विशेषण	तेलुगु, हिंदी	आंख खोलना, उन्मीलन, खिलना, प्रसन्न होना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनमीब	विशेषण	संस्कृत	रोग रहित, स्वस्थ, हृष्ट पृष्ट
अनमेल	विशेषण	हिंदी, नेपाली, तेलुगु	1 बेमेल, अमिश्रित, शुद्ध, जुदा प्रकार का, बे बनाव
अणमेलु		सिंधी	2 असम्बद्ध 3.अमंगन, निरर्थक +अटपटा (सिंधी)
अणमेल		गुजराती	4 जिसके मेल या बराबरी का कोई न हो, बेजोड़
अनमेली	संज्ञा	हिंदी	एक प्रकार की असंगत और निरर्थक कविता
अनमोल	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1 अमूल्य बहुमूल्य, कीमती
अनमोल		तेलुगु, पंजाबी, मराठी	2 उत्तम, सुन्दर, बेशकीमती, दुर्लभ
अणमूल	विशेषण	गुजराती	3 विन मोल, मुफ्त का (क्रिया विशेषण)
अन-उपसर्गयुक्त शब्दावली			
अनम्बर	विशेषण	मलयालम, बंगाली, संस, हिंदी	1 वस्त्रहीन, आभूषणहीन 2. नगा, नग्न
अनम्बरन्	संज्ञा	मलयालम	3 दिग्म्बर जैन साधु, आकाश रहित
अनय	विशेषण	कन्नड, हिंदी, मराठी	1 अशुभ, आपत्ति, दुर्भाग्य, संकट, विपदा, हानि
अन-अय		नेपाली, संस्कृत, गुज	+ 2 अत्यन्त, सर्वदा, लगातार (तेलुगु)
अनयं	संज्ञा	मलयालम	3 कुमार्ग, बुरा चालचलन, अव्यवस्था
अनयमु		तेलुगु	+ 4. अनीति, अन्याय, अमंगल; जुए का खेल (हिंदी)
अन-उपसर्गयुक्त शब्दावली			
अनरंग	विशेषण	हिंदी	दूसरे रंग का, रंग का मेल नहीं
अनरना	सकर्मक क्रिया	तेलुगु, हिंदी	अनादर करना, सम्मान न करना
अनरथ (अन्)	संज्ञा	गुजराती, हिंदी	अनर्थ, खोटी बात, या खोटा कार्य
अनरस	विशेषण	हिंदी	1. रस हीनता, शुष्कता, रुखाई, मनोमालिन्य, मन मुटाव
अनरस		तेलुगु	2 निरानन्द, दुख 3. रस विहीन काव्य या भोज्य वस्तु
अनरस		पंजाबी	+ 4. दो विरोधी रसों का मिलान, एक काव्य दोष (पंजाबी)
अनरास्ता	विशेषण	हिंदी, तेलुगु	1. जो रंगा न हो, जो लाल रंग का न हो
अणराग	विशेषण	गुजराती	2. जिसमें प्रेम उत्पन्न न हुआ हो +3. बे-बनाव (गुजराती)
अनराह	विशेषण	नेपाली, मराठी	कुमार्ग, कुपथ, अन्याय, अत्याचार
अनरितु	विशेषण	हिंदी, नेपाली	प्राकृतिक कारणों से किसी ऋतु में किसी अन्य ऋतु का भान होना
अनरीति	विशेषण	हिंदी, तेलुगु, नेपाली	1. कुप्रथा, रीतिविरुद्ध आचरण, अनुचित-व्यवहार

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनरीत		हिंदी, नेपाली	2. कुरीति, कुचाल, अन्याय, अनीति
अनरुच	विशेषण	हिंदी	जो रुचे या अटपट न लगे
अनरुचि	संज्ञा	हिंदी, तेलुगु	अरुचि, अनिच्छा, मंदाग्नि नामक एक रोग
अनरूप	विशेषण	हिंदी	1. रूप रहित, अरूप, जिसका रूप या आकार न
अनरूप	विशेषण	तेलुगु	2. कुरूप, बदमूरत 3. अमदृश, असमान
अनु-उपसर्गयुक्त शब्दावली			
अनर्गल	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. बिना रुकावट, निरकुश, अनियंत्रित, निर्बाध, अवा
अनर्गल		असमी, उड़िया, बंगला	2. मनमाना, लगातार, धाराप्रवाह, मुक्त, स्वच्छंद
अनर्गल		नेपाली, कन्नड, संस्कृत	3. बिना ताला कुंजी, बिना अर्गला, खुला हुआ
अनर्गल	विशेषण	मलयालम	4. ऊटपटांग, स्वेच्छाचारी, वाहियात, उच्छृंखल
अनर्गलमु		तेलुगु	+ 5. अपार, पुष्कल, खूब, अगण्य (गुजराती)
अनर्गलं	अव्यय	मलयालम	धाग प्रवाह रूप में, बिना रोक टोक के
अनर्गलरूपे	अव्यय	असमी	अधिक प्रसंग, व्यर्थ की बातें
अनर्गल प्रलाप	संज्ञा	नेपाली, हिंदी	असंगत बातचीत, बकवास
अनर्गली	विशेषण	मराठी	स्वेच्छाचारी, स्वैरिणी, खोटे आचरण वाली स्त्री
अनर्थ	विशेषण	हिंदी, बंगला, मराठी, संस	1. जिसका मूल्य न चुकाया जा सके 2. बहुमूल्य, अमूल्य
अनर्थ		कन्नड, मलयालम, नेपाली	3. नियत दर में कम या अधिक, अयुक्त मूल्य
अनर्थमु		तेलुगु	4. श्रेष्ठ, उत्तम, अच्छा, दुर्लभ, दुष्प्राप्य
अनर्थ	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. जो अर्घ्य या पूजा योग्य न हो
अनर्थ		संस, नेपाली, मलया, कन्नड	2. जो पूजनीय, प्रतिष्ठित, ज्येष्ठ न हो
अनर्थमु		तेलुगु	3. बहुमूल्य, अमूल्य, सर्वाधिक सम्मान्य, प्रतिष्ठित
अनर्जित	विशेषण	हिंदी, नेपाली	कमाया हुआ नहीं, बिना प्रयास प्राप्त
अनर्थ (स्त्री)	संज्ञा	हिंदी, गुज, मराठी (मलया)	1. अर्थहीन, विरुद्ध अर्थ, गलत मतलब, प्रयोजन हीन,
अनर्थ		असमी, बंगला, उड़िया	वाहियात, मूल्यहीन, व्यर्थ, अनुपयोगी, हानिकारक
अनर्थ		नेपाली, कोंकणी, कन्नड	2. अमंगल, अनिष्ट, अशुभ, विनाश, निकम्मा, अभागा
अनर्थ	विशेषण	मलयालम	3. नैराश्रयजनक घटना, भय की प्राप्ति
अनर्थ		पंजाबी	4. दुर्भाग्य, विपत्ति, बुरी घटना, उपद्रव, निराशा
अनर्थम् (अनर्थम्) संज्ञा		तमिल	5. अनुचित कार्य, अन्याय 6. अधर्म से प्राप्त धन

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनर्थगु		तेलुगु	7. विष्णु का एक नाम 8. अर्थ या धन हीनता
अनर्थक	विशेषण	हिंदी, मराठी, गुजराती	1. निरर्थक, व्यर्थ, बे-फायदा निष्प्रयोजन, बेमतलब, निष्फल, बेकार 2. उद्देश्यहीन, अकारण, अनुपयोगी
अनर्थक		असमी, उड़िया, बंगला	3. उलटा अर्थ करने वाला या अर्थ रहित
अनर्थक		नेपाली, संस्कृत	4. अलाभकर, हानिकारक, अनिष्टकर
अनर्थक		मलयालम, कन्नड	5. तुच्छ, वाहियात 6. आभागा 7. असंबद्ध-वचन
अनर्थक		तेलुगु	
अनर्थकपद	संज्ञा	कन्नड	शब्द जिसकी आवश्यकता या मूल्य न हो, व्यर्थ शब्द
अनर्थकर (कारी)	विशेषण	हिंदी, बंगला, नेपाली	1. अशुभकारी, हानिकारक, अनिष्टकारी, उपद्रवी
अनर्थकारिन्		संस्कृत	2. विपरीत अर्थ करने वाला
अनर्थकारि		तेलुगु, मलयालम	3. अनुचित करने वाला, अमंगलकारी
अनरथी		पंजाबी	4. उमद्रूपकारी, कष्ट दायक, दुखद
अनर्थदर्शी	विशेषण	हिंदी	1. अहित करने या सोचने या चाहने वाला
अनर्थदर्शिन्		संस्कृत	2. हानि देने या हानि पहुचाने की सोचने वाला
अनर्थनाशी (शिन्)	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत, (मलया)	शिव, परमेश्वर, दीनदयाल, गरीबनवाज
अनर्तप्युदत्	अकर्मक्रिया	तमिल	अनर्थ हो जाना, कष्ट उठाना, बुरी दस होना
अनर्थपात	संज्ञा	बंगला	अशुभ घटित होना, अनिष्ट सघटन
अनर्तपरम्परे-अनर्थपरंपरा		तमिल, संस्कृत	विपत्ति पर विपत्ति आना
अनर्थ निरनुबन्ध	संज्ञा	संस्कृत	किमी कमजोर गजा को लड़ने के लिए उकसा कर
अनर्थ निरनुबंध	संज्ञा	हिंदी	स्वयं अलग हो जाना
अनर्थ-बुद्धि	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	जिसकी समझ बिलकुल गयी बीती हो
अनर्थभाव	संज्ञा	हिंदी	1. हानि पहुचाने के भाव या विचार से 2. दुष्ट भाव या स्तंभित भाव वाला
अनर्थलुप्त	विशेषण	हिंदी	जिसमें व्यर्थ तत्त्व न हो, सारहीन विषयों से मुक्त
अनर्थवाद	संज्ञा	गुजराती	खोटा वाद विवाद, कुतर्क, अनर्थक वाद (अर्थशाम्त्र)
अनर्थ संशय	विशेषण	हिंदी	1. अनिष्ट की आशंका, अनुपयुक्त कार्य या स्थिति
अनर्थ-संशय	विशेषण	संस्कृत	2. वह सम्पत्ति जिसके लिए कोई खतग न हो
अनर्थहेतु	संज्ञा	बंगला	विपत्ति का कारण, अनर्थकारी कारण
अनर्थानुबंध	संज्ञा	हिंदी	शत्रुनाश पर भी स्वयं की हानि की सभावना हो

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनर्थात्तनुबंध	संज्ञा	हिंदी	अपने लाभ के लिए शत्रु को दी जाने वाली धन-सैन्य सहायता आदि
अनर्थापव	संज्ञा	हिंदी	अनर्थ की सभावना, अनर्थ या हानि की आशंका
अनर्थात्तसंज्ञय	संज्ञा	हिंदी	ऐसी स्थिति जिसमें लाभ की आशा तथा हानि की आशंका दोनों हों
अनर्थ	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1. अनुपयोगी, तुच्छ, वाहियात
अनर्थ्य		मलयालम	2. स्वाभाविक योग्यता हीन
अनर्थ्य		तेलुगु	3. दुश्चरित्र 4. अपूज्य, अभागा 5. लाभ रहित
अनर्पित	विशेषण	कन्नड	जो अर्पित न किया गया हो
अनर्ह	विशेषण	हिंदी, नेपाली, बंगला	1. अर्हता या योग्यता न होना, अपूज्य
अनर्ह		कन्नड, मलयालम, संस	2. अयोग्य, अनुपयुक्त, अनधिकारी, अपात्र, अपर्याप्त
अनर्हनु	संज्ञा	तेलुगु	3. अवांछित, कौड़ी काम का नहीं
अनर्हम्	संज्ञा	तमिल	4. जो दण्ड या पुरस्कार का पात्र न हो
अनर्हता	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	किसी कार्य या पद के योग्य न होने का भाव, अयोग्यता
अनर्हकरण	संज्ञा	हिंदी	1. किसी कार्य या पद के लिए अनुपयुक्त, अपात्र
अनर्हकरण	संज्ञा	संस्कृत	ठहराया जाना 2. अपर्याप्त या अयोग्य सिद्ध करना
अनसंकृत	विशेषण	हिंदी, मलयालम	जो सजाया या अभूषित न किया गया हो
अनसप्तु	विशेषण	सिंधी	जो लब्ध या प्राप्त न हो सके, अलभ्य
अनसत	विशेषण	हिंदी, नेपाली, गुजराती	1. आलस्य या मंदता रहित, जागरूक, दक्ष, सचेत
अनसत		मराठी, बंगला, संस्कृत	2. परिश्रमी, चुस्त, फुर्तीला, तत्पर, चेतनायुक्त
अनसत		मलयालम, तेलुगु	3. जिससे बढ़कर कोई आलसी न हो
अनसतित	विशेषण	हिंदी	जो आलसी न हो, कर्मठ, कार्यशील
अन-उपसर्ग युक्त शब्दावली			
अनसतित	विशेषण	हिंदी	जो लसित या शोभित न हो, अशोभन
अनसतयक	विशेषण	हिंदी, तेलुगु	अयोग्य, अनुपयुक्त, नालायक
अनसिं (गी)	विशेषण	गुजराती	1. लिंग के निशान बिना 2. विदेही, निर्लेप, ब्रह्मरूप
अनसोख	विशेषण	हिंदी	अलक्ष्य, अदृश्य, अगोचर, जो दिखाई न दे
अनसोख	विशेषण	हिंदी	1. जिसका हिसाब न हो सके, अनगिनत, असंख्य

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अणत्सोत्रे	विशेषण	गुजराती	+ 2. किसी भी गिनती में न होना, व्यर्थ, बेकार (गुजराती)
अन्-उपसर्ग युक्त शब्दावली			
अनल्प	विशेषण	हिंदी, नेपाली, मराठी	1. अधिक, ढेर, ज्यादा, पुष्कल, बहुत
अनल्प	विशेषण	बंगला, मलया, कन्नड, संस	2. यथेष्ट, पर्याप्त, काफ़ी
अनल्पम्		तेलुगु	3. थोड़े का उल्टा, उदार, जो थोड़ा न हो
अनबकांशा	संज्ञा	हिंदी	अनिच्छा, किसी परिणाम के लिए आतुर न होना
अनबकाश	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. स्थान न होना, समय न होना, गुंजाइश न होना
अनबकाश		नेपाली	2. प्रसंग, जगह, प्रवेश, फुर्सत आदि न होना
अनबकाश		असमी, बंगला	3. अव्यवधान, अनवसर, अविराम, अनुपयुक्त
अनबकाश		कन्नड	4. अप्रयोज्य, अप्रार्थित + 5. घना बसा हुआ (बंगला)
अनबकाश		मराठी	+ 6. जो जरूरी न हो + 7. जो विधान लागू न हो (मराठी)
अनबकाशिक	संज्ञा	हिंदी	वह ऋषि जो एक पैर पर खड़ा होकर तप करे
अनवगत	विशेषण	हिंदी, बंगला	अविदित, अज्ञात, सूचना प्राप्त नहीं, न जाना हुआ
अनवगाह	विशेषण	हिंदी	1. अथाह, गहरा, गंभीर, गहन
अनवगाह (गाह)	संज्ञा	संस्कृत	2. स्नान का अभाव, गोता लगाकर स्नान योग्य नहीं
अनवगाही	विशेषण	हिंदी	1. जो गहराई में न जाता हो, डुबकी न लगाने वाला
अनवगाहिन्		संस्कृत	2. विशेष अध्ययन न करने वाला
अनवगाह्य	विशेषण	हिंदी	1. जिसका अवगाहन न किया जा सके
अनवगाह्य		संस्कृत	2. जिसकी धाह न पाई जा सके, डूबा न जा सके
अनवगीत	विशेषण	हिंदी	1. जिसकी अवगीत या निन्दा न हो
अनवगीत		बंगला	2. दोष शून्य, अनिदित, परिशुद्ध
अनवगुंठिता	विशेषण	बंगला	घूँघट न करना, अनावृता, अवगुंठन में नहीं
अनवग्रह	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1. अप्रतिरोध्य, अप्रतिरोधनीय, अनिवार्य, अतिप्रबल
अनवग्रह		मलयालम	2. स्वच्छंद, जिसके लिए रुकवट न हो, जिसे कोई न रोके
अनवधिन्म	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1. छिद्रहीन, क्रमबद्ध, भेदरहित, जो काटा न गया हो
अनवधिन्म		असमी, बंगला	2. अखंडित, असीम, अपरिमित, अमर्यादित, अचिह्नित
अनवधिन्म		मलयालम, तेलुगु	3. अपरिभाषित, अनिर्वचनीय, असंशोधित

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनबच्छिन्न		नेपाली	4. धागवाहिक, जिसका तार या धागा न टूटे, क्रम न टूटे 5. बहुत अधिक, लगातार
अनबच्छिन्न		गुजराती	
अनबच्छिन्न		मराठी	6. जिसका विच्छिन्न या स्वतंत्र रूप निश्चित न हो
अनबच्छेद	संज्ञा	गुजराती, बंगला	अखंड, सपूर्ण, टूटा फूटा नहीं, कटा फटा नहीं
अनबच्छेदक	विशेषण	मलयालम	1. असीम, अपरिमित 2. अनिर्वचनीय, अपरिभाषित
अनबच्छेद्य	विशेषण	मलयालम	1. जो भिन्न न किया जा सके 2. जो परिभाषित न हो
अनबद्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1. निर्दोष, अनिघ, निष्कलक, निर्मल, उत्तम, सुंदर
अनबद्य		मलया, मराठी, कन्नड	2. अभर्त्सनीय, अदूयणीय, खोट दोष रहित
अनबद्य		उड़िया, बंगला, संस्कृत	3. जिस पर आपत्ति न की जा सके, फटकारा न जा सके
अनबद्यमु		तेलुगु	4. निष्पाप, हृदयग्राही, अनिदित
अनबद्यं	संज्ञा	मलयालम	कुकुम, केंसर
अनबद्यंग	विशेषण	बंगला, हिंदी, संस्कृत	सर्वांग सुन्दर, सर्वांग सुन्दरी, सुर्गाठिनागी
अनबद्यांगी		बंगला, संस्कृत	अनिघ सुन्दरी, सांगोपांग प्रशमनीया, सुथ्री
अनबद्यरांगं	संज्ञा	मलयालम	माणिक्य
अनबधान	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, मराठी	1. ध्यान न देना, गफलत, बेपरवाही, प्रमाद, उपेक्षा
अनबधान		असमी, बंगला, कन्नड	2. अमनोयोग, अमावधान, एकाग्रचित्त नहीं
अनबधानं		मलयालम, संस्कृत	3. अयत्न, अमनस्क, अन्यमनस्कता
अनबधानम्		तमिल	4. अश्रद्धा, अविचार, ध्यान की कमी (मलयालम)
अनबधानमु		तेलुगु	5. अवधान (मनोयोग) का अभाव
अनबधानता	संज्ञा	हिंदी, मलयालम	1. उदासीनता, अमावधानता, अमनोयोगता
अनबधानता		बंगला, मराठी, संस्कृत	2. लापरवाही, मन न लगाना, स्मृति पर जोर न देना
अनबधानते		कन्नड	3. अमनस्कता, एकाग्रता का अभाव, नामझंझी
अनबधानी	विशेषण	हिंदी, मराठी	अमावधान, ध्यान न देने वाला, अमनस्क
अनबधारित	विशेषण	मलयालम	अज्ञान, ध्यान में नहीं रखा, स्मरण नहीं रखा
अनबधि	विशेषण	हिंदी, कन्नड, संस्कृत	अवधि रहित, असीम, अमंख्य, बेहद, अनन्त
अनबधि		तेलुगु, मलयालम	निरंतर, सदैव, हमेशा, बहुतायत में (क्रियाविशेषण)
अनबधीरित	विशेषण	मलयालम	अमम्मान नहीं, सम्मानित, आदृत, अनपमानित

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनवनं	संज्ञा	मलयालम	1. रक्षा न होना, अमुरक्षित, आश्रयाभाव
अनवन	विशेषण	हिंदी	2. सहायता या आश्रय न देने वाला; कष्ट-प्रद
अनवन्नव	विशेषण	संस्कृत	अपवाद या कलंक में रहित
अनवन्न	विशेषण	हिंदी	1. नाश नहीं 2. अक्षुण्ण 3. अनश्वर, स्थायी
अनवनामित	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	जो झुकाया न गया हो
अनवम	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1. जो झुका न हो, नीचा न हो, छोटा न हो, तुच्छ न हो
अन-अवम्	विशेषण	संस्कृत	2. ऊँचा, बड़ा, श्रेष्ठ, उन्नत
अनवर	विशेषण	हिंदी	जो छोटा न हो, कम न हो, अवर न हो, उत्तम हो
अनवरत	क्रियाविशेषण	हिंदी, गुज, मराठी, मलया	लगातार, निरंतर, सतत, सर्वदा, सदैव
अनवरत	विशेषण	नेपाली, कन्नड, संस्कृत	विना रुके, विना विच्छेद के
अनवरत	विशेषण	असमी, उड़िया, बंगला	अविश्रान्त, विना व्यवधान के
अनवरदम्	क्रियाविशेषण	तमिल	धाग प्रवाह रूप से, अविगम
अनवरतं	अव्यय	मलयालम	सतत प्रवाहमान, अविगम
अनवरतमु	विशेषण	तेलुगु	विना तार टूटे, क्रम भंग हुए, विना
अनवरार्थ	विशेषण	मलयालम, हिंदी, संस्कृत	1. मुख्य, उत्तम, सर्वोत्तम, प्रधान, श्रेष्ठ
अनवरार्थम्	विशेषण	तेलुगु	2. समीचीन, मुखिया; सबसे बढ़िया
अनवरुद्ध	विशेषण	बंगला	अवरोधहीन, बाधरहित, मुक्त, स्वच्छद
अनवरोध	संज्ञा	हिंदी, बंगला	अबाध, निर्विकल, बेरोक टोक, अवरोध का अभाव
अनवलंघन	विशेषण	गुजराती	अवलंघन विना, लामे विना, अतिक्रमण विना
अनवलंब	विशेषण	हिंदी, मलयालम, संस्कृत	वे महाराग, निगश्रय, निराधार, अवलंबन हीन
अनवलंबन	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, बंगला	1. निगश्रयता 2. स्वतंत्रता 3. सहाय न लेना
अनवलंबित	विशेषण	हिंदी	1. जो किसी के सहारे न हो, जिसको किसी का सहाय न हो, निराधार 2. स्वतंत्र 3. आश्रयशून्य
अनवल्लोपन	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	गर्भ न गिरे इसके लिए तीसरे मास होने वाला एक संस्कार, सीमन्तोन्नयन के बाद का संस्कार
अनवल्लोपनं	विशेषण	मलयालम, मराठी	
अनवश्य	विशेषण	कन्नड	1. अनावश्यक, गैर जरूरी, प्राप्त न हो तो भी हानि नहीं
अनवश्यम्	विशेषण	तेलुगु	2. जिसके बिना भी काम चल सके
अनश्रु	विशेषण	तेलगु	आंसु रहित

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनवसर	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. असमय, कुसमय, बेमौक़े, अनुपयुक्त समय
अनवसर		बंगला, असमी, कन्नड	2. फुर्सत, विश्राम नहीं, अवकाश नहीं, निरवकाश
अनवसरं (र)		मलयालम, संस्कृत	3. व्यस्त, कार्य में संलग्न, फुर्सत का अभाव
अनवसरमु		तेलुगु	+ 4. अनावश्यक (तमिल), अपने स्थान पर नहीं
अनवसरम्		तमिल	5. अयोग्य कालीनता, विश्रान्त रहितता, असामयिकता
अनवसादं	संज्ञा	मलयालम	1. अथक, अविश्रान्त 2. शक्ति, स्फूर्ति
अनवसान	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	जिमका अत न होता हो, न हुआ हो; मृत्यु रहित
अनवसित	विशेषण	हिंदी, मराठी	1. जो समाप्त नहीं हुआ हो, अग्त न हुआ हो
अनवसित		मलयालम	2. न ठहरने वाला, लगातार चलने वाला
अनवसित		संस्कृत	+ 3. अनिर्णीत, अनिश्चित, रद्द किया हुआ (मलया)
अनवसितता	संज्ञा	मराठी	न ठहरने या न रुकने का भाव
अनवसित संधि	संज्ञा	हिंदी	1. अनावसित मधि, निर्जन, बजर भूमि को उपजाऊ बनाने की मधि 2. औपनिवेशिक संधि
अनवसित संधि		मलयालम	
अनवसिता	संज्ञा	हिंदी	एक वैदिक छंद
अनवस्कर	विशेषण	हिंदी, मलया, कन्नड, संस	मल रहित, स्वच्छ, शुद्ध, माफ मुथरा, अमलिन,
अनवस्कारमु	विशेषण	तेलुगु	शोधित, सशोधित, निर्मलीकृत, शुचि
अनवस्थ	विशेषण	हिंदी, बंगला, संस्कृत	1. अवस्थित नहीं, गतिशील, अस्थायी
अनवस्थ		मलयालम	2. अदृढ़, अस्थिर, चंचल, डावाडोल, अव्यवस्थित
अनवस्था	संज्ञा	हिंदी, मराठी, नेपाली	1. अस्थिरता, अस्थायित्व, अशांतता, अस्वस्थता
अनवस्था		गुजराती, संस्कृत	2. दुर्वृत्ति, दुराचरण, बुरा चालचलन, आतुरता
अनवस्था		बंगला, असमी	3. एक तर्क दोष, कारण कार्य की वह परंपरा जिममे निर्णय पर न पहुँचें, न्याय शास्त्र मे हेत्वाभाम परंपरा
अनवस्थे		कन्नड	4. अव्यवस्था, गड़बड़ी, झमेला, असहायता, अनिर्णय, अनिश्चितता 5. लापरवाही 6. चांचल्य
अनवस्था		मलयालम, तेलुगु	
अनवसै		तमिल	
अनवस्थान	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. स्थिरता या निश्चय का अभाव, दुर्वृत्ति
अनवस्थानं		मलयालम	2. अस्थिर बुद्धि, चारित्रिक निर्बलता, चांचल्य
अनवस्थायी	विशेषण	हिंदी, बंगला	1. अस्थायी, अस्थिर, विनाशी, क्षणभंग्या,
अनवस्थायिन्		संस्कृत	अनित्य 2. जल्दी विकृत होने वाली

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनवस्थित अनवस्थित अनवस्थित	विशेषण	हिंदी, गुजराती, संस्कृत बंगला, तेलुगु कन्नड, मलयालम	1. अव्यवस्थित, अनियंत्रित, अधीर, अस्थिर, अस्थायी, असंयत, चंचल, परिवर्तनशील, अशान्त, परिवर्तित 2. क्षुब्ध. दुर्वृत्ति युक्त, निराधार, अनैतिक
अनवस्थित चित्त		बंगला	अस्थिर चित्त, चंचल मन
अनवस्थिति अनवस्थिति अनवस्थिति	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत नेपाली मलयालम	1. चंचलता, अस्थिरता, अस्थायित्व, आचरणहीनता 2. अधीरता 3. आधारहीनता, अवलंब शून्यता 4. योगसमाधि होने पर भी चित्त स्थिर न होना
अनवस्थितिक अनवहित	संज्ञा विशेषण	कन्नड हिंदी, मलयालम, बंगला	अस्थिर, चंचल, विकारी, परिवर्तनशील 1. असावधान, बेखुबर, लापरवाह 2. अश्रद्धायुक्त
अनु-अन-अण-उपसर्ग युक्त शब्दावली			
अनबाणा(णी)	विशेषण	मराठी	नगे पांव, उपानह रहित, पैरों में कुछ पहने बिना ही
अनबाद	संज्ञा	हिंदी, तेलुगु	बुरा वचन, कटु भाषण, व्यर्थ विवाद, कुबोल
अनबानं	अव्यय	मलयालम, संस्कृत	बीच में सांस लिये बिना, एक ही सांस में
अनबाप्त	विशेषण	हिंदी, मलयालम, संस्कृत	अप्राप्त, अनुपलब्ध, प्राप्त नहीं
अनबाप्ति	संज्ञा	हिंदी, मलयालम, संस्कृत	अप्राप्ति, अनुपलब्धि, हस्तगत न होना
अनबाप्य	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	बिना राये, अप्राप्य, जिसकी प्राप्ति न हुई हो
अनबास	विशेषण	मराठी	निरंकुश, पदवी, उच्छ्रूल, स्वेच्छरागी, लापरवाह
अनबाय	विशेषण	संस्कृत	बिना अवयव या भाग का
अणविचार्यु	विशेषण	गुजराती	बिना विचारा, बिना सोचे- समझे
अण विश्वास	विशेषण	गुजराती	अविश्वास, यकीन न करना
अनबिंज	विशेषण	पंजाबी	जिसे किसी जीव का भाग न मिले
अनबेक्ष	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1. ध्यान न देने योग्य विषय 2. उदासीन, उपराम
अनबेक्षक	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	असावधान, लापरवाह व्यक्ति, निरपेक्ष
अनबेक्षण अनबेक्षणं	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत मलयालम	1. उदासीनता, असावधानी, अश्रद्धा, लापरवाही 2. निरीक्षण का अभाव, दृष्टिपात न करना
अनबेक्षणीय अनबेक्षणीय	विशेषण	हिंदी नेपाली	1. सामान्य अपराध जिस पर ध्यान देना आवश्यक नहीं 2. अविचारणीय, उपेक्षणीय (नॉन-कागनिजिबल)
अनबासम	संज्ञा	मलयालम	जो परी तरह संन्यासी नहीं. एक जैन साध

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनशन	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1. आहार त्याग, उपवास, निराहार व्रत, फाका
अनशन	संज्ञा	असमी, उड़िया, बंगला	2. आत्महत्या या मोक्ष प्राप्ति के लिए भोजन त्याग
अनशन	संज्ञा	मराठी, तेलुगु, संस्कृत	3. मरने से कुछ दिन पूर्व आहार का त्याग (जैन)
अनश्ननं	संज्ञा	मलयालम	+ 4. कुछ खाने को न होना, पेट खाली होना (मराठी)
अनशनम्	संज्ञा	तमिल	5. अशन अर्थात् भोजन का परित्याग कर देना
अनशनविक्षेप	विशेषण	बंगला	उपवास कातर, अनशन द्वारा पीड़ित
अनशनधर्मपट	विशेषण	बंगला	नैतिक प्रतिवाद स्वरूप उपवास, भूख हड़ताल
अनशनव्रत	संज्ञा	असमी, गुज, कन्नड, बंगला	आहार परित्याग का नियम, मरण पर्यन्त उपवास
अनशनविरतम्	संज्ञा	तमिल	मृत्यु से पूर्व शरीर शुद्धि का उपवास
अनश्च	संज्ञा	गुजराती	घोड़ा नहीं-गधा
अनश्रुत	विशेषण	मराठी	अश्रुत पूर्व, अद्भुत, जो सुना ही न हो

अन-उपसर्ग-युक्त शब्दावली

अनसखरा (री)	विशेषण	हिंदी	पक्की रसोई, घी में तले भोज्य पदार्थ पूरी आदि
अनसखड़ी		गुजराती	घी में पकाई हुई या तली हुए खाद्य वस्तु को शुद्ध माना
अनसखरी		तेलुगु	जाता है, अन्यथा वह सखरी होती है
अनसत्त	विशेषण	हिंदी	असत्य, शुद्ध मत्य नहीं, पूरी सच्चाई नहीं
अनसमझ (ज्ञा)	विशेषण	हिंदी, तेलुगु	1. ना-समझ, नादान 2. जिमनें समझा न हो, अल्हड
अणसमज (जणुं)		गुजराती	3. बालक, छोटी उम्र का, मूर्ख, अच्छी बुद्धि का न होना
अनसहत्त(अणसहू)	विशेषण	तेलुगु, हिंदी, (सिंधी)	1. जो सहा न जा सके 2. जो सहनशील न हो
अनसिखा	विशेषण	हिंदी	1. जिमने कुछ न सीखा हो 2. अशिक्षित
अणसुणिया	विशेषण	पंजाबी	1. वे- सुना हुआ, ध्यान न देना 2. कहे को न सुनना
अनसुना (सुनी)		हिंदी, तेलुगु	3. अभूत पूर्व, जैसा आज तक नहीं सुना

अन-उपसर्ग-युक्त शब्दावली

अनस्तु	विशेषण	मलयालम, तेलुगु	श्वास रहित, प्राण रहित, बेजान, निर्जीव मृत
अनसूट	विशेषण	मराठी	1. जिमका स्वाद न चखा हो, जो जूठा न हो
			2. अप्रयुक्त, पवित्र 3. पूरा, अखंड 4. ब्रह्मचारी
अनसूय (क)	विशेषण	हिंदी, गुज, मराठी, मलया	1. मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष रहित, असूया रहित

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनसूयक		नेपाली, संस्कृत, तेलुगु	3. जिसे किर्मी की उन्नति बुरी न लगती हो
अनसूयु	संज्ञा	मलयालम, तमिल, हिंदी	4. भली ओर उदार वृत्ति या स्वभाव का व्यक्ति
अनसूया	संज्ञा	हिंदी, नेपा, गुज, मरा, संस	1. ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, आदि का अभाव
अनसूया		असमी, उड़िया, बंगला	2. दूसरों की गलती न निकालना
अनसूया, अनुसूये		कन्नड, तेलुगु, मलया (तमिल)	3. अत्रिमुनि पत्नी, दक्षपुत्री, शकुन्तला की सखी
अनस्तु	संज्ञा	नेपाली	अतिथि, अभ्यागत, मेहमान, अचानक आया हुआ
अनस्त	विशेषण	गुजराती	1. सूर्य अस्त नहीं, प्रभावहीन नहीं
अनस्तमित	विशेषण	हिंदी	2. पतन या हार नहीं हुआ, जो अस्त नहीं हुआ
अनस्तित्व	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	अस्तित्व नहीं, विद्यमान नहीं, अविद्यमानता
अनस्थ/अनस्थिक	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मलया	हड़डी नहीं, हड़डी रहित अंग
अनहंकार	संज्ञा	हिंदी	1. घमंड, गर्व या अहम् रहित, निरहंकार
अनहंकारं		मलयालम	2. अहं भावना या घमंड का अभाव
अनहंकारमु		तेलुगु	3. मैं मेरा की प्रवृत्ति में शून्य व्यक्ति
अनहंकृति	संज्ञा	हिंदी, मलयालम, कन्नड	अहंकार या अहम् वृत्ति का अभाव
अनहंकृत	विशेषण	हिंदी	जिसमें घमंड नहीं, निरहंकार व्यक्ति
अण हक	संज्ञा	गुजराती	1. हक या अधिकार का अभाव
अण हक्क	क्रिया विशेषण	पंजाबी, गुजराती	2. अकारण, निर्हेतु, अन्याय पूर्वक, ना हक
अण हक्की	विशेषण	पंजाबी	अन्यायी, अयोग्य, झूठा
अनहद	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, पंजाबी	1. बेहद, अपार, असीम 2. अनाहत नाद
अनहद नाद	संज्ञा	हिंदी, गुजराती	1. वह शब्द जो कान बंद करने पर सुनाई दे
अनहद नाद		तेलुगु, पंजाबी	2. जो शब्द आघात से उत्पन्न नहीं हुआ
अनह (न्)	संज्ञा	हिंदी	कृदिन, बुरादिन, अभागा दिन
अनहन्		संस्कृत	दिन का अभाव, दिन नहीं
अण-अन-उपसर्ग-युक्त शब्दावली			
अनहित	विशेषण	हिंदी, मरा, तेलुगु, कन्नड	1. अहितकारी, शत्रु, अकल्याण, अपकार
अणहित		गुजराती	2. हित का अभाव, अशुभ कामना, हानि, अहित, अप्रिय
अणहित्य	विशेषण	हिंदी	अशुभ चाहने वाला अपकारी

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनहोता अनहोवा अनहोता	विशेषण	तेलुगु पंजाबी हिंदी	1. दरिद्र, निर्धन, जिसके पास कुछ भी न हो 2. जीवन निर्वाह के साधन से रहित; अलौकिक 3. असंभव, अलौकिक घटना, जो कभी होती न दिखे
अनहोनी अनहोणी अनहोणुं		हिंदी, तेलुगु पंजाबी गुजराती	1. अस्तित्व का अभाव 2. असंभव, अलौकिक बात 3. जो नहीं होना चाहिए वह हो जाना 4. कष्टदायक घटना घटित होना, असंभव घटना
अनहोई (हूँव) अनहोँव अनहोतुं	विशेषण संज्ञा विशेषण	पंजाबी, तिंधी पंजाबी गुजराती	1. जो न हुई हो, झूठी; न हो सकने वाली, अनहोनी 2. किसी चीज़ के न होने का भाव, अस्तित्व न होना + 3. कंगालपन, दैन्य, दीनता (मिधी)

अन्-उपसर्ग-युक्त शब्दाली

अनाइवा	संज्ञा	उड़िया	देखना, आंखों के सामने उपस्थित
अनाकर्ण	विशेषण	हिंदी	जो कभी न सुनी हो, जो कभी कान में न पड़ी हो, अश्रुत
अनाकम्प्य	विशेषण	मलयालम	स्थिर, गतिहीन, निष्कम्प, कपाने वाली नहीं
अनाकर्षक	विशेषण	मलयालम, गुजराती	जो आकर्षक न हो, असुन्दर, मोहक नहीं
अनाकार अनाकार अनाकारमु	विशेषण	मलयालम, गुजराती हिंदी, नेपाली, कन्नड तेलुगु	1. आकार या आकृति हीन, भद्दा, रूप विहीन 2. निराकार 3. ईश्वर का एक विशेषण 4. विकृति, भद्दापन, कुरूपता (संज्ञा)
अनाकाल अनाकालं अनाकालमु	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत मलयालम तेलुगु	1. कुममय, अकाल, दुर्भिक्ष, भूखमरी 2. अनावृष्टि, वर्षा की कमी से पड़ा अकाल + 3. बेमौसम, बुरा समय (तेलुगु)
अनाकाल भृतन् अनाकाल	संज्ञा विशेषण	मलयालम, हिंदी, संस्कृत हिंदी	भूख मिटाने के लिए अकाल में नौकरी करने वाला 1. पारदर्शी नहीं 2. आकाश का अभाव 3. आकाश मिन्न
अनाकुल अनाकुलन्	विशेषण संज्ञा	हिंदी, बंग, कन्न, मलया, संस तमिल, मलयालम	1. घबराया हुआ या व्याकुल चित्त नहीं, आत्म संयत 2. शान्त-स्थिर-एकाग्रचित्त + 3. असंगत (हिंदी)
अनाकुलं	संज्ञा	मलयालम	1. संतोष, आनन्द 2. घबराहट से मुक्ति
अनाकृत अनाकृत	विशेषण	हिंदी मलयालम	1. जो रोक नहीं गया, अनिवारित 2. जिसकी देखभाल नहीं की गयी 3. जो पुनः प्राप्ति योग्य नहीं 4. निम्नलिखित में आकाश नहीं बरसि गयी

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनाक्रमण	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, बंगला	आक्रमण न करना, हमला न करना
अनाक्रमणसौंधि	संज्ञा	नेपाली, हिंदी	दो राष्ट्रों में परस्पर युद्ध न करने की प्रतिज्ञा
अनाक्रान्त	विशेषण	हिंदी, बंगला, मलयालम	जिम पर चढ़ाई न की गई हो, जो घबराया न हो
अनाख्य	विशेषण	मलयालम	नाम हीन; जिसका आख्यान नहीं
अनाख्येय	विशेषण	मलयालम	1. जिसे कहना उचित नहीं 2. अवर्णनीय, अकथनीय
अनागन्धित	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, मलयालम	न सृष्टा हुआ, अस्पृष्ट, अप्रभावित
अनागत	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी, संस	1. अप्राप्त 2. अनुपस्थित, अप्रस्तुत
अनागत		असमी, उड़िया, बंगला	3 भविष्यत् या भावी, जो घटित नहीं है आगे आयेगा
अनागत		नेपाली, मलया, कन्नड	4 अज्ञान, अनजान, अपरिचित 5. अनादि
अनागतमु		तेलुगु	+ 6 अद्भुत, विलक्षण, छेनद्वार (हिंदी)
अनागदम्	संज्ञा	तमिल	+ 7. संगीत में एक ताल (हिंदी)
अनागतचिन्ता	विशेषण	मराठी	भविष्य की चिन्ता, जो समय आया नहीं उसकी फिर
अनागदनादम्	संज्ञा	तमिल	शिव की पग शक्ति
अनागत वक्ता	विशेषण	हिंदी	भविष्य वक्ता, अदृष्ट वक्ता, आगे की बनाने वाला
अनागत वक्तृ		संस्कृत	ज्योतिषी, भविष्य की सोचने वाला
अनागतविधाता	विशेषण	हिंदी, बंगला	1. परिणामदर्शी, भविष्य की विपत्ति का प्रतिकारकर्ता
अनागतविधातृ		संस्कृत	2. वह जो भविष्य की तैयारी करे
अनागत श्मश्रु	संज्ञा	मलयालम	जिसके अभी मूँछे न आई हो, युवा न हुआ हो
अनागतध्वा (वु)	संज्ञा	मलयालम	परिवर्तन या विवर्तन का आने वाला रूप
अनागतासक्त	विशेषण	मलया, कन्नड, संस्कृत, हिंदी	जो अभी रजस्वला न हुई हो (कन्या)
अनागतावेक्षणं	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत, हिंदी	भविष्य की ओर देखना, पूर्वदृष्टि, दूरदर्शिता
अनागताबाध	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	भावी कष्ट-रोग आदि, आने वाली विपत्ति
अनागति	संज्ञा	हिंदी, मलयालम	आगमन नहीं, अप्राप्ति, अनुपलब्धि, पहुँच न होना
अनागन्मुक	विशेषण	मलयालम	अनाकस्मिक, परिचित, साधारण व्यक्ति
अनागमं	संज्ञा	मलयालम	1. अनादि काल से अस्तित्व होना, अव्याहत चलता आना
अनागम		हिंदी, मराठी	2. न पहुँचना, न आना, अप्राप्ति
अनागम		संस्कृत	3. सम्पत्ति पर चिरकाल से अधिकार होना, पर उसके
अनागमन	संज्ञा	गुजराती	लेख्य प्रमाण न होना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनागम्य	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1 जहां पहुंचना कठिन हो, अगम्य, दुर्गम
अनागम्य		मराठी, संस्कृत	2. जिसे प्राप्त करना कठिन हो, दुष्प्राप्य
अनागस्तु	विशेषण	मलयालम	1 पाप रहित, निर्दोष, निष्पाप
अनागस्		संस्कृत	2. आरोप विहीन, निरपराध, निष्कलंक
अनागामी	संज्ञा	हिंदी	1. जो लौट कर न आये, जन्म न ले, अभविष
अनागामी		गुजराती	2. जो पुनः जन्म न ले, मोक्ष प्राप्त, निर्याण प्रा
अनागाभिन्		संस्कृत	3. बौद्ध मत में चार में से तीसरी भूमिका
अनागामि		मलयालम	4. जिसका आगम या भविष्य न हो (विशेषण)
अनागार	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1. जिसके घर-द्वार या घरबार न हो
अनागारिकन्	विशेषण	मलयालम	2. सन्यासी, बौद्ध सन्यासी
अनागारिक		संस्कृत, गुजराती	3 यायावर, घूमता रहने वाला, आगार रहित
अनागोंदी	विशेषण	मराठी	1 जिसकी जमा खर्च की व्यवस्था न हो
			2. जो बही खाने में गोंदा अर्थात् लिखा न जा
अनाघात	संज्ञा	हिंदी	1 'आघात का अभाव 2. सगीत में एक ताल
अनाघात	क्रिया विशेषण	मराठी	+ 3. अनिश्चय, बेहद (मगठी)
अनाघात	विशेषण	हिंदी, बंगला, मलयालम	1. जिसे सूघा न गया हो + 2. अनुपभुक्त (बंगल
अनाचरण	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, बंगला	1. आचरण न करना 2. करने योग्य को न करना, कर्तव्यच्युत होना 3. अभद्र व्यवहार करना 4. दुर्व्यव
अनाचरणीय	विशेषण	बंगला	1. अव्यावहारिक 2. जिसके साथ वैवाहिक संबंध क्रिया जा सके 3. जिसके श्वयं का पानी न पिया जा स
अनाचार	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. धर्म समाज नीति या मर्यादा के विरुद्धाचरण
अनाचार		असमी, उड़िया, बंगला	2. निंदित, भ्रष्ट या अभद्र व्यवहार, अयोग्याच
अनाचार		कन्नड, नेपाली, संस, मलया	3. कदाचार, दुराचार, कुचाल, कुरीति
अनाचारम्	संज्ञा	तमिल	4. अनीति, कुप्रथा, अधर्म, शास्त्र विरुद्ध कार्य
अनाचारम्		तेलुगु	5. निंदनीय आचरण, अमंगल दायक कार्य
अनाचारं	संज्ञा	मलयालम	6. भ्रष्टाचार, अभद्राचार (im-morality)
अनाचारी	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. आचारहीन, दुराचारी, भ्रष्टाचारी
अनाचारी		असमी, उड़िया, बंगला	2. कृत्तित, निंदनीय, असभ्य, अधार्मिक आचरण वा

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनाधारी		नेपाली	3 कृयाली 4 अनैतिक एव जघन्य कार्य करने वाला
अनाधारि		कन्नड	5 शास्त्र विहित आचारे के विरुद्ध आचरण करने वाला, आततायी
अनाधारिन्		मलयालम	
अनाच्छादनं	सज्ञा	मलयालम	1 परदा न होना, धृष्ट नही, ढक्कन नही
अनाच्छादित		पंजाबी	2 बिना परद के 3 नगा 4 बिना ढका
अनाजबी	सज्ञा	असमी	रग्मी का अभाव, सुतली न होना
अनाजबीबे	क्रिया विशेषण	असमी	बिना रग्मी के, बिना रग्मी क बाधना
अनाजाले	सज्ञा	असमी	1 बिना ज्वाला के 2 बिना गरमी के
अनाज्ञात	विशेषण	मलयालम, हिंदी	अज्ञात, जो कुछ अत्र तक ज्ञात है उसमे आगे का
अनाज्ञप्त	विशेषण	हिंदी, संस, मलया	1 जिसे आज्ञा न मिली हो 2 कार्य जिसकी आज्ञा न दी हो
अनाज्ञाकारिता	सज्ञा	हिंदी	1 आज्ञापालन न करना 2 आज्ञाकारी न होना आदेश न मानना या उल्लंघन करना
अनाज्ञाकारी	सज्ञा	हिंदी	जो आज्ञा न माने, धृष्ट
अनाज्ञाकारिन्		संस्कृत	आदेश अवहेलक, ना क्रमावगटार
अनाज्ञेय	विशेषण	गुजराती	जिसे आज्ञा न दी जा सके, जो आज्ञा न दी जाय
अनाटन (न्)	सज्ञा	उड़िया, (असमी), बंगला	1 अभाव, कमी, तगी 2 आय से अधिक व्यय
अनाठयीं	अव्यय	मराठी	व्यर्थ, बेसुद, अनुचित काम मे, बे ठिकाने, अरात्री
अनाड़ी	विशेषण	हिंदी, नेपाली, उड़िया	1 अज्ञानी, ना समझ, नादान, जिसे काम की समझ नहीं
अनार्य (अज्ञानी)		संस्कृत	2 अकुशल, अदक्ष, निपुण नहीं, फूहड
अनारी		असमी	+ 3 गेंवार (असम्य)+4 आवारा, शगरती (मराठी)
अनाडी/अनाड		मराठी	+ 5 मूर्ख जो दूसरों के साथ शानि मे न रह सके(असमी)
अनाडंबर	विशेषण	गुजराती, मराठी	1 दिखावे या चकाचौध रहित मरल
अनाडम्बर		मलयालम, बंगला	2 अन्युक्ति रहित, आडम्बर नही, झूठी शान नही
अनादय	विशेषण	हिंदी	दरिद्र, निर्धन, आदय नही धनवान नही
अनातडूकं	सज्ञा	मलयालम	आतरु या दुख का अभाव, भयहीनता
अनातप	विशेषण	हिंदी, मराठी	1 धूप व गर्मी रहित, छाया सहित, छायादार
अनातप	विशेषण	संस्कृत, मलयालम	2 ठंडा, शीतल, जो उष्ण या तप इआ नही
अनातुर	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1 दुख, श्रान्ति, थकान या उद्विग्नता रहित

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनातुर	विशेषण	संस्कृत	2. नीरोग, स्वस्थ, रोग मुक्त, अपरिश्रान्त
अनात्म	विशेषण	हिंदी, गुजराती, कन्नड	1. आत्मा रहित जड़ पदार्थ, नाशवान मृतक देह
अनात्मन्	संज्ञा	संस्कृत, मलयालम	2. विरुद्धात्मा 3. असंयमी, अनियंत्रित
अनात्म	विशेषण	बंगला, मलया	4. जो अपना न हो, निकट संबंध नहीं
अनात्मक	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1. जिसका संबंध आत्मा से न हो
अनात्मक		मराठी	2. क्षणिक, अयथार्थ, अशाश्वत 3. जिसका संबंध
अनात्मक		मलयालम	अपने से न हो 4. संसार का विशेषण (बौद्ध)
अनात्मकदुःख	संज्ञा	हिंदी, मलयालम	1. अज्ञान से उत्पन्न दुःख 2. सांसारिक आधि-व्याधि
अनात्मज्ञ	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1. जिसे आत्मा का ज्ञान न हो, अनात्मवान
अनात्मज्ञ		बंगला, संस्कृत	2. जो स्वयं को न जानता हो, अध्यात्म ज्ञानहीन
अनात्मज्ञ		मराठी, गुजराती	3. इंद्रिय निग्रह शून्य, असंयमी 4. मूर्ख, अज्ञानी
अनात्मधर्म	संज्ञा	हिंदी, गुजराती	शरीर का धर्म या व्यापार, अध्यात्म कार्य नहीं
अनात्मनीन	विशेषण	संस्कृत	1. जो अपने लिए हिनकर न हो 2. निस्वार्थ, स्वार्थगर्हि
अनात्मवर्ग	संज्ञा	मराठी	माया कार्य, जड़ समुदाय, अप्राणवान वस्तु
अनात्मवाद	संज्ञा	हिंदी, गुजराती	1. आत्मा का अस्तित्व न मानने वाला सिद्धान्त
अनात्मवादं		मलयालम	2. जड़वाद, भौतिक सिद्धान्त का अनुयायी
अनात्मवादम्		तमिल	3. ब्रह्म-जीव-जगत का अध्यात्मवाद न मानना
अनात्मवादी	विशेषण	गुजराती	जड़वादी, भौतिक वादी, मायालिप्त
अनात्मवान	विशेषण	हिंदी, मलयालम	असंयमी, अजितेन्द्रिय, आत्मा के परिष्कार
अनात्मवत्		हिंदी, मलयालम, संस्कृत	के लिए नियम संयम का पालन न करना
अनात्मा	संज्ञा	गुजराती, मराठी	1. आत्मा न माने ऐसा, अज्ञानी
अनात्मै	संज्ञा	तमिल	+ 2. जो आत्मा नहीं, जिस में आत्मा नहीं (तमिल
अनात्मसम्पन्न	विशेषण	मराठी, संस्कृत	वृद्धिमान या इंद्रियजित नहीं, आत्म-परिष्कार
			नहीं, मूर्ख
अनात्मीय	विशेषण	बंगला	1. आत्मीयता शून्य, भौतिकवादी, शत्रु, विपक्षी
अनात्मीय		मलयालम	2. जिसका अपने परिवार से संबंध न हो
अनात्म्य	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1. जिसका संबंध आत्मा से न हो, शरीर रहित

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनात्म्य (यं)	विशेषण/सज्ञा	मलयालम	2 जो अपने मित्रों व कृदुस्वियों में स्नेह न रखे
अनात्यंतिक	विशेषण	हिंदी	1 आत्यंतिक नहीं, सीमा में बाहर नहीं
अनात्यंतिक		संस्कृत	2 अनित्य, अंतिम नहीं, सविगम, पुनर्गवर्तक
अनादर	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 अमन्मान, अवहेला, उपेक्षा, अवज्ञा, निंदा
अनादर	सज्ञा	असमी, उड़िया, बंगला	2 अग्रमान, बेइज्जती, निरस्कार, घृणा
अनादर		नेपाली, कन्नड, पंजाबी	3 अग्रनिष्ठा, अग्रनिग्रह, धिक्कार 4 निरपेक्ष, विचार
अनादरं	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	शून्य, वे वास्ता, उदासीन, उपेक्षा करने वाला
अनादरम्	सज्ञा	तमिल	5 एक अर्थालंकार जिसमें कोई दूसरी वस्तु प्राप्त करने की आज्ञा से प्राप्त वस्तु का अनादर किया जाता है
अनादरमु		तेलुगु	
अनादरण	सज्ञा	मराठी, कन्नड, हिंदी	अवहेलना निरस्कार, धिक्कार (dis-honouring)
अनादरणीय	विशेषण	हिंदी, बंगला, गुजराती	आदर के अयोग्य, आदर का पात्र नहीं, अवहेलनीय
अनादरणें	सकर्मक क्रिया	मराठी	अवमानना, तुच्छ समझना, ना चीज मानना
अनादर बुद्धि	सज्ञा	मराठी	1 निरस्कार भावना 2 उदासीनता, लापरवाही
अनादरबु	सज्ञा	तमिल, मलयालम	1 अमहाय अवस्था 2 अनादर निंदा, उपेक्षा (मलया)
अनादरित	विशेषण	हिंदी	निरस्कृत, अस्मान्नात, उपेक्षित
अनादरितस्	सकर्मक क्रिया	तमिल	अनादर करना, धिक्कारना
अनादाय	सज्ञा	बंगला	अप्राप्ति, अपरिशोध, अमपादन, वसूली का अभाव
अनादायी	विशेषण	बंगला	वसूली बाकी, लेनदारों शेष, ना दिहद
अनादि	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 आदि, आरंभ, उत्पत्ति रहित, सदा से चला आ रहा ।
अनादि		असमी, उड़िया, बंगला	2 नित्य, सनातन, असीम, मानतिक, शाश्वत
अनादि		कन्नड, तेलुगु, तमिल	3 ईश्वर, माया, पार्वती जिनका आरंभ नहीं है
अनादि		नेपाली, पंजाबी, संस्कृत	4 जिसके आरंभ का पता न चले (ग्रथ आदि)
अनादि		मलयालम	+ 5 सृष्टि या काल आरंभ से पूर्व का (पंजाबी)
अनादि अनन्त	विशेषण	असमी, संस्कृत	असीम, अनंत, जिसका आदि अन्त न ही, सनातन
अनादिकारणम्	सज्ञा	तमिल	1 वह कारण जिसका आरंभ नहीं 2 जो सदा से है, परमेश्वर
अनादितरिस्तु	सज्ञा	तेलुगु, मलयालम	जिस जमीन पर कभी हल न चला हो
अनादित्त्व	सज्ञा	हिंदी, गुजराती	नित्यता, अनादि होने का भाव या अवस्था
अनादिनिस्तम्	सज्ञा	तमिल, संस्कृत	अनादिनित्य, आरंभान्त रहित, शाश्वत, सनातन

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनादि निधन	विशेषण	हिंदी, मलयालम, संस्कृत	सनातन, सतत, नित्य, अथ-इति रहित परमेश्वर
अनादिपरंपरा	अव्यय	बंगला	1. अनादिकाल से 2. अनादि संख्या पर्यन्त
अनादिपातन	विशेषण	असमी	पृथ्वी-रचना के विवरण की पुस्तक
अनादिबंधम्	संज्ञा	तमिल	आत्मा का शाश्वत बंधन (शैव मत)
अनादि पत्तन्	संज्ञा	तमिल	मानवात्मा जो कर्म बंधन में बंधी है (अनादि बंधन)
अनादि पोवम्	संज्ञा	तमिल	प्रकृति द्वारा आत्म बंधन से मुक्ति (शैव) (अनादि बोधम्)
अनादिष्ट	विशेषण	हिंदी	1. जिसे आदेश न मिला हो, अनाज्ञापित, अनिर्देशन
अनादिष्ट (ट)	विशेषण, संज्ञा	मलयालम	2. जिसके लिए आज्ञा न दी गई हो, आदेश नहीं
अनादिष्ट		कन्नड	+ 3. प्रायश्चित्त परिमार्जन स्वरूप भेंट (मलयालम)
अनादि बंजर	संज्ञा	पंजाबी, मराठी	जो भूमि सदा से बंजर पड़ी हो, वध्या धरा,
अनादिपंजर		तमिल	सदा से जिस भूमि में कुछ पैदा नहीं हुआ
अनादिमध्यान्त	विशेषण	गुजराती, मलयालम	1. उत्पत्ति, स्थिति, लय हीन, सनातन
अनादिमध्यान्त		संस्कृत, हिंदी, बंगला	2. आदि, मध्य, अंत तीनों से रहित
अनादिविद्या	संज्ञा	मलयालम	भ्रम, माया, या भ्रांति जिससे जगत में ब्रह्म की प्रतीति होती है
अनादिशैवम्	संज्ञा	तमिल	पति-पशु पाश अर्थात् परमात्मा-आत्मा बंधन शाश्वत है, 16 शैवों में से एक सिद्धान्त
अनादिसिद्ध	विशेषण	हिंदी, गुजराती, असमी	1. पूर्वापर चालू 2 रूढ 3. प्रचलित 4. परम्परागत
अनादि सिद्ध		संस्कृत, मराठी	5. सदापूर्ण, अनादि काल से चला आने वाला
अनादिसिद्धन् (मुत्तन)	संज्ञा	तमिल	अनादिमुक्त, बंधनहीन, शिव
अनादितोयरा	संज्ञा	मराठी	सर्वकालीन, सर्वबधु-ईश्वर
अनादीनव	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	निर्दोष, त्रुटिहीन, निरपराध, न्यूनता शून्य
अनादृत	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला	तिरस्कृत, अपमानित, धिक्कृत,
अनादृत		नेपाली, असमी, कन्नड	उपेक्षित, सम्मान प्राप्त नहीं.
अनादृत		मलयालम	जिसका आदर- सम्मान न किया गया हो
अनादृत्य	अव्यय	मलयालम	अवगणनाकृत, तिरस्कृत होकर, धिक्कारित
अनादेय	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1. स्वीकृत नहीं 2. अहस्तांतरित- भूमि
अनादेयम्	संज्ञा	तमिल	3. अस्वीकार्य, अग्राह्य, अमान्य + 4. प्रकृति (जैन-शास्त्र)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनादेश	संज्ञा	हिंदी, कन्नड	आदेश या आज्ञा का अभाव
अनादेशकर	विशेषण	हिंदी	बिना आज्ञा करने वाला या अनादिष्ट कार्य
अनादोष	संज्ञा	मराठी, असमी	दोष न होना, निर्दोष
अनाद्यंत	विशेषण	हिंदी, कन्नड, बंगला	1 जिसका आरंभ अन्न न हो, नित्य, शाश्वत
अनाद्यंत		मलयालम, गुजराती	2 सदा में चला आया, सदा बना रहने वाला
अनाद्य	विशेषण	हिंदी, मलया, कन्नड, संस	1 अनादि 2 प्रथम नहीं, जिसका आरंभ नहीं
अनाद्य	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 अभक्ष्य, जो खाद्य अर्थात् भक्षणीय नहीं
अनाद्य		मलयालम	2 अभोज्य पदार्थ, निषिद्ध भोजन
अनाद्यनंत	विशेषण	हिंदी, गुजराती, बंगला	1 आदि अंत नहीं, शाश्वत, नित्य, सनातन
अनाद्यनंत	विशेषण	मराठी	2 चिरकालिक, सर्वदा में सर्वदा तक रहने वाला
अनाद्यन्	संज्ञा	मलयालम	जिसका आदि नहीं, ईश्वर
अनाधार	विशेषण	हिंदी, नेपाली	आधार, आश्रय, म्हायता, आलब अथवा
अनाधार		गुजराती, मलयालम	संरक्षक रहित, निग्धार, बे महारा (आकाश, ब्रह्म)
अनाधारता	संज्ञा	कन्नड	सहाय न होना, जिसको आश्रय की आवश्यकता न हो, परमन्मा
अनाधि	विशेषण	हिंदी, मलयालम	बिन्ना मुक्त, आधि व्याधि रहित
अनाधृष्ट	विशेषण	हिंदी	1 अजेय, वाधाहीन, जिस पर नियंत्रण न हो
अनाधृष्ट		मलयालम	2 जो नष्ट या क्षीण न किया जा सके 3. पूर्ण
अनाधृष्य	विशेषण	मलयालम, हिंदी	अनिबधित जा रोका या दबाया न जा सके
अनानत	विशेषण	मलयालम	प्रका हुआ नहीं, जिसे दत्त न किया गया हो
अनानिया	संज्ञा	असमी	वापिस ले जाना, आनिया या लाया नहीं
अनानुपूर्व	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	नियत क्रम में न आना
अनापद्	संज्ञा	हिंदी	सकट या दुर्दिन नहीं, आपदा रहित
अनापूर्य	विशेषण	मलयालम	1 जो भरा न जा सके 2 तृप्त न हो सके
अनाप-क्षनाप	संज्ञा	हिंदी	असबद्ध प्रलाप, बतुफी ऊटपटांग बातें
अनापि	विशेषण	संस्कृत	मित्र या बंधु से रहित
अनाप्त	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 यथार्थज्ञाता नहीं, विश्वसनीय या कुशल नहीं
अनाप्त		नेपाली	2. अनात्मीय, समीपी नहीं 3 अनजान, अपरिचित,

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनाप्त		कन्नड	अजनबी 4. अप्राप्त, अलब्ध, सिद्ध नहीं 5. अयोग्य,
अनाप्त		मलयालम	अनुचित 6. गमने घटित या उपस्थित नहीं हुआ
अनाप्ति	संज्ञा	मलयालम	प्राप्ति, लब्धि या सिद्धि नहीं, अप्राप्य, अलब्ध
अनाबना	संज्ञा	उड़िया	अपतृण, खरपतवार, फसल में व्यर्थ तृण
अनाबाबी	संज्ञा	उड़िया	जो आबाद न हो, निर्जन, उजाड़
अनाभयिन्	विशेषण	संस्कृत	निर्भय, जिसे बिलकुल डर न हो (वैदिक)
अनाभू	विशेषण	संस्कृत	1. जो स्तुति न करें 2. जो सामने न हो (वैदिक)
अनामय	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. रोग नहीं, रोगमुक्त, निरोग, निरामय, मौख्य
अनामय		असमी, उड़िया, बंगला	2. स्वस्थ, आरोग्य, तंदुरुस्त, सशक्त, दृढ़, मनः मुख
अनामय		नेपा, कन्न, संत, मलया	+ 3. दोषहीन, रोग अनुत्पादक (मगटी) मुंदर, शुद्ध
अनामयं	संज्ञा	मलयालम	4. अच्छा, उत्तम 5. कुशल क्षेम, दुख का अभाव
अनामयप्	संज्ञा	तमिल	6. विष्णु, शिव का एक नाम
अनामयमु	विशेषण	तेलुगु	+ 7. जिसे कभी रोग न हो, ईश्वर (तमिल)
अनामयस्व	संज्ञा	गुजराती	निरोगता, आरोग्यता, बीमारी न होना, सशक्तता
अनामयन्	संज्ञा	मलयालम, तमिल	विष्णु, शिव, जिन्हें रोग स्पर्श नहीं करता
अनामिष	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1. मांस रहित, निरामिष 2. लाभ रहित
अनामिष		मलयालम	3. प्रयोजन या प्रलोभन रहित
अनामुखो	विशेषण	बंगला	जिमका मुख देखने से दिन शुभ न दीते
अनामृत	विशेषण	हिंदी, मलयालम	मरण रहित, अमर, जो कभी मृत न हो
अनायत	विशेषण	हिंदी	1. जो लंबा न हो 2 अनियोजित 3 जो बंधा न हो,
अनायत		मलयालम	अदृढ़, असंलग्न, अविच्छिन्न 4. वे महारा
			5. अनिवारित, अनियंत्रित
अनायति	संज्ञा	मलयालम	आमदनी न होना, आयति या प्राप्त नहीं
अनायत	विशेषण	हिंदी, नेपाली, मराठी, संत	1. अधीन या वश में नहीं, अबाध्य, अनअधिगत
अनायत		बंगला, मलया, कन्नड	2. आयत या अधिकृत नहीं, स्वतंत्र, परतंत्र नहीं
अनायत तर	क्रिया विशेषण	कन्नड	विशेषतया अबाध्य
अनायत वृत्ति	विशेषण	मलयालम	स्वतंत्र उपजीविका, आकाश वृत्ति
अनायास	क्रिया विशेषण	हिंदी, नेपाली, मराठी	1. बिना उद्योग, यत्न या श्रम किये बिना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनायास		गुज,असमी,संज्ञ,मलया	2. सहज ही, आगम या सुविधा पूर्वक
अनायास		उड़िया, बंगला, कन्नड	3. सरलता या आसानी से, बिना प्रयास किये (अव्यय)
अनायासम्		तेलुगु	4. आलस्य, लापरवाही 5. अचानक, सहसा, अकस्मात
अनायासं	संज्ञा	मलयालम	6. अकलेश, बिना कष्ट, बिना आयाम,
अनायासम्	संज्ञा	तमिल	मौकर्य, मुलभता से
अनायासकृत	संज्ञा	कन्नड	सहजता से किया हुआ, नत्काल कृत, सरलता से हुआ
अनायास लब्ध	संज्ञा	बंगला	बिना कष्ट प्राप्त, मुलभ, स्वतः उपलब्ध
अनायास साध्य	विशेषण	बंगला	सरलता से पूर्ण करने योग्य या संपादन योग्य
अनायास सिद्ध	संज्ञा	बंगला	बिना चेष्टा या कर्म किए सफलता या कार्य पूर्ति
अनायास-सार्थक	संज्ञा	कन्नड	बिना कठिनाई तैयार किया हुआ
अनायासे(से)	क्रिया विशेषण	असमी, बंगला, (भराठी)	बिना यत्न के, आसानी से, सहजता या सौकर्य से
अनायासेन		मलयालम	सहसा, अकस्माततः, यों ही, आसानी से
अनायुक्तन्	संज्ञा	मलयालम	1. जिसकी नियुक्ति नहीं, जो काम पर नहीं लगाया गया
अनायुक्त		संस्कृत	2. कार्य में आदिष्ट नहीं
अनायुध	विशेषण	हिंदी, कन्नड	शस्त्रहीन, आयुध या इथियार बिना
अनायुध्य	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1. दीर्घायु के लिए घातक 2. जो आयुवर्धक न हो
अनारंभ	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	1. आरंभ के योग्य नहीं, आरंभ का अभाव
अनारम्भ (भ)		बंगला, नेपाली, मलया	2. अप्रवृत्ति, अन अनुष्ठान, अप्रयास, अचेष्टा
अनारंभम्		तेलुगु	3. मूचना शून्यता (बंगला)
अनारत	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1. लगातार, अविराम, बिना रुके, अनवरत, सतत
अनारत		मलयालम, कन्नड, संस्कृत	2. अंतहीन रूप से, अवसान नहीं, अविच्छिन्न
अनारतं (म्)	अव्यय	मलयालम, तमिल	3. नित्य, अनिश्च, अविरत, स्थायी
अनारतम्	विशेषण	तेलुगु	4. सातत्य, अविच्छिन्नता, अविरामता (संज्ञा)
अनारब्ध	विशेषण	नेपाली, मलयालम	1. जो आरंभ नहीं हुआ, शुरु नहीं किया
अनारब्ध	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	2. आरंभ करने के अयोग्य
अनाराध्यम्	संज्ञा	तेलुगु	जिसकी पूजा न की जाय, जो आराध्य नहीं
अनारूढ	विशेषण	मलयालम	1. सवार नहीं 2. चढा नहीं 3. अन अंकुरित
अनारोग्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1. अस्वस्थ, रोगी, बीमार

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनारोग्यं अनारोग्यम्	संज्ञा	मलयालम तेलुगु	2. स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद 3. अस्वस्थता, अस्वास्थ्यकर (संज्ञा)
अनार्जब अनार्जबं	विशेषण संज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत मलयालम	1. सीधापन नहीं, वक्रता, टेढ़ापन 2. कुटिलता, अधार्मिकता 3. धोखेबाजी, बेईमानी, फरेब, जाल + 4. रोग (हिंदी)
अनार्त अनार्त	विशेषण	मराठी, कन्नड संस्कृत	1. निरिच्छ 2 वैराग्यशील 3. सुखी 4. स्वस्थ 5. दीन - दुखी नहीं, आर्त नहीं
अनार्तब अनार्तब अनार्तब	संज्ञा	हिंदी, नेपाली बंगला, संस्कृत मलयालम	1. जिस कन्या का ऋतुकाल आरंभ नहीं हुआ 2. जिस स्त्री का ऋतुस्राव समाप्त हो गया हो + 3. असामयिक, बेमौमम, समय से पूर्व (हिंदी)
अनार्तबा अनार्त अनार्तार	संज्ञा विशेषण संज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस, मलया गुजराती, बंगला मलयालम	अजात रजस्वली, अरजस्वला बालिका जो भीगा या गीला नहीं, जलयुक्त नहीं 1 अकृत्रिम या बनावटी नहीं 2. अनलंकृत
अनार्य अनार्य अनार्य अनार्युद् (अण-आर्यु)	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, उड़िया, बंगला नेपाली, कन्नड, संस, मलया तेलुगु, सिंधी	1. जो आर्य, सम्य, सुशील, प्रतिष्ठित, सम्मान्य भद्र नहीं 2. दुःशील, अश्लील, घटिया, द्रान्य, असम्य, अधम, अभद्र, शूद्र, म्लेच्छ 3 जो आर्य न हो वह 4. वह देश जिममें आर्य न बसते हों
अनार्यक अनार्यकं	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत मलयालम	1. अगर की लकड़ी 2 अनार्य देशवासी + 3. आर्य देश से भिन्न देश का (नेपाली)
अनार्यकर्मी अनार्यकर्भिन्	विशेषण	हिंदी संस्कृत	बुरा काम करने वाला, आर्योचित काम न करने वाला, भले या श्रेष्ठ कार्य न करने वाला
अनार्यज अनार्य जाति अनार्यजातीय	विशेषण संज्ञा विशेषण	हिंदी, मलयालम बंगला बंगला	1. निम्न कुल जन्मा 2. अनार्य देश में उत्पन्न आर्यों से इतर जाति, जो पहले से रहती थी अनार्य जाति संबंधी, अनार्य वंशोत्पन्न
अनार्यजुष्ट अनार्यजुष्ट	विशेषण विशेषण	मलयालम हिंदी	1. जो आचरण आर्यों के योग्य न ह्ये 2. अनार्य अथवा नीच भाव, प्रयोग के अयोग्य
अनार्यस्त अनार्यस्त्व	संज्ञा	हिंदी, बंगला हिंदी	अशिष्टता, असम्यता, अनार्य होने की अवस्था या भाव, अभद्रता, असाधुता
अनार्यतिक्त (त्)	संज्ञा	हिंदी, कन्नड, मलयालम	चिरायते का पौधा

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनारियतित्तम्	सज्ञा	तमिल	रक्त शोधक जडी बूटी
अनार्यन्	सज्ञा	मलयालम	1 जो व्यक्ति आर्य न हो
अनारियन्		तमिल	2 निम्न, घटिया, अश्लील व्यक्ति
अनार्योचित	विशेषण	बंगला	आर्यों को उचित नहीं गेमा, जघन्य, निम्न, हेय
अनार्ष	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, मलया	आर्ष नहीं, वैदिक नहीं
अनार्षेय	विशेषण	हिंदी, मलयालम	ऋषियों द्वारा प्रोक्त नहीं, अर्वादि
अनालंब	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1 बेमहाग, आश्रयहीन, निर्गश्चिन्, निरवलम्ब,
अनालम्बं	सज्ञा	मलयालम	आलवन रहित, निगधार, आधार शून्यता
अनालम्ब	विशेषण	संस्कृत, मलया	+ 2 आकाश, परमपद (सज्ञा नेपाली)
अनालंबन	सज्ञा	हिंदी	स्वावलंबी, किसी के आश्रय पर निर्भर नहीं
अनालंबी	विशेषण	हिंदी	1 निर्गश्चिन्, बेमहाग, अमूर्गक्षित
अनालम्बी	सज्ञा	नेपाली, संस्कृत	2 शिव का डमरू, वीणा या मारगी (सज्ञा)
अनालक्षितं	सज्ञा	मलयालम	ढाल, तलवार आदि में की गई सुरक्षा
अनालक्ष्य	विशेषण	मलयालम	अदृश्य, जिस ओर दृष्टि नहीं
अनालम्बुका	सज्ञा	मलयालम, हिंदी, संस्कृत	रजस्वला स्त्री, मामिक धर्मी
अनालस्यं	सज्ञा	मलयालम	स्फूर्ति, आनन्द नहीं, मूर्खता का अभाव
अनालाप	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मलयालम	मौन, मितभाषी, वार्तालाप नहीं, अमभाषण
अनालोकनं	सज्ञा	मलयालम	1 न देखना, अवलोकन न करना
अनालोकन		संस्कृत	2 ध्यान ही न देना, निरीक्षण नहीं
अनालोचनीय	विशेषण	बंगला	आलोचन या अनुशीलन योग्य नहीं
अनालोचित	विशेषण	हिंदी, बंगला, मलयालम	1 अविचारित, असमीक्षित, अपरीक्षित, अविवेचिन
अनालोचितम्		तेलुगु	2 अदृष्ट 3 आकस्मिक 4 अपरिशीलित
अनालोच्य	विशेषण	बंगला, मलयालम	अविचारणीय, अनालोचनीय, असमीक्ष्य
अनालोक्षित	विशेषण	बंगला	अमथित, अविशोधित, अक्षण
अनाबड	सज्ञा	गुजराती, मराठी	ज्ञान या अभिरुचि का अभाव, अज्ञान, प्रेमाभाव
अनाबडत	सज्ञा	गुजराती	अकौशल, अनभिज्ञता, किसी चीज का न जाना
अनाबर	विशेषण	मराठी	वे लगाम, अनियंत्रित, स्वच्छन्द

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनावरण	विशेषण	हिंदी, नेपाली, मलयालम	1 आवरण, परदा या ढक्कन हटना, आवरणहीन
अनावरण	सज्ञा	कन्नड, मराठी	2 समारंभ, उद्घाटन 3 भेद खोलना, रहस्योद्घाटन
अनावरित	विशेषण	हिंदी	अनावृत, परदा हटा हुआ, उघड़ा हुआ
अनावर्त्तक	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	न दोहराया हुआ, जिसकी आवृत्ति नहीं हुई
अनावर्त्तक		नेपाली	बार बार न हेना एक बार हेकर रह जाना (नान रेकर्गिंग)
अनावर्त्तन	सज्ञा	हिंदी	न लौटना, पुन जन्म न लेना
अनावर्त्ती (तिर्तिन)	विशेषण	गुजराती, संस्कृत, हिंदी	जो फिर न आये, जो लौटे नहीं, मोक्ष प्राप्त
अनावर्षण	सज्ञा	हिंदी	वर्षा न होना, मृत्ता पड़ना अवर्षण
अनावश्यक	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 आवश्यक नहीं गैर जरूरी, व्यर्थ, फालतु
अनावश्यक		असमी, उड़िया, बंगला	2 निष्प्रयाजन, अनुपयोगी, जो उपयोग में न आवे
अनावश्यं	सज्ञा	मलयालम	+ 3 मृत्सित, अश्लील, मर्यादाविरुद्ध (मलयालम)
अनावसिगम्	सज्ञा	तमिल	+ 4 अनावश्यक व्यय (अगमी)
अनावश्यकता	सज्ञा	हिंदी	आवश्यक न होना, गैर जरूरत, बिना जरूरत
अनावश्यकतीय	विशेषण	असमी	अप्रयोजनीय, निष्प्रयाजनीय, गैर जरूरी
अनावस्था	सज्ञा	मराठी	अस्थिरता, अव्यवस्था, निराधारता, लापरवाही
अनावसिक	विशेषण	हिंदी	1 स्थायी निवासी नहीं (नान रेजीडेंट)
अनावसिक		नेपाली	2 अन्य स्थान या देश से आकर बसा हुआ
अनावसिक	विशेषण	बंगला	3 जो वाम न करता हो 4 जहा वाम न किया जाय
अनाविद्ध	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 जिसमें छेद न किया गया हो 2 अनाविधा
अनाविद्ध		गुजराती, मलयालम	+ 3 अन्न आघात, जिस पर चोट न लगी हो (हिंदी, मलया)
अनाविधम्	सज्ञा	तमिल	एक प्रकार की वर्षा या वामुरी
अनाविस	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 गदा मैला या दलदल कीचड़ भरा नहीं, अपकिल
अनाविस		मलयालम, कन्नड	2 निर्मल, स्वच्छ, शुद्ध स्थान, दोषरहित
अनाविस		उड़िया	+ 3 मच्छा, अर्सादिग्ध (उड़िया)
अनाविस		बंगला	4 स्वास्थ्यप्रद स्थान या देश
अनाविसमु		तेलुगु	+ 5 इस नाम की एक जाति (गुजराती)
अनाविसन्	सज्ञा	तमिल	+ 6 शुकताग, चमकदार, प्रभापूर्ण, दीप्तिमान (तमिल)
अनाविच्छ्रुत	विशेषण	बंगला	अन उद्भावित, अप्रकाशित

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनाविष्ट	विशेषण	बंगला	अ मनायोगी, एकाग्रचिन् नही
अनावृत	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 बिना ढका, अनाच्छादित, घिग नही
अनावृत		नेपाली, मराठी	2 खुला, उघडा, नग्न, लोंक जाहिर होना
अनावृत		असमी, उड़िया, बंगला +	3 अर्गक्षत, वेकावृ, वश से बाहर (मराठी)
अनावृत		मलयालम	4 अनावरण किया गया, परदा हटाया गया
अनावृत	विशेषण	गुजराती, मराठी	1 फिर न लौटने वाला, वापिस न आने वाला
अनावृत		मलयालम +	2 दुहरा जा नही गया, पुनरावृत्ति नही हुई
अनावृत्तन	सज्ञा	हिंदी	1 नगा करना 2 वर्षा के कारण भूमि की परत
अनावृत्तन	विशेषण	मराठी	धूल बह कर चट्टान आदि निकलना (डीन्यूडेशन)
			+ 3 मर्यादा या नियंत्रण आदि से अवन्द (मराठी)
अनावृत्ति	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 दुहराती नही गयी, दुबारा न हुई हो, अपरावर्तन,
अनावृत्ति		मराठी	अपुनरागमन, वापस न होना, न लौटना
अनावृत्ति		गुजराती, बंगला	2 बार बार न बोलना, अनुच्चारण
अनावृत्ति		मलयालम	3 पुनर्जन्म नही, मोक्ष, जन्म लेने न लौटना
अनावृष्टि	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 अवर्षा अपर्याप्त वर्षा, पावस हीनता
अनावृष्टि		नेपाली, कन्नड, संस्कृत	2 अकाल दृष्काल, सूखा पड़ना
अनावृष्टि		तेलुगु, मलयालम	3 दुर्भिक्ष, बारिश न होना, वर्षा का अभाव
अनावृष्टि		असमी, उड़िया, बंगला +	4 खेती को नष्ट करने वाला एक उपद्रव ईति (सम)
अनावृष्टि (ष्टि)		तमिल +	5 छ प्रकार के अकालों में से एक (नेपाली)
अनावेदित	विशेषण	हिंदी	1 जिसके लिए प्रार्थना या आवेदन न किया हो
			2 जिसे विदित न करया गया हो
अनाश	विशेषण	हिंदी, मलयालम, संस्कृत	जिसे आशा न हो, निराश, आशाहीन
अनाशक	सज्ञा	मलयालम +	1 यथेच्छ भोग का अभाव (संस्कृत)
अनाशक		हिंदी	2 भोजनादि के आनंद से वंचित
अनाशक		संस्कृत	3 मृत्यु तक भोजन न लेना, आमरण अनशन
अनाशकायन	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 उपवासयुक्त ब्रह्मचर्य व्रत 2 आत्म प्राप्ति का
अनाशकायनं		मलयालम	उपाय 3 आत्म शक्ति के लिए किया उपवास
अनाशस्त	विशेषण	हिंदी	जिसकी प्रशंसा न की गई हो, अप्रशंसित

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनाशा	संज्ञा	हिंदी	आशा नहीं, नैराश्य, हताशा
अनाशास्य	विशेषण	मलयालम	अनुचित, अवांछित, प्रशंसनीय नहीं
अनाशि	विशेषण	मलयालम	भोजन न करना, अनशन
अनाशु	विशेषण	मलयालम, हिंदी	सुस्त, मंद, आशु या शीघ्र न करना, अव्यापक
अनाश्रमि	विशेषण	मलयालम	1. जिसका चारों आश्रम में से किसी से संबंध न हो
अनाश्रमिन्		संस्कृत	2. वर्णाश्रम धर्म से भ्रष्ट या पतित
अनाश्रमी		हिंदी, नेपाली	3. जो वर्णाश्रम न मानता हो, अनुसरण न करना हो
अनाश्रमी		गुजराती	4. जो किसी आश्रम में रहा हुआ न हो
अनाश्रय	विशेषण	हिंदी, अस, बंग, मरा, मलया	1. आश्रय रहित, बेसहारा, असहाय, निराश्रित,
अनाश्रयमु		तेलुगु	असुरक्षित, निगधार, लाचार, रक्षक विहीन
अनाशिरयम्	संज्ञा	तमिल	2. कहीं कोई जीविका का साधन न होना
अनाश्रव	विशेषण	मलयालम	1. जो किसी का कहा न मुने 2. कहने पर कान न
अनाश्रव	विशेषण	संस्कृत	देना 3. ढीठ, उद्दण्ड, ज़िद्दी
अनाश्रित	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. आश्रय या आधार बिना 2. निराश्रित, लाचार
अनाश्रित		नेपाली, असमी, मलया	3. स्वाधीन, जो दूसरे पर आश्रित नहीं
अनाशिरुतन्	संज्ञा	तमिल +	4. शिव का प्रकट रूप (संज्ञा) (तमिल)
अनाशिरुत्तै	संज्ञा	तमिल	1. शरीर का रहस्य केंद्र 2. सोलह कलाओं में से एक
अनाश्रिता		संस्कृत	3. अनाश्रित की शक्ति (शिव की शक्ति)
अनाश्रुत	विशेषण	नेपाली	आगन्तुक, पाहुना, मेहमान, अभ्यागत
अनासक्त	विशेषण	नेपाली, हिंदी, बंगला	1. संसार में आसक्त नहीं, आसक्ति रहित
अनासक्त		असमी, उड़िया, मलया	2. अनुराग एवं मोह रहित (डिटैच्ड)
अनासक्तन्	संज्ञा	तमिल	3. निर्लिप्त, अलग या दूर रहने वाला
अनासक्ति	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	1. आसक्ति, अनुराग, प्रेम, लगाव नहीं; रति हीनता
अनासक्ति		असमी, बंगला, मलया	2. निरसक्ति, उदासीनता, तटस्थता, अलगाव
अनासक्ति		तमिल	3. योग का एक प्रकार
अनासक्तियोगं	संज्ञा	मलयालम	लौकिक विषयों का त्याग, संसार से विरक्ति
अनासादित	विशेषण	मलयालम	1. अप्राप्त, अलब्ध, अर्थात् 2. असंभव, अनाक्रांत
अनासादित	विशेषण	हिंदी	3. जिसका सामना न किया हो 4. अस्तित्व हीन

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनासाध	विशेषण	मलयालम	1 जिसकी प्राप्ति संभव नहीं, पहुँच से परे
अनासाध	विशेषण	गुजराती, हिंदी	2 जिसका सामना या मुकाबला न किया जा सके
अनासीन	विशेषण	हिंदी	1 जो अभी पदार्थों में न हुआ हो
अनासीन		नेपाली	2 जो पदार्थों में, जिसे उसके आसन से हटा दिया हो
अनासृष्टि	विशेषण	बंगला	सृष्टि से परे, विचित्र
अनास्तिक	विशेषण	हिंदी, मलयालम	आग्नििक नहीं, ईश्वर विश्वासी नहीं, नास्तिक,
अनास्तिक्यं	संज्ञा	मलयालम	ईश्वर में विश्वास या भक्ति नहीं
अनास्थ (या)	विशेषण	मराठी, संस्कृत	1 आस्था या विश्वास रहित, उदासीनता
अनास्था		हिंदी, गुजराती, मलया	2 बेपरवाही, उपेक्षा, अन्याय, निरपेक्षा
अनास्था		बंगला, असमी, उड़िया	3 अश्रद्धा, अर्थात् 4 दुर्लक्ष्य, अमान्ययोग
अनास्था-प्रस्ताव	संज्ञा	बंगला	अविश्वास प्रस्ताव (नो कान्फिडेस मोशन)
अनास्थावाची	विशेषण	मलयालम	नास्तिकता के रक्ष में बोलने वाला
अनास्थान	विशेषण	मलयालम	1 आसन न होना 2 आधार न होना, निराधार
अनास्थिक	विशेषण	गुजराती	अनास्थावान, ईश्वर विश्वासी नहीं, अधार्मिक
अनास्थवं	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	आधार स्थान हीन, पद या पराधि हीन
अनास्रव	विशेषण	गुजराती	1 आस्रव ३ विना 2 अनासक्त (जैन)
अनास्राव	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	क्लेश रहित, आस्राव विना, कष्ट रहित
अनास्रुव	विशेषण	नेपाली	पहले न मुना हुआ, आकर्षिक, अश्रुनपूर्व
अनास्वाह	विशेषण	मलयालम, हिंदी	1 स्वादहीन, बेस्वाद 2 विरम, नीरम
अनास्वादित	भूत कृदन्त	हिंदी	1 जो न चखा हो, जिसका स्वाद न लिया हो
अनास्वादित		बंगला	2 अर्थात्, जो खाया नहीं गया
अनास्वादित		मलयालम	3 अन अनुभूत, जिसको करके न देखा हो
अनाहत	विशेषण	गुजराती, मराठी, नेपाली	1 जिसे आघात न लगा हो, जो पीटा न गया हो,
अनाहत		उड़िया, बंगला	जो आहत नहीं, आघात से उत्पन्न नहीं हुआ
अनाहत		कन्नड, मलयालम	2 विना फटकार के निकला अनाज
अनाहतम्	संज्ञा	तमिल	3 बिना पहना कोरा या नया कपड़ा साड़ी आदि
अनाहवम्		तमिल	4 अक्षत 5 अकृत्रिम 6 अक्षोभित (बंगला)
अनाहत	विशेषण	नेपाली	1 तत्र शास्त्रानुसार शरीर में मणि पूरक से ऊपर

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनाहतं	सज्ञा	मलयालम	हृदय स्थित द्वादश दल कमल, चौथा चक्र
अनाहत चक्र	सज्ञा	मलयालम, मराठी, बंगला	2 शरीर के छ चक्रों में से एक हृदय चक्र (योग में)
अनाहत्तध्वनि	सज्ञा	बंगला	1 वह ध्वनि जो अन्दर मुनाई देती है, धडकन
अनाहत्त नाद	सज्ञा	हिंदी, गुजराती	2 अनाहत्त नाद, शरीर भीतर स्वत उत्पन्न नाद
अनाहत्त मति	सज्ञा	कन्नड	स्थिर बुद्धि, विवेक बुद्धि
अनाहत्त शब्द	सज्ञा	हिंदी	अनाहत्त नाद, आंतरिक ध्वनि, ओम् की ध्वनि
अनाहत्त बाणी	सज्ञा	हिंदी	1 आकाश वाणी 2. देववाणी
अनाहार	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 आहार या भोजन न करना या त्याग देना
अनाहार		असमी, उड़िया, बंगला	2 अनशन, उपवास, लघन करना
अनाहार		नेपाली, संस्कृत	3 भोजन ही न मिलना, भुखा जाना, निराहार
अनाहारं		मलयालम	+ 4 भोजन योग्य या खाने लायक न होना (नलुगु)
अनाहारमु		तेलुगु	5 जिम्ने कुछ न खाया हो, निराहारी
अनाहारमार्गणा	सज्ञा	हिंदी	जैनियों का एक प्रकार का व्रत
अनाहारी	विशेषण	असमी, गुजराती	1 उपवासी 2 जिम्ने कुछ न खाया हो
अनाहारी		बंगला, मराठी	3 जैन धर्म में जिम् वस्तु का आहार न्याय्य हो
अनाहारे	क्रियाविशेषण	असमी, बंगला	बिना भोजन किए हुए, उपवास में
अनाहार्य	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1 जो खाने योग्य न हो, अभोज्य
अनाहार्य		गुजराती	2 जिम्का हरण न हो, पकड़ा न जा सके
अनाहार्य		मराठी	3 अकृत्रिम, स्वाभाविक 4 अग्राह्य 5 अनुत्पन्न
अनाहिताग्नि	सज्ञा	हिंदी	1 अग्निहोत्र न करने वाला
अनाहिताग्नि		मलयालम	2 जिम्ने विधिवत अग्न्याधान नहीं किया
अनाहुत्त	विशेषण	कन्नड	दुर्मटना, विपदा, हानि, बुराई
अनाहुत्ति	सज्ञा	मलयालम	1 हवन न करना 2 बलि न चढ़ाना
अनाहुत्ति	सज्ञा	संस्कृत	3 अविधिक हवन, अनुचित बलि या अर्घ्य
अनाहुत्त	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 बिना बुलाया, अनिमंत्रित, अनामंत्रित
अनाहुत्त		नेपाली, कोंकणी, संत	+ 2. अनपेक्षित, आगन्तुक (मराठी)
अनाहुत्त		बंगला, कन्नड, मलया	+ 3 (कथन या बात) जो अवसर न होने पर भी कही

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनाह्वय	संज्ञा	तेलुगु	गयी हो (अन-कॉल्ड-फ़ार) (हिंदी)
अनिशु	संज्ञा	मलयालम, हिंदी	ईशु जैसा एक पौधा जिससे चीनी नहीं बनती, ईशु नहीं
अनिष्ठ	विशेषण	कन्नड, मलयालम	1. निस्पृह, अनभिलाषी, निगकांक्षी, न चाहने वाला
अनिष्ठी	संज्ञा	तमिल	2. बिना इच्छा के (क्रिया-विशेषण)
अनिष्ठा	संज्ञा	असमी, उड़िया, गुजराती+	3. ना खुशी, अप्रवृत्ति, असम्मति (बंगला)
अनिष्ठा		नेपाली, बंगला, मराठी	4. इच्छा का अभाव, अरुचि, उदासीनता (संज्ञा)
अनिष्ठक	विशेषण	मलयालम, हिंदी	1. अनाकांक्षी, उदासीन, इच्छा न रखने वाला
अनिष्ठु		हिंदी, गुजराती, बंगला	2. रुचि न लेने वाला, न चाहने वाला
अनिष्ठुक	विशेषण	बंगला, उड़िया, असमी+	3. निस्पृह + 4. आनकानी करने वाला (असमी)
अनिष्ठुक		गुजराती, नेपाली, मलया	4. जिस व्यक्ति की इच्छा नहीं, चाह नहीं-विरक्त
अनिष्ठाकृत	विशेषण	बंगला	1. इच्छा के विरुद्ध संपादित 2. जान बूझ कर न करना
अनिष्ठा सत्वे	विशेषण	बंगला	इच्छा न रहने हुए;
अनिष्ठा प्रारब्ध	संज्ञा	मराठी	देवगति में होने वाला काम(स्वेच्छा प्रारब्ध)
अनिच्छित	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	अनचाहा, अरुचिकर, जिस की इच्छा न की गई हो
अनिच्छित		बंगला, मराठी	व्यर्थ अनावश्यक, अच्छा न लगने वाला
अनितर	विशेषण	मलयालम	कोई दूसरा नहीं, इतर नहीं
अनिन्द्र	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1. बिना इन्द्र के 2 इंद्र पूजा नहीं
अनिन्द्रियं	संज्ञा	मलयालम	1. इंद्रियो और मन से परे 2 आत्मा 3 प्रज्ञा शक्ति
अनिन्द्रिय	संज्ञा	संस्कृत	4. कारण इंद्रियो मे से कोई इंद्रिय नहीं, मन (मस)
अनिन्द्रियपदात्वं	संज्ञा	मलयालम	अजेव पदार्थ, कृषि, इंद्रिय हीन वस्तु
अनिन्ध्य	विशेषण	हिंदी, मलयालम, संस्कृत	धनहीन, दरिद्र, इन्ध्य (धन) रहित
अनिम्बक	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	क्रेयला, भैरा, मैत्रक, पद्मकेसर, मधुमक्खी, महुआ पेड
अनिष्ट	विशेषण	हिंदी, गुज, मराठी, मलया	1. जिसकी इच्छा न की गई हो, जो इच्छा के
अनिष्ट	संज्ञा	असमी, उड़िया, बंगला	योग्य न हो, जो इष्ट नहीं, अभीप्सित नहीं
अनिष्ट		नेपाली, कन्नड, संस्कृत	2. अवांछित, अप्रिय, अशुभ, अहितकर, अनभिलषि
अनिष्टम् (षं)	संज्ञा	तेलुगु, मलयालम	3. विपत्ति, हानि, नाश, दुर्भाग्य, प्रतिकूलता
अनिष्टम्, अनिष्टम्		तमिल	4. अपज्ञात, अमंगल, अपकार, हिंसा, क्षति
अनिष्टकर (कारी)	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1. अहितकारी, अपकारी, हानिकारी

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनिष्टकारक (कारी)		असमी, बंगला	2 नुक़मान देह, नाश करने वाला
अनिष्टकारिन्/जनक सज्ञा		संस्कृत, बंगला	3 किसी का अनिष्ट या बुरा करने वाला व्यक्ति
अनिष्टचिन्ता	सज्ञा	असमी	किमी का अपकार करने की इच्छा या चेष्टा
अनिष्ट-प्रदर्शन	सज्ञा	हिंदी	अगगत या दुपिन तर्क प्रमाण देना
अनिष्टपात	सज्ञा	बंगला, मराठी	अशुभ मन्त्रन घटित होना, आपत्ति आना, दुर्दैवी बान
अनिष्टप्रवृत्तिक	विशेषण	हिंदी	अनिष्ट करने का स्वभाव, दुष्ट प्रवृत्ति रखने वाला
अनिष्टप्रसंग	सज्ञा	हिंदी, मराठी	अहितकर, अनुग्रिन, अवाँछित, वृग प्रमग या तर्क
अनिष्ट प्रसंग		संस्कृत	अथवा विषय या कथन, दुर्घटना, अशुभ घटना
अनिष्टफल	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	दुखद परिणाम, वृग नतीजा, दुर्प्रणाम
अनिष्टशंका	सज्ञा	हिंदी, गुज, संस, मलया	द्वि, अमगल या अकारक डर या भय, अहित आशंका
अनिष्ट साधन	सज्ञा	बंगला	हानि पहुँचाना, अपकार करना
अनिष्ट हेतु	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	अपशकुन, वृग लक्षण, अशुभ मुहूर्त
अनिष्टाघरण	सज्ञा	बंगला	हानिकर चेष्टा, अनुचित व्यवहार
अनिष्टापत्ति	सज्ञा	मराठी, गुजराती	1 .इच्छा विरुद्ध या अनछोनी या अनिष्ट घटित होना
अनिष्टापत्ति	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	+ 2 अगिद्ध का मिल्द होना (न्याय) (मगटी)
अनिष्टापत्ति		मराठी, गुजराती	3 हानिकारक वस्तु का परिणाम प्राप्त होना
अनिष्टाशंसी (सिन्)विशेषण		हिंदी, संस्कृत	1 अमगलसूचक 2 व्यक्ति जो अनिष्ट की सूचना दे
अनिस्तापिक	विशेषण	मलयालम	इस्लाम धर्म को न मानने वाला
अनीक	सज्ञा	हिंदी, नेपाली	1 गना 2 युद्ध 3 सम्पूह, झुड 4 शफल
अन्- ईकन्	सज्ञा	संस्कृत	5 किनारा, तट 6 पक्कि, मन्थ पक्कि
अनीपिस्त	विशेषण	गुजराती, हिंदी	अनचाहा, अनिच्छित, जिसकी उम्मीद नहीं की गई,
अनीपिस्तपु		तेलुगु	जो हानिप्रद घटित हुआ, अवाँछित,
अनीपिस्त		कन्नड, बंगला	अनभिलषित, इच्छा विरुद्ध घटित
अनीति (अन्-ईति)सज्ञा		मलयालम, हिंदी	आपत्ति टलने की अवस्था, सकट विहीनता
अनीश	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. स्वामी बिना, प्रभुशून्य, अनाथ, ईश रहित
अनीश		नेपाली, कन्नड	2 हीन, असहाय, शक्ति हीन, निर्बल, असमर्थ
अनीश		बंगला, मलयालम	3. जिसका स्वयं पर नियंत्रण न हो; आत्मनियंत्रण हीन
अनीशन्	सज्ञा	मलयालम	4. शिव, ईश्वर, जिसका अन्य ईश न हो

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनीश्वर	विशेषण	हिंदी, बंगला	1. प्रभु हीन, निर्गेश्वर 2 नास्तिक 3. जो ईश्वर श्रवणी न हो
अनीश्वर		गुजराती	4 जिमके ऊपर कोई न हो, जिमसे उनम कोई न हो
अनीश्वर		मलयालम	+ 5. अधिकार या स्वानत्रय का अभाव (मलयालम)
अनीश्वरन्	संज्ञा	मलयालम	1. जो गजा नहीं 2 मंत्री या अन्य अधिकारी है
अनीश्वरसुबन्	संज्ञा	तमिल	अनीश्वरत्व, पराधीनता
अनीश्वर वाद	संज्ञा	हिंदी, बंगला	1 ईश्वर = णि है यह मिद्वान्त (मीमामा दर्शन)
अनीश्वर वाद		गुजराती, मराठी	2 नास्तिकवाद, जडवाद + 3 धार्मिक वाद (कन्नड)
अनीश्वर वाद		कन्नड, नेपाली	+ 4 शून्यवाद (न्यायी)
अनीश्वरवादि (दिनु)	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1 ईश्वर का न मानने वाला 2 नास्तिक, जडवादी
अनीश्वरवादि		तमिल	3 भौतिकतावादी, ईश्वर विश्वासी नहीं
अनीश्वरवादी		हिंदी, गुजराती, मराठी	4 जो नैतिक नियमों की अवहेलना करता हो
अनीश्वरवादी		नेपा, अस, उड़ि, सिंधी	5 ईश्वर का अस्तित्व न मानने वाला
अनीह	विशेषण	हिंदी, मलया, बंगला, नेपा	निर्गच्छ, निर्लिन, उदासीन, निस्पृह, वे परवाह
अनीहा	संज्ञा	बंगला, हिंदी, नेपाली	1 आस्थाहीनता, उदासीनता, अनास्था, निर्लिनता
अनीहा		मलयालम, संस्कृत	2 चेन्नाशून्यता, स्पृहा शून्यता, निरपेक्षता
अनीहि	विशेषण	मलयालम, हिंदी, बंगला	1 निस्पृह, चेन्नाशून्य, किसी भी वस्तु के प्रति जिसे आग्रह, इच्छा या आस्था न हो, निस्पृ उदासीन
अनीहित	विशेषण	संस्कृत, मलयालम	2 अशुभप्रद, अवांछित, आग्रह विहीन
अनुक्त	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 न कहा हुआ 2 अकथित, जो उक्त अर्थात् कहा नहीं
अनुक्त		नेपाली, कन्नड	3 अनकही, अनवांणी, अनुल्लिखित
अनुक्त		उड़िया, बंगला	+ 4 कहने योग्य नहीं (कन्नड)
अनुक्त		मलयालम	+ 5 अपूर्व, असाधारण (उड़िया)
अनुक्तम्		तमिल	+ 6 झूठ, अनुपयुक्त (तमिल)
अनुक्तता	संज्ञा	गुजराती	न कहने का भाव, अकथन
अनुक्तनिमित्त	विशेषण	हिंदी	जिसके निमित्त या कारण का उल्लेख नहीं
अनुक्त वाच्यं	संज्ञा	मलयालम	अप्रयुक्त क्रिया वाच्य
अनुक्तसिद्धं	संज्ञा	मलयालम	1 बिना कहे सिद्ध
अनुक्तसिद्धम्		तमिल	2 पहले से ही मान्य या सिद्ध

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुक्ति	संज्ञा	हिंदी	1. न कहने की क्रिया या भाव, अर्काथित
अनुक्ति		गुजराती	2. अनुचित उक्ति, बुरी उक्ति या कथन
अनुग्र	विशेषण	गुजराती, बंगला, संस्कृत	उग्र नहीं, शान्त, सौम्य, निस्तेज; अतीक्ष्ण; अक्रोधी
अनुचित	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. असंगत, युक्ति विरुद्ध, अयुक्त, नामुनासिब,
अनुचित		असमी, उड़िया,, बंगला	अयोग्य, गलत, अन्याय्य, अवैध, अशोभित,
अनुचित		नेपाली, कन्नड, मलया	आवश्यकता में अधिक, औचित्य की सीमा में बाहर
अनुचितमु		तेलुगु	+ 2. नवीन तथा अपरिचित, नालायक, अपात्र, अशिष्ट (मराठी)
अनुचित		संस्कृत	+ 3. अप्रचलित, गुणहीन, विनक्षण (कन्नड)
अनुचिते	संज्ञा	कन्नड	अनुचिता, उचित स्त्री नहीं
अनुचितात्वं	संज्ञा	मलयालम	असंगतार्थ (एक काव्य दोष)
अनुचितान्वय	संज्ञा	कन्नड	ठीक अन्वय नहीं, असंगत शब्द क्रम
अनुच्च	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1. ऊंचा नहीं, उच्च का विपर्याय 2 नीचा
अनुच्च		असमी, बंगला	+ 3. अनुन्नत, मृद, कोमल, अस्पष्ट (बंगला)
अनुच्चरित	विशेषण	हिंदी	1. जिसका उच्चारण नहीं हुआ (श्लोकपाठ में)
अनुच्चरित		मलयालम	2. स्वर व्यंजन जिसका उच्चारण न होता हो (साइलेंट)
अनुच्चरित		गुजराती	3. न बोलने या उत्तर न देने वाला 4. अनुक्त
अनुच्चारकन्	संज्ञा	मलयालम	जो मही उच्चारण न करे, जिसका उच्चारण नहीं हुआ
अनुच्चारणं	संज्ञा	मलयालम	जिसका उच्चारण न हो या न किया जाय
अनुच्चारणीय	विशेषण	मराठी, बंगला	अकथनीय, उच्चारण के अयोग्य
अनुच्चारित	विशेषण	बंगला	जो मुह में न कहा गया हो, अर्काथित
अनुच्चार्य	विशेषण	नेपाली, बंगला	1. जिसका उच्चारण या कहना संभव या उचित न हो
अनुच्चार्य		संस्कृत	2. जिसका उच्चारण न हो सके, अकथ्य
अनुच्छित्ति	संज्ञा	मलयालम	1. कटकर अलग न होना, नाश न होना, अनश्वरता
अनुच्छित्ति	संज्ञा	संस्कृत	2. नियम-अधिनियम जिनकी धारा-उपधागतं, या
अनुच्छित्ति	संज्ञा	हिंदी	अनुच्छेद अकाट्य हों
अनुच्छिष्ट	विशेषण	हिंदी	1. अस्पृष्ट, अर्भाक्षित, अप्रष्ट, अस्पर्शित
अनुच्छिष्ट		मराठी, कन्नड	2. शुद्ध, ताजा, नया उपयोग में न लाया हुआ
अनुच्छिष्ट		मलयालम	3. भोजन जो अपशिष्ट या जूटा न हो, अभुक्त

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुच्छेद	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 पृथक्करण योग्य नहीं, कटकर भी अलग न होना
अनुच्छेद		नेपाली, बंगला	2 किमी ग्रथ के परिच्छेद के भीतर का खंड
अनुच्छेदं		मलयालम	3 नाश न होना 4 नियम का अधिनियम
अनुज्वल	विशेषण	बंगला	उज्ज्वल नहीं, अशोभनीय
अनुत्कट	संज्ञा	कन्नड	अधिक नहीं, मक्षिन्, उत्कट नहीं
अनुत्तम	विशेषण	हिंदी, गुजराती, संस, मलया	1 जो उत्तम, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, उच्च न हो, अधम
अनुत्तम		असमी, बंगला, कन्नड	2 जिससे उत्तम और न हो, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ
अनुत्तमं	संज्ञा	मलयालम	3 अर्ननिक्रमणीय, मत्र म बढकर
अनुत्तमम्		तेलुगु	4 विष्णु, शिव (अनुत्तमन् मलयालम) (संज्ञा)
अनुत्तमम्	सत्ता	तमिल	5 अपकृष्ट, अनुत्कृष्ट, घटिया
अनुत्तर	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 उत्तर दिशा नहीं, दक्षिण दिशा
अनुत्तर		मराठी, नेपाली	2 जिसका उत्तर न बन पड़े, अपूर्ण उत्तर
अनुत्तर		गुजराती	3 जो उत्तर न दे सके, निरुत्तर, खामोश, चुप
अनुत्तरम्		तेलुगु	4 जो उत्तर युक्ति मगत न हो, सतोषजनक न हो
अनुत्तरम्	संज्ञा	तमिल	5 जो उत्तर श्रेष्ठ, उत्तम न हो, नुच्छ
अनुत्तर	विशेषण	मलयालम	6 जिससे उत्तर और उत्तम न हो, सर्वोत्तम, अद्वितीय
अनुत्तरदायी	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	1 जो जवाब देह न हो, जो उत्तरदायित्व न निभावे
अनुत्तरदायिन्		मलयालय, संस्कृत	2 गैर जिम्मेदार, सोपे काम को न निभावे
अनुत्तरदायित्व	संज्ञा	नेपाली	गैर जिम्मेदारी, जवाब देही न होना
अनुत्तरित	विशेषण	हिंदी, नेपाली, मराठी	जिसका जवाब न दिया गया हो (पत्र आदि)
अनुत्तरंग	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	नरग हीन, शान्त, निष्कम्प, निश्चल
अनुत्तरा	संज्ञा	संस्कृत	दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा नहीं
अनुत्तरीय	विशेषण	मलयालम	उत्तरीय (धड से ऊपर का वस्त्र) नहीं
अनुत्तान	विशेषण	हिंदी	जिसका मुह ऊपर की ओर न हो, पेट के बल पडा हुआ (व्यक्ति)
अनुत्ताप	संज्ञा	हिंदी	1 मन का ताप, क्लेश, अनुशोचन, पश्चात्ताप
अनुत्ताप		बंगला	2 बौद्ध धर्म में कथित दम क्लेशो में एक
अनुत्तीर्ण	विशेषण	हिंदी	1 जो उत्तीर्ण, ऊपर उठा या पारित न हो
अनुत्तीर्ण		नेपाली	2 अमफल, परीक्षा में फेल, परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुत्थान अनुत्थानं	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत मलयालम	1 उदित या ऊपर उठा न होना, उत्थान का अभाव 2 प्रयत्न का अभाव, चेष्टाहीनता
अनुत्थायि अनुत्थायिन्	संज्ञा	मलयालम संस्कृत	1 उत्थान या उन्नति न करने वाला 2 ऊपर न उठना, खड़ा न होना, न जागना
अनुत्थित	विशेषण	मलयालम	उठा नहीं, जागा नहीं, उन्नति नहीं की
अनुत्पत्ति अनुत्पत्ति	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी तेलुगु, मलयालम	1 न जन्मना 2 उत्पत्ति नहीं, भ्रजान 3 उत्पादन नहीं 4 अमफलता, विफलता
अनुत्पत्तिक	विशेषण	हिंदी	जो अभी पैदा नहीं हुआ, अजन्मा
अनुत्पन्न अनुत्पन्न	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी मलयालम	1 अजात, जन्मा नहीं अजन्मा, पैदा नहीं हुआ + 2 उत्पादन रहित (मलयालम, तेलुगु) 3 जो पूरा नहीं हुआ
अनुत्पाद	संज्ञा	हिंदी	उत्पादन का अभाव, पैदा न होना
अनुत्पादक	विशेषण	हिंदी, गुजराती	जिस भूमि या कारखाने से पैदा या लाभ न हो
अनुत्पादन	संज्ञा	हिंदी	वस्तु पैदा न होना, उत्पत्ति का अभाव
अनुत्साह अनुत्साह अनुत्साहं	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी नेपाली, असमी, बंगला मलयालम	1 मदता, सुस्ती, शक्तिहीनता, निरुत्साह, शान्त 2 उदासीनता, उद्यमहीनता, अयत्न, प्रयत्नहीन 3 माहम, उत्सुकता, उमंग का अभाव, सकलपाभाव
अनुत्साहित	विशेषण	असमी	यत्न के लिए उमंग पैदा न होना, न करना
अनुत्साही	विशेषण	असमी	अनुद्योगी, उद्योग या प्रयत्न न करने वाला
अनुत्सुक	विशेषण	हिंदी, मलयालम	कामना या आकांक्षा विहीन, शान्त, आत्मसुक्य रहित
अनुत्सेकं अनुत्सेकिन्	विशेषण विशेषण	हिंदी, मलयालम, संस्कृत संस्कृत	दर्पाभाव, अभिमान या क्रोध नहीं, विनय, जो अभिमान से फूलकर कुप्पा न हो गया हो
अनुदक अनुदक	विशेषण	मलयालम, गुजराती हिंदी, संस्कृत	1 जलहीन, निर्जल 2 जिसे तर्पण या जल न मिले 3 जिसका श्राद्ध न हो, तिलाजलि देने वाला न हो
अनुदग्र अनुदग्र	विशेषण विशेषण	मलयालम हिंदी	1 जो ऊचा न हो, नीचा 2 तीक्ष्ण न हो, मृदु 3 कठोर न हो, कोमल, नाजूक 4 क्रांतिहीन
अनुदय अनुदय	संज्ञा संज्ञा	बंगला बंगला, मराठी, हिंदी, संस	अनुत्पत्ति, असमृद्धि, अप्रकाशित पेट पतला होना, कृशोदर, पतली कमर

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुबरी	विशेषण	गुजराती	पतली कमर वाली, मानो उदर है ही नहीं
अनुवात्त	विशेषण	नेपाली, हिंदी	+ 1. तुच्छ, निम्न (नेपाली), उदान का उलटा, छोटा
अनुवात्त		बंगला, संस्कृत	2. उच्च, उदार या भला नहीं, नीच, हेय
अनुवात्त		कन्नड, मराठी, गुजराती	+ 3. अश्लील (मलयालम) + 4. गंभीर (कन्नड)
अनुवात्त		मलयालम	5. जिमका उच्चारण धीमे, मध्यम, लघुस्वर में किया
अनुवात्तम्	संज्ञा	तमिल	जाय, उदात्त स्वर में नहीं (प्रायः वेद पाठ में)
अनुवात्तम्	संज्ञा	तेलुगु	6 अनुच्चारित, धीमे उच्चारित
अनुवार	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1 मंकीर्ण, संकुचित, घटिया, ओछे मन वाला
अनुवार		असमी, बंगला	2. कृपण, कंजूस 3. स्वार्थी, अकुलीन, उदार नहीं
अनुवार		गुजराती, संस्कृत	+ 4. पत्नी विहीन (असमी) जिसके उपयुक्त पत्नी न
अनुवार		मराठी, मलयालम	हो (संस्कृत)
अनुवित	विशेषण	हिंदी, बंगला, संस्कृत	1. उगा हुआ नहीं, उठा नहीं. अनुन्वित, अप्रकाशित
अनुवित		मराठी, मलयालम	2. मूर्खोदय से पहले + 3. निन्द्य (संस्कृत, हिंदी)
अनुवित		गुजराती	4. अनुच्चारित, अपरिस्फुट, अनुक्त, अर्कथित
अनुद्देश	विशेषण	असमी, मराठी	1. उद्देश रहित जिसका अता-पता न हो
अनुद्देश		बंगला	2. अनभिप्राय, लक्ष्यरहित, निरुद्देश्य
अनुद्वगत	संज्ञा	कन्नड	1. जागृत नहीं 2. मगीत का एक प्रकार
अनुद्विष्ट	विशेषण	बंगला	1. जिसका पता न हो 2. अनभिप्रेत, अनुलिखित, निरुद्देश्य
अनुद्धत	विशेषण	हिंदी, बंगला	1. उच्चरुखल/उग्र/उद्वण्ड नहीं, शिष्ट, सौम्य
अनुद्धत		मलयालम, संस्कृत	2. विनीत, विनयी, नम्र, निरभिमान
अनुद्धरण	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. न हटाना, न उखाड़ना या ऊंचे न उठाना
अनुद्धरणं		मलयालम	2. उद्धरण रूप में न लेना 3. प्रमाणित न करना
अनुद्धर्ष	संज्ञा	हिंदी	उद्धेग का अभाव, उद्धिग्म नहीं
अनुद्धार	संज्ञा	हिंदी	1. उद्धार न होना, ऊचा न उठाना
अनुद्धारं		मलयालम	2. विभाग, विभाजन न करना 3. हिस्सा न लेना
अनुद्धार		संस्कृत	4. उद्धरण रूप में न लेना
अनुद्धृत	विशेषण	हिंदी	1. जिसे उद्धृत या उदाहरण रूप में न लिखा हो
अनुद्धृत		संस्कृत	2. जो प्रमाणित या सिद्ध न किया गया हो

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुदूत		मराठी, बंगला	+ 3 जो क्षत विक्षत न किया गया हो (हिंदी)
अनुदुभट	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1 जो वीर या मान्सी न हो, कोमल, सौम्य
अनुदुभट	विशेषण	संस्कृत	2 जो बहुत ऊचा न हो या उन्नत न हो
अनुदुभिन्न	विशेषण	बंगला	अनुद्गत, अप्रकाशित, अपरिष्कृत
अनुदुभूत	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 जिसका उद्भव नहीं हुआ, प्रच्छन्न, अज्ञान
अनुदुभूत		गुजराती, बंगला	2 अपरिष्कृत, गम्य नहीं 3 दया हुआ मूल
अनुघत	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1 जो कार्य करने का वेद्य नही महन्ती नही
अनुघत		असमी	2 आलसी, मूल निश्चय अनुसारी
अनुघम	मज्ञा	हिंदी, नेपाली	1 प्रयाम नहीं, अक्रमण्यता त्वरता नहीं
अनुघम		असमी, मलयालम	2 आलस, मूर्खी स्वयं का अभाव
अनुघमी	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 अक्रमण्य, मूल आलसी गम्य हीन
अनुघमिन्		संस्कृत	2 स्वयं प्रयाम अथवा स्वयं न करने वाला
अनुघोग	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 अथम अप्रवास अक्रमण्यता प्रयामहीनता
अनुघोग		मलयालम, असमी	2 प्रयत्न नहीं, स्नाह हीनता, निश्चयता निश्चयता
अनुघोगमु		तेलुगु	3 आलस्य, मूर्खी स्वयं का अभाव 4 अनियम
अनुघोगस्थन्	मज्ञा	मलयालम	अनौपचारिक प्रशासकीय नहीं
अनुघोगी	विशेषण	हिंदी, असमी, गुजराती	अनुघत, अनुसारी, आलसी प्रयत्न न करने वाला
अनुघोगिन्		संस्कृत	श्रमशील नहीं, कुछ कार्य या व्यापार आदि न करने वाला
अनुद्वायी	विशेषण	बंगला	जो भाग बन कर उद नहीं सकता
अनुद्वाह	मज्ञा	हिंदी, मराठी, संस्कृत	1 विवाह नहीं किया या नहीं हुआ, चिरकोमाय
अनुद्वाहं		मलयालम	2 विवाह पूर्व स्थिति, कामार्थ, ब्रह्मचर्य, अनुद्वावस्था
अनुद्विग्न	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 अनुत्ताजित, अनुत्काटत, चिन्ताहीन, अव्याकुल
अनुद्विग्न		संस, असमी, बंगला, मलया	2 शान्त मन 3 निर्भय, निश्चय, अक्षय
अनुद्वेग	मज्ञा	नेपाली, गुज, हिंदी, असमी	1 उत्तेजना या चिन्ता न होना, निर्भयता
अनुद्वेगं		मलयालम	2 मन म क्षोभ, आवेग, आक्रोश आदि न होना
अनुद्वेगकर	मज्ञा	हिंदी, गुज, नेपा, असमी	द्वेग शून्य, शान्तचित्त, धैर्यवान, भयहीन

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुन्नत	विशेषण	हिंदी	1 श्री, शिक्षा आदि में वृद्धि न होना
अनुन्नत		असमी	2 वे संप्रदाय, श्रेणी या जनसमूह जो सभ्यता में
अनुन्नत		बंगला	शीछे हैं जिन्होंने अपने को उच्चश्रेणी का न बनाया हो
अनुन्नत		उड़िया	3 जो उन्नत या ऊँचा न हो, पिछड़ा हुआ
अनुन्मत्त	विशेषण	हिंदी	जो मतवाला न हो, जो मदमस्त नहीं
अनुन्माव	सज्ञा	हिंदी	दिमाग दुरुस्त होना, रागलयन नहीं
अनूप	विशेषण	गुजराती, बंगला	नुलना विहीन, बेजोड़, श्रेष्ठ, त्रिमकी उपमा या
अनूप		पंजाबी	समानता न हो सके, उपमा रहित
अनुपकार	गता	हिंदी	1 उपकार नहीं, अपकार, अनिष्ट, अहित
अनुपकार		असमी, बंगला	2 द्विमा (असमी), वृगाई, हार्नि पहुँचाना
अनुपकारी	विशेषण	हिंदी, गुजराती, असमी	1 उपकारी नहीं, कृतघ्न, अपकारी, अहितकर
अनुपकारी		मराठी, तेलुगु, कोंकणी	2 निरुपयोगी पदार्थ, व्यर्थ का, प्रति उपकारी नहीं
अनुपकारिन्		संस्कृत	3 निकम्मा व्यक्ति, जिसमें भलाई की आशा नहीं
अनुपकारक		बंगला	4 शत्रु, काष्टकारी, दुःखदायी
अनुपकारिता	सज्ञा	बंगला	अपकारिता, अगुणकारिता, शत्रुता
अनुपकृत	विशेषण	गुजराती	जिसका उपकार या भला न किया गया हो,
अनुपकृत		बंगला	जिसपर किसी की कृतज्ञता का ऋण नहीं
अनुपक्षित	विशेषण	हिंदी	जिसे क्षति न पहुँची हो
अनुपगत	विशेषण	हिंदी	1 अग्राप्त, अननुभूत 2 जो पास न आया हो
अनुपगीत	विशेषण	हिंदी	जिसका गुणगान या प्रशंसा न हुई हो
अनुपघात	सज्ञा	संस्कृत	किसी जोखिम या बाधा का अभाव
अनुपजीवनीय	विशेषण	हिंदी	1 जीविका न देने वाला 2 जीविका विहीन
अनुपदिष्ट	भूत कृदन्त	हिंदी, बंगला, मलयालम	1 जिसे उपदेश न दिया गया हो
अनुपदिष्टु		तेलुगु	2 जिसे सिखाया, बताया न हो, अशिक्षित
अनुपध	विशेषण	मलयालम	1 छल कपट हीन, धोखेबाज़ नहीं
अनुपध		संस्कृत	2 जिसमें उपधा या उपान्त्य शब्दांश न हो
अनुपधि	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	3 सीधा-भोला, छल कपट से रहित
अनुपधि		मलयालम	4 प्रवचन हीन, जिसमें जालसाजी न हो

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुपनीत	विशेषण	हिंदी, बंगला	1 जिसका यज्ञोपवीत या जनेऊ नहीं हुआ
अनुपनीतुडु		तेलुगु	2 अप्राप्त, जिसका उपनयन मस्कार नहीं हुआ
अनुपनीतन्	सज्ञा	मलयालम	+ 3 अशिक्षित, अनुपस्थित (बंगला)
अनुपन्यास	सज्ञा	संस्कृत, हिंदी	असिद्धि, अनिश्चय, प्रमाणित न होना, संदेह
अनुपपत्ति	सज्ञा	हिंदी, मराठी	1 उपपत्ति, स्मृति, उत्पत्ति, सिद्धि, स्वयं आदि का अभाव
अनुपपत्ति		गुजराती, मलयालम	2 असम्बद्धता, तर्कहीनता, न्याय द्वारा सिद्ध न होना
अनुपपत्ति		बंगला, कन्नड	3 अयुक्ति, अप्रमाण, अकृतकार्यता +4 माधन
अनुपपत्ति		तेलुगु, संस्कृत	हीनता, असुविधा (तेलुगु) +5 अप्रयोज्यता (तमिल)
अनुपपत्ति		तमिल	6 असमर्थता, दैन्य, सकट, असंपन्नता
अनुपपन्न	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 अनुपयुक्त, अनुचित, असलग्न, आसिद्ध, अयुक्त
अनुपपन्न		गुजराती, मराठी	2 असमर्थित, अप्रतिपादित, अप्रमाणित
अनुपपन्न		मलयालम	3 जिसकी जीविका का माधन न हो, दर्गद्री
अनुपपन्न		कन्नड	4 जो युक्ति से सिद्ध न हो सके
अनुपपप्य	सज्ञा	कन्नड	निर्वाह साधन हीन, आजीविका रहित
अनुपम	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 उपमा या तुलना रहित, द्वन्द्वहीन, बें जोड
अनुपम		बंगला, नेपा, ब, मलया	2 बहुत अच्छा, बढिया, सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्तम
अनुपमन् (अनुपमम्)	सज्ञा	तमिल, तेलुगु	3 विलक्षण, विचित्र, असाधारण, निरुपम
अनुपम		असमी, पंजा, संस, उड़िया	4 अद्वितीय, अतुल्य, अनि उत्तम
अनुपमता	सज्ञा	हिंदी	अनुपम होने का भाव या अवस्था
अनुपमा	सज्ञा	हिंदी, मलयालम, संस्कृत	1 उपमा का अभाव, तुलना, ममानना नहीं
अनुपमै		तमिल	2 नेकत्य दिशा कें कुमद गजराज की पत्नी
अनुपमान		कन्नड	जिसका उपमान न हो
अनुपमि	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 जिसकी उपमा न दी गई हो, या बराबरी न हो सकें
अनुपमि		मलयालम, कन्नड	2 जिसकी तुलना न हो सके,
अनुपमेय	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 जिसकी उपमा न दी जा सके
अनुपमेय		बंगला, नेपासी, मलया, संस	2 अनुपम, बेजोड, अतुल्य, अद्वितीय
अनुपम्य		मराठी	अति उत्कृष्ट, अतुलनीय

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुपयुक्त	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 अनुपयोगी, निरुपयोगी, व्यर्थ (इनएक्सपीडियेन्ट)
अनुपयुक्त		मलया, असमी, बंगला, उड़िया	2 अपात्र, अयोग्य, अनुचित, बेमेल
अनुपयुक्तम्		तेलुगु	3 बेकाम का, सटीक नहीं 4 अक्षम, अप्रशस्त
अनुपयुक्तता	सज्ञा	हिंदी	अनुपयुक्त होने की अवस्था या भाव
अनुपयोग	सज्ञा	गुजराती, हिंदी	1 जिसका उपयोग न हुआ हो या न हो रहा हो
अनुपयोग		नेपाली	2 ना कामपन, उचित काम में न आना
अनुपयोगम्		तेलुगु	3 अनुचित उपयोग, उचित व्यवहार में न लाना
अनुपयोगिता	सज्ञा	हिंदी, गुजराती	1 प्रयोजन के साथ असंगति, प्रयोजन रहितता
अनुपयोगिता		नेपाली, बंगला	2 उपयोगी न होना, वृथा, व्यर्थता, निरर्थकता
अनुपयोगी	विशेषण	हिंदी, गुजराती, बंगला	1 अनुपयुक्त, अननुरूप 2 निरर्थक 3 हानि करक
अनुपयोगी		नेपाली, मराठी	4 बेकाम, व्यर्थ का, बेकार, अयोग्य
अनुपरत	विशेषण	मलयालम	1 जिसकी इच्छा निवृत्ति नहीं हुई, उपरत नहीं
अनुपरत		हिंदी	2 मन ही नहीं भग, मन ऊबकर हटा नहीं
अनुपरत		संस्कृत	3 मृत नहीं 4 अबाधित
अनुपरोध	विशेषण	मराठी	1 निर्विकार 2 अप्रतिबध 3 यथार्थ
अनुपलक्षित	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 अदेखा, अपरिचित, जिसपर ध्यान नहीं दिया
अनुपलक्षितम्		तेलुगु	2 अनुसंधान या खोज नहीं हुई हा 3 बे निशाना
अनुपलब्ध	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 अप्राप्त, अज्ञात, अनिर्गमित, अनिश्चित,
अनुपलब्ध	विशेषण	बंगला	अननुभूत, प्रत्यक्ष नहीं, न समझा हुआ
अनुपलब्ध		मलयालम	+ 2 दर्शन शास्त्र का एक प्रमाण (बंगला)
अनुपलब्धि	सज्ञा	हिंदी, मराठी, कन्नड	1 अप्राप्ति, अस्वीकृति, न मिलना
अनुपलब्धि		गुजराती, संस्कृत	2 एक वस्तु की अनुपस्थिति से दूसरी की अनुपस्थिति
अनुपलब्धि		असमी, बंगला, मलया	का निर्णय 3 विषय की जानकारी न होना
अनुपलप्ति		तमिल	4 वस्तु की अस्तित्वहीनता (मीमासा), अप्रत्यक्ष
अनुपलप्तिवैतु	सज्ञा	तमिल	अनुपलब्धि हेतु, किसी वस्तु के कारण का पत्त न चलना
अनुपलब्धि-सम	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	जानि के चौबीस भेदों में से एक (न्याय)
अनुपलम्भं	सज्ञा	मलयालम	1 बोधहीनता, प्रत्यय का अभाव
अनुपलम्भ	सज्ञा	हिंदी	2. ज्ञानाभाव, जानकारी न होना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुपलम्भ	संज्ञा	संस्कृत	3. अभाव, अप्रत्यक्ष, अज्ञान
अनुपवीति	विशेषण	मलयालम, हिंदी	1. जो जनेऊ धारण न करे, जातिच्युत
अनुपवीतिन्		संस्कृत	2. जो द्विज न हो, जिसका यज्ञोपवीत न किया जाय
अनुपशय	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. रोग में उपद्रव, रोगवृद्धि की परिस्थिति
अनुपशयं		मलयालम	2. रोग विज्ञान के पांच विधानों में से एक
अनुपसर्ग	विशेषण	संस्कृत, हिंदी	शब्दांश जिसमें उपसर्ग न हो, उपसर्ग रहित
अनुपसेचन	विशेषण	संस्कृत	जिसके पास कोई चटनी, दही, अचार न हो
अनुपस्कृत	विशेषण	हिंदी	1. जिसका परिष्कार या सम्कार न हुआ हो
अनुपस्कृत		मलयालम	2. वास्तविक या मूल रूप में, अकृत्रिम
अनुपस्कृत		संस्कृत	3. अपक्व, निर्दोष 4. जो सिझाया नहीं गया
अनुपस्थान	विशेषण	हिंदी	1. अनुपस्थिति, स्थान पर नहीं
अनुपस्थाः नम्	संज्ञा	संस्कृत	2. अविद्यमानता, समीप न होना, गैर हाज़िरी
अनुपस्थित	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1. अनागत, अवर्तमान, अविद्यमान, गैरहाज़िर,
अनुपस्थित		असमी, उड़िया, बंगला	अमाक्षात, समीप नहीं, मालिन्ध्य नहीं
अनुपस्थित		गुजराती, मराठी	2. अप्रचलित, ताजा नहीं, मलिन (विषय ज्ञान मगरी)
अनुपस्थित		नेपाली, मलयालम	3. नष्ट 4. असामयिक
अनुपस्थिति	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1. समीप न होना, साक्षात् न होना, गैरमौजूदगी
अनुपस्थिति		असमी, बंगला, संस्कृत	2. अविद्यमानता, न आना, उपस्थित न होना
अनुपस्थिति		मलयालम, मराठी	3. वस्तु की अप्राप्ति
अनुपहत	विशेषण	हिंदी	1. जिसपर आघात न हुआ हो 2. जो पहले उपयोग
अनुपहत		संस्कृत	में न लाया गया हो 3. नया, कोरा, अव्यवहृत
अनुपाकृत	विशेषण	संस्कृत	उपाकरण (यज्ञ में मंत्र से पशु पूजन) रहित
अनुपाख्य	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	स्पष्ट रूप में कहे जाने या समझने योग्य नहीं
अनुपादेय	विशेषण	मलयालम	जो स्वीकार करने योग्य न हो, अस्वीकृत
अनुपाधि	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	छल कपट रहित, निश्छल, निष्कण्ट
अनुपाधि शेषं	संज्ञा	मलयालम	"स्य" का पूरा शमन, अहंकार नाश, मोक्ष, जीवन की समाप्ति, अवशिष्ट
अनुपाय	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1. कोई उपाय या मार्ग न होना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुपाय		नेपाली, असमी, बंगला	2. लावार, निरुपाय, निरवलव, युक्ति हीन
अनुपार्जित	विशेषण	गुजराती	जो उपार्जन किया या कमाया हुआ न हो
अनुपाश्रयाभूमि	संज्ञा	हिंदी	जो भूमि अधिक लोगों को आश्रय न दे सके
अनुपासन (पास्य)	संज्ञा	हिंदी, मलयालम	उपासना या ध्यान का अभाव या उपेक्षा
अनुपेक्षणीय	विशेषण	मलयालम	उपेक्षा योग्य नहीं, जिसके बिना गुंजाग न हो सके,
अनुपेक्ष्य		गुजराती	अपरिहार्य, जिसकी उपेक्षा न की जा सके
अनुपेत	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1 जो गुरु या शिक्षक के सामने न आया हो, अदीक्षित
अनुपेत	विशेषण	संस्कृत	2 जिसका यज्ञोपवीत मक्कार नहीं हुआ, अप्राप्त
अनुत्त	विशेषण	हिंदी, बंगला, संस्कृत	जिस खेत में बीज न बोया गया हो
अनुभय	विशेषण	गुजराती	उभय या दोनों नहीं होगा
अनुर्वर	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 वजर, अन उपजाऊ भूमि
अनुर्वरा		असमी, संस्कृत	2 सुयी, घटिया धरती +3 कटु नीरम धरती (असमी)
अनुल्लंघन	संज्ञा	हिंदी	1 नियम, आचार, प्रथा, सीमा से बाहर न जाना,
अनुल्लंघन		गुजराती	लक्ष्मण रेखा पार न करना
अनुल्लंघनं		मलयालम	2 नियमानुसार, कायदे में, सीमा का अतिक्रमण न करना
अनुल्लंघनीय	विशेषण	गुजराती, बंगला	1 जिसका उल्लंघन न किया जा सकता हो
अनुल्लंघ्य		हिंदी, नेपाली, मलया	2 अनतिक्रमणीय, अटूट, अक्रूर्य
अनुत्थण	विशेषण	संस्कृत	अस्पष्ट, अव्यक्त, न कम न अधिक, अत्यधिक नहीं
अनुष्ण	विशेषण	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	1 गर्म नहीं, ठंडा 2 सूस्त, निक्कमा, काटिल
अनुष्ण	संज्ञा	नेपाली, मलयालम	+ 2 कमल (गुजराती) नीलकमल (संस्कृत, मलयालम)
अनुदृष्टम्	संज्ञा	तमिल	दृष्टान, गर्मी का अभाव, शीतलता
अनुष्णु	संज्ञा	तेलुगु	3. शक्तिहीन, आलसी, जिस व्यक्ति में उष्णता न हो
अनुष्णकरन्	संज्ञा	मलयालम	1 जिसकी किरणें गर्म न हो
अनुष्णकर (रश्मि)		संस्कृत, मलयालम	2 चंद्रमा, ठंडी किरणों वाला

अनु-उपसर्ग-युक्त शब्दावली

अनूजस	विशेषण	हिंदी	उजला या स्वच्छ नहीं, मेला
-------	--------	-------	---------------------------

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अन्-उपसर्ग-युक्त शब्दावली			
अनूठ अनूठं	विशेषण	हिंदी, पंजाबी	1 विलक्षण, विशिष्ट, असाधारण, अनोखा, बढ़िय
		गुजराती	2 चमत्कारक, प्रसन्नतादायक, अद्भुत
अनूठापन	सज्ञा	हिंदी	अनूठा होने का भाव या अवस्था
अनूठ अनूठ	विशेषण	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	1 अविवाहित, कुमार, कुंवारा
		मराठी, नेपाली, मलया	2. जो वहन न किया जा सके या न किया गया है
अनूठा अनूठा	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 अविवाहिता, कुमारी
		नेपाली, असमी, संस्कृत	2 जिसने किसी पुरुष से प्रेम न किया हो
अनूत	सज्ञा	गुजराती	झूठा, ढगामवोर
अनूढक अनूढकं	सज्ञा	नेपाली, संस्कृत, हिंदी	1 जल हीनता, सूखापन, अवर्षण
		मलयालम	+ 2 अनावृष्टि, अकाल (नेपाली)
अनूढेक्ष	सज्ञा	मराठी, संस्कृत	पूर्वक्रम से वर्णन करना, यथासम्य अलंकार
अनून अनूनक अनूनं अनूनमु	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी, संस	1 जो ऊन, न्यून, दोषयुक्त, कम या हीन न हो
		कन्नड	2 पूर्ण, संपूर्ण, सम्पूर्ण, भ्रष्ट
	अव्यय	मलयालम	3 सर्वाधिकार युक्त, पूर्ण अधिकार प्राप्त
		तेलुगु	4 अधिक, विशाल, सर्वाधिक
अनूप अनूप अनूप अनूपमु	सज्ञा	पंजाबी, बंगला, कन्नड	1 बेजोड़, बहुत अच्छा, तुलनाविहीन
	विशेषण	हिंदी, नेपाली	2 जलाधिक्य देश, दलदल वाला 3 तालाब
		गुजराती, संस्कृत	4 मेंढक, तीतर, हाथी, भंस
		तेलुगु	5 नर्मदा घाटी का पुराना नाम
अनूरु अनूरु अनूरु	विशेषण	हिंदी, मराठी, मलया	1 जघा हीन, जिमके जघाएं न हो, लूला
	सज्ञा	नेपाली, कन्नड, संस, तमिल	2 सूर्य का सागधि अरुण देव, + बुध ग्रह (तमिल)
		तेलुगु	3 उपाकाल, भोर, तडका, अरुणोदय (सज्ञा)
अनूर्जित अनूर्जितमु	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1. जो शक्ति सम्पन्न न हो 2 अशक्त, कमजोर
		तेलुगु	3 निरभिमान + 4 अस्थायी (तेलुगु), सामर्थ्यहीन
अनूर्ध्व	विशेषण	हिंदी	जो ऊंचा न हो, फलतः नीचा
अनूर्ध्वास्ति	सज्ञा	तमिल	अनूर्ध्वास्ति (संस) गाल की ऊपरी हड्डी

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनूर्धि अनूर्धिस	विशेषण	हिंदी, मलयालम गुजराती	1 तरंग रहित, शान्त लहरें, लहरीला या तरंगित नहीं 2. जिमका उल्लंघन न किया जा सके, अनतिक्रमणीय
अनूषर	संज्ञा	कन्नड, संस्कृत, हिंदी	ऊसर नहीं, क्षारीय भूमि नहीं, लोनी भूमि नहीं
अनूह अनूह्य	विशेषण	हिंदी मलयालम, हिंदी	1. जिमके विषय में तर्क वितर्क न हो सके 2. जिसकी धारणा न की जा सके + 3. असावधान (हिंदी)
अनृजु (ज) अनृजु	विशेषण	हिंदी, कन्नड, (संस्कृत) बंगला, मलयालम	1. जो सीधा न हो, टेढ़ा मेढ़ा 2. अमरल, कुटिल 3 लिङ्चिडा, दुष्ट, बेईमान, बुग
अनृण अनृण	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी नेपाली, मलयालम, संस	1 ऋण विहीन, ऋणमुक्तता 2 देव, पितृ, ऋषि ऋण मे मुक्त
अनृणी अनृणिन्	विशेषण	गुजराती, मराठी, हिंदी संस्कृत	1. ऋण मुक्त, ऋण शून्य, ऋण विनिर्मुक्त 2 जिस पर देनदारी या कर्ज न रहा हो
अनृत अनृत अनृत अनृतं अनिरुतम्	विशेषण संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, उड़िया, बंग + नेपाली, कन्नड, संस + मलयालम तमिल	1. असत्य, मिथ्या, झूठ, कपट, धोखा 2 अन्यथा, विपरीत, उल्टा (हिंदी, नेपाली) 3. हल चलाना (तमिल) 4. अनित्यता (तमिल) 5. कृषि खेती, व्यापार (संस्कृत, हिंदी)
अनृतक अनृतिन् (अनृती)		तेलुगु, हिंदी मलयालम, मराठी	1. असत्य बोलने वाला व्यक्ति, ठग, बेईमान 2 वचक, छली, धोखेबाज़
अनृतबावि अनृतबाविन् अनृतबावी	संज्ञा	मलयालम संस्कृत हिंदी, गुजराती, मराठी	1. झूठ बोलने वाला, असत्यवादी, मिथ्याभाषी 2 व्रत भंजक, प्रतिज्ञा पालक नहीं 3. ठग, बेईमान, धोखेबाज़, छलिया
अनृतव्रत	विशेषण	मलयालम, संस्कृत, हिंदी	1. व्रत भंजक 2. प्रतिज्ञा या वायदे का पक्का न होना
अनृशु अनृशु अनृशु	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत नेपाली, गुजराती मलयालम	1. बे मौसम, कुसमय, अनुपयुक्त काल 2. ऋतुकाल से पहला समय या पीछे का समय 3. रजोधर्म न होना (कन्या को)
अनेक अनेक	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, उड़िया, बंगला	1. एक से अधिक, बहुत से, कई, नाना, प्रचुर, यथेष्ट, बहुतायत से, विभिन्न

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनेक		नेपाली, कन्नड, संस्कृत	+ 2 कई बार पानी पीने वाला हाथी (कन्नड, तेलुगु)
अनेक		पंजाबी, मलयालम	3 वियुक्त, विभाजित, भिन्न भिन्न
अनेकम्/अनेकन्	सज्ञा	तमिल	+ 4 अति मात्रा में, बहुत माधन (अमगी)
अनेकमु		तेलुगु	+ 5 आत्मा (तमिल)
अनेकघर	विशेषण	हिंदी, मराठी, संस्कृत	झुड़ बनाकर रहने वाले पाणी, समूह में रहने वाले
अनेकचित्त	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	चगल चित्त, अनेक मनोरथ, बहु मकल्प
अनेकज	सज्ञा	हिंदी	1 जिसका कई बार जन्म हुआ हो
अनेकजं		मलयालम	2 पक्षी जो पहले अंडे में, फिर पृथ्वी पर जन्म ले
अनेकता	सज्ञा	हिंदी	अनेक होने का भाव, भिन्नता
अनेकत्व	सज्ञा	गुजराती	विविधता, अनेकता होना
अनेकत्वापत्ति	सज्ञा	गुजराती	अनेकत्व दोष का प्रथम बार बार एक शब्द दुहराना
अनेकत्र	अव्यय	हिंदी	कई स्थानों पर कई जगहों पर
अनेकदोष	सज्ञा	गुजराती	अनेकता का दोष
अनेकदा	क्रिया विशेषण	मराठी	बहुत बार, बार बार, पुन पुन
अनेकदेववाद	सज्ञा	गुजराती	अनेक देवताओं की भावना, बहुदेववाद
अनेकधा	क्रिया विशेषण	हिंदी, बंगला, मराठी	कई प्रकार में, अनेक रूपों में, विभिन्न ढंग में
अनेकधा		मलयालम, कन्नड	कई तरह में
अनेकन्	विशेषण	नेपाली	बहुत में, अनेकानेक
अनेकप (प)	सज्ञा	कन्नड, हिंदी, मलया	हाथी, जो सूड़ और मुख दो तरह में पानी पीता है
अनेकपत्नीकत्व	सज्ञा	गुजराती	बहुत पत्नी प्रथा, बहुत सी स्त्रियों से विवाह करना
अनेकभार्य	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	जिसके कई स्त्रियाँ हों, अनेक पत्नियाँ होना
अनेकभाषाकोविद	विशेषण	गुजराती	कई भाषाओं का ज्ञाता या विद्वान
अनेकमायू	क्रियाविशेषण	तमिल	प्रायः, बहुत बार, लगभग
अनेकमुख	विशेषण	गुजराती	1 जिसके कई मुख हों 2 कई दिशाओं में जाने वाला
अनेकमुख		हिंदी	3 जिसके मुख या प्रवृत्तियाँ कई ओर हों
अनेकपूरति	सज्ञा	मलयालम	अनेक रूपों वाले विष्णु
अनेकरूप	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. जिसके आकार-प्रकार में भेद हो 2. परिवर्तनशील
अनेकरूप		गुजराती	3 अस्थिर 4. परमेश्वर, अनेकरूप धारण करने वाला

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनेकलोचन (नू)	संज्ञा	(मलयालम),हिंदी, संस्कृत	त्रिनेत्र शिव, सहस्रनेत्र इंद्र, विराट पुरुष
अनेकवर्ण	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, गुजराती	1. अनेक रंग वाला 2. अज्ञात गशियां (बीजगणित)
अनेकवचन	संज्ञा	हिंदी, गुज, मरा, कन्नड	बहुवचन, एकाधिक घांतक (व्याकरण)
अनेकबादी	विशेषण	मराठी	पाखंडी मतानुयायी
अनेकविध	विशेषण	हिंदी, गुज, बंग, कन्न, संस	कई प्रकार, बहुविध, नाना प्रकार
अनेकज्ञः	अव्यय	मराठी, मलया, नेपाली, संस	बहुत संख्या में, बारबार, कई प्रकार में, बहुधा
अनेकसाधारण	विशेषण	हिंदी	वहुतों में पाया जाने वाला सामान्य (गुण)
अनेकांगी	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	जिसके अनेक अंग, खंड या भाग हों
अनेकांश	संज्ञा	बंगला	बहुसंख्या, यथेष्ट परिमाण
अनेकांत	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1 जो अकेला न हो 2. जहाँ एकान्त न हो
अनेकांत		गुजराती	+ 3. अनिश्चित, मंशय युक्त, मिथ्या धारणा (मलयालम)
अनेकांत		कन्नड	4 जिसके अंत में अनेक हो 5 जिसका अंत अनेक
अनेकांतं	संज्ञा	मलयालम	रूपों में हो + 6 अस्थिर, चलन (हिंदी)
अनेकांत		संस्कृत	+ 7 अनेक ओर वाला (गुजराती), कई मभावनाओं वाला
अनेकांतिक	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत, मराठी	1. हेत्वाभाम, मिथ्याचरण, अस्थिर, चलन, गौण, अमिद
अनेकान्तिकम्	संज्ञा	तमिल	2. तक में अनेक दृष्टिया 3. मूल मूढ़ से मवध नहीं
अनेकांतवाद	संज्ञा	गुजराती, संस्कृत, हिंदी	1. म्यादवाद, अर्हतदर्शन, जैनमिद्वान्त (जैन)
अनेकांतवादं		मलयालम	2. मशयनाद शब्द प्रामाण्य या अथ श्रद्धा के प्रति
अनेकांतवादम्		तमिल	सदेह 3. विवेक वाद अथवा प्रज्ञावाद
अनेकान्तवादि	संज्ञा	तमिल	जो वस्तुओं को कई दृष्टि कोणों में देखता है (जैन दर्शन)
अनेकान्तिकता	संज्ञा	मलयालम	एक काव्य दोष जिसमें विविक्षितार्थ स्पष्ट न हो
अनेकाकार	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	वद्वन से आकारों या आकृतियों वाला
अनेकाकी	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	अकेला नहीं अनेको में युक्त
अनेकाक्षर	विशेषण	हिंदी, कन्नड	कई अक्षरों वाला शब्द
अनेकाक्षर धातु	संज्ञा	कन्नड	क्रिया का मूल रूप जो कई अक्षरों से बना हो
अनेकाग्र	विशेषण	हिंदी	1. कई कामों में लगा हुआ 2. एकत्र विषय पर केन्द्रित नहीं
अनेकाग्र		मलयालम	3. उत्तेजित या घबराया हुआ नहीं
अनेकाग्रता	संज्ञा	कन्नड	4. बहुत कार्यों, उद्यमों, व्यवसायों में लगा हुआ
अनेकाक्ष (चू)	विशेषण	गुजराती, हिंदी	अनेक अक्ष (स्वरों) वाला, अनेकाधिक स्वर

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनेकानेक	विशेषण	बंगला	बहुत सारे, छोटे छोटे भागों में बंटी बहुत सी वस्तुएँ
अनेकात्मबावम्	संज्ञा	तमिल	अनेक आत्मवाद, आत्मा की म्यन्त्र स्थिति मानना
अनेकार्थ	संज्ञा	मलयालम	1 जिसके कई अर्थ हो + 2 माम (मलयालम)
अनेकार्थ/र्थक	विशेषण	हिंदी, गुजराती	3 अनेक अर्थों वाला वाक्य या शब्द
अनेकार्थी		गुजराती	अनेक अर्थ रखने वाला
अनेकावर्ति	विशेषण	कन्नड	बहुत बार, बार बार, अनेक बार आवर्तन वाला
अनेकाश्रय (श्रित)	विशेषण	हिंदी	कड़ियों के आश्रय में रहने वाला, एकाधिक पर अवलंबित
अनेकेशुबरवादि	संज्ञा	तमिल	जो अनेक ईश्वर मानता हो (पोलीथीइस्ट)
अनेड	विशेषण	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	1 मूर्ख, बुरा, खराब, अनाड़ी (अनृत संस्कृत)
अनेडन्	संज्ञा	मलयालम	2 अमत्य, मिथ्या 3 मिथ्या भाषी
अनेडमूक	संज्ञा	मलयालम, कन्नड	1 गूगा, बहारा, अधा
अनेडमूक	संज्ञा	नेपाली, संस्कृत, हिंदी	2 दुष्ट, मिथ्याभाषी, वेडमन, छली
अनेनस्तु	विशेषण	मलयालम	1. पाप रहित, कलक शून्य, दोष रहित
अनेनस्तु		संस्कृत	2. जिसमें भूल न हो
अनेहस्तु (अनेह)	संज्ञा	संस्कृत, कन्नड, हिंदी	1 अनुलनीय, जिसकी तुलना न हो सके
अनेहस्तु	विशेषण	मलयालम	2 समय, काल, वक्त
अनेकान्तिक	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 बहुलक्ष्यक, अनेक धर्मी, एकाग्र नहीं, चंचल,
अनेकान्तिक		नेपाली, मलयालम	अस्थिर 2 अप्रधान, अनिश्चय, अनेक पक्ष वाला
अनेकान्दिगम्		तमिल	3 न्याय में दुष्ट हेतु, व्यभिचारी हेतु, हेत्वाभास
अनेकान्तिकहेतु	संज्ञा	हिंदी, मलयालम	अनिर्णीत या एकाधिक परिणाम मानने का
अनेकान्तिक हेतु		संस्कृत	सिद्धान्त, माध्य से हेतु संबंध सिद्ध न होना
अनेकान्त्य	संज्ञा	हिंदी	वदलने वाली अस्थिर स्थिति, परिवर्तनशीलता
अनेक्य	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	1 एकता का अभाव, बहुत मत होना, एकमत नहीं
अनेक्य		नेपाली, मराठी	2 मतभेद, विरोध, फूट, असामंजस्य, झुई
अनेक्य		असमी, उड़िया, बंगला	3 विविधता, भिन्नता, अराजकता, फूट
अनेक्यं		मलयालम	4 अव्यवस्था, बहुत्व, अधाधुंधी, अनसूझता
अन्यएको		सिंधी	5 परस्पर मेल का अभाव
अनेकिक्यम्		तमिल	6 बहुलता, बाहुल्य, बहुतायत, अधिष्ठा

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनैच्छिक अनैच्छिक	विशेषण	हिंदी, बंगला नेपाली, मलयालम	1. इच्छानुकूल नहीं, इच्छापूर्वक नहीं, अवांछित 2. जो इच्छा शक्ति के प्रभाव से चालित न हो (बंगला)
अनैतिहासिक अनैतिहासिक	विशेषण विशेषण	हिंदी, गुजराती नेपाली, बंगला	1. जो ऐतिहासिक नहीं, या इतिहास प्रसिद्ध या सिद्ध नहीं 2. इतिहास विरुद्ध, ऐतिहासिक ज्ञान शून्य (बंगला)
अनैतिह्य	विशेषण	नेपाली, संस्कृत	परम्परा प्राप्त उपदेश या प्रमाण का अभाव
अनैश्वर्य अनैश्वर्य	संज्ञा संज्ञा	हिंदी संस्कृत, बंगला	1. ऐश्वर्य हीन, अप्रभुत्व, संपत्ति का अभाव 2. योग में ऐश्वर्य आदि सिद्धियाँ प्राप्त न होना
अन-ओक-ह	संज्ञा	कन्नड, हिंदी, संस्कृत	1. जो घर न छोड़े 2. वृक्ष
अनोकशायिन् अनोकशायी	संज्ञा संज्ञा	संस्कृत हिंदी, नेपाली	1. घर में न सोने वाला, भिक्षुक 2. क्षपणक, शैव मन्त्रदाय का माधु
अनोखा अनोखी	विशेषण विशेषण	हिंदी, नेपाली, पंजाबी मराठी	1. जैसा पहले नहीं देखा, जो महमा देखने में नहीं आता 2. विलक्षण, निराला, विचित्र 3 अज्ञात, विशिष्ट
अनोखापन अनोखापण	संज्ञा	हिंदी पंजाबी	1. विचित्रता, अनुपमता, विलक्षणता, नवीनता 2. मुन्दरता खूबसूरती
अनोज अनोजस्य	संज्ञा संज्ञा	कन्नड हिंदी, संस्कृत	1. ओज हीन एक काव्य दोष 2. माहम का अभाव, शक्ति या बल का अभाव
अनोपम अनीतर अनीधिति	विशेषण संज्ञा संज्ञा	मलयालम, गुजराती हिंदी मलयालम	1. जिसकी कोई उपमा न हो 2. अनुपम, बे-जोड़ देवमूर्ति दर्शन के लिए अनुपयुक्त अवसर अनुचित, ना मुनासिब, अयोग्यता, अयुक्तता
अनीधित्य अनीधित्य अनीधित्यं	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी नेपाली, बंगला, संस्कृत मलयालम	1. ना मुनासिब होना, उचित न होना 2. अकर्तव्यता, अस्मर्थता, अयुक्तता, अमार्थकता 3. अयोग्यता, अधीक्षक (युक्ति संगत नहीं)
अनीदृत्य अनीदृत्यं	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत मलयालम	निरहंकार, विनम्रता, शील, दर्पहीनता, उच्छ्रंवल नहीं, उद्धत न होने की अवस्था या भाव
अनीपचारिक अनीपचारिक	विशेषण	हिंदी, नेपाली मलयालम	नियमानुसार नहीं, विधानानुकूल नहीं, रीति के अनुरूप नहीं, निर्धारित व मान्य नियमों से अतिरिक्त
अनीपम्य	विशेषण	हिंदी	अनुपम, जिसकी उपमा न दी जा सके

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनौरस	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	+ 1 जिसके पत्र न हों, बाझ (गुजराती)
अनौरस		गुजराती	2 गोद लिया बालक, विवाहित पत्नी से उत्पन्न नहीं
अनौरस		मलयालम	3 जो औरस नहीं, दत्तक, अवैध मनान
अनौरसि	सज्ञा	मलयालम	अवैध या गोद ली पुत्री

अण-उपसर्गयुक्त शब्दावली

अण-आवड(त)	सज्ञा	गुजराती	किमी चीज के न आने का भाव, अज्ञान, अमीशल
अण-उतार	विशेषण	गुजराती	मतनु जारी रहना, कभी स्तार पर न आना
अण-ऊण	विशेषण	गुजराती	पुष्कल, अख्यान, विपुल, ककलना(सज्ञा)
अण कमाउ	विशेषण	गुजराती	रुमाऊ नहीं निखटा
अण कयलु	विशेषण	सिंधी	न करने वाला, अकृत निभय
अण कसबी	विशेषण	गुजराती	जिम फाट कम यथा न आता हो
अण काफी	विशेषण	सिंधी	अपर्याप्त
अण स्रपतुं	विशेषण	गुजराती	न खरना, न शिकना, काम में न आना
अण स्रपियुं	विशेषण	गुजराती	वकाल व्यथ, जो काम में न आता
अण स्रायुं	विशेषण	गुजराती	न गाया हुआ
अण सूट	विशेषण	गुजराती	अक्षय, कभी भी समाप्त न होने वाला
अण खेडयुं	विशेषण	गुजराती	विना चाना हुआ अननुता
अणगंटियलु	विशेषण	सिंधी	वकारि अट वट
अण-गण कारबुं	सकम-क्रिया	गुजराती	न गिना जाना
अण-गमतुं	विशेषण	गुजराती	ना परत, अग्रिय
अण-गमे(गमो)	सज्ञा	गुजराती	1 ना परंदगी 2 अग्रिय
अण-गढ (यु)	विशेषण	गुजराती	प्रवाही वस्तुओं के बहने का मार्ग न होना
अण-गह	सज्ञा	गुजराती	गृहस्थहीन, परिवार या कृतम्य विना
अण गुसु	विशेषण	सिंधी	अमाघ, अचूक, गमवाण
अण घटतुं	विशेषण	गुजराती	अपटित, अयोग्य
अण घड़यो	विशेषण	सिंधी	विना घड़ा, व तर्तीव, विना सहाय या बनाया
अणघड़ियो	विशेषण	सिंधी	दूखी, अवघट, अघड, मुर्य, फुड
अणघड़ियोकाहु	विशेषण	सिंधी	अनाई, अरक्य
अण घाल	सज्ञा	गुजराती	अडचन बाधा

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अण घालु	विशेषण	सिंधी	अप्रचलित
अण घाल्यु	विशेषण	गुजराती	चले विना
अण घाले(घालते)	अव्यय	गुजराती	छुटकारा न होना, न छूट के, ला इलाज
अण-घिटो	विशेषण	सिंधी	अस्पष्ट
अण बुरु	विशेषण	सिंधी	निश्चल
अण चिंतु.चिंत्यु	विशेषण	गुजराती	जिम पर सोचा या विचार नहीं गया हो
अण चियुं	विशेषण	सिंधी	खेल में बेईमानी करने वाला
अण चयो	विशेषण	सिंधी	अनकहा, अकथित, बिना कहा
अण छीपी	विशेषण	गुजराती	अनृत. न अघाया हुआ
अण मुहियलु	विशेषण	सिंधी	खराब न होने वाला, अछूता, अस्पष्ट
अण छूटको	संज्ञा	गुजराती	अभाव, न छूट पाना, मुक्ति न होना
अण जाणु	विशेषण	सिंधी	अनभिज्ञ, अनजान, मूर्ख बेंवकूफ, अज्ञ
अणजाबलु	विशेषण	सिंधी	अजन्मा, अज्ञान, मदा रहने वाला, मदा कायम
अण जस्मियलु	संज्ञा	सिंधी	अनाहत चक्र, हठयोग में शरीर के छ. चक्रों में से एक
अण जतियलु	विशेषण	सिंधी	निर्दग्ध, बिना जला हुआ
अण जातलु	विशेषण	सिंधी	अनादि, आदिग. आख्यात, अप्रसिद्ध, अज्ञात, अजनबी
अण जाणार्ई	संज्ञा	सिंधी	अज्ञान, अनजानपणा, अज्ञता
अण जाहिरु	विशेषण	सिंधी	अप्रत्यक्ष, अलक्षित, अप्रकट
अण जित्यलु(जीतियलु)	विशेषण	सिंधी	असर्गाजित, अविजित, अजेय
अण जीतु	विशेषण	सिंधी	अजीत, अविजित
अण जुइयलु	विशेषण	सिंधी	असंगत, असम्बद्ध, बे-मेल
अण जुदा	विशेषण	सिंधी	अभिन्न, जुड़ा हुआ. सलग्न
अण टरु	विशेषण	सिंधी	असंरिधाय, न टलने वाला, अटल
अण टिइयलु	विशेषण	सिंधी	अधखिला, अविचलित, अपूर्ण विकसित
अण टुटलु	विशेषण	सिंधी	अर्वाडिन, अक्षत, टूटा हुआ नहीं, सम्पूर्ण
अण ठहिकंवलु	विशेषण	सिंधी	असंगत, अट सट
अण टक्यो	विशेषण	गुजराती	अनृत, बे टका
अण टकियलु	विशेषण	सिंधी	बे परदा, उमड़ा हुआ
अण टाबलु	विशेषण	सिंधी	अतर्पित, असंतुष्ट, प्रसन्न न होना
अण तंवरुस्तु	विशेषण	सिंधी	बीमार, रोगी, अस्वस्थ

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अण तर्पातुं	विशेषण	गुजराती	अतृप्त, अमनुष्ट
अण तोल्य(तोल)	विशेषण	गुजराती	विना तोले, वं हिसाब
अण थकलु	विशेषण	सिंधी	अथक, अश्रान्त, न थका हुआ, नाजा
अण थियणी	विशेषण	सिंधी	अनहोनी, नामुर्माकिन, असाभय, अघट, अघटिन
अण दाता	विशेषण	पंजाबी	न देने वाला
अण दीठ (दीठू)	विशेषण	गुजराती	अनदेखा, अदृष्ट
अण रोठिआ(यु)	विशेषण	पंजाबी, गुजराती	न दुहा दूध, दूध नहीं निकाला गया
अण धार्यु	विशेषण	गुजराती	यक्यक, अनचीता अनपेक्षित, विना सोचा, अचानक
अण धोतलुं	विशेषण	सिंधी	अनधुला वस्त्र, कोरा कपड़ा
अण-नम	विशेषण	गुजराती	अडिग, जो नमे या झुके नहीं, न झुका हुआ
अण-नामी	विशेषण	गुजराती	अग्रिमिद, जिमका नाम नहीं, अनामी, ब्रह्म (मत्ता)
अण-पकलु	विशेषण	सिंधी	विना पका, कच्चा विना गधा हरा, ताजा
अण पदयलु	विशेषण	सिंधी	अनपद, अर्शाक्षित मूवं
अण-पतीज	विशेषण	गुजराती	अविश्वाम
अणपूरु	विशेषण	सिंधी	अपूर्णाक
अणपूरो गोनु	विशेषण	सिंधी	य गोन अर्द्ध गोलाकार
अण-परख्युं	विशेषण	गुजराती	जिमकी परख्व नहीं हई, जा जाचा नहीं गया
अण परिणियलु	विशेषण	सिंधी	अदत्ता, अविवाहिता कन्या
अण पूराई	मत्ता	सिंधी	व इज्जती, घटनी, अनादर, अवमान
अण पूरो	विशेषण	सिंधी	अपूर्ण, अधकचरा अगिदर, अल्हड, नीच, घाटिया वेजा, खराब गेरवाजिव
अण प्रीछणु	विशेषण	गुजराती	मूवं, अज्ञानी, मूढ
अण प्रीछयुं	विशेषण	गुजराती	अपेक्षित, जिमकी जांच परख्व नहीं हई
अण फाकतुं	विशेषण	गुजराती	अनुकूल न होना, निष्फल होना
अण फेसलु	विशेषण	सिंधी	अनिर्णीत, जिमका फेरला नहीं हुआ
अण भगलु(लु)	विशेषण	सिंधी	विना छिद्र, अगवहित, अक्षुण्ण, अखंड
अण-भगेस (लु)	विशेषण	गुजराती	निरक्षर, अर्शाक्षित, अपद
अण मिन्यलु	विशेषण	सिंधी	अगम्य, अगोचर, जिमसे मिला न जा सके
अण मुंदाइतो	विशेषण	सिंधी	वे वक्त, अकाल
अण-मुहाइंदो	विशेषण	सिंधी	अश्लील, मदा, फादिश

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अण साइकी	विशेषण	सिंधी	अनौचित्य, गेर वाजिव, अनुपयुक्त
अण सिकलु	विशेषण	सिंधी	अगुप्त, छिपा हुआ नहीं
अण सभु	विशेषण	सिंधी	दुर्लभ, अलभ्य
अण सागू	विशेषण	सिंधी	अनुपपन्न, जो प्रमाणित नहीं किया गया
अणबगंबडु	विशेषण	सिंधी	अप्रिय, अर्हचकर, वे स्वाद, नीरम, ना गवार, वे-अमूला
अण बाकेफ़	विशेषण	गुजराती	अपरिचित, अनजान, जानकार नहीं
अण सरज्युं	विशेषण	गुजराती	अर्गंचत, अनिर्मित, अर्चिनित, अनपेक्षित
अण सहू	विशेषण	सिंधी	अमहिष्णु, न सहने वाला, अधीर
अण-सबादी	विशेषण	सिंधी	वे स्वाद
अण-समायलु	विशेषण	सिंधी	नावानिग, अवयस्क
अण साफु	विशेषण	सिंधी	अस्वच्छ, गदा मला, जो माफ़ नहीं
अण-सिद्धि	सज्ञा	गुजराती	सिद्धि का अभाव, निष्फलता
अण सिंधलु	विशेषण	सिंधी	असिद्ध, अप्रण
अण सिधो	विशेषण	सिंधी	1 अप्रत्यक्ष 2 सीधा साफ़ नहीं, टेढ़ा मेढ़ा, खुरदरा
अण सुजातलु	विशेषण	सिंधी	अपरिचित, अजनबी, पहचान का नहीं
अण-सुपरियलु	विशेषण	सिंधी	बर्बर, मू ? अनाड़ी, अमभ्य, जगनी, बदतमीज
अण-सूख्युं	विशेषण	गुजराती	सूखा नहीं, ताजा, हरा
अण सूष्युं	विशेषण	गुजराती	जिसे सूघा न गया हो, नवीन, ताजा
अण सुहाइंदो	विशेषण	सिंधी	अशांभनीय, अच्छा न लगने वाला
अण ह्यसिलु	विशेषण	सिंधी	अप्राप्त, अलब्ध, न मिलना
अण हूंब	सज्ञा	सिंधी	कगालपन, दैन्य, दीनता

अनु उपसर्ग की व्याप्ति

'अनु' उपसर्ग संज्ञा, क्रिया आदि शब्दों के आरंभ में जोड़ा जाता है। इसका मूल अर्थ 'गोछ वा पश्चात् होता है। विभिन्न शब्दों के साथ मिलकर इसके अर्थ में निम्नलिखित शब्दों को जोड़ा जाता है

अर्थ-संकेत

गोछे पीछे
अधिकृत
पन्त्येक
बार बार
तुल्य, सदृश
नियमित
माथ माथ
पश्चात्

उदाहरण

अनुचर, अनुगत, अनुगामी
अनुजन, अनुयायी
अनुक्षण, अनुदिन
अनुशीलन, अनुयायन
अनुसूय, अनुकूल
अनुक्रम अनुक्रमोपस्था
अनुपथ, अनुवृद्ध, अनुत्तर
अनुनाय

ज्ञातव्य

ऊपर जो अर्थ संकेत दिये हैं, वे 'अनु' के मूल अर्थ में मिलते जुलते हैं। एवं दूसरे शब्दों के अर्थ से उद्भूत परिस्थिति में निकाले गये हैं। किन्हीं किन्हीं अनु युक्त शब्दों में उक्त अर्थों से अतिरिक्त अर्थ भी निकल सकते हैं।

विशेष

कभी कभी क्षणानुसार, दिनानुदिन आदि शब्दों का प्रयोग भी होता है। उस अवस्था में दूसरे शब्द में पहले लगा 'अनु' उपसर्ग माना जायगा। परन्तु संस्कृत में दिनमनु, क्षणमनु आदि प्रयोग भी मिलते हैं। उस दशा में व्याकरण की दृष्टि से वहाँ 'अनु' प्रत्यय माना जायगा।

इस कोश में अनु उपसर्ग युक्त 2599 शब्द हैं। जिनमें 461 मलयालम्, 115 तमिळ्, 139 तेलुगु तथा 175 कन्नड़ के हैं। अर्थात् दक्षिणी भाषाओं के 890 शब्द हैं। हिंदी के शब्द 492 हैं। शेष 1217 शब्द उत्तर की सारी भाषाओं के हैं।

भारत की सभी भाषाओं में 'अनु' उपसर्ग जिन शब्दों में पूर्व लगता है उन्हीं के अर्थों को उक्त अर्थ संकेतों के अनुसार परिवर्तित कर देता है। तात्पर्य है कि समस्त भारतीय भाषाओं में 'अनु' उपसर्ग का प्रयोग समभाव से लिया है।

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुकंपक	विशेषण	गुजराती	दया, अनुकम्पा या कृपा करने वाला
अनुकम्पनं	सज्ञा	मलयालम	1 महान्भूति, दया, हृदयी करुणा
अनुकंपन	सज्ञा	हिंदी	+ 2 कम्पन या कम्पन का अनुकरण (मलयालम)
अनुकम्पनं	सज्ञा	मलयालम	1 करुणा के योग्य, दयनीय, कृपित्वे रहम
अनुकंपन	विशेषण	हिंदी	2 हृदय, दयागु
अनुकम्पनीय	विशेषण	मलयालम	जिस पर दया की जा सके
अनुकंपनीय	विशेषण	मराठी, हिंदी	जिस पर दया की जानी चाहिए
अनुकंप्य(कम्प्य)	विशेषण	हिंदी, मलयालम	दयनीय, दया का पात्र, अनुकम्पा के योग्य
अनुकंपा	सज्ञा	हिंदी, मराठी, गुजराती	1 दया कृपा, हृदयी, रहम, मेहरबानी, करुणा,
अनुकम्पा	सज्ञा	बंगला, उड़िया, असमी	महान्भूति, अनुग्रह
अनुकम्पा	सज्ञा	मलयालम, नेपाली	2 पर देख कराना, दुमरो का कष्ट या दुःख
अनुकंप. कंप्	सज्ञा	कन्नड	देखकर उनके प्रति मन में उत्पन्न होने वाली
अनुकम्बम्	सज्ञा	तमिल	रीझा + 3 कृपा, स्नेह (बंगला)
अनुकम्पमु	सज्ञा	तेलुगु	4 दुमरो को कष्ट में देखकर हृदय द्रवित होना
अनुकंपवुं	सहायक क्रिया	गुजराती	दया से द्रवित होना, दया आना
अनुकम्पि	सज्ञा	मलयालम	अनुकम्पा युक्त व्यक्ति, महान्भूतिशील
अनुकंपित	भूत कृदन्त	हिंदी	1 जिस पर दया की गई हो
अनुकम्पित	विशेषण	मलयालम, तेलुगु	+ 2 दयायुक्त व्यक्ति, महान्भूतिशील (मलयालम)
अनुकम्प्यन्	सज्ञा	मलयालम	1 वृद्ध वेग से बात रहवाने वाला, दूत 2. तापम
अनुक	विशेषण	हिंदी, कन्नड	1 सहायक 2 आश्रित (हिंदी)
अनुकन्	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	3 कामक, इच्छुक, लोन्प, प्रेमी
अनुकुडु		तेलुगु	+ 4 प्रति, रम्य, मनोहर, उत्तम (कन्नड)
अनुकथन	सज्ञा	हिंदी	1 दश्यात उक्ति, बाद में कहना, अनुवाद
अनुकथनं		मलयालम	2 वानगीत, वार्तालाप, उल्लेख, चर्चा, प्रस्ताव
अनुकथन		बंगला	(इंटरप्रेशन) 3. सभाषण, क्रमबद्ध वर्णन या व्याख्या
अनुकथिक्कु	सहायक क्रिया	मलयालम	किसी के बाद कुछ कहना, जो सुना वह दुहराना
अनुकर	सज्ञा	संस्कृत, कन्नड	1 सेवक, सहायक 2. नकल करना, दूसरों की

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुकर	विशेषण	मलयालम	देखादेखी करना + 3. एक प्रकार का बर्तन (कन्नड)
अनुकरण	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. देखादेखी काम करना, अनुसरण
अनुकरण	संज्ञा	नेपाली, बंगला, कन्नड	2. किसी को नेता या अगुआ मान कर उसके पीछे पीछे चलना, किसी ने जैसा किया हो वैसा ही करना
अनुकरण	संज्ञा	असमी, उड़िया	3. नकल, प्रतिकृति, अनुरूपता, हूबहू अनुकृति, सादृश्य 4. किसी को प्रमाण मान कर कार्य करना
अनुकरणम्		मलयालम	
अनुकरणम्		तमिल	
अनुकरणम्		तेलुगु	+ 5. जाली (इमीटेशन) (बंगला)
अनुकरणे (क्कुक्)	सकर्मक क्रिया	मराठी, मलयालम	+ 1. उत्पन्न करना, निर्माण या पैदा करना (मराठी)
अनुकरितस्	सकर्मक क्रिया	तमिल	2. नकल करना, समानता करना
अनुकरिषु	सकर्मक क्रिया	तेलुगु	3. अनुकरण करना, तैयार करना
अनुकरिसु	सकर्मक क्रिया	कन्नड	4. एक पक्ति में रखना, जोड़ना
अनुकरसुं	सकर्मक क्रिया	गुजराती	+ 5. अलंकार आदि धारण करना, स्वीकृति देना (कन्नड)
अनुकरणक्षम	संज्ञा	बंगला	नकल करने में चतुर, प्रतिकृति कर सकने में दक्ष,
अनुकरणदक्ष	संज्ञा	बंगला	किसी के किये कार्य को देख कर वैसा ही करने
अनुकरणपटु	संज्ञा	बंगला	की क्षमता या योग्यता रखने वाला
अनुकरणधातु	संज्ञा	मराठी	ध्वनि के अनुकरण पर बनी क्रिया धातु
अनुकरण पद	संज्ञा	कन्नड	शब्द या ध्वनि सुनकर वैसा ही शब्द बोलना या ध्वनि निकाल सकना
अनुकरणप्रवृत्ति	संज्ञा	बंगला	नकल करने की आदत या स्वभाव
अनुकरणप्रिय	विशेषण	बंगला	जिसे नकल करना अच्छा लगे, अनुकरणानुरागी
अनुकरणवाचक	संज्ञा	गुजराती, मराठी	ध्वनि के अनुसार बना शब्द यथा ताड़ ताड़
अनुकरणवृत्ति	संज्ञा	बंगला	नकल करने का स्वभाव
अनुकरणवाद	संज्ञा	गुजराती	कला या अनुभव के अनुसरण का सिद्धान्त
अनुकरणसुभयबोधे	संज्ञा	तमिल	शब्दों या ध्वनियों का दुहराना, अनुकरण वाची
अनुकरणबोधे	संज्ञा	तमिल	ध्वनि-आवृत्ति (ओनोमाटोपोइया), अनुकार
अनुकरणशब्द	संज्ञा	गुजराती, मराठी	स्वानुकागी या ध्वन्यानुसारी शब्द जैसे धड़-धड़
अनुकरणशब्द		कन्नड	भुरभुग आदि अनुकरण पद
अनुकरणशील	विशेषण	गुजराती	1. अनुकरण परायण या अनुकरणप्रवृत्ति सम्पन्न
अनुकरणशील		बंगला	2. अनुकरण करने के लक्ष्य वाला

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुकरण सिद्धान्तं अनुकरणसिद्धान्त	संज्ञा	मलयालम मराठी	ध्वनि के अनुसार शब्द बनते हैं, यह बताने वाला सिद्धान्त (भाषा-शास्त्र)
अनुकरणि अनुकरणियुं	संज्ञा विशेषण	कन्नड गुजराती	नकलची, नकल करने वाला (अभिनेय आदि में) अनुकरण करने वाला, नकलची (तुच्छ कार्य में)
अनुकरणीय अनुकरणीय अनुकरणीय	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी नेपाली, बंगला, अस + मलयालम, उड़िया	1 जिसका अनुकरण अनुसरण करना उचित हो 2 आगे लेकर चलने योग्य (असमी) 3 आदर्श, नमूने का, श्रेष्ठ, उत्तम जिसकी नकल की जाय
अनुकर्तव्य	विशेषण	मलयालम	अनुकरणीय, नकल करने योग्य
अनुकर्ता अनुकर्तृ अनुकर्ता (बु)	विशेषण संज्ञा	नेपाली, हिंदी संस्कृत मलयालम	1 अनुयायी, आदर्श पर चलने वाला, आज्ञाकारी 2 अनुकरण करने वाला 3 अभिनेता, स्वांग भरणे वाला नट, नकलकर्ता
अनुकर्म अनुकर्म	संज्ञा	हिंदी, कन्नड, संस्कृत मलयालम	1 देवकर जेसा ही करना 2 प्रधान कर्म जेसा कर्म 3 प्रधान कर्म के बाद का अनुष्ठान 4 अनुकरण
अनुकर्ष अनुकर्ष अनुकर्ष अनुकर्ष अनुकर्ष अनुकर्षमु अनुकर्ष	संज्ञा	हिंदी संस्कृत बंगला मराठी मलयालम तेलुगु कन्नड	1 आकर्षण, निवाह 2 मंत्रो द्वारा देवता का आवाहन 3 साथ साथ खींचना, अपने पीछे घसीटना 4 रथ के पहिये का धुग 5 पूर्व सूत्रोक्त पद को दूसरे शब्द पर लागू करना व्याकरण का आकर्षण सिद्धान्त 6 उपयुक्त कालार्थि के बाद धार्मिक कार्य की पूर्ति 7 एक हथियार, एक अलंकार (संगीत में)
अनुकर्षण अनुकर्षण	संज्ञा संज्ञा	हिंदी, बंगला गुजराती	1 अनुकर्ष 2 पूर्व वाक्य में आये पद का पश्चात् वाक्य में अन्वय करने का आकर्षण, आवाहन
अनुकर्षिकुकु	सकर्मक क्रिया	मलयालम	1 पीछे खींचना 2 जादूटोना या मंत्रो द्वारा बुलाना (भूत प्रेत या दैवी देवता आदि को)
अनुकलन	संज्ञा	हिंदी	दूसरे की बात को अपने अनुकूल बनाकर ग्रहण करना (गड़ाटेशन)
अनुकल्प अनुकल्प	संज्ञा	हिंदी, गुजराती मराठी, बंगला	1 कर्मकाण्ड विधान में निम्न विकल्प जैसे-जौ की जगह चावल लेना या तत्सद्भवस्तु लेना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुकल्प		नेपाली, असमी	+ 2 वेद विधान में प्रधान कल्प से अधम कल्प (नेलुग)
अनुकल्पं		मलयालम	3 पूरक, गौण विधान, साधारण विकल्प
अनुकल्पमु		तेलुगु	4 मुख्य कल्पना में विहित कल्प आज्ञा या गौण कल्प
अनुकर्षम्		तमिल	5 मुख्य विषय का व्यतिक्रम (आल्टरनेटिव) + 6 अरने अरने उपलो में बनी विभूति (तमिल)
अनुकांशा	सज्ञा	हिंदी	इच्छा, उत्कण्ठा उत्सुकता
अनुकांक्षित	भूत कृदन्त	हिंदी	इच्छित जिसकी चाह की गट में
अनुकांक्षी	विशेषण	हिंदी	इच्छुक आकांक्षी, उत्सुक चाहने वाला
अनुक्काट्टुदत्त	सकमेक क्रिया	तमिल	1 झाकी देना, झाकना 2 सकन देना
अनुकाम	विशेषण	हिंदी	1 इच्छुक आमक्त, कामुक कागी इच्छानुकूल काय
अनुकामं	सज्ञा	मलयालम	2 मदिच्छा, उचित इच्छा, प्रयुम्न आगन
अनुकामं	अव्यय	मलयालम	यथेच्छ, रुचिकर
अनुकापी	विशेषण	हिंदी	1 इच्छानुसार काम करने वाला स्वच्छन्द
अनुकामिन्		संस्कृत, मलयालम	वर्तन करने वाला मनमोजी 2 कागी
अनुकामि		कन्नड	3 स्पेच्छाचारी, मन के अनुसार चलने वाला
अनुकार	सज्ञा	हिंदी, गुजराती	1 अनुकरण, अनुसरण पीठ चलना
अनुकार		मराठी, असमी, बंगला	2 देखादेखी करना नकल करना
अनुकारं		मलयालम	3 नुन्य, सदृश प्रतिविब, प्रतिध्वनि
अनुकारम्		तमिल	+ 4 सम्प्रदाय, पथ, आकार, स्वरूप (मराठी)
अनुकारमु		तेलुगु	+ 5 जैसा मुना वैसा लिखना (असमी)
अनुकारशब्द	सज्ञा	असमी	जैसा कानों में सुनाई दे वैसा लिखना, नकल पी
अनुकारशब्द		बंगला	आवाज, अनुकार जान शब्द, अनुकरण ध्वनि
अनुकारक	विशेषण	नेपाली, गुजराती, हिंदी	1 आज्ञाकारी, भक्त, अनुकरण करने वाला, नकलपी
अनुकारि		मलयालम, तेलुगु	2 दूसरों के समान करने वाला, नकल करने वाला
अनुकारी		असमी, बंगला	+ 3 जानी चीज बनाने वाला (बंगला)
अनुकारी		मराठी	4 सादृश्यता, स्वाग, देखादेखी करना
अनुकार्य	विशेषण	हिंदी, मराठी	+ 1 जिसका अनुसरण किया जा सकता हो, या करने
अनुकार्य	विशेषण	मलयालम	को हो (हिंदी)
अनुकार्य		बंगला	2 अनुकरणीय, अभिनय योग्य

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुकाल	विशेषण	हिंदी, कन्नड, मलया	1 समयानुसार उचित, ठीक
अनुकालं	अव्यय	मलयालम	+ 2 सामयिक, सही अवसर पर, समय पर (मलयालम)
अनुकीर्तन	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, कन्नड	कथन, प्रकाशन, वर्णन, प्रशंसा,
अनुकीर्तनं		मलयालम	घायणा, जातिर करना, किमी वचन का दुहराना
अनुकीर्तिबकुल	सकर्मक क्रिया	मलयालम	स्मृति, प्रशंसा, बखान करना
अनुकूल	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मलया	1 मूर्त्तार्थक, वफादार, पक्ष में
अनुकूल	सज्ञा	नेपाली, मराठी	2 सहायक, मित्र, लाभदायक, पथ
अनुकूलं	सज्ञा, अव्यय	मलयालम	3 विश्वस्त, सम्मत् उपकारी सहायक समर्द्ध
अनुकूल	सज्ञा	कन्नड, उड़िया, असमी	4 एक पत्नीवती, एकनिष्ठ पति, दयालु पति
अनुकूल	सज्ञा	पंजाबी, बंगला	5 मित्र, सहायक मित्र, मित्रार्थक म सहायक
अनुकूलम्		तमिल	6 कृपा अर्पण सहायता 7 एक जलकार
अनुकूलम्		तेलुगु	8 विष्णु की एक स्मृति + 9 नदी के किनारे बसा
अनुकूलम्	सज्ञा	तमिल, मलयालम	क अनुसार चलने वाला (मलयालम)
अनुकूल	क्रिया विशेषण	हिंदी	सोच, चरक
अनुकूले	त्रि या विशेषण	असमी	सहाय, पक्ष में, सहायक
अनुकूलता	सज्ञा	हिंदी, नेपाली	1 अनुकूल होने की अवस्था या भाव
अनुकूलता		पंजाबी, मराठी, कन्नड	+ 2 सुविधा, समर्पण, सहायक सामर्थ्य (मराठी)
अनुकूलन	सज्ञा	हिंदी, नेपाली	1 किमी का समन्त करना या पक्ष में करना
अनुकूलना	क्रिया	हिंदी	2 किमी का अपने अनुकूल बनाना 3 स्वयं किमी के अनुकूल बनना
अनुकूला	सज्ञा	हिंदी	1 एक लण-वृत्त 2 दंतों वृक्ष
अनुकूलि	सज्ञा	तमिल, मलयालम	सहायक, समर्द्ध.
अनुकूलुड	सज्ञा	तेलुगु	मित्र, माथी सहायक, उपकारी
अनुकूलमु च्यु	क्रिया	तेलुगु	पक्ष लेना, पक्ष में करना, निष्कर्ष निकालना
अनुकूलभञ्जु	सज्ञा	मलयालम	शत्रु जो मित्र होने का रहाना बनाता है.
अनुकूलभञ्जुरु	सज्ञा	तमिल	मित्र के वेश में शत्रु, दोस्त दुश्मन
अनुकूलित्तल्	अकर्मक क्रिया	तमिल	1 सफलता प्राप्त होना 2 लाभकर होना, सहायता

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुकूलिषु	अकर्मक क्रिया	तेलुगु	करना या होना, उपयोगी होना, प्रभावकारी होना
अनुकूलिककुक्	सकर्मक क्रिया	मलयालम	3 पक्ष लेना, काम के लिए सहमत होना
अनुकूलितु	क्रिया	कन्नड	4 सहायक होना, उपकारक होना, सफल होना
अनुकृत	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 जिसकी नकल की गई हो
अनुकृत	सज्ञा	नेपाली, बंगला	2 नकल किया हुआ, नकली, अनुसृजित
अनुकृत	विशेषण	मलयालम, तेलुगु	3 नकल, अनुसरण, प्रतिलिपि, कापी 4 इमिटेशन
अनुकृत		मराठी	5 अनुकरण किया हुआ 6 अनुकूल बनाया हुआ
अनुकृति	सज्ञा	कन्नड, हिंदी, मराठी	1 प्रतिकृति, प्रतिलिपि, अनुकरण, नकल
अनुकृति		तेलुगु, मलयालम	2 इमिटेशन, देखा देखी ज्यों का त्यों बना लेना
अनुकृति		बंगला, नेपाली	+ 3 एक अलकार (हिंदी)
अनुकृतिपद	सज्ञा	कन्नड	अनुकरण शब्द
अनुकृतिस्वर	सज्ञा	कन्नड, मलयालम	अनुकरणवाची शब्द के अंत का स्वर वर्ण
अनुकृष्ट	विशेषण	हिंदी	आकृष्ट, आमक्त, खिचा हुआ
अनुक्रकष	विशेषण	मलयालम, संस्कृत, हिंदी	आरी जैसे दाते हाना
अनुक्रंदन	सज्ञा	संस्कृत, हिंदी	1 एक के पीछे दूसरे का रोना या चिल्लाना
अनुक्रंदनं		मलयालम	2 शोकाकुलता या मानम में जोर जोर से रोना
अनुक्रम	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 एक के पश्चात एक रखना (सीक्वेंस)
अनुक्रम	सज्ञा	असमी, कन्नड	2 मुश्रखला, गीति, पद्धति, रणपरा, सिलसिला,
अनुक्रम		नेपाली, बंगला	गणनाक्रम, व्यवस्था, सूची, क्रमबद्धता (सीरियल)
अनुक्रमं		मलयालम	द्वय 3 एक अलकार 4 यथा क्रम, फलन (परिणाम)
अनुक्किरमम्		तमिल	क्रम सूची 5 दो से अधिक पदार्थों की विशिष्ट मरणि
अनुक्रममु		तेलुगु	6 पुस्तक आदि की अनुक्रमणिका
अनुक्रमण	सज्ञा	हिंदी	1 क्रमानुसरण, अनुसरण, अनुगमन
अनुक्रमण		बंगला	2 पीछा करना, पीछे चलना, क्रम से आना
अनुक्रमण		कन्नड	3 सिलसिला बाधकर चलना
अनुक्रमणिका	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 ग्रंथ की विषय सूची, परिशिष्ट 1
अनुक्रमणिका		असमी, उड़िया, बंगला	2 शब्द सूची, वर्णक्रम सूची 2
अनुक्रमणिका		नेपाली, संस्कृत, तेलुगु	3 वर्णित विषयो, सहायक ग्रंथो आदि का सिलसिलेवार
अनुक्रमणिके		कन्नड	वर्णन, अक्षर क्रम से दी गयी शब्द सूची

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुक्रमणि	संज्ञा	मलयालम	4. शृंखला, मिलासले का निर्देशन
अनुविकरणणि	संज्ञा	तमिल	+ 5. कात्यायन के एक ग्रंथ का नाम, जिसमें मंत्रों के
अनुक्रमणी		संस्कृत, गुजराती, हिंदी	ऋषि, छंद, देवता और विनियोगों का वर्णन है (संस्कृत)
अनुक्रमणं	सकर्मक क्रिया	मराठी	आरंभ करना, हाथ में लेना, शुरू करना
अनुक्रमे	क्रियाविशेषण	असमी	क्रम से, शृंखला से
अनुक्रमें	अव्यय	मराठी	क्रमशः, वातरतीव, अनुरूप, अनुसार
अनुक्रमांक	संज्ञा	गुजराती	क्रम के अनुसार आता हुआ अंक
अनुक्रांत	भूत कृदंत	हिंदी	1. क्रम पूर्वक पढ़ा-लिखा व रचा हुआ
अनुक्रांत	विशेषण	मराठी	2. परिगणित, उल्लिखित 3 उल्लंघन किया हुआ
अनुक्रिया	संज्ञा	हिंदी, तेलुगु	1. प्रतिक्रिया (रिणक्शन) (हिंदी), अनुकरण (संस्कृत)
अनुक्रिया		गुजराती, संस्कृत	2. अनुकृति (गुजराती) 3. मिलमिला (तेलुगु)
अनुक्रोश	संज्ञा	हिंदी, मराठी, कन्नड	1. दया, करुणा, अनुकंपा, कोमल भाव, रहम, हृमददी, सहानुभूति, कृपा
अनुक्रोशं		मलयालम, संस्कृत	+ 2 जो एक कोमल पहुंचा हो (संस्कृत) (विशेषण)
अनुक्रोशमु		तेलुगु	
अनुक्षण	अव्यय	हिंदी, असमी, उड़िया	1. प्रतिक्षण. सतत, क्षण क्षण में, सभी समय में
अनुक्षण		बंगाली, नेपा, गुज, मरा	2. निरंतर, भवंचा, प्रायः लगातार, बराबर
अनुक्षणं/अनुक्षणम्	अव्यय	मलयालम, संस्कृत	+ 3. क्षण भर के लिए (मलयालम)
अनुक्षणम्		तेलुगु	4. बिना रुके, धारा प्रवाह, प्रतिपल
अनुक्षणे	क्रिया विशेषण	असमी	लगातार, सर्वदा, निरन्तर
अनुक्षणौ	क्रिया विशेषण	मराठी	अनुक्षण, प्रतिक्षण, सतत
अनुक्षेत्र	संज्ञा	संस्कृत, उड़िया	1. पुजारियों को दी जान वाली वृत्ति (उड़ीसा के मंदिरों में) 2. छोटा क्षेत्र, तीर्थ स्थान
अनुक्षेत्र	संज्ञा	मराठी	
अनुख्याता	विशेषण	हिंदी	1. पता लगाने वाला
अनुख्यात्		संस्कृत	2. भेद या रहस्य जानने या प्रकट करने वाला
अनुख्याति	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. गुप्त बात की सूचना देना या उसे प्रकट करना
अनुख्याति		मलयालम	2. रहस्योद्घाटन, भेद खोलना, पर्दा फाश करना
अनुख्यान	संज्ञा	हिंदी	पता लगाना, भेद या रहस्य उद्घाटन करना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुगता	मज्ञा	हिंदी	1 अनुगामी, अनुसरणकर्ता, आदेश पालक, सेवक,
अनुगन्ता (बु)	मज्ञा	मलयालम	अनुसर + 2 प्रति मरण पर चिन्ता पर सती होने वाली
अनुगन्तु		संस्कृत	स्त्री (मलयालम) + 3 स्त्रीदशन, अनुसरण (मलया)
अनुग	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 अनुयायी, अनुगामी, फिक्लमपूआ, अनुसर, सेक्क नोक्क
अनुग		नेपाली, बंगला, कन्नड	2 माथी, आज्ञाकारी, अनुगत, प्रयोग या विपरीत
अनुगन्/अनुग		मलया, तमिल, संस्कृत	+ 3 शब्द के पीछे लगने वाला प्रत्यय (गुजराती)
अनुगडिसु	क्रिया	कन्नड	आधान करना, लवाई में मलना या रगटना, पीछे ही ओर धकलना, निरस्कार करना
अनुगणन	मज्ञा	हिंदी	1 माणिक गणित 2 लाक्षणिक रूप से मन ही मन क्रिया जान वाना धाने लाभ का अनुमान (गर्कनिग)
अनुगणित	भूत कृदन्	हिंदी	गृहे जचानी त्रियाव, मन ही मन अनुमान लगाना
अनुगत	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 अनुयायी, अनुगामी, अनुसर, मानन प्रती
अनुगन्	मज्ञा	असमी, उड़िया, बंगला	+ 2 अपासक, अर्धीन, आर्षित (असमी, बंगला)
अनुगतमु		तेलुगु	+ 3 लक्ष्य, प्राप्त (मलया) क्रिया सिद्धान्त का मानने वाला
अनुगतुडु		तेलुगु	+ 4 समरूपी, प्रयात, नन्दरुपा (मलयालम, मराठी)
अनुगतं	मज्ञा	मलयालम	+ 5 अनुकूल, आज्ञागुयी, सेवक शिष्यादि (नेपाली)
अनुगतम्		तमिल	+ 6 निश्चय क्रिया हुआ परिभाषित (तेलुगु) + 7 युद्ध
अनुगत	विशेषण	नेपाली, कन्नड, मलया	या गौरेन, व्यात या तृण (मराठी) + 8 जगती माथी
अनुगतन्	मज्ञा	मलयालम	का पकड़ने के लिए पीछे पड़ने का तरीका समीन में मध्यकाल (मलयालम)
अनुगतधर्म	मज्ञा	मराठी	पदाधी के गुण प्रभाव धनाना
अनुगतप्राप्त	मज्ञा	कन्नड	एक प्रकार
अनुगतार्ध	विशेषण	हिंदी	1 गगत अर्थ, अनुकूल या मिलना-जुलना अर्थ
अनुगताल्ध		मलयालम	2 गगलना में समझ में आने वाला अर्थ
अनुगति	मज्ञा	हिंदी, मराठी, संस्कृत	1 पीछे पीछे चलना, अनुसरण करना, अनुगमन,
अनुगति		तेलुगु, मलया, कन्नड	नकल 2 महमति, सम्पत्ति 3 मृत्यु, मौत (हिंदी)
			+ 4. भाषा का सती होना (हिंदी, मलयालम)
अनुगतिक	मज्ञा	कन्नड	अनुगामी, पीछे चलने वाला, आज्ञाकारी
अनुगम	मज्ञा	हिंदी, नेपाली	1 अनुसरण 2 सकल विचार, समान रूप से अनेकों

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुगम		गुजराती	का वर्गीकरण (नेपाली) + 3 आचार विचार ग धर्म
अनुगम		मराठी, उड़िया	को प्रमाण मानकर चलना (गुजराती)
अनुगम		कन्नड, संस्कृत	+ 4 विषय का समझना, ध्यान रखना, पूरी तरह
अनुगममु		तेलुगु	जानना (मराठी)+ 5 तर्क में पक्ष सिद्ध करने के
अनुगम		बंगला, असमी	लिए विभिन्न तथ्यों तथ्यों के आधार पर स्थिरकृत परिणाम (इन्द्रकान) (हिंदी) + सती होना (नेपाली)
अनुगमन	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 पीछे चलना अनुसरण, अनुचरण
अनुगमन		असमी, उड़िया, बंगला	2 समान आचरण, साथ देना, सहायक होना,
अनुगमन		मराठी, संस्कृत, कन्नड	नज़दीक जाना अनुहार, अधीन होना
अनुगमनम्		तमिल	+ 3 स्त्री के साथ होना वाला सभाग या सववास (हिंदी)
अनुगमनमु		तेलुगु	4 साथ साथ मूल का बंध समझना
अनुगमनं		मलयालम	5 अनुसरण प्रति क साथ सती होना
अनुगमिंधु	सम्पन्न क्रिया	तेलुगु	पीछे चलना साथ देना साथ देना,
अनुगमिक्कुक्क		मलयालम	अनुसरण करना अनुसरण करना
अनुगम्य	विशेषण	हिंदी	अनुगम - करने योग्य
अनुगम्य		मलयालम	गए चला हुआ पीछे चलकर,
अनुगम्यन्		संस्कृत	पीछे चलने वाला
अनुगर्जनं	सज्ञा	मलयालम	1 किसी शब्द को मूल गिल्लाना, उनादना
अनुगर्जन		संस्कृत	2 प्रतिगर्जन, जवाब की दहाड
अनुगर्जितं	भूत कृत	मलयालम	प्रतिध्वनि, गुंज, गवद का या पहाड में
अनुगर्जित		संस्कृत	बोलने वाले के बाद आती हुई आवाज
अनुगलमु	सज्ञा	तेलुगु	समान, अनुकूल
अनुगवीनन्	सज्ञा	मलयालम	गोपाल, खाला, पक्ष ओ को चरने वाला गोरक्षक
अनुगवीन	विशेषण	मराठी, संस्कृत, हिंदी	गाव आदि का रखवाला जो उनके पीछे पीछे चले
अनुगांग	विशेषण	हिंदी	गंगा के किनारे का प्रांत
अनुगादि	सज्ञा	मलयालम	1 दुमरे के शब्दों को दहराने या दहराने वाला
अनुगादिन्		संस्कृत	2 व्याख्याकार 3 गाने वाले के बाद अनेक लोगों
अनुगादी	विशेषण	हिंदी	द्वारा वही प्रति गाना 4 प्रतिध्वनि करने वाला

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुगानं	संज्ञा	मलयालम	वाद्यों के साथ गाया गीत, साथ साथ गाया गया गी
अनुगामिता	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	अनुगमन करने की अवस्था या भाव
अनुगामि	विशेषण	मलया, तेलुगु, कन्नड	1 अनुयायी, पीछे-पीछे चलने वाला
अनुगामिन्	संज्ञा	संस्कृत	2 मतावलम्बी, किसी संप्रदाय का नियम पालक
अनुगामी	विशेषण	हिंदी, गुजराती, बंगला +	3. उत्तराधिकारी (मलयालम)
अनुगामी		मराठी, नेपाली, कन्नड	4 शिष्य, सेवक, भक्त, आज्ञाकारी
अनुगामक		असमी, उड़िया, बंगला	5. सहायक, साथी
अनुगमु		तेलुगु, सिंधी	6 अनुकरण करने वाला, पर्दाघट्टा पर चलने वाल
अनुगामिनि	संज्ञा	मलयालम	1. अनुगामी 2. पतिभक्ता 3 मती
अनुगामिनी		मराठी, बंगला, हिंदी	4 आज्ञाकारिणी भार्या, अनुसरण करने वाली
अनुगामुक	विशेषण	मलयालम, हिंदी	स्वभाववश अनुसरण या सेवा करने वाला
अनुगायक	विशेषण	हिंदी	1 गायक के पीछे गाने वाला
अनुगायि		मलयालम	2 गीत में मगत देने वाला
अनुगायिन्		संस्कृत	3 कोरम गान में गाने वाला
अनुगिरम् (रं)	अव्यय	संस्कृत, मलयालम	पर्वत के पास, पहाड़ की तलहटी में
अनुगीत	संज्ञा	हिंदी	एक प्रकार का छंद,
अनुगीति		संस्कृत, हिंदी	एक छंद का नाम
अनुगीत	विशेषण	मलयालम	पश्चात् गायन, किसी के गाने में साथ देना
अनुगीता	संज्ञा	मलयालम, हिंदी, संस्कृत	महाभारत के अश्वमेध पर्व का एक अध्याय
अनुगुण	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी, संस	1 समान गुण युक्त, समगुणी, अनुरूप, मतीक,
अनुगुण		नेपाली, बंगला, कन्नड, मलया	अनुकूल धर्मी, स्वाभाविक विशेषता
अनुगुणं	अव्यय	मलयालम, संस्कृत	2 अनुगत, उपयुक्त, मही, ठीक वैसा ही
अनुगुणम्	संज्ञा	तमिल	3. एक ही विशेषता वाला
अनुगुणमु		तेलुगु	+ 4 अर्थालंकार का एक भेद (संस्कृत)
अनुगुणत्व	संज्ञा	संस्कृत, कन्नड	सादृश्यता, वैसी ही विशेषता होना
अनुगुणासङ्कारम्	संज्ञा	तमिल	प्रस्तुत की तुलना में अप्रस्तुत की गुण वृद्धि
अनुगुण्यमु	अव्यय	तेलुगु	तदनुसार, के अनुरूप
अनुगुप्त	भूत कृदन्त	हिंदी	गुप्त किया या छिपाया हुआ, आश्रय में रखा हुआ

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुगृहीत	भूत कृत	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 उपकृत, आभारी, कृतज्ञ, कृपा प्राप्त, एहसान मद
अनुगृहीत	विशेषण	असमी, उड़िया, नेपाली	2 जिसे आशीर्वाद या वरदान दिया गया हो
अनुगृहीत		मलयालम	3 जिस पर अनुग्रह किया हा
अनुगृहीतम्		तेलुगु	4 कृपा पात्र व्यक्ति, उपकृत व्यक्ति
अनुगृहीतुडु	सज्ञा	तेलुगु	+ 5 उपकार मानने वाला (हिंदी)
अनुगूज	सज्ञा	हिंदी	गूज, प्रतिध्वनि, आवाज की जवाबी आवाज
अनुग्रह	सज्ञा	हिंदी, मराठी, बंगला	1 कृपा, उपकार, अनुकंपा, महानुभूति, महायता, स्वीकृति, प्रसाद, छूट, रियायत, पुरस्कार, आशीर्वाद
अनुग्रह		गुजराती, संस्कृत	
अनुग्रह		असमी, उड़िया	2 गुरु से प्राप्त उपदेश, वेद मंत्रों का उपदेश
अनुग्रह		नेपाली, कन्नड	3 आत्मा के उद्धारार्थ पंच कृत्य (शैव दर्शन)
अनुकिरकम्	सज्ञा	तमिल	4 सैन्य दल का पिछला भाग, रक्षक सैन्य दल
अनुग्रहं		मलयालम	5 अनिष्ट निवारण + 6 प्रेम स्वीकार करने वाला (तेलुगु)
अनुग्रहम्		तेलुगु	+ 7 मनुष्य शरीर में देव आवेश (मलयालम)
अनुग्रहचक्रं	सज्ञा	मलयालम	1 मोभाग्य चक्र 2 एक रहस्यमय यंत्र का नाम
अनुग्रहपात्र	सज्ञा	बंगला	कृपा पात्र, जिस व्यक्ति पर कृपा की जानी चाहिए
अनुग्रह प्रार्थी	सज्ञा	बंगला	दया चाहने वाला, दया का भिखारी, कृपा प्रार्थनाकर्मी
अनुग्रह भाजन	सज्ञा	बंगला	दया योग्य, जिस व्यक्ति पर दया की जाय
अनुग्रहसर्ग	सज्ञा	मलयालम	भावना या मानसिक अवस्था का सृजन (साख्य)
अनुग्रहिकुक	सकर्मक क्रिया	मलयालम	कृपा करना, वरदान देना (दू शो फेवर)
अनुग्रहिंषु	सकर्मक क्रिया	तेलुगु	प्रेम में स्वीकार करना, प्रार्थना मानना
अनुग्रहिसु		कन्नड	दण्डदान करना, एहसान करना
अनुकिरहितसु		तमिल	अनुग्रह करना रहम करना, मेहरवानी करना
अनुग्रहीत	भूत कृत	तेलुगु, हिंदी	अनुगृहीत, उपकृत, अनुग्रह प्राप्त व्यक्ति
अनुग्रही	विशेषण	हिंदी	1 कार्य कुशल, निपुण, कार्य दक्ष
अनुग्रहिन्		संस्कृत	2 गेदजालिक, बाजीगर
अनुग्रही	विशेषण	मराठी	1 जिसे वेद ऋचा सिखायी हो वह शिष्य
			2 जिस पर अनुग्रह किया गया हो
अनुग्राहक	सज्ञा	हिंदी, मराठी, असमी	1 कृपालु, उपकारी, करुणामय मेहरबान

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुग्राहक	विशेषण	बंगला, मलयालम	+ 2 वेद ऋचा गिरवाने वाला (मराठी)
अनुग्राहक		नेपाली, तेलुगु	+ 3 समय पर दूसरे के काम आने वाला (हिंदी)
अनुग्राही		हिंदी, बंगला	4 प्रीति प्रदक्षक, वरदाना (ओबलाइजिंग)
अनुग्राहिन्		संस्कृत	+ 5 जिम पर दया या करुणा दिग्वाइ गर्यी हो (मलया)
अनुग्राह्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 अनुग्रह पात्र या कृपा के योग्य
अनुग्राह्य		मराठी, बंगला	2 जिम पर अनुग्रह होने को हो या कृपा की जानी ल
अनुग्राह्य		मलयालम, संस्कृत	+ 3 गहण योग्य (बंगला)
अनुघटन	सत्ता	हिंदी	1 परस्पर मिलाना, एक साथ बाधना मलम करना
अनुघटनं		मलयालम	2 मन्ध स्थानिन करना
अनुष्ठी	विशेषण	मराठी	एक समान, एक जेसा, घटन में समान
अनुधात	सत्ता	हिंदी	नाश, ध्वंस, मत्तार
अनुघस्रं	अध्यय	मलयालम	अनुदिन, शान्तिदिन
अनुचर/अनुचारी	सत्ता	हिंदी, गुजराती, मराठी, संस.	1 पीछे चलना 2 सेवा मुश्रुवा करना
अनुचर	विशेषण	असमी, उड़िया, बंगला	2 पीछे चलने वाला, अनुयायी, चाकर, नोकर
अनुचर	विशेषण	नेपाली, कन्नड, मलया	में एक, दास, भुन्व, रहलना
अनुचरन्/चारकन्	सत्ता	मलयालम	3 मन्चर, साथी
अनुचरुडु		तेलुगु	4 शिष्य भक्त, आत्माहारी
अनुचारक (चारी)	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, गुजराती	दय अनुचर
अनुचरी	सत्ता	गुजराती, संस्कृत	1 माविका, दासी, परिवारिका रहलनी
अनुचारिका		नेपाली, संस्कृत	2 मागिनी, माशिन पत्नी, रतिभक्ता, प्रतिभ्राता.
अनुचारिणी	सत्ता	बंगला	आत्माकारिणी भार्या 3 अनुगमिनी स्त्री, माचरी
अनुचरि/चारि		मलयालम, तमिल	+ 4 शिष्य भक्त, मतावलदी (तमिल)
अनुचरिक्कुक्क	सकमक क्रिया	मलयालम	1 पीछा करना, जागी रखना 2 सेवा करना
			3 विचारना, घुमना, भटकना
अनुचरितं	सत्ता	मलयालम	1 जिमके प्रति विश्वस्तता दिग्वाइ जाय
			2 सन्तर 3 आचरण
अनुचार	सत्ता	हिंदी	1 निष्ठ; में व्यवहार 2 अधीन रह पीछे चलना
अनुचार		मराठी	3 सेवा मुश्रुवा 4 पूज्यमान, निष्ठ से किया आचरण

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुधारम्	सज्ञा	तमिल	+ 5 ग्रह का विपरीत गमन या वक्री होना (तमिल)
अनुधिकीर्षा	सज्ञा	बंगला	अनुकरण इच्छा, तदनुसार कार्य करने की चाह
अनुषकीर्षित	भूत कृदन्त	बंगला	अनुकरण इच्छा कृत, आज्ञानुसार प्रवृत्ति
अनुधिकीर्षु	विशेषण	बंगला	अनुकरणार्थमिलापी, अनुगमनच्छक
अनुचिन्त	सज्ञा	मलयालम, गुजराती	1 स्मरण, ध्यान, पुनरावलोकन, पुन स्मृति
अनुचिन्तनं	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	2 अनुध्यान विचार, चिन्ता
अनुचिन्तन	सज्ञा	बंगला, हिंदी, गुजराती	3 पर्यालोचन, आवर्ती या गम्य चिन्तन,
अनुचिन्ता	सज्ञा	उड़िया, बंगला, हिंदी, संस	व्याकलन, अनुस्मरण, उन्कटापूर्वक स्मरण
अनुचिन्तवन	सज्ञा	गुजराती	4 गत चिन्तन मोच विचार गत क् स्मरण, सोचना
अनुचिन्त्य	विशेषण	मलयालम, बंगला	नीती या भूली हृद वात फिर से स्मरण करना
अनुच्छाद	सज्ञा	संस्कृत, हिंदी	अग र नीचे रहना जाने वाला वस्त्र नीमा
अनुच्छिति	सज्ञा	संस्कृत, हिंदी	रुट कर अलग न होना नाश न होना
अनुच्छेद	सज्ञा	संस्कृत, हिंदी	1 क्रिमी आधिनियम आदि का विशिष्ट अंग
अनुच्छेद	सज्ञा	बंगला, नेपाली	2 आर्म्सल पैगयाफ़ लेख आदि
अनुज	विशेषण	हिंदी, गुज, मरा, मलया, संस	1 गण्ड जन्म न वाला, उमर में कम जूनियर
अनुज / अनुजन्मा	सज्ञा	असमी, उड़िया, बंगला, नेपाल	2 छोटा भाई स्मिष्ट भाता
अनुजन्		मलया, कन्नड, तमिल	+ 3 पति का छोटा भाई देवर (मलयालम)
अनुजन्मन् / अनुजातं		संस्कृत, मलयालम	4 भगज का विपरीत
अनुजुडु / अनुजन्मुडु	सज्ञा	तेलुगु	5 मवस छोटा या बड़ से छोटा भाई
अनुजा	सज्ञा	बंग, हिंदी, गुज, मराठी	1 छोटी बहिन, महदगी
अनुजति		मलयालम	+ 2 माली छोटे भाई की रन्नी (मलयालम)
अनुजाते / अनुजे		कन्नड, तमिल	3 रन्नी की छोटी बहन
अनुजाता		बंगला, तेलुगु, मलया	4 पश्चात जन्म लेने वाली
अनुजन्म नक्षत्रं	सज्ञा	मलयालम	जन्म नक्षत्र में दसवा तथा रन्नीसवा नक्षत्र
अनुजिपृष्ठा	सज्ञा	मलयालम	कृपा करने की इच्छा, उपकारेच्छा
अनुजिपृष्ठु	सज्ञा	मलयालम	कृपा करने का इच्छुक, उपकार का इच्छुक
अनुजायि	सज्ञा	कन्नड	गगीत की एक रीति, विधि या क्रम
अनुजीविन्	सज्ञा	संस्कृत	परावलम्बन्, परजीवी आश्रित जीवन, दूररे के

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुजीवनन्	संज्ञा	मलयालम	सहारे जीवन यापन करने वाला, नौकर, सेवक
अनुजीविकुकु	सकर्मक क्रिया	मलयालम	1 आश्रित होकर जीना 2 जीने के ढंग में नकल करना, स्पर्धा करना
अनुजीवि	विशेषण	मलयालम, कन्नड, तेलुगु	1 जिस पर अपनी जीविका निर्भर हो
अनुजीवी		गुजराती, नेपाली	2 परावलम्बी, सेवक, नौकर, चाकर, भृत्य, आश्रित
अनुजीवी		हिंदी, मराठी, बंगला	3 राजाश्रित, मंत्री, सभासद, अधिकारी
अनुजीव्य	विशेषण	बंगला	आश्रय दान योग्य, सहारे जीने लायक
अनुज्ञप्त	भूत कृदन्त	हिंदी	1 कार्य जिमकी स्वीकृति मिली हो
अनुज्ञप्त		नेपाली	2 व्यक्ति जिसकी स्वीकृति मिली हो
अनुज्ञप्ति	संज्ञा	हिंदी	1 आज्ञा देने की क्रिया, अनुज्ञापन (मैक्शन)
अनुज्ञप्ति		मलयालम	2 लिखित पत्र जिमम आज्ञा हो
अनुज्ञा	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 आज्ञा, अनुमति, स्वीकृति, इजाजत, परमीशन,
अनुज्ञा		नेपाली, गुजराती	आदेश, मैक्शन 2 नियुक्ति, अपाइण्टमेण्ट
अनुज्ञा		असमी, बंगला, मराठी	3 परवानगी, यात्रा अनुमति 4 अवकाश या छुट्टी
अनुज्ञा	संज्ञा	उड़िया	देना 5 मुख्य आज्ञा की व्याख्या करने वाला
अनुज्ञा		तेलुगु	+ 6 प्रार्थना पूर्ति के लिए किया आदेश (असमी)
अनुज्ञा		मलयालम	7 कार्य विशेष के लिए शासन से अनुमति
अनुज्ञे		कन्नड	+ 8 ब्राह्मण से आशीर्वाद प्राप्ति के लिए दक्षिणा (मलया)
अनुञ्चे		तमिल	9 भूल की क्षमा 10 जाने की आज्ञा
अनुज्ञाकलश	संज्ञा	संस्कृत	1 मंदिर जीर्णोद्धार में देवता को कलश भेंट करना
अनुज्ञाकलशं		मलयालम	2 देव मूर्ति
अनुज्ञात	भूत कृदन्त	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 अनुमति, स्वीकृति, इजाजत या आदेश प्राप्त
अनुज्ञात	विशेषण	बंगला, मलया, नेपाली	+ 2 स्वीकृति प्राप्त व्यक्ति (तेलुगु)
अनुज्ञातुडु		तेलुगु	3 अनुज्ञा प्राप्त, आदिष्ट, बा-हुकुम,
अनुज्ञान	संज्ञा	संस्कृत, हिंदी	अनुज्ञा, अनुमति, सहमति
अनुज्ञानं		मलयालम	हुकुम, आदेश, निर्देश
अनुज्ञापक (न्)	विशेषण	मराठी, संस्कृत, (मलया)	1. आज्ञा देने वाला 2. सिफरिश करने वाला, प्रशंसाकारी
अनुज्ञापकं	संज्ञा	मलयालम	आज्ञा देने की मन. स्थिति (मलयालम)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुज्ञापत्र	सज्ञा	नेपाली, बंगला, हिंदी	आदेश की सूचना, अधिकृत पत्र, लाइसेंस, परमिट
अनुज्ञापन	सज्ञा	नेपाली, गुजराती, हिंदी	आदेश देना, सूचना देना, अनुमति, अधिकार देना
अनुज्ञापित	भूत कृदंत	हिंदी, नेपाली	जिसे अनुज्ञा दी गई हो, या इजाजत मिली हो
अनुज्ञासंस्कारम्	सज्ञा	तमिल	अनुज्ञा अलकार, जिस अलकार में अनिच्छित प्रयुक्त इच्छित हो जाय
अनुज्ञेय	विशेषण	हिंदी	जिगके विषय में अनुज्ञा दी जा सकती हो अर्थात् अनुज्ञा से कोई हानि न हो (परमिसिव)
अनुज्येष्ठ	विशेषण	हिंदी	1 बड़े में छोटा पुत्र, ज्येष्ठ के बाद का पुत्र
अनुज्येष्ठं (म्)	अव्यय	मलयालम, संस्कृत	2 वरिष्ठता के अनुसार दूसरे नंबर का
अनुज्येष्ठु	सज्ञा	तेलुगु	3 बड़े छोटे के लिहाज से (अव्यय)
अनुतप्त	विशेषण	हिंदी, गुजराती, बंगला	1 पश्चान्तापयुक्त, रजीदा, खिन्न, अनुताप युक्त
अनुतप्त		मराठी, मलयालम	+ 2 गर्म किया गया 3 उत्तेजित (मलयालम), दुःखी
अनुतपिक्कुक्	क्रिया	मलयालम	1 पश्चान्ताप करना, अफसोस करना 2 सहानुभूति रखना 3 किसी का दुःख महसूस करना
अनुतरं/अनुतर	सज्ञा	मलयालम, हिंदी	नाव या गह्वज का किराया या भाड़ा, नाव पर चढ़
अनुतरम्		तमिल	कर पार जाने का किराया
अनुतरिक्कुक्	सकर्मक क्रिया	मलयालम	तेर कर दूसरी पार जाना
अनुतर्ष	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत, कन्नड	1 मद्य, मद्यपान या पानपात्र
अनुतर्षमु (र्ष)		तेलुगु, मलयालम	2 अभिनाशा, इच्छा, प्यास
अनुतर्षण	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	मद्यपान या उसका पात्र
अनुताप	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 पछतावा, खेद, रज, शोक, दुःख, सताप, कष्ट
अनुतापु (प)		असमी, उड़िया, बंगला	2 अफसोस, किसी कार्य के करने के बाद किये पर
अनुताप/अनुतापं		कन्नड, मलयालम	या न करने पर दुःखी होना
अनुतापम्		तमिल, संस्कृत	3 सहानुभूति, हमदर्दी, दया, करुणा
अनुतापमु		तेलुगु	+ 4 कृकर्म के बाद होने वाला दुःख (असमी)
			+ 5 गर्मी, पीडा, सवेदना (मलयालम)
अनुतापित्तु	सकर्मक क्रिया	तमिल	पछताना, सहानुभूति प्रकट करना, हमदर्दी रखना
अनुतापणं	सकर्मक क्रिया	मराठी	पछताना, दुःखी होना, रजीदा होना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुतापन	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 खेद उत्पन्न करने वाला, दुःखदायी
अनुतापन	विशेषण	मलयालम	2 पश्चाताप उत्पन्न करने वाला, वेदनादायक
अनुतापि	सज्ञा	मलयालम	1 पश्चातापकर्ता, रनीदा शोकयुक्त
अनुतापी		मराठी, बंगला	2 पछताने वाला, क्रिये पर अफसोस करने वाला
अनुतापित्	भूत कृदंत	असमी	3 जिसका हृदय किसी कार्य के बाद तप्त हुआ हो
अनुतापिन्	सज्ञा	संस्कृत	या जला हो, खिन्न, अनुत्पन्न, अनुशोचक
अनुतारम्	सज्ञा	तमिल	अनुचार, संरक्षण
अनुतालम्	सज्ञा	तमिल	दूत चिलवित्त आदि स्वर (संगीत)
अनुतिल	अव्यय	संस्कृत	अंतिमसूक्ष्मता से, तिल तिल करके, तिल के बराबर
अनुतृष	सज्ञा	संस्कृत	1 त्याग 2 इच्छा, आशाक्षा
अनुतृषं	सज्ञा	मलयालम	3 शराव पीना 4 शराव का बर्तन
अनुतोष	सज्ञा	हिंदी	1 कार्य की सफलता से सन्तोष
अनुतोष		नेपाली	2 सन्तोष के लिए दिया गन्, पूर्यकार आदि
अनुतोषण	सज्ञा	हिंदी	1 काम की सफलता से सन्तोष होने की क्रिया या भाव
अनुतोषण		नेपाली	2 आश्वासन देना 3 किसी को कुछ देकर अनुकूल करना
अनुदत्त	सज्ञा	नेपाली	1 तिम अनुदान मिला तो पूर्यकृत
अनुदत्त	सज्ञा	हिंदी	2 स्वीकृत, माफ किया हुआ, लाश्या हुआ
अनुदर्श	सज्ञा	मलयालम	परिशोधन, परीक्षण, निर्गक्षण (मर्ते करना),
अनुदर्शन	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	पर्यवेक्षण, मुआयना
अनुदान	सज्ञा	हिंदी	1 गन्दा 2 कार्य विधाय के लिए किसी सग्था को
अनुदान	सज्ञा	नेपाली	मिली सग्कारी सहायता 3 सर्वाधिक सेवा के लिए किसी कर्मचारी को मिला पूर्यकार
अनुदिन	क्रिया विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 दैनिक, प्रतिदिन, निरन्तर, लगातार
अनुदिने		असमी, उड़िया, बंगला	2 गतन, हर रोज, अविगम, दिनोदिन
अनुदिन		मराठी, कन्नड	3 हमेशा, सर्वदा, अनुवासर
अनुदिनं/दिवसं	अव्यय	मलयालम	4 सदा, दिन पर दिन
अनुदिनम्/दिवसम्		तमिल, संस्कृत	5 प्रत्येक दिन, निरन्तर
अनुदिनम्		तेलुगु	6 मध्यान्तर विना, बराबर

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुविश	क्रिया विशेषण	संस्कृत	गव ओं, वारो ओं
अनुविशं		मलयालम	गव दिशाओ म
अनुवृक्		गुजराती	दिग दिगान्तर मे
अनुविष्ट	भूत कृदन्त	हिंदी	1 ज़िमें आज्ञा दी हो, ज़िम्मेकी ओं मे दी हो 2 ज़िमें कार्य करने का दृग बताया गया हो
अनुवृष्टि	मज्ञा	हिंदी, मराठी	1 कृया दृष्टि, अनुकूल होना (पर्यवेष्टि)
अनुवृष्टि	मज्ञा	मलयालम	2 अनुकूल चर्चा, सकृप मुद्रा अथवा अवलोकन
अनुदेश	मज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 वे नियम जो पहले नियमों की मख्या क्रम आदि का मकेन करे
अनुदेशं		मलयालम	
अनुदेश		कन्नड	2 बड़ों का छांटों के लिए निर्देश (इन्पुटवशन)
अनुदेशन	मज्ञा	हिंदी	अनुदेश देने की क्रिया या भाव
अनुदुत	मज्ञा	हिंदी, मराठी	1 गंगीत मे आधा द्रुत या चौथाई मात्रा का समय
अनुदुतं	मज्ञा	मलयालम	2 अनुगत, अनुभावित, अनुसरित, प्रतिध्वनि (शब्द)
अनुदुत	विशेषण	संस्कृत, मलया	3 लाटाया या वापिस लाया हुआ, अनुगामी
अनुधर्मक	विशेषण	हिंदी	1 आकृति, रूप, धर्म आदि के विचार से साम्यता
अनुधर्मी		गुजराती, हिंदी	2 किसी धर्म का अनुयायी 3. किसी अन्य के गमान आदत माला या उस के जैसा काम करने वाला
अनुधर्मिन्		संस्कृत	
अनुधर्मता	मज्ञा	हिंदी	समान धर्म होने का भाव
अनुधाइ	क्रिया	बंगला	अनुध्याय, अनुधायन, चिन्तन करके
अनुधावक	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 अनुगमन, अनुगमण, अनुशीलन करने वाला
अनुधावक		असमी, उड़िया, बंगला	2 पीछा करने या पीछे दौड़ने वाला
अनुधावक		मलयालम	+ 3 शोध, मशोधन, निदिध्यासन करने वाला (मराठी)
अनुधावकुडु		तेलुगु	+ 4 चिंतन करने वाला, मनोनिवेशक, अनुसंधाता (बंगला)
अनुधावन	मज्ञा	नेपाली, तेलुगु, कन्नड	1 पीछे दौड़ना या जाना, पीछा करना
अनुधावन		उड़िया, बंगला, अस +	2 सोच समझ कर किया गया काम (उड़िया)
अनुधावन	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	3 दक्षतापूर्वक किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करना
अनुधावन	मज्ञा	संस्कृत	4 शुद्धि या स्वच्छता करना, अनुसंधान करना
अनुधावनं	मज्ञा	मलयालम	5. किसी स्त्री को पाने का प्रयत्न करना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुधाकित अनुधाकितमु	विशेषण	बंगला तेलुगु	पीछे चला, अनुसधान किया, चिन्तन किया, मनोनिवेश किया, अनुसरण किया
अनुधाबुवं	सकर्मक क्रिया	गुजराती	पीछे दौडना, पीछा पकडना, पीछे पडना
अनुध्यान अनुध्यानं	सज्ञा	हिंदी, उड़िया, संस, बंगला मलयालम	चिन्तन, शुभ चिन्ता, कल्याण मोचना, आसक्ति, कृपा दृष्टि, मंगल कामना, स्मरण मे तत्पर रहना
अनुध्यास	सज्ञा	मराठी	एकाय मन से किया आराधन मनन, परम चिन्तन
अनुध्येय	विशेषण	बंगला, मलयालम	चिन्तन करने योग्य, ध्यान करने लायक
अनुध्वनि	सज्ञा	गुजराती, मराठी	प्रतिशोष, प्रतिध्वनि, रितांग का म्बर कप
अनुनन्चिक्कुक	सकर्मक क्रिया	मलयालम	1 आनन्द लेना 2 लाड दुलार करना
अनुनय	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 विनय, मनावन, गिडगिडाहट, प्रार्थना, अनुरोध, नम्रता, दीनता, अधीनता मान्यता
अनुनय		असमी, उड़िया, बंगला	
अनुनय		मराठी, कन्नड, संस्कृत	2 स्नेह, प्रणय याचना, मूठे हाथ का मनाना
अनुनयं		मलयालम	+ 3 ईसाई धर्म की प्रार्थना (मराठी) + 4 प्रियाराधना
अनुनयमु		तेलुगु	अनुशासन, आदर युक्त वर्तन (मराठी)
अनुनयिक्कुक	क्रिया	मलयालम	प्रार्थना करना, निवेदन करना
अनुनय-विनय	सज्ञा	बंगला, नेपाली	कानर प्रार्थना, एकान्त अनुरोध
अनुनयिंचु	सकर्मक क्रिया	तेलुगु	1 याचना या अनुरोध करना
अनुनयिसु	क्रिया	कन्नड	+ 2 समीप लाना (कन्नड)
अनुनयी	विशेषण	हिंदी, मराठी	विनयशील, प्रार्थी, फरियादी, नम्र,
अनुनयि		कन्नड	अर्जमन्द, अनुनय करने वाला
अनुनाद	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, बंगला	1 गूंज, प्रतिध्वनि, अनुरूपनाद, शब्द
अनुनादं		मलयालम	2 मुख्यध्वनि के साथ की हल्की ध्वनि
अनुनादम्		तमिल, संस्कृत	3 हो हल्ला, गुञ्जगपाडा, गणकार, शोर
अनुनाद पेटी	सज्ञा	हिंदी	ग्रामोफोन का वह अंग जिसमें ध्वनि भरी हो
अनुनादित	भूत कृदन्त	हिंदी, मलयालम, बंगला	गुंजित, प्रतिध्वनित, अनुरणित, शब्दित
अनुनादि	विशेषण	मलयालम	जिसकी गूंज हुई वह ध्वनि विशिष्ट
अनुनादन	सज्ञा	संस्कृत	किसी ध्वनि के होने पर जवाब में हुई ध्वनि
अनुनायक	विशेषण	हिंदी, मलयालम, संस्कृत	विनम्र, विनयी, दीन, अनुनयी, आज्ञाकारी

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुनायिका		हिंदी, मराठी	नायिका की महयगी, सखी, उपनायिका, धात्री,
अनुनायिका		मलयालम, संस्कृत	दासी, नायिका की सहायिका
अनुनासिक	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 नाक की गद्ययता में बोलने वाले व्यंजन
अनुनासिक	संज्ञा	असमी, उड़िया, बंगला	ड, ज, ण, न, म और अनुस्वार
अनुनासिक		मराठी, कन्नड, संस्कृत +	2 गूंगा उच्चारण (गुजराती)
अनुनासिक		मलयालम	3 नाक में बोलने वाले वाली ध्वनि
अनुनासिकम्		तमिल	4 चंद्र विंदु चिह्नित वर्ण
अनुनासक		पंजाबी	5 वर्णों के अंतिम अक्षर जो नाक में उच्चरित होते हैं
अनुनासिकातिप्रसरं	संज्ञा	मलयालम	नाक की ध्वनि का अतिरिक्त प्रभाव
अनुनिमिषं	अव्यय	मलयालम	प्रतिक्षण, हर पल, पलपल
अनुनिर्देश	संज्ञा	नेपाली, संस्कृत	बहने दिये आदेश का संबन्ध सूचक दूसरा वचन
अनुनीत	विशेषण	हिंदी, बंगला	1 शान्त या तुष्ट किया हुआ, समादृत
अनुनीत		मराठी	2 अनुशासित, अनुकूल, प्रार्थित, शिक्षित
अनुनीति	संज्ञा	हिंदी, मराठी, मलया, संस	विनय, मान्यता, प्रार्थना, मनाना, शांत करना,
अनुनीतिदु		तेलुगु	प्यार में समझाना, जो मान गया, अनुशासन
अनुनेय	विशेषण	मलयालम, बंगला	समझाने या मनाने योग्य, अनुनय योग्य
अनुपटन	संज्ञा	मराठी	गुरु बोलें उसे ही दुहगना, पीछे बोलना
अनुपत	संज्ञा	मराठी	प्राप्ति का अभाव या आपत्ति,
अनुपत्य	संज्ञा	कन्नड	दरिद्रता, निर्धनता, गरीबी, दीनता
अनुपतन	संज्ञा	हिंदी	1. एक के बाद एक गिरना, भेंडिया धसान, एक अंग
अनुपतनं		मलयालम	के साथ दूसरे का संबंध, पीछा करना
अनुपतन		संस्कृत	2. त्रैशिक क्रिया (गणित), अनुपात
अनुपत्र	संज्ञा	हिंदी	बड़े पत्ते के नीचे लगा छोटा पत्ता (स्टिप्यूला)
अनुपथ	क्रिया विशेषण	हिंदी	1. मार्ग का अनुसरण, रास्ते पर चलना, रास्ते के
अनुपथं	अव्यय	मलयालम	साथ-साथ, किसी के दिखलाये पथ पर या उसके
अनुपथ	विशेषण	संस्कृत	अनुसार + 2. नौकर, सेवक (हिंदी)(संज्ञा)
अनुपथिकुक	क्रिया	मलयालम	किमी की ओर उड़ना, दौड़ना, किसी का पीछा करना, किसी पर दृट पड़ना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुपद	अव्यय	हिंदी, संस्कृत	1. एक के बाद एक, शब्द प्रति शब्द, वाक्य पर
अनुपद		गुजराती	वाक्य, पदानुपद, कदम पर कदम, पीछे पीछे
अनुपद		बंगला, कन्नड	+ 2. धूपद, टेक (गुजराती)
अनुपद		मराठी	+ 3. प्राप्ति या आय का अभाव, आपत्ति 4. गगीवी (मराठी)
अनुपदं	अव्यय	मलयालम	5. प्रत्येक शब्द की व्याख्या करने वाला (भाष्य)
अनुपदमु		तेलुगु	6. पीछे-पीछे चलना या पश्चात्तापी
अनुपदिक	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1. अनुगामी 2. पदानुसार व्याख्याकारी
अनुपदवी	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	गार्ग, सड़क, रास्ता, डगर, मार्ग का अनुसरण
अनुपदी	विशेषण	हिंदी, बंगला	1. अन्वेषक, अनुगामी, खोजी, शोधक, पहले से
अनुपविन् (पवि)	संज्ञा	संस्कृत, (मलयालम)	उपस्थित कार्य का आकलन या जांच करने वाला
अनुपदि		कन्नड	2. अनुसरणकर्ता 3. पूछताछ या प्रश्न करने वाला
अनुपदीन	संज्ञा	कन्नड	1. खड़ाऊं, जूता, चप्पल
अनुपदीना	संज्ञा	बंगला, संस्कृत, हिंदी	2. पैर टकने वाले मोज़े, जूते आदि
अनुपल	विशेषण	असमी, बंगला	1. पल का साठवां भाग 2. अत्यल्प समय, क्षण
अनुपले	अव्यय	असमी, बंगला	. अल्प समय में, क्षण भर में
अनुपल्लवि	संज्ञा	तेलुगु, कन्नड	संगीत में टेक के साथ मिलने वाली पक्ति, कीर्तन,
अनुपल्लवि		तमिल, मलयालम	सहगान, कोरस गान, किमी की गायी पक्ति को दुहराना
अनुपातक	संज्ञा	असमी, बंगला	1. ऐसा अपराध या पाप जो महापातक के समान हो
अनुपातक		हिंदी, संस्कृत	जैसे चोरी, परस्त्रीगमन
अनुपातक		उड़िया	2. ब्रह्महत्या, ब्राह्मण का स्वर्णहरण, सुरापान,
अनुपातकं		मलयालम	गुरुपत्नी हरण आदि पांच महापातक के अनुरूप
अनुपातकुडु		तेलुगु	35 महापाप, भयंकर पाप + झूठ बोलने वाला (तेलुगु)
अनुपात	संज्ञा	हिंदी	1. त्रैाशिक गणित, Ratio 2. मान, समानता, तुलना
अनुपात		गुजराती	3. पश्चात्पात, पश्चात्तागमन, एक राशि के साथ दूसरे
अनुपात		असमी, उड़िया	का संबंध, एक की हास वृद्धि के साथ दूसरे की
अनुपात		मराठी, बंगला	हास वृद्धि 4. वस्तुओं को आकार, महत्व आदि
अनुपातम् (तं)		तमिल, मलयालम	की दृष्टि से क्रमवार रखना (हिंदी) (गणित)
अनुपात		नेपासी	+ 5. कोटि या श्रेणीबद्धता (हिंदी)+6. दो संख्याओं के
अनुपातन	संज्ञा	हिंदी	बीच तुलनात्मक संबंध का आंकड़ा (उड़िया)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुपाती अनुपातिन्	विशेषण	गुजराती, मराठी, हिंदी संस्कृत	1 एक के बाद दूसरा आना, अनुसरता, एक जेगा + 2 अनुसर (मराठी)
अनुपादक	संज्ञा	हिंदी	आकाश में भी सूक्ष्म एक तन्व (तंत्र)
अनुपान अनुपान अनुपान अनुपानं अनुपानम् अनुपानम्	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, बंगला नेपाली, असमी कन्नड, मराठी, संस्कृत मलयालम तमिल तेलुगु	1 औपम्य के साथ या बाद में लिया जाने वाला सहायक पदार्थ, सहपान + 2 उपाय, परहेज, पथ्य पदार्थ (मराठी) + 3 खेती संबंधी गाण बाने (मराठी) + 4 विवशता, लाचारी (मराठी) + 5 जिस वस्तु के साथ औपम्य खाई जाय (तेलुगु)
अनुपालन अनुपालन अनुपालन अनुपालनं अनुपालनम्	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली बंगला, कन्नड, संस्कृत मराठी, असमी मलयालम तमिल	1 रक्षण, पालन, पोषण, संरक्षण 2 आज्ञा पालन, प्रतिपालन + 3 विचार करना, संरक्षण करना (नेपाली) 4 सुरक्षा रखना, रखवाली करना + 5 बनाये रखना (मलयालम)
अनुपुरुष अनुपुरुषन्	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत मलयालम	1 अनुयायी, पीछे चलने वाला व्यक्ति, अनुगामी 2 पूर्वोक्त व्यक्ति, पूर्व कथित व्यक्ति
अनुपूरक अनुपूरक अनुपूरक अनुपूरकं	विशेषण विशेषण विशेषण संज्ञा	हिंदी, संस्कृत बंगला, मलयालम नेपाली मलयालम	1 किसी के साथ मिलकर कमी को पूरा करने वाला 2 कमी, त्रुटि पूर्ति के लिये जोड़ा गया 3 अधूर को पूरा करने वाला, परिपूरक 4 गणित में पूरक कोण (मस्त्रीमैटरी)
अनुपूरण अनुपूरित	संज्ञा भूत कृदंत	हिंदी, नेपाली हिंदी	त्रुटि या कमी को पूरा करने के लिए बाद में जोड़ना जो या जिसमें जोड़ कर पूरा किया जाय
अनुपूर्ति अनुपूर्ति	संज्ञा	हिंदी नेपाली, गुजराती	1 अधूरे को पूरा करना, पूर्ति करना + 2 आवेश में आना, उत्तेजक (गुजराती)
अनुपूर्व अनुपूर्व अनुपूर्वक	विशेषण विशेषण विशेषण	हिंदी, बंगला, संस्कृत मलयालम, असमी कन्नड	1 यथाक्रम, मिलमिलेवार, पूर्वक्रमानुसार 2 सुविभक्त, क्रमबद्ध, समपरिमित 3 अनुक्रमिक, नियमानुसार, एक के बाद एक

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुपूर्वगात्र	विशेषण	हिंदी	जिसके अग वेडौल न हो, मूडौल
अनुपूर्वतः	क्रिया विशेषण	हिंदी	क्रमशः, नियमित क्रम या मिलसिले से
अनुपूर्ववत्ता	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	नियमित रूप से बच्चा देने वाली गाय
अनुपूर्व्य	विशेषण	मलयालम, हिंदी	1 क्रमबद्ध 2 नियमित, मिलमिलवार
अनुपूर्वशस्	क्रियाविशेषण	संस्कृत	3 क्रमागत गीति से, यथाक्रम
अनुपृष्ठं	अव्यय	मलयालम	एक की पीठ पीछे एक, एक के बाद एक
अनुप्रकृति	सज्ञा	मलयालम	उपमन्त्री, मन्त्री का सहायक मन्त्री
अनुप्रत्यय	अव्यय	मलयालम	बिलकूल पीछे, क्रमशः, कदम व कदम
अनुप्रज्ञान	सज्ञा	हिंदी	यदि चिहनों का अनुसरण, मोह लेना
अनुप्रदान	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 भेट, उपहार 2 अनुपूर्ति, दान (चांद)
अनुप्रदानं		मलयालम	+ 3 एक ध्वनि विशेष, उच्चारण प्रारम्भ, बोलने का
अनुप्रदान		गुजराती	दृग (मलयालम) 4 वृद्धि, अभिवृद्धि
अनुप्रपन्न	विशेषण	हिंदी	पीछे पड़ा हुआ, बाद में किया गया
अनुप्रयुक्त	भूत कृदन्त	हिंदी	जिसका व्यवहार किया गया है (एम्प्लायड)
अनुप्रयुज्य	सज्ञा	कन्नड	प्रयुक्त, नियमित योग्य, नियोजनीय
अनुप्रयोग	सज्ञा	हिंदी	1 बार बार दुहराना 2 सहायक या अतिरिक्त
अनुप्रयोगं		मलयालम	प्रयोग + अतिरिक्त उपयोग (तेलुगु)
अनुप्रयोग		संस्कृत	3 कांड सिद्धान्त कही से लाकर अन्यत्र काम में
अनुप्रयोगसु		तेलुगु	लाना 4 सहायक क्रियान्वयन (Application)
अनुप्रयोजन	सज्ञा	हिंदी	अनुप्रयोग करने की क्रिया या भाव
अनुप्रयोज्य	विशेषण	हिंदी	जिसका अतिरिक्त प्रयोग हो सके (एम्प्लिकेबल)
अनुप्रवचनं	सज्ञा	मलयालम	गुरु से वेदपाठ सीखना
अनुप्रविष्ट	विशेषण	बंगला	1 बाद में प्रवेशित, अंत प्रविष्ट
अनुप्रविष्टन्	सज्ञा	तमिल	2 भीतर परिव्याप्त, सर्वस्थानगत, मध्यगत
अनुप्रविष्ट	विशेषण	मलयालम	+ 3 भीतर रहने वाला (तमिल)
अनुप्रवेश	सज्ञा	हिंदी, गुजराती	1 द्वार के भीतर जाना, किमी के पीछे अंदर जाना,
अनुप्रवेश		मराठी, बंगला	दमने के लिए प्रवेश + मर्म ग्रहण (बंगला)
अनुप्रवेश		संस्कृत	+ 2 साथ जाने पर से अगला घर (मलयालम)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुप्रवेशं	सज्ञा	मलयालम	+ 3 आक्रमण (मलयालम) + 4 नकल (हिंदी, मलया) + 5 किसी के मन में घुसना या स्थान पाना (संस्कृत)
अनुप्रवेशिककुक्क	सर्कक क्रिया	मलयालम	1 पीछे प्रवेश करना 2 बातचीत में शामिल होना 3 नकल करना 4 परिस्थिति देख आचरण करना 5 किसी के साथ शयन करना
अनुप्रश्नं अनुप्रश्न	सज्ञा	मलयालम संस्कृत, हिंदी	दूसरा प्रश्न, प्रश्न के उत्तर में निकला दूसरा प्रतिप्रश्न, पीछे किया हुआ प्रश्न
अनुप्रसक्त	विशेषण	मलयालम	सम्बद्ध, प्रासंगिक, पहले में जुड़ा हुआ
अनुप्रसक्ति	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	प्रगाढ़ संबंध, अनुसंग, आसक्ति, घनिष्ट संबंध
अनुप्रसम	विशेषण	हिंदी	प्रसम अर्थात् सगत में कुछ नीचा (सवनामल)
अनुप्रसमतः	क्रिया विशेषण	हिंदी	अनुप्रसम तथा या रूप में (सवनामली)
अनुप्रसादन	सज्ञा	संस्कृत	दूसरे को समझ करने की क्रिया
अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ	विशेषण विशेषण	हिंदी, मलयालम बंगला	1 चौड़ाई के अनुसार 2 अक्षांश के अनुसार 3 किसी वस्तु का चौड़ा हिस्सा, तिर्यङ्ग
अनुप्राणन अनुप्राणन	सज्ञा सज्ञा	हिंदी, गुजराती बंगला	1 प्राण संचार, जीवन शक्ति, प्रेरणा, रूढ़ि, सजीवनी तजवर्धन, स्वास्थ्य, उद्दीयन
अनुप्राणना		बंगला	+ 2 मदद करना (गुजराती)
अनुप्राणता	सज्ञा	असमी	उत्साह युक्त या प्रेरणायुक्त
अनुप्राणित अनुप्राणित अनुप्राणित	भूत कृदंत विशेषण	हिंदी, गुजराती असमी, उड़िया, बंगला मलयालम	1 सजीवित, रोन्माहित, उद्दीपित 2 प्रेरणायुक्त, प्रेरित उत्साहित + जिसमें प्राण पूरा हो (गुन) 3 पूष्ट, समर्थित, पोषित किया हुआ
अनुप्रापण अनुप्राप्त	सज्ञा भूतकृदंत	नेपाली, हिंदी हिंदी, नेपाली	प्राप्तव्य धन का उगाहना, वसूली करना (उत्लेकशन) कर के रूप में उगाहा या वसूल किया धन
अनुप्राप्ति अनुप्राप्ति	सज्ञा सज्ञा	हिंदी, नेपाली मलयालम, संस्कृत	1 टण्ड कर आदि के रूप में प्राप्तव्य धन इकट्ठा करना + 2 पहुँचना, जाना, 64 कलाओं में से एक (मलयालम)
अनुप्राप्य अनुप्राशन	विशेषण सज्ञा	हिंदी हिंदी	उगाहने योग्य वसूली का धन खाना, भोजन

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुप्रास	सजा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 वर्ण आवृत्ति, वर्ण मेत्री, वर्ण साम्य
अनुप्रास		असमी, बंगला, कन्नड	2 एक अलंकार (काव्य)
अनुप्रास		नेपाली, पंजाबी	3 समान वर्णों की पुनरावृत्ति
अनुप्रासं		मलयालम	4 एक शब्दालंकार जिसमें एक अक्षर बार बार आये
अनुप्रासम्		तमिल	5 विशेष—छेक, तुल्य, श्रुत्य, लाट, अन्त्य, पुनुरुक्त
अनुप्रासमु		तेलुगु	वदाभाम—छ प्रकार के अनुप्रास होते हैं
अनुप्रासहीन	विशेषण	हिंदी	1 पाश्चान्त्य ढंग की नई कविता (क्लैक वर्ग) 2 अनुकान्त कविता
अनुप्रेक्षा	सजा	हिंदी	1 गौर में देखना 2 मनन, चिन्तन 3 आप्तें गड़ाकर देखना
अनुप्रेरणा	सजा	बंगला	प्रोत्साहन पाना निम्न वदायी जाना
अनुप्रेरित	विशेषण	बंगला	जिसमें प्रेरणा मिली है,
अनुप्लव	सजा	कन्नड, संस्कृत, हिंदी	अनुगागी, आत्तानवर्ती, साथी,
अनुप्लवुडु	सजा	तेलुगु	सहायक, अनुयायी, अनुचर नोकर
अनुप्लविकुकुक	सकमक क्रिया	मलयालम	रीछे रीछे बैरना या निरना
अनुबंध	सजा	हिंदी	1 संबध, बधन, पाश, मिलासला, आरभ, परिणाम
अनुबन्ध	सजा	संस्कृत	+ 2 स्मृति, प्रयोग, उद्देश्य, धान् म लगा गुण निर्देश करने
अनुबंध		गुजराती	वाला वर्ण (मलयालम) 3 विषय, प्रयोजन,
अनुबन्ध		असमी	अधिकारी, संबध इन चार का समूह (वेदान्त)
अनुबन्ध		मराठी	4 ग्रथ में लिखा संक्षिप्त विषय, उपबध, परिशिष्ट
अनुबन्ध		नेपाली	5 उपक्रम, अवतारणा, अनुगोध, सकल्प, अविभेद, चाल
अनुबन्ध		कन्नड	6 वात, चिन्त, कफ मे मे समय विशेष में अप्रधान
अनुबन्ध		उड़िया	तन्व 7 अगो जीवो-वस्तुओं का आपसी घनिष्ट
अनुबन्ध		बंगला	सन्ध (कोरिलेशन) 8 विकट गेग के साथ लगा गेग
अनुबन्धं		मलयालम	कष्ट या विकार +9 अनुमति, स्वीकृति, विघ्न बाधा,
अनुबन्धम्		तमिल	सहायता (तमिल) 10 आपसी छहराव, सविदा,
अनुबन्धमु		तेलुगु	समझौता (एग्रीमेंट) 11 परस्पर बाधने वाला
अनुबन्धक	विशेषण	हिंदी, मलयालम	तन्व या संबध, आज्ञाकारिता
अनुबंधक्रिये	सजा	कन्नड	अनुबध या लिखित प्रतिज्ञा करने वाला, संबद्ध
			सहायक क्रिया

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुबन्धधनुष्टयं	संज्ञा	मलयालम	1 आलोचना के चार मूलभूत आधार
अनुबंधधनुष्टय	संज्ञा	हिंदी, मराठी, संस्कृत	2 विषय, प्रयोजन, अधिकारी और मन्वध इन चारों का समुदाय जो विवचना के मूलाधार है
अनुबन्धधनुष्टयम्		तमिल	
अनुबंध-पत्र	विशेषण	हिंदी	1 अनुबंध की लिखित शर्तों का कागज 2 इकरगनामा, एग्रीमेंट
अनुबन्धन	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 अनुबंधित होने का भाव 2 क्रम, मिलमिला
अनुबन्धन्	संज्ञा	मलयालम	+ 2 माता पिता गुरु का आज्ञाकारी अनुकरणकारी
अनुबन्धन्	संज्ञा	तमिल	+ 3 पाप समर्थक अथवा पाप सहायक (तमिल)
अनुबंधधनुष्टयं	संज्ञा	मलयालम	सर्गादि के छ दास छ प्रकार की धनिकारक
अनुबंधधनुष्टयं		संस्कृत	सर्गादि
अनुबन्धिन्	संज्ञा	संस्कृत	1 शिक्षेदार, मन्वधी, मित्र एग्रीमेंट समझाना
अनुबन्धि	संज्ञा	कन्नड, मलयालम	2 आनुसंगिक, आमकन 3 निन्ध, जयड
अनुबन्धी	विशेषण	मराठी, बंगला	+ 4 कारण से निम्न काय (मराठी)
अनुबन्धी		हिंदी, असमी	5 व्यक्ति या विषय जिसका मन्वध अनुबंध से हो
अनुबन्धिषु	संज्ञा	तेलुगु	6 मन्वगामी, मन्वद्ध युक्त, मन्वित, अनुसृत
अनुबन्धि	विशेषण	मलयालम	7 परिणामस्वरूप, फलरूप 8 अज्ञात
अनुबन्धि	संज्ञा	तमिल	+ 9 दाह, 'याम, निचकी (हिंदी रुन्ड, मन्वकृत) (संज्ञा)
अनुबंधिककुक्क	अकर्मक क्रिया	मलयालम	1 वध जाना, बाधा पडना दखल होना
अनुबंधिषु	क्रिया	तेलुगु	2 युक्त होना, मिलना, जोड़ना
अनुबंधिककुक्क	सकर्मक क्रिया	मलयालम	3 बाधना, र्नेत्रा करना, मलग्न करना पीछे से जोड़ना
अनुबंधुषु	संज्ञा	तेलुगु	माता पिता का आज्ञाकारी
अनुबन्ध	विशेषण	मलयालम	1 प्रधान व्यक्ति, मुख्य, अनुबंध युक्त व्यक्ति
अनुबन्ध		संस्कृत	2 बलि के लिए, वधा पशु
अनुबद्ध	विशेषण	हिंदी, बंगला	1 वधा हुआ, ग्रथित, मलग्न, युक्त, अविच्छिन्न,
अनुबद्ध		संस्कृत, असमी	श्रेणीबद्ध 2 सम्बद्ध, लगाव रखने वाला
अनुबद्ध		कन्नड, नेपाली	3 जिसके सबंध में समझौता हुआ हो (एग्रीड)
अनुबद्ध		मलयालम	4 अनुशासित +5 परिणाम या फलस्वरूप (मलया)
अनुबल	संज्ञा	हिंदी, मराठी	1 सहायक सैन्यदल, पीछे तैयार रक्षक कर्मक

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुबल		बंगला, असमी	2. मुख्य सेना की रक्षा के लिए उसके पीछे स्थित
अनुबल		संस्कृत	सैन्य दल (आग्जीलियरी)
अनुबलं	संज्ञा	मलयालम	+ 3. क्षमता, अनुग्रह, सहाय, बलानुयायी (बंगला, असमी),
अनुबिम्बं (ब)	संज्ञा	मलयालम, कन्नड, संस्कृत	परछाई, प्रतिबिम्ब, प्रतिकृति, प्रतिछवि
अनुबिम्बिसु	क्रिया	कन्नड	नकल करना
अनुबिंबिंचु (क्कुक्)		तेलुगु, (मलयालम)	प्रतिबिंबित होना
अनुबोध	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. पश्चात स्मरण या ज्ञान, अनुस्मरण
अनुबोधं		मलयालम	2. कम पड़ी विशेषता या तेज को बढ़ाना या उमंगे
अनुबोध		गुजराती	वृद्धि करना; गंधोद्दीपन
अनुबोध		कन्नड	3. स्नान के बाद सुगंध लगाना, सुगंध द्रव्य, सौरभ
अनुबोधम्	संज्ञा	तेलुगु	+ 4. प्रबोधन (तेलुगु)
अनुबोधक	संज्ञा	हिंदी	1. अनुबोध कारक 2. आलांक पत्र (मेमोरेण्डम)
अनुबोधन	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	1. स्मरण कराना 2 स्मरणशक्ति
अनुबोधन	संज्ञा	मराठी, संस्कृत	3 प्रबोधन, बोध कराना
अनुबोधनं		मलयालम	4 समझाना, विषय या बात स्मरण कराने की क्रिया
अनुब्रजन	संज्ञा	बंगला	सम्मान प्रकट करने के लिये साथ साथ जाना
अनुब्राह्मण	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. ब्राह्मण जैसा कर्म 2. ब्राह्मण ग्रंथ सदृश ग्रंथ
अनुभक्त	भूत कृदंत	हिंदी	जिसका अनुभाजन हुआ हो
अनुभक्त	संज्ञा	हिंदी	अनुभाजन के अनुसार प्राप्त अंश (रैशण्ड)
अनुभक्तक	संज्ञा	हिंदी	लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रख कर दिया अंश (गशन)
अनुबक्काट्टिसि	संज्ञा	तमिल	प्रत्यक्ष ज्ञान, क्रियान्मक अनुभव
अनुभव	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. यथार्थ, प्रत्यक्ष, परीक्षण आदि द्वारा प्राप्त ज्ञान
अनुभव		असमी, उड़िया, बंगला	2. परीक्षा, आजमाइश, तजरुबा; आस्वाद, चखना
अनुभव		नेपाली, कन्नड	3. उपभोग, अनुभोग, व्यक्तिगत पर्यवेक्षण से प्राप्त
अनुभवउ		पंजाबी, सिंधी	ज्ञान 4. भादना, महसूसियत, अनुभूति, संवेदन, धारणा
अनभव		कोंकणी	5. परिणाम, प्रतिफल, परिज्ञान, उपलब्धि, बोध
अनुभवम्		तमिल	+ 6. समृद्धि, अधिकार प्राप्ति, सुख-दुख बोध (मलया)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुभव अनुभवम्	सज्ञा	मलयालम तेलुगु	7 ईश्वर विषयक प्राप्त ज्ञान 8 ग्रथ पढने से मिला ज्ञान
अनुभविषु अनुभवसु अनुभविस्तु अनुभविस्तु अनुभविस्तु	सकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया क्रिया क्रिया	तेलुगु गुजराती कन्नड तमिल मलयालम	1 अनुभव करना अनुभव से जानना, तजरुवा करना, कष्ट, दुख आदि से ज्ञान प्राप्त करना 2 मृग उठाना दुख झेलना, आनन्ददायक कार्य में भाग लेना, स्नाद लेना, वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना + 3 अनुज्ञापित करना अनुमति देना (मलयालम)
अनुभवगम्य अनुभवगम्य अनुभवगम्य	विशेषण	गुजराती मराठी हिंदी	1 जो अनुभव में ही समझा जा सके 2 जिस अनुभवी ही बना सके 3 प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा जानने योग्य यथा ब्रह्म ज्ञान (मराठी)
अनुभवजन्य अनुभव ज्ञान अनुभावना अनुभव-भव अनुभवमूलक अनुभवनीय अनुभवरसिक(न्)	विशेषण विशेषण सकर्मक क्रिया सज्ञा विशेषण विशेषण सज्ञा	गुजराती गुजराती हिंदी कन्नड गुजराती मलयालम संस्कृत, (मलयालम)	अनुभव में उत्पन्न कार्य करके प्राप्त ज्ञान प्रत्यक्ष या अनुभव सिद्ध ज्ञान, उन्योगी ज्ञान अनुभूति युक्त होना अनुभव प्राप्त करना अनुभव जनिता या अनुभव से उत्पन्न निम्नका आधार या मूल अनुभव ही सम्बन्धी, आनन्ददायक, आनन्दकारक प्रत्यक्ष ज्ञान में अनुभव प्राप्त का आनन्द लेने वाला
अनुभवशालि अनुभवशालिन्	सज्ञा विशेषण	तमिल संस्कृत	1 बहुत तजरुवेकार अनुभव प्राप्त व्यक्ति 2 विशेषज्ञ, पद्, दक्ष, प्रवीण, कुशल
अनुभवसिद्ध अनुभवसिद्ध	विशेषण	गुजराती, नेपाली, मलया मराठी, संस्कृत, हिंदी	1 अनुभव समाप्ति, परीक्षित, परीक्षा सिद्ध 2 अनुभूत, तजरुवा करके उठा हुआ आजगाया हुआ
अनुभवस्थ अनुभवस्थन्	सज्ञा	संस्कृत मलयालम	अनुभवी, जिसमें परीक्षा कर के देखा हो कार्य कर के समझा हुआ, तजरुवेकार
अनुभवार्थी	विशेषण	गुजराती	जिसे कार्य कर समझने की इच्छा हो, अनुभव की इच्छा
अनुभविस्ता अनुभवितु	सज्ञा	हिंदी संस्कृत	अनुभव करने वाला, जो तजरुवा या आजगाइश करे, करके देखने वाला, अनुभवेच्छु
अनुभविक अनुभवारूढम्	विशेषण	मराठी तमिल	अनुभव प्राप्त, कार्य व्यवहार से प्राप्त ज्ञान, अनुभवारूढ, जग व्यवहार से प्राप्त ज्ञान

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुभवि	विशरण	तेलुगु, कन्नड	1 काम करके ज्ञान प्राप्त करने वाला
अनुभविन्		संस्कृत	2 भुक्तभोगी, उपयोग उपभोग कर चुकने वाला
अनुभवी	विशरण	गुजराती, मराठी	3 तजरुबकार, उपयोग कर समझा हुआ
अनुभवी		नेपाली, हिंदी	4 अनुभवस्थ, अनुभवसिद्ध
अनुभवी		पंजाबी, सिंधी	+ 5 तीरथा, धुभने वाला (मराठी)
अनुभविसु	मज्ञा	कन्नड	1 महसूस करना, मन में समझना अनुभव करना
अनुभविणें	सकर्मक क्रिया	मराठी	उपभोग उपयोग करना 2 वृत्त भला अनुभव करना
अनुबवित्तत्	सकर्मक क्रिया	तमिल	3 समन्वय प्राप्त करना, वस्तु का मुख्य भाग करना
अनुभव्य	विशरण	मलयालम	अनुभवनीय, अनुभव करने योग्य
अनुभाव	मज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 मनागत भाव की वाह्य सूत्र चर्या मनाभाव
अनुभाव		गुजराती, असमी	व्यजक अंग भंगिमा 2 रस के चार अंगों में एक
अनुभाव		उड़िया, बंगला	हृदयस्थ भाव को प्रकट करने की अंग चर्या
अनुभाव		नेपाली, पंजाबी	3 काव्य में रस के योजक तन्त्र
अनुभाव		मराठी	4 अंगभंगी या शब्दों द्वारा पदजन
अनुभाव		कन्नड	5 मर्मिमा महात्म्य, प्रभाव प्रताप शक्ति अभिकारिन्
अनुभाव		मलयालम	गाम्थ्य निश्चय, विशालहृदयता, करुणा महानुभूति
अनुभावम्		तेलुगु	आदि 6 महत्ववाध में उत्पन्न विशेष तजरुबिता
अनुभावम्		तमिल	+ 7 महान व्यक्ति का सकल्प (तमिल)
अनुभावक	विशरण	हिंदी, मलयालम	1 अनुभूति उत्पादक निर्देशक अनुभव कराने वाला
अनुभावक	विशरण	गुजराती, संस्कृत	2 विचार प्रवक्तव्य अनुभव की समझ देने वाला
अनुभावन	मज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 चेष्टा आदि द्वारा मनागत भाव व्यक्त करना
अनुभावनं		मलयालम	2 अंगभंगी में मार्मिक निर्देशन
अनुभाव-परिकल्प्यं	मज्ञा	मलयालम	महानुभूति हेतु कल्पन, अन्य पर प्रभाव हेतु कल्पना
अनुभावित	भूत हृदय	बंगला	जिसे अनुभव कराया गया हो
अनुभावि	विशरण	मलयालम, कन्नड	1 जिसे अनुभव हो, अनुभवज्ञ 2 भावजन्य चिह्न प्रकट
अनुभाविन्		संस्कृत	करने वाला, मृतक के वे स्वर्गी जिन्हें श्रेष्ठता लगा हो ।
अनुभावी		हिंदी	3 महानुभूतिशील, चश्मदीद गवाह, हृमदर्द
अनुभाव्य	विशरण	नेपाली, हिंदी	1 अनुभव करने योग्य, तजरुबे लायक, जिसको

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुभाष्यम्		तेलुगु	करके समझना चाहिए, 2 प्रशंसा या बड़ाई योग्य
अनुभाषण अनुभाषणं	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत मलयालम	किमी दावे को दुहरा कर खंडन करना, खंडनार्थ कथन की आवृत्ति करना, कथोपकथन, वार्तालाप
अनुभास अनुभुक्तम् अनुभू (बु)	सज्ञा विशेषण सज्ञा	कन्नड तेलुगु मलयालम	प्रतिभास, पूर्वाभास, परिणाम कल्पना अनुभवित, अनुभव किया हुआ 1 गणित ज्योतिष में कक्ष का वह बिंदु जिसमें कोई ग्रह पृथ्वी से निकटतम होता है 2. आगे का स्थान
अनुभूत अनुभूत अनुभूत अनुभूत	भूत कर्दत	हिंदी, गुजराती असमी, मलयालम नेपाली, मराठी, संस्कृत उड़िया, बंगला	1 अनुभव किया हुआ, आस्वादित, उपलब्ध 2 परिचित, परीक्षित, परिज्ञात, अत्यंतग्रहीत 3 समझा हुआ, पहचाना हुआ, आजमाया हुआ 4 उपयोग में प्राप्त ज्ञान
अनुभूतन्	सज्ञा	मलयालम	अनुभवी, महसूस करने वाला
अनुभूति अनुभूति अनुभूति अनुभूति अनुभूति अनुभूति	सज्ञा	हिंदी, गुजराती असमी, उड़िया, बंगला नेपाली, मराठी तेलुगु, कन्नड मलयालम तमिल	1 अनुभव. सवेदना, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान अथवा शब्दबोध द्वारा प्राप्त ज्ञान (न्याय) 2 आंतरिक अनुभव या उपलब्धि, मानसिक बोध + 3 वस्तु से प्राप्त मुख दुख, कलास्वादन (मलया) 4 इंद्रियो द्वारा प्राप्त ज्ञान, परिज्ञान 5 बुद्धि का एक विभाग, महसूसियत
अनुभूमिक	सज्ञा	बंगला	पृथ्वीतल का समान्तराल (हारिजेन्टल)
अनुभूमिका	सज्ञा	नेपाली, हिंदी	मूल भूमिका के साथ जुड़ी भूमिका
अनुभोक्ता (बु) अनुभोक्तृ अनुभोक्तृ	सज्ञा	मलयालम संस्कृत कन्नड	1 सम्मान, शिक्षा, पारितोषिक, दण्ड आदि भोक्ता + 2. पुरस्कार रूप में पान का बीड़ा, नारियल आदि सेवा के बदले भूमि प्राप्त करने वाला (मलयालम)
अनुभोक्तव्य	सज्ञा	कन्नड	मुख पाना, कष्ट भोगना पड़ना
अनुभोग अनुभोगं अनुभोगम् अनुभोग	सज्ञा	हिंदी, नेपाली, कन्नड मलयालम, संस्कृत तमिल कोंकणी	1 आनंद अनुभव, सुख दुख परिज्ञान, विलास-बोध, उपभोग 2 नेवा आदि के बदले कर रहित या माफी में दी गई जमीन 3 वैधानिक अधिकार प्राप्ति

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुभोग्यु		तेलुगु	4 किये का फल भोगना
अनुभोगविरुत्ति		मलयालम	धाड़े कर पर दी गई भूमि, माफ़ी की जमीन
अनुभोगशालि	सज्ञा	तमिल	अनुभव की अधिकता, पूर्ण अनुभवी
अनुभोगि	सज्ञा	तमिल, कन्नड	1 जीवन के आनन्द का प्राप्त करने वाला
अनुभोगिन्		संस्कृत	2 कष्ट उठाने वाला
अनुभोगित्तलु	सकर्मक क्रिया	तमिल	1 अनुभोग करना, स्वभाव सुख लेना
अनुभोगिसु	क्रिया	कन्नड	2 कष्ट में से गुजरना 3 दुःख जाना
अनुभ्राता(तृ)	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	छोटा भाई, अन्ज, अन्जन्मा, पीछे जन्मा
अनुमन्त्रण	सज्ञा	संस्कृत	1 मन्त्रों द्वारा आवाहन या प्रतिष्ठा
अनुमन्त्रणमु	सज्ञा	तेलुगु	2 मन्त्रों द्वारा परिवर्तनकरण, राधिका द्वारा परिवर्तनकरण
अनुमन्त्रिकुकु	सकर्मक क्रिया	मलयालम	आशीर्वाद देकर भजना या विदा करना
अनुमन्त्रम्	सज्ञा	तमिल	श्रीणा में मन्त्रार्थ तार
अनुमन्ता	विशरण	हिंदी, गुजराती, बंगला	इजाजत देने वाला, स्वीकृति देने वाला
अनुमत	विशरण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 सम्मत, स्वीकृत मानक्य मजुर, आदिष्ट, आज्ञा
अनुमत	सज्ञा	बंगला, नेपाली, संस्कृत	2 इष्ट, प्रिय, मन्त्रार्थ, सुखद मन्त्रार्थ सूचक
अनुमत (तं)	विशरण, सज्ञा	कन्नड, मलयालम	+ 3 चन्द्रशी का चंद्रमा (कन्नड)
अनुमदम्		तमिल	4 स्वीकृति, सम्मान, आज्ञा, अन्ता अन्तर्गामी (सज्ञा)
अनुमतमु		तेलुगु	5 अनुमति देने परम्परा क्रिया आ
अनुमदम्	सज्ञा	तमिल	एक प्रकार की शीणा
अनुमतन्	सज्ञा	मलयालम	मित्र, प्रीति मनवाने वाला, कामुक
अनुमति	सज्ञा	असमी, उड़िया, कन्नड	1 आज्ञा, अन्ता स्वीकृति मजुरी
अनुमति		हिंदी, मराठी, गुजराती	2 अर्पणार्थ मान्यता उजाजत
अनुमति		बंगला, नेपाली, संस्कृत	3 आज्ञा, इष्ट, निर्देश
अनुमती		पंजाबी	4 सम्मति, अनुमति, सम्मान
अनुमदि		तमिल	+ 5 चन्द्रशी युक्त शीणा (हिंदी, संस्कृत, मराठी)
अनुमति		मलयालम, तेलुगु	+ 6 गजसूय यज्ञ में पुत्रों की तिथि (मराठी)
अनुमतिकुकु	सकर्मक क्रिया	मलयालम	मान जाना, अनुमति देने, स्वीकृति देना
अनुमतिचु	क्रिया	तेलुगु	सम्मान देकर करना सम्मत करना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुमतिस्तु	क्रिया	कन्नड	अनुमोदन करना, इजाजत देना
अनुमतिस्तु	क्रिया	तमिल	काम करने का आदेश देना, मंजूरी देना
अनुमति-पत्र	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. स्वीकृति का प्रमाण-पत्र या स्वीकृति सूचक पत्र
अनुमति-पत्र		नेपाली	2. मजूरनामा, हुकूमनामा, आदेश लिपि
अनुमतिपत्रिम्		तमिल	+ 3. महमति-पत्र, विशेषतया मृत्यु के बाद पत्नी को मिला दत्तक पुत्र का अधिकार पत्र (तमिल)
अनुमतिपत्र		बंगला	
अनुमत्त	विशेषण	संस्कृत, हिंदी	आनन्दोन्मत्त, खुशी के मारे आपे से बाहर
अनुमननं	संज्ञा	मलयालम	1. अनुमति, आज्ञा, इजाजत, मम्मनिदान, स्वीकृति
अनुमनन		संस्कृत, बंगला, हिंदी	+ 2. अनुध्याय, चिन्तन (बंगला) स्वतन्त्रता (संस्कृत)
अनुमन्ता (वु)	संज्ञा	मलयालम	अनुमति, महमति देने वाला, अनुमोदक
अनुमन्तृ		संस्कृत	किसी प्रस्ताव या मकल्प का समर्थक
अनुमन्त्र (व्रं)	विशेषण/संज्ञा	गुजराती, मलयालम	मन्त्र परन्तु नीचा स्वर
अनुमरण	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. मृत्यु में महगमन करना
अनुमरण		बंगला, कन्नड, संस्कृत	2. सह मरण, सती होना
अनुमरणं/अनुमृत्यु	संज्ञा	मलयालम	3. मृत्यु में अनुगमन
अनुमरणम्		तमिल	4. किसी रहते मरे हुए के पीछे मरना
अनुमरणम्		तेलुगु	5. किसी विधवा का पीछे सती होना
अनुपरिक्कुक्क	सकर्मक क्रिया	मलयालम	मृत्यु में साथ देना, मृत्यु में अनुगमन करना
अनुमस्तिष्कं	संज्ञा	मलयालम	मस्तिष्क का निचला भाग
अनुमा	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	अनुमान, अनुमिति
अनुमाता(वु)	संज्ञा	मलयालम, हिंदी	1. अनुमान करने वाला, अंदाजा लगाने वाला
अनुमातृ		संस्कृत	2. प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष की सभावना करने वाला
अनुमात्रं	अव्यय	मलयालम	मात्रा, पल-पल, निमिष-निमिष, चुटकी वजाने
अनुमान	संज्ञा	हिंदी, गुज, मराठी, संस	1. अटकल, अंदाज, कल्पना, अनुमिति
अनुमान् (न)		असामी, (बंगला, उड़िया)	2. भावना, धारणा, विचार, सदेह, ऊहा
अनुमान		नेपाली, कन्नड, पंजाबी	3. कुछ सोचकर निष्कर्ष पर पहुँचना, नतीजा
अनुमानं		मलयालम	4. कारण से कार्य, व्याप्य से व्यापक, प्रत्यक्ष में
अनुमानु		सिंधी	अप्रत्यक्ष का ज्ञान, तर्क द्वारा निर्णय पर पहुँचना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुमानम्		तमिल	5 दर्शन के चार प्रमाणों में एक
अनुमानम्		तेलुगु	+ 6 सदेह अनिश्चितता, शका, सशय (मराठी)
अनुमानसुं	क्रिया	गुजराती	1 सोचना, अर्थ निकालना,
अनुमानिसु	क्रिया	कन्नड	सदेह करना, सशक होना
अनुमानिककुक्	सकर्मक क्रिया	मलयालम	2 हियकिचाना, अटकल या अंदाजा लगाना
अनुमानणा	क्रिया	पंजाबी	3 गिनन करना
अनुमानकर्	क्रिया	असमी	4 आक्रना, कल्पना करना, कृतना अंदाजा लगाना
अनुमानिंसु	क्रिया	तेलुगु	5 आजमाना, तर्क करना
अनुमाननें	क्रिया	मराठी	6 परिणाम निकालना, निष्कर्ष पर पहुँचना
अनुमानना	क्रिया	हिंदी	उद्भावना समझना, अनुमान करना
अनुमार्गणं	मज्ञा	मलयालम	अन्वेषण, यात्रा
अनुमानतत्त्व	मज्ञा	बंगला	1 प्रागैतिक तर्कशास्त्र जिनमें विशय में सामान्य का अनुमान हो 2 अनुमान विशयक तत्त्व अनुमान के आधार पर अज्ञान में अटकल में निश्चल तर्क करके प्राप्तमात्र, स्थूल अनुमान अनुमान प्रमाण प्रमाण सिद्ध करने के लिए एक वस्तु की अनुमानस्थिति में निर्णय देना अनुमान उपयोगी पचावयव वाक्य (न्याय शास्त्र) तर्क स्थापित (मराठी) अंदाजी, अनुमानन (वगला) अनुमान क्रिया हुआ अनुमित व्यवहारी अटकल पन्चु लगाने वाला, कल्पित केवल तर्क में स्थापित विधान, ऊहा योर्
अनुमानतः	क्रिया विशेषण	हिंदी, नेपाली	
अनुमानथपका	मज्ञा	मराठी	
अनुमानपिरमाणम्	मज्ञा	तमिल	
अनुमानप्रमाण		संस्कृत	
अनुमानवाक्य	मज्ञा	गुजराती	
अनुमानसिद्ध		बंगला, मराठी	
अनुमानित	भूत दृश्य	हिंदी, नेपाली	
अनुमानी	विशरण	सिंधी	
अनुमानोक्ति	मज्ञा	हिंदी, मराठी, कन्नड	
अनुमापक	विशरण	हिंदी, बंगला, संस्कृत	
अनुमापक		मराठी, मलयालम	
अनुमास	मज्ञा	संस्कृत	
अनुमासं(म्)	अव्यय	मलयालम, संस्कृत	
अनुमित	भूत दृश्य	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 अनुमान क्रिया हुआ, अनुमान लब्ध अंदाजा लगाया हुआ, अनुमानित, अनुमान सिद्ध
अनुमित		असमी, बंगला, संस्कृत	
अनुमित	विशरण	मलयालम	+ 2 कल्पित, उद्भावित, विरचित (वगला)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुमितम्		तेलुगु	3. अनुमान द्वारा स्थिरीकृत
अनुमित्तल्	सकर्मक क्रिया	तमिल	अनुमान करना, आगे क्या हो सकता है यह
अनुमिक्कुक्	क्रिया	मलयालम	कल्पना करना
अनुमिति	संज्ञा	गुजराती, नेपाली, मराठी	1. हेतु या तर्क से ज्ञान, निष्कर्ष
अनुमिति		तमिल, हिंदी	2. अनुमान प्रमाण ज्ञान जैसे धूम से अग्नि का ज्ञान
अनुमिति		असमी, बंगला, संस्कृत	3. कारण से कार्य या कार्य से कारण का अनुमान, ज्ञान या निर्णय, अनुभूति के 4 भेदों में से एक
अनुमिति		कन्नड, मलयालम	
अनुमित्सा	संज्ञा	संस्कृत, हिंदी	अनुमान करने की इच्छा
अनुमृता	संज्ञा	हिंदी, बंगला	सहमृता, सती हुई स्त्री, पति के पीछे मरने वाली
अनुमेय	विशेषण	हिंदी, गुजराती, संस, कन्नड	1. अनुमान या निष्कर्ष योग्य
अनुमेय		नेपाली, बंगला, मलया	2. जिसका अनुमान या अंदाजा लगाया जा सके
अनुमेयम्	संज्ञा	तमिल	3. अनुमान योग्य, अनुमान बोध्य
अनुमेयम्		तेलुगु	4. जिसे अनुमान में जान सकें
अनुमेयिसु	क्रिया	कन्नड	परिणाम की कल्पना करना, पूर्वाभास होना
अनुमोद	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, कन्नड	1. सहानुभूति से मिली खुशी या संतुष्टि
अनुमोदं		मलयालम, संस्कृत	2. समर्थन, स्वीकृति, अभिनन्दन
अनुमोदम्		तेलुगु	3. किसी की प्रसन्नता में प्रसन्न होना
अनुमोदक	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी, संस	समर्थन करने वाला या पसंद करने वाला
अनुमोदनें	सकर्मक क्रिया	मराठी	1. सहमति, सम्मति देना, समर्थन करना
अनुमोदिक्कुक्		मलयालम	+ 2. आनन्द में शामिल होना, बधाई देना, अभिनन्दन करना (मलयालम) + 3. परवानगी देना (मराठी)
अनुमोदुं		गुजराती	
अनुमोदिसु	क्रिया	कन्नड	4. सहसुखानुभव करना, सहमति प्रकट करना
अनुमोदन	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. समर्थन, पुष्टि, सहमति, संतोष प्रकाशन, अनुकूल मत, अभिनंदन, हर्ष, + उत्सव, समारोह (मरा)
अनुमोदन		असमी, बंगला, संस्कृत	
अनुमोदन		कन्नड, नेपाली, उड़िया	2. किसी काम को अच्छा कहकर स्वीकार करना
अनुमोदनं		मलयालम	+ 3. आनंद, सहानुभूति आदि दिखाना (मराठी)
अनुमोदनीय	विशेषण	मलयालम, नेपाली	प्रशंसा या अभिनंदन योग्य, अनुमोदन योग्य
अनुमोदितव्य	विशेषण	मलयालम	जिसका अनुमोदन करना उचित हो

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुमोघ	विशेषण	हिंदी	जिसका अनुमोदन किया जा सकता हो या किया जाने को हो
अनुमोदित	भूत कृदन्	हिंदी, नेपाली, मराठी असमी, बंगला, संस्कृत मलयालम	1 अच्छ समझ स्वीकार किया गया 2 सरकार से स्वीकृत 3 उच्च अधिकारी द्वारा करने की आज्ञा प्राप्त
अनुमोदित			4 अभिनदित, प्रशंसित, सम्मानित समर्थित
अनुमोदित			
अनुमोने	सज्ञा	तमिल	स्वर और व्यंजनो का अनुप्रास
अनुयंत्र	सज्ञा	संस्कृत मलयालम	1 जख्मी शरीर से बाण निकालने का चुबक
अनुयंत्रं			2 चुबक युक्त औजार
अनुयाचक	सज्ञा	हिंदी, नेपाली	अनुकूलना की प्रार्थना करने वाला (कन्वैसर)
अनुयाचन	भूत कृदन्	हिंदी, संस्कृत नेपाली	कार्य जिसके लिए अनुकूलना की याचना की जाय (कन्वैसिंग) + खुशामद (नेपाली)
अनुयाचन			
अनुयाचित	भूत कृदन् सज्ञा	हिंदी हिंदी	जिसका या जिसके लिए अनुयाचन किया हो
अनुयाची			अनुयाचक, कन्वैसर, प्रार्थना करने वाला
अनुयाजं	सज्ञा	मलयालम	1 प्रधान यज्ञ के बाद किया दूसरा यज्ञ
अनुयाज	सज्ञा	संस्कृत	2 अमावस्या और पूर्णमासी के अग प्रयाज आदि पंच यज्ञ
अनुयाजन्	सज्ञा	मलयालम	एक वैदिक देवता
अनुयात	विशेषण	बंगला, मलयालम	पश्चात् चलित, अनुकृत, अनुसरित, महवर्ती
अनुयाता (वु)	सज्ञा विशेषण	मलयालम, हिंदी संस्कृत	1 अनुचर, अनुवर्ता, पीछे गमन करने वाला नौकर, अनुयायी 2 अनुसरणकर्ता
अनुयातृ			
अनुयात्रा	सज्ञा सज्ञा	बंगला, मलयालम तमिल	1 महगमन, सम्मानार्थ सहयात्री होना, अनुरक्षक
अनुयात्रि			2 देवमूर्ति या प्रतिष्ठित व्यक्ति के पीछे पीछे चलना
अनुयात्रं(त्र)	सज्ञा	मलयालम, बंगला	1 परिवार 2 सशस्त्र रक्षक दल
अनुयात्रन्	अव्यय	संस्कृत	3 यात्रा के पश्चात्, यात्रा में (अव्यय)
अनुयात्रिकन्	सज्ञा	मलयालम	4 भक्त, शिष्य, अनुचर आदि सहयात्री, पश्चात्गामी
अनुयात्रिक	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, बंगला	5 देखें अनुयाता अनुचर, अनुयायी, अनुवर्ता
अनुयान	सज्ञा क्रिया विशेषण	हिंदी, मराठी, संस्कृत असमी	पीछे चलना, अनुसरण, साथ जाना, अनुगमन
अनुयायु			अनुसार, आज्ञानुसार करना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुयायि	संज्ञा	कन्नड, तेलुगु, मलया	1 अनुगामी, अनुसरणकर्ता, अनुचारी, सहचर, सेवक
अनुयायिन्		संस्कृत	2 प्राचार्य गुरु आदि के आदर्श, सिद्धान्त, आदेश,
अनुयायी	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	उपदेश, मत आदि को जीवन व्यवहार में लाने
अनुयायी		असमी, बंगला, उड़िया	वाला + 3 परवर्ती घटना (संस्कृत), आश्रित
अनुयायी	विशेषण	नेपाली	+ 4 समान, सदृश, किसी मत या नेता का अनुसरण करने वाला (हिंदी)
अनुयायिमंडल	संज्ञा	गुजराती	अनुयायियों का समूह
अनुयायिता	संज्ञा	हिंदी	अनुयायी होने की अवस्था या भाव
अनुयुक्त	विशेषण	हिंदी, मलयालम, संस्कृत	1 जिसमें पूछताछ की गयी हो 2 परीक्षित
अनुयुक्तम्		तेलुगु	3 निर्दिष्ट 4 योग्य, उचित, गुणात्मक, सगत
अनुयुग	संज्ञा	हिंदी	किसी युग या विशिष्ट काल का छोटा भाग जिसमें कुछ घटनाएँ या परिवर्तन आदि हुए हों
अनुयोक्ता (बु)	संज्ञा	मलयालम	1 प्रश्नकर्ता या जांचकर्ता, पूछताछ करने वाला
अनुयोक्त्र		संस्कृत	2 अध्यापक, परीक्षक, भूतकाध्यापक
अनुयोक्ता		बंगला, हिंदी	3 अन्याय या पश्चान्त योजनाकारी (ट्यूटर)
अनुयोग	संज्ञा	हिंदी, मराठी, नेपाली	1 प्रश्न, जांच, परीक्षा, खोज, पूछताछ, जिज्ञासा
अनुयोग		असमी, बंगला	2 टीका, भाष्य, छिद्रान्वेषण, परिशासन
अनुयोग		कन्नड, संस्कृत	+ 3 अभियोग, दोषारोप, भर्त्सना, निंदा (बगना)
अनुयोगं		मलयालम	+ 4 सहायक तर्क (तेलुगु), टीका टिप्पणी
अनुयोगम्		तेलुगु	5 प्रयत्न, उद्योग 6 ध्यान, आध्यात्मिक मिलन (मत)
अनुयोगम्		तमिल	7 तर्क वितर्क या वाद विवाद में प्रश्न करना
अनुयोगचिह्न	संज्ञा	हिंदी	जिज्ञासा, सूचना या प्रश्नवाचक चिह्न?
अनुयोगि	विशेषण	मलयालम	1 जोड़ने वाला, अन्वय या सबंध दर्शानेवाला
अनुयोगिन्		संस्कृत	+ 2 प्रश्न विचारने वाला (गुजराती, मराठी)
अनुयोगी	विशेषण	हिंदी, गुज, मराठी, बंगला	+ 3 सम्मिलित, मीलित, प्रश्न पूछना, जाचना (मलयालम)
अनुयोजन	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 प्रश्न करने की क्रिया या भाव, प्रश्न, खोज
अनुयोजन		कन्नड	+ 2 परीक्षण, जोड़ना या मलगन करना (कन्नड)
अनुयोजित	भूत कृदंत	हिंदी	जिसके विषय में पूछताछ की जाय, अनुयुक्त

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुयोजित	सकर्मक क्रिया	कन्नड	जोड़ना, संलग्न करना (कन्नड)
अनुयोजिकुक		मलयालम	सहमत होना, अनुरोध मानना (मलयालम)
अनुयोज्य	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, बंगला	1. प्रश्न करने योग्य, जिससे प्रश्न किया जा सके
अनुयोज्य	संज्ञा	नेपाली	डांट-फटकार से पूछताछ की जा सके
अनुयोज्य	विशेषण	मलयालम	+ 2. भृत्य, सेवक, नौकर, आज्ञाकारी सेवक (हिंदी,
अनुयोज्यन्	संज्ञा	मलयालम	मलयालम) + 3 उचित, संगत, योग्य (मलयालम)
अनुरक्त	भूत कृदंत	हिंदी, गुजराती	1. स्नेहयोग्य, वात्सल्ययुक्त, अनुगमयुक्त, प्रेमी
अनुरक्त	विशेषण	मराठी, संस्कृत	2. आसक्त, मोहित. संतुष्ट, तृप्त, समर्पित, स्नेही
अनुरक्त		असमी, उड़िया, बंगला	+ 3. स्वामिभक्त, राजभक्त, शौकीन, वफादार (मराठी)
अनुरक्त		नेपाली, कन्नड	+ 4. रंगा हुआ, अनुरजित (बंगला), प्रेमांकित
अनुरक्त	विशेषण	मलयालम	+ 5. लाल रंग, तात्पर्ययुक्त (मलयालम)
अनुरक्तपु		तेलुगु	6. रंगीन मिजाज़, प्रसन्न, सम्मोहित
अनुरक्तते	संज्ञा	कन्नड	अनुरक्तता, आसक्ति, प्रियता, अनुराग
अनुरक्त प्रकृति	विशेषण	हिंदी	1. जिसमें प्रजा अनुरक्त हो वह राजा 2. राजा जिसने साम-दाम द्वारा प्रजा को सन्तुष्ट कर लिया हो
अनुरक्ति	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी, संस	1. प्रेम, अनुराग, भक्ति, श्रद्धा, सद्भाव, लीनता
अनुरक्ति		असमी, उड़िया, बंगला	2. प्रबल इच्छा, आसक्ति, प्रीति, रति
अनुरक्ति		नेपाली, कन्नड, मलया	3. अनुरक्त होने का भाव या क्रिया
अनुरक्तिस्तु	क्रिया	कन्नड	प्रेम करना, स्नेह या असक्ति अनुभव करना
अनुरञ्जक	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. प्रीति योग्य, आह्लादकारी, प्रसन्न करने वाला
अनुरञ्जक		मलया, बंगला, संस्कृत	2. संतोषदायक, प्रीतिसाधक, रंजनकारक
अनुरंजन	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. प्रसन्नता, संतोष, तृप्ति, संतुष्टि; रंगना
अनुरञ्जन		नेपाली, बंगला, संस्कृत	2. मनोरंजन, दिल बहलाव, हर्ष, खुशी, मनोविनोद, प्रीति
अनुरञ्जनं		मलयालम	3. प्रेम, अनुराग, मन किसी के रंग में रंग जाना
अनुरंजनपु		तेलुगु	4. प्रसन्न करना, संतुष्ट करना
अनुरंजिकुक	अकर्मक क्रिया	मलयालम	1. आसक्त होना, समर्पित होना, मुग्ध होना 2. लाल हो जाना, मुख पर गुलाबीपन आना
अनुरंजित	भूतकृदंत	हिंदी	1. प्रसन्न, संतुष्ट, प्रीति में पगा हुआ

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुरञ्जित		बंगला, नेपाली	2. रंग किया गया, रंगा गया, अनुरक्त हुआ
अनुरणन	संज्ञा	हिंदी	1. झंकार, रणकार, गूंज, महानुभूति हेतु कंपन
अनुरणन		गुजराती	2. नूपुर, घंटा, पायल, आदि की ध्वनि तरंग
अनुरणन		नेपाली	3. संगीत में लहरों की वह ध्वनि जो उत्पन्न
अनुरणन		बंगला, मराठी	होकर धीरे धीरे लीन होती है
अनुरणनं		मलयालम	4. प्रतिध्वनि, स्वर कंपन 5. एक अलंकार (संगीत)
अनुरणित	भूतकदंत	बंगला	अनुगत स्वर, झंकार, प्रतिध्वनि
अनुरत	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1. अनुरक्त, आमक्त
अनुरत		मराठी, बंगला	+ 2. लंपट (मगठी)
अनुरति	संज्ञा	हिंदी, मराठी, संस्कृत	1. भक्ति, प्रीति, अनुराग, स्नेह, प्रेम, आमक्ति
अनुरति		बंगला, मलयालम	+ 2. आग्रह (मलयालम)
अनुरथ्या	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	पगडंडी, उपमार्ग, फुटपाथ, पैदल गस्ता
अनुरथ्या		मलयालम	मड़क के बगल की पटगी या दोनों ओर की पटगी
अनुरस	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	1. अंगीभूत, उप प्रधान, गौण रस (काव्य शास्त्र)
अनुरसं		मलयालम	2. प्रतिध्वनि 3. गौण स्वाद 4. गौण गंध
अनुरसित	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	प्रतिध्वनियुक्त, गुजायमान,
अनुरसितं		मलयालम	अनुरजित, संगीत की रस युक्त ध्वनि
अनुरसत	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	एकांत स्थान, निराला; निर्जन में गया हुआ
अनुराग	संज्ञा	हिंदी गुजराती, मराठी	1. प्रेम, प्रीति, स्नेह, आसक्ति, प्रणय, सौहार्द
अनुराग		असमी, उड़िया, बंगला	2. दिल बहलाव, लीनता, प्रबलचित्तवृत्ति, ममता
अनुराग		नेपा, कन्न, संस, पंजाबी	3. आवेग, आवेश (मलयालम)
अनुरागं		मलयालम	4. भक्ति, स्वामिभक्ति, मनोयोग, आस्था, श्रद्धा
अनुरागम्		तमिल	+ 5. ललाई, लालरंग, लालिमा (हिंदी, संस्कृत)
अनुरागम्		तेलुगु	+ 6. अन्योन्य प्रीति, वात्सल्य, विश्वसनीयता (मलयालम)
अनुराग-ज	संज्ञा	कन्नड	स्नेह से उत्पन्न, सहमति, संतुष्टि
अनुरागना	सकर्मक क्रिया	हिंदी	प्रेम करना, प्रेम मग्न होना
अनुरागते	संज्ञा	कन्नड	अनुरागता, आकर्षण, प्रीति, भक्ति, कामना
अनुरागता		तेलुगु	उत्कंठा, लालसा

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुरागि	मज्ञा	मलयालम , तेलुगु, कन्नड	प्रेमवद्, प्रेमी, प्रेमयुक्त, प्रेमासक्त.
अनुरागिन्	विशेषण	संस्कृत	स्नेही भक्त, श्रद्धालु, प्यार करने वाला,
अनुरागी		हिंदी, गुजराती	किमी के रंग में रंगा हुआ, + यल्लवान (बगला)
अनुरागी		नेपाली, मराठी	अनुराग रखने वाला. महवृव.
अनुरागी		असमी, बंगला, पंजाबी	आशिक, माशुक, प्रेमी, आमक्त, पणयी
अनुरागिनी	मज्ञा	हिंदी, बंगला, असमी	प्रेमिका, प्रणयवत्ता, माशुका
अनुरागबुं	अकर्मक क्रिया	गुजराती	प्रेम होना, आनन्द होना, भक्ति भाव होना
अनुरागिसु	सकर्मक क्रिया	कन्नड	प्यार करना, मरुव्वत करना
अनुरात्र	अव्यय	हिंदी, संस्कृत	1. हर रात 2 रात में 3 एक रात के उद्योग
अनुरात्रं		मलयालम	दूसरी रात 4 रातों रात
अनुराध	मज्ञा	हिंदी	1 विनती, विनय 2 राधना याचना
अनुराध	विशेषण	हिंदी	1 तिन/भलाई करनेवाला 2 अनुगधा नक्षत्र में उभयन्
अनुराधन	मज्ञा	हिंदी	1 पूरा करना 2 भन ही ओर ले जाना
अनुराधना	सकर्मक क्रिया	हिंदी	विनती करना राधना करना
अनुराधा	मज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	मन्ताईस नक्षत्रों में मन्तरधवा नक्षत्र ,
अनुराधा	मज्ञा	असमी, बंगला, नेपाली	विशाखा के बाद का नक्षत्र ,
अनुराधा (धे)	मज्ञा	तेलुगु, कन्नड	+ मन्तरधवा नक्षत्र जो चार नक्षत्रों के मिलने से बना है (मगदी)
अनुराधा		नेपाली, संस्कृत, मलया	+ जो राधा की अनुगता हो, विशाखा मखी (बगला)
अनुरुद्ध	विशेषण	असमी, नेपाली, बंगला	उपरुद्ध. जिसमें अनुगंध किया गया हो
अनुरूप	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 उपयुक्त, मद्रश, तुल्य, समान, मरीखा,
अनुरूप	मज्ञा	असमी, बंगला, उड़िया	अनुकूल, योग्य, अनुसारी, पहले जैसा
अनुरूप		नेपाली, कन्नड, संस, मलया	2 प्रमाणानुसार, गुणाधिक, लायक
अनुरूपं	अव्यय	मलयालम	रूपानुसरण, अनुहार, अनुकूलित, (अव्यय)
अनुरूपमु		तेलुगु	उपयुक्त रूप में, अनुकूल रूप में
अनुरूपम्	मज्ञा	तमिल	3 सामान्यता, साम्यता, मादृश्य, एकरूपता (संज्ञा)
अनुरूपक	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	प्रतिमूर्ति, अनुकृति, समानवस्तु, मिलती जुलती
अनुरूपता	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	तत्समता, अनुकूलता, समानता, सादृश्यता,
अनुरूपता		गुजराती	उपयुक्तता, तुल्यता, अनुरूप होने का भाव

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुरूपण	संज्ञा	हिंदी	किमी को किमी के अनुरूप बनाने की अवस्था, क्रिया या भाव
अनुरूपना	सकर्मक क्रिया	हिंदी	सदृश बनाना, प्रस्तुत के समान रूप देना
अनुरूप- शब्द	संज्ञा	असमी	एक वस्तु के समान अन्य वस्तु समझाने का शब्द
अनुरूपीया	विशेषण	असमी	छोटा, संक्षिप्त, निकटस्तर या मात्रा का
अनुरूपीयाकै	क्रिया विशेषण	असमी	सामान्य रूप में, घटिया तरीके में
अनुरूपे	क्रिया विशेषण	असमी	अनुसार- अनुयायी, एक ही तरह में
अनुरूपतस्	क्रिया विशेषण	संस्कृत	सादृश्य में, अनुहार में, अनुसार
अनुरूपा- सिद्धि	तत्त्व	हिंदी	पूजो, भाई-बंधुओं आदि को साम दाम आदि द्वारा अपने पक्ष में करना (कोटिन्ध)
अनुरेखन	संज्ञा	हिंदी	1 रेखाचित्रों आदि की अनुकृति प्रस्तुत करना 2 किसी चित्र की नकल प्रस्तुत करना (Tracing)
अनुरेखित	भूत कृदन्त	हिंदी	जिसका अनुरेखन हुआ हो
अनुरोदनं	संज्ञा	मलयालम	मान्यता, विलास (मनयालम)
अनुरोदन	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	संबेदना प्रकट करना, किसी के साथ रोना
अनुरोध	संज्ञा	हिंदी, मराठी	1. सविन्धु स्थान, साग्रह याचना, आग्रह भरी विनयी. सिफारिश, विचार में लाना, दिशा देना, प्रणना
अनुरोध	संज्ञा	गुजराती, बंगला	2 रुकावट, अटकाव, बाधा, दबाव, निहाज
अनुरोध (धु)		नेपाली, असमी	3 अनुसरण, अनुवर्तन 4 मान्यता, सम्मान, स्वीकृति
अनुरोध		कन्नड, संस्कृत	+ 5 स्वेच्छाचारिता 6 प्रभृत्य, हुकूमत (कन्नड, मराठी)
अनुरोधं		मलयालम	+ 7 यात्रा रोकने को पीछे में पुकारना (मलयालम)
अनुरोधमु		तेलुगु	+ 8 किसी के उपकार के बदले किया श्रम (असमी)
अनुरोधक	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1. अनुसरण कर्ता, अनुरोध, प्रार्थना, नम्रता में आग्रह करने वाला 2 विनयी, विनय
अनुरोधक		संस्कृत, मलयालम	+ 3 सिफारिश करने वाला, सलाह देने वाला (असमी)
अनुरोधि		मलयालम	+ 4 अपेक्षा रखने वाला (हिंदी), प्रार्थि करने वाला
अनुरोधकर		असमी	+ 4 अपेक्षा रखने वाला (हिंदी), प्रार्थि करने वाला
अनुरोधी	विशेषण	हिंदी, नेपाली	+ 5 प्रार्थी (नेपाली)
अनुरोधनं	संज्ञा	मलयालम	1 अनुसरण 2 प्रवचन, अनुवर्तन, सत्पति, निहाज
अनुरोधन		संस्कृत	3 निर्बंधीकरण 4 यात्रा रोकने को पीछे से पुकारना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुरोधिककुक्क	सकर्मक क्रिया	मलयालम	1. बांधना, फेरना 2. अनुसरना 3. प्रेम करना, पसंद करना, आग्रह करना
अनुरोधुं	क्रिया	गुजराती	1. अनुरोध करना 2. रुझान देखना
अनुरोधानें अनुरोधे	अव्यय	मराठी बंगला, असमी	अनुसार, दिशा में, रुझान देखकर, हेतुवशात्, सविनय प्रार्थना, सिफारिश, खातिर, कारणतया
अनुलक्षण	संज्ञा	गुजराती	लक्ष्य में रखना, उद्देश्य होना
अनुलक्षुं	सकर्मक क्रिया	गुजराती	लक्ष्य में रखना, अभीष्ट पर ध्यान लगाना
अनुलक्षून	क्रिया विशेषण	मराठी	1. लक्ष्य में करके, मुख़ातिब होकर 2. संबोधित करके, अनुरोध करके
अनुलग्न	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1. संलग्न, जुड़ा हुआ, जुटा हुआ
अनुलग्न		नेपाली, मलयालम	+ 2. आसक्त (मलयालम) (attached, enclosed)
अनुलग्नक	संज्ञा	हिंदी	प्रधान पत्र के साथ लगा अन्य पत्र
अनुलंब	संज्ञा	हिंदी	1. अनिश्चित समय (नेपाली) 2. मानसिक अनिश्चितता
अनुलम्ब		नेपाली, बंगला	- Suspence 3 रेखा गणित में लंब (बंगला)
अनुलंब-खाता	संज्ञा	हिंदी	अस्थायी खाता (सस्पेंस एकाउंट)
अनुलंबन	संज्ञा	नेपाली	कर्मचारी को दोषी होने या अपराध का संदेह होने
अनुलंबन		हिंदी, संस्कृत	पर जांच तक पद से हटाना, मुअत्तल करना, सस्पेंड करना
अनुलंबित	भूतकृत	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	अस्थायी रूप से हटाया गया, मुअत्तल हुआ
अनुलाप	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, बंगला	1. पुनरुक्ति, पुनर्वाद, बार बार कही बात
अनुलापं		मलयालम, संस्कृत	2. धुमा फिरा कर पुनः पुनः एक ही बात कहना
अनुलापमु		तेलुगु	3. संलाप 4. पुनरावृत्ति
अनुलापिकुकुक	सकर्मक क्रिया	मलयालम	बार-बार वही बात कहना
अनुलापितु	क्रिया	कन्नड	कुछ शब्दों या किसी शब्द को बार-बार कहना या दुहराना
अनुलास/लास्य	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	मोर, मयूर
अनुलासं	संज्ञा	मलयालम	प्रसन्न होकर नृत्य करने वाला पक्षी-मोर
अनुलासि	संज्ञा	कन्नड	खुशी से नाचने लगना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुलिखन	सज्ञा	बंगला	पुनर्लिखन, लिखन्तर, अनुलेख, टिक्केशन
अनुलिखित	भूत कृदन्त	हिंदी	नकल करके या मुनकर ज्या का ल्यो लिखना
अनुलिपि	सज्ञा	बंगला, हिंदी, नेपाली	पन्थर पर खूदी या लिखकर की प्रतिलिपि
अनुलिप्त	विशेषण	बंगला, मलयालम	अनर्गजन, रगा या पुता हुआ टका हुआ
अनुलेख	सज्ञा	हिंदी, बंगला	1 मुनकर ज्या का ल्यो लिखा हुआ
अनुलेख	सज्ञा	मराठी, नेपाली	2 प्रतिलिपि लेख 3 प्रक्षय, प्राक्केशन (मराठी)
अनुलेखन	सज्ञा	हिंदी, मराठी	1 लिख का स्तारना नकल या प्रतिलिपि करना
अनुलेखन		गुजराती	2 अल्लेख लेख 3 घटना या कार्य का व्यंग लिखना
अनुलेखन		नेपाली	4 अनुलेख क रूप म कृत् लिखन की क्रिया
अनुलेप	सज्ञा	मलयालम	1 तरन वस्तु की वह घटाना लीपना घतना
अनुलेप	सज्ञा	गुजराती, असमी, संस्कृत	2 मरम चवटन लेप आदि लगाना टकना
अनुलेप	सज्ञा	हिंदी, बंगला, मराठी	3 मूलमा करना लेप क उपर लेप करना
अनुलेपक	विशेषण	हिंदी	लेप लगाने वाला चवटन करने वाला
अनुलेपन	सज्ञा	हिंदी, गुज, मराठी, बंग, संस	1 घटन चवटन मुगधित टप तनादि लगाना
अनुलेपन		असमी, कन्नड, नेपाली	या चवटन फिगी वस्तु की वह घटाना
अनुलेपन		मलयालम	2 लेप लगाना + 3 लेप का प्रयथ (मराठी)
अनुलेपमु		तेलुगु	4 मालिश करना, घटन लगाना चलेप लगाना
अनुलेपिसु	क्रिया	कन्नड	लेपना घतना शरीर पर रगटना
अनुलोम	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 नियमित स्वाभारिक अक्षर अक्षरान्त यथाक्रम
अनुलोम		नेपाली, उड़िया, कन्नड	तार या तारनी दिजा का क्रम का आर
अनुलोम		मलयालम, संस्कृत	+ 2 अरने या नीचरण की स्त्री म विराट (गुन नाम)
अनुलोमम् (न्)	सज्ञा	तमिल, मलयालम	+ 3 मगीन रगो म अवगत प्रमानकरण (तमिल तल)
अनुलोममु		तेलुगु	4 स्वाभाविकता क' आर नण मकर जानि क वशज
अनुलोम		बंगला	+ 5 विलाम का म्लग (मराठी) 6 शाने गम मे (बंग)
अनुलोमक	सज्ञा	नेपाली	मीभा क्रम क्रमवदता मुन्य क्रम
अनुलोमज	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 अनुलोम विराट म चवटन मतान
अनुलोमजन्मन्/जन्मा		हिंदी, संस्कृत	2 उच्य वर्ण प्रति आर निम्नवर्ण पत्नी म
अनुलोमजन्	सज्ञा	मलयालम, तमिल	उच्यन् मतान वर्ण मकर

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुलोमतः	अव्यय	हिंदी	भवगण या उतार क्रम के विचार से
अनुलोमन (नं)	मज्ञा	हिंदी, मलयालम	1 अग्र्य मूल आदि वक्र पद्या या पिक्लाकर बाहर निकालना
अनुलोमन्		तमिल	2 ऋगीकरण शी, दक्षिण, विमर्जन, मही दिशा में भेजना
अनुलोम विलोम	मज्ञा	कन्नड	सामान्य नियम क्रम तथा विपरीत नियम क्रम विकल्प
अनुलोम विवाह	मज्ञा	हिंदी, मराठी, बंगला	उच्च वर्ण पुरुष का नीच वर्ण की स्त्री में विवाह,
अनुलोम विवाह		कन्नड, मलयालम, संस्कृत	वर्ण क्रम में नीच जाति की स्त्री में विवाह
अनुलोमा	मज्ञा	हिंदी, गुजराती, मलया, संस	ज्ञान में नीची ज्ञान की स्त्री हीनवर्ण पत्नी
अनुलोम-प्रतिलोम	मज्ञा	मलयालम	अर्द्धांग अलंकार जो दायाँ बायाँ दोनों ओर में
अनुलोम-प्रतिलोम	समम्	संस्कृत	एक ही पदा जाय
अनुलोमासिद्धि	मज्ञा	हिंदी	पारा चनापदा और मन्त्रार्थियों में दान भद्र भादि दायाँ बायाँ चक्रे वनाना (कोश १०५)
अनुल्लङ्घन	विशरण	बंगला, गुजराती, हिंदी	1 अन्तिम लक्षण न करना
अनुल्लङ्घनीय	विशरण	बंगला, गुजराती	2 अन्तिम लक्षणों में अन्तिम लक्षण न हो सक
अनुवंश	मज्ञा	हिंदी, संस्कृत	i वंशप्रक्ष वंशवृत्त प्रशासनीय पर वंशविरण
अनुवंशं		मलयालम	परंपरागत वृत्तान्त प्रश शाखा प्रती
			+ 2 मना की मलापक मना में पुत्र करना (मलया)
अनुवक्ता (क्तृ)	मज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 किसी क कथन की दृष्टान्त वाला आद्योक्ति
अनुवक्ता		नेपाली	2 उत्तर देने वाला 3 शील वाचन ज्ञाना
अनुवक्ता (तु)		मलयालम	+ 4 एक भाषा में दूसरी भाषा में मोक्षार्थ अनुवा.
			करने वाला (नेपाली)
अनुवक्र	विशरण	संस्कृत	कृष्ण पट्टा
अनुवक्रिकरम्	मज्ञा	तमिल	ग्रह की चली चाल (ज्योतिष)
अनुवचन	मज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	1 दृष्टान्त कवितायाद और जोर में पढ़ना
अनुवचनं		मलयालम	2 शिक्षण भाषण अध्याय, प्रसंग, व्याख्या
अनुवत्तर	मज्ञा	हिंदी	1 पाच वर्षों में युग का चौथा वर्ष (ज्योतिष)
अनुवत्तरं	मज्ञा	मलयालम	2 वृत्तमिति क बारह वर्षों के पाँच चक्रों में से
अनुवत्तर		संस्कृत	पाचवा चक्र 3 प्रतिवर्ष, हर वर्ष (अव्यय)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुबदन घुम्बनं	मज्ञा	मलयालम	गति शास्त्र में एक प्रकार का चूवन
अनुबधिषु	सकर्मक क्रिया	तेलुगु	रूपक वृत्ता मिलाई क्राशिम में वृत्ता
अनुबर	मज्ञा	कन्नड	कृत्य करना किसी वस्तु को अपना विशय कृत्य बनाना
अनुबरिसु	क्रिया	कन्नड	अपने लिए पसंद करना अथवा चाव में लना
अनुवर्तक	विशरण	हिंदी	1 अनुवर्ती अनुयायी 2 प्रसन्न करने वाला
अनुवर्तक		मराठी	3 योग्याम स्वरूप होने वाला
अनुवर्तक		कन्नड	4 उद्योग में पीठ आने जाना
अनुवर्तन	मज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 अनुसरण अनुगमन आज्ञाधारण परिणाम
अनुवर्तन		बंगला, संस्कृत	कृत प्रसन्न मत्तुत्र आज्ञापालन अनुगोच
अनुवर्तन		कन्नड, नेपाली	+ 2 पूर्वगामी सूत्र लागू करना (मराठी मलयालम)
अनुवर्तनं		मलयालम	+ 3 समान आचरण (तनुगु) मतानुसार आचरण (मराठी)
अनुवर्तनम्		तमिल	4 सेवा करना भाग बढ़ना अनुकरण करना
अनुवर्तनम्		तेलुगु	5 किसी से बात जान या सेवा जान जाना
अनुवर्तनीय	विशरण	मलयालम	अनुसरण योग्य जानन योग्य
अनुवर्तिनी	मज्ञा	असमी, बंगला	आज्ञाभंग आज्ञानुवर्ती अनुसरणकर्त्री
अनुवर्ती	विशरण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 योग्य अनुसरण करने वाला सेवा करने वाला
अनुवर्ती		उड़िया, असमी	समान आचरण करने वाला 2 आज्ञाभंग अनुचार
अनुवर्ती		नेपाली, बंगला	3 अनुसरण 4 समान 5 अनुवर्ती सूत्र में योग्य
अनुवर्ति	मज्ञा	कन्नड, तेलुगु, मलयालम	करना + 6 आज्ञाभंग विशरण (मराठी)
अनुवर्तनै	मज्ञा	तमिल	योग्य समान में एक प्रकार का प्रसन्न
अनुवर्तणं	सकर्मक क्रिया	मराठी	1 मतानुसार अनुसरण करना पीठ बढ़ना
अनुवर्तित्तत्	क्रिया	तमिल	2 अनुवर्ती अनुसरण आचरण करना सेवा करना
अनुवर्तिसु	क्रिया	कन्नड	3 अनुकरण या अनुसरण या समान आचरण करना
अनुवर्तिषु	क्रिया	तेलुगु	+ 4 नियम जानन करना शिक्षा आचरण करना
अनुवर्तिक्कुक	क्रिया	मलयालम	निर्णय करना (मलयालम)
अनुवर्तित्व	मज्ञा	गुजराती	योग्य जानन अनुसरण करना
अनुवर्तिता	मज्ञा	असमी	अनुसरण आज्ञाभंगिता अनुवर्तता
अनुवर्दित्तत्	सकर्मक क्रिया	तमिल	पुस्तक में उद्धृष्ट करना उद्धृष्ट कर समझाना (तमिल)
अनुवधिषु	अकर्मक क्रिया	तेलुगु	जाते गिने अनुगमन (तनुगु)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुबदिसु	क्रिया	कन्नड	दोहराना, पुनरावृत्ति करना, बार बार कहना
अनुबदिविक्कुक्क	क्रिया	मलयालम	अनुमोदन करना
अनुबश	विशेषण	बंगला, संस्कृत	1. वशवर्ती, अन्य की इच्छा पर निर्भर
अनुबश	विशेषण	कन्नड, हिंदी	2. परवश, आज्ञाकारी, वशीभूत
अनुबशता	मज्ञा	हिंदी	किमी की आज्ञा या वश में रहने की स्थिति
अनुबसित	भूत कृदन	हिंदी	1. वस्त्राच्छादित, आच्छादित, कपड़े पहने हुए,
अनुबसित	विशेषण	मलयालम	2. आवद्ध, सम्बद्ध, बंधा हुआ
अनुबह	मज्ञा	हिंदी	अग्नि की सात जीभों में से एक
अनुबा	मज्ञा	हिंदी	जिस सतह पर पानी निकले, ना आ 2 कुएँ की सतह जहाँ खड़े होकर पानी खींचते हैं
अनुबाक	मज्ञा	हिंदी, नेपाली, कन्नड	1. वेद के अध्याय का एक अंश, वेदों का उपविभाग
अनुबाकं		मलयालम	2. आवृत्ति करना, दोहराना, किमी के पीछे कहना
अनुबाकम्		तमिल, संस्कृत	3. ऊँच स्वर में पाठ करना
अनुबाकमु		तेलुगु	4. मात्र व्याख्या 5 गान शून्य स्वरों का भेद
अनुबाक्या	मज्ञा	संस्कृत	वैदिक मंत्रों में वैदिक विधि
अनुबाचक(न्)	विशेषण मज्ञा	हिंदी, मलयालम	पाठक, वेद मंत्र पढ़ने वाला, वाचन
अनुबाचन	मज्ञा	हिंदी	1. अभ्युक्ते के अनुगार होता है द्वार ऋग्वेद का नव पाठ
अनुबाचनं		मलयालम	2. होना के मंत्र उच्चारण का नियम
अनुबाचन	मज्ञा	संस्कृत	3. पाठ करना या कृगना, शिक्षा, निर्देश, उच्चारण पढ़ना
अनुबाचिक्कुक्क	सकर्मक क्रिया	मलयालम	किमी के बाद बोलना, दुहराना, अध्ययन करना, स्पष्ट करना
अनुवात	अव्यय	बंगला, संस्कृत	1. वायु के अनुकूल 2 वायु अभिमुखी या प्रतिकूल
अनुवातं		मलयालम	3. शिष्य की ओर से गुरु की ओर प्रवाहित वायु
अनुवाद	मज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. पूर्वगामी सूत्र की व्याख्या 2 तक द्वारा प्रतिपादन, द्वारा जोर देना, पुन उच्चारण करना
अनुवाद		संज्ञ, असमी, उड़िया, बंगला	
अनुवाद		नेपाली, कन्नड, पंजाबी	3. व्याख्या करने के लिए उदाहरण देना या पृष्ठ करने के लिए बार बार कहना, पुनरावृत्ति
अनुवादं		मलयालम	
अनुवादम्		तमिल	4. भाषान्तरण तर्जुमा, ट्रांसलेशन, उल्था, रूपांतर
अनुवादमु		तेलुगु	+ 5. समर्थन, सम्भाषण, विज्ञापन (मराठी) शिक्षायात(कन्न)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुवातु		सिंधी	+ 6. निन्दा (तेलुगु), अपशब्द, जनश्रुति (हिंदी)
अनुवादमें	क्रिया	मराठी	भाषान्तर करना, ट्रांसलेट करना
अनुवादपुं	क्रिया	गुजराती	सहमति व्यक्त करना, भर्त्सना करना
अनुवादिसु	क्रिया	कन्नड	तर्क करना, कारण उपस्थित करना, निष्कर्ष निकालना
अनुवाविंघु	क्रिया	तेलुगु	प्रतिध्वनि, अनुगूजन
अनुवावितसु	क्रिया	तमिल	आवृत्ति करना, पुनरावृत्ति करना, दोहराना
अनुवादक	संज्ञा, विशेष.	हिंदी, मराठी, पंजा, मलया	1. भाषान्तरकार 2. समर्थक, उत्थाकार, अनुवादकर्ता
अनुवादक		कन्नड, गुज, नेपाली	+ 3. आश्रयदाता, अनुमोदन कर्ता (मलयालम)
अनुवादक		संज्ञा, अस, उड़िया, बंगला	4. परिभाषिक, आवर्तिक कर्ता (मलयालम)
अनुवातुकु		सिंधी	+ 5. निंदक पुनः पुनः कथक (बंगला)
अनुवातुकुडु	संज्ञा	तेलुगु	+ 6. संगीत में स्वर का एक भेद (संस्कृत)
अनुवादकन्	संज्ञा	मलयालम	+ 7. व्याख्या के साथ दुहराने वाला (संस्कृत)
अनुवादन	संज्ञा	मराठी	पुनरुच्चारण, किसी के वचनों को स्पष्टीकृत करना
अनुवावित	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. भाषान्तरित 2. अनूदित
अनुवावित		असमी, बंगला, नेपाली	3. जिसकी अद्यत्ती तरह व्याख्या की गयी हो
अनुवावितपु		तेलुगु	4. जिसका अनुवाद किया गया हो
अनुवावि	संज्ञा	मलयालम	1. अनुवादक, भाषान्तरकार, व्याख्या करने वाला, सद्भाषी
अनुवावी	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	2. समर्थक +3. पुनः पुनः कथक; निंदक (बंगला)
अनुवावी		बंगला, पंजाबी	4. संगीत में स्वर का एक भेद जो राग का सौन्दर्यवर्धक है
अनुवाविस्वरं		तमिल	वादी-मंवादी स्वरों में वादी से तीसरा स्वर (वीणा)
अनुवाध	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, मलया	1. अनुवाद करने योग्य, व्याख्या करने योग्य
अनुवाध		नेपाली, बंगला	2. उदाहरणीय, विशदीकरणीय, अनुकरणीय
अनुवाध		गुजराती	3. कही गयी को फिर कहने वाला
अनुवाधं	संज्ञा	मलयालम	+ 4. विधेय का उद्देश्य (मलयालम)
अनुवाधकर्ता(पु)	संज्ञा	मलयालम	एक विरोधी विषय (व्याकरण)
अनुवारं(पु)	अव्यय	मलयालम, संस्कृत	1. बार बार 2. समय समय पर 3. प्रायः, अक्सर
अनुवातं/वातनं	संज्ञा	मलयालम	1. धूप, इत्र आदि से सुगंधित; इत्र, उबटन

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुवास	सज्ञा	हिंदी, मराठी, संस्कृत	2 इत्र लगाना, तेल चदनादि सुगंध लगाना
अनुवासन		मराठी, बंग, हिंदी, संस्कृत +	3 तन भादि का र्णनमा, दृश (संस्कृत, हिंदी)
अनुवासरं	अव्यय	मलयालम	नित्य दिन प्रतिदिन
अनुवासित	विशेषण	बंगला, संस्कृत, मलयालम	सुरभित, सुगंधित, वास युक्त सुवासित
अनुवासी (सिन्)	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	पडामी, पाम या पीछ ही रहने वाला
अनुवित्त	विशेषण	हिंदी	प्राप्त किया हुआ, मिला हुआ
अनुवित्ति	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	प्राप्त उपलब्धि कार्य का फल
अनुविद्ध	भूत कृदंत	हिंदी, बंगला, संस्कृत	1 विभा या छिदा हुआ, मुराव किया हुआ
अनुविद्ध	विशेषण	मराठी, नेपाली	2 ओतप्रोत मबन्द खचित, ग्रथित, मिश्रित, सयुक्त,
अनुविद्ध	विशेषण	मलयालम	भूषित अलकृत व्याप्त सवधित गुंथा, विरोया
अनुविद्धमु		तेलुगु	3 आच्छादित जदा हुआ मजाया हुआ
अनुविधन् (विधायिन्)	सज्ञा	विशेषण मलयालम, संस्कृत	1 भक्त 2 आज्ञाकारी
अनुविधा	सज्ञा	मलयालम	मजदूरी वेतन, नन्गव्वाह
अनुविधान	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 आदेशपालन, आज्ञाकारिता कह अनुसार करना
अनुविधानं	सज्ञा	मलयालम	2 संपुष्टि करना आज्ञापालन 3 क्रमिक, क्रम से
अनुविधायक (यिन्)	विशेषण	गुजराती, संस्कृत	आज्ञाकित, आदिष्ट, आदेश पालक
अनुविधायकत्व	सज्ञा	गुजराती	आज्ञाकारिता, कह अनुसार करना
अनुविधि	सज्ञा	बंगला	उपविधि, निरखित शर्तें (अदालत में)
अनुविनाश	सज्ञा	संस्कृत	पीछ से विनाश
अनुविष्ट	भूत कृदंत	हिंदी	1 नोट किया हुआ, टाका हुआ
अनुविष्ट		संस्कृत	2 उचित स्थान पर लिखा हुआ (एन्टर्ड)
अनुविष्टि	सज्ञा	हिंदी	1 खाने में धन का यथा स्थान लिखना
			2 किमी के साथ साथ प्रवेश करना
			3 छोट भाई का बड़े में पहल विवाह
अनुविसु	क्रिया	कन्नड	अनुसरण करना, स्पर्धा करना
अनुवीक्षण	सज्ञा	असमी	सूक्ष्म वस्तु देखने का यंत्र (माईक्रोस्कोप)
अनुवट्टम्	सज्ञा	तमिल	गोल मोतियों की जाति
अनुवृत्त	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 अनुसर्ण, अनुवर्तन, आज्ञा पालन करने वाला
अनुवृत्त	विशेषण	नेपाली, मलया	+ 2 टैक्स एकत्र कर खजाने में जमा करना (मलया)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुवृत्त		गुजराती	3 अवाधित, सतत, अविच्छिन्न, विना रोका-टोका हुआ
अनुवृत्तं	संज्ञा	मलयालम	4 जिमकी अनुवृत्ति की गई हो, व्याप्त, पालित
अनुवृत्तम्		तमिल	+ 5 एक अलकार (मलयालम), पेशन पाने वाला
अनुवृत्त दृष्टि	संज्ञा	मलयालम	क्रोध प्रदर्शन में लगातार ऊपर नीचे देखना
अनुवृत्त स्वभावम्	संज्ञा	तमिल	अनुवृत्त स्वभाव, नम्रगिक गुण, प्रकृत विशेषता
अनुवृत्ति	संज्ञा	मलयालम	1 वाक्यार्थ स्पष्टीकरण, पूर्ववर्ती नियम का वर्तमान
अनुवृत्ति	संज्ञा	हिंदी, असमी	नियम पर प्रभाव मवध
अनुवृत्ति		नेपाली, संस्कृत	2 भक्ति, अनुकरण, नकल 3 एक अलकार
अनुवृत्ति		मराठी	4 परम्परा में चला आया मवधक्रम, अनुक्रम
अनुवृत्ति		बंगला	5 सेवा, नौकरी आज्ञापालन 6 माहचर्य, साथ, सर्गति
अनुवृत्ति		गुजराती	+ 7 टीका टिप्पणी, पेशन (नेपाली)
अनुवृत्ति		कन्नड	+ 8 आग क अर्थ का अनुसंधान (गुजराती)
अनुविरुत्ति		तमिल	+ 9 स्वीकृति, अनुमरण (कन्नड) निर्याच्छत्रता
अनुवृत्तिक	विशरण	हिंदी	1 अनुवृत्ति मवधी 2 (पद या मवा) जिसके मवध
अनुवेतन		हिंदी	में अनुवृत्ति मिल सकती हो (पेशनबुल)
अनुवृत्तिधारी	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	1 छात्रवृत्ति, पाने वाला
अनुवृत्ती	संज्ञा	हिंदी	2 अनुवृत्ति या पेशन पाने वाला पेशनर
अनुवेदन	संज्ञा	बंगला	समवेदना, ज्ञानदान, ज्ञापन, पश्चाद्ज्ञान
अनुवेधं	संज्ञा	मलयालम	1 छिद्रीकरण अदर चुभोना, वेधन, रुदन
अनुवेध	संज्ञा	संस्कृत, हिंदी	2 सम्मिश्रण, मिलन, सम्पर्क, मभोग
अनुवेसम्	क्रिया विशेषण	मराठी, संस्कृत	1 पुन पुन, बार बार, समय समय
अनुवेसं		मलयालम	2 लगातार, सदैव, अभी कभी
अनुवेस्तिंतं	संज्ञा	मलयालम	एक तरह का दामन्य, बधन
अनुवेस्तित	संज्ञा	हिंदी	पट्टी बंधना, घाव पर बंधने की पट्टी
अनुवेश(श)	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मलया	1 किसी के पीछे या साथ साथ प्रवेश करना
अनुवेशन(न)	संज्ञा	हिंदी, मलयालम	+ 2 वही खाते में यथा स्थान निरत्वा जाना (हिंदी)
अनुवेश	संज्ञा	संस्कृत	3 छोटे भाई का बड़े भाई से पहले विवाह
अनुवेशन	संज्ञा	संस्कृत	+ 4 अगला प्रवेश द्वार, पडोस का मकान (मलयालम)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुबेज्ञपत्र	सज्ञा	हिंदी	पार पत्र की पीठ पर अंकित प्रमाणिकता, वीजा
अनुवेश्य	विशेषण	हिंदी	1 बगल के घर में रहने वाला, पड़ोसी
अनुवेश्य		मलयालम	2 एक के अन्तर पर स्थित, दूसरा
अनुवेष्टितु	सकर्मक क्रिया	कन्नड	घेरना, लपेटना
अनुव्यञ्जन	सज्ञा	संस्कृत	गौण लक्षण या चिह्न
अनुव्यवसायं	सज्ञा	मलयालम	प्रत्यक्ष ज्ञान से जानना (न्याय)
अनुव्यवसाय		संस्कृत, मराठी	प्रत्यक्षदर्शी का कथन
अनुव्याख्या	सज्ञा	हिंदी	अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने वाली व्याख्या
अनुव्याख्यान	सज्ञा	हिंदी, मराठी, संस्कृत	1 मन्त्रादि की व्याख्या, अर्थ प्रकाशन 2 ब्राह्मण गथो
अनुव्याख्यानं	सज्ञा	मलयालम	का वह भाग जिसमें सूत्रों का स्पष्टीकरण होता है
अनुव्याथ	सज्ञा	संस्कृत, हिंदी	1 छेदन, बेधन, छिद्दीकरण
अनुव्याथं	सज्ञा	मलयालम	+ 2 सभोग, मिलन, सहवास, रोक (संस्कृत)
अनुव्याहार(हरण)	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	*1 पुनरुक्ति, पुन पुन उच्चारण
अनुव्याहरणं	सज्ञा	मलयालम	2 शाप, वददुभा, कोमना, जली कगी सृनाना
अनुव्रजन	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 विदा करते समय शिष्टाचार स्वरूप आगत
अनुव्रजनं	सज्ञा	मलयालम	व्यक्ति के पीछे पीछे जाना
अनुव्रज्या		हिंदी, संस्कृत	2 अनुगमन, अनुसरण करना, आज्ञा पालन
अनुव्रजिकुकु	सकर्मक क्रिया	मलयालम	सम्मान प्रकट करने के लिये पीछे पीछे जाना
अनुव्रत	विशेषण	हिंदी	1 निर्धारित कर्तव्य या गुण का समुचित पालन
अनुव्रत		मलयालम	कर्ता, जैन धर्म के कृष्ण नियम, जैन साधु
अनुव्रत	विशेषण	संस्कृत	2 समर्पित, वफादार, विश्वम्भ, अनुव्रत, भक्त
अनुविरुत्त स्वाबावं	सज्ञा	तमिल	नैसर्गिक गुण, प्राकृतिक विशेषताएं (अनुवृत्त स्वभाव)
अनुव्रतस्वबावन्	सज्ञा	तमिल	वह व्यक्ति जो धर्म नियम पालन करे
अनुव्रंता	सज्ञा	हिंदी, नेपाली	सिफारिश, रिक्मडेशन, मगझना
अनुव्रंसित्त	विशेषण	हिंदी, नेपाली	प्रशंसित, जिसकी सिफारिश कही गई हो
अनुव्रवत्त	सज्ञा	कन्नड	समर्थ, शक्तिशाली

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुशक्ति	संज्ञा	कन्नड	ऊर्जा, दृढ़ता, योग्यता
अनुशक्तिक	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. सौ में अधिक मिपाहियों का नायक(शतानिक)
अनुशक्तिकन्		मलयालम	+ 2. सौ के साथ या सौ में खरीदा गया (संस्कृत)
अनुशय	संज्ञा	हिंदी	1. पछतावा, अनुताप, पश्चाताप, आपत्ति, क्षोभ
अनुशय		बंगला	2. पूर्वशत्रुता, द्वेष, अश्रद्धा, वैर, क्रोध, घृणा, विवाद,
अनुशय		कन्नड	कलह, घोर शत्रुता, दुःख, उद्वेग, विषाद
अनुशय		नेपाली	3. घनिष्ट संबंध, अनुराग, आसक्ति
अनुशयं		मलयालम	+ 4. दुष्कर्मों का परिणाम (संस्कृत, नेपाली)
अनुशयम्		तमिल	+ 5. दान संबंधी विवादों का निर्णय (संस्कृत, हिंदी)
अनुशयमु		तेलुगु	6. भोगे हुए कर्मों का अवशेष (वेदान्त)
अनुशय		संस्कृत	+ 7. कार्य भार में ग्रहण किया अवकाश(हिंदी)
अनुशयाक्षेप	संज्ञा	कन्नड	एक अलंकार
अनुशयान	विशेषण	हिंदी, मलयालम, संस्कृत	पश्चाताप करने वाला, क्षुब्ध, दुखी
अनुशयाना	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	1. प्रेमी के संकेत स्थल पर न मिलने से दुखी
अनुशयाना	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	2. परकीया नायिका का एक भेद
अनुशयी	विशेषण	हिंदी	1. पश्चातापयुक्त, क्षोभ करने वाला
अनुशयी	संज्ञा	बंगला	+ 2. जीव जो चंद्रलोक का भोग समाप्त कर पश्चाताप
अनुशयिन्		संस्कृत	करता है और भूलोक का इच्छुक रहता है (संस्कृत)
अनुशयि	संज्ञा	मलयालम	3. वैर या द्वेष रखने वाला, झगड़लू, घृणोत्पादक
अनुशयी		मराठी	+ 4. अनुक्त, आसक्त, पैर धूँकर प्रणाम करने वाला (हिंदी)
अनुशयी	संज्ञा	गुजराती	+ 5. मस्तक का फोड़ा, पैर का एक रोग (मलयालम)
अनुशयित	विशेषण	बंगला	अनुताप, पूर्वशत्रुता, द्वेष, अश्रद्धा
अनुशयिककुक्क	अकर्मक क्रिया	मलयालम	1. किसी के साथ नेटना 2. पछताना 3. शोक करना
अनुशर	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	राक्षस, दानव(अनु+शृः हिंसा)
अनुशस्त्रं	संज्ञा	मलयालम	सहायक हथियार, शल्यक्रिया के यंत्रादि का पूरक
अनुशाकै	संज्ञा	तमिल	पतली टहनी, छोटी शाख, अनुशाखा
अनुशासक	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1. शासक, निर्देशक, शिक्षक, उपदेष्टा, प्रशासक,
अनुशासकन्	संज्ञा	मलयालम	नियन्ता, विधानकर्ता, नियंत्रण करने वाला
अनुशासक	संज्ञा	बंगला, संस्कृत	2. डिसिप्लिन में रखने वाला, दंड देने वाला

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुशासन	मज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	1 नियम, आज्ञा, आदेश, कानून, दंड निर्देश
अनुशासन		गुजराती, मराठी, उड़िया	2 कायद पर अमल करना या राज्य चलाना
अनुशासन		कन्नड, बंगला	3 विधान, मर्यादा, नियंत्रण, नियमबद्धता
अनुशासनं	मज्ञा	मलयालम	4 निरूपण, विषय विवरण, मार्ग दर्शन
अनुशासनम्		तेलुगु	5 शिक्षा दान, व्याख्यान, उपदेश, सलाह
अनुशासनम्		तमिल	6 महाभारत का एक पर्व (Discipline)
अनुशासनिक	विशेषण	हिंदी	1 अनुशासन संबंधी 2 जो अनुशासन के रूप में हो
अनुशासनीय	विशेषण	हिंदी	जिस पर अनुशासन किया जाना चाहिए
अनुशासिका	मज्ञा	बंगला	अनुशासनकारी नियन्ता, उपदेष्टा (स्त्री)
अनुशासित	विशेषण	हिंदी	आदिष्ट, दंडित जिसका अनुशासन किया गया
अनुशासित		मलयालम	हो निर्देशित, मर्यादित अनुशासन में लाया गया
अनुशासिता (बु)	मज्ञा	मलयालम	शासनकर्ता, आदेशकर्ता दण्ड देने वाला
अनुशासी(सि)	मज्ञा	हिंदी, मलयालम	निर्देशकर्ता, देश या राज्य का प्रबन्ध करने वाला
अनुशासिन् (स्तु)		संस्कृत	उपदेष्टा व्याख्याता शिक्षक शासिका, शासक
अनुशास्ता	मज्ञा	हिंदी, मराठी	शासनकर्ता, निर्देशक, शिक्षक नेता
अनुशास्ता (बु)		मलयालम, संस्कृत	उपदेष्टा, नियन्ता, अमलदार, दण्डदाता
अनुशिष्ट	विशेषण	हिंदी	अनुशासित, नियम पालन करने वाला
अनुशिष्टि	मज्ञा	हिंदी, संस्कृत	शिक्षण, आज्ञा, कर्तव्य निरूपण, आदेश
अनुशिष्य	मज्ञा	बंगला	शिष्य का शिष्य, शिष्य के अनगत
अनुशीलन	मज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 अभ्यास, पुन पुन चर्चा आवृत्ति
अनुशीलन		नेपाली, संस्कृत	2 चिन्तन, मनन, हृदय में अध्ययन, परिशीलन
अनुशीलन		असमी, उड़िया, बंगला	3 निर्याप्त अध्ययन, गभीर मतत अभ्यास, आलोचना
अनुशीलनम्		तेलुगु	4 एक निष्ठ या भक्तिपूर्वक सेवा-मुश्रूषा
अनुशीलनं		मलयालम	5 दीर्घ सेवन, लगातार सूक्ष्म दृष्टि में अभ्यास
अनुशीलनीय	विशेषण	बंगला, हिंदी	अनुशीलन के उपयुक्त, चर्चा योग्य, मनन योग्य
अनुशीलनी	मज्ञा	बंगला	1 पुन पुन चर्चा, अभ्यासार्थ प्रश्न
अनुशीलनी		उड़िया	2 अधीत विषय पर चर्चा के लिए प्रदत्त प्रश्नोत्तर आदि
अनुशीलित	भूत कृदत्	हिंदी, बंगला, गुजराती	अधीत, चर्चा द्वारा लब्ध, अभ्यास साधित

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुसैवर	सजा	तमिल	शव धर्मानुयायी, क्षत्रिय या वैश्य
अनुशेषिककुक्क	अक्रमक क्रिया	मलयालम	शेषाश छटना, वस्तु बच जाना
अनुशोक	सजा	हिंदी, संस्कृत	1 पश्चान्नाप दुःख, खेद मनाप मानसिक दुःख
अनुशोकं	सजा	मलयालम	2 अफसाम, पीछे साथ विचार म पड जाना
अनुशोध	सजा	असमी	3 अनुताप बीत काम पर पश्चान्नाप
अनुशोधक	विशेषण	हिंदी	1 पछताने वाला, अनुताप भागी पश्चान्तापी
अनुशोधी		हिंदी	2 खेद युक्त, खिन्न क्षुब्ध
अनुशोधिन्		संस्कृत	3 करके पीछे साथने वाला, जह वृद्धि
अनुशोचिककुक्क	अक्रमक क्रिया	मलयालम	1 खेद खिन्नता पछताना हाना 2 विलाप करना, महानुभूति हाना शोक प्रकट करना
अनुशोचन	सजा	हिंदी, बंगला, उड़िया	1 पश्चान्ताप, दुःख प्रकाश अनुताप, शाक, पछताना
अनुशोचनं		मलयालम, संस्कृत	+ 2 नान्वचना (मलयालम)
अनुशोध्य	विशेषण	मलयालम	दयनीय अवस्था जिस को देख हृदयी हो
अनुशोधन	सजा	हिंदी	दोष दूर करने के लिए शोधन करना (मोडीफिकेशन)
अनुश्रव	सजा	हिंदी, संस्कृत	वदिक परंपरा, अनुश्रुति, गरुपरम्परा से उच्चरित
अनुश्राविक	विशेषण	हिंदी	1 अनुश्रव 2 परंपरा से श्रुति प्राप्त परलोक सबधी ज्ञान
अनुश्रविककुक्क	सकर्मक क्रिया	मलयालम	वेदादि पाठ श्रवण करना
अनुश्रुत	विशेषण	हिंदी, मराठी, नेपा, कन्न	1 परंपरानुकूल प्राप्त ज्ञान
अनुश्रुतमु		तेलुगु	2 कर्ण परंपरागत 3 पहले देखा या सुना हुआ
अनुश्रुति	सजा	हिंदी, नेपाली	1 श्रुति परंपरा से प्राप्त ज्ञान 2 जनश्रुति (नेपाली)
अनुश्रुति	सजा	तमिल	+ 3 श्रुति के साथ मिलना स्वर (सगीत) (तमिल)
अनुषंग	सजा	गुजराती, हिंदी, मराठी	1 निकट सबध, सहचर्य, लगाव, आसक्ति, मेल
अनुषङ्गं		मलयालम	2 उपनयन के अर्थ को निगमन में ले जाकर पठाना (न्याय)
अनुषङ्ग		नेपाली, संस्कृत, बंगला	3 दया, करुणा, भावना या इच्छा
अनुषङ्गम्		तमिल	4 एकीभाव, आलिंगन, घनिष्ठता
अनुषंगमु		तेलुगु	5 निश्चित या अवश्यम्भावी परिणाम
अनुषंग		कन्नड	6 आश्रय 7 मिश्रण 8 शब्दादि की आवृत्ति
अनुषंगानें	अव्यय	मराठी	सदर्थ में, प्रसंग में, सबधभाव से, लगाव से

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुषङ्गी (श्लिगन्) अनुषङ्गी (पश्लिग) अनुषङ्गिक अनुषङ्गिकम्	विशेषण	नेपाली, बंगला, (संस्कृत) गुजराती, मराठी, हिंदी, (मलयालम) मलयालम तेलुगु	1. प्रासंगिक, सम्बद्ध, परिणामरूप, संलग्न 2. निश्चित परिणाम युक्त, अवश्यम्भावी फल 3. अनुबद्ध, संदर्भयुक्त; सहायक, अनुरक्त + 4. चिपका हुआ, सटा हुआ, व्याप्त (संस्कृत)
अनुषक्त अनुषक्त	विशेषण	हिंदी, संस्कृत मलयालम	1. चिपका हुआ, सटा हुआ, जुड़ा हुआ, संलग्न + 2. तत्पर, समर्पित (मलयालम)
अनुषक्ति	संज्ञा	हिंदी, मलयालम	राजा के प्रति प्रजा की कर्तव्यनिष्ठा, आसक्ति, संबद्धता
अनुषेक (कं) अनुषेचन	संज्ञा	हिंदी, (मलयालम) संस्कृत, हिंदी	फिर से सींचना, बार बार पानी से तर करना सींचना, छिड़कना
अनुष्टुप अनुष्टुप/अनुष्टुभ अनुष्टुप् अनुष्टुप्	संज्ञा	हिंदी, नेपा, कन्नड, अस गुजराती, मराठी, (संस्त+ मलयालम तेलुगु	1. बत्तीस वर्णों का एक संस्कृत छंद 2. वाणी, सरस्वती (हिंदी)+3. प्रशंसापूर्ण वाणी (मराठी, मलयालम) 4. चार पाद का एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं
अनुष्टुपीया अनुष्टुपियाकै अनुष्टुपै	संज्ञा क्रिया विशेषण सकर्मक क्रिया	असमी असमी मराठी	1. छोटा, संक्षिप्त 2. घटिया, निकम्मा छोटी मात्रा या डिग्री, संक्षिप्त रूप में 1. विधि पूर्वक आचरण करना 2. अनुष्ठान करना 3. प्राप्त, सिद्ध 4. पूर्ण करना 5. आरंभ करना
अनुष्ठान्य अनुष्ठान्य	विशेषण	हिंदी, बंगला मलयालम	1. अनुष्ठान योग्य, अनुष्ठेय 2. करणीय 3. आचरणीय
अनुष्ठान अनुष्ठान अनुष्ठान	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, बंगला संस्कृत	1. देवताओं को प्रसन्न करने के लिए धार्मिक कृत्य करने वाला 2. अनुष्ठानकारी 3. कार्य आरंभ कर्ता+ 4. कार्यसम्पादक (असमी)
अनुष्ठान अनुष्ठान अनुष्ठान अनुष्ठान अनुष्ठान/अनुष्ठान अनुष्ठानम्	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, बंगला नेपाली, मराठी असमी, संस्कृत मलयालम कन्नड तमिल	1. फल प्राप्ति की इच्छा से देवाराधन 2. कोई धार्मिक कृत्य या शास्त्रविरहित कार्य नियम पूर्वक करना 3. प्रथम उद्यम, निर्वाह एवं संपादन 4. महत्वपूर्ण या महान कार्य करना + 5. कार्यारंभ या उससे पूर्व की तैयारी (गुजराती) + 6. यज्ञ, पूजा, विवाह आदि जनहित कार्य (बंगला)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुष्ठानम् अनुष्ठानम्		तमिल तेलुगु	7. प्रयोग, पुरश्चरण, + प्रथा (असमी) + 8. दैनिक धार्मिक कृत्य, व्रत, नियम पूजा अर्चना (संस्कृत)
अनुष्ठान-पत्र	संज्ञा	असमी, बंगला	अनुष्ठान विषयक विवरण (ग्रामपेक्टस)
अनुष्ठान पद्धति	संज्ञा	मराठी	धार्मिक कृत्य यथा विधि करने की पद्धति
अनुष्ठान-शरीर	संज्ञा	हिंदी	स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बीच की देह (सांख्य)
अनुष्ठान-सिद्धि	संज्ञा	मराठी	धर्मकृत्य से इष्ट फल प्राप्ति
अनुष्ठान स्मारक	विशेषण	हिंदी	धार्मिक कृत्यों का स्मरण कराने वाला
अनुष्ठानित्तत्	सकर्मक क्रिया	तमिल	कार्य रूप में परिणत करना, कर्म करना
अनुष्ठापक अनुस्थापक	विशेषण	मलयालम मलयालम	अभ्यास करने वाला, क्रियान्वित करने वाला, सपादनकर्ता, शास्त्रानुकूल कार्य करने वाला
अनुष्ठापन अनुष्ठापनं	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत मलयालम	1. नियम पूर्वक, शास्त्र विधि से, फल प्राप्ति के लिये देवाराधन 2. पुरश्चरण 3. धार्मिक प्रयोग
अनुष्ठायी अनुष्ठित्तत्	विशेषण सकर्मक क्रिया	हिंदी तमिल	अनुष्ठाता, कार्यारंभ कर्ता, शास्त्र विहित कर्ता धार्मिक संयम नियम आदि पालन करना
अनुष्ठित अनुष्ठित अनुष्ठितम्	भूत कृदंत	हिंदी, बंगला, मराठी मलयालम, संस्कृत तेलुगु	1. विधि पूर्वक किया कृत्य, क्रियान्वित धर्म पालन 2. अनुसंगित, आचरित, आरब्ध, ठाना हुआ काम 3. संपादित कृत्य 4. कार्यारंभ
अनुष्ठित्तुक अनुष्ठित्तु अनुष्ठित्तु	सकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया क्रिया	मलयालम कन्नड तेलुगु	1. समीप खड़ा होना, करना, कर्तव्य मानना, आचरण करना 2. कार्य आरंभ करना 3. विधान या प्रयोग करना, उद्यम करना, अभ्यास करना
अनुष्ठेय अनुष्ठेय अनुष्ठेयम्	विशेषण	हिंदी, बंगला, संस्कृत गुजराती, मलयालम तेलुगु	1. आचरण योग्य, करणीय, सम्पादनीय 2. आरंभ योग्य, जो कुछ करना सोचा है 3. अनुष्ठान के योग्य
अनुष्ठ्यं अनुष्ठ्य अनुष्ठ्य अनुसंज्ञम्	संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण संज्ञा	संस्कृत, हिंदी संस्कृत संस्कृत मलयालम	पिछला पहिया अन्न या भोजन सहित 1. भोजन के पश्चात् 2. किसी की इच्छानुसार मेल, मैत्री (करना), एकता
अनुसंधान	संज्ञा	हिंदी, मराठी, गुजराती	1. अन्वेषण, खोज, शोध, तलाश, जांच, परीक्षण,

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुसन्धान	सज्ञा	असमी, बंगला, उड़िया	पड़ताल, पर्यवेक्षण 2 पर्यावयव प्रमाण, प्रतिज्ञा,
अनुसन्धान		नेपाली, संस्कृत	हेतु, उदाहरण, नियम उपनियम आदि (न्याय में)
अनुसंधान		कन्नड	3 पहले की बात का सबंध स्थापन
अनुसन्धानं		मलयालम	4 योजना, व्यवस्था, लक्ष्य सामग्री आयोजन
अनुसन्धानम्		तमिल	+ 5 ध्यान, अवधान, चित्त, हेतु, लक्ष्य, समन्वय (मराठी)
अनुसंधानम्		तेलुगु	+ 6 रिकथा का आख्यान, भजन या स्तुतिगान (मग)
अनुसंधानप्रिय	विशेषण	असमी	जिसकी वृत्ति जाच पड़ताल की हो
अनुसंधानना	सकर्मक क्रिया	हिंदी	दृढ़ना, विचारना, शोध करना
अनुसंधानी	विशेषण	मराठी, बंगला	1 चनूर, हिकमती, युक्तिवाज, धूर्त
अनुसंधानी	सज्ञा	हिंदी	2 आख्याना (गोमाईं रंगदास)
अनुसंधायी		बंगला, हिंदी	3 अन्वेषी, खोजी अन्वेषणदक्ष, शोधकर्ता
अनुसंधायक		हिंदी	4 योजना बनाने में कुशल
अनुसन्धायिन्		संस्कृत	5 जाच पड़ताल, अथवा खोज करने वाला
अनुसंधि	सज्ञा	हिंदी	1 गान मंत्रणा, योजना, परामर्श या संधि
अनुसन्धि		नेपाली, संस्कृत	2 पट्टयत्र, कुचक्र
अनुसंधित	भूत दृढन	बंगला	जिसका अनुसंधान किया गया हो
अनुसन्धित्तत्	सकर्मक क्रिया	तमिल	1 ध्यान करना, ध्यान लगाना, करना
अनुसन्धिसु	सकर्मक क्रिया	कन्नड	2 अभिव्यक्त करना, भूत कालीन का पता लगाना
अनुसन्धिककुक्	क्रिया	मलयालम	+ 3 दो वस्तुओं को जोड़ना, संयुक्त करना (कन्नड)
अनुसन्धित्सा	सज्ञा	असमी, बंगला	1 खोजी इच्छा या प्रवृत्ति 2 कोतूहल
अनुसंधित्सु	विशेषण	असमी, बंगला, हिंदी	1. खोज करने में व्यग्रता में इत्थुक या प्रयत्नशील
अनुसन्धित्सु		संस्कृत	2 कोतूहल रखने वाला, व्यग्र
अनुसन्धेय	विशेषण	बंगला, मलयालम	1 परीक्षणीय, अन्वेषणीय, विचारणीय
अनुसन्धेय		संस्कृत	2 ध्यान या मनन योग्य 3. मन्त्रद्वितीय
अनुसंधान	सज्ञा	हिंदी	प्राचीन भारत की वह व्यवस्था जिसमें प्रति तीसरे या पांचवे वर्ष समस्त महामान्य वर्ग बदल दिया जाता था
अनुसंहित	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1. अन्विष्ट, जिसकी जाच पड़ताल की गई हो
अनुसंहित		बंगला	2 किमी के अनुरूप; संहिता के अनुसार

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुसमय	संज्ञा	संस्कृत	नियमित या उपयुक्त संबन्ध जमा कि शब्दों का
अनुसमर्थन	संज्ञा	हिंदी	अनुमोदन, समर्थन, किसी बात की संपुष्टि
अनुसमापन	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	नियमित रूप से कार्य समाप्त करना
अनुसर	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1. पीछे पीछे जाना, अनुचर, हमराही, साथी
अनुसरं	संज्ञा	मलयालम	2. आदेश पालन, सम्मान, युक्त करने की रीति
अनुसरण	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. आदर्श या प्रणाली को मानकर काम करना
अनुसरण		असमी, उड़िया, बंगला	2. आधार सदृश कार्य करना, अनुकूल आचरण
अनुसरण		नेपाली, कन्नड, संस्कृत	3. आध्यात्मिक चलना, समर्थन करना
अनुसरिषु/अनुसरणम्		तमिल	+ 4. सेवा करना, अनुगामी, साथी, अनुचर, भृत्य (मलयालम)
अनुसरणं		मलयालम	5. उपदेश मानना, स्वीकार करना, अंगीकार करना
अनुसरणमु		तेलुगु	6. पीछे पीछे चलना, नकल करना, अनुकरण
अनुसरणि	संज्ञा	तेलुगु, तमिल	वीणा का दूसरा तार, झकारा तार
अनुसरणीय	विशेषण	बंगला	अनुगमनीय, प्रतिपालनीय, अनुकरण योग्य
अनुसरणवुं	सकर्मक क्रिया	गुजराती	1. पीछे पीछे जाना, उपदेश को प्रमाण मानना
अनुसरणें	क्रिया	मराठी	2. एक पद से दूसरे पद का रूप लिए संबन्ध रखना
अनुसरित्तु	क्रिया	तमिल	3. स्वीकार, अंगीकार, स्मरण, वर्णन, भजन करना
अनुसरिसु	क्रिया	कन्नड	4. अनुकूलता, सहमति, सम्मति या समर्थन देना
अनुसरना	क्रिया	हिंदी	5. अनुकूल कार्य करना, आधार या आश्रय मानना
अनुसरिषु	क्रिया	तेलुगु	6. पूजना, सम्मान करना, उन्मत्त मनाना, पर्व मानना
अनुसरिक्कु	क्रिया	मलयालम	+ 7. अनुनय या विनय करना (तेलुगु)
अनुसरता	संज्ञा	हिंदी	1. जो किसी का अनुसरण करे, या पीछे चले
अनुसरन्	संज्ञा	मलयालम	2. अनुगामी, सेवक, दास, अनुचर, नौकर, महार, साथी
अनुसरि	क्रिया विशेषण	असमी	1. एक परिमाण से, शक्ति के अनुसार भक्ति,
अनुसारे		असमी	अनुयायिता 2. एक रूपता
अनुसरिसुबिके	संज्ञा	कन्नड	अनुमोदन, स्वीकृति, अनुकूलता
अनुसर्ष	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	सर्प सदृश प्राणी, सरीसृप, पेट के बल रेंगने वाले प्राणी
अनुसबनम्	अव्यय	संस्कृत	यज्ञानन्तर, प्रत्येक यज्ञ में, प्रतिक्षण
अनुसाम	विशेषण	असमी, हिंदी, संस्कृत	संतुष्ट किया हुआ, अनुकूल

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुसाधन्तन् अनुसायम्	संज्ञा अव्यय	तमिल संस्कृत	राजा द्वारा नियुक्त सौ गांवों का मुखिया या ज़मीदार प्रति सन्ध्या, हर शाम
अनुसार	क्रिया विशेषण	हिंदी, मराठी	1. अनुगमन, अनुसरण, आज्ञाकारिता, पश्चात् गमन
अनुसार	संज्ञा	गुजराती, संस्कृत	2. अनुकूल, अनुरूप, मुताबिक, मुआफिक
अनुसार	विशेषण	असमी, उड़िया, बंगला	3. समान, सदृश, निश्चित परिपाटी
अनुसार		नेपाली, पंजाबी, कन्नड	4. क्रम से, नीति से, पद्धति, अनुक्रम
अनूसारु/अनूसार		सिंधी	5. नियम, प्रथा, चलन 6. स्वाभाव, प्राकृतिक अवस्था
अनुसारं	संज्ञा, अव्यय	मलयालम	7. परिणाम 8. पीछे चलना, +स्नेह, औचित्य (मलया)
अनुसारम्		तेलुगु	9. वाक्य में एक वाक्य के अनुरूप दूसरा पद होना
अनुसारम्/अनुसरिषुसंज्ञा		तमिल	+ 10. प्राप्त या प्रतिष्ठित अधिकार (संस्कृत)
अनुसारक	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	अनुसरण कर्ता, खोज करने वाला, अनुरूप
अनुसारतः अनुसारतः	क्रिया विशेषण	हिंदी, नेपाली मराठी, कन्नड	1. प्रमाण होना, तदनुसार(Accordingly) 2. आकार या रचना की अनुरूपता से
अनुसारना अनुसारणा	मकर्मक क्रिया संज्ञा	हिंदी संस्कृत, हिंदी	1. किसी के पीछे भेजना, पठाना, चलाना 2. आरंभ करना, अनुसरण करना, पीछा करना
अनुसारिणी अनुसारिता	संज्ञा संज्ञा	बंगला, कन्नड हिंदी	पश्चात्प्राग्मिनी, अनुरूप + वीणा का दूसरा तार (कन्नड) अनुसार होने की क्रिया या भाव
अनुसारी अनुसारी अनुसारिन् अनुसारि	विशेषण विशेषण संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी पंजाबी, नेपाली, बंग + संस्कृत अस, मलया, तेलुगु, तमि, कन्न	1. अनुगामी, अनुचर, साथी, भृत्य, शिष्य 2. उपकरण, अनुरूप (मलयालम) 3. समास या सम्मिश्रण में प्रधान के पश्चात् 4. अनुसरण कर्ता, खोज करने वाला
अनुसारे अनुसारे	क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण	बंगला असमी	अनुसरण करना, विस्तार करना (बंगला) तदनुसार, अनुपाततः, अनुरूपता से
अनुसार्थ अनुसार्थक अनुसास	विशेषण संज्ञा संज्ञा	गुजराती हिंदी, संस्कृत हिंदी, तेलुगु	अनुसरण योग्य, जिसकी नकल करनी चाहिये सुगंधित पदार्थ चंदन, अगुरु आदि वेदना, पीड़ा, कसक, बाण फंसने का कष्ट
अनुसिद्धान्त अनुसिद्धान्तं	संज्ञा	बंगला मलयालम	1. उपपाद्य को सरलता से जिस सिद्धान्त पर लाया जा सके 2. स्वाभाविक परिणाम, सहजफल 3. गणित में- अनुप्रमेय, अनुनिर्मेय

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुसीमा	संज्ञा	हिंदी	सीमा रेखा के आसपास का क्षेत्र या भूमि
अनुसूचक	विशेषण	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	सूचना या निर्देश करने वाला, निर्देशक
अनुसूचन	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	सूचना या निर्देश बताना, प्रकट करना
अनुसूचित	भूत कृदंत	हिंदी	जिसे सूचि में स्थान मिला हो, सूचि रूप में दर्ज, वर्गीकृत
अनुसूची	संज्ञा	हिंदी	1. वह नामावली जो सूचना, विवरण, नियमावली
अनुसूची		नेपाली, संस्कृत	आदि के परिशिष्ट रूप में हो (शेड्यूल)
अनुसूचि/सूचि		तेलुगु	2. नामावली, विवरण, परिशिष्ट, सूची
			+ 3. आर्लापिन, कागज नन्धी करने की पिन (तेलुगु)
अनुसृत	सत्ता	हिंदी	1. स्वीकृत, युक्त, आधारित, उचित
अनुसृत	विशेषण	मराठी, मलयालम	2. अनुसरण किया हुआ, आचरित
अनुसृति	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. अनुसरण, आज्ञापालन, उपयुक्तता, सम्बद्धता,
अनुसृति	संज्ञा	मलयालम	ममर्थन 2. वेश्या, कुलटा, व्यभिचारिणी (मलया)
अनुसृष्टि	संज्ञा	हिंदी	1. क्रमानुसार रचना 2. हाज़िर जवाब औरत
अनुसेवी	विशेषण	हिंदी	1. सेवा करने वाला, आदतन करने वाला
अनुसेविन्		संस्कृत	2. स्वाभक्त: करने वाली, भादी, अभ्यस्त
अनुसैन्य	संज्ञा	संस्कृत	किरी सेना का पिछला भाग, सहायक सैन्य दल
अनुस्कन्धम्	अ.यय	संस्कृत	यथाक्रम से उत्तराधिकारी होना
अनुस्तरण	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. चागे ओर बखेग, फैलाया. बिछाया या छिड़का होना
अनुस्तरणं		मलयालम	2. चागे ओर से सीना, गांठना, बिछाना
अनुस्तरणि	संज्ञा	मलयालम	1. आच्छदन 2. दाहसस्कार पर गोदान या बलिदान की
अनुस्तरणी		हिंदी, संस्कृत	गाय + 3. वैतरणी पार करने के लिए दत्त
अनुस्तरणी		मराठी	गाय (मराठी) + 4. वृषोत्सर्ग में या मृतक
अनुस्तरणी		नेपाली	निमित्त ग्यारहवें दिन दी गई गाय (नेपाली)
अनुस्नातक	विशेषण	गुजराती	स्नातक के बाद, पोस्टग्रेजुएट
अनुस्नान	संज्ञा	हिंदी	शिव पर चढ़ा निर्माल्य धारण करना
अनुस्यम्बनं	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	संवेदना, सहानुभूति, हमदर्दी
अनुस्मरण	संज्ञा	हिंदी, गुजराती	1. बारंबार स्मरण, अनुचितन, सर्वदाचितन,

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुस्मरण अनुस्मरणं अनुस्मरणम्	सज्ञा	नेपाली, बंगला, संस्कृत मलयालम + 2 तेलुगु + 3	परवर्तीकाल की स्मृतियाँ, स्मरण, याददाश्त भावना, विचार (तेलुगु), (Recollection) बार बार समझाना, भूले को याद दिलाना (नेपाली)
अनुस्मारक अनुस्मारक	सज्ञा	हिंदी संस्कृत	1 यह जो स्मरण कराये या याद दिलाये, (Reminder) 2 स्मरण कराने वाली वस्तु (पत्र या व्यक्ति)
अनुस्मरण-लेखन अनुस्मरिक्कुक	सज्ञा सकमेक क्रिया	गुजराती मलयालम	स्मरण करके लिखना, मेमारी डाइग स्मरण करना, ध्यान में दुहराना
अनुस्मृति अनुस्मृति	सज्ञा	हिंदी, नेपाली, बंगला मलयालम, संस्कृत	1 याद करना, प्रिय स्मरण 2 अन्य वस्तुओं को न्याग या भूल किसी एक का ध्यान या चिन्तन
अनुस्यूत अनुस्यूत अनुस्यूत अनुस्यूतम् अनुस्यूतम्	विशोऽर्ण सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी नेपाली, बंगला, संस्कृत मलयालम तमिल तेलुगु + 5	1 किसी में जुड़ा गटा, वधा या मिला हुआ 2 ग्रथित, सबद्ध, मिश्रित, मिलाया हुआ 3 निरंतर, मतत, लगातार, क्रमबद्ध, व्यापक 4 अखंड रूप में, सम्बद्ध, मूलगुण, नियत संबंध 5 अंग के अन्दर रखने वाली वस्तु (गुजराती)
अनुस्यूति अनुस्रसं अनुस्रावणं	सज्ञा सज्ञा सज्ञा	मराठी, मलयालम मलयालम मलयालम	निरन्तरता, अखंडित गति कान के अंदर का लिम्बा, मार्गस्थान शोषणा वाग वाग उद्गोष
अनुस्वरं अनुस्वर	सज्ञा सज्ञा	मलयालम बंगला	1 स्वरगत स्वर का नाम (सगीत में) 2 अनुस्वार (बग) 3 एक स्वर का साथ के स्वर के साथ दोहराना
अनुस्वान अनुस्वानं	सज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत मलयालम	प्रतिध्वनि, गुञ्ज, एक स्वर के समान दूसरा स्वर, मुद्रित के लिए गुञ्जा, अनुगुणन
अनुस्वानध्वनि (द्वध्वनि)	सज्ञा	संस्कृत, (मलयालम)	काव्य में एक प्रकार की ईगित ध्वनि
अनुस्वार अनुस्वार अनुस्वार (र) अनुस्वारम् अनुस्वारु	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी, संस असमी, उड़िया, बंगला नेपाली, कन्नड, पंजा, मलयाली तेलुगु सिंधी	1 जा नासिका ध्वनि स्वर के साथ चले 2 अक्षर के ऊपर बिंदी का चिह्न 3 पश्चात् ध्वनि, अनुनासिक वर्ण 4 स्वर वाद बोला जाने वाला हलन्त, नासिका में उच्चारित होने वाले वर्ण का चिह्न
अनुहृतगजर	सज्ञा	मराठी	अनाहत नाद ओंउम् की ध्वनि मन में होना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनुहृत	क्रिया विशेषण	मराठी	1. निरंतर चलने वाला, कभी न थकने वाला 2. अव्याहत, सतत
अनुहरण अनुहरणं	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत मलयालम	1. नकल 2. सादृश्य अनुकरण, समानता 3 अनुकूल होना
अनुहार (रं) अनुहारसु	विशेषण	हिंद,नेपा,कन्न,संस्त,मलया तेलुगु	1. आकार, चेहरा आदि में समानता 2. आकृति सादृश्य, तुल्य, समान, नकल, प्रतिकृति
अनुहारक अनुहारी अनुहारिन्	सज्ञा	हिंदी नेपाली, हिंदी संस्कृत	1. नकल या सादृश्य का काम करने वाला 2. मुखाकृति, चेहरा, वेश आदि में समान 3 आदर्श के उपयुक्त, योग्य
अनुहार्य अनुहार्य	विशेषण	हिंदी, मलयालम कन्नड	1. अनुकरणीय, अनुकरण करने योग्य +2 शुद्ध पद द्वितीया को किया जाने वाला मामिक श्राद्ध कर्म(कन्नड)
अनूक अनूक अनूक	सज्ञा	हिंदी, नेपाली कन्नड संस्कृत	1 मेरुदण्ड 2 मेहराव के बीच की ईंट, समूह 3 वेदिका का पिछला हिस्सा 4 यज्ञ सबधी एक पात्र 5 पूर्व जन्म 6 वश, कुलीनता, चरित्र 7 स्वभाव
अनूकाशं अनूकाश	सज्ञा	मलयालम संस्कृत, हिंदी	1. प्रादुर्भवन 2 प्रकाश का प्रतिबिंब 3 स्वच्छता, निर्मलता 4 हवाला, उदाहरण
अनूक्त अनूक्ति	विशेषण सज्ञा	हिंदी हिंदी	अनुप्रतिष्ठित, दोहराया हुआ, पीछे कहा हुआ अनुपाठ, दृढ़गना, व्याख्या, वेदाध्ययन
अनूषान अनूषान	विशेषण	हिंदी, कन्नड संस्कृत, नेपाली	अध्ययनरत, विद्वान, वेद वेदांग पाठगत, मुशील, मुचरित्र, विनययुक्त, विनय, म्नातक
अनूठा/अनूठं अनूठापन	विशेषण सज्ञा	हिंदी, गुजराती हिंदी	अनुच्छिष्ट, विलक्षण, अमाधारण, अनोखा, अदभुत अनूठे होने की अवस्था या भाव
अनूठ (ठ) अनूठा अनूठा (घ)	विशेषण सज्ञा सज्ञा	हिंदी, (गुजराती),नेपाली,संस्त हिंदी, असमी, नेपाली मराठी, (गुजराती), संस्कृत	(अनु+ वह) जो वहन न किया गया हो, कुँआरा, अविवाहिता स्त्री, जिसके भरण पोषण का उत्तरदायित्व अभी वहन करना है, कुमारी
अनूदन अनूदन	सज्ञा	हिंदी, नेपाली असमी	1. दोहराना, उल्थाकरना, अनुवाद करना + 2 विचार या भावना को क्रियात्मक रूप देना (हिंदी)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अनूचित अनूचित	विशेषण	हिंदी, बंगला नेपाली, संस्कृत	1. भाषान्तरित 2. पीछे कहा हुआ 3. दोबारा वर्णित, जिससे अनुवाद किया गया हो
अनूद्य अनुबतुकायसु	विशेषण	नेपाली, बंगला, संस, हिंदी सिंधी	अनुवाद योग्य, भाषान्तरित करने योग्य भाषान्तर करने लायक, पीछे कहे जाने योग्य
अनूपजम्	संज्ञा	तमिल	अदरक
अनूप अनूपम्	विशेषण संज्ञा	हिंदी, बंगला, मराठी तमिल, संस्कृत	1. जल के पास या निकट वाला, जलाधिक्य, दलदली धरती 2. जलधारा 3. नर भैंसा
अन्वत् अन्वत् अन्वत्	अव्यय अव्यय विशेषण	हिंदी, संस्कृत, कन्नड मलयालम हिंदी, मलयालम, संस	1. प्रत्यक्ष, अनुभवगम्य, सामने, दृश्य, सीधे 2. पीछे, बाद वाला, बाद में 3. उपरान्त, तुरंत, अनुगामी
अन्वक्षर अन्वक्षरं	अव्यय	संस्कृत मलयालम	अक्षर के अनुसार, ज्यों का त्यों लिखना अक्षर प्रति अक्षर
अन्वंग	संज्ञा	कन्नड	दृष्टिगोचर, आंख के आगे
अन्वयं अन्वय अन्वय अन्वय अन्वय अन्वय अन्वयमु अन्वयम् अन्वयत्तार	संज्ञा	मलयालम गुजराती, हिंदी मराठी, संस्कृत उड़िया, असमी नेपाली, बंगला कन्नड तेलुगु तमिल	1. अनुगमन, संबंध या योग, परंपरा संबंध 2. वाक्य में शब्दों का कर्ता-कर्म आदि संबंध या स्वाभाविक क्रम या संगत योजना 3. पद्यात्मक योजना को गद्यात्मक बनाना 4. वंश-परम्परा, वंशावलि, कुटुम्ब, परिवार 5. कारण-कार्य संबंध, यथास्थान रखना, हेतु साध्य संबंध 6. स्वीकारात्मक तर्क, तात्पर्य, भावार्थ, सार, निचोड़ 7. अवयव घटित वाक्य, साधन साध्य का नित्य संबंध + 8. संबंधी, रिश्तेदार, तादात्म्य गुण जो समाहित भी है और पृथक्मी (जैन) (तमिल)
अन्वयपद्धति	संज्ञा	गुजराती	अन्वेषण पद्धतियों में से एक, जो अर्थ संबंध या कारण-कार्य संबंध बताती है
अन्वयानुमानम्	संज्ञा	तमिल	अन्वय अर्थात् दो वस्तुओं के साथ-साथ रहने से अनुमान लगाना या निर्णय करना जैसे धूम-अग्नि
अन्वय व्यतिरेक	संज्ञा	बंगला, हिंदी, गुजराती, संस	नियम-अपवाद, संगति-असंगति

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अन्वय-व्यतिरेकी	विशेषण	गुजराती, मराठी	अन्वय साधन में जो असंगति आवे वह (साधन)(न्याय)
अन्वय व्याप्ति	संज्ञा	हिंदी, गुजराती	1. साधन साध्य विधान या संबध
अन्वय व्याप्ति		संस्कृत, मराठी	2. स्वीकारोक्ति या निश्चयात्मक तर्क
अन्वयस्वतंत्र	संज्ञा	कन्नड	जिस वाक्य के अर्थ को समझने के लिए शब्दों में अदल बदल न करनी पड़े
अन्वय,गत	विशेषण	गुजराती,मराठी,संज्ञ,हिंदी	वंश परंपरागत, वंशानुक्रमिक
अन्वयज्ञ	विशेषण	संस्कृत, मराठी	वंशानुगत या वंशावली जानने वाला
अन्वयित्तलु	सकर्मक क्रिया	तमिल	1. पीछे चल 2. शब्द को एक के पीछे एक व्याकरणानुसार रखो 3 वाक्य के नियम से चलो अन्वय से निकलने वाला अर्थ
अन्वयार्थ	संज्ञा	हिंदी	
अन्वयिसु	सकर्मक क्रिया	कन्नड	1. मिनाना, संबध जोडना, अन्वय करना
अन्वयिककुक्क	क्रिया	मलयालम	2. पद्य को गद्य रूप देना
अन्वयी	संज्ञा	हिंदी, गुजराती	1. अन्वय संबध जानने वाला
अन्वयिन्		संस्कृत	2. एक ही कुल या वंशवाला, संबद्ध
अन्वर्थ	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. अर्थ के अनुसार, सार्थक, यथार्थ, अर्थानुगत,
अन्वर्थ		असमी,कन्नड,संज्ञ,बंगला	प्रकृत अथ युक्त, अर्थानुसारी
अन्वर्थमु,अन्वर्थ	विशेषण	तेलुगु, मलयालम	2 स्पष्ट अर्थ वाला 3 संगत, कृतार्थ (बंगला)
अन्वर्थक	विशेषण	गुजराती,मराठी, हिंदी	1. अर्थ का प्रयोजन या आयोजन, यथार्थ, योग्य
अन्वर्थक	विशेषण	मलयालम	2 नाम आदि का गुण धर्म आदि बोध कराना, सार्थक
अन्वर्थता	संज्ञा	हिंदी, गुजराती	अन्वर्थ या यथार्थ का भाव
अन्वर्थनाम	संज्ञा	कन्नड	शब्द जिसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो
अन्वर्थविदि	संज्ञा	मलयालम	वह हाथी जो आघात, पिटाई या घाव के प्रति संवेदन शील न हो
अन्वर्थविदिन्		संस्कृत	
अन्वर्थि	संज्ञा	मलयालम	आश्रित, निर्भर, जिसका अर्थ या कार्य
अन्वर्थिन्		संस्कृत	किमी दूरे के सहारे से संबध रखे
अन्वर्थकिरण	संज्ञा	हिंदी	क्रमपूर्वक चारों ओर बिखेरना
अन्वर्थसर्ग	संज्ञा	मलयालम	1. यथेच्छ आचरण करने की अनुमति,
अन्वर्थसर्ग		संस्कृत	स्वेच्छाचारिता की अनुमति

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अन्वयसर्ग	संज्ञा	हिंदी	2. ढील छोड़ना; छूट देना 3. कामाचारानुज्ञा (संस)
अन्वयसिद्ध	विशेषण	मलयालम, हिंदी, संस्कृत	बंधा हुआ, जकड़ा हुआ, संबद्ध, आबद्ध
अन्वयस्यं (स)	संज्ञा	मलयालम, (संस्कृत)	1. जाति, वंशावलि, कुल, वंश, वंश-परंपरा,
अन्वयस्य	विशेषण	मराठी, नेपाली, कन्नड, हिंदी	वंशानुगत सम्बन्ध
अन्वयायमु		तेलुगु	+ 2. सत्य, दया, आत्मनिरीक्षण (मलयालम)
अन्वयेशणं	संज्ञा	मलयालम	1. परिगणन 2. विचारण 3. सम्मान, आदर
अन्वयेशा	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	4. विचार, लिहाज, ख्याल (किसी व्यक्ति का)
अन्वयेदं	संज्ञा	मलयालम	जो अनुस्वरित और पालनीय हो
अन्वयैका	संज्ञा	मलयालम	1. अगहन, पूस, माघ, फागुन, कृष्णपक्ष की नवमी
अन्वयैक्यं	संज्ञा	मलयालम	जिसमें मातृक श्राद्ध होता है (साग्निकों के लिए)
अन्वयैका		हिंदी, नेपाली, मराठी, संस +	2. उक्त श्राद्ध या तर्पण करना (मलयालम)
अन्वयैक्यविक्षम्	अव्यय	संस्कृत	उत्तर-पश्चिम के कोण की ओर
अन्वयैस्त	विशेषण	मलयालम	परस्पर सम्बद्ध
अन्वयैहं	अव्यय	मलयालम	प्रतिदिन, दिन पर दिन
अन्वयैहम्		संस्कृत, नेपाली	दिन-दिन, हर रोज
अन्वयैख्यात	विशेषण	मलयालम	पुनर्कथन, पुनर्व्याख्या.
अन्वयैख्यात		संस्कृत	मूल के अनुसार व्याख्या
अन्वयैख्यानं	संज्ञा	मलयालम	1. पूर्व कथित विषय को दोहराना या उसकी व्याख्या करना
अन्वयैख्यान	संज्ञा	संस्कृत, हिंदी	2. स्पष्टीकरण के लिए पुनः कहना
अन्वयैख्यान	संज्ञा	मराठी	3. अध्याय, पर्व, भाग 4. सूक्ष्म लेखा (हिंदी)
अन्वयैख्यान-पत्रं	संज्ञा	मलयालम	1. रिपोर्ट 2. कार्यवाही का वर्णन या बयान
अन्वयैख्यानसंभाषणं	संज्ञा	मलयालम	1. वक्ता के शब्दों को अपने शब्दों में कहना
अन्वयैख्यानसंभाषण		संस्कृत	2. स्पष्टीकरण के लिए पुनः पुनः कहना
अन्वयैचन	संज्ञा	कन्नड	मुख्य नियमों के 34 नियम निर्धारण
अन्वयैचय	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	मुख्य कार्य या विषय के साथ गौण कार्य या
अन्वयैचयं		मलयालम	विषय जोड़ना; इस प्रकार का काम या विषय
अन्वयैचित	विशेषण	हिंदी, मलयालम	गौण, द्वितीय, अप्रधान, अमुख्य

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अन्वादिष्ट	विशेषण	हिंदी, मलयालम, संस्कृत	बाद में या पश्चात् वर्णित, अप्रधान, गौण, पुनर्नियुक्त
अन्वादेश	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	1. एक के बाद दूसरी आज्ञा, एक कार्य होने पर दूसरे के लिये कहना 2. पुनरुक्ति, द्विरुक्ति
अन्वादेशं	संज्ञा	मलयालम	
अन्वादेश	संज्ञा	संस्कृत	3. पुनरादेश; पुनः प्रस्ताव; अनिरीकित बयान
अन्वाधान	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	होमार्गिन में मर्मिधा डालना, अनुआधान अग्नि,
अन्वाधानं	संज्ञा	मलयालम	होम की अग्नि स्थापना के बाद उसमें ईधन डालना
अन्वाधि	संज्ञा	हिंदी, मलयालम	1. पश्चाताप, ग्लानि, मानसिक व्यथा, सतत परिताप
अन्वाधि	संस्कृत	संस्कृत	2. न्यायानुगोचिन व्यक्ति को देने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा मौस्य हुआ धन, अमानत तथा जमानत भी
अन्वादेयम्	संज्ञा	तमिल	1. पिता, पति, श्वशुर द्वारा प्रदत्त धन
अन्वाधेय	संज्ञा	हिंदी, मराठी, संस्कृत	2. स्त्री के विवाह के समय या पश्चात् पितृ कुल, मातृ कुल तथा पतिकुल या अन्य कुटुम्बियों, मित्रों द्वारा प्राप्त धन जो एक प्रकार से स्त्रीधन कहलाता है
अन्वाधेयं	संज्ञा	मलयालम	
अन्वाधेयक		हिंदी, मराठी, संस्कृत	
अन्वाधेयकं		मलयालम	
अन्वाय	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. मेन्ग के किसी एक अंग की अधिकता (अर्थशास्त्र)
अन्वायं	संज्ञा	मलयालम	+ 2 मुह फलपन (मलयालम)
अन्वायत्त	विशेषण	मलयालम, हिंदी	तदनुसार, अनुसरण, सवधित
अन्वायन	संज्ञा	हिंदी	दहेज, पिता के घर से लाया हुआ धन
अन्वायनं	संज्ञा	मलयालम	विवाह के समय पितृकुल से प्राप्त वस्तुएं
अन्वारब्ध	विशेषण	संस्कृत, मलया	पीठ पर स्पर्श, पीठ से स्पर्श, अनुगमन
अन्वारब्धं	संज्ञा	मलयालम	पीठ की ओर स्पर्श किया हुआ
अन्वारंभ(ण)	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. धर्मानुष्ठान के बाद यजमान का कृत्य सफल हुआ बताने के लिए, या पुण्यभागी करने के लिए ऋत्विज या पुरोहित द्वारा उसकी पीठ का आशीर्वाद स्वरूप स्पर्श, पीठ थपथपाना
अन्वारंभ		मराठी	
अन्वारंभ		नेपाली	
अन्वारम्भं	संज्ञा	मलयालम	
अन्वारम्भणं	संज्ञा	मलयालम	2. विचारभ, स्पर्श, सम्पर्क
अन्वारम्भणि	संज्ञा	मलयालम	दर्श पूर्णिमा से पूर्व होने वाला कर्म
अन्वारोहणं	संज्ञा	मलयालम	विधवा का पति के साथ चिता पर चढ़ना
अन्वारोहण	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, मराठी	पति का शव चिता पर चढ़ाये जाने के (अनु) पीठे

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अन्वारोहण		संस्कृत	स्वय (गिता) पर चढ़ जाना, अनुकरण
अन्वाबापं	सज्ञा	मलयालम	1 पुष्टि करना, जोड़ना, वर्धित करना 2 व्यूह रचना में मेना के किन्हीं भाग को सेन्य बल देना
अन्वासनं	सज्ञा	मलयालम	1 पीछे बैठना 2 आराधना या सेवा
अन्वासन		हिंदी, नेपाली, कन्नड	3 धार्मिक कार्यों में रत्न रहना 4 दुःख, शोक, पश्चाताप
अन्वासन		संस्कृत +	5 नेत्र युक्त एनिमा (मलयालम)/शिल्पगृह (संस्कृत)
अन्वाहार्य (श्राद्ध)	सज्ञा	हिंदी, मराठी, नेपाली	1 अमावस्या के दिन मासिक पितृ श्राद्ध 2 नव
अन्वाहार्यक		हिंदी, मराठी, संस्कृत	चंद्र के सम्मान में श्राद्ध 3 दशपूर्णिमा पूर्व पर
अन्वाहार्य	सज्ञा	मलयालम	पुरोहित को भोजन भेंट, दक्षिणा आदि देना
अन्वाहार्यकं	सज्ञा	मलयालम	4 यज्ञ में पुरोहित को दिया भोजन, भेंट आदि
अन्वाहार्यपधनम्	सज्ञा	मलयालम	1 अन्वाहार्य रूप में ऋग्वेद विधि से स्थापित
अन्वाहार्यपधन		संस्कृत	अग्नि 2 दक्षिणाग्नि
अन्वाहिक	विशेषण	मलयालम, नेपाली, संस, हिंदी	दैनिक, प्रतिदिन दिन दिन दर्नादिन
अन्वाहित	विशेषण	हिंदी, कन्नड	1 स्त्री धन जो पति या पितृ कूल में मिले
अन्वाहितं	सज्ञा	मलयालम +	2 अधिकारी को देने में जमा किया धन, जमानत (हिंदी)
अन्वाहित	सज्ञा	संस्कृत +	3 यज्ञाग्नि को पुनः प्रज्वलित करना (कन्नड)
अन्वाहृति	सज्ञा	मलयालम	नवचंद्र का पवित्र गमय जब वह सूर्य से दूर होता है
अन्वित	विशेषण	हिंदी, गुजराती, बंगला	1 युक्त, संयुक्त सहित, सम्बद्ध, ग्रस्त, परिपूर्ण,
अन्वित		मराठी, नेपाली	घटित, सलग्न, साधर्म्यानुसार भिन्न भिन्न वस्तुओं
अन्वित		असमी, मलयालम	को एक श्रेणी में रखना, अभिभूत
अन्वितम्		तेलुगु	2 अनुगत, अनुसरित 3 मदर्थ
अन्वित		संस्कृत	4 व्याकरण की दृष्टि में अनन्य आदि जोड़ना
अन्वितार्थ	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 ऐसा अर्थ जो अन्वय करने में सहज ही समझ
अन्वितार्थ	सज्ञा	नेपाली, कन्नड, संस्कृत	में आ जाए, ऐसे अर्थ वाला विशेषण
अन्वितार्थ	विशेषण	मलयालम	2 छिपा अर्थ, गूढ आशय, मदर्थ में अर्थ
अन्विते	सज्ञा	कन्नड	अन्वित, दहेज या वधू के साथ बैठ में दी गयी स्त्री
अन्विति	सज्ञा	हिंदी, मलयालम	1 अनुगमन 2 आहार 3 युक्त संबंध प्राप्त
अन्विताभिधानवाच	सज्ञा	संस्कृत, हिंदी	वाक्य के शब्द, अन्य शब्दों के संदर्भ के
अन्विताभिधानवाचं		मलयालम	अनुसार अर्थ देते हैं, स्वतंत्र अर्थ नहीं (मीमांसा)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अन्विष्ट अन्वीकृत	विशेषण विशेषण	हिंदी, मलया, कन्नड, बंगला हिंदी	ईच्छित, दृढ़ हुआ, आवश्यक 1 जिसका अन्वय हुआ हो 2 युक्त 3 अभिभूत 4 किमी के माथ जुड़ा हुआ
अन्वीक्षा अन्वीक्षा	सज्ञा सज्ञा	मलयालम, बंगला गुजराती, कन्नड, हिंदी	1 खोज, जाच पड़ताल, मन्न, चिंतन, परीक्षण 2 बारीकी में देखना, ध्यान में निरीक्षण
अन्वीक्षण अन्वीक्षणं अन्वीक्षणम्	सज्ञा सज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत मलयालम तेलुगु	1 परीक्षण, जाच पड़ताल, अनुसंधान 2 निरीक्षण, ध्यान या नजर डालना या दृष्टिपान करना, आव से जाचना, खोज
अन्वीक्ष्य अन्वीष अन्वृषम् अन्वेष (षं)	विशेषण विशेषण अय्य सज्ञा	हिंदी हिंदी, मलयालम, संस्कृत संस्कृत हिंदी, (मलयालम,) संस्कृत	अन्वीक्षण योग्य, जिमकी जाच करनी हो जल के समीप का + 2 प्राय्य (हिंदी) एक ऋचा या मंत्र के अनन्तर दूसरा अनुसंधान, खोज, निरीक्षण, देखभान
अन्वेषक अन्वेषकन्	विशेषण सज्ञा	हिंदी, गुजराती, असमी मलयालम, संस्कृत	1 खोज, तलाश, जाच पड़ताल करने वाला 2 हिमाय की पड़ताल करने वाला, आडीटर (गुजराती)
अन्वेषक-प्रकाश	सज्ञा	हिंदी	सर्चलाईट विचयन प्रकाश
अन्वेषण अन्वेषण अन्वेषणं अन्वेषणम्	सज्ञा	हिंदी, गुज, मराठी, नेपा अस, उड़ि, संस, बंग+ मलयालम तेलुगु	1 अनुसंधान, शोध, मशोधन, परीक्षण निरीक्षण 2 विचारण (असमी) + 3 मन्न (मलयालम), अज्ञात का अनुसंधान 4 जाच पड़ताल, खोज, तलाश
अन्वेषणें अन्वेषिककुक्	सकर्मक क्रिया	मराठी, कन्नड मलयालम	खोज या शोध करना, पता लगाना, पुन परीक्षण करना
अन्वेषा(वणा) अन्वेषित	सज्ञा भूत कृदत	असमी, (हिंदी) हिंदी, कन्नड	1. अनुसंधान, मोच समझ 2 सम्मान, आदर जो या जिसकी खोज की गई हो
अन्वेषी अन्वेष्ट (ष्ट+त्र) अन्वेषि (न्) अन्वेष्टा (न्)	सज्ञा	हिंदी, नेपाली, मराठी कन्नड, संस्कृत मलयालम, (संस्कृत) गुजराती, मलयालम	1. अनुसंधाता, शोध करने वाला, खोजी 2 तलाश करने वाला, अन्वेषक 3. पुरानी बातों, विचारों या वस्तुओं की बारीकी से खोज करने वाला
अन्वेष्टष्य अन्वेष्य	विशेषण विशेषण	गुजराती, हिंदी हिंदी	अन्वेषण के योग्य जिसकी खोज की जानी है

‘अति’ उपसर्ग की व्याप्ति

‘अति’ संस्कृत भाषा का अव्यय शब्द है जो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है। उस दशा में इस का अर्थ बहुत अधिक होता है। तब यह परिमाण में आवश्यकता से अधिक मात्रा संकेत करता है। अतः ‘चरम सीमा को पहुँचा हुआ’ का पर्याय होता है तथा उत्कर्ष, प्रकर्ष, प्रशंसा, प्रमिद्धि आदि में श्रेष्ठतर, वढ़कर, उच्चतर आदि अर्थ संकेत करता है।

‘अति’ उपसर्ग रूप में जब सज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों के आरम्भ में जोड़ा जाता है तब यह निम्न लिखित अर्थ संकेत देता है। उदाहरणार्थ:—

अर्थ-संकेत

मात्रा या मान की अधिकता
परकाष्ठा
मर्यादा उल्लंघन
साधारण से अधिक
परिमाणाधिक्य

उदाहरण

अतिउत्पादन
अतिभीरु, अतिमोहन
अतिक्रमण
अति जीवन, अतिनीच
अतिकाल, अतिदीर्घ

ज्ञातव्य

1. उक्त उदाहरण-शब्दों में व्यक्त होता है कि ‘अति’ उपसर्ग साधारण नियम से परे की अधिकता का सूचक है। एक लोकोक्ति है कि ‘अति सर्वत्र वर्जयेत’ तदनुसार ‘अति’ के उपसर्गयुक्त अनेक शब्द वर्जित अर्थ अर्थात् ‘अ’ अथवा ‘अन्-अन के’ पर्याय अर्थ देने हैं यथा।

अतिकथा-निरर्थक कथा, अतिकर्म—नीचकर्म, अनिकाय-राक्षस, अतिगुण-गुणशून्य,
अतिप्राकृतिक-अप्राकृतिक, अतिभक्ति-कपटभक्ति, अतिरंजित—अविश्वसनीय,
अतिरूक्ष-स्नेहशील, अतिशिष्ट-अर्पाशिष्ट, अत्याचार-अनाचार आदि-आदि।

2. आगे के पृष्ठों पर ‘अति’ युक्त शब्दों में मलयाळम् के 360, कन्नड के 200, तमिळु के 98 तथा तेलुगु के 57 शब्द हैं। इस प्रकार दक्षिण की भाषाओं के कुल 715 शब्द, हिन्दी के 281 शब्द एवं अन्य भारतीय भाषाओं के 1845 शब्द हैं। कुल शब्द संख्या 2841 है।

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अति उत्पादन	संज्ञा	हिंदी	खपत या उपयोग से बहुत अधिक उत्पादन
अतिकंटक	विशेषण	संस्कृत, मलया	1. एक तरह का कांटा
अतिकण्टकं	संज्ञा	मलयालम	2. अति भयंकर (वस्तु)
अतिकण्टकन् (व्यक्ति)		मलयालम	3. बहुत परेशान करने वाला व्यक्ति
अतिकंदक	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	हस्तिकंदक नाम का पौधा
अतिकथ	विशेषण	हिंदी, कन्नड, मलयालम	1. अतिरंजित, अतिशयोक्ति पूर्ण, अविश्वसनीय बात
अतिकथन	संज्ञा	हिंदी, बंगला	2. बढ़ा-चढ़ा कर कहना, निरर्थक या व्यर्थकहानी या भाषण
अतिकथा	संज्ञा	हिंदी, बंग, कन्न, मलया	3. वह जो जाति/समाज के नियम/बंधन न मानता हो
अतिकथनी		पंजाबी	4. अत्युक्ति अलंकार
अतिकद्वै	संज्ञा	तमिल	5. इधर-उधर की फालतू बात 6. मृत, नष्ट
अतिकथित	विशेषण	बंगला	जिसे बहुत बढ़ाचढ़ा कर कहा गया हो
अतिकप्यटि	संज्ञा	तमिल	बहुत अधिक, अत्यंत
अतिकप्यडु-त्तत्	क्रिया	तमिल	बढना, बढ जाना, वृद्धि होना
अतिकप्यु	संज्ञा	कन्नड	गहरा काला रंग
अतिकर	संज्ञा	हिंदी	1. नियमित मात्रा से अधिक कर 2. सरचार्ज, सुपर टैक्स
अतिकरणें	सकर्मक क्रिया	मराठी	अतिक्रमण या उल्लंघन करना
अतिकरुणं	अध्यय	मलयालम	बहुत अधिक दया पूर्वक
अतिकर्म	संज्ञा	कन्नड	नीच कार्य, बुरा काम, महापाप
अतिकर्मि	संज्ञा	कन्नड	महापापी, अतिकर्मी, दुष्टकर्मा
अति काटक	संज्ञा	कन्नड	दुखदायी व्यक्ति
अतिकर्षणं	संज्ञा	मलयालम	बहुत ज्यादा परिश्रम, अतिप्रयास
अतिकर्षण		हिंदी, संस्कृत	+ अपने खेत की सीमा के आगे हल चलाना (मलया)
अतिकश	विशेषण	गुजराती, संस्कृत	1. जिसमें गांठ न हो 2. कोड़े को न मानने वाला (संस)
अतिकष्ट	संज्ञा	कन्नड	बहुत कठिनाई, महान दुख
अति काट	संज्ञा	कन्नड	पीड़ादायक, परेशान करने वाला, दुखदायी व्यक्ति
अतिकान्त	विशेषण	हिंदी, मलयालम, कन्नड	1. बहुत अधिक सुंदर और प्रिय, मोहक
अतिकान्तं	संज्ञा	मलयालम	2. एक रत्न
अतिकान्धु	संज्ञा	तमिल	+ 3. संध्या का बहुरंगी सुन्दर आकाश (तमिल)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिकाय	विशेषण	हिंदी, गुजराती, उड़िया	1 विशाल, असाधारण, अतिस्थूल
अतिकाय		कन्नड, बंगला	2 विपूल देह धारी, महाकाय, दीर्घकाय
अतिकाय		मलयालम, संस्कृत	+ 3 देव, दानव (मलयालम)
अतिकायम्		तेलुगु	4 भारी डील डौल वाला
अतिकायन्	सज्ञा	मलयालम	5 रावण का एक पुत्र
अतिकाल	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	1 निश्चित समय बीत जाना विलंब, अवसर दूर,
अतिकाल		नेपाली, मराठी, तेलुगु	लम्बा समय + 2 अवधि अवकाश (मराठी)
अतिकालज	विशेषण	मलयालम	1 नियत समय के बाद घटित होने वाला
अतिकालजं	सज्ञा	मलयालम	2 स्मृति भंग, ज्ञान की मरिचकता
अति कालया	सज्ञा	मराठी	1 समय पर निरन्तर क्रम न करने वाला या विलम्ब
अतिकालम्		तमिल	में करने वाला 2 बहुत प्रीमा
अतिबालै	सज्ञा	तमिल	3 अत्यंत, मूल्य दर्शन में कुछ पल्ल
अतिकिरीट	विशेषण	हिंदी	बहुत छोटे दाता वाला
अतिक्कुवि	सज्ञा	तमिल	आडबर्ग व्यवहार, माफलता या विशिष्टता दिखाना (जैसे ऊपर नीचे उछल कूद कर दिखाया जाता है)
अतिकुमारन्	सज्ञा	मलयालम	बहुत छोटा लड़का अथवा बालक, कृमारावस्था में
अतिकुमार	सज्ञा	संस्कृत	क्रम, मात्र किशोर
अतिकृष्ट	विशेषण	हिंदी	1 बहुत अधिक विकृत, मकटपूर्ण
अतिकृष्ट		बंगला, संस्कृत	2 बहुत अधिक कष्ट देने वाला
अतिकृष्ट	सज्ञा	तेलुगु	+ 3 घोर प्रार्थना व्रत जो 12 रात दिनों में
अतिकृष्ट	विशेषण	मलयालम	पूरा होता है (संस्कृत) छ दिन का व्रत (हिंदी)
अतिकिठिचिरम्	सज्ञा	तमिल	+ 4 बारह दिन निगहार रहने का व्रत (तमिल)
अतिकृत	विशेषण	हिंदी	1 जिस पूरा करने में मर्यादा का उल्लंघन हो
अतिकृत	विशेषण	मलयालम	2 मर्यादा अतिक्रमण + 3 अतिरजित (मलयालम)
अतिकृत	विशेषण	मराठी	+ 4 पराभूत, तिरस्कारित (मराठी)
अतिकृत कर्मकर्तव्य	विशेषण	मराठी	काम रूपी मर्म का पराभव किया जाना
अतिकृति	सज्ञा	हिंदी, मलया, तेलुगु	1 अतिक्रमण, सीमा का उल्लंघन
अतिकृति		कन्नड	2 पच्चीस वर्ष का एक ऋतु

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिकृपण		कन्नड	बहुदरिद्र, महालोभी; बेहद कजूस
अतिकृष्ण	विशेषण	मलयालम	बहुत काला, अनि श्याम वर्ण
अतिकृश	विशेषण	मलयालम	बहुत दुबला पतला, अनि कमजोर
अतिकेश	विशेषण	बंगला	लम्बे बालो वाली
अतिकेशी	विशेषण	बंगला	बहुत घने बालों वाली
अतिकै	क्रिया विशेषण	असमी	अतिशय या अधिक रूप से
अतिकोपि	सज्ञा	मलयालम	मत्क्रोधी, जिसे तत्काल क्रोध आये,
अतिकोपिन्		संस्कृत	बात विन-वान गुम्मे वाला
अतिक्रम	सज्ञा	हिंदी, मराठी	1 सीमा, मर्यादा, नियम, व्यवस्था आदि का उल्लंघन
अतिक्रम		असमी, संस्कृत	2 अशिष्टता, धृष्टता, अमम्मान, विपरीताचरण,
अतिक्रमं		मलयालम	अन्यथाचरण, दुष्टता, दुर्व्यवहार, उपेक्षा, अपमान
अतिक्रममु		तेलुगु	3. अन्याय, अनीति, अपराध, दुराचार, दुरुपयोग
अतिविक्रमम्		तमिल	4 प्रबल आक्रमण, दमन, काबू पाना, जीतना
अविक्रमम्		तमिल	5 ममुद्र, नदी, सीमा पार करना, सबसे आगे बढ़ना
अतिक्रम		गुजराती	6 समय निकल जाना, विलम्ब हो जाना
अतिक्रम		नेपाली	+ 7 पीछे से गिरी रज या बुरादा (गुजराती)
अतिक्रम		बंगला	+ 8. किसी ँ ऊपर से पैर ले जाते हुए पार जाना (हिंदी)
अतिक्रम		कन्नड	+ 9. श्रद्धाहीनता, दुष्टता (तमिल)
अतिक्रमण	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 अधिकार से बाहर काम करना, उल्लंघन, मर्यादा भंग
अतिक्रमण		मराठी, उड़िया, संस्कृत	2 अतिक्रम के सभी अर्थ देखिये
अतिक्रमणं		मलयालम	3 घूस पैठ, अवैध प्रवेश, अतिसर्पण (एनक्रोचमेट)
अतिक्रमणमु		तेलुगु	4. बल, संख्या आदि बढ़ जाना
अतिक्रमण		बंगला, कन्नड	+ 5. अनादर, अप्रतिष्ठा (मराठी)
अतिक्रमणीय	विशेषण	बंगला, मलयालम	1. उल्लंघन करने योग्य, लंघनीय
अतिक्रमणीय		संस्कृत	2 पार जाने, छोड़ देने, बचा देने लायक
अतिक्रमि	सज्ञा	मलयालम	1. नियम, मर्यादा, सीमा से बाहर जाने वाला
अतिक्रमिन्		संस्कृत	2. दुष्ट, अत्याचारी, अधर्मी
अतिक्रमी		बंगला	3. जो काम समाज में अविहित. कुल प्रथा के विरुद्ध
अतिविक्रमि		तमिल	या अनुचित हो उसे करने वाला

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिक्रम्युं	सकर्मक क्रिया	गुजराती	1. अतिक्रमकर, सीमोल्लंघन कर, नियम भंगकर
अतिक्रिमित्तत्	सकर्मक क्रिया	तमिल	2. बढ़ जा, पार कर, सीमा पार कर, अपमान कर,
अतिक्रमिसु	सकर्मक क्रिया	कन्नड	सत्ता का विरोध कर, हाथ से निकल जाना
अतिक्रमणे(क्रमिककुक्)		मराठी, मलयालम	3. आज्ञा, सीमा, मर्यादा आदि का उल्लंघन करना
अतिक्रमिंचु		तेलुगु	4. छोड़, लापरवाही में रह, अप्रचलित हो
अतिक्रान्त	भूत-कृदन्त	हिंदी, नेपाली, मराठी	1. लंघित, अतीत, व्यतीत
अतिक्रान्त	विशेषण	गुजराती, कन्नड, संस	2. हद/सीमा से आगे बढ़ा हुआ, अमर्यादित
अतिक्रान्त		बंगला, मलयालम	3. पराजित, पराभूत, हारा हुआ
अतिक्रान्तमु		तेलुगु	4. बीती बात, गत, भूतकालीन घटना(संज्ञा)
अतिक्रान्दम्	संज्ञा	तमिल	
अतिक्रान्ति	संज्ञा	गुजराती, तेलुगु	उल्लंघन करना, बढ़ जाना, हद से बाहर गया
अतिक्रान्ताशौघ		मराठी	सूतक पातक समाप्ति पर स्नानादि
अतिक्रामक	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	1. दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप करने वाला
अतिक्रामी	विशेषण	गुजराती	2. अधिकार सीमा के बाहर जाने वाला
अतिक्रुद्ध	विशेषण	हिंदी, मलयालम, संस्कृत	1. बहुत अधिक क्रोध में 2. अधिक क्रोधी
अतिक्रूर	विशेषण	मलयालम, संस्कृत, हिंदी	बहुत निर्दयी, निष्ठुर, अत्याचारी
अतिक्रूरन्	संज्ञा	मलयालम	ज्योतिष में शनि मंगल आदि क्रूर ग्रह
अतिक्लेष	संज्ञा	मलयालम, कन्नड	सीमा से अधिक दुख पीड़ा, कठिनाई, दरिद्रता
अतिक्लारं(चारम्)	संज्ञा	मलयालम, तमिल	सैंधा नमक
अतिक्लिप्तं	संज्ञा	मलयालम	1. अति दूर, सीमा पार फेंका हुआ
अतिक्लिप्त	विशेषण	संस्कृत, मलया, हिंदी	2. मांस पेशी-में मोच या दर्द
अतिक्लुद्र	विशेषण	मलयालम	1. बहुत छोटा, सूक्ष्म बारीक 2. बड़ा कंजूस, नीच
अतिक्लेत्र		बंगला	यंत्र रेखित क्षेत्र, रेखा खींचना
अतिक्लिष्ट	विशेषण	बंगला	1. टूटा फूटा 2. अतिरिक्त खंडित 3. कटावदार
अतिक्लण्डम्	संज्ञा	तमिल	अतिखण्ड, छंद का एक चरण
अतिक्लरं	संज्ञा	मलयालम	ख छ ठ थ फ, अघोष एवं महाप्राण व्यंजन
अतिग	संज्ञा	मलयालम, कन्नड, संस	1. सीमा पार जाना, बढ़ना
अतिगं/अतिगन्		मलयालम	2. उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, अत्यधिक, अपेक्षाकृत उत्कृष्ट

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिगंड	विशेषण	हिंदी, कन्नड, संस्कृत	1. जिमके गाल की हड्डी बड़ी हो
अतिगण्डं	संज्ञा	मलयालम	2. एक अशुभ योग (ज्योतिष), 27 योगों में विभक्त
अतिगण्डम्		तमिल	ममय में एक 3. एक तारा
अतिगण्डमु		तेलुगु	4. बड़ा कपोल 5. बड़े कपोल वाला व्यक्ति
अतिगंध	विशेषण	हिंदी, कन्नड, मलया	1. गंधक, चंया, चंपक, चंदन, जूही आदि सुगन्धित फूल
अतिगन्ध	संज्ञा	संस्कृत, बंगला	2. गंधगज पौधा, एक सुगन्धित बेल
अतिगन्धं	संज्ञा	मलयालम	3. जिमकी गंध नीक्षण हो, उत्कृष्ट गंधवाला
अतिगन्धम्		तमिल	4. तीव्र गंध या दुर्गंध
अतिगन्धालु	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत, हिंदी	1. केरल प्रदेश में एक वेल जिसे पुत्रदात्री माना जाता है
अतिगन्धि	विशेषण	मलयालम	2. जिसकी गंध तेज हो, तीव्र गन्धयुक्त
अतिगन्धिन्		संस्कृत	3. वेहद खुशबू वाला
अतिगत	विशेषण	हिंदी	1. अति तक पहुंचा हुआ 2. बहुत अधिक
अतिगत	विशेषण	मलयालम	+ 3. बीता हुआ, गुज़रा हुआ, अतीत (मलयालम)
अतिगति	संज्ञा	नेपाली, हिंदी	1. मोक्ष, मुक्ति, परमपद
अतिगति		तेलुगु	2. उत्तम गति, मरने के बाद नरक कष्ट न होना
अतिगमिक्कुक्क	सन्नर्गक क्रिया	मलयालम	1. मथंश टूटना या तोड़ना, सीमा पार करना
अतिगमिक्कुक्क	अधर्मक क्रिया	मलयालम	2. मर जाना, निकल भागना
अतिगर्ज	संज्ञा	बंगला	1. अतिशय दर्प 2. बहुत अहंकार
अतिगर्जनं	संज्ञा	मलयालम	1. जोर की दहड़, चिंसाइ 2. धमकाने की आवाज़ में बोलना
अतिगव	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1. महामूर्ख, मंद बुद्धि, बिलकुल मूढ़
अतिगव		संस्कृत	2. अवर्णनीय, अकथनीय, वर्णनातीत
अतिगर्व	संज्ञा	कन्नड	बहुत घमण्ड या अहंकार
अतिगर्वित	विशेषण	कन्नड	बड़ा अहंकारी या घमंडी
अतिगहन	विशेषण	मलयालम, हिंदी	1. बहुत गहरा 2. जिसमें प्रवेश करना कठिन हो
अतिगहन(गहर)		संस्कृत, हिंदी	3. क्लिष्ट विषय जिसको समझना कठिन हो
अतिगुण	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1. श्रेष्ठ, उत्तम विशेषताओं वाला, उत्कृष्ट गुण युक्त
अतिगुणन्	संज्ञा	तमिल	+ 2. निकम्मा, गुण शून्य (मलयालम, हिंदी, संस)
अतिगुण	विशेषण	मलयालम	+ 3. असामान्य गुणशाली; परमेश्वर; अर्हंत (तमिल)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिगुरु	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1 बहुत भारी
अतिगुरु	सज्ञा	संस्कृत, मलया, हिंदी	2 अति सम्मान्य व्यक्ति माता पिता आदि
अतिग्रह	विशेषण	मलयालम	1 दूबोध, गूढ, क्लिष्ट
अतिग्रह(हं)	सज्ञा	संस्कृत, मलयालम	2 सही ज्ञान, बहुत ग्रहण करने वाला व्यक्ति
अतिग्रह	विशेषण	हिंदी	3 ज्ञानेन्द्रियों का विषय 4 आगे बढ़ जाना
अतिग्राह	सज्ञा	हिंदी	1 मत्स्य ज्ञान 2 ग्रहण करने वाला अंग
अतिग्राह		संस्कृत	3 शब्द, रस, गंध, स्पर्श, आदि इन्द्रिय विषय
अतिग्राहं		मलयालम	4 श्रेष्ठता के लिए कृत कर्म, विशिष्टकरण
अतिग्राहक	विशेषण	कन्नड	नीक्षण बुद्धि युक्त, कुशल
अतिग्राह्य	विशेषण,सज्ञा	मलयालम, हिंदी, संस्कृत	1 दमनीय, ग्राह्य नदी 2 नियंत्रण योग्य
अतिग्राह्यं	सज्ञा	मलयालम	2 ज्योतिष्टोम यज्ञ में तीन बार किया नर्पण
अतिष	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 एक प्राचीन अस्त्र, भयकर आयुध
अतिषं	सज्ञा	मलयालम	2 क्रोध, अत्यंत हानिकारक स्वभाव
अतिगोरम्		तमिल	1 नरकों का एक समूह + 2 एक भयकर नरक का नाम (नगिल)
अतिघोर	सज्ञा	मलयालम	
अतिघोषं	सज्ञा, अव्यय	मलयालम	1 बहुत ऊंची आवाज, आकाशभेदी स्वर
अतिघोष	विशेषण	संस्कृत	2 विजय घोष, कोलाहल
अतिघ्न	विशेषण	हिंदी, मलयालम	भयकर विनाशकारी
अतिघ्नि	सज्ञा	मलयालम	पेसी गहरी निद्रा या विस्मृति जगमे अतीत की
अतिघ्नी		संस्कृत, हिंदी	मारी अप्रिय बातें भूल जाये, परम मुख
अतिघ्नुर	सज्ञा	कन्नड	बहुत होशियार, अति बुद्धिमान
अतिचण्ड	विशेषण	मलयालम	बहुत अधिक क्रूर, निर्दयी, भयकर
अतिचर	विशेषण	संस्, मलया, हिंदी, बंग, तेलुगु	1 अत्यंत परिवर्तनशील, अनित्य, क्रान्तिकारी
अतिचरा	सज्ञा	कन्नड, हिंदी, संस्	+ 2 स्थल पद्मिनी, पद्म चारिणीलता (संस्कृत)
अतिचरम्	सज्ञा	तमिल	+ 3 दृमरी गशि में द्रुतगामी ग्रह (बंगला, मलयालम)
अतिचरणं	सज्ञा	मलयालम	1 अत्यधिक उत्तेजना 2 अत्यधिक अभ्यास/काम
अतिचरण		हिंदी, संस्कृत	3. अतिक्रमण 4. जबरदस्ती कुब्जा

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिघरण		नेपाली	5 ग्रह का एक राशि में दूसरी में जाना
अतिघरण		कन्नड	6 विंशष्टीकरण, अतिघार
अतिघरे	सज्ञा	कन्नड	अतिघरा, चयला स्त्री
अतिघरिकुकु	क्रिया	मलयालम	अतिक्रमण करना, सीमा पार करना
अतिघार	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	1 अतिक्रम, अतिक्रान्ति, औचिन्य का व्यतिक्रम
अतिघार		बंगला, कन्नड	2 अस्थिरता, चंचलता, मर्यादा उल्लंघन
अतिघार		नेपाली, मराठी	3 ग्रहों का भोगकाल समाप्त हुए बिना एक राशि में दूसरी में जाना, वक्र गति, द्रुतगति, तीव्र गति
अतिघारं		मलयालम	
अतिघारम्		तमिल	4 अन्य के अधिकार में बाधा डालना, अन्याचार
अतिघारमु		तेलुगु	+ 5 बौद्ध भिक्षु का नियम विधान छोड़ भटकना (दि)
अतिघारबक्किरम्	सज्ञा	तमिल	ग्रह का वक्री होना, उलटा चलना
अतिघारि	विशेषण	मलयालम	1 सीमा का अनुचित उल्लंघन करने वाला
अतिघारिन्		संस्कृत	2 आगे निकल जाने वाला
अतिघारी	विशेषण	हिंदी	3 अतिक्रमणकारी, अन्याचारी
अतिघारी		नेपाली	4 राशि में भोगकाल समाप्त हुए बिना दूसरी राशि में जानने वाले मंगल आदि ग्रह
अतिघारी		बंगला	
अतिघित्र	सज्ञा	कन्नड	वृत्त सदर, चमत्कारी
अतिघरित्तलु	अरुमक क्रिया	तमिल	ग्रह का स्थान त्यागना
अतिघिरं	अव्यय	मलयालम	बहुत लम्बे समय तक के लिए
अतिघूर्ण	सज्ञा	कन्नड	बहुत बारीक या गहिरा घूर्ण या बुरादा
अतिघत्र	सज्ञा	मराठी, तेलुगु, मलया	1 एक सुगंधित घास, एक पानी की घास
अतिघत्रा	सज्ञा	मराठी, हिंदी	2 भूतृण, छत्रक, ताल मखाना, कुकरमुत्ता, खुभी
अतिघत्रका		मराठी, हिंदी	3 जल सिपाही नाम का एक वृक्ष
अतिघत्र(त्र)	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत, मलया	+ 4 गगनधूलि (तमिल)
अतिघत्रिरम्		तमिल	+ 5 वृक्ष या पौधा विशेष (तेलुगु)
अतिघन्वस्	विशेषण	संस्कृत	1 भौतिक इच्छाओं से रहित, विरक्त, अनासक्त
अतिघन्वस्तु		मलयालम	2 यज्ञकुंड में लगायी जाने वाली एक प्रकार की ईंट
			3 दो प्रकार के छदों के नाम 4 वैदिक आचार तोड़नेवाला

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिच्छादन	सज्ञा	हिंदी	विषय या सिद्धान्त का ऐसा विस्तार कि आस-पास की मिलती जुलती बातें भी उसके क्षेत्र में आ जाये (ओवरलैपिंग)
अतिजगति	सज्ञा	मलयालम, कन्नड	तेरह वर्षों का एक छंद
अतिजगती		हिंदी, गुजराती, बंगला, संस	एक छंद का नाम
अतिजड़	विशेषण	कन्नड	बहुत मूर्ख, आलसी, स्तब्ध, मन्द, मुस्त, उत्साहहीन
अतिजन	विशेषण	हिंदी, बंगला	1 अवमित, जो आवाद न हो, निर्जन,
अतिजन		संस्कृत, तेलुगु	उजाड़, वीरान स्थान
अतिजन		कन्नड	+ 2 असाधारण जन बहुल (बंगला)
अतिजन		मलयालम	+ 3 अपने बजुर्गों से आगे बढ़ा हुआ (कन्नड)
अतिजब	सज्ञा	हिंदी, कन्नड	1 असाधारण वेगवान, तीव्र गति
अतिजब	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	2 तेज चलने वाला
अतिजागर	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1 मदा जागता रहने वाला, जिसे नींद न आये,
अतिजागर	सज्ञा	संस्कृत	जागरूक, सजग, सचेत
अतिजागर		कन्नड	2 नीला बंगला, जल पक्षी जो मदा जागता रहता है (सज्ञा)
अतिजात	विशेषण	मलयालम	1 अपन कुल वंश में श्रेष्ठ, उत्कृष्ट जन्मा
अतिजात		हिंदी, बंगला	2 अपनी जाति या पिता से भी श्रेष्ठ
अतिजात		गुजराती, संस्कृत	+ 3 बाप से सवाया, प्रशस्त जन्मा, अभिजात (बंगला)
अतिजात		कन्नड	+ 4 जो आवाद न हो (कन्नड)
अतिजीब	विशेषण	कन्नड	जो मरने से बचा (सर्वाइवर), अभिजीवित
अतिजीवन	सज्ञा	हिंदी, बंगला	1 अधिक जीना 2 बचा रहना, अर्वाशिष्ट रहना
अतिजीवनं		मलयालम	3 अपने वर्ग के लोगों से अधिक जीना
अतिजीवित	भूत कृदंत	हिंदी	4 औसत में अधिक जीवन प्राप्त करना
अतिजीवी	सज्ञा	हिंदी	5 साधारण वय में अधिक जीने वाला प्राणी
अतिजीविन्		संस्कृत	6 जिसने औसत जीवन भोग लिया हो
अतिज्ञान	सज्ञा	गुजराती	निष्फल ज्ञान, सीमा से अधिक ज्ञान
अतिटाने	क्रिया विशेषण	असमी	बड़ी भुशुकल से, किसी तरह
अतिडीनं	सज्ञा	मलयालम	पक्षियों की असाधारण उड़ान
अतिडीन		हिंदी, संस्कृत	चिड़ियों की असाधारण उड़ान

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिर्ष्वलुबन्	सज्ञा	तमिल	धन म्यामी, कुबेर
अतितार	विशेषण	बंगला, कन्नड	+ 1 अत्यधिक (बंगला) बडी भीड (कन्नड)
अतिलनु	सज्ञा	तमिल	स्वर्ण, सोना, काचन, कुदन
अतितरण	सज्ञा	हिंदी	1 पार करना, पराभूत करना, हगना
अतितरणं	सज्ञा	मलयालम	2 सीमा लाघना 3 आरूढ हाना
अतितारां/राम्	अध्यय	मलयालम, संस्कृत	उच्यतर, अधिक से अधिक,
अतितारा		कन्नड	असीम, बहुत ज्यादा, बेहद
अतितमां/माम	अध्यय	मलयालम, संस्कृत	अत्यधिक, सर्वाधिक,
अतितमा		कन्नड	असीम, नि सीम, अनुल
अतितलशिलेषमम्	सज्ञा	तमिल	अतिश्लेष, एक कफ रोग
अतितानं	सज्ञा	मलयालम	मगीत में एक प्रकार का गगविस्तार
अतितान		संस्कृत	तान को अत्यन्त ऊचा ले जाना
अतितारं	सज्ञा	मलयालम	तार स्थायी के ऊपर सर्वोत्तम धुन,
अतितार		संस्कृत	स्वर समूह का अष्टक
अतितारी	विशेषण	हिंदी	1 पार करने वाला श्रेष्ठ नैगक
अतितारिन्		संस्कृत	2 कठिन्नाओ पर विजय पाने वाला
अतितिथि	सज्ञा	बंगला	दो दिन में एक तिथि पड़ने पर आखिरी तिथि
अतितीक्ष्ण	विशेषण	बंगला, हिंदी, संस, मलया	1 अतिउग्र, नेजधार वाला 2 तीखा, कडवा,
अतितीक्ष्णं	सज्ञा	मलयालम	3 असहनीय 4 लालमगसो, सहजन, मिर्च, एक पौधा
अतितीव्र	विशेषण	बंगला, मलयालम	+ 1 अनि प्रखर, अतिबलवान, महातेजस्वी (बंगला)
अतितीव्र		हिंदी	2 दु स्र, बहुत तीखा, उग्र, बहुत तेज़
अतिसुंग(गं)	सज्ञा	संस्कृत, मलयालम	1 बहुत ऊचा, श्रेष्ठ, प्रतिष्ठित
अतिसुंग	विशेषण	मलयालम	2 ज्योतिष में ग्रह का उच्च स्थान, परमाच्च. अत्युच्च
अतितृष्ण	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1 बहुत प्यासा 2 अत्यधिक लालची
असितृष्णा	सज्ञा	हिंदी, मलयालम	अत्यधिक प्यास, अत्यन्त लालच
अतित्यायी	विशेषण	मराठी	माहसिक कार्य करने वाला
अतिबंतुर	विशेषण	हिंदी	बड़े-बड़े या बाहर निकले दातो वाला

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिवर्ष	विशेषण	मलयालम	1 वृी तरह जला हुआ
अतिवर्ष	सत्ता	मलयालम	2 वृी तरह जलने का माव
अतिवर्ष	सत्ता	बंगला, हिंदी	1 अत्यधिक अहकार 2 एक वर्ष
अतिवर्षी	विशेषण	बंगला, हिंदी	बहुत अहकारी व्यक्ति, मत्वा भाँगमानी
अतिदर्शी	विशेषण	हिंदी	दूरदर्शी, भविष्य की साधने वाला
अतिदाता	सत्ता	बंगला, हिंदी	1 अपरिमित दानशील 2 बहुत अधिक उदार
अतिदान	सत्ता	बंगला, हिंदी	1 अनिर्गक दान, अत्यधिक उदारता
अतिदानं		मलयालम, संस्कृत	2 सभावना से अधिक दान
अतिदानम्		तमिल +	3 उपहार, भेट (नागल)
अतिदाह	सत्ता	बंगला, कन्नड, हिंदी	अतिशय व्याग, गर्मी तरन, जनन, मृजन
अतिदिष्ट	विशेषण	हिंदी	1 मीमासा शास्त्र में अत्याय एक वस्तु का धर्म
अतिविष्ट		संस्कृत	दूसरी में आगमित 2 स्थानान्तर में प्राप्त
अतिदिष्ट		बंगला	अवामन्य या आगमित धर्म विशिष्ट 3 प्रभाषित,
अतिदिष्ट		मराठी	आकृष्ट दूसरे के स्थान पर गया हुआ
अतिदिष्ट		नेपाली	4. अर्वाधि मीमा में आग वद्धा हुआ
अतिदीन	विशेषण	कन्नड	अतिकृपण बहुत कठम मस्वीनुम
अतिदीप्य	सत्ता	हिंदी, संस्कृत	रक्त चिचक वृक्ष
अतिदीप्यं		मलयालम	लाल पीता का पत्र
अतिदीर्घ	विशेषण	बंगला, कन्नड	1 बहुत लंबा + 2 पूगनन (कन्नड)
अतिदुःख	सत्ता	कन्नड	अत्यन्त क्रेश पीडा या विपत्ति
अतिदुःखी	विशेषण	बंगला	1 बहुत दुःखी 2 अतिशय क्षुब्ध
अतिदुःसह	विशेषण	हिंदी	असह्य, जिसे सहन करना कठिन हो
अतिदुर्गत	विशेषण	हिंदी	1 वृी स्थिति, विपदग्रस्त
अतिदुर्गत		बंगला	2 बहुत कंगाल, अत्यन्त दुर्गवस्था
अतिदुर्धर्ष	विशेषण	हिंदी	1 जिसके पास जाना कठिन हो
			2 ऐसा अहकारी व्यक्ति जिसे ममाना कठिन हो
अतिदूर	अव्यय	बंगला, कन्नड	1 बहुत कामला 2 सम्पूर्ण भिन्न, नि सम्पर्कता
अतिदूरं		मलयालम +	3 यथा योग्य व्यवहार शून्य (बंगला)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिदेवें	क्रिया	मराठी	शक्ति में अधिक ऋण आदि देना
अतिदेव	संज्ञा	हिंदी	1 मन्त्रम वडा देवता — शिव, विष्णु आदि
अतिदेवन्		मलयालम	2 मन्दिर का मुख्य देवता, वह देवमूर्ति जिसके नाम
अतिदेयबम्/देवतै		तमिल	में मंदिर प्रसिद्ध हो
अतिदेश	संज्ञा	हिंदी	1 अन्य वस्तु के नियम या धर्म का अन्य पर आगेप,
अतिदेश		गुजराती	स्थानान्तरित नियम
अतिदेश		बंगला	2 मादृश्यता के आधार पर नियम विधान व्यापक
अतिदेश		मराठी	बनाना, व्याख्या करना (एक्सप्लेन)
अतिदेश		नेपाली	+ 3 विकल्पीकरण, स्थानान्तरिता, निणय, अनुमान,
अतिदेश		कन्नड	उधार (तनुगु)
अतिदेशम्		तमिल	4 विरोधी वाना या वस्तुओं की कुछ तात्विक
अतिदेशं		मलयालम	ममानता (गुनालाजी) 5 मादृश्य, उम्मा, आत्मसात करना
अतिदेशमु		तेलुगु	6 नियम जो निर्दिष्ट विषय के अतिरिक्त अन्य
अतिदेश		संस्कृत	विषयों पर भी काम दे 7 सूत्रों के छ लक्षणों में से एक
अतिदेशन	संज्ञा	हिंदी	अतिरिक्त करने की क्रिया या भाव
अतिदेशितत्त्व	संज्ञा	तमिल	मादृश्यता के आधार पर प्रयोग करना
अतिदेव	विशेषण	बंगला, मलयालम	1 देवताओं में भी परे
अतिदेवी		बंगला, मलयालम	2 देवताओं के माध्य में परे
अतिदेविक		बंगला, मलयालम	3 सम्पूर्ण क्षमताहीन जिसने देव को अतिक्रान्त कर
अतिदेविकी		बंगला, मलयालम	लिया हो
अतिदुत्त	अव्यय	बंगला	1 मगीन म चौथाई मात्रा की एक धुन
अतिदुत्तं		मलयालम	2 बहुत जल्दी, बहुत जोर से
अतिद्वय	विशेषण	कन्नड, मलयालम	दो स बढ़कर, अद्वितीय,
अतिद्वय		हिंदी, संस्कृत	अनुत्तरीय, अनुपम, जिसके समान दूसरा न हो
अतिदोष	संज्ञा	हिंदी	बहुत बड़ा दोष या अपराध
अतिधन्वा (त्रु)	संज्ञा	मलयालम	1 अद्वितीय तीरंदाज, धनुधारी, अद्वितीय योद्धा
अतिधन्वन्		संस्कृत	2 वह जो मरु भूमि का अतिक्रमणकर गया हो
अतिधन्वा		हिंदी, कन्नड	3 एक वैदिक आचार्य

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिधर्म	विशेषण	गुजराती	1 अतिशय धर्म, कर्म काण्ड का अधपालन 2 धर्मोन्लसण, धर्म के विपरीत कार्य
अतिधृति	सत्ता	हिंदी, तेलुगु, संस्कृत	1 उन्नीस मख्या 2 19 अक्षरों के छद
अतिधृति		मलयालम, कन्नड + 3	अति धैर्यवान् (तेलुगु)
अतिधेनु	विशेषण	हिंदी	जो स्थान अपनी गायों के लिए प्रसिद्ध हो
अतिध्वनि	सत्ता	कन्नड	दहाड़ चिन्लाण्ट, वीण
अतिनय	सत्ता	कन्नड	बहुत उदारता, मज्जन्ना, श्रेष्ठता
अतिनाठ	सत्ता	हिंदी, गुजराती	सर्कीण गग का एक भद्र
अतिनाष्ट्र	विशेषण	हिंदी	खतरे से बाहर, जायिम म हाग
अतिनिद्र	विशेषण	बंगला, मराठी, मलया	1 अधिक् निद्राल, माने वाला मुग्ध, भालगी
अतिनिद्र	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	+ 2 निद्रा विजयी, निन्द्रा जागरणशील (बंगला, संस्कृत)
अतिनिद्रं	अव्यय सत्ता	मलयालम	+ 3 सोने के समय से परे (मलयालम)
अतिनिन्दे	सत्ता	कन्नड	बहुत बदनामी अपवाद या अपयश
अतिनिमिष	विशेषण	बंगला	1 मलक विधीन 2 जिमने निमिष का अतिक्रान्त कर लिया
अतिनिरहारी	विशेषण	मलयालम	1 अत्याक्रयक
अति-निर-हरिन्		संस्कृत	2 बहुत दूर तक फैला हुआ
अतिनिर्मित	सत्ता	मलयालम	गहरी जड़, दृढ़ता से गठित
अतिनिर्बात	सत्ता	हिंदी	आधान वस्तुमें वायु विलकूल न रहना (हाईवेस्पुम)
अतिनिश्चय	सत्ता	कन्नड	दृढ़ता सक्कर, अत्यंत प्रतिज्ञा
अतिनिष्ठुर	सत्ता	कन्नड	निर्दय, भयकर, गोर कण्टदायक
अतिनीच	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	बहुत आशा, निम्न काल का
अतिनीचम्	सत्ता	तमिल	1 ज्योतिष ग्रह की नीच अवस्था जिममें वह
अतिनीचं	सत्ता	मलयालम	अतिनिम्नपद होता है
अतिनीचन्	सत्ता	मलयालम	+ 2 अशक जानि के वरुण का हस्तिनी स्त्री से मन्वष (तमिल)
अतिनीचरतं	सत्ता	मलयालम	अत्यधिक विगर्धी काम मन्वष जैसे हस्तिनी अशक
अतिनील	सत्ता	बंगला, कन्नड	गहरी नीला रंग, अति नील वर्ण
अतिनु (नौ)	विशेषण	मलयालम, संस्कृत,	1 नदी या समुद्र तट पर उतरा हुआ
अतिनु (नौ)		हिंदी, कन्नड	2 नाव से जमीन पर उतरा हुआ
अतिनुवु		तेलुगु	3 नाव से पार हो चुका

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिपक्षति	संज्ञा	मलयालम	एक माह का बच्चा
अतिपंचा	संज्ञा	मलयालम, हिंदी, संस्कृत	पांच वर्ष से अधिक की बालिका
अतिपक्व	संज्ञा	कन्नड	अधिक उबाला, सेका या पकाया हुआ
अतिपक्वान्न	संज्ञा	कन्नड	पैदे में जल गये चावल
अतिपटीक्षेप	संज्ञा	हिंदी	पर्दे का न उठाया जाना (नाटक)
अतिपतन	संज्ञा	हिंदी	1. निर्दिष्ट सीमा से आगे जाना, अतिक्रमण
अतिपतन		बंगला	2. कर्त्तव्य का अनादर, अकर्त्तव्य में आस्था
अतिपतनं		मलयालम	3. चूक, उपेक्षा, उल्लंघन
अतिपतन		कन्नड, संस्कृत	4. क्षति या हानि 5. गलती से छूट जाना
अतिपत्ति	संज्ञा	हिंदी, गुजराती	1. ममयावधि समाप्त हो जाना, अतिक्रम
अतिपत्ति		बंगला, संस्कृत	+ 2. अनिष्टापत्ति, अमीमांसा (बंगला)
अतिपत्ति		मलयालम	3. असंपादन, अमिद्धि, असफलता, उपेक्षा
अतिपतित	विशेषण	हिंदी	1. अतिक्रान्त, सीमा से बाहर गया हुआ 2. भूला हुआ
अतिपत्र (त्रं)	संज्ञा	हिंदी, मलयालम, कन्नड	महागनी, सागौन, हस्तिकंद आदि वृक्ष
अतिपथमु	संज्ञा	तेलुगु	1. मन्मार्ग, उत्तम मार्ग, राज मार्ग
अतिपथि		कन्नड	2. साधारण में अधिक अच्छी सड़क
अतिपथी		हिंदी	3. असाधारण उत्तम मार्ग
अतिपन्था (बु)		मलयालम	
अतिपद	विशेषण	मलयालम, हिंदी	+ 1. पद विहीन (मलयालम, हिंदी)
अतिपद		संस्कृत	2. वह छंद जिसमें एक चरण अधिक हो
अतिपदि	संज्ञा	तमिल	अधिपति, मानिक, नेता (तमिल)
अतिपन्म	भूत कृदन्त	हिंदी	1. बीता, भूला, छूटा हुआ
अतिपन्म	विशेषण	मलयालम	2. अतिक्रान्त, अतिक्रमण
अतिपर	विशेषण	हिंदी, बंगला	1. जिसने शत्रुओं को पराजित किया हो
अधिपर	संज्ञा	तमिल	2. शत्रुओं से बढ़ा चढ़ा, श्रेष्ठ शत्रु, परमशत्रु
अतिपरन्	संज्ञा	मलयालम	+ 3. बिलकुल पराया या अलग हो गया (बंगला)
अतिपर		संस्कृत	+ 4. अध्यक्ष, अधिपन का आदरवाची (तमिल)
अतिपरिचय	संज्ञा	गुज, मरा, कन्न, संस	अत्यधिक घनिष्टता, गेल-मिलाप, मित्रता
अतिपरिचयावबझा		मराठी	अधिक आना-जाना रखने से अनादर

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिपरिचर्या	सभा	कन्नड	अत्यन्त सेवा भक्ति श्रद्धा से सेवा
अतिपरुष	विशेषण	मलयालम	1 बहुत कठोर 2 खूबदग पालिश रहित
अतिपरोक्ष	विशेषण	हिंदी, बंगला	1 दृष्टि से परे, दृष्ट्ये बहिष्कृत, दूर उपस्थित
अतिपरोक्ष		मलयालम	2 जो समझा या माफ न देखा जा सके
अतिपाउ	सभा	मराठी	बहुत अधिक मूल्य बड़ी मीमा या मर्यादा
अतिपात	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 गुजर जाना, नष्ट हो जाना लोप हो जाना, समय गीत जाना काल व्यतीत होना
अतिपात		गुजराती	
अतिपात		मराठी	2 अतिक्रमण अलक्षण विगंध विघ्न दृश्यवशा
अतिपात		असमी	दृश्ययोग 3 दर्शना परित होना 4 कर्त्तव्य व
अतिपात		बंगला	प्रति अन्याय उपेक्षा अकृत्य
अतिपात		कन्नड	+ 5 भयङ्कर पाप (कन्नड)+ 6 अतिपात (गुजराती
अतिपातं		मलयालम	+ 7 संग्राम में अधिक अतिरिक्त (असमी)
अतिपातमु		तेलुगु	+ 8 अत्यवस्था गुन्ध्या द्वारा अन्तान्ता (हिंदी)
अतिपातक	संज्ञा	हिंदी, मराठी	1 अतिपातक मतवाली पायाग से अत्यवस्था पाप (हिंदी)
अतिपातक		गुजराती, बंगला	या तीन बलपाप (संस्कृत)
अतिपातक		नेपाली, असमी	2 महापाप घृण्य पाप
अतिपातक		संस्कृत	3 पुंस्य जी पुत्री पुंस्य माना से स्त्री
अतिपातकं		मलयालम	पिता श्वसुर पुत्र से अगम कर य तीन गुण
अतिपातकम्		तमिल	पाप (अंगला)
अतिपातकी	संज्ञा	बंगला	संस्कृत पापाचार्य मन्त्रापी
अतिपातित	विशेषण	हिंदी	1 पूर्ण रूप से नाडा हुआ स्थगित किया हुआ
अतिपातितं	संज्ञा	मलयालम	2 हठी विलकूल टूट जाना
अतिपातिन्	विशेषण	हिंदी, बंगला	1 अपेक्षाकृत वेगवान अतिक्रमणकारी
अतिपाती		हिंदी, बंगला	2 गति में आगे बढ़ जाने वाला (मगाम में)
अतिपातिन्		संस्कृत	3 भूल करने वाला 4 तीव्र (गौग)
अतिपात्य	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1 स्थगित करने योग्य उपसर्गीय
अतिपात्य		संस्कृत	2 विलम्ब से, कुछ देर बाद करने लायक
अतिपाप	संज्ञा	कन्नड	बहुत बुरा कार्य, महापाप

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिपावन	विशेषण	हिंदी	शुद्ध प्रकृति, देवता पुरुष, अत्यधिक पवित्र, शुद्ध.
अतिपावन आत्मा	संज्ञा	कन्नड	पापहीन मानव
अतिपिच्छल	विशेषण	मलयालम	बहुत फिसलने वाला
अतिपिल्लै	संज्ञा	तमिल	प्रधानभार्या, महिषी, पट्ट महिषी
अतिपीड़न	संज्ञा	कन्नड	1. अगामान्य दवाव, बल प्रयोग 2. बलात्कार
अतिपुरुष	संज्ञा	हिंदी	1. प्रथम श्रेणी का पुरुष, उत्तम पुरुष
अतिपुरुषन्		मलयालम	2. नायक, वीर पुरुष
अतिपेदाश	संज्ञा	गुजराती	अधिक पैदाइश, अत्यधिक उत्पादन
अतिपृक्ति	संज्ञा	बंगला	मिश्रित नगल पदार्थ में किसी एक पदार्थ का द्रव अधिक होना अतिमत्तृत्ति (सुपरसैचुरेशन)
अतिप्रकाश	विशेषण	हिंदी	बहुत मशहूर, कुख्यात
अतिप्रकृत	विशेषण	हिंदी	1. प्रकृत या सामान्य से बहुत बढ़ा हुआ
अतिप्रकृत		बंगला	2. अग्राभाविक, अति यथार्थ
अतिप्रच्छन्न	संज्ञा	कन्नड	अत्यन्त गुप्त, गूह्य
अतिप्रजता	संज्ञा	बंगला	अति जनसंख्या (ओवर पापुलेशन)
अतिप्रजन		हिंदी, बंगला	जनसंख्या बाहुल्य, सामान्य से अधिक प्रजा
अतिप्रतिज्ञा	संज्ञा	गुजराती	मर्यादा से बाहर, अघटित प्रतिज्ञा
अतिप्रबंध	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	बिलकुल लगा होना, निरवगिच्छन्नता, अजस्रता
अतिप्रभंजन	संज्ञा	हिंदी	अत्यन्त प्रचंड, तीव्र वायु, भयंकर आधी
अतिप्रवृत्ति		बंगला	बहुत आग्रह, आगक्ति, प्रवर्तन
अतिप्रवृद्ध	विशेषण	मलयालम, हिंदी	अधिक बढ़ा हुआ, उद्धत, अहंकारी
अतिप्रश्न	संज्ञा	हिंदी	1. अनुचित, असम्बद्ध, अमर्यादित प्रश्न
अतिप्रश्न		संस्कृत	2. विज्ञान या उद्रेक पैदा करने वाला प्रश्न
अतिप्रश्न		गुजराती	+ 3. समुचित उत्तर मिलने पर भी व्यर्थ प्रश्न (हिंदी)
अतिप्रश्नं		मलयालम	+ 4. तर्क की दृष्टि से विचारा अंतिम प्रश्न (गुजराती)
अतिप्रमाण	संज्ञा	बंगला	विराटकाय, विश्वरूप, बहुत परिमाणवाला
अतिप्रसक्त	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1. अत्यन्त आसक्त, व्यसनी
अतिप्रसक्ति	संज्ञा	मलयालम, हिंदी	2. प्रगाढ़ प्रेम, घनिष्ठ संबंध या संसर्ग

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिव्यक्त अतिप्रवृत्त		बंगला, कन्नड संस्कृत	3. अतिव्याप्ति, अधिक प्रसार, अनुदिष्ट वस्तु में लक्षण व्याप्ति नियम का अधिक विस्तार + 4. धृष्टता, उद्वृष्टता, अत्यधिक आलोचना (बंगला)
अतिप्रसंग अतिप्रसंगं अतिप्रसङ्गम्	संज्ञा	हिंदी, गुज, बंग, कन्नड मलयालम, संस्कृत तमिल	1. घनिष्टता, प्रगाढ़ प्रेम, अतिभोग + 2. शब्दाडम्बर पूर्णता, धृष्टता (मलयालम) 3. विषयान्तर कथन, असंगत, अमम्बद्ध बात करना
अतिप्रसंगी अतिप्रसंगी अतिप्रसंगि	विशेषण	गुजराती मराठी कन्नड	1. प्रगाढ़ प्रेमी, अति प्रसंग करने वाला 2. ज्यादाती, अमर्यादा, छेड़छाड़, धृष्टता, अनर्थ + 3. अप्रस्तुत, अप्रासंगिक, असंबद्ध भाषण (मराठी)
अतिप्रसरं	संज्ञा	मलयालम	1. अतिशयता 2. बहुत प्रभाव 3. बहुत आगे बढ़ना
अतिप्राकृत अतिप्राकृतिक	विशेषण	गुजराती, बंगला गुजराती	1. प्रकृति के पार 2. अप्राकृतिक 3. अनैसर्गिक, अन्वाभाविक, असाधारण
अतिप्रीड अतिप्रीड	विशेषण	मलयालम संस्कृत, हिंदी	1. विकसित, वयस्क 2. अत्यंत अहंकारी 3. आडंबरी, शान शौकत युक्त
अतिप्रीडा अतिप्रीडे	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत, हिंदी कन्नड	सयानी, विवाह योग्य कन्या, जो अब युवती हो गयी है, विवाह की आयु से अधिक की कन्या
अतिबंधन	संज्ञा	कन्नड	पूरा बंधन, नजर बंदी
अतिबंधु	संज्ञा	मलयालम	अनुकूल स्थान पर स्थित बंधुग्रह (ज्योतिष)
अतिबद्ध	विशेषण	बंगला	सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, अत्यन्त वृहत, कठिनतम
अतिबद्ध	विशेषण	मराठी	कृपण, धन-लिप्सायुक्त, अधिक बंधा हुआ
अतिबल अतिबल अतिबलं/बलन् अतिबलु अतिबली अतिबलशाली	विशेषण विशेषण संज्ञा	हिंदी, गुज, संस, नेपाली बंगला, कन्नड, तेलुगु, मलया मलयालम तेलुगु मराठी तेलुगु	1. अत्यंत बलवान, शक्तिशाली, वीर समर्थ योद्धा, महा-पराक्रमी, योद्धा जो अनेकों से अकेले लड़ सके, महाबली, जबर्दस्त ताकत वाला 2. शक्तिशाली सैन्य बल, अतिरिक्त सेना, प्रबल सैन्य शक्ति, बहुत ज्यादा फौज + 3. काल की अपार शक्ति (नेपाली)
अतिबला अतिबला अतिबला अतिबली	संज्ञा	मलयालम, नेपाली संस्कृत, बंगला गुजराती, हिंदी तमिल	1. वह अस्त्र विद्या या मंत्र शक्ति जो विश्वामित्र ने राम को सिखाई थी + 2. जिससे प्यास दूर होती व बल बढ़ता हो (तमिल) 3. एक औषध, पीतबला, मालकांगनी, शीतपुष्पी

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिबलं	सज्ञा	मलयालम	मृगा, प्रवाल
अतिबहुल	सज्ञा	कन्नड	विशाल, विपूल, प्रचुर
अतिबाल/बाला	विशेषण	हिंदी, कन्नड, संस्कृत	1 शिशु, बच्चों जमा, अयाना, बुद्धिहीन
अतिबालक	सज्ञा	हिंदी	2 दो साल की गाय, दान्यपन, लडकपन
अतिबालकन्/बाल	सज्ञा	मलयालम	3 बहुत छोटी कन्या कन्या जिसका बचपन बीन चुम्ब द्वे
अतिबाहु	सज्ञा	मलयालम	1 चौदहवें मनुष्य में मान ऋषियों में एक 2 एक गधर्व का नाम
अतिबुद्धि	सज्ञा	मलयालम	1 मेधावी 2 चालाक, धूर्त
अतिबृहत्फलं	सज्ञा	मलयालम	कटहल, कटहल का पेड़
अतिब्रह्मचर्यन्	सज्ञा	मलयालम	1 पन्चीस वर्ष बाद भी ब्रह्मचारी रहे, सदा ब्रह्मचारी
अतिब्रह्मचर्य	विशेषण	संस्कृत, हिंदी	2 जिसने ब्रह्मचर्य ब्रत तोड़ डाला हो
अतिभक्त	सज्ञा	कन्नड	गहन अनुगामी, तप्यर, अनुकृत
अतिभक्ति	सज्ञा	बंगला, कन्नड	1 अतिशय भक्ति 2 कपट भक्ति
अतिभक्तक	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	बहुत अधिक खाने वाला, पेट
अतिभंगं	सज्ञा	मलयालम	कई स्थान पर झुका झुका हुआ शरीर, त्रिभंगी
अतिभर	सज्ञा, विशेष	संस्कृत, मराठी	1 अन्य भाग, बोझ 2 खन्धर, गधा
अतिभरं	सज्ञा	मलयालम	+ 3 विपुलता (मराठी)
अतिभव	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 वृद्धि 2 पराजय, हार
अतिभवं	सज्ञा	मलयालम	3 बढ़ जाना, पराजित करना
अतिभार(ग)	सज्ञा	संस्कृत, हिंदी	1 बहुत बोझा खाने वाला पशु, खन्धर, गधा
अतिभारं/भारगं	सज्ञा	मलयालम	2 जिसका शक्ति में अधिक भार लेकर चलना पड़े
अतिभार	सज्ञा	हिंदी, बंगला	1 गुरु उत्तरदायित्व, भारी जिम्मेदारी
अतिभार	सज्ञा	संस्कृत	2 अर्थ की दृष्टि में वाक्य की अस्पष्टता; गति
अतिभाषिणी	विशेषण	गुजराती	बहुत अधिक बोलने वाली स्त्री
अतिभी	सज्ञा	मलयालम	1 चरमावस्था 2 उत्कर्ष, उत्तमता
अतिभी	सज्ञा	संस्कृत	3 ग्याति 4 विस्तृत भूखंड
अतिभी	सज्ञा	हिंदी	5 कड़कडाती बिजली, इद्र के वज्र की चमक
अतिभीकर	सज्ञा	कन्नड	भीषण रूप, भयकर रूप धारण करना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिभुज अतिभू	सज्ञा विशेषण	बंगला हिंदी	त्रिभुज में समकोण के सागने की रेखा मबसे बढा हुआ (विष्णु)
अतिभूमि अतिभूमि अतिभूमि	सज्ञा	हिंदी तेलुगु संस्कृत	1 आधिक्य, प्राचुर्य, श्रेष्ठता, अत्युच्च स्थान पर चढ़न 2 अधिक बल या विस्तृत भूमि 3 मर्यादा भंग, सीमा का अनिक्रमण (अव्यय)
अतिभोक्ता/भोक्तृ अतिभोजनी/भोजी अतिभोजन	सज्ञा	बंगला, संस्कृत बंगला हिंदी	1 मात्रा से अधिक खाने वाला 2 भोजन भट्ट, पेदू अधिक खाना, पेदूपन
अतिभोग	सज्ञा	हिंदी	नियत समय के उपरान्त भी किसी वस्तु, विचार या सम्पत्ति का उपभोग करना
अतिभौतिक अतिभौतिकशास्त्र	विशेषण सज्ञा	मलयालम, गुजराती गुजराती	सामाजिक नहीं, आध्यात्मिक (मार्किजिकल) आध्यात्म शास्त्र
अतिमंगल्य अतिमंगल्य	विशेषण सज्ञा	मलयालम संस्कृत, हिंदी	1 अति शूभकारी, कल्याणकारी, मंगलकारी 2 बिल्व वृक्ष 2 शिव
अतिमण्डलं अतिमत्त	सज्ञा सज्ञा	मलयालम हिंदी	जगली छोटी खजूर वह मत जो सभी को मादर मान्य हा(dogma)
अतिमति अतिमति	सज्ञा	हिंदी, मलयालम कन्नड, संस्कृत	1 औद्धत्य, क्रोध, हठ, उद्दण्डता 2 अभिमान, गर्व, चिडचिडापन, अहकार
अतिमधुर अतिमधुरं अतिमधुरम् अदिमधुरम्	विशेषण सज्ञा सज्ञा	कन्नड, मलयालम मलयालम तेलुगु तमिल	1 बहुत मीठा 2 अन्यत मोहक, सुखद, सुन्दर, आकर्षक 3 मूँठी की जड
अतिमनुष्य/मानुष अतिमानव	सज्ञा	हिंदी, बंगला हिंदी, संस्कृत	1 मानव शक्ति, में अधिक बढा चढा 2 अलौकिक शक्ति सम्पन्न
अतिमन्थं अतिमन्थारि/थारिन्	सज्ञा सज्ञा	मलयालम मलयालम, संस्कृत	अधिमन्थ, लकड़ी गड कर अग्नि उत्पन्न करन एक अलकार
अतिमर्त्य अतिमर्त्य	विशेषण	मलयालम, संस्कृत हिंदी, कन्नड	1 अतिमानवीय, दैविक, अलौकिक, पारलौकिक 2 अवतारी, मानवशक्ति से परे, अमानुषिक

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिभर्याव/वा	सन्ता	मलयालम	1 अत्यंत चिन्मृता
अतिभर्यावा		कन्नड	2 सीमातीत निरसीम
अतिभर्श	स.ता	हिंदी	समीची सम्पन्न नजदीकी नाना अधिक सपर्क
अतिमा	सन्ता	हिंदी	1 चरम सीमा पर पट्टी प्रवस्था गुण भाव
अतिमा		संस्कृत	2 आध्यात्मिक चैत्र में आदर सौख्य लक्षणर अवस्था
अतिमांस	विशेषण	हिंदी	1 मामल स्थूल माटा
अतिमाभिसम्	सन्ता	तमिल	2 अधिक मामल अग यथा जघा
अतिमांसं	स.ता	मलयालम	+ 3 भाग या समुद्र का ऊपर (तमिल)
अतिमात्र	विशेषण	हिंदी, बंगला, कन्नड, मलया	1 उचित में अधिक पर्याप्त में अधिक
अतिमात्रमु		तेलुगु	2 मात्रा में अधिक (ओपर्य), प्रतिशय
अतिमात्रं	क्रिया विशेषण	मलयालम	3 मत्रादा में अधिक अत्यधिक मात्रा में
अतिमात्र	क्रिया विशेषण	मराठी	4 निर्धारित मात्रा में बढ़ाकर
अतिमात्रा		बंगला	
अतिमानं	स.ता	मलयालम	1 अनिगव अत्याधिक शान्मश्लाघा विस्तृत यश
अतिमान		मराठी, हिंदी	2 अनिचित अभिमान गव दप या शान्तगीरव
अतिमान		बंगला	3 अतिजा बहद बशमार अतिरक्तपरिमाण
अतिमानमु		तेलुगु	+ 4 सीमा में उल्लघन (तेलुगु)
अतिमानस	विशेषण	बंगला	मन में अतीत धारण में बहिभूत मन का अतिक्रान्त करना हुआ
अतिमानि	सन्ता	मलयालम	दूरभिमानी आन्माभिमानी
अतिमानुष(मानव)	विशेषण	हिंदी, गुज, मरा, बंग, मलया	1 मानव सामर्थ्य या शक्ति में पर अति मानवीय
अतिमानुषम्	सन्ता	तमिल	2 अलौकिक लोकातीत अलौकिक पुरुष
अतिमानुषी	विशेषण	हिंदी, गुज, मरा, बंग	3 मानविक शक्ति में अतिक्रान्त करने वाला
अतिमानुषिक		बंगला	4 सुपर ह्यूमैन
अतिमाय	विशेषण	मलयालम, बंगला	1 मायानीत विषयवासना रहित
अतिमाय		कन्नड, हिंदी, संस्कृत	2 मोक्ष प्राप्त, मुक्त वीतराग, विरक्त
अतिमावर्कम्	सन्ता	तमिल	1 अतिमार्ग शैवागम का एक संप्रदाय शैवमाधन.

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिमाविकर्कशास्त्रम्		तमिल	से गहरा संबद्ध पथ नहीं एक शैवग्रंथ जिसमे पाशुपत, कर्पालिक, मातृत् तीनो रघुदायों का वर्णन है अपरिमित, वे हिमाव, जो मागा न गया हो
अतिमित	विशेषण	हिंदी, बंगला	
अतिमित्र	सत्ता	हिंदी, बंगला	1 घनिष्ट मित्र
अतिमित्रं		मलयालम	2 शुभ ग्रह, जन्म से नौवी राशि
अतिमित्तिरन्	सत्ता	तमिल	+ 3 प्रति (तमिल)
अतिमिभिर	विशेषण	हिंदी	शीघ्रता में पलके गिगने वाला
अतिमुक्त	विशेषण	हिंदी, मराठी, नेपाली	1 वीतराग, नि मग, बधन शून्य, जीवन मुक्त
अतिमुक्त		कन्नड, बंगला	2 मोक्ष या निर्वाण प्राप्त + दासता मुक्त (कन्नड)
अतिमुक्तन्	सत्ता	मलयालम	+ 3 वध्या, बाझ, ऊसर, निर्बीज (कन्नड, मराठी, मरा)
अतिमुक्तमु		तेलुगु	+ 4 मुक्ताओं, मोतियों में श्रेष्ठ + 5 बद्धव चद्दव (कन्नड)
अतिमुक्तक	सत्ता	हिंदी, बंगला, मराठी	1 माधवी लता, तिमिश, तिद्रक, ताल, आवनूस का वृक्ष, गुजा, चिगमिटी
अतिमुक्तक		कन्नड, संस्कृत	
अतिमुक्तकमु		तेलुगु	2 मरुआ, मोगरा, चमेनी, जूही
अतिमुक्तकं		मलयालम	3 जगल के सामान्य सुन्दर सुगन्धित फूल पौध
अतिमुक्तकम्		तमिल	+ 4 जगल का मुख (तमिल)
अतिमुख्य	सत्ता	कन्नड	सर्वोत्तम उदात्त
अतिमुक्ति	सत्ता	कन्नड, मलयालम, संस्कृत	परम मोक्ष, आवागमन से छुटकारा
अतिमुणि	सत्ता	तमिल	कुण्ड वाले को खेत की मिचौड़ी का किगया
अतिमुदितं	सत्ता	मलयालम	16 मात्रा चार चरण का एक छंद
अतिमुद	सत्ता	कन्नड	अमीम प्रसन्नता, अपार आनन्द
अतिमुखल	सत्ता	हिंदी	व्यातिष में एक वक्र योग जिसमें मंगल एक नक्षत्र में अस्त होकर 17 वें 18 वें नक्षत्र में अनुवक्र होता है।
अतिमूत्र	सत्ता	हिंदी, नेपाली, कन्नड	बहुमूत्र रोग, मीठा पेशाब
अतिमूर्ख	विशेषण	कन्नड	वज्रमूर्ख, मूढ
अतिमृत्यु	सत्ता	हिंदी, बंगला, मलयालम	1 मृत्यु रहित, मोक्ष, मरणातीत + 2. महामारी (हिंदी)
अतिमोक्षं	सत्ता	मलयालम	अंतिम मोक्ष
अतिमोक्षा	सत्ता	मलयालम	1 ये देवा से आरम्भ मात्र 2 एक थड़ का नाम

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिमोष	विशेषण	मलयालम	विलकूल फल रहित वृक्ष
अतिमोवा	सजा	हिंदी, मराठी	1 सुगंध की अधिक मात्रा, अतिशय सुवासित
अतिमोवा		संस्कृत, मलयालम	2 नव मल्लिका, जुही
अतिमोह	विशेषण	कन्नड	1 अत्यधिक लालसा, इच्छा
अतिमोहं	सजा	मलयालम	+ 2 मायाजाल, भ्रम (कन्नड)
अतिमौन	सजा	कन्नड	नि शब्दता, नीरवता
अतियन्	सजा	मलयालम	1 अत्यधिक ख्याति 2 धान की एक किस्म
अतियव/अतियवं	सजा	हिंदी, मलयालम	एक प्रकार का जौ
अतिधात	विशेषण	मलयालम	1 गुजरा हुआ, गत, भूत 2 अति वेगवान
अतियापनं	सजा	मलयालम	अतिरिक्त समय तक टहरना
अतियुद्ध	सजा	कन्नड	भयकर लड़ाई, महाभारत
अतियोग	सजा	गुजराती	+ 1 आपस में किसी द्रव्य को नियत मात्रा में अधिक
अतियोग	सजा	हिंदी	मिलाना (हिंदी) 2 अतिशयना, रत्न पेल
अतियोग		बंगला	+ 3 वैद्यक में काया कल्प औषधि (मलयालम)
अतियोगं		मलयालम	+ 4 चन्द्र, बुध, गुरु, शुक चार कल्याणकारी ग्रहों में
अतियोग		संस्कृत	एक या अधिक का जन्म लग्न में शुभ स्थान पर
अतियोगम्		तमिल	गना (तमिल) + 5 अतिशय प्रतिबद्धता (मलयालम)
अतिरञ्जक	विशेषण	नेपाली	1 बहुत तारीफ करने वाला
अतिरञ्जक		बंगला, मलयालम	2 बड़ा चढ़ा कर कहने वाला
अतिरञ्जक		उड़िया	3 प्रसन्न करने वाला, खुशामदी
अतिरञ्जन	उड़िया, बंगला, नेपाली	हिंदी	1 अत्युक्ति, बड़ा चढ़ा कर वर्णन करना
अतिरंजन		हिंदी	2 अतिशयोक्ति, सत्य में अधिक वर्णन
अतिरंजनम्		तेलुगु	3 चापलसी, खुशामद
अतिरंजित	भूत कृदत	हिंदी, बंगला	1 अतिप्रशंसा, जिमकी खूब प्रशंसा की गई हो
अतिरंजित		नेपाली	+ 2 सत्य की उपेक्षा कर अतिरिक्त रूप में वर्णित (बंगला)
अतिरक्त	विशेषण	बंगला, मलयालम	1 बहुत लाल 2 बहुत प्रिय
अतिरक्त		कन्नड	+ 3 अत्यंत अनुरक्त (बंगला)
अतिरक्ता	सजा	मलयालम, कन्नड, हिंदी	अग्नि की सात जिह्वाओं में से एक

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिरणि(न्)	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	अधिक युद्ध प्रिय व्यक्ति
अतिरथ/रथी	सज्ञा	हिंदी, गुज, मरा, असमी	1 अकेले अनेको से लडने वाला, रथारूढ योद्धा,
अतिरथ		कन्नड, बंगला, संस्कृत	बहुत बडा वीर योद्धा
अतिरथुडु		तेलुगु	2 अनुपम, श्रेष्ठ योद्धा, पराक्रमी, शूर
अतिरथि		मलयालम	3 जयातीत वीर
अतिरवन्		तमिल	+ 4 पुरातन चार प्रकार के रथारूढ योद्धाओ मे एक (तमिल)
अतिरथिन्		संस्कृत	5 ऐसा योद्धा जिसका कोई प्रतिद्वन्दी न हो
अतिरभसं	सज्ञा	मलयालम	1 तीव्र वेग, असाधारण गति
अतिरभस		हिंदी, संस्कृत	2 जल्दवाज़ी, हठ जिद
अतिरसं	सज्ञा	मलयालम	1 चावल के आटे का बना मीठा केक, अदरमा
अतिरसम्		तमिल	+ 2 अति उष्ण, अति तीव्र (मराठी) 3 अच्यन्न मधुरना
अतिरस		मराठी	4 नमक+5 भाव पूर्ण कविता या नाटक (तमिल)
अतिरसमु		तेलुगु	+ 6 फल या वनस्पति का अर्क, निचोड (तमिल)
अतिरसिक	सज्ञा	कन्नड	काव्यानन्द भोक्ता, सहृदय पाठक
अतिरागा	विशेषण	मराठी	अत्रिक्रोधी (अतिगगा भीकमागा)
अतिराग	सज्ञा	कन्नड	अतिभ्रम या आमक्ति
अतिरागता	सज्ञा	कन्नड	1 बहुत लाभ 2 उत्कठा
अतिराजा	सज्ञा	मलयालम	1 असाधारण राजा, उनम राजा, महागजा, सम्राट
अतिराजन्	सज्ञा	तमिल, मलयालम, संस	2 राजा से भी आगे बढ़ जाने वाला, राजा को
अतिराज	सज्ञा	कन्नड	अतिक्रमित करने वाला
अतिरात्र	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 आधी रात 2 जो रातभर किया जाय
अतिरात्रं(त्र)	सज्ञा, विशेष	मलयालम	3 जो यज्ञ एक ही रात में किया जाय
अतिरात्रिम्		तमिल	4 मान यज्ञो मे से एक, ज्योतिष्टोमयज्ञ का ऐच्छिक या वैकल्पिक भाग 5 इस यज्ञ से संबद्ध एक मंत्र
अतिरात्तिरियाजी	सज्ञा	तमिल	अतिरात्रयाजी, विद्वान ब्राह्मणों की पदवी
अतिरिक्त	विशेषण	हिंदी, गुज, नेपा, मरा	1 प्रयोजन या नियत परिमाण से अधिक
अतिरिक्त	अव्यय	असमी, उड़िया, बंगला	2 सिवाय, अलावा, फाज़िल (अव्यय)(एक्सीप्ट)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिरिक्त	विशेषण	कन्नड, मलयालम, संस	3 खाली, खोखला, शून्य, अवशेष (एडीशनल)
अतिरिक्तम्	सज्ञा	तमिल	4 पृथक, दूसरा, व्यतिरिक्त (एक्सेस)
अतिरिक्तम्		तेलुगु	5 भिन्न, अद्वितीय, श्रेष्ठ
अतिरिक्त पत्र	सज्ञा	हिंदी	गमाचार पत्र का क्रोडपत्र, परिशिष्ट, मलग्नपत्र,
अतिरिक्तपत्र		नेपाली	विज्ञापन, सूचना आदि (सप्लीमेन्ट)
अतिरिक्तलाभ	सज्ञा	हिंदी	साधारण, उचित या आगत से अधिक लाभ
अतिरिक्ताङ्क	सज्ञा	नेपाली	पत्र पत्रिका का सामान्य से अलग अंक (सप्लीमेन्ट्री)
अतिरिक्तांग	सज्ञा	मलयालम	शरीर का कोई अधिक अंग यथा छटी उगनी
अतिरिच्यमान	विशेषण	मलयालम	अत्यधिक उत्कृष्ट, परमात्कृष्ट
अतिरुक्कु	सज्ञा	मलयालम	1 अति सुन्दर स्त्री
अतिरुक	सज्ञा	संस्कृत	+ 2 अधिक पीड़ा, दर्द (मलयालम)
अतिरुच	सज्ञा	संस्कृत	1 घटना, टखना
अतिरुच		कन्नड	+ 2 सुन्दर स्त्री (कन्नड)
अतिरुचिरं	विशेषण	मलयालम	अन्याकर्षक, मनोह
अतिरुचिरा	सज्ञा	हिंदी, मलयालम	बाह्य मात्रा का एक छंद
अतिरुद्रं	सज्ञा	मलयालम	साठ या तिरामीवे जन्मदिन पर शिवपूजा
अतिरुषित	विशेषण	मलयालम	अतिक्रोधित, बहुत गुस्से से भरा
अतिरुक्ष	विशेषण	मलयालम, हिंदी	1 रूखा, कठोर, प्रेमहीन 2 बहुत स्नेहील
अतिरूढ	सज्ञा	कन्नड	1 अति उत्थित, अतिज्ञात, प्राय लोकप्रिय 2 काव्य के तीन गुणों में एक—प्रसाद गुण
अतिरूप	विशेषण	हिंदी, बंगला, मलयालम	1 आकृति आकार रहित, अमूर्त (यथा वायु)
अतिरूपन्	सज्ञा	मलयालम	2 अत्यन्त सुन्दर, रूप को अनिक्रान्त करने वाला
अतिरूपता	सज्ञा	मलयालम	3 रूप से परे (परमेश्वर)
अतिरेक	सज्ञा	हिंदी, गुजराती	1 अनिश्चयता, सर्वश्रेष्ठता, सर्वोत्कृष्टता, प्रमुखता,
अतिरेक		नेपाली, मराठी	बहुत मरम, +व्यर्थ की अधिकता (हिंदी)
अतिरेक		उड़िया, बंगला	2 विपुलता, पराकाष्ठा, अर्थाधिकता, अर्धकाई
अतिरेक		कन्नड, संस्कृत	3 इष्ट या विशिष्ट का अतिक्रमण 4 अंतर, भेद
अतिरेकं		मलयालम	5 प्रसिद्धि, उद्यता, गभीरता, विकटता का आधिक्य

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिरेकम् (गम्)	संज्ञा	तमिल	+ 6. प्रबल लालसा (तेलुगु)
अतिरेकमु		तेलुगु	7 फाज़िल + 8. बड़प्पन (तमिल)
अतिरेकी	संज्ञा	बंगला	अतिरिक्त, अतिक्रामक, प्रधान
अतिरेषक	विशेषण	मलयालम	अत्यंत शोधनशील, बहुत दस्तावर
अतिरोग	संज्ञा	हिंदी, मराठी, तेलुगु	1 राज्यक्षमा, क्षय रोग, असाध्य रोग
अतिरोगम्		तमिल, कन्नड	2. प्राणहानि कारक रोग
अतिरोगं		मलयालम	3. शरीर क्षय कारक रोग
अतिरोमश्	विशेषण	हिंदी, गुजराती, बंगला	1 बहुत बालों वाला, अतिशय रोम युक्त
अतिरोमशं	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	2. जगली बकरा 3. बंदर की एक जाति
अतिरौद्र	संज्ञा	कन्नड	बहुत भयंकर या डरावना
अतिसंधन	संज्ञा	हिंदी, बंगला, संस्कृत	1 अत्यधिक या दीर्घ उपवास
अतिसंधनं	संज्ञा	मलयालम	2 उल्लघन, अतिक्रमण (सीमा या मर्यादा का)
अतिसंधि	संज्ञा	मलयालम	1 अतिक्रमणकारी, सीमोल्लघनकर्ता
अतिसंधिन्		संस्कृत	2 दोषी, अपराधी, नियम भगकर्ता
अतिसंधी	विशेषण	हिंदी	3 'भूल या गलती करने वाला, अतिलघनकर्ता
अतिसंधि	संज्ञा	मलयालम	शतकम्प, मौफ का पौधा या मौफ के दाने
अतिलाभ	संज्ञा	बंगला	अस्वाभाविक या परिमाण में अधिक लाभ
अतिलोक	विशेषण	मलयालम	अस्वाभाविक, अलौकिक, असाधारण
अतिलोभ	संज्ञा	बंगला	प्रबल लोभ या लालसा
अतिसोधि	संज्ञा	कन्नड	बड़ा लालची
अतिसोमश्		संस्कृत, हिंदी	1 अतिरोमश, बहुत बालों वाला
अतिसोमशं	संज्ञा	मलयालम	2 जगली बकरा, पशुमिने का बकरा
अतिसोमश्/सोभी		बंगला	3 बड़े बालों वाला एक बंदर, याक
अतिसौम्य	संज्ञा	हिंदी	तीव्र इच्छा, उत्कठा, लालसा, लालच
अतिव	संज्ञा	तेलुगु	1 वनिता, स्त्री 2 बड़े मुंह वाला
अतिवक्ता	विशेषण	हिंदी	1 बातूनी, बहुत बोलने वाला
अतिवक्त्रु		संस्कृत, कन्नड	2 अनावश्यक बोलने रहने वाला
अतिवक्त्रु (वु)	संज्ञा	मलयालम	3. बकवादी, व्यर्थ बोलने वाला

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिवक्र	विशेषण	संस्कृत, मलयालम	1 टेढ़ा-मेढ़ा, अत्यधिक वक्र
अतिवक्रन्	संज्ञा	मलयालम	2 मंगल आदि वक्री ग्रह
अतिवक्रा	संज्ञा	हिंदी	3 ग्रहों की एक तरह की चाल (बुध ग्रह की)
अतिबधनं	संज्ञा	मलयालम	1 ऊचा बोलना
अतिबधन		संस्कृत	2 अनुचित बोलना
अतिवर्णाश्रमि	संज्ञा	मलयालम	1 जो चारों वर्णों व आश्रमों के नियमों में परे हो
अतिवर्णाश्रमिन्		संस्कृत	2 वेदान्त महावाक्य के श्रवण मात्र से आत्मा को
अतिवर्णाधिश्मि		तमिल	ईश्वर समझने वाला 3 पचाश्रमी (संस)
अतिवयस्	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	बहुत वृद्ध, सत्तर अस्सी में ऊपर आयु
अतिवयस्क	विशेषण	मराठी	विद्योपार्जन, ज्ञान आदि में अपनी आयु में अधिक कुट्टिमान
अतिवर्तन	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 क्षम्य अपराध, क्षमा करने योग्य
अतिवर्तनं	संज्ञा	मलयालम	2 क्षुद्र अपराध, दण्ड में मुक्ति
अतिवर्तन		बंगला	+ 3 अतिक्रमण, उल्लंघन, अनिवाहन (बंगला)
अतिवर्तनीय	विशेषण	बंगला	उल्लंघनीय, उपेक्षणीय, अतिक्रमणीय
अतिवर्तित	भूत कृदन्त	बंगला	1 अतिक्रान्त, लभित, निरस्कृत 2 अविवाहित
अतिवर्ती		बंगला, हिंदी	1 अति पार करने वाला, सबसे आगे बढ़ा हुआ
अतिवर्ति (न्)		कन्नड, संस्कृत	+ 2 अतिक्रमणकारी, उल्लंघनकारी, अवज्ञाकारी (बंगला)
अतिवर्तुल	विशेषण	मलयालम, हिंदी	विलकूल गोल, चूड़ी या छल्ले की तरह
अतिवर्तुलं	संज्ञा	मलयालम	1 एक प्रकार का जंगली चना
अतिवर्तुल	संज्ञा	हिंदी	2 एक अन्न, कलाय 3. बहुत गोल (विशेषण)
अतिवर्ष	संज्ञा	मलयालम	अतिवृष्टि, आवश्यकता से अधिक पानी बरसना, अनावृष्टि का विपरीत शब्द
अतिवसुभान	संज्ञा	मलयालम	1 अतिधनाढ्य 2 एक सोभाग्यपूर्ण योग (ज्योतिष)
अतिवाक्य	संज्ञा	कन्नड	1 निन्दा, दूषण 2 असाधारण भाषण
अतिवाक्यकं	संज्ञा	मलयालम	अत्यधिक ऊची बात, अनुचित बात
अतिवातं	संज्ञा	मलयालम	1 तूफान, मगुद्री तूफान
अतिवात		संस्कृत, हिंदी, बंगला	2 झंझावात, आंधी, चण्डवात, महावात, वेगपूर्ण वायु

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिवाद	सत्ता	हिंदी, गुजराती	1 कूपाध्य गाली, भर्सना, अगमानजनक बात.
अतिवाद		मराठी	निंदा कवची बात कठोरवचन, अपशब्द
अतिवाद		कन्नड	2 तर्क की चरमसीमा तक वादविवाद, वितण्डावाद
अतिवाद		बंगला	3 डींग हाकना अतिरजना अत्युक्ति बढ़ा चढ़ाकर
अतिवाद		संस्कृत	कहना औचित्य की सीमा से बढ़ने का सिद्धान्त
अतिबावं		मलयालम	+ 4 मन्वी बात खरी बात (तेलुगु)
अतिवादम्		तमिल	5 अज्ञान अगम्य तर्क, कुतर्क व्यर्थ की बकवाद
अतिवादमु		तेलुगु	+ 6 मान में प्राण प्रतिष्ठा के लिए मार्गभ्रम अनुष्ठान (नाम)
अतिवादिक	विजाग्रण	हिंदी	1 शान्ती बड़बाला खरी कहने वाला
अतिवादि	विजाग्रण	मलयालम	2 आगे का खटन कर अपना मन भादने वाला
अतिवादिन्		संस्कृत	मध्य सीमा से अलग करने वाला (extremist)
अतिवादी		गुज, मरा, हिंदी, बंग	3 अतिरजनकारी अत्युक्तिकारी क्रमारी
अतिवासं	मत्ता	मलयालम, तेलुगु	1 शब्द में पहल का अग्रगम
अतिवास		हिंदी, कन्नड	2 श्राद्ध की वार्षिक रीति में पहल दिन का अग्रगम
अतिवासम्		तमिल	+ 3 वह दिन जब पितृतपोषण के पक्ष में भाजन त्याग
अतिवासमु		तेलुगु	क्रिया जाना है (कन्नड)
अतिवासर		कन्नड	
अतिवाह	मत्ता	हिंदी, मराठी	1 नदी या राध का अतिरजत पानी निकालने की नली
अतिवाह		बंगला	+ 2 पण्य समारंति पर मुक्षम शरीर का दहनान्तरण
अतिवाह		संस्कृत	3 अत्यधिक मत्तन समय विताना स्थानांतरण
अतिवाहं		मलयालम	+ 4 सम्पादन (बंगला) + 5 उठा ले जाना (मराठी)
अतिवाहकन्	मत्ता	मलयालम	वह आत्मा या देवता जो मुक्षम शरीर का दहनान्तर
अतिवाहक		हिंदी, संस्कृत	ग ले जाए मुक्षम शरीर की दहनान्तर प्राति में मत्तय
अतिवाहनं	मत्ता	मलयालम	1 भारी वाहन 2 अतिथग 3 भजन
अतिवाहन		हिंदी, मरा, बंग, संस	4 समय व्यतीत करना कालयापन 5 पर्यटन
अतिवाहिक	मत्ता	हिंदी	1 लिंग शरीर या मुक्षम शरीर
अतिवाहिक		मलयालम	2 एक शरीर में दूसरे तक ले जाना
अतिवाहिक		कन्नड	3 वायु में तीव्र 4 पालाल लोकबासी
अतिवाहिक		संस्कृत	+ 5 अति पीड़ा भोगना, नरक में पड़ी आत्मा (कन्नड)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिबाहित अतिबाहितं	भूत कृदन्त संज्ञा	हिंदी, बंगला, मलया, संस मलयालम	1. व्यतीत किया हुआ, अतीत, यापित (समय) 2. ले जाया गया मृक्षम शरीर
अतिबाहितन्	संज्ञा	मलयालम	अधोलोकवासी आत्मा, नरक भोगी व्यक्ति
अतिविकट अतिविकटन्	विशेषण संज्ञा	बंगला, हिंदी, संस्कृत मलयालम	1. भयकर, धूर्त, दुर्धर्ष, अतिशयविकट, शरारती + 2. दुष्ट हाथी (मलयालम, संस्कृत)
अतिविनयम् अतिविक्रत	संज्ञा संज्ञा	तमिल कन्नड	अत्यन्त नम्रता 1. बहुत ताना या फेलाया हुआ 2. पूर्ण मिद्ध, प्रशंसित
अतिविष/श अतिविषा/शा अतिविषम्/विडम्	विशेषण संज्ञा संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी मलयालम, बंगला, तेलुगु तमिल	1. बहुत जहरीला पौधा 2. अनीस नामक औषधि 3. विषनाशिनी, औषधि में प्रयुक्त एक जड़ी
अतिविस्तर अतिवृंहित	संज्ञा विशेषण	हिंदी, संस्कृत हिंदी, संस्कृत	अत्यन्त विस्तार, व्यापकता, दीर्घसूत्रता, प्रपंच पुष्ट या मशक्त किया हुआ
अतिवृत्त अतिविरुत्तम्	विशेषण संज्ञा	बंगला तमिल	1. अतिक्रान्त, उद्वृत्त 2. उल्लंघन, अतिक्रमण
अतिवृत्ति अतिवृत्ति अतिवृत्ति अतिवृत्ति	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत मलयालम बंगला कन्नड	1. अतिक्रमण, हद में बढ़ जाना 2. तेजी से रक्त निकलना 3. अतिरंजना, अतिशयोक्ति 4. उल्लंघन 5. अधिक वृत्ति या जीविका
अतिवृद्ध अतिवृद्ध	विशेषण संज्ञा	बंगला हिंदी	1. बहुत बूढ़ा 2. अत्यंत उन्नत 3. जो बहुत बढ़ गया हो 4. एक तंत्रोक्त मंत्र (संज्ञा)
अतिवृद्धा अतिवृद्धि	संज्ञा संज्ञा	हिंदी बंगला	बहुत बूढ़ी गाय या स्त्री अत्यधिक वृद्धि, उन्नति, आधिक्य
अतिवृष्टि अतिवृष्टि अतिवृष्टि अतिवृष्टि अतिवृष्टि	संज्ञा	हिंदी संस्कृत गुजराती, बंगला नेपाली मराठी, कन्नड मलयालम	1. आवश्यकता से अधिक वर्षा 2. फ़सल को नुकसान देह बारिश 3. मूसलाधार या हानिकारक वर्षा 4. छः प्रकार की फसल संबंधी, आपत्तियों या ईतियों में से एक यथा, अनावृष्टि, टिड्डियों का हमला,

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिविरुष्टि (हि) अतिवर्णु		तमिल तेलुगु	चूहों का उपद्रव, तोतों का उपद्रव, राजाओं की चढ़ाई तथा अतिवृष्टि
अतिवृष्टि	विशेषण	उड़िया	व्यतीत, बीता हुआ, अतीत
अतिवेग अतिवेगित	संज्ञा विशेषण	कन्नड हिंदी	तीव्र, वेगयुक्त, शीघ्रगामी जोर से चलाया गया, तेजी से चलने वाला
अतिवेष अतिवेषं	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत मलयालम	1. निकट संपर्क, अत्यन्त मेल 2. दशमी-एकादशी संयोग या सपर्क
अतिवेत्त अतिवेत्त अतिवेत्तु	विशेषण	हिंदी, बंगला, कन्नड मलयालम, संस्कृत तेलुगु	1. अत्यधिक, असीम, अपार 2. मर्यादा अतिक्रमी, उद्वेलित किनारे से भी ऊंचा उठ 4. समुद्र तटीय भूमि का सीमातिक्रमण
अतिवेत्तम् अतिवेत्त अतिवैदिक अतिव्यग्र अतिव्यक्त	अव्यय संज्ञा विशेषण विशेषण	संस्कृत हिंदी, बंगला, कन्नड गुजराती बंगला कन्नड	बे-ममय, अन-ऋतु, बे-मौसम से अतिकाल, अबेर, समय का अतिक्रम वेदकाल से पहला, वैदिक से पुरातनु बहुत अधीर, व्याकुल या व्यस्त प्रत्यक्ष, पृथक विशेष, अत्यंत स्पष्ट
अतिव्यथा अतिव्यथन	संज्ञा	हिंदी, मलयालम संस्कृत, हिंदी	1. तीव्र वेदना, अतिशय यातना 2. सहनशक्ति से अधिक कष्ट, असह्य यंत्रणा
अतिव्यथ	संज्ञा	बंगला, मराठी, हिंदी	फाज़िल खर्च, अमित व्यय, अतिरिक्तव्यय
अतिव्यथी अतिव्यथी	विशेषण विशेषण	बंगला, मराठी हिंदी	अमित व्यथी, फ़िज़ूल खर्च करने वाला उड़ाऊ, धन बर्बाद करने वाला
अतिव्यापि अतिव्यापि अतिव्यापि अतिव्यापि अतिव्यापि अतिव्यापि अतिव्यापि अतिव्यापि	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत गुजराती नेपाली मराठी बंगला कन्नड मलयालम तमिल	1. किसी नियम या सिद्धान्त का अतिशय विस्तार 2. लक्षण में लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य वस्तु का समावेश 3. जो लक्ष्य नहीं उसका समावेश 4. अतिशय व्यापन, अलक्ष में लक्षण गमन 5. मर्यादा उल्लंघन, नियम बाह्यता 6. अतिव्यापि, अव्यापि, असंभव इन तीन दोषों में एक

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिव्यायाम अतिव्यायामं	संज्ञा	संस्कृत मलयालम	1. अतिरिक्त व्यायाम या थकान 2. ज़रूरत में ज्यादा कसरत करना
अतिशङ्कौ	संज्ञा	तमिल	अतिशंका, व्यर्थ मदेह, फ़िजूल शुबहा
अतिशक्त अतिशक्तं अतिशक्तन्	विशेषण संज्ञा संज्ञा	संस्कृत, कन्नड, मलया मलयालम मलयालम (व्यक्ति)	1. अत्यधिक पराक्रमी, सीमातीत पराक्रम 2. बहुत ताकतवर, अतिबलवान 3. असीम शक्ति, ताकत, वीरता
अतिशत्रु	संज्ञा	मलयालम	ज्योतिष में दुष्ट ग्रह
अतिशय अतिशय अतिशय अतिशयं अतिशयम् अतिशयमु अतिशयुदु अतिशयन्	विशेषण संज्ञा संज्ञा संज्ञा संज्ञा संज्ञा संज्ञा	हिंदी, गुजराती, कन्नड असमी, उड़िया, बंगला नेपाली, मराठी, मलया मलयालम तमिल तेलुगु तेलुगु तमिल, मलयालम	1. अतिरिक्त अधिकता, विपुलता, प्रचुरता, बहुत ज्यादा उत्तमता, यथेष्टता 2. गुण, सख्या, परिमाण का उल्लंघन 3. अनर्थ (मराठी) ; आवश्यकता से अधिक 4. एक अर्थालकार 5. प्रसिद्धि, चमत्कार (मलयालम) आश्चर्य (तमिल) 6. आश्चर्यजनक उत्तमता (तेलुगु) 7. अर्हत के तीन विशेष गुण (तमिल)
अतिशयगुण	संज्ञा	कन्नड	सर्वोत्तमगुण. खूबियों से भरा हुआ
अतिशयनं अतिशयन	संज्ञा	मलयालम हिंदी, संस्कृत	उत्तमता, श्रेष्ठता अधिकता, प्राचुर्य
अतिशयता अतिशयिता (त)	संज्ञा	हिंदी, गुजराती नेपाली, बंगला	बहुत अधिकता, पुष्कलता परम प्राचुर्य, बाहुल्य, अति श्री
अतिशयनी	संज्ञा	हिंदी	एक वर्ण वृत्त या छंद
अतिशयिंचु अतिशयसु अतिशयित्सु	अकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया तमिल	तेलुगु कन्नड तमिल	अति करना, सीमा लांघना श्रेष्ठ हो जाना, बनाना या विस्मित होना विरमय करना
अतिशयतर	विशेषण	कन्नड	असाधारण श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर
अतिशयी अतिशयि अतिशयिन्	विशेषण	हिंदी, बंगला मलयालम, तमिल संस्कृत	1. प्रधान, श्रेष्ठ, मुख्य, प्रसिद्ध, अति उत्तम 2. प्रचुर, अत्यधिक, बड़ा; वर्धित, अतिरिक्त 3. आश्चर्य करना, चमत्कृत होना (तमिल)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिशयनीय	विशेषण	मलयालम	1 आश्चर्य जनक, चमत्कारपूर्ण 2 अतिक्रमणीय
अतिशयासु	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1. अत्युत्तम की ओर प्रवृत्ति, झुकाव
अतिशयित्सु		तेलुगु	2 बढ़ जाने की प्रवृत्ति (बहुवचन)
अतिशयित	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1 आगे बढ़ा हुआ 2 बहुत अधिक, प्रचुर
अतिशयोक्ति	सज्ञा	मलया, कन्न, गुज, नेपा	1 एक अलंकार, अत्युक्ति, अतिरजना
अतिशयोक्ति		हिंदी, बंग, उड़ि, मरा	2 बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहना
अतिशयोक्ति		तमिल	3 (हाइपरबोल)
अतिशबरूपे	क्रिया विशेषण	असमी	सीमा से परे, बहुत ज्यादाती
अतिशयोपमा	सज्ञा	हिंदी, कन्नड	एक काव्यालंकार
अतिशब्दकरी	सज्ञा	हिंदी	एक प्रकार के वर्ण वृत्त जिनमें 15 वर्ण हो
अतिशयित	विशेषण	मराठी, बंगला, हिंदी	1 अतिनिद्रित 2 अतिशयनिद्रालीन
अतिशङ्कना	सज्ञा	मराठी	1 शाहीपन दिखाने वाला, घमडी, मूर्ख 2 बहुत चालाक, होशियार 3 अव्यवहारिक
अतिशायन	सज्ञा	संस्कृत, हिंदी, बंगला	1 श्रेष्ठता, उत्तमता, अधिक होना, बँट जाना
अतिशायनं		मलयालम	2 तुलनात्मक विशेषता
अतिशायि	विशेषण	मलयालम, तेलुगु	1 आगे बढ़ जाने वाला, विकासशील, अतिक्रमणकारी
अतिशायी		हिंदी, बंगला	2 अत्यधिक, श्रेष्ठ, चरमोत्कर्ष, सर्वोच्च, सर्वोत्कृष्ट
अतिशायिन्	सज्ञा	तमिल, संस्कृत	+ 3 असामान्य, विचित्र, चमत्कार पूर्ण (तेलुगु)
अतिशिष्टं	सज्ञा	मलयालम	अवशिष्ट, अपशिष्ट, झूठन, फालतू, बचा हुआ
अतिशिष्ट		संस्कृत	शेष, जो काम न हुआ हो
अतिशीक्करम्	क्रिया विशेषण	तमिल	जल्दी से, शीघ्रता से, तत्काल
अतिशीतन	सज्ञा	हिंदी	आवश्यकता से अधिक ठंडा करना (ओवरकूलिंग)
अतिशीतम्	सज्ञा	तमिल	एक नरक का नाम
अतिशीतन	सज्ञा	हिंदी	अभ्यास करना, बार-बार दुहराना
अतिशुद्ध	सज्ञा	कन्नड	पूर्णतया पवित्र
अतिशुद्ध	सज्ञा	हिंदी, गुज, मरा, कन्न	अंत्यज, चांडाल, हरिजन, अछूत
अतिशूरन	सज्ञा	तमिल	महाबली

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिशेर्षं अतिशेष	संज्ञा	मलयालम हिंदी, संस्कृत	1. बचा हुआ अंश, बहुत कम बचा हुआ + 2. स्वल्प शेष (हिंदी), सामान्य अवशेष
अतिशोभन अतिशोबनै अतिशोभना	विशेषण संज्ञा संज्ञा	कन्नड तमिल मलयालम	1. बहुत सुंदर, देदीप्यमान, कान्तियुक्त + 2. पार्वती (तमिल, मलयालम)
अतिश्रान्त अतिश्रुत अतश्रेयसि अतिश्रेष्ठ	विशेषण विशेषण संज्ञा विशेषण	बंगला मलयालम मलयालम, संस्कृत हिंदी	बहुत थका हुआ, परिश्रान्त बहुत प्रसिद्ध, लोक विश्रुत वह पुरुष जो सर्वोत्तम स्त्री से श्रेष्ठ हो श्रेष्ठतम, सर्वोत्कृष्ट, परमोत्तम
अतिश्व अतिश्वन् अतिश्व्वा (वु)	विशेषण संज्ञा संज्ञा	मलयालम, संस, कन्न संस्कृत मलयालम, संस्कृत	1. कुत्ते से बढ़कर या निकृष्ट 2. दासता, सेवा 3. अतिउत्तम कुत्ता, बढ़िया नस्ल का कुत्ता 4. वह कुत्ता जो अनोखे काम करता हो
अतिष्ठ अतिष्ठ अतिष्ठन्	संज्ञा विशेषण संज्ञा	मलयालम उड़िया, बंगला मलयालम	1. श्रेष्ठता, अग्राधिकार, पूर्ववर्तिता 2. जो बढ़कर हो, श्रेष्ठ हो + अधीर (उड़ि, बंग) + 3. परमेश्वर, परिवर्तन लाने वाला (मलयालम)
अतिसक्ति अतिसंचयमु अतिसंध	संज्ञा संज्ञा विशेषण	मलयालम, संस्कृत तेलुगु हिंदी, तेलुगु	बहुत प्रेम, घनिष्टता, आसक्ति, अनुराग बहुत धन सम्पत्ति एकत्र करना वचन, प्रतिज्ञा, आज्ञा भंग करने वाला
अतिसंधान अतिसन्धानं अतिसंधान अतिसन्धानम् अतिसंधान	संज्ञा संज्ञा संज्ञा संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली मलयालम तेलुगु, कन्नड तमिल बंगला, संस्कृत	1. धोखा, छल-कपट. ठगी, वंचना, झूठ 2. अतिक्रमण + 3. घोषणा (बंगला) + 4. विश्वासघात, जालसाजी (तेलुगु) + 5. जहां संधान करना हो उससे भी आगे वार या आघात करना (ओवर हिटिंग) (हिंदी)
अतिसंरक्षक	विशेषण	गुजराती	बहुत ऊंची स्थिति युक्त
अतिसंधि अतिसंधि	संज्ञा	हिंदी मलयालम	1. विजेता को शक्ति से अधिक सहायता देने की प्रतिज्ञा 2. धोखा
अतिसंधित	विशेषण	हिंदी	छला गया, वंचित, अतिक्रांत

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिसंध्या अतिसंध्या	संज्ञा	हिंदी, बंगला मलयालम, संस्कृत	सूर्योदय से पूर्व या सूर्यास्त के पश्चात का कुछ समय, अत्यासत्रा संध्या, प्रदोषकाल
अतिसंस्कृत	विशेषण	कन्नड	अत्युत्तम, श्रेष्ठ, परिष्कृत
अतिसभ्य	विशेषण	कन्नड	विनम्र, शिष्ट, शरीफ
अतिसम्पन्न	विशेषण	मलयालम	धनाढ्य या समृद्ध व्यक्ति, रईस
अतिसर अतिसरं	विशेषण संज्ञा	हिंदी, संस्कृत, मलया मलयालम	1. अपनी गति से तेज़ चलने वाला, सबसे आगे 2. नेता, अग्रसर 3. प्रयत्न, प्रयास (संज्ञा)
अतिसर्ग अतिसर्ग अतिसर्ग अतिसर्ग अतिसर्ग	संज्ञा संज्ञा विशेषण	हिंदी मलयालम संस्कृत बंगला मराठी	1. पृथक करना, विसर्जन, उत्सर्ग, त्याग, मुक्त, पदच्युत करना, वियोग, निरोप + 2. चिरस्थायी, नित्य, अनुग्रह, दान (मराठी) 3. अनुमति, इजाजत, जाने की आज्ञा देना 4. वापिस देना/लेना 5. इच्छापूर्वकरण, पुनःस्थापितकरण
अग्नेसर्जनं अतिसर्जन अतिसर्जनमु	संज्ञा	मलयालम हिंदी, कन्नड, संस, बंगला तेलुगु	1. दान, उदारता, वदान्यता 2. मुक्ति, छुटकारा, वियोग, विसर्जन, उत्सर्ग 3. धोखा 4. वध, हत्या + 5. त्याग (तेलुगु)
अतिसर्पण अतिसर्पण अतिसर्पण	संज्ञा विशेषण	हिंदी बंगला संस्कृत	1. छाती के बल लुढ़ककर, फिसलकर चलना 2. गर्भस्थ भ्रूण का संचलन, सरकना + 3. तीव्र गति, तेज़ी से चलना (हिंदी)
अतिसर्बन् अतिसर्ब	संज्ञा संज्ञा	मलयालम हिंदी, संस्कृत	1. सर्वोपरि, अतिश्रेष्ठता, सबसे ऊपर 2. ईश्वर, परब्रह्म, परमात्मा
अतिसंतापनं अतिसंतापन	संज्ञा संज्ञा	मलयालम संस्कृत, हिंदी	1. प्रायश्चित रूप में किया जाने वाला कठिन व्रत 2. स्वतः कष्ट उठाना, स्वयं को कष्ट देना
अतिसांग अतिसांस्तर अतिसांद्र अतिसागरिक अतिसामान्य	विशेषण विशेषण विशेषण संज्ञा विशेषण	कन्नड हिंदी, मलयालम कन्नड बंगला हिंदी	बिलकुल समाप्त, पूर्णतया निःशेष एक वर्ष से अधिक टिकने या चलने वाला बहुत लसलसा, चिपचिपा, गाढ़ा या ठोस 1. सागर के पार स्थित 2. सागर अतिक्रमकारी 1. अत्यंत साधारण, मामूली 2. वह उक्ति जो उद्दिष्ट अर्थ से कुछ बढ़-चढ़कर हो (न्याय)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिसाय्या	संज्ञा	मसयासम, हिंदी	1. मुलेठी का पीधा 2. मजीठ का मीठ रस
अतिसारचम्पि	संज्ञा	तमिल	मियादी बुखार
अतिसार	विशेषण	मसयासम	1. अत्यंत अर्धपूर्ण 2. अत्यावश्यक 3. अतिबलशाली, अत्युत्तम, मनोहर
अतिसारं	संज्ञा	मसयासम	1. तरल पदार्थ का निस्सरन, उदरामय
अतिसार		उड़िया, कन्नड, बंगला	2. दस्तों या आँव की बीमारी, संग्रहणी
अतिसार		नेपा, मराठी, हिंदी, गुज +	3. परिशोधन (मलयालम)
अतिसारम्		तमिल	4. विरुद्ध आहार-विहार से हुआ अपच रोग
अतिसारम्		तेलुगु	5. मल बढ़ने से उदराग्नि मंद होने का रोग
अतिसारम्		तिंबी	6. ग्रहों की तीव्र गति, मुलेठी (तमिल)
अतिसारपेवि		तमिल	7. दस्तों का रोग
अतिसारक	विशेषण	बंगला	विरेचक, मलनिस्सारक, दस्त लाने वाला
अतिसारकि	संज्ञा	तेलुगु, मसया, कन्नड	1. अतिसार का रोगी
अतिसारी		मराठी, हिंदी	2. पेट पीड़ा युक्त, अतिसार रोग ग्रस्त
अतिसारकिन्		संस्कृत, मसयासम	3. पेशिश के रोग वाला
अतिसारित	भूत कृदंत	बंगला	चालित, प्रसारित, स्थानान्तरित
अतिसुख	संज्ञा	कन्नड	परमानन्द
अतिसुरत	संज्ञा	कन्नड	अत्यन्त विषम भोग
अतिसुरसुम् (म)	विशेषण	मसयासम, संस्कृत	कल्पवृक्ष से भी श्रेष्ठ
अतिसुखम्	विशेषण	मसयासम, कन्नड	1. बहुत बारीक, महीन
अतिसुखकुम्भम्	संज्ञा	तमिल	2. संगीत नाद के पाच भेदों में एक
अतिसुखम्	संज्ञा	मसयासम	3. गौरैया चिड़िया
अतिसुखकुम्भे	संज्ञा	तमिल	1. शिव शक्ति 2. सूक्ष्म देह जिसमें भूत, तन्मात्र, ज्ञानेन्द्रियां,
अतिसुखकुम्भे		संस्कृत	कर्मेन्द्रियां, अन्तःकरण, गुण, मूल प्रकृति, कलाआदि
अतिसुखकुम्भे		तमिल	होते हैं (शैवदर्शन)
अतिसृष्ट	विशेषण	बंगला	व्यक्त, उत्सृष्ट, नियुक्त
अतिसृष्टि	संज्ञा	मसयासम	ऊंची श्रेष्ठ सृष्टि
अतिसुरम्	संज्ञा	मसयासम	1. बहुत सुगंध, बेहद खुशबू
अतिसुरम्		संस्कृत	2. दिमाग को तर कर देने वाली खुशबू

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतिसौरभ	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1. बहुत खुशबू वाला, असाधारण सुगंध
अतिसौरभं	संज्ञा	मलयालम	+ 2 आम का पेड़ (मलयालम)
अतिसौरभम्	संज्ञा	तमिल	+ 3 आम का फल (तमिल)
अतिसौहित्य	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 अत्यन्त तृप्ति 2 कसकर खाना
अतिस्तिम्बिता	संज्ञा	मलयालम	12 मात्रा चार चरण का एक छंद
अतिस्तुति	संज्ञा	गुजराती	बढ़-बढ़ा कर प्रशंसा करना, खुशामद
अतिस्थिर	विशेषण	मलयालम	अत्यधिक दृढ़
अतिस्थूल	विशेषण	हिंदी	1 बहुत मोटा 2. मोटी बुद्धिवाला, अति मूर्ख
अतिस्थौल्यं	संज्ञा	मलयालम	3 मोटापे का रोग, बहुत मोटापन
अतिस्नेह	संज्ञा	मराठी, हिंदी, संस्कृत, कन्नड	गाढी मित्रता, घनिष्टता, बहुत अनुगम, प्यार,
अतिस्नेहं		मलयालम	वात्सल्य, आसक्ति
अतिस्पर्श	संज्ञा	हिंदी,	1 उच्चारण में जीभ से तालु का अल्पस्पर्श
अतिस्पर्श	संज्ञा	मलयालम	2 स्वर तथा य, र, ल, व वर्ण
अतिस्पर्श		संस्कृत	+ 3. कंजूस, कमीना, नीच (हिंदी)
अतिस्वप्न	संज्ञा	हिंदी	1 बहुत नींद 2 बहुत मपने देखने की प्रवृत्ति
अतिस्वल्प	संज्ञा	कन्नड	बहुत थोड़ा, सूक्ष्म, जरा सा
अतिहत	संज्ञा	हिंदी	1 पूर्ण रूप से नष्ट 2. अचल, स्थिर, मजबूत
अतिहास	संज्ञा	कन्नड	1 अट्टहास, खुलकर जोर जोर में हसना
अतिहासम्	संज्ञा	तमिल	2. हंसी के छ. भेदों में से एक
अतिहसित	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	3. एक भाव विशेष जो हंसने में प्रकट हो
अतिहसितमु		तेलुगु	4. स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित
अतिहसितं	संज्ञा	मलयालम	तथा अतिहसित में से अतिम
अतिहायन	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	1 बहुत बढ़ा, अति वृद्ध 2. जीर्ण होना, हास होना
अतीचार	संज्ञा	हिंदी	मर्यादा या सीमा का उल्लंघन, अतिचार
अतीत	संज्ञा ०/विशे०	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	1 बीता समय, भूतकाल, पीछे छोड़ा हुआ, व्यतीत,
अतीत		असमी, उड़िया, बंगला	प्राचीन समय, विस्मृत
अतीत		कन्नड, मलयालम	2 वेगगी, माधु-गन्यासी, विरक्त, मिलेप, पृथक
अतीत		नेपाली, मराठी	3 उत्तम, श्रेष्ठ, माया मोह से रहित

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतीतम् अतीतम्		तेलुगु तमिल	4. मृत, दूर गया, पार गया (वयोतीत, मोहातीत)(मरा) + 5. पहुंच के बाहर, सीमा के बाहर (तमिल)
अतीतना अतीतना	अकर्मकक्रिया संज्ञा	हिंदी हिंदी	1. गुजरना, बीतना 2. व्यतीत करना, विनाना 3. छोड़ना, त्यागना
अतीतकाल अतीतव्यबहार अतीतसंख्या	संज्ञा विशेषण विशेषण	कन्नड मलयालम मलयालम	भूतकाल, जो समय बीत गया, पुरातनकाल लेन-देन के दृष्टिकोण से पुराना असंख्य, संख्यातीत, प्रमाणित
अतीताध्वा (वु) अतीताध्वान	संज्ञा संज्ञा	मलयालम संस्कृत	1. जो लक्ष्य पर पहुंच गया हो 2. रास्ता जो पार किया हो
अतीतावन्ने	संज्ञा	तमिल	अतीतावस्था, आत्मा की पांचवी अवस्था
अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय अतीन्द्रियम्	विशेषण विशेषण विशेषण विशेषण संज्ञा	हिंदी, मराठी गुजराती, नेपाली कन्नड, उड़िया मलयालम तमिल	1. जिसका ज्ञान इंद्रियों से न हो सकता हो 2. अगोचर, अलौकिक, पारलौकिक, इंद्रियातीत 3. आत्मा, प्रकृति (सांख्य) 4. मन (वेदान्त), रहस्यमय, अतिमूक्ष्म 5. अप्रत्यक्ष
अतीन्द्रियज्ञानं अतीन्द्रियज्ञान	संज्ञा संज्ञा	मलयालम मराठी, संस्कृत	1. योग साधना आदि से प्राप्त ज्ञान 2. अलौकिक ज्ञान, जो इंद्रियों से प्राप्त न हो सके
अतीन्द्रियज्ञानी	संज्ञा	मराठी	जिसे अलौकिक ज्ञान प्राप्त हो, आत्मज्ञानी
अतीन्द्रियप्रत्यक्षं अतीन्द्रियप्रत्यक्ष	संज्ञा संज्ञा	मलयालम संस्कृत	योग से प्राप्त प्रत्यक्षता, अलौकिक प्रत्यक्ष, योग साधना द्वारा आत्मदर्शन
अतीन्द्रियन् अतीन्द्रियम् अतीन्द्रिय	संज्ञा संज्ञा संज्ञा	मलयालम तमिल हिंदी, कन्नड	1. जितेन्द्रिय, जो इंद्रियों का गुलाम नहीं 2. सांख्य शास्त्र में पुरुष या आत्मा 3. निष्कामता, अनासक्ति, अलौकिकता
अतीतेयु	विशेषण	मलयालम	पिछले दिन, जो दिन बीत गया
अतीव अतीव	विशेषण क्रिया विशेषण	हिंदी, गुज, नेपा, मरा, संस बंगला, उड़िया, मलया, कन्नड	1. बहुत अधिक, वेहद ज्यादा 2. अत्यन्त, बहुत अधिकता से (क्रिया विशेषण)
अतीवकठोर	विशेषण	कन्नड	अतिकष्टदायक

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अतीव कष्ट	संज्ञा	कन्नड	बहुत पीड़ा या दुःख देना
अतीवशीघ्र	विशेषण	कन्नड	बहुत तीक्ष्ण, तेज़
अतीसार	संज्ञा		देखें:— अतिसार
अत्यंकुश	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1. नियंत्रण में नहीं, बेकाबू, अवश
अत्यंकुश		मलयालम	2. महावत के अंकुश में नहीं (हाथी)
अत्यंत	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. बहुत अधिक, बेहद, अतिशय, सीमातिक्रम
अत्यन्त		असमी, उड़िया, नेपाली	2. अंत रहित, अनन्त
अत्यन्त		कन्नड, बंगला, संस्कृत	3. सदा, निरन्तर, शाश्वत, चिरस्थायी
अत्यन्तं	क्रिया विशेषण	मलयालम	+ 4. असंगत, अनुचित (बंगला), हमेशा के लिए
अतियन्त्रम्		तमिल	+ 5. सम्पूर्ण, नितान्त (संस्कृत), सोलहों आने
अत्यंतमु		तेलुगु	+ 6. अन्त तक, पूर्णतया (तमिल) पूरे तौर से
अत्यंतकोपन	संज्ञा	कन्नड	अतिक्रोधी, तीव्रकामी
अत्यंतग	विशेषण	हिंदी	बहुत तेज चलने वाला या दौड़ने वाला
अत्यन्तगत	क्रिया विशेषण	बंगला	+ 1. जो सदा के लिए चला गया हो (हिंदी, मलयालम)
अत्यन्तगत	विशेषण	मलयालम	2. अंत को प्राप्त, जो लौट कर न आवे
अत्यन्तगत		हिंदी, संस्कृत	3. सम्पूर्ण रूप से प्रासंगिक, सदा प्रयोज्य
अत्यन्तगर्हित	विशेषण	बंगला	1. जिसका परिणाम बुरा हो 2. निन्दनीय
अत्यंतगामी	विशेषण	हिंदी, बंगला	1. अतिशय द्रुतगामी 2. आत्यंतिक
अत्यन्तगामी		कन्नड	+ 3. अंतिम सीमा तक या उससे बाहर जाने वाला (बंगला)
अत्यंतगामिन्		संस्कृत	+ 4. बहुत तेज़ चलने वाला (हिंदी, संस्कृत)
अत्यंतगुणि	संज्ञा	मलयालम	असाधारण गुण युक्त, जिसके गुणों की गणना न की जा सके, परम गुणवान
अत्यंतघन	विशेषण	कन्नड	बहुत स्थूल, बहुत बड़ा, घना
अत्यंतता	संज्ञा	हिंदी, असमी	1. आधिक्य, अधिक परिमाण, प्रबलता 2. उग्रता, उद्दण्डता
अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य	संज्ञा	मलयालम	1. कविता में एक इंगित जिससे प्रकट अर्थपूरी तरह
अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य ध्वनि		हिंदी	अमान्य हो जाय 2. वाच्यार्थ का त्याग
अत्यंत दुःख	संज्ञा	कन्नड	भारी पीड़ा, परेशानी, शोक आदि

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अत्यन्तनिवृत्ति	संज्ञा	मलयालम, हिंदी	1. सम्पूर्ण वैराग्य 2. अस्तित्व की परम शून्यता
अत्यन्त प्रौढ़	संज्ञा	कन्नड	अतिचतुर, निपुण, निष्णात
अत्यंतभाव	संज्ञा	हिंदी	1. ऐसा भाव जो सदा बना रहे
अत्यन्तभाव		मराठी	2. कभी नष्ट न होने वाला अस्तित्व
अत्यन्तवासि	संज्ञा	मलयालम	सदाआचार्य के साथ रहने वाला छात्र, अन्तेवासी,
अत्यन्तवासिन्		संस्कृत	गुरु के घर में रहने वाला, गुरुकुल में रहने वाला
अत्यंतवासी		हिंदी	शिष्य, छात्रावास में रहने वाला
अत्यंतशोणितं	संज्ञा	मलयालम	रक्तवर्ण, गेरुआ
अत्यन्तसंयोग	संज्ञा	बंगला, संस्कृत	1. अति सामीप्य, बहुत ही करीब
अत्यन्तसंयोगं		मलयालम	2. अविच्छेद, पृथकतारहित, घनिष्ट संबंध
अत्यन्तसुकुमारं	संज्ञा	मलयालम	1. एक अनाज या धान्य
अत्यंतसुकुमार	विशेषण	संस्कृत, हिंदी	2. बहुत कोमल शरीर वाला, नाजूक
अत्यंत-स्वजन	संज्ञा	मराठी	अति घनिष्ट मित्र या संबंधी
अत्यंतातिशयोक्ति	संज्ञा	हिंदी	1. अतिशयोक्ति अलंकार का एक भेद
अत्यन्तातिशयोक्ति		नेपाली, मलयालम	2. कारण से पहले कार्य होने का वर्णन
अत्यंतापेक्षित	विशेषण	मलयालम	बहुत ही आवश्यक, अनिवार्य, अटल
अत्यंताभाव	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	1. अस्तित्व की परम शून्यता, बिलकुल न होना
अत्यन्ताभाव		नेपाली, मराठी	2. पूर्ण अभाव (न्याय), नितान्त अभाव
अत्यन्ताभाव(बं)	संज्ञा	बंगला, मलयालम	+ 3. अनहोनापन, असंभवता, नामुमकिन (गुजराती)
अतियन्ताभावम्		तमिल	+ 4. नित्य संसर्गाभाव (बंगला)
अत्यंति	संज्ञा	मलयालम	1. प्रबल इच्छायुक्त व्यक्ति, स्वच्छंद, मनमुख
			2. अपने मन की करने वाला
अत्यंतिक	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1. अति समीपी या पड़ोसी, मिला हुआ
अत्यन्तिक		बंगला, मलयालम	2. बहुत तेज़ चलने वाला, बहुत घूमने वाला
अत्यन्तिक(कं)	संज्ञा, अव्यय	कन्नड, मलया	+ 3. दूर-दूर का (कन्नड), बहुत करीबी (मलयालम)
अत्यन्ती(न)	संज्ञा	मराठी, बंगला, कन्नड	1. अतिश्रय द्रुतगामी या वेगवान, अधिक चलने वाला
अत्यन्तीन	विशेषण	मलयालम, संस, हिंदी +	2. प्रत्यक्ष देखना (मराठी)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अत्यग्नि	विशेषण	हिंदी, कन्नड	1. विकार उत्पादक, तीक्ष्ण पाचन शक्ति, भस्मक रोग
अत्यग्नि	संज्ञा/विशे०	मलयालम	2. जिसका ताप अग्नि से भी अधिक हो
अत्यग्निष्टोमं (म)	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	अग्निष्टोम यज्ञ का ऐचिछक दूसरा भाग
अत्यग्र	विशेषण	मलयालम	1. बिलकुल सामने 2. जिसकी बात मान्य हो
अत्यति	अ-यय	कन्नड	1. अतिशय, विशेष, अधिक
अत्यति	अ-यय	बंगला	2. चरम, परम
अत्यद्बवा (बु)	संज्ञा	मलयालम	लम्बा और थकाने वाला रास्ता
अत्यद्भुत	विशेषण	गुजराती	बहुत अनोखा, आश्चर्यजनक
अतियर्बुवम्	संज्ञा	तमिल	विलक्षण, विचित्र, अपूर्व
अत्यधम	विशेषण	कन्नड	बहुत नीच, क्षुद्र, तुच्छ, निम्न
अत्यधिक	विशेषण	हिंदी, नेपाली, कन्नड, बंग	बहुत ज़्यादा, ढेर सारा, विशिष्ट (एक्सेसिव)
अत्यनुमंद्र	विशेषण	गुजराती	संगीत में अनुमंद्र से ऊपर का मंद्र, नीचे का सप्तक
अत्यनायक	संज्ञा	कन्नड	अतिअनायक, बहुत अराजकता
अत्यम्बुपान	संज्ञा	कन्नड	बहुत पानी पीना
अत्यम्ल	विशेषण	हिंदी, बंगला, नेपाली	1. बहुत खट्टा 2. इमली, बिजौरा नींबू (संज्ञा)
अत्यम्लपर्णी	संज्ञा	नेपाली, बंगला, हिंदी	जिसके पत्ते खट्टे हों ऐसा एक साग
अत्ययं	संज्ञा	मलयालम	1. बीत जाना, निकल जाना, अदर्शन, लोप
अत्यय		हिंदी, गुजराती, मराठी	2. उपसंहार, समाप्ति, अंत, मृत्यु, नाश, अनुपस्थिति
अत्यय		नेपाली, कन्नड	3. अतिक्रमण, दोष, अपराध, बुराई, दण्ड, जुर्माना
अत्यय		संस्कृत	4. अभाव 5. खतरा+6. आक्रमण 7. श्रेणी (संस्कृत)
अत्ययी (यि)	विशेषण	हिंदी, मलयालम	आगे बढ़ जाने वाला, पार जाने वाला
अत्ययित	विशेषण	संस्कृत	1. बढ़ या आगे निकला हुआ 2. उल्लंघन किया हुआ
अत्ययिन्	विशेषण	संस्कृत	3. अत्याचार किया हुआ
अत्यरं	अ-यय	मलयालम	बहुत तेजी से, तीव्रता युक्त
अत्यरकं	संज्ञा	मलयालम	1. मूंगे का पेड़ 2. एक पक्षी
अत्यर्ष(र्ष)	विशेषण	हिंदी, बंगला, कन्नड, मलया	1. अतिशय, पराकाष्ठा, उचित मान से बाहर
अत्यर्ष	अ-यय	मलयालम	+ 2. अर्थ को अतिक्रान्त करने वाला (मंशठी)
अत्यर्थ	क्रिया विशेषण	मराठी, संस्कृत	3. उचित अर्थ या परिणाम से बहुत अधिक

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अत्यत्बिधि अत्यथबिदिनु	संज्ञा	मलयालम संस्कृत	अति संवेदनशील, जिसे दूसरे का कष्ट स्वयं के कष्ट जैसा प्रतीत होता हो, करुणाद्रहृदय
अत्यलपु	संज्ञा	कन्नड	बहुत भारी, बहुत बड़ा
अत्यसंकार	संज्ञा	कन्नड	बहुत सजावट, सुन्दर, अलंकृत वर्णन
अत्यल्प अत्यल्पं अतियर्पम्	अव्यय संज्ञा	गुजराती, बंगला, कन्नड मलयालम तमिल	1. बहुत थोड़ा, छोटा, यत्किंचित 2. थोड़े से भी थोड़ा, परम सूक्ष्म 3. नाम मात्र को
अत्यवसाधि	विशेषण	मलयालम	युद्ध समाप्ति पर जिस संधि में निश्चित रकम देनी पड़े
अत्यवस्था अत्यवस्थे	विशेषण	मराठी कन्नड	1. मरणोन्मुख, आसन्नमरण 2. चिन्ताजनक स्थिति, बहुत अधिक बीमार
अत्यविरल	संज्ञा	कन्नड	अतिसमीप, गठित, बड़ी शक्ति, ठोसपन
अत्यशन	विशेषण	बंगला, मलयालम	बहुत भोजी, पेटू, भोजन भट्ट
अत्यष्टि	संज्ञा	हिंदी, मलयालम, कन्नड, संस	सत्रह मात्रा चार पंक्ति का एक छंद
अत्यसित	विशेषण	कन्नड	बहुत काला, अयश और पाप वर्णन का काव्य रूप
अत्यहन	विशेषण	मलयालम, हिंदी, संस्कृत	स्थिति काल में एक दिन से अधिक
अत्याकार	विशेषण	हिंदी, कन्नड	1. तिग्मकार, घृणा, निन्दा, भर्त्सना, अभिशाप, धिक्कार
अत्याकार	संज्ञा	संस्कृत	2. हृष्ट-पुष्ट, बड़ा डील-डौल, वृहदाकार
अत्याकृष्ट	विशेषण	गुजराती	1. अति आकृष्ट 2. खींचतान कर बैठाया अर्थ
अत्याक्रमणं	संज्ञा	मलयालम	1. भयंकर प्रहार करना 2. अतिक्रमण
अत्याग्रहं	संज्ञा	मलयालम	1. हठ, पराकाष्ठा का आग्रह, अभिनिवेश
अत्याग्रह	संज्ञा	गुजराती, मराठी	2. प्रबल आसक्ति, लोभ, तृष्णा, लोलुपता, स्पृहा लालच
अत्याग्रही	विशेषण	गुजराती, मराठी	जिद्दी, अड़ियल, हठीला, हठी
अत्याचारं	संज्ञा	मलयालम	1. अनैतिक कार्य, दुराचार, अन्याय, जुल्म
अत्याचार		हिंदी, गुजराती	2. धार्मिक या नैतिक आचार का अतिक्रमण
अत्याचार		मराठी, नेपाली, संस्कृत	3. रीति, नीति, प्रथा आदि का उल्लंघन
अत्याचार		असमी, उड़िया	4. अधिकार का दुरुपयोग, बलात्कार, कुकर्म
अतिआचार		पंजाबी	5. किसी के साथ अनुचित, अमानुषिक व्यवहार

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अत्याचार		सिंधी	6. सताने, कष्ट देने का व्यवहार, उत्पीडन
अत्याचार		कन्नड, बंगला	7. पाखंड, उपद्रव, हिंसा, अनर्थ
अत्याचारित	विशेषण	बंगला	उत्पीड़ित, जुल्म का शिकार, पद दलित
अत्याचारि	विशेषण	मलयालम, कन्नड	1. जालिम, निर्दयी, हिंस्र, उत्पीडक, दुराचारी, अन्यायी
अत्याचारिन्		संस्कृत	2. अकारण कष्टदायी, ध्वंसकारी, आततायी
अत्याचारी		हिंदी, गुजराती, नेपाली	3. निर्दोष लोगों को दण्ड देने वाला, कुकर्मी, यातना
अत्याचारी		मराठी, असमी, बंगला, सिंधी	देने वाला, बरबादी फैलाने वाला
अतिआचारी		पंजाबी	4. पाखंडी, (टायरैण्ट), कुचाली, अनाचारी
अत्यादर	सज्ञा	मराठी, कन्नड	विशिष्ट सम्मान, विशेष श्रद्धा, पूज्य भाव से
अत्यादरं		मलयालम	स्वागत-सत्कार करना
अत्यादित्य	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	अपनी चमक से सूर्य की चमक को दबा देने वाला
अत्याधनं	सज्ञा	मलयालम	1. होमाग्नि को सुरक्षित न रखना
अत्याधान		कन्नड, संस्कृत	2. अतिक्रमण 3. धोखा
अत्याधान		हिंदी	4. लादना, ऊपर रखना, फ़र्म में सजाना
अत्यानन्दं	सज्ञा	मलयालम	1. अतिहर्ष, ध्यान से प्राप्त आनन्द का चूडान्त रूप
अत्यानन्द		हिंदी	2. परमानंद, ईश्वर चिंतन से प्राप्त आनंद
अत्यानंदा	सज्ञा	हिंदी	1. अति रतिप्रिया 2. मैथुन से उदासीनता
अत्यानन्दा		संस्कृत	3. वैद्यक के अनुसार योनि का एक भेद या अस्वस्थ
अत्यानन्दा	सज्ञा	मलयालम	अवस्था जो सदा अमन्तुष्ट रहे
अत्यापत्तु	सज्ञा	मलयालम	भारी मुसीबत, विपत्ति, ऐसे कष्ट का समय जो
अत्यापद		संस्कृत	सहिष्णुता से अधिक हो
अत्तापत्ति	सज्ञा	तमिल	अत्याप्ति, अत्यावश्यक
अत्यायं	सज्ञा	मलयालम	1. अतिक्रमण, सीमोल्लंघन, मर्यादाभंग, नियम तोड़ना
अत्याय		हिंदी, संस्कृत	2. आधिक्य, ज्यादाती 3. अत्यधिक लाभ या आय
अत्यायत	विशेषण	बंगला, मलयालम	1. अत्यधिक लंबा 2. अति विस्तृत, प्रशस्त
अत्यायु	सज्ञा	मलयालम	एक यज्ञ पात्र
अत्यारूढ	विशेषण	बंगला, मलयालम	1. बहुत ऊंचा पदप्राप्त 2. बहुत अधिक बढ़ा हुआ

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अत्यारूढ़ (ढं)	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत, (मलया)	3. अतिउन्नत, अभ्युदय, अतिशय वृद्धि प्राप्त
अत्यारूढ़ि	संज्ञा	बंगला, संस्कृत	1. अभ्युदय, अत्युच्चपद पर पहुँचना
अत्यारूढ़ि		हिंदी, मलयालम	2. अत्याधिक उत्कर्ष 3. प्रसिद्धि
अत्यारोह	संज्ञा	बंगला	देखें :- अत्यारूढ़; अतिशय वृद्धिप्राप्त
अत्यार्ति	संज्ञा	मलयालम	1. अत्यधिक मनस्ताप 2. प्रबल इच्छा, उत्सुकता
			3. अत्याहार, भुक्खड़, खाऊ, पेटूपन
अत्याल	संज्ञा	संस्कृत, हिंदी	गन्त चित्रक वृक्ष
अत्यावश्यं	संज्ञा	मलयालम	बहुत जरूरत, घोर आवश्यकता
अतियावश्यकम्	संज्ञा	तमिल	बहुत जरूरी, कार्य साधन के लिये अनिवार्य
अत्यावश्यक	विशेषण	गुजराती, उड़िया	जिसके बिना काम ही न चले
अत्यावस्ती (बस्ती)	संज्ञा	तमिल, मराठी	रोगी की खतरनाक हालत, मरणासन्न अवस्था
अत्यावायं (पं)	संज्ञा	मलयालम	राजद्रोहियों को निकालकर शेष की सशक्त सेना
अत्यावाय		हिंदी, संस्कृत	बनाना; राजद्रोहियों की अधिकता
अत्याशा	संज्ञा	मलयालम	1. देखें:- अत्याग्रह
अत्याशा		संस्कृत, बंगला	2. लालसा, दुराकांक्षा
अत्याशे		कन्नड	3. अपूरणीय या अतिरिक्त आशा
अत्याश्चर्य	संज्ञा	बंगला, कन्नड	बहुत विस्मय, अतिशय अद्भुत, अतिरिक्त आश्चर्य
अत्याश्रमन्	संज्ञा	मलयालम	1. परमहंस, परमोच्च तपस्वी, संन्यासी
अत्याश्रम	संज्ञा	कन्नड, संस्कृत	2. ब्रह्मचर्यादि आश्रम धर्मों का पालन न करने वाला
अत्याश्रमि	संज्ञा	मलयालम	चारों आश्रमों अर्थात् ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा
अत्याश्रमिन्		संस्कृत	वाणप्रस्थ, संन्यास आश्रमों की सीमाओं से पार हो गया
अतियाश्रमन्		तमिल	हो, आश्रम बंधनों से मुक्त, परमोच्च तपस्वी
अत्यास		नेपाली	1. हड़बड़ी, आतुरी, आतुरता, अतिभय
अत्यास		कन्नड	+ 2. उलट-पुलट करना, अध्याधान (कन्नड)
अत्यासंग	संज्ञा	बंगला	अत्यंत अनुराग, घनिष्टता
अत्यासक्त	विशेषण	मलयालम, बंगला	1. अति अनुरक्ति, अतिरिक्त लगाव
अत्यासक्त		मराठी	2. वासना, अभिरुचि, इच्छा रखने वाला 3. लम्पट

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अत्यासक्ति अत्यासक्ति	संज्ञा	गुजराती, मराठी, बंगला मलयालम	1. भारी राग 2. वासना की पराकाष्ठा 3. नितान्त अनुरक्ति 4. अत्यधिक रुचि
अत्यासन्न अत्यासन्न	विशेषण	बंगला, कन्नड मलयालम	1. अति निकटवर्ती 2. मरणासन्न, मृत्यु की समीपी स्थिति
अत्यासुर	संज्ञा	कन्नड	बहुत घमंडी, बड़ा अहंकारी, दम्भी
अत्याहट	संज्ञा	नेपाली	हड़बड़ी, आतुरी, अतिभय, त्रास
अत्याहार	संज्ञा	गुजराती, बंगला	1. अति भोजन + 2. अतिरिक्त खाद्य द्रव्य (बंगला)
अत्याहारी	विशेषण	गुजराती, बंगला	पेटू, अति भोजी, बहुभोजी
अत्याहित अत्याहित अत्याहित अत्याहितं	विशेषण मञ्जा संज्ञा	हिंदी, मराठी बंगला कन्नड, संस्कृत मलयालम	1 महासंकट, दुर्घटना, महाभय, महाभीति, भीषण विपत्ति, खतरा, विपदा + 2 दुस्साहस, सार्वमिक कार्य (कन्नड) 3. अरुचिकर + 4 अमगल, अत्यन्त अशुभ (बंगला)
अतियुक्तम्	संज्ञा	तमिल	अत्युक्ति, बड़ा चढ़ाकर कहना
अत्युक्त अत्युक्त (ता) अत्युक्ते	संज्ञा विशे०, संज्ञा	मलयालम, कन्नड, नेपाली हिंदी कन्नड	1. एक छंद चार पंक्ति दो मात्रा का 2. चार पद, दो खंड के छंद 3. अत्युक्ति, बड़ा-चढ़ाकर कहना
अत्युक्ता	संज्ञा	नेपाली	बढ़ाकर दिया गया बयान, मिथ्या वर्णन
अत्युक्ति अत्युक्ति अत्युक्ति अतियुक्तम्	संज्ञा संज्ञा संज्ञा	हिंदी, गुज, नेपाली, संस असमी, उड़िया, बंगला कन्नड, मलया, तेलुगु तमिल	1. अतिरंजित वाक्य कथन, + व्यर्थ की बातें करना (अस) 2. उक्ति को अतिक्रान्त करके उत्कट कथन 3. असंभव उक्ति 4. अतिशयोक्ति 5. बढ़ा-चढ़ाकर कहना, मुवालगगा
अत्युक्त्वा	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	एक प्रकार के वर्ण वृत्त जिनमें दो वर्ण होते हैं
अत्युग्र अत्युग्रं	विशेषण संज्ञा	हिंदी, कन्नड, मलया मलयालम	1. बहुत उग्र, तेज, विकट 2. बहुत क्रूरता, प्रचंडता + हींग (मलयालम, हिंदी)
अत्युग्रगंधा अत्युग्रभीषणि	संज्ञा संज्ञा	मलयालम मलयालम	1. सफ़ेद जीरे का पौधा, हींग 2. नीलै फूल का पौधा सांप का विषैला दांत
अत्युष्य	विशेषण	बंगला, मलयालम	1. अतिशय उन्नत, ऊंचा

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अत्युच्चं	सज्ञा	मलयालम	2 बहुत अहंकारी
अतियुष्मम्	सज्ञा	तमिल	3 अति नृग ग्रह, उच्चक्षत्री ग्रह, उच्च भाग्य (ज्योतिष)
अत्युच्चरतं	सज्ञा	मलयालम	अश्व पुरुष मृगी स्त्री का सगम (मलयालम)
अत्युद्धित	सज्ञा	मलयालम	बहुत ऊचा, महान
अत्युच्छवास	सज्ञा	बंगला	1 अतिरिक्त उच्छवास, वृद्धि प्रकाप 2 प्रबल भावावेश या वेग
अत्युज्ज्वल	सज्ञा	बंगला	अतिशय ज्यतिर्मय, तेज सम्पन्न, अर्थात् दीप्तिमान, उग्र
अत्युत्कृष्ट	विशेषण	कन्नड	1 अति उत्तम, श्रेष्ठ, बढिया
अत्युत्तम	विशेषण	हिंदी, गुजराती, बंगला	2 बहुत बढिया, अनुपम
अत्युत्तम		मलयालम, कन्नड	3 सर्वोत्कृष्ट, अतिशय उत्कृष्ट या सुन्दर
अत्युत्पादन	सज्ञा	बंगला	योजना में अधिक निर्माण या पैदा
अत्युत्पादन		हिंदी	करण (ओवर प्रोडक्शन)
अत्युत्साह	सज्ञा	गुजराती	बहुत उत्साह, साहसिकता की अधिकता
अत्युद्गारवात	सज्ञा	मराठी, हिंदी	बहुत डकार लाने वाला वात रोग
अत्युन्नत	विशेषण	मलयालम, कन्नड	बहुत ऊचा महान, गौरवप्रद
अत्युपघार	सज्ञा	कन्नड	1 बहुत ही मीठा, नम्र व्यवहार 2 गिश्वात
अत्युपथ	विशेषण	हिंदी, कन्नड	1 विश्वस्त, परिश्रित, आजमाया हुआ
अत्युपथ		मलयालम, संस्कृत	2 छल कपट रहित, प्रशिक्षित, विश्वस्त मंत्री
अत्युष्ण	विशेषण	बंगला, कन्नड, मलया	1 बहुत गर्म, बहुत गर्मी
अत्युष्णं	अन्यय	मलयालम, संस्कृत	2 ग्रीष्म काल की पराकाष्ठा
अत्यूर्ध्वि	विशेषण	बंगला	1 जिसमें बहुत लहरे उठती हो
अत्यूर्ध्वि		संस्कृत	+ 2 रफ़्ताना, उबलना (बायलिंग ओवर) (बंगला)
अत्यूर्ह	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 बहुत तर्क विरक्त, ऊहा पोह, गभीर विचार
अत्यूर्हं		मलयालम	2 जोर जोर से बालने वाला पक्षी मोर, जलकुक्कुट 3 हरमिगार, सेवती
अत्यूर्ह	सज्ञा	मलयालम	नील रंग पोधा
अत्यूर्ह		हिंदी, संस्कृत	नीलिका नामक पौधा

‘अधि’ उपसर्ग की व्याप्ति

‘अधि’ उपसर्ग क्रिया अथवा संज्ञा शब्दों के आदि में लगकर उन के अर्थ में परिवर्तन-परिवर्धन करता जब तक यह ‘अधिक’ अर्थ देता है, तब तक ‘अति’ का पर्यायवाची ही कहा जा सकता है। जब यह ऊपर, अतिरि प्राचुर्य, प्रधान, श्रेष्ठ, मुख्य आदि अर्थ देता है, तब भी ‘अति’ की जाति का या ‘अति’ का भाई उपसर्ग माना सकता है। परन्तु जब किसी शब्द में लगकर ‘अधि’ संबंध में, बाबत, आधिपत्य आदि का अर्थ देने लगता तो यह ‘अति’ की सीमा से आगे बढ़ कर अपनी निजी स्वतंत्र सीमा निर्धारित कर लेता है। नीचे इसके कुछ संकेतों के उदाहरण प्रस्तुत हैं।

अर्थ संकेत

अन्यों से ऊपर या ऊचा
अतिरिक्त
साधारण या अधिक
प्रधानता, श्रेष्ठता
सम्बन्ध में या बाबत

उदाहरण

अधिराज, अधिपति
अधिमास
अधिसंख्य, अधिमान
अधीश, अधिनाथ
अध्यात्म

ज्ञातव्य

1. आधुनिक आवश्यकता के अनुकूल ‘अधिकार-वाचक’ अर्थ देने के लिए इसका उपयोग किया जाने लगा अधिक्षेत्र-अधिकार का क्षेत्र, अधिग्रहण-अधिकार पूर्वक ग्रहण, अधिपत्र-अधिकार पत्र, अध्यादेश-विशेष अधिव के आधार पर दिया गया आदेश आदि इसी प्रकार के शब्द हैं।
2. ‘अधि’ उपसर्ग युक्त शब्द तमिल के 50, तेलुगु के 60, कन्नड के 76, मलयालम के 194 हैं। इस प्रकार दक्षि की चारों भाषाओं की शब्द संख्या 398 तथा हिन्दी की शब्द संख्या 261 है। अन्य भारतीय भाषाओं की शब्द संख्या 616 है, तथा कुल शब्द संख्या 1275 है।

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अधिक	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. ज्यादा, बहुत, अतिरिक्त, विशेष, प्रचुर
अधिक		असमी, उड़िया, बंगला	2. बाद का, बचा हुआ, फालतू, समधिक
अधिक		नेपाली, कन्नड, कोंकणी	3. एक अलंकार 4. वृद्धि, लाभ, प्राप्ति
अधिक-अपक		पंजाबी	+ 5. गुरुमुखी अक्षरों में लगने वाली एक मात्रा
अधिकं	संज्ञा	मलयालम	जो द्वित्व का बोध कराती है (अधक) (पंजाबी)
अविगम्, अतिकम्		तमिल	6. हेतु, व्याप्ति तथा दृष्टांत से सिद्ध को अधिक
अधिकमु		तेलुगु	सिद्ध करना, एक निग्रह स्थान
अधिक	विशेषण	संस्कृत, मलयालम	+ 7. चेहरे की चमक, वादविवाद में तर्क दोष (तमिल)
अधिकं	अव्यय	मलयालम	+ 8. दूसरों से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ (मलयालम), असाधारण
अधिककै	अव्यय	असमी	9. अधिक रूप या मात्रा से
अधिक आगला	विशेषण	मराठी	कुछ अधिक, अंदाज़े से ज्यादा
अधिक उणा	विशेषण	मराठी	1. थोड़ा अधिक 2. न्यूनाधिक
अधिक उणा शब्द		मराठी	भली बुरी, लगती या चुभती बात, धृष्टता की बात
अधिकन्	संज्ञा	मलयालम	1. उच्चतर व्यक्ति, सर्वशक्तिमान, उदार
अदियन्/अदिकन्		तमिल	2. स्वामी, ईश्वर, परमोच्च
अधिकुडु		तेलुगु	3. प्रधान, मुखिया, अन्यो में वरीयता प्राप्त
अधिक कोण	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	क्षेत्र गणित या ज्यामिति में समकोण से अधिक
अधिक कोणं	संज्ञा	मलयालम	अंशों का कोण, 90 डिग्री से ज्यादा का कोण
अधिकतम	विशेषण	हिंदी, नेपाली, बंगला	1. जितना अधिक हो सके उतना, सब से अधिक,
अधिकतममु		तेलुगु	अत्यन्त, प्रशस्त, खूब, सर्वोत्तम, महत्तम
अधिकतर	विशेषण	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	1. तुलना में अन्य से अधिक, दो में से वरीय
अधिकतर		नेपाली, बंगला, कन्नड	2. सामान्य से बढ़कर, प्रायः, ज्यादातर
अधिकता	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	1. बहुतायक, अधिक परिमाण या संख्या, अधिक्य,
अधिकता		असमी, नेपाली, पंजाबी	बाहुल्य, बढ़ती, विशेषता, वृद्धि
अधिकत		कन्नड	+ 2. अधिक परिश्रम (असमी)
अधिकमु		तेलुगु	3. ज्यादा होने की दशा या भाव
अधिकतिथि	संज्ञा	हिंदी	1. जिस चंद्र तिथि में दो सूर्योदय हों
अधिक तिथि	संज्ञा	गुजराती, संस्कृत	2. दो दिन मानी जाने वाली तिथि

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अधिकप्यटि	सज्ञा	तमिल	बहुत ज़्यादा, अत्यन्त, बहुतायत
अधिकप्यन्तु	संज्ञा	मलयालम	1. कविता में आवश्यकता से अतिरिक्त या व्यर्थ पद
अधिकपद		हिंदी	+ 2 अतिरिक्त लिया या प्राप्त किया धन (मलया)
अधिक पदं	संज्ञा	मलयालम	3 वागाडम्बर, वाक्यदोष, अनावश्यक पद प्रयोग
अधिकप्यत्तु-तस्	अकर्मकक्रिया	तमिल	बढना, वृद्धि होना
अधिकप्येत्तुक	अकर्मकक्रिया	मलयालम	अत्यधिक होना, विस्तीर्ण होना
अधिक प्रसंग	सज्ञा	गुजराती, मराठी, कन्नड	1 अधिक् बोलना, डींग हाकना, आत्मप्रशंसा करना
अधिक प्रसंगं		मलयालम	2 धृष्टता करना, अपमान करना, अविनय, धिक्कार
अदिगपिरसङ्गम्		तमिल	3 झगडा या वाद विवाद करना, व्यर्थ बोलना
अधिक प्रसंगम्		तेलुगु	4 जिस विषय पर चर्चा हो रही है उसमे बाहर की बात चलाना
अधिकप्रसंगि	विशेषण	मलयालम, कन्नड	1 आशिष्ट, वातूनी
अधिक प्रसंगिन्		संस्कृत	2 मद बुद्धि
अदिगपिरसङ्गिन्		तमिल	3 कुतर्की व्यक्ति
अधिकमास	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 चान्द्र संवत् में हर तीसरे साल आने वाला एक
अधिकमास		नेपाली, कन्नड, संस्कृत	अतिरिक्तमास
अधिकमासं		मलयालम	2. पुरुषोत्तम मास, मलमास, लौद का महीना
अधिकमासम्		तेलुगु	+ 3 31 मासों में एक बार आने वाला अतिरिक्त मास,
अदिमादम्/अदिकमादम्		तमिल	शूटा मास (कन्नड)
अधिकुमहीनो		सिंधी	+ 4 संक्रान्ति रहित मास (तमिल)
अधिकप्य	संज्ञा	बंगला	स्पदन, धड़कन, फडकन, स्फुरण
अधिकर	संज्ञा	बंगला, हिंदी	साधारण से ऊपर कर, (मुपर टैक्स), अतिरिक्तकर
अधिकरण	संज्ञा	हिंदी, गुजराती	1. आधार, आस्पद, आश्रय, अधिष्ठान, धारक
अधिकरण		मराठी, संस्कृत, सिंधी	2 स्वामित्व, अधिकारकृत, प्राधान्य, आधिपत्य
अधिकरण		असमी, उड़िया, बंगला	3. विषय, प्रमेय, अध्याय, विभाग, अनुच्छेद
अधिकरण		नेपाली, कन्नड, पंजाबी	4. न्यायासन, न्याय मंदिर, मध्यस्थ समिति, अधिकार
अधिकरणं		मलयालम	5. मातवा कारक 6. वह प्रकरण जिसमें सिद्धान्त
अधिकरणम्		तेलुगु	की विवेचना की जाय, सर्वोच्च स्थापन
अदिकरणम्		तमिल	+ 7. अध्यात्म में एक प्रकार का आधार (तेलुगु)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अधिकरिंघु	सकर्मकक्रिया	तेलुगु	1. बढ़ाना, विस्तार करना, चढ़ना
अधिकरिसु	क्रिया	कन्नड	2. विषय का गहराई से अध्ययन करना
अधिकरित्तु	सकर्मकक्रिया	तमिल	3. अधिकार उपयोग करना, अधिकारी होना
अधिकरिक्कु	क्रिया	मलयालम	4. साहित्यिक कृति की विषय वस्तु का अध्याय बनाना + 5. देखभाल कर, निशाना लगा (कन्नड)
अधिकरणदण्डम्	सजा	तमिल	पुरातन काल का एक टैक्स
अधिकरण शुल्क	सजा	हिंदी, नेपाली	1. कोर्ट फ्रीम, स्टाम्प रूप में दिया जाने वाला शुल्क + 2. अज्ञान का टिकट दस्तूर (नेपाली)
अधिकरणसिद्धान्त	संज्ञा	हिंदी, मराठी	1. पुष्कल सिद्धान्तों का मूलभूत सिद्धान्त
अधिकरण सिद्धान्त		संस्कृत	2. वह सिद्धान्त जिसमें अन्य सिद्धान्तों या अर्थों का अन्तर्भाव हो जाय
अधिकरणि	संज्ञा	मलयालम	1. अध्यक्ष, निरीक्षक, पर्यवेक्षक, सरकारी अफसर
अधिकरणी	विशेषण	हिंदी	2. निरीक्षण करने वाला, मालिक, स्वामी
अधिकरणिन्		संस्कृत	3. न्यायाध्यक्ष, जज, अधिकारी
अधिकरणिक	सजा	नेपाली, बंगला	+ 1. धर्माधिकारी, विचारकर्ता (बंगला) पर्यवेक्षक
अधिकरणिक (न्)		संस्कृत, हिंदी, मलया	+ 2. न्यायाध्यक्ष, अड्डाखाना का हाकिम (नेपाली)
अधिकरणभोजक	संज्ञा	हिंदी	3. न्यायाधीश, फैसला करने वाला
अधिकरण भोजक		संस्कृत	4. न्यायाधिपति, निर्णायक, न्यायकर्ता, इन्साफ
अधिकरणभोजकन्		मलयालम	करने वाला, मुन्सिफ
अधिकरणमंडप	संज्ञा	हिंदी	अदालत, न्यायालय, कोर्ट, वह भवन जहां बैठकर
अधिकरणमण्डप		संस्कृत	न्याय किया जाता है
अधिकरणमण्डपं		मलयालम	कचहरी
अधिकरणिकन्	संज्ञा	मलयालम	लोहे का बना पात्र निहाई, स्थूणा (मलयालम)
अधिकरण्य	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. अधिकार, शक्ति, अथारिटी, हक, कब्जा
अधिकरण्यं		मलयालम	2. वह संस्था जिसे कोई कार्य करने का विशेष अधिकार प्राप्त हो
अधिकर्णन्		मलयालम	अधिक ऋण, भारी कर्ज में दवा, जिस पर किसी
अधिक-ऋण		संस्कृत	की देनदारी या उधार बहुत हो

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अधिकर्ता	संज्ञा	बंगला	पूर्ण स्वामित्व या आधिपत्य युक्त व्यक्ति (डाइरेक्टर)
अधिकर्त्ति	संज्ञा	हिंदी, मलयालम	अधिक धनी, समृद्धिशाली
अधिकर्त्ति	संज्ञा	कन्नड, संस्कृत	धनादय, ऋद्धि अधिक होना
अधिकर्म	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, बंगला	1 तन्वावधान कार्य, अध्यक्षता, सुपरिन्टेन्डेन्स
अधिकर्मन् (र्म)		संस्कृत, मलयालम	2 प्रवध, बन्दोबस्त, निगरानी, निरीक्षण
अधिकर्ममु		तेलुगु	
अधिकर्मकृत	संज्ञा	मलयालम	अध्यक्ष, निरीक्षक, वह व्यक्ति जो अपने नीचे
अधिकर्मकृत		हिंदी	कार्य कर्ताओं के कार्य को जांचता और उनसे
अधिकर्मकृत		संस्कृत	काम लेता है, कार्य सम्पन्न कराने वाला,
अधिकर्मा	संज्ञा	बंगला	सुपरिन्टेन्डेन्ट, सुपरवाइजर
अधिकर्मिकन्	संज्ञा	मलयालम	1 बाजार का दागगा जो टेक्स उगाहता है
अधिकर्मिक		संस्कृत, बंगला	2 कारग्वाने का फोरमैन, चुगी वसूल करने वाला
अधिकर्मिक		नेपाली, कन्नड, हिंदी	3 कारीगरो का निरीक्षक ओवर मीयर
अधिकर्मी		नेपाली, हिंदी	4 निरीक्षक, प्रवधक, जाचकर्ता
अधिकर्मिन्		संस्कृत	5 तन्वावधायक, हाट का दारोगा
अधिकक्षर	संज्ञा	कन्नड	काव्य में अतिरिक्त या व्यर्थ अक्षर
अधिकांग	संज्ञा	हिंदी, गुजराती	1 अतिरिक्त अंग, अतिरिक्त अंग वाला
अधिकांग	विशेषण	मराठी, कन्नड	2 निमर्ग नियमों में अधिक अंग, यथा छठी उगली
अधिकाङ्ग		मलयालम, संस्कृत	3 जिसके शरीर में कोई एक अंग ज्यादा हो, अथवा
अधिकांगमु		तेलुगु	किमी रोग से बढ़ गया हो
अधिकांग	संज्ञा	गुजराती	वस्त्र से ऊपर बाधने का पटा, ओवरआल, कमर
अधिकाङ्गं	संज्ञा	मलयालम	बंद, कौंधनी, मेखला
अधिकांश	संज्ञा	हिंदी, असमी, बंगला	1 अधिकतर, विशेषकर, ज्यादातर, बहुत करके,
अधिकांश	विशेषण	नेपाली, उड़िया, संस्कृत	प्राय, अकसर, (संज्ञा) बड़ा भाग, आधे से अधिक
अधिकांशमु	अव्यय	तेलुगु	+ 2 ज्यादा दिवस, ज्यादा हिस्सा (तेलुगु) (Majority)
अधिकाई	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, तेलुगु	1 अधिकता, विपुलता, विशेषता, महत्ता, बाढ़
अधिकाई		मराठी, कन्नड	2 समृद्धि, भरपूरपन, बड़प्पन, बढाई

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अधिक्राधिक	विशेषण	हिंदी, गुजराती	अधिक से अधिक
अधिक्राधिक		मराठी, कन्नड	ज्यादा से ज्यादा, बहुत बढ़ा हुआ
अधिक्राम	विशेषण	कन्नड	1. प्रबल, उग्र, प्रचण्ड कामना वाला
अधिक्राम		संस्कृत	2. कामासक्त, कामोदीप्ति जनक, अशांत
अधिकार	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. नियंत्रण, सत्ता, हुकूमत, प्रभुत्व, हक, स्वत्व,
अधिकार		असमी, उड़िया, बंगला	कब्जा, दखल, आधिपत्य, शासन, स्वामित्व
अधिकार		नेपाली, कन्नड, कोंकणी	2. कार्यभार, इख्तियार, पद, पदवी, कर्तृत्व, दर्जा
अधिकार		पंजाबी, संस्कृत	3. यत्नता, योग्यता, ज्ञान, लियाकत, क्षमता
अधिकारु		सिंधी	4. विधिदत्त शक्ति, शासन में स्थान, प्रमाण्यता
अधिकारं		मलयालम	5. मुख्य नियम, प्रकरण, विषय, मंदर्भ, दावा
अधिकारम्		तेलुगु	6. सूत्र लगाने का नियम (संस्कृत, व्याकरण)
अदिगारम्		तमिल	+ 7. शासन में ताल्लुक के का एक हिस्सा (तमिल)
अदिगारम्शेलुत्तुवस्	अकर्मकक्रिया	तमिल	स्वामित्व का उपयोग-प्रयोग करना, निरीक्षण कार्य करना
अधिकारणें	सकर्मकक्रिया	मराठी	किसी को लक्ष्य करके कहना, गुप्त रीति से बोलना
अदिकारनन्दि	संज्ञा	तमिल	बैल का मुख और मानव का शरीर ऐसा शिव वाहन जो मंदिरों में उत्सव के तीसरे दिन प्रातः शिव लोक का नन्दीश्वर माना जाता है
अधिकारक्षेत्र	संज्ञा	हिंदी	वह स्थान जिसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता का नियम चले (ज्यूरिस्डिक्शन)
अधिकारगत	विशेषण	बंगला	अधिकृत, दखल में, वश में
अधिकारच्युत	विशेषण	बंगला, मराठी	अधिकार से वंचित, पदच्युत, पदभ्रष्ट, बेदखली
अदिकारत्तुवम्	संज्ञा	तमिल	ईश्वर का कार्य जिसमें शक्ति तत्व बुद्धि पर प्रभुत्व रखता है (शिव दर्शन)
अदिकारगणक्कु	संज्ञा	तमिल	अधिकारगणन, सरकारी टैक्स का हिसाब
अदिकारस्त्याग	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	1. प्राप्त छोड़ना 2. राजीनामा करना (ऐबडिकेशन)
अदिगारम्	संज्ञा	तमिल	कार्यालय प्रधान, सुपरिटेन्डेन्ट, डाइरेक्टर, आफिसर
अदिकारपत्र	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	1. किसी कार्य वस्तु आदि के लिए लिखित रूप में
अदिकार-पत्रं		मलयालम	प्राप्त आदेश, अख्तियार नामा 2. पावर आफ
अदिगारपत्तिरम्		तमिल	अटारिनी, विशेष अधिकारों की स्वीकृति की दलील

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अदिगारप्पुरनट्टे	मज्ञा	तमिल	अध्याय के अंत में दत्त सामान्य नियम (व्या)
अधिकार पवात्त	सज्ञा	मलयालम	पुराने समय में पद्मनाभ में की जाने वाली नियुक्ति
अधिकार परिधि	सज्ञा	मलयालम	अधिकार की सीमा या व्याप्ति जितना हक
अदिगारप्पोनु	सज्ञा	तमिल	सोने में प्राप्त कर, स्वर्ण कर, सोने का टैक्स
अधिकार प्रभक्त	सज्ञा	मलयालम	प्राप्त पद की शक्ति के नश में चूर
अधिकारभेद	सज्ञा	गुजराती	प्राप्त पद या शक्ति का भेद
अधिकारभ्रष्ट	विशेषण	बंगला, मराठी	अधिकार छिन जाना पदच्युत, पद भ्रष्ट
अदिगारमलम्	सज्ञा	तमिल	आत्मा का विश्वप्रपंच में कार्य संपादन की ओर झुकाव
अदिगारमुरै	सज्ञा	तमिल	पुस्तक के विषयों का उचित क्रम
अदिगारमेलेकुत्तु	सज्ञा	तमिल	सशोधित निर्देश
अदिगारवर्त्तने	मज्ञा	तमिल	कर सकलन टैक्स उगाहना टैक्स वसूलना
अधिकारविधि	सज्ञा	हिंदी	सीमा का वह विधि जो बताये कि किस क्रम
अधिकार विधि		संस्कृत	फलप्राप्ति के क्या कर्म अनुष्ठान उचित हैं
अदिगारशालै	सज्ञा	तमिल	अधिकार शाला दफ्तर, कोर्ट
अदिगारशिवन्	सज्ञा	तमिल	अधिकारशिवन् शिव का महेश्वर रूप जिसमें
अदिगारन्		तमिल	शक्ति प्रधान है
अधिकार सीमा	मज्ञा	हिंदी	अधिकार क्षेत्र, जितना जगह तक हक है
अदिगारसूत्तिरम्	मज्ञा	तमिल	संस्कृत व्याकरण में शब्द मिति का सूत्र जो अन्य
अधिकारसूत्र		संस्कृत	मूत्रा की सीमा निर्धारित करता है
अधिकारस्थ	मज्ञा	बंगला, मराठी, कन्नड	1 पद, सत्ता में अधिष्ठित, पदस्थ अधिकारी 2 जो
अधिकारस्थं (वस्तु)		मलयालम	जिस कुर्सी पर बैठा हो (व्यक्ति) 3 वह वस्तु जो
अधिकारस्थन् (व्यक्ति)		मलयालम	अपने वश में हो या जिसका स्वामी व्यक्ति हो
अधिकारिक	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1 कार्य करने का अधिकार प्राप्त व्यक्ति
अधिकारिकी		हिंदी	2 अधिकारी, अधिकार सबधी
अधिकारिता	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, असमी	1 अधिकारी होने की अवस्था, गुण या भाव
अधिकारित्व		असमी	2 अधिकारीपन की योग्यता, क्षमता स्वामित्व
			3 किसी विषय में अधिक पैठ या विशेष योग्यता
अधिकारि	सज्ञा	मलयालम, तेलुगु	+ 1 धार्मिक स्थान का मुखिया, मंदिर का प्रबंधक (मलया)
अदिगारि		तमिल	2 अफसर, पदासीन, प्रबंधक, व्यवस्थापक, हाकिम,

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अधिकारिन् अधिकारी अधिकारी अधिकारी अधिकारी	विशेषण	संस्कृत हिंदी, गुजराती, मराठी कोंकणी, सिंधी, कन्नड+4 नेपाली, पंजाबी असमी, उड़िया, बंगला+6	अहंकार 3 स्वामी, प्रभु, अच्यक्ष, असली दाकेदार, सक्षम मालिक, शासक, हकदार शिव का महेश्वर रूप जिसमें शक्ति की प्रधानता होती है (तर्मि) + 5 वेदान्त शास्त्र में चतुः पुरुष नाटक में प्रधान फल प्राप्ति का पात्र (हिंदी)
अधिकार्ष	सज्ञा	हिंदी	1 ऐसा वाक्य या शब्द जिसमें किसी पद के अर्थ में विशेषता आ जाय 2 अतिरिक्त
अधिकृतन् अधिकृतुडु	सज्ञा सज्ञा	मलयालम तेलुगु	त्म व्यक्ति, उच्चाधिकारी, मूनीरियर अधिकार में आया हुआ, मस्था का प्रमुख
अधिकृत अधिकृत अधिकृत अधिकृत	विशेषण विशेषण	हिंदी, गुजराती नेपाली, बंगला मराठी, कन्नड, संस्कृत मलयालम	1 आयन, विजित, परिचालित, वशीकृत, कब्जे में आयी हुई, हाथ में आयी हुई (वस्तु) 2 योग्यतायुक्त, सर्वाच्च स्थित, मान्यता प्राप्त 3 अधिकारप्राप्त, सत्तावान, नियत, नियुक्त, अधिकार सम्पन्न, (आर्थेगइज्ड) मान्यता प्राप्त (व्यक्ति)
अधिकृतगणक अधिकृत लेखपाल	सज्ञा सज्ञा	हिंदी हिंदी	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्ति जो हिसाब किताब की जाच का अधिकारी है (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट)
अधिकृति	सज्ञा	हिंदी, गुज, संस, बंगला, मलया	ऊँचा दावा, हक, मालिकाना, विशेषाधिकार
अधिकृत्य अधिकृत्य	विशेषण अव्यय	मलयालम संस्कृत	1 किसी सबंध या सदर्थ के बारे में या विषय में 2 प्रमाण या हवाले में, प्रधान विषय बनाकर
अधिकेश अधिकै अधिकोण	सज्ञा क्रिया विशेषण सज्ञा	बंगला असमी मलयालम, हिंदी	नकली बाल, विंग, बालों के ऊपर लगाये गये बाल अधिक मात्रा में, अधिक रूप में 90 अंश से अधिक का कोण, अधिक कोण
अधिकोत्तर अधिकोत्तर	विशेषण	मराठी, कन्नड गुजराती, मराठी	1 सीमा से अधिक, असामान्य, अन्यन्त श्रेष्ठ 2 लोकोत्तर, विलक्षण, विचित्र, असाधारण
अधिकोत्सार अधिकोश अधिकोशकर्णिक	सज्ञा सज्ञा सज्ञा	गुजराती, मराठी बंगला, हिंदी बंगला	हाइपरबोल (गणित) वैक, जहाँ लोग अपना धन जमा करने हो वैक का वावू या कार्यकर्ता, कर्मचारी
अधिक्रम अधिक्रम	सज्ञा	हिंदी, नेपाली, गुज, मलया बंगला, कन्नड, संस्कृत	आक्रमण, हमला, चढ़ाई, आगोहन, चढ़ाव धावा, युद्धाभियान

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अधिक्रमणं अधिक्रमण अधिक्रमण	संज्ञा	मलयालम संस्कृत, नेपाली गुजराती, हिंदी	1 किसी व्यक्ति या सस्था को हटा कर अधिकार हाथ मे लेना (सुपर सेशन) 2 आक्रमण करना, हमला बोलना
अधिक्रान्त	विशेषण	हिंदी	जिसे विशिष्ट अधिकार से दबाया या हटाया जा सके, अवक्रान्त (सुपरसीड)
अधिक्रान्ति	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	विशेषाधिकार मे संस्था आदि को हटा या दबा कर स्वय कार्यभार लेना (सुपरमेशन)
अधिक्रिय	संज्ञा	तेलुगु	अधिकार, कार्य सम्पन्नता का उत्तरदायित्व या पद
अधिक्रित्तु अधिक्रित्तु	संज्ञा	मलयालम संस्कृत	1. क्षय, नाश, छीज जाना, नष्ट होना 2 अधिपति, भरणकर्ता, मालिक
अधिक्रिप्त अधिक्रिप्त अधिक्रिप्तमु	भूत कृत	हिंदी, कन्नड मलयालम, संस्कृत तेलुगु	1 अपमानित, निरस्कृत, निर्दित, घृणित 2 फेंका हुआ, भेजा हुआ, नियत किया हुआ + 3 जो रखा गया है (तेलुगु)
अधिक्रिप्य	अव्यय	मलयालम	डाटने, अपमानित करने पर
अधिक्रेत्र अधिक्रेत्र	संज्ञा	हिंदी, नेपाली संस्कृत	1 कार्य, व्यवहार, आदेश, अधिकार प्रयोग की सीमा 2 अधिकृत क्षेत्र (ज्यूरिर्मडिक्शन, रेंज)
अधिक्रोप अधिक्रोप अधिक्रोप अधिक्रोपं अधिक्रोपमु	संज्ञा	गुजराती, हिंदी भराठी, संस्कृत बंगला, कन्नड मलयालम तेलुगु	1 विमर्जन, बरखास्तगी, पदच्युति, पृथक करना, फैंकना, निक्षेप 2 आक्षेप, भर्त्सना, निन्दा, दोषारोप, व्यग्य, अपमान, अपशब्द, कुवाच्य, गाली, अनादर
अधिक्रोपिकुकु अधिक्रोपिंधु	क्रिया क्रिया	मलयालम तेलुगु	निन्दा करना, धिक्कारना, झिड़कना, डपटना, गाली देना, दोष लगाना
अधिगणन	संज्ञा	हिंदी	गिनना, अधिक मूल्य लगाना, अधिक महत्व देना
अधिगत अधिगत अधिगत अधिगतं अधिगतमु	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, भराठी कन्नड, असमी, बंगला नेपाली, संस्कृत मलयालम तेलुगु	1 प्राप्त, गृहीत, वशीकृत, उपलब्ध 2 पढ़ा गया, विदित, अधीत, ज्ञात 3 पूर्णज्ञात, पारंगत, निष्णात 4 जो वस्तु या विषय पूर्णतया अपने वश में हो

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अधिगता अधिगन्तु अधिगन्ता (बु)	संज्ञा	हिंदी संस्कृत मलयालम	प्राप्त करने वाला, सीखने वाला, जो ज्ञान प्राप्त कर चुका हो, उपलब्ध करने वाला
अधिगम अधिगम अधिगममु अधिगमं अधिगमनं अधिगमन	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी नेपाली, बंगला, संस्कृत तेलुगु मलयालम मलयालम	1. धनादि प्रप्त, व्यापारिक लाभ, न्यायालय के निर्णय का लाभ + 2. पद-योजना अनुसार व्याख्या (हिंदी) 3. ग्रहण, स्वीकार, उपलब्धि, आदाय; आविष्कार 4. अध्यवसाय द्वारा अर्जित ज्ञान; अभ्यास, लाभ 5. पहुंच 6. संगम, संसर्ग 7. आलाप 8. न्यायालय परिणाम (फाईंडिंग्ज), व्यापारिक सागिणी
अधिगमिक्कुक्क अधिगमिंचु	सकर्मकक्रिया क्रिया	मलयालम तेलुगु	समीप जाना, प्रवेश करना प्राप्त करना, पढ़ना, जानना
अधिगमनीय	विशेषण	मलयालम	प्राप्त करने या सीखने योग्य
अधिगम्य अधिगम्य अधिगम्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती मराठी, बंगला मलयालम	1. बोधगम्य, ज्ञेय, प्राप्य, जो समझ में आ सके 2. जानने योग्य, अध्ययन करने या पढ़ने योग्य 3. अभ्यास कर विशेषता प्राप्त करने लायक
अधिगम्य अधिगम्यन् अधिगव	अव्यय संज्ञा विशेषण	मलयालम मलयालम मलयालम, हिंदी, संस्कृत	प्राप्त किया हुआ, पाया हुआ, सीखा हुआ जो प्राप्त कर चुका है, विशेषज्ञ गाय से प्राप्त
अधिगुण अधिगुण	विशेषण	हिंदी, मलयालम संस्कृत	1. उत्कृष्ट या विशिष्ट गुण से युक्त, सुयोग्य 2. भलीभांति चिल्ला या डोरी चढ़ाया हुआ धनुष
अधिगुप्त अधिग्रहण	विशेषण संज्ञा	हिंदी हिंदी, नेपाली	अतिगुप्त या सुरक्षित, रहस्ययुक्त, छिपाया हुआ जबरदस्ती या मांगकर सम्पत्ति पर अधिकार कर लेना (एक्वीज़िशन)
अधिग्राहक	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	वैधानिक उपाय से वस्तु को प्राप्त करने वाला
अधिचरण अधिचरणं	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत मलयालम	1. किसी के ऊपर चलना, गमन करना 2. अपने अधिकार या सीमा से आगे चलना 3. बलात्कार, ज़बरदस्ती हथियाना
अधिचरिक्कुक्क	अकर्मकक्रिया	मलयालम	1. किसी के ऊपर चलना 2. अपहरण करना 3. बलात्कार करना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अधिचापं	सज्ञा	मलयालम	ज्यामिति मे वृत्त की परिधि का प्रधान अंश
अधिज	विशेषण	हिंदी	जन्मा हुआ, सदवश जात, उच्चकुलज
अधिजानु	विशेषण	बंगला	घुटनो के बल बैठना, जानु के सहारे बैठना
अधिजिह्व	सज्ञा	हिंदी, कन्नड	1 जीभ की सूजन, एक रोग
अधिजिह्व		मलयालम, संस्कृत	2 एकाधिक जीभो वाला 3 साप, द्विजिह्वी
अधिजिह्वक	सज्ञा	मलयालम	गले का कौआ, टासिल्ल
अधिजिह्विका		संस्कृत, हिंदी	गले की एक बीमारी, टासिल्ल की सूजन
अधिज्य	विशेषण	हिंदी, मलयालम, संस्कृत	धनुष की गूदी हुई डोरी तना हुआ धनुष
अधिज्यमु		तेलुगु	धनुष से बाण छोड़ने को उद्यत
अधिज्यकाम्मुकन्	सज्ञा	मलयालम	धनुर्धारी, धनुष ताने हुए, धनुष तानने वाला
अधिज्यकार्मुक		हिंदी, संस्कृत	धनुष की डोरी खींचकर चढ़ाने वाला
अधिज्यधन्वा (वु)	सज्ञा	(मलयालम, कन्नड	धनुष का चिल्ला चढ़ाये हुए धनुर्धारी
अधिज्यधन्वन्		संस्कृत, हिंदी	कमान पर डोरी कसे तैयार, कमानधारी
अधित्यका	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 पहाड पर का समतल मैदान, उपत्यका का विपर्याय
अधित्यका		असमी, बंगला, नेपाली	2 ऊचाई पर स्थित प्रदेश
अधित्यका		संस्कृत, मलया, तेलुगु	3 पहाडो की चोटियों के बीच का समतल मैदान
अधित्यके		कन्नड	वह मैदान जो साधारण मैदानी क्षेत्र में ऊचा होता है
अधित्यकमु		तेलुगु	टेबललैड, ऊचा पथरीला मैदान, तराई का विपर्याय
अधित्वक	सज्ञा	बंगला	ऊपर की छाल, अधिक चर्म, ऊपर की खाल
अधिदन्त (तं)	सज्ञा	हिंदी, बंगला, (मलया, संस	दान के ऊपर का अधिक दात
अधिदर्शक	सज्ञा	हिंदी	माइक्रोस्कोप, खुर्बीन, छेपे को बड़ा दिखाने वाला यंत्र
अधिदिन	सज्ञा	हिंदी	1 अधिक दिन या अधिक तिथि
अधिदिवस		संस्कृत	2 उनतीस दिन की फव्वरी
अधिदिवसं		मलयालम	3 किसी महीने में बढ़ा हुआ एक दिन
अधिदीधिति	विशेषण	हिंदी, मलयालम	अधिक किरणो वाला, प्रभा वाला, दिव्य शोभायुक्त
अधिदूतन्	सज्ञा	तमिल, मलयालम	गर्वश्रेष्ठ या प्रधान देव का दूत
अधिदेय	सज्ञा	हिंदी	साधारण से अधिक देना, वेतन वृद्धि से अधिक
अधिदेय		बंगला	उन्मादित करने के लिए दिया धन, प्रीमियम, भत्ता, वसना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अधिदेव अधिदेव अधिदेवता अधिदेवन् अधिदेवमु अधिदेव्यम्	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी बंगला, नेपाली, तेलुगु बंगला, मलया, गुज, संस+ मलयालम तेलुगु तमिल	1. इष्टदेव, प्रधान देव, देवाधिप देव, कुलदेवता, परमेश्वर, विगटपुरुष, रक्षक, अधिष्ठाता देव 2. सूर्यमण्डल, अन्तर्यामी पुरुष (बंगला) 3. वह मंत्र जिममें अग्नि, वायु, सूर्य आदि के नाम-कीर्तन से विभूति की शिक्षा मिले (हिंदी) 4. प्रधान देवता, मंत्र का मुख्य देवता (तमिल)
अधिदेवत अधिदेवत	संज्ञा	गुजराती, कन्नड हिंदी	1. विश्वव्याप्त प्रधान शक्ति, अन्तर्यामी परमात्मा 2. नंदर की मुख्य-देव मूर्ति (कन्नड) देवता संबन्धी (हिंदी)
अधिदैव अधिदैवमु	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत तेलुगु	दैव योग से होने वाला, आकस्मिक, संयोग वश, दैविक, दैवी
अधिदैविक	विशेषण	हिंदी, मलयालम, कन्नड	आध्यात्मिक, ईश्वरीय, दिव्य चैतन्य
अधिधारणं अधिधारण	संज्ञा	मलयालम हिंदी	1. बाह्य तन्वो को रसायनिक परिवर्तन बिना आत्मसात करना (आक्कन्युजन) 2. शोषण
अधिध्रुवं अधिनयिकुकु	संज्ञा क्रिया	मलयालम मलयालम	विद्युत प्रवाहकारी 1. वृद्धि करना 2. कहीं से कहीं ले जाना, उठाना, पहुंचा देना
अधिनाय अधिनायन्	संज्ञा	हिंदी, कन्नड, संस्कृत मलयालम	1. परब्रह्म, परमेश्वर, सर्वेश्वर, सबका म्यामी 2. प्रधान अधिकारी, प्रमुख, प्रभु
अधिनामी	विशेषण	गुजराती	नामियों में श्रेष्ठ, अति प्रसिद्ध व्यक्ति
अधिनायक अधिनायक अधिनायक (न्)	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, तेलुगु उड़िया, बंगला, संस्कृत नेपाली, कन्नड, (मलया)	1. सर्वाधिकार सम्पन्न, डिक्टेटर, मुख्य नायक 2. सरदार, मुखिया, स्वामी, चालक, नेता 3. सर्वेसर्वा, अनियंत्रित शासक, अधिपति
अधिनायकी अधिनायकत्व	संज्ञा	हिंदी नेपाली	अधिनायक पद का कार्य, डिक्टेटर शिप, सर्वाधिकार सम्पन्नता, निरंकुशता, अधिनायक संबंधी
अधिनायकतंत्र अधिनायकतंत्र	संज्ञा	नेपाली हिंदी, संस्कृत	1. अधिनायक शासित राज्य, शासन 2. हुकुमी शासक, (डिक्टेटरशिप)
अधिनायकवाद अधिनायकवादिता	संज्ञा संज्ञा	नेपाली नेपाली	निरंकुश शासन प्रथा या प्रणाली, हुकुमी शासन व्यवस्था अधिनायकत्ववादी होने का भाव

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अधिनायकवादी	संज्ञा	नेपाली	अधिनायकवाद को मानने वाला
अधिनियम	संज्ञा	नेपाली	1. किसी संस्था या व्यवसाय के निमित्त बना विशेष नियम; विधान मंडल द्वारा पारित नियम 2. विशेषादेश नियम, विधान-संविधान के नियम
अधिनियम		हिंदी , संस्कृत	
अधिनियम		बंगला	
अधिनियमन	संज्ञा	हिंदी	संविधान बनाने का काम या भाव
अधिनिर्णय	संज्ञा	हिंदी	पंच या न्यायाधीश का निर्णय, अंतिम निर्णय
अधिनिर्णयन्	संज्ञा	हिंदी	किसी विवाद में पंच या निर्णायक बनकर फैसला करना
अधिनिष्कासन	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	विधि के आधार पर किसी को भूमि मकान आदि से बाहर निकालना, बंदखली (इविकशन)
अधिनिवेश	संज्ञा	मलयालम	उपनिवेश स्थापना, किसी अन्य देश को अपने अधीन कर शासन करना
अधिनिवेश		संस्कृत	
अधिनेता	संज्ञा	बंगला	अधिनायक, प्रधान, स्वामी, डिक्टेटर
अधिनेतृ (नेत्री)		कन्नड, गुजराती, (बंगला)	मालिक, प्रभु, प्रधानाधिकारी, स्त्री अधिनायक
अधिन्तु	अव्यय	बंगला	और भी अधिक, अपरन्तु
अधिप	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. राजा, शासक, प्रधान, स्वामी, मालिक, सत्ताधीश, प्रभु, महागज + सिर का मर्म स्थल (मलया, हिंदी) 2. सर्व प्रभुत्व सम्पन्न सम्राट, नायक 3. छोटे छोटे राजाओं के ऊपर का राजा 4. प्राचीनकाल के चक्रवर्ती राजा का पर्याय शब्द
अधिप		नेपाली, बंगला, संस्कृत	
अधिपन् (पं)		असमी, कन्नड, मलया	
अधिपन्		तमिल	
अधिपुगु		तेलुगु	
अधिपति	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. किसी भूखंड का स्वामी 2. सम्पत्ति का मालिक 3. किसी कार्य, विभाग, विषय आदि का प्रधान अधिकारी 4. न्यायालय आदि का प्रधान विचारक या कार्य अधिकारी 5. राजा, शासक, स्वामी, प्रधान, सत्ताधीश
अधिपति		असमी, उड़िया, संस्कृत	
अधिपति		बंगला, तेलुगु, मलयालम	
अधिपति		नेपाली, कन्नड, कोंकणी	
अधिपति		तमिल	
अधिपत्नी	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	स्वामिनी, शासन करने वाली (वैदिक)
अधिपत्र	संज्ञा	हिंदी	1. वह पत्र जिसमें कार्य का आदेश दिया हो 2. किसी को पकड़ने या माल ज़ब्त करने के लिए न्यायालय की लिखित आज्ञा (वारण्ट) 3. विशेष कार्य करने के लिए दिया आदेश पत्र
अधिपत्र		नेपाली	
अधिपत्र		संस्कृत	
अधिपत्र		बंगला	

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अधिपत्यम्	संज्ञा	तेलुगु	प्रभुता, आधिपत्य, उच्चाधिकार
अधिपद	संज्ञा	हिंदी	नियमावली, विधान आदि में कोई स्वतंत्र भाग या पद (आर्टिकल)
अधिपागं(ग)	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	अधिक अंग, नियत संख्या से अधिक अंग वाला
अधिपुरुष	संज्ञा	हिंदी, बंगला	1. स्वयंभू मनु, परमात्मा, परमेश्वर, पुरुषोत्तम
अधिपुरुषन्		मलयालम	2. संस्था या कारखाने का प्रमुख अधिकारी या मालिक
अधिपुरुष		संस्कृत	3. स्कूल का प्रधान कार्यकर्ता (रेक्टर)
अधिप्रचार	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	किसी सिद्धान्त या कार्य को लोगों में फैलाने का मघटित प्रयत्न (प्रापेगण्डा)
अधिप्रचरक	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	जो व्यक्ति किसी मत या विचार का प्रचार करने का संघटित यत्न करे
अधिप्रज	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. बहुत संतति वाला, जिसके बहुत बाल-बच्चे हों
अधिप्रजं		मलयालम	+ 2. ममार को बनाये रखने के लिए सृजन (मनयालम)
अधिबल	संज्ञा	हिंदी, तेलुगु	1 अतिबल 2. गर्भ शब्दों का आदान-प्रदान
अधिबलं		मलयालम	3. किसी को रूप बदले देख होने वाला धोखा जो गर्भ संधि के 13 अंगों में से एक है
अधिभर्ता (बु)	संज्ञा	मलयालम	1. प्रमुख प्रशासक, मालिक, स्वामी 2. गवर्नर जनरल -
अधिभर्तृ		संस्कृत	छोटे अर्धस्वतंत्र राज्यों पर शासन करने वाला
अधिभार	संज्ञा	हिंदी	विशिष्ट परिस्थिति में लगाया साधारण से
अधिभार		संस्कृत	अतिरिक्त कर या शुल्क (सरचार्ज)
अधिभू	संज्ञा	हिंदी, बंगला	1. स्वामी, प्रभु, राजा, कर्ता
अधिभू (बु)		कन्नड, मलयालम	2. श्रेष्ठ व्यक्ति, नायक, शासक
अधिभूत	विशेषण	हिंदी, बंगला, संस्कृत	1. सभी भैतिक वस्तुएं 2. इंद्रियों का विषय
अधिभूत		मराठी, कन्नड	3. वस्तुओं के मूल में व्याप्त ब्रह्म सत्व
अधिभूतं	संज्ञा	मलयालम	4. माया 5. जड़ जगत 6. ब्रह्म और उसकी माया
अधिभौतिक	विशेषण	हिंदी, कन्नड, बंगला	पदार्थों या प्राणियों से उत्पन्न या सम्बद्ध
अधिमंत्री	संज्ञा	बंगला	केन्द्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, बड़ा मंत्री
अधिमत	संज्ञा	हिंदी	ऐसा मत या सिद्धान्त जिसे आदर दिया जाय (कैनन)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अधिमन्धं अधिमन्ध	सज्ञा	मलयालम हिंदी	1 आरखो की जलन, खुजली आदि रोग 2 आरखो के एक विशेष रोग का नाम
अधिमन्धन अधिमन्धनं	सज्ञा	हिंदी मलयालम	1 अग्नि उत्पन्न करने के लिए, अरणी लकड़ियों को रगड़ना घर्षण योग्य + 2 पत्थर घर्षण कर अग्नि उत्पन्न करना (मलयालम)
अधिमांस अधिमांसं अधिमांसं अधिमांसक	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी नेपाली, बंगला मलयालम संस्कृत, हिंदी	मम्डो या आरख म मांस बढ़ने का एक रोग, माम गृद्धि, फोडा अधिकमांस, कैंसर, आरख के श्वेत भाग या मसूडा के पृष्ठ भाग म मांस बढ़ने का रोग
अधिमात्र	विशेषण	हिंदी, मलया, नेपा, संस्कृत	मान या उचित मात्रा से अधिक, अत्र्यधिक
अधिमान अधिमान	सज्ञा	हिंदी नेपाली, संस्कृत	1 औगे मे अच्छा ममझ या मान कर ग्रहण करना 2 प्रीफरैन्स, तरजीह, महत्व देना वरीयता
अधिमानिक	विशेषण	हिंदी	जिस अधिमान दिया गया हो (प्रीफरेंशियल)
अधिमानित अधिमानित	विशेषण	हिंदी नेपाली	1 औगे मे अच्छा मान देना ग्रहण करना अनियम्मानित (Preferred)
अधिमान्य अधिमान्यता	सज्ञा सज्ञा	हिंदी, नेपाली हिंदी	1 विशेष मन्कार योग्य (प्रीफरबल) 2 अधिमान होने का भाव या अवस्था
अधिमास अधिमास अधिमासं	सज्ञा	हिंदी, नेपाली बंगला, संस्कृत मलयालम	1 पुरुषोत्तम मास, मल मास, अधिक मास 2 नीमर वरं का अधिक चंद्रमास 3 सूर्य की दो मक्रान्तियों के बीच का चंद्रमास
अधिभिन्न	सज्ञा	हिंदी	ज्यातिष म परस्पर मित्र ग्रहा का योग
अधिमुक्ति अधिमुक्तिक अधिमुद्रण	सज्ञा सज्ञा सज्ञा	हिंदी हिंदी हिंदी	1 प्रवृत्ति, झुकाव 2 विश्वास महाकाल (बौद्धमत) पत्र पत्रिका म छपे किसी एक लेख का अलग म छापना, आफप्रिंट, अधिक छापना
अधिमूल्य अधिमूल्य	सज्ञा	हिंदी, बंगला नेपाली	1 किसी वस्तु का विशेष परिस्थिति मे अधिक मूल्य 2 विशेष मूल्य

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अधिमेहनं अधिमेहनम्	सत्ता	मलयालम संस्कृत	बलात्कार, बलात् सगम, जबर्दस्ती किमी स्त्री का मभोग करना
अधियज्ञ अधियज्ञ अधियज्ञं	मज्ञा	हिंदी, गुजराती मराठी, संस्कृत मलयालम	1 प्रधान यज्ञ, प्रधान बलि, श्रेष्ठ स्वत्व या व्यक्तित्व 2 ईश्वर, आत्मा, यज्ञ सबधी + 3 यज्ञाधिपति ईश्वर (मराठी)
अधियांत्रिक अधियाचक	सत्ता मज्ञा	बंगला हिंदी	मशीन के कारीगरों का निरीक्षक (मैकेनिकल फोरमैन) अधिकार पूर्वक मागने वाला या याचना करने वाला
अधियाचन अधियाचन	मज्ञा	हिंदी, नेपाली संस्कृत	1 अधिकारपूर्वक किमी वस्तु या कार्य के लिए याचना 2 सभा के सदस्यों द्वारा अधिवेशन की लिखित माग (रिक्विजिशन)
अधिया अधियाना अधियार अधियारी अधियारिनी अधियुक्त अधियुक्ति	सत्ता क्रिया सत्ता मज्ञा सज्ञा मज्ञा सत्ता	तेलुगु, हिंदी, नेपाली तेलुगु, हिंदी हिंदी, तेलुगु, नेपाली तेलुगु, हिंदी, गुजराती हिंदी हिंदी, नेपाली हिंदी	आधा हिस्सा आधा करना, दो बराबर हिस्सा में बाटना आधे हिस्से का मालिक जमीन जायदाद में आधी हिस्सेदारी आधे हिस्से की हकदार स्त्री, सपत्नी, मौत वेतन पारिश्रमिक देकर काम पर लगाना (एम्प्लायड) जीर्णनिर्वाह के लिए काम पर लगाना (एम्प्लायमेंट)
अधियोक्ता अधियोक्तृ	मज्ञा	हिंदी संस्कृत	वेतन या पारिश्रमिक देकर काम पर लगाने वाला (एम्प्लायर)
अधियोग अधियोगं	सत्ता	हिंदी, गुजराती, संस्कृत मलयालम	1 शुभग्रह योग जो यात्रा के लिए श्रेष्ठ मानते हैं 2 यात्रा का शुभ मूर्त
अधियोजक अधियोजन अधियोजनालय अधियोषन्	मज्ञा मज्ञा सज्ञा सत्ता	हिंदी, नेपाली हिंदी, नेपाली हिंदी मलयालम	वेतन देकर कर्मचारी नियुक्त करने वाला कार्य विशेष पर कर्मचारी नियुक्त करना काम दिलाने का दफ्तर, नियोजनालय (एम्प्लायमेंटब्यूरो) मुख्य योद्धा, प्रधानवीर, श्रेष्ठ वीर
अधिरक्षी अधिरक्षिन्	सत्ता	हिंदी, नेपाली संस्कृत	पुलिस का हेड कान्स्टेबल, आरक्षी + निरीक्षक (नेपाली)
अधिरथ अधिरथ	विशेषण	हिंदी, नेपाली बंगला, कन्नड, संस्कृत	1 रथारूढ, रथ पर सवार, रथी, बड़ा रथी 2 रथ हाकने वाला. सारथी

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अधिराज्य	संज्ञा	मलयालम	3. अतिवीर योद्धा, महारथी
अधिराज्य	संज्ञा	तेलुगु	4. कर्ण के पालक पिता का नाम
अधिराज	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	महाराज, शहनशाह, बादशाह, महाराजाधिराज,
अधिराज		नेपाली, कन्नड, संस्कृत	चक्रवर्ती सम्राट, अधीश्वर, अधिराट,
अधिराज		असमी, बंगला, पंजाबी	जिसकी प्रभुसत्ता अन्य राजा भी मानते हो,
अधिराज्य		मलयालम, तमिल	सुप्रीम रूलर, परम शासक,
अधिराज्य (दृढ़)		तेलुगु, (मलयालम)	जिसकी प्रमुख सत्ता औरों पर अधिष्ठित हो
अधिराजकुमार	संज्ञा	नेपाली	महाराजाधिराज के पुत्र की उपाधि
अधिराजत्व	संज्ञा	कन्नड	प्रभुत्व, साम्राज्य, प्रतिष्ठा या गौरव
अधिराजा	संज्ञा	गुजराती, असमी	राजा, सम्राट, परम शासक
अधिराज्य	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. साम्राज्यसम्राट पद का अधिकार, चक्रवर्ती राज्य
अधिराज्य		नेपाली, बंगला, संस +	2. दूसरे राज्यों से मित्रता सूत्र में आबद्ध (बंगला)
अधिराज्य	संज्ञा	मलयालम +	3. पूर्ण राज्यसत्ता सम्पन्न राज्य (नेपाली)
अधिराज्य		तेलुगु	4. प्रभुसत्ता, औरों पर अधिष्ठित सत्ता (मावरेनिटी)
अधिराज्य (दृढ़)		मलयालम, संस्कृत	5. एक देश का नाम
अधिराष्ट्रीय	विशेषण	बंगला	सार्वजनिक या अन्तर्जातिक सत्ता
अधिराष्ट्रीय	अव्यय	मलयालम	ऊपर चढ़ा हुआ, सवार होकर
अधिरुद्ध	संज्ञा	हिंदी, गुजराती	1. अधिरोहण किया हुआ, ऊपर चढ़ा हुआ, सवार,
अधिरुद्ध		बंगला, संस्कृत	अधिष्ठित, गद्दीनशीन, बढ़ा हुआ, उन्नत
अधिरुद्ध		कन्नड, मलयालम +	2. आक्रान्त, आविष्ट (बंगला), वृद्धि (मलयालम)
अधिरूप	संज्ञा	हिंदी	1. वस्तु या बात का वास्तविक से बढ़ा-चढ़ा रूप
अधिरूपण	संज्ञा	हिंदी	2. कृत्रिम उपाय से किसी वस्तु का वास्तविक से बढ़ा-चढ़ाकर रूप प्रस्तुत करना (मैगनिफिकेशन)
अधिरोप	संज्ञा	हिंदी	अपराधक आरोप लगाना, अभियोग्य दोष लगाना (चाज)
अधिरोपण	संज्ञा	हिंदी	1. किसी पर किया जाने वाला आरोप, दोष अधिरोप
अधिरोपण		संस्कृत	या अभियोग
अधिरोपण		नेपाली	2. उठाने या ऊपर चढ़ाने की क्रिया
अधिरोपण		बंगला	+ 3. धनुष पर बाण चढ़ाना, आरोहण करना (बंगला)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अधिरोपणं	संज्ञा	मलयालम	4. वृद्धि करना, बढ़ाने का कार्य + 5. पौधा उखाड़कर दुबारा स्थापन करना (नेपाली)
अधिरोपित	भूत कृदन्त	हिंदी	1 अपगध जिसका अधिरोप किया गया हो
अधिरोपित	विशेषण	नेपाली	+ 2. अभियुक्त; पुनः स्थापित (नेपाली)
अधिरोपित		बंगला	3. स्थापित, उत्थापित, कृतारोहण, आरोपित
अधिरोप्य	अव्यय	मलयालम	ऊपर चढ़ाना, मिंहासनारूढ़ होना
अधिरोह	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. हाथी, घोड़े आदि पर सवार होना
अधिरोह		कन्नड	2. सीढ़ी + 3. चढ़ना, बढ़नी (कन्नड)
अधिरोहण	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	1. आरोहण 2. ऊपर उठना (पद धनादि में)
अधिरोहण		नेपाली, बंगला	3. सवार होना 4. गद्दी पर बैठना
अधिरोहणं		मलयालम	+ 5. सम्मानित रूप से उच्च स्थान पर बसना (नेपाली)
अधिरोहणम्		तेलुगु	6. धनुष पर प्रत्यंचा या चिल्ला चढ़ाना
अधिरोहिणी	संज्ञा	हिंदी, बंगला, नेपाली, संस	1. सीढ़ी, नसैनी, जीना, सोपान, आरोहिणी
अधिरोहिणि	संज्ञा	मलया, तेलुगु, कन्नड	+ 2. खेतीबाड़ी में देखभाल के लिए बनाया मचान (नेपाली)
अधिरोहिक्कुक्	अकर्मक क्रिया	मलयालम	आरोहण करना, चढ़ाना, चढ़ना
अधिरोहिंचु		तेलुगु	सीढ़ी चढ़, आरोहण कर
अधिरोही	विशेषण	हिंदी, बंगला	1. आरोही, चढ़ने वाला, चढ़ा हुआ
अधिरोहिन्		संस्कृत	+ 2. महावत (मलयालम)
अधिरोहि		मलयालम	3. सवार, आरोहणकारी, ऊपर उठा हुआ
अधिसंबन	संज्ञा	हिंदी	कार्य या बात को आवश्यकता से अधिक बढ़ाना या देर लगाना, प्रति विलंबन (प्रोटैक्शन)
अधिलाभ	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	1. अतिरिक्त लाभ (बोनस)
अधिलाभांश	संज्ञा	हिंदी	2. उद्योग बीमा आदि का विशेष लाभांश
अधिलोक	संज्ञा	हिंदी	1. संसार, सांसारिक, दुनियावी, संसार के विषय में
अधिलोक		संस्कृत	2. ब्रह्माण्ड, ब्रह्माण्ड संबंधी
अधिवक्ता	संज्ञा	हिंदी, बंगला	1. वकील, एडवोकेट
अधिवक्ता (वु)	संज्ञा	मलयालम	2. पक्ष समर्थक वक्ता, सांत्वना देने वाला
अधिवक्त्		संस्कृत	3. प्रभाषक, आश्वासक, भाषणकर्ता

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अधिवचन अधिवचनं अधिवचन	सज्ञा	हिंदी, बंगला मलयालम संस्कृत	1 अत्युक्ति 2 पक्ष समर्थन, हिमायत, वकालत 3 नाम उपा॥ 4 नाम मज्ञा, अभिधा + 5 बढ़ा चढा कर कही कोई बात, अत्युक्ति (हिंदी)
अधिवर्ष अधिवर्ष अधिवर्ष	सज्ञा	हिंदी, बंगला नेपाली, उड़िया मलयालम	1 वह चांद्र वर्ष जिसमें एक मास अधिक हो 2 वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन की ले लीप ईयर 3 वह सौर वर्ष जिसमें फागुन 31 दिन का हो
अधिवसित अधिवसितम्	भूत कृदत	हिंदी तेलुगु	1 सुगधित, सुगधित किया हुआ अध्युषित 2 आवाद किया हुआ, बसाया हुआ, रहना
अधिवसिक्कुक्क	क्रिया	मलयालम	1 रहना, बसना, स्थापित होना 2 उत्तरना या अट्ट पर बैठना
अधिवस्त्र अधिवस्त्र	विशेषण	मलयालम संस्कृत	घूमट में, वस्त्रावृत रूपडे से ढकी हुई ऊपर का कपडा ओढ़नी ओवर कोट आदि
अधिवाकं	सज्ञा	मलयालम	1 अधिवचन, वकील की स्वपक्षीय दलील 2 रक्षण
अधिवाचनं अधिवाचन	सज्ञा	मलयालम हिंदी	+ 1 किसी के पक्ष में बोलना (मलयालम) + 2 नामजदगी, निवाचन चुनाव (हिंदी)
अधिवास अधिवास अधिवास अधिवास अधिवास अधिवास अधिवास अधिवास अधिवास अधिवास अधिवास	सज्ञा	हिंदी गुजराती नेपाली मराठी संस्कृत कन्नड असमी मलयालम तेलुगु तमिल	1 रहने का मुख्य स्थान, निवास आवाग, बस्ती 2 पडामी, नागरिक एक प्रांत के लिए बसना + 3 उपवास सत्याग्रह (मलयालम) विभव तक ठहरना + 4 पोशाक चागा लवाकोट (मस्कृत, कन्नड) + 5 सुर्गाधन, खुशवू, सुर्गाधीकरण, सुर्गाधित द्रव्यो में अर्चन—विवाह, मूर्ति पूजा आदि में (बंगला, मराठी) 6 यज्ञानुष्ठानादि में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, आह्वान 7 वर पक्ष द्वारा गंध द्रव्य, वस्त्रादि में परिमल स्थापन, विवाह में पहले धार्मिक गीत + 8 हठपूर्वक तकादा, धरना (मस्कृत) + 9 शुभकार्य में पहले दिन किया काम (असमी)
अधिवासमण्डपं अधिवासमण्डप	सज्ञा	मलयालम संस्कृत	मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कमरा प्रतिष्ठा की मूर्ति के स्थापन का प्रकोष्ठ
अधिवास होमं	सज्ञा	मलयालम	मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का हवन

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अधिवासन अधिवासन अधिवासनं	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, संस्कृत बंगला, कन्नड, मराठी मलयालम	1 मुगधित करना 2 मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 3 यज्ञारभ का आवाहन + 4 धरना देना (हिंदी) + 5 निवासी (मलयालम) + 6 वस्त्र पहनना (गुजराती)
अधिवासित अधिवासित	भूत कृदंत	बंगला, हिंदी मलयालम	अधिवाम किया हुआ, गंध माल्य आदि से किया गस्कार, सुवामित, स्थापित, बसाया हुआ
अधिवासिंधु	क्रिया	तेलुगु	रहना, वास करना
अधिवासर अधिवासरमु	सज्ञा	गुजराती तेलुगु	+ 1 श्राद्ध दिवस का पहला दिन (तेलुगु) + 2 उत्सव दिवस, त्योहार (गुजराती)
अधिवासी अधिवासी अधिवासी अधिवासि अधिवासिन्	विशेषण	हिंदी, असमी उड़िया, बंगला नेपाली मलयालम, तेलुगु संस्कृत	1 दूसरी जगह से आकर बसा 2 निवासी, वाशिता रहने वाला किसी देश का निवासी + 3 सुवामित करने वाला (हिंदी) 4 नागरिक हक पाने के लिए बसा व्यक्ति + 5 अनशन करने वाला व्यक्ति (नेपाली)
अधिवाहनं अधिविद्य (या)	सज्ञा सज्ञा	मलयालम बंगला	ले जाना, पहुँचाना, सवाहक उच्चविद्याप्राप्त, अनिर्पाडन, अतिशय विद्वान विदुषी
अधिविन्ना अधिविन्ना अधिविन्ने अधिविन्नि	सन्धा	मलयालम, हिंदी नेपाली, संस्कृत कन्नड तेलुगु	1 पति परित्यक्ता स्त्री, निरादृत, उपेक्षित भार्या 2 जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो + 3 वह स्त्री जिसके सोन हो (कन्नड, नेपाली) + 4 प्रथम भार्या (तेलुगु, मलयालम)
अधिवीत अधिवृक्कं अधिवृष्णिका अधिवृत्त अधिवृत्ति अधिवृद्ध अधिवृद्धि	विशेषण सज्ञा सज्ञा सज्ञा सज्ञा विशेषण सज्ञा	हिंदी मलयालम मलयालम बंगला बंगला हिंदी हिंदी	लपेटा हुआ, आच्छादित, आवृत्त शरीर की एक ग्रथि, एड्डीनल ग्लैंड सेमीनल ग्रथि क्षेपणी क्षेत्र, अनुवृत्त परवल्य किसी कम्पनी का लाभार्थ (डिवीडेड) सीमा से बाहर बढ़ा या फैला (आउट गोन) सीमा से बाहर निष्प्रयोजन वृद्धि (आउट ग्रोथ)
अधिवेत्ता (वु) अधिवेत्ता अधिवेत्	सज्ञा	बंगला, मलयालम हिंदी, नेपाली संस्कृत, कन्नड	पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने वाला, + पहली पत्नी को छोड़ देने वाला (कन्नड), एक पत्नी को छोड़ दूसरी पत्नी रखने वाला

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अधिदेवं अधिदेवक अधिदेव	संज्ञा	मलयालम नेपाली हिंदी, संस्कृत	1. एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने वाला 2. अनेक स्त्रियां रखने वाला पुरुष 3. बहुविवाहित पुरुष
अधिदेवन अधिदेवन (नं) अधिदेवनमु	संज्ञा	नेपाली, बंगला हिंदी, मलयालम तेलुगु	1. पहली पत्नी रहते दूसरा विवाह करना 2. एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करना 3. प्रथम भार्या के होने पर दूसरी शादी करना
अधिवेशन अधिवेशन अधिवेशन अधिवेशनं अधिवेशनमु	संज्ञा	हिंदी, गुजराती नेपाली, मराठी, संस्कृत असमी, उड़िया, बंगला मलयालम तेलुगु	1. किसी संस्था के विभिन्न क्षेत्र प्रतिनिधियों की सामूहिक बैठक 2. सभा की बैठक, जलगा, सेशन, संघ 3. स्थापना करना, समाज (मलयालम) 4. समावेश, अधिष्ठान, सभा आदि का स्थापन (बंगला)
अधिवैपुति	संज्ञा	मलयालम	पाज़िटिव बिजली
अधिशय अधिशय	संज्ञा	हिंदी संस्कृत	1. पीछे मिलायी या दी जाने वाली वस्तु 2. जोड़ 3. योग
अधिशयन	संज्ञा	हिंदी	लेटना या मोना, किसी वस्तु पर लेटना या मोना
अधिशयित अधिशयित अधिशयित	संज्ञा संज्ञा	हिंदी मलयालम बंगला	1. किसी चीज़ पर मोया या लेटा हुआ 2. जिस पर लेटा या मोया जाय 3. महारा लेकर अधलेटा हुआ
अधिशस्त	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	कृष्यात, बटनाम
अधिशिक्षक अधिशिक्षक	संज्ञा	हिंदी बंगला	1. शिक्षण संस्था में मुख्य अधिष्ठाता 2. अधिपुरुष (रेक्टर) (बंगला)
अधिशुल्क अधिशुल्क	संज्ञा	हिंदी नेपाली	अतिरिक्त शुल्क, सरचार्ज, विशेष परिस्थितिवश लगाया साधारण से अधिक शुल्क
अधिशोषण	संज्ञा	हिंदी	घन पदार्थों या गैसों का इतना सूखना कि उनके कण तल में रह जायें
अधिश्रय अधिश्रयं	संज्ञा	हिंदी, बंगला, संस्कृत मलयालम	1. पात्र, भाजन, आधार 2. उबालना, गर्माना 3. चूल्हे पर चढ़ाने की क्रिया या भाव

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अधिश्रयण अधिश्रयण	संज्ञा	मलयालम हिंदी, बंगला	1. उबालना 2. रांधना 3. पकाने के लिए चूल्हे पर रखना, पात्र को आग पर रखना
अधिश्रयणि अधिश्रयणी अधिश्रयणी	संज्ञा	मलयालम, तेलुगु कन्नड, संस्कृत हिंदी, नेपाली, बंगला	चूल्हा, अंगीठी, भट्टी, अग्निकुण्ड, उबालने या पकाने, गर्म करने का अग्नियुक्त उपकरण
अधिश्राम अधिश्रावक	संज्ञा संज्ञा	हिंदी हिंदी	लम्बी नियमित छुट्टी जिस में कार्य बंद रहें, वैकेशन शब्दों के ज़ोर से तथा दूर तक सुनाने का यंत्र (माइक्रोफ़ोन)
अधिश्रित अधिश्रित	विशेषण भूत कृदंत	बंगला हिंदी	1. आश्रित अवलंबित 2. स्थापित 3. प्राप्त 1. आग पर चढ़ाया हुआ 2. आरूढ़
अधिश्री अधिश्री	विशेषण	कन्नड, मलयालम संस्कृत	1. अत्यधिक धनवान 2. सर्वोपरि स्वामी या प्रभु 3. परमाधिकारी, सर्वोत्कृष्ट
अधिष्ठाता अधिष्ठाता (बु) अधिष्ठाता अधिष्ठातृ अविट्टाता अधिष्ठात्री अविट्टातिरु	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी नेपाली, मलयालम असमी, उड़िया, बंगला संस्कृत, असमी तमिल गुजराती, बंगला, नेपाली तमिल	1. नियामक, अध्यक्ष, मुखिया, ईश्वर 2. राजा, कारभारी, संस्थापक, अधिदेव 3. किसी कार्य की देखभाल या रक्षा करने वाला 4. रहने वाला, निवासी, अधिष्ठान का स्वामी 5. आश्रय देने वाली, स्थितिकारिणी 6. संस्कृत व्याकरण में जो शब्द स्त्रिलिङ्गी हों (नेपाली)
अधिष्ठान अधिष्ठान अधिष्ठान अधिष्ठान अधिष्ठान अधिष्ठान अधिष्ठान अधिष्ठान अधिष्ठान अधिष्ठानं अधिष्ठानमु	संज्ञा	हिंदी गुजराती नेपाली उड़िया मराठी असमी बंगला संस्कृत कन्नड मलयालम तेलुगु	1. वास स्थान, घर, बस्ती, ग्राम-क़स्बा, नगर 2. बैठा हुआ, आसन, आधार, तहख़ाना, मंदिर के विमान का आधार, भ्रांति या अध्यास का आधार 3. अवस्थान, सन्निधान, सन्निधि, उपस्थिति, उपवेशन 4. अधिकार, शासन, राज्य, सत्ता, सिंहासन, प्रभाव 5. भोक्ता और भोग का संयोग (सांख्य) + 6. दहाड़, पुकार, चिल्लाहट, रथचक्र (तमिल) 7. गच या थड़ी जिस पर खंभा खड़ा हो 8. संस्था के अधिकारियों का समूह या कार्य स्थान 9. लाभ के लिए व्यापार में धन लगाना (इनवेस्टमेंट) 10. अधिकार या स्वामित्व देना (वैस्टिंग)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अधिष्ठानम्		तमिल	11 आरोपित की आधार वस्तु यथा सर्प के लिए रज्जु
अधिष्ठान देवता	सज्ञा	मलयालम, तेलुगु	किरी धर्म स्थान का प्रधान देवता, इष्टदेव
अधिष्ठानभूमि	सज्ञा	बंगला	अवस्थान स्थल, आश्रय स्थल
अधिष्ठान शरीर	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 मृत्यु उपरान्त का सूक्ष्म शरीर, पितृ लोकवामी
अधिष्ठान शरीर		मलयालम	2 प्रेत 3 प्रेत शरीर प्रेतात्मा द्वारा स्वीकृत शरीर
अधिष्ठापक	सज्ञा	हिंदी, बंगला	शासनकर्ता, व्यवस्थापक
अधिष्ठापक वर्ग	सज्ञा	संस्कृत, बंगला	शासक वर्ग व्यवस्था करने वाले व्यक्तिगण
अधिष्ठापिककुक्	सकर्मक क्रिया	मलयालम	पदामीन करना नियुक्त करना
अधिष्ठे	सकर्मक क्रिया	मराठी	1 रहना बैठना 2 व्यापना आश्रय करना
अधिष्ठिञ्चु		तेलुगु	3 स्वीकार करना या अगीकार करना, आश्रयी रहना
अद्विट्त्तल्लु	सकर्मक क्रिया	तमिल	1 आधार खडा करना 2 अधिष्ठित करना, देवता
अद्विष्ठित्तल्लु		तमिल	का मूर्ति में प्रविष्ट होना, प्रतिष्ठापन करना
अधिष्ठिसु	क्रिया	कन्नड	देवभाल करना, शासन करना
अधिष्ठित	भूत कृदत	हिंदी, मराठी	1 ठहरा हुआ स्थापित, नियुक्त नियोजित, अवस्थित
अधिष्ठित	विशेषण	गुजराती, बंगला	आश्रित, रक्षित आश्रन अवलंबित वेष्टित
अधिष्ठित		नेपाली, संस्कृत	2 खडा हुआ 3 अधिकार या कब्ज में किया हुआ
अधिष्ठितमु		तेलुगु	4 नंतुत्व सभापतित्व, प्रभुत्व में किया हुआ
अधिष्ठित		मलयालम	5 व्यापार में लगा धन (इनवेस्टेड) 6 निर्वाचित
अधिष्ठित स्वार्थ	सज्ञा	हिंदी	वह स्वार्थ जो व्यापार उद्योग में धन लगा कर स्थापित किया हो
अधिसंख्य	विशेषण	हिंदी	1 नियत या प्रख्यापित से अतिरिक्त मख्या 2 ज्यादातर
अधिसूचना	सज्ञा	हिंदी, नेपाली	1 कार्य करने का लिखित विशेष निर्देश
अधिसूचना		संस्कृत	2 विशेष प्रकार की सूचना (नोटिफिकेशन) 3 सरकार द्वारा प्रकाशित गज़ट में छपी सूचना
अधिस्थान	सज्ञा	कन्नड	1 ठहरना, समीप होना 2 आधृत होना 3 पहिया 4 सरकारी अधिकार 5 पूर्व दृष्टान्त 6 दान दक्षिणा 7 नगद

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अधिसृष्टा	संज्ञा	बंगला	अत्यधिक आकांक्षा, उच्च अभिलाषा
अधिस्वर	संज्ञा	हिंदी	बहुत ऊंचा स्वर उत्पन्न करने की क्रिया या भाव
अधिस्त्री	संज्ञा	मलयालम, हिंदी	श्रेष्ठ स्त्री, ऊंची स्त्री, अन्य स्त्रियों से विशेष
अधिहारे	विशेषण	बंगला	अधिमूल्य में, अधिक मूल्य में
अधीक्षक	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	अधीनस्थ कर्मचारियों का कार्य निरीक्षक
अधीक्षक		संस्कृत, बंगला	(सुपरिटेन्डेंट)
अधीक्षण	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	कार्यालय के कर्मचारियों के काम की देखभाल
अधीक्षण		संस्कृत	करना, अध्यक्ष का काम
अधीत	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. अध्ययन किया हुआ, पठित
अधीत		नेपाली, मलयालम	2. सीखा, पढ़ा या ग्रहण किया हुआ
अधीत		कन्नड, बंगला, संस्कृत	3. ज्ञान संपादित किया हुआ+वेद पढ़ा हुआ (तेलुगु)
अधीतमु		तेलुगु +	4. पंडित ज्ञाता (नेपाली) पाठ, स्मृति (कन्नड)
अधीतविद्य	विशेषण	मलयालम, हिंदी	ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, वह विद्वान जिसने किसी विद्या
अधीतविद्यन्		संस्कृत	को अच्छी तरह ग्रहण कर लिया हो, पारंगत विद्वान
अधीति	विशेषण	बंगला, हिंदी	1. अध्ययनशील पाठक. जिसका पाठ समाप्त हो
अधीति	संज्ञा	संस्कृत, मलयालम	गया हो, विद्या ग्रहण में व्यस्त
अधीती		हिंदी	2. अध्ययन, पाठ, स्मृति (संज्ञा), बहुत पढ़ा हुआ
अधीन	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. निर्भर, आश्रित, वशीभूत, मातहत, ताबेदार,
अधीन		असमी, उड़िया, बंगला	आज्ञाकारी, अनुगत, विवश, बाध्य, लाचार, सेवक
अधीन		नेपाली, मलयालम	2. नियम निर्देश में बंधा हुआ, नियंत्रित
अधीन		पंजाबी, संत, कन्नड +	3. अधिकृत वस्तु या व्यक्ति (तमिल)
अधीनमु		तेलुगु	4. अधीनता, निर्भरता, पास रखने का अधिकार
अधीनम्		तमिल +	5. मालिकाना हक (तमिल)
अधिनु		सिंधी	
अधीन अधिकारिन्	संज्ञा	संस्कृत	1. मातहत अफसर, सबार्डिनेट आफिसर
अधीन अधिकारी	संज्ञा	हिंदी	2. किसी बड़े या मुख्य अधिकारी के नीचे काम करने वाला
अधीनता	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, सिंधी	1. निर्भरता, अधीनस्थता, अनुगतता, आज्ञाकारिता
अधीनता		मलयालम, बंगला	2. परवशता, विवशता, दीनता

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अधीनता		असमी, तेलुगु, नेपाली	3 ताबेदारी, नम्रता, गरीबी, दासता
अधीनत्व		गुजराती	4 आश्रितता, बाध्यता, लाचारी
अधीनगी/अधीनताई		पंजाबी	5 मातहत होने की दशा या भाव, मातहती
अधीनपण		मराठी	6 परतंत्रता, अन्य के नियंत्रण में होना
अधीनी		हिंदी	7 वशवर्तिता
अधीनस्थ	विशेषण	हिंदी, नेपाली	आज्ञा या अधिकार के नीचे, मातहत, ताबेदार
अधीनस्थन्यायालय	सज्ञा	हिंदी	उच्च न्यायालय के नीचे का न्यायालय
अधीनीकरण	सज्ञा	हिंदी, नेपाली	किसी को अपने अधिकार में करना (सबजुगेशन)
अधीने	अव्यय	असमी	नियंत्रण में, नीचे, अधिकार में
अधीयान	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	अध्ययन करने वाला, विद्यार्थी, छात्र
अधीवास	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	चोगा, लबादा, सारे शरीर को ढकने का अगरखा,
अधीवास		कन्नड	सब कपडों से ऊपर पहना कपडा,
अधीवासु		मलयालम	ऐसा निवास जिमसे पूरा शरीर ढक जाये
अधीश	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 महाराजा, अधिराज, स्वामी, प्रभु, अधिनाथ,
अधीश		नेपाली, बंगला, कन्नड	सार्वभौम नरेश राजाधिराज, सरदार, राजा
अधीशन्/अधीश		मलयालम, संस्कृत	2 ईश्वर, परमेश्वर जगन्नियता
अधीश- शक्ति	सज्ञा	मलयालम	चरम शक्ति, चक्रवर्तित्व, राजाधिराजत्व
अधीश्वर	सज्ञा	हिंदी, गुजराती	1 सर्वाच्च अधिपति, सम्राट, सार्वभौम नरेश,
अधीश्वर		असमी, उड़िया, बंगला	परमाधिकारी, अध्यक्ष
अधीश्वर		नेपाली, मराठी, कन्नड	2 चक्रवर्ती राजा, प्रधान, श्रेष्ठ कर्ता
अधीश्वरन्		मलयालम, संस्कृत	3 ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, जगदाधार, प्रभु
अधीश्वरुडु		तेलुगु	4 अर्हन (जैन), मालिक, स्वामी, पति
अधीष्ट	सज्ञा	मलयालम	1 अवेतनिक पद, मक्कार प्राप्त पद, सविनय प्रार्थित
अधीष्ट		संस्कृत	2 मागने पर दिये अध्यापक के निर्देश
			3 शिष्य को दिय निर्देश जिन्हे उसे पूरा करना है उच्च श्रेणी की या प्रार्थित स्त्री
अधीस्त्री	सज्ञा	हिंदी	
अत्थियक्कम्	सज्ञा	तमिल	आखों देखा ज्ञान जो प्रमाण माना जाता है (अध्यक्ष)
अध्यक्ष	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 सभापति, अधिष्ठाता, नियामक, सचालक, संस्था
अध्यक्ष		असमी, उड़िया, बंगला	का प्रमुख अधिकारी, परिचालक, प्रधान

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अध्यक्ष		नेपाली, कन्नड, संस +	2. महासभा का सभापति (नेपाली), अग्रासनस्थ
अध्यक्षन् (क्षं)	संज्ञा	मलयालम	+ 3. नेता, रक्षक, अभिभावक, नायक (असमी)
अत्तियक्कन् (म्)	संज्ञा	तमिल	4. पर्यवेक्षक, देख-रेख करने वाला
अध्यक्षुडु		तेलुगु	5. साक्षी, नेता, स्वामी, ईश्वर, प्रभु, नियंत्रक
अध्यक्ष	विशेषण	हिंदी, मराठी	1. गोचर, विचारणीय, ग्रहणीय, निरीक्षण करना,
अध्यक्ष		बंगला, गुजराती	देख-रेख करना, दृश्य, इंद्रिय ग्राह्य ज्ञान
अध्यक्षमु		तेलुगु	2. व्यापक, विस्तृत
अध्यक्ष		मलयालम	3. अधिअक्ष, आंखों के नीचे या मामने
अध्यक्षता	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, असमी	1. कार्य संचालन के लिए उच्च या प्रतिष्ठित पद
अध्यक्षता		बंगला, तेलुगु, कन्नड	2. अध्यक्ष पद, अध्यक्ष होने की क्रिया या भाव
अध्यक्षतन		कन्नड	3. कर्तृत्व, प्रभुत्व, परिदर्शन, तन्वावधायकता
अध्यक्षपद		गुजराती	किमी कार्य या सभा संचालन का पूर्णाधिकारी पद
अध्यक्षस्थल		गुजराती	अध्यक्ष की जगह, वह स्थान जिस पर अध्यक्ष
अध्यक्षस्थान		गुजराती	पदासीन होता है, सब से ऊची कुर्सी
अध्यक्षर	संज्ञा	हिंदी, बंगला	1. मुख्य अक्षर, पाठ्यक्रमानुसार, सब वर्णों से ऊपर
अध्यक्षर		गुजराती, संस्कृत	अक्षर ओंकार
अध्यक्षरं		मलयालम	2. ओंकार, प्रणव, ओम् मंत्र
अध्यक्षर	अव्यय	हिंदी	3. अक्षरशः, अक्षर प्रतिअक्षर, ज्यों का त्यों लिखा
अध्यग्नि	संज्ञा	मलयालम, हिंदी	1. विवाह के समय की हवन अग्नि के समीप या ऊपर
अध्यग्नि	अव्यय	संस्कृत	2. वह धन जो अग्नि की साक्षी में वर को दिया जाय
अत्तियक्किनि	अव्यय	तमिल	3. विवाह समय अग्नि साक्षी में वधू को दी गयी सम्पत्ति, स्त्री-धन
अध्यधीन	विशेषण	मलयालम	1. पूर्णतया अधीन, गुलाम, पूर्णतया वशवर्ती व्यक्ति
अध्यधीन	विशेषण	संस्कृत	2. बिका हुआ दास, जन्म का दाम
अध्यय	संज्ञा	कन्नड, संस्कृत	पढ़ना, पाठ करना, पाठ या अध्याय, विद्या
अध्ययन	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. पढ़ना, पाठ करना, अर्थ सहित पढ़ना
अध्ययन		असमी, उड़िया, कन्नड	2. ज्ञान प्राप्त करना, सीखना, विद्याभ्यास करना
अध्ययन		बंगला, नेपाली, संस्कृत	3. वेदाध्ययन

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अध्ययनं अध्ययनम् अत्तियानम्/यायनम्	संज्ञा	मलयालम तेलुगु तमिल	4. ब्राह्मणों के अध्ययन-अध्यापन, यजन याजन, दान प्रतिदान आदि षट्कर्मों में से एक 5. याद करने की विधि
अत्तियपट्टर अध्ययनशील	संज्ञा विशेषण	तमिल मराठी	अध्ययनपट्टर, मंदिर में पाठार्थ नियुक्त अर्चक अध्यासी, अनुशीलनकर्ता, विद्यापठन में अनुरत
अध्ययन बिरुत्ति अध्ययनवृत्ति अत्तियनबिरुत्ति	संज्ञा संज्ञा	मलयालम संस्कृत तमिल	1. मंदिर के वेद पाठी ब्राह्मणों को भरण पोषण के लिए दी गयी भूमि 2. वजीफा, स्टाइपेंड
अध्ययनावकाश अध्ययनावकाश	संज्ञा	नेपाली हिंदी	विषय विशेष के अध्ययन के लिए कर्मचारी को दी गई छुट्टी (स्टडीलीव)
अध्ययनीय	विशेषण	हिंदी	अध्ययन के योग्य, पठनीय
अत्तिययनोर्सवम् अध्ययनोत्सव	संज्ञा	तमिल संस्कृत	वैष्णव मंदिरों में दस दिन का उत्सव जिसमें दिव्य प्रबोध तथा वेद मंत्रों का पाठ होता है
अध्यर्ध	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	किमी वस्तु पर अधिकार जतलाना (क्लेम)
अध्यर्धन	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	दावा, अधिकार दिलाने वाले से फरियाद
अध्यर्धित	विशेषण	हिंदी	वह वस्तु जिसकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना की गई हो
अध्यर्धन	संज्ञा	मलयालम	वायु, पवन
अध्यर्ध	विशेषण	हिंदी, मलयालम, संस्कृत	अतिरिक्त आधा, डेढ़, आधा अधिक
अध्यार्द्धाशुर्कं	संज्ञा	मलयालम	एक प्रकार का रेशम
अध्यार्द्धद (वं)	संज्ञा	हिंदी, मलयालम	एक प्रकार का फोडा, ट्यूमर, गलगंड
अध्यवसान अध्यवसान अध्यवसान अध्यवसान अध्यवसानं	संज्ञा	संस्कृत हिंदी नेपाली गुजराती मलयालम	1. प्रकृत और अप्रकृत की एकरूपता या मिश्रण, एक का दूसरे के द्वारा निर्गीर्ण या एक जान हो जाना 2. तादात्म्य, तदरूपता, अध्यारोहण 3. श्रम, यत्न, आयाम, चेष्टा, उद्योग, उद्यम 4. निश्चित, ग्रहण, निश्चय 5. नाटक के 33 अलंकारों में एक 6. निर्णयात्मक स्थिति, समाप्ति
अध्यवसाय अध्यवसाय	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, उड़िया, बंगला	1. उद्योग, प्रयत्न, लगन, लगातार कोशिश 2. दृढ़विचार, संकल्प, निश्चय, अंगीकार

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अध्यवसाय अध्यवसायम् (यं) अस्तियवसायम्		नेपाली, संस्कृत, कन्नड + तेलुगु, मलयालम तमिल	3. बुद्धि संबंधी व्यापार, सत्व गुण का प्रादुर्भाव (संस) 4. दक्षता, तत्परता, उत्साह, प्रतीति + 5. मन की रुचि, झुकाव (तमिल)
अध्यवसायी अध्यवसायिन् अध्यवसायि	संज्ञा	हिंदी, बंगला, असमी संस्कृत मलयालम	उद्यमशील, परिश्रमी, लगातार करने वाला, दृढ़ निश्चयी, लगन का पक्का, उत्साही, कार्य निर्वाह में सतत प्रयत्नशील
अध्यवसित अध्यवसित अध्यवसित	विशेषण	मराठी मलयालम	1. जिसके लिए निश्चय, यत्न, अंगीकार या आकलन किया गया हो, संकल्पित, संकल्प पूर्वक कार्य में संलग्न 2. निश्चित, गृहीत, ज्ञात
अध्यवसिति	संज्ञा	हिंदी	प्रयास, प्रयत्न, उद्यम, कोशिश
अध्यारोप अध्यारोपण	संज्ञा	नेपाली हिंदी	1. भ्रमवश एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझना 2. मिथ्याज्ञान, अध्यास (वेदान्त) + 3. उठाना, अलग करना (नेपाली)
अध्यक्षन अध्यक्षन अध्यक्षनं	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत मराठी मलयालम	1. भरपेट खाने के बाद फिर खाना 2. पहला भोजन पचने से पहले फिर खाना 3. अनि भोजन, अजीर्ण, अनपच
अध्यस्त अध्यस्त	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी मलयालम	1. आरोपित, संकल्पित, ऊपर रखा या लगाया हुआ 2. अज्ञानवश हुई अनुभूति या विश्वास
अध्यस्थि अध्याक्रान्त	संज्ञा विशेषण	हिंदी, मलयालम मलयालम	हड्डी के ऊपर हड्डी उगना या निकलना आक्रमण करना, कब्जा कर लेना, स्वाधीन कर लेना
अध्यत्म अध्यात्म अध्यात्म अध्यात्मं (म्) अध्यात्मम् अधिआत्म अस्तियात्मम्	संज्ञा विशेषण संज्ञा, विशे.	हिंदी, गुजराती, मराठी नेपाली, संस्कृत, कन्नड असमी, उड़िया, बंगला मलयालम तेलुगु पंजाबी तमिल	1. आत्मा-परमात्मा संबंधी, आत्मा-देह-मन 2. जीवात्मा, परमात्मा, सूक्ष्म शरीर संबंधी, रूहनी 3. ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान, तत्त्वज्ञान, भीतरी ज्ञान 4. आत्मा तथा परमात्मा के गुणों और उनके पारस्परिक संबंध के विषय में किया जाने वाला दार्शनिक- चिंतन, विवेचन + 5. आत्मा को नियंत्रण में रखना (असमी) + 6. एक उपनिषद का नाम (तमिल)

शब्द	शब्द/भेद	भाषाएँ	अर्थ
अध्यात्मज्ञान	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	1 आत्मा परमात्मा सबधी ज्ञान, ब्रह्म विद्या
अध्यात्मज्ञान		असमी, मराठी	2 जीवन-जगत ईश्वर सबधी गहन विचार, विवेक
अध्यात्मज्ञानं		मलयालम	3 ब्रह्म ज्ञान, आत्मा अनात्मा का विवेक
अध्यात्मज्ञानु		सिंधी	+ 4 दिव्यचक्षु (सिंधी), ब्रह्म विचार
अध्यात्म तत्व	सज्ञा	असमी	आत्म तत्व एव परमात्मतत्व विषयक ज्ञान या विद्या
अध्यात्मदर्शी	विशेषण	हिंदी	1 परमात्मा को जानने वाला
अध्यात्मदर्शिनू		संस्कृत	2 ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्न
अध्यात्म प्रसादं	सज्ञा	मलयालम	लयमिद्धि, आत्मशान्ति, आनन्दमय कोष,
अध्यात्म प्रसाद		संस्कृत	परम आत्म शान्ति
अत्तियात्तुममवम्	सज्ञा	तमिल	(अध्यात्म मत) मायावाद, सत्यभ्रमवाद, किरिटाभ्रमवाद (भास्कर्यम्)
अध्यात्म योग	सज्ञा	संस्कृत, गुजराती	1 परमात्मा का ध्यान, इन्द्रियो से विरक्ति
अध्यात्म योग		मराठी, हिंदी	2 बाह्य विषयो मे विमुख हो आत्मा मे जूडना
अध्यात्म योगं		मलयालम	3 मन की वृत्ति को अन्तर्मुखी करना -
अध्यात्म-रति	विशेषण	हिंदी	- परमात्मा के ध्यान में मग्न रहना
अध्यात्म रामायणं	सज्ञा	मलयालम	महाकाव्य जिसमे गम चरित का वर्णन करते हुए,
अध्यात्म रामायण		हिंदी	अध्यात्म तत्व का प्रतिपादन किया गया है
अध्यात्मवाद	सज्ञा	हिंदी, नेपाली	आत्मा परमात्मा को सम्बद्ध मानने का सिद्धान्त,
अधिआत्म वाद		पंजाबी	रूढानियत, ब्रह्म आत्मा सबधी विचार का सिद्धान्त
अध्यात्मवादी	सज्ञा	हिंदी, नेपाली	अध्यात्मवाद का अनुयायी, दार्शनिक; जीव,
अध्यात्मवादिन्		संस्कृत	जगन और परमात्मा का विचार करने वाला
अध्यात्मविद्या	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	1 जीव ब्रह्म स्वरूप ज्ञान कराने वाली विद्या
अध्यात्मविद्या		मराठी, असमी, मलया	2 तत्वज्ञान विद्या, तत्वचिंतन, आत्मज्ञान
अधिआत्म विदिआ		पंजाबी	3 ब्रह्म विद्या, योगादि विद्याए, ज्ञानशास्त्र
अत्तियात्तुमशात्तिरम्		तमिल	आत्मा-परमात्मा के स्वरूप, संबंध आदि का विचार
अध्यात्मशास्त्र	सज्ञा	गुजराती, मराठी, हिंदी	करने वाला शास्त्र, ब्रह्मविचार
अध्यात्मिक	सज्ञा	हिंदी, गुजराती	1. आत्मा परमात्मा सबधी या ब्रह्मानी ज्ञान
अध्यात्मिक		मराठी, कन्नड	2 शैवागमों का एक भाग + 3. दूसरों द्वारा दी

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अध्यात्मिक अधिआत्मक अस्तियात्तुमिकम्	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत पंजाबी तमिल	गई शारीरिक या मानसिक पीड़ा (तमिल) 4. दम्भी, ढोंगी (मगठी), परमज्ञानी (कन्नड) 5. परम ब्रह्म से संबन्धित
अध्यात्मेन्द्रिय	संज्ञा	गुजराती	अध्यात्मविषयक तत्व का समझने की इंद्रिय
अध्यादेश अध्यादेश	संज्ञा	हिंदी, नेपाली सिंधी, संस्कृत	विशेष आवश्यकता पड़ने पर राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश पत्र (आर्डिनेन्स)
अध्यापक अध्यापक अध्यापक अधिआपक अध्यापकन् अस्तियापकन् अध्यापकु अध्यापकुडु	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली असमी, उड़िया, बंगला कन्नड, मराठी, संस्कृत पंजाबी मलयालम तमिल सिंधी तेलुगु	1. पढ़ाने वाला, शिक्षक, उपाध्याय, गुरु उस्ताद, प्रोफेसर, टीचर 2. आचार्य जो द्विज बालक का उपनयन संस्कार कर उसे वेद पढ़ने का अधिकारी बनाता है 3. किसी प्रकार की शिक्षा या किसी विषय का ज्ञान देने वाला, वृत्त्यर्थ कोई विद्या पढ़ाने वाला 4. मास्टर, ट्यूटर 5. अध्ययन कराने वाला या अध्ययन में सहायक
अध्यापिका अधिआपिका	संज्ञा	गुजराती, नेपाली पंजाबी	1. शिक्षिका, उपाध्याया, उम्नानी 2. अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप
अध्यापकी	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	अध्यापन का काम, पढ़ाने का कार्य या वृत्ति
अध्यापन अध्यापन अध्यापनमु अध्यापनं अस्तियापनम्	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी कन्नड, असमी, नेपाली तेलुगु मलयालम, संस्कृत तमिल	1. शिक्षा देना, पढ़ाने की क्रिया या भाव 2. शिक्षा देने की वृत्ति या पेशा 3. ब्राह्मणों के छः कर्मों में एक 4. वेद पढ़ाना 5. धर्मार्थ पढ़ाना, शुल्क लेकर पढ़ाना, सेवा के बदले पढ़ाना
अध्यापन परिवर	संज्ञा	गुजराती	शिक्षाशाला, पाठशाला, स्कूल, विद्यालय
अध्यापयिता (तु) अध्यापयितृ	संज्ञा	मलयालम, हिंदी संस्कृत	अध्यापक, शिक्षक, ज्ञानदाता, छात्र की बुद्धि को प्रकाशित करने वाला
अध्याय अध्याय अध्याय	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, उड़िया, बंगला नेपाली, कन्नड, संस्कृत	1. पाठ, परिच्छेद, विभाजित विषय, पुस्तक का प्रकरण, खंड, सर्ग, विभाग, पर्व, उल्लास, काण्ड

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अध्यायं		मलयालम	2. पठन काल, अध्ययन का उपयुक्त काल
अध्यायमु		तेलुगु	3. अनध्याय का विलोम
अस्तियायम्		तमिल	4. एक समय में एक विषय का विभाजित अंश
अधियाउ		सिंधी	5. किसी ग्रन्थ का एक भाग या खंड जिसमें किसी विषय के विशेष अंग का विवेचन हो
अधिआ/अधिआउ		पंजाबी	
अस्तियायनम्	संज्ञा	तमिल	अध्ययनम्- विशेषतया वेदज्ञान
अध्यायि	संज्ञा	मलयालम	1. पढ़ने या पाठ करने वाला
अध्यायिन्		संस्कृत	2. अध्ययनशील 3. अध्ययन में सलग्न
अध्यायी	संज्ञा	हिंदी	4. विद्यार्थी, छात्र
अध्यारूढ	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1. चढ़ा हुआ, आरूढ़, सवार
अध्यारूढ		मलयालम	2. आक्रान्त 3. बहुत अधिक
अध्यारूढ		संस्कृत	4. तुलना में अच्छा या श्रेष्ठतर
अध्यारोप	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	1. किसी के ऊपर रखना, एक पर दूसरी वस्तु रखना
अध्यारोप		कन्नड, संस्कृत	2. भ्रमवश कुछ को कुछ मानना, समझना
अध्यारोपं		मलयालम	3. एक वस्तु के गुण धर्म भ्रमवश दूसरी में मानना
अस्तियारोपम्		तमिल	4. जो वस्तु का गुण-धर्म न हो वह दूसरी वस्तु में मान लेना, समझना
अध्यारोप		गुजराती	5. मिथ्याज्ञान, भ्रमित ज्ञान (वेदान्त)
अध्यारोप		भराठी	6. वेदान्त में कोई कल्पना, धारणा या सिद्धांत
अध्यारोपण	संज्ञा	हिंदी	1. अध्यारोप 2. दोष या कलंक लगाना 3. बोना, पौधे को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर जमाना
अध्यारोपण		संस्कृत	
अध्यारोपित	विशेषण	मलयालम	1. गलती से, या गलत ढंग से किसी पर लगा आरोप 2. सुपर इंपोज़, भ्रम वश आरोपित
अध्यारोपित		हिंदी	
अध्यारोपिसु	क्रिया	कन्नड	अधिकार आरोपण, निर्दिष्ट करना
अध्यारोहण	संज्ञा	गुजराती	1. आरूढ़ होना, चढ़ना, सवार होना
अध्यारोहणं		मलयालम	2. ऊंचा चढ़ा हुआ, ऊपर चढ़ा यथा सोने का पत्तर या सोने का पानी

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अध्यावापं अध्यावाप अध्यावाप	संज्ञा	मलयालम नेपाली संस्कृत	बीज बोना, बीज बखेरना, खेत को हल से जोत कर फिर जमीन में बीज डालना, बीज छितराने की क्रिया
अतियावस्ती अध्यावरचा	संज्ञा विशेषण	तमिल मराठी	(अध्यावस्थ) खतरनाक हालत (रोगीआदि की) 1. मार्ग का, रास्ते पर 2. अस्थायी, क्षणिक 3. ऊपर का
अध्यावाहनिक अध्यावाहनिक अध्यावाहनिकं अतियावाहनिकम्	संज्ञा	नेपाली, हिंदी संस्कृत मलयालम तमिल	1. दहेज, स्त्रीधन, कन्या को विवाह में दिया जाने वाला धन आदि, छः प्रकार के स्त्री धनों में से एक 2. वर गृह में आकर वधू को प्राप्त उपहार जो उसकी अलग सम्पत्ति या स्त्रीधन होता है
अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास अध्यासं अतियासम्	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत नेपाली, कन्नड गुजराती मराठी मलयालम तमिल	1. किसी वस्तु के गुण को दूसरी वस्तु में स्थापित करना, जिसमें वह नहीं है (रस्सी में सोंप) 2. भ्रान्तज्ञान, प्रतीति, भ्रान्त धारणा, भ्रम 3. मिथ्याज्ञान, अध्यारोप, धोखा (इल्युज़न) + 4. अध्यक्ष का काम, बैठक (नेपाली, संस) + 5. निरन्तर लक्ष्य का गहरा चिन्तन (गुजराती)
अध्यासन अध्यासन अध्यासनं अध्यासवुं	संज्ञा क्रिया	हिंदी, नेपाली कन्नड, संस्कृत मलयालम गुजराती	1. आसन ग्रहण करना, बैठना, उच्चासन लेना 2. सभापतित्व करना, औरों से ऊंचा बैठना 3. निरीक्षण करना, अध्यक्षता करना मिथ्या-ज्ञान प्राप्त करना, भ्रमित होना
अध्यासित अध्यासीन अध्यासीन	विशेषण विशेषण	मलयालम हिंदी, नेपाली मलयालम	1. ऊपर बैठा हुआ, कब्जा किया हुआ 2. अध्यक्षता किए हुए (प्रिंसाइडिंग) 3. अग्रसनासीन (किसी वर्ग या समाज में)
अध्यासिककुक्	सकर्मक क्रिया	मलयालम	1. आसनासीन होना 2. अध्यक्षता करना
अध्याहरण अध्याहरण अध्याहरण अध्याहरण अध्याहरणं	संज्ञा	हिंदी गुजराती कन्नड संस्कृत मलयालम	1. वाक्य में छूटे पद की अर्थपूर्ति के लिए अनुक्त पद या अर्थ जोड़ लेना, निष्कर्ष निकालना 2. लुप्तपद या न्यूनपद की पूर्ति में शब्दआरोपित करना 3. तर्क-वितर्क, उल्ल-पोह, छन-बीन करना, विचार, बहस 4. अस्पष्टता होने पर आशय या मन्तव्य निकालना (इन्फरेंस)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अध्याहार अध्याहार अध्याहारं अध्याहारम् अतियाहारम्	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी नेपाली, असमी, कन्नड मलयालम तेलुगु तमिल	1 अर्थ पूर्ति के लिए वाक्य में शब्द जोड़ना 2 अधूरे वाक्य को पूरा करने के लिए शब्द बढ़ाना 3 अपाहृत शब्द या छूटे हुए शब्द मिलाकर वाक्य पूरा करना 4 किसी शब्द या वाक्य को बढ़ाना
अध्याहृत अध्याहृत अध्याहृत अध्याहृत	विशेषण	हिंदी संस्कृत गुजराती मराठी	1 अर्थ बोध के लिए परिकल्पित शब्द, वाक्य में लुप्त शब्द की अर्थ पूर्ति के लिए अपनी ओर से जोड़ना + 2 पूर्वगृहीत (गुजराती) परिकल्पित (मराठी) 3 अध्याहार किया हुआ शब्द (अडरस्टुड या इन्फर्ड)
अध्युषित अध्युष्ट अध्युष्टं (ऽ)	विशेषण विशेषण सज्ञा	हिंदी, मलयालम, संस्कृत हिंदी, संस्कृत मलयालम, (हिंदी, संस्कृत)	निवसित, बसा हुआ, रहता हुआ, आबाद 1 बसा हुआ, आबाद 2 साढ़े तीन ऊट गाड़ी, चौपहिया जिसमें ऊँट जुते हों
अध्युद्ध अध्युद्धन् अध्युद्ध	सज्ञा/विशेषण सज्ञा सन्धा	हिंदी, संस्कृत, मलया+ मलयालम नेपाली	1 वह पुरुष जो विवाह से पहले मा के गर्भ में आया है (हिंदी) 2 ऊपर उठ, उन्नत 3 समृद्ध 4 अत्यधिक, अपरिमित 5 शिव, महादेव, सब से ऊपर का देव, महान देवता
अध्युद्धा अध्युद्धे (दन्) अध्युद्धा	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत कन्नड, (मलयालम) नेपाली	+ 1 विवाह पूर्व गर्भिणी स्त्री (हिंदी) 2 वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो 3 प्रथम विवाहिता पत्नी, ज्येष्ठा पत्नी
अध्युहन अध्येतव्य	सन्धा विशेषण	हिंदी, संस्कृत हिंदी, मलयालम	(राख आदि की) परत डालना पढ़ने या अध्ययन करने के लिए, उपयुक्त
अध्येता अध्येता (दु)	सज्ञा	हिंदी, गुजराती मलयालम, उड़िया	1 विद्यार्थी, पाठक, शिक्षक 2 विशेष विद्याभ्यासी + 3 विद्वन्मण्डल का सदस्य (फैलो) (गुजराती)
अध्येत्री अध्येय	सन्धा विशेषण	गुजराती, हिंदी हिंदी	अध्ययन करने वाली, स्त्री अध्येता वह विषय जो अध्ययन योग्य हो
अध्येषणा अध्येषणे अध्येषणा अध्येषण	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत कन्नड मलयालम हिंदी, संस्कृत	1 विद्यादान की आचार्य से प्रार्थना 2 कोई कार्य कराने की प्रार्थना 2 निवेदन, याचना 4 आदर पूर्वक किसी कार्य में प्रवृत्त करना

‘अभि’-उपसर्ग की व्याप्ति

‘अभि’ भी ‘अति’, ‘अधि’ की जाति का ही उपसर्ग है। यह क्रिया, संज्ञा तथा विशेषण के आगे जोड़ा जाता है। क्रिया पदों में लगकर यह प्रायः ओर, तरफ, पर, ऊपर, पक्ष में, विपक्ष में, पास, समीप, आसपास, ऊपर डालना, छिड़कना आदि अर्थ देता है। संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों में जुड़कर यह उनके अर्थों में अधिकता, श्रेष्ठता, उत्कृष्टता, क्रमबद्धता आदि अर्थों की वृद्धि का संकेत करता है। यथा:—

अर्थ-संकेत

ओर, तरफ, सामने
समीपता
चारों ओर
सर्वतोरूप से
उत्कृष्टता, श्रेष्ठता
डालना, छिड़कना
बहुमान पूर्वकता
विवेचना या विद्वता पूर्णता
मात्राधिकता
अनुकूलता
प्रतिनिधित्व
अधिकार पूर्वकता
भलीभाति, पूर्णतया
क्रमबद्धता, वीप्सा
आरोपण

उदाहरण

अभिमुख, अभ्यागत
अभिसार
अभिवीक्षण, अभिव्याप्त
अभिज्ञान
अभिजात, अभिधर्म
अभिषेक, अभिषेचन
अभिवंदन, अभिनन्दन
अभिभाषण, अभिपत्र
अभिकंपन, अभिमान
अभिरूप
अभिकर्ता
अभिरक्षण
अभिव्यजन, अभ्युदय
अभ्यास, अभिलाषा
अभियोगी, अभियुक्त

ज्ञातव्य

1. उक्त ‘अर्थ-संकेतों’ में से अनेक एक दूसरे के पर्याय शब्दों के लिए सरलता से प्रयोग में लाये जा सकते हैं। कारण यह है कि ‘अभि’ में अधिकता, व्यापकता, श्रेष्ठता, तीव्रता आदि की एक सम्मिश्रित भावना भरी है। वह भावना विभिन्न शब्दों में लगकर अनेक प्रकार के शब्दों में अर्थ संकेतित करती है।
2. यदि प्रत्येक भाषा के शब्द को स्वतंत्र या भिन्न ईकाई मानकर गणना की जाय तो आगे दिये ‘अभि’ युक्त शब्दों की संख्या 2415 है। इनमें तमिल के 99, तेलुगु के 122, कन्नड के 167, मलयालम के शब्द 498 अर्थात् दक्षिणी भाषाओं के 886 शब्द हैं। हिन्दी की शब्द संख्या 430 है। शेष भारतीय भाषाओं की शब्द संख्या 1317 है।

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अधिक	विशेषण	हिंदी, नेपाली, मराठी	1. लपट, कामी, विषयासक्त
अधिक		गुजराती, कन्नड, संत, मलया	2. प्रेमी, पति
अधिकन्	सज्ञा	मलयालम	3. कामी पुरुष, वासना लिप्त
अधिकुडु		तेलुगु	+ 4. इच्छुक व्यक्ति (तेलुगु)
अधिकंपन	सज्ञा	हिंदी	बहुत जोर से कापना या हिलना, अधिक
अधिकम्पनं		मलयालम	कपायमान होना
अधिकथन	सज्ञा	हिंदी	आरोप या अभियोग जो अभी प्रमाणित न हुआ
अधिकथन		संस्कृत	हो (एलीगेशन), अप्रमाणित आरोप
अधिकरं	सज्ञा	मलयालम	1. नगरपालिका का टैक्स (बगला) अतिरिक्तकर (मरा)
अधिकर/अधिपट्टी		बंगला, मराठी	2. माम पेशियो के जोड़ जो तन या बढ़ सके
अधिकरणं	सज्ञा	मलयालम	1. संगीत में रागालाप के प्रधान रूप का दूसरा भाग
अधिकरण	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	2. किसी बड़े उद्योग या व्यापार की अधीनस्थ स्था (फ़िज़्सी)
अधिकर्ता	सज्ञा	हिंदी	1. प्रतिनिधि रूप में काम करने के लिए नियत
अधिकर्तृ		संस्कृत	(एजेन्ट) 2. सपत्ति आदि की व्यवस्था के लिए प्रतिनिधि, मुख्तार (अटार्नी)
अधिकर्ता-पत्र	सज्ञा	हिंदी	वह पत्र जिसके द्वारा किसी को अधिकर्ता नियत किया हो, मुख्तारनामा (पावर आफ अटार्नी)
अधिकर्तृत्व	सज्ञा	हिंदी	1. अधिकर्ता होने की अवस्था या भाव
			2. देखे - अभिकरण
अधिकर्ष	सज्ञा	बंगला	पृथ्वी के मध्य बिंदु की ओर जड़ पदार्थ का आकर्षण (ग्रेविटी)
अधिकर्षणं	सज्ञा	मलयालम	1. खींचना, आकर्षित करना 2. कृषि का एक उपकरण
अधिकलन	सज्ञा	हिंदी	1. परिकलन का वह रूप जिसमें अनुभवों, घटनाओं,
अधिकलन		संस्कृत	सिद्धान्तों आदि से सहायता ली जाती है
अधिकलन		गुजराती	(कम्प्यूटेशन)
अधिकलन		मराठी	2. ज्योतिष में आषी, भूकम्प आदि की भविष्यवाणी के अनुमान
अधिकल्प	सज्ञा	हिंदी	यत्र आदि की जाच कर उसके कल पुर्जों को अलग-अलग
			से ठीककर फिर यथा स्थान बैटन (ओवरहालिंग)
अधिकल्पन	सज्ञा	हिंदी	अधिकल्प करने की क्रिया या भाव

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अधिकल्पना	संज्ञा	हिंदी	वह कल्पना जो किसी तर्क आदि का आधार मान ली जाय (एज़म्पशन)
अधिकांक्षा अधिकांक्षा	संज्ञा	हिंदी, नेपाली मलयालम, संस्कृत	1. इच्छा, अभिलाषा, लालसा 2. आग्रह (मलयालम)
अधिकांक्षी(शिन्) अधिकांक्षिकुक	विशेषण क्रिया	नेपाली, संस्कृत मलयालम	अभिलाषी, आकाक्षी, उत्कण्ठित, ख्वाहिशमंद इच्छा करना, आकांक्षा करना
अधिकाम अधिकाम(मं)	विशेषण संज्ञा	मलयालम हिंदी, संस्कृत, मलया	1. अनुरागी, स्नेही, इच्छुक, कामी, कामुक 2. स्नेह, प्रेम, इच्छा, आग्रह, ख्वाहिश
अधिकाम्य अधिकाक्ष अधिकृति	विशेषण विशेषण संज्ञा	मलयालम, संस्कृत मलयालम मलयालम, कन्नड	वांछनीय, जिसकी कामना की जाय उज्ज्वल, चमकीला, प्रकाशवान पच्चीस मात्राओं वाली 4 पंक्तियों का छंद
अधिकृत्वा (वु) अधिकृत्वन्	संज्ञा	मलयालम संस्कृत	1. ऐंद्रजालिक, मायावी, जादूगर, बाजीगर 2. पिशाच, दानव, प्रेत, भूत
अधिकेन्द्र अधिकोण अधिक्रतु अधिक्रन्वं (व)	संज्ञा संज्ञा विशेषण संज्ञा	नेपाली, बंगला गुजराती संस्कृत मलयालम, संस्कृत, हिंदी	1. केंद्र के अभिमुख को गमन 2. आकर्षणकारी लम्ब कोण सन्मुख होकर लड़ने वाला योद्धा गर्जन, दहाड़, चीख, ज़ोर से रोना, चिल्लाहट
अधिक्रम अधिक्रम अधिक्रमं अधिक्रममु	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, संस्कृत नेपाली, बंगला, कन्नड मलयालम तेलुगु	1. समीप गमन, आगे बढ़ना 2. आरम्भ, प्रयत्न + 3. स्थानच्युति (बंगला) 4. युद्ध यात्रा, आक्रमण, धावा 5. आरोहण, चढ़ाई, सवार होना
अधिक्रमण अधिक्रममु अधिक्रमणं	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, बंगला तेलुगु मलयालम, संस्कृत	1. आक्रमण करना, हमला, धावा बोलना 2. आरूढ़ होना, चढ़ाई करना, आगे की ओर बढ़ना 3. वश में कर लेना, काबू करना, कब्जे में करना
अधिक्रान्ति अधिक्रान्ति अधिक्रान्ति	संज्ञा	हिंदी, नेपाली बंगला, मलयालम संस्कृत	1. अधिक्रमण के समस्त अर्थ देखें 2. किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने का भाव (डिसपलेसमेंट), विस्थापन (हिंदी)
अधिक्रोश अधिक्रोश	संज्ञा	हिंदी, नेपाली संस्कृत	1. गाली, निंदा, अपशब्द, भर्त्सना, आक्रोश, फटकार, अख्याति

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिक्रोशं अभिक्रोश	संज्ञा	मलयालम गुजराती, बंगला	+ 2. विलाप, आर्तनाद, पीड़ायुक्त क्रंदन (मलयालम) 3. पुकारना 4 चिल्लाहट
अभिक्रोशन् अभिक्रोशक	संज्ञा	मलयालम संस्कृत, नेपाली, हिंदी	1. निन्दक 2. पुकारने वाला, गाली देने वाला 3. प्रख्यापक 4. शाप देने वाला
अभिक्षिप्त अभिक्षिप्त	विशेषण विशेषण	मलयालम संस्कृत, बंगला	1. फेंका हुआ, दूर उछाला हुआ 2. निंदित, तिरस्कृत 3. अतिशय 4. गणित में प्रोजेक्टिड या प्रक्षिप्त
अभिक्षेप	संज्ञा	बंगला	1. बहिर्गत अंश 2. अभिभव 3. आक्रमण
अभिख्या अभिख्या अभिख्ये अभिक्रिक्ये	संज्ञा	हिंदी, बंगला, कन्नड मलयालम, तेलुगु, संस कन्नड तमिल	+ 1. नाम, उपाधि, पदवी, अभिधा 2. शोभा, सौन्दर्य, कान्ति, तेज, माहात्म्य, प्रभाव 3. प्रसिद्धि, कीर्ति, गौरव, यश, घोषणा, पुकार 4. प्रज्ञा 5. आह्वान, संबोधन, समानार्थवाची शब्द (हिंदी)
अभिख्यात्	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1. प्रशस्त, यशस्वी 2. प्रसिद्ध, मशहूर 3. परिचित
अभिख्यान अभिख्यानं	संज्ञा	हिंदी, कन्नड, संस्कृत मलयालम	+ 1. नाम, प्रसिद्धि, यश, कीर्ति, गौरव, ख्याति 2. असत्यारोपण, अधिक्षेप, दूषण, दुःतर्क (मलयालम)
अभिगतम् अभिगत	संज्ञा विशेषण	तमिल बंगला, मलयालम	समीप पहुंचा हुआ, निकटवर्ती, उपगत, संगम रत, सामने आया हुआ
अभिगति	संज्ञा	मलयालम	1. पास जाना 2. आना, पहुंचना, अभिमुख जाना
अभिगन्ता (बु) अभिगन्ता-न्	संज्ञा	मलयालम संस्कृत	1. अभिगमन करने वाला 2. समीप जाने वाला 3. मन में ग्रहण करने वाला
अभिगम अभिगमं अभिगमम्	संज्ञा	हिंदी, बंगला, संस्कृत मलयालम तेलुगु	+ 1. पास जाना, पहुंचना 2. संभोग, सहवास करने वाला 3. आश्रय, प्रत्युदगमन, प्राप्ति, सेवा, संगम (बंगला)
अभिगमन अभिगमन अभिगमन अभिगमन	संज्ञा	कन्नड, गुजराती असमी, बंगला हिंदी, नेपाली संस्कृत	+ 1. समीप जाना, सहवास, मैथुन 2. स्त्री के साथ गुप्त संबंध 3. देव मूर्ति का शृंगार, दोपहर का फलाहार (कन्नड) 4. समीप आता हुआ (असमी) 5. भेंट

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिगमनं अभिगमनमु	संज्ञा	मलयालम तेलुगु	+ 6. रामानुज संप्रदाय में देव मूर्ति मार्ग को गोबर से लीपना-उपासना के पांच भागों में एक (मलयालम)
अभिगम्य अभिगम्यमु	विशेषण	गुजराती, मलयालम तेलुगु	1. समीप जाने योग्य, अभिगमन या आश्रय योग्य + 2. प्रलोभन, अन्वेषण (मलयालम)
अभिगरं अभिगर	संज्ञा	मलयालम संस्कृत	1. स्तुति, आह्वान, आवाहन 2. बुलाना, पुकारना, ऊंचे स्वर से प्रार्थना करना
अभिगरन्	संज्ञा	मलयालम	पुरोहित या पुजारी जो प्रार्थना, अर्चना में ज़ोर से पुकारता है या समर्थन करता है
अभिगर्जनं अभिगर्जन	संज्ञा	मलयालम संस्कृत	1. घोर स्वर, बादल बिजली की कड़क 2. भयंकर दहाड़, भयंकर गर्जना
अभिगर्जितं अभिगर्जित	संज्ञा	मलयालम संस्कृत	भयानक गर्जना हुई, भयंकर दहाड़ हुई, बहुत ज़ोर से कड़का-तड़का
अभिगामी अभिगामी अभिगामि अभिगामिन्	विशेषण	हिंदी, गुजराती बंगला, असमी, नेपा + तेलुगु संस्कृत	1. अभिगमन करने वाला, भोग करने वाला 2. जिसका किसी स्त्री से गुप्त संबंध हो (असमी) 3. पास जाने वाला, प्रत्युद्गमनकर्ता + 4. प्राप्ति, सेवा, संगम (असमी, बंगला)
अभिगीत अभिगुप्त	विशेषण	मलयालम मलयालम	सस्वर सुन्दर पाठ, गान रूप में प्रस्तुत 1. अच्छी तरह छिपाया हुआ 2. संरक्षित, सुरक्षित
अभिगुप्ति अभिगुप्ति	संज्ञा	हिंदी, मलयालम संस्कृत	पूरी तरह छिपाना, पहरा देना, बचाना, संरक्षण, रक्षण, छिपाकर या बचाकर रखने की क्रिया या भाव
अभिगूर्ति अभिगूर्ति	संज्ञा	मलयालम संस्कृत	1. प्रयत्न, श्रम 2. स्तुति गीत 3. निरन्तर चिन्तन या अभिलाष
अभिगृहीत अभिगृहीत	भूत कृदंत	हिंदी संस्कृत	चुनकर,छांटकर, अच्छा मानकर अपनाया या ग्रहण किया गया (एडाप्टेड)
अभिगोप्ता(बु) अभिगोप्ता अभिगोप्त्	संज्ञा विशेषण विशेषण	मलयालम हिंदी संस्कृत, गुजराती	1. रक्षक, संरक्षक, अभिभावक, रक्षा करने वाली 2. जो पूरी तरह गोपन करे या छिपाये 3. जो पालन, पोषण, देखभाल तथा संरक्षण करे

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिग्रस्त अभिग्रस्त	विशेषण	बंगला, मलया, कन्नड हिंदी, गुजराती	1 काव् या कब्जे मे किया हुआ, शत्रु द्वारा दबाया हुआ 2 आक्रान्त या घिरा हुआ 3 ग्रमित, निगला हुआ या कथलीकृत; लूटा हुआ
अभिग्रह अभिग्रह अभिग्रह अभिग्रह अभिग्रहं अभिग्रहमु	सज्ञा	हिंदी कन्नड बंगला संस्कृत मलयालम तेलुगु	1 अपहरण, ग्रहण, लूट, बलात छीनना, चुनौती, शिकायत, आक्रमण 2 शक्ति परीक्षण के लिए बलकार आवाहन 3 कमकर पकड़ना, चोरों करने चोर को पकड़ना + 4 म्पर्धा, गौरव, साहस, अभियोग (बंगला) 5 शिकायत, फरियाद 6 अधिकार, नभार (कन्नड) + 7 शत्रु का सामना करना (तेलुगु) + 8 विजय यात्रा की शपथ, चुनौती स्वीकार करना (मलयालम)
अभिग्रहण अभिग्रहण अभिग्रहणं	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत बंगला मलयालम	1 वस्तु का उमक स्वामी के सामने अपहरण 2 लूट खसोट, बलपूर्वक छीनना, (Adoption) 3 कम कर पकड़ना 4 अपने अधिकार में कर लेना
अभिषट अभिषट्टनं अभिषटिंचु	सज्ञा सज्ञा सकर्मक क्रिया	हिंदी मलयालम तेलुगु	घड़े के आकार का एक प्राचीन वाजा युद्ध, हमला, मुकाबला, घोर मार काट युद्ध करना
अभिषर्षणं	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	1 घिसना, गगड़ 2 भूतावेश, प्रता द्वारा दबायना
अभिघात अभिघात अभिघातं अभिघात अभिघातमु	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली बंगला, कन्नड मलयालम संस्कृत तेलुगु	1 चोट, प्रहार, आघात, घातना, पीड़न, हत्या 2 ताड़ना, चोट करना, घर्षण 3 आक्रमण, मार, मर्यानाश, क्षय + 4 अति प्रेरणा, अत्यंत (नेपाली) + 5 प्रतिकार (बंगला) 6 विघ्न, हानि (कन्नड)
अभिघातक अभिघातकन् अभिघाति अभिघातिन् अभिघाति	विशेषण	हिंदी, नेपाली, गुजराती मलयालम कन्नड, तेलुगु, मलया संस्कृत तमिल	1 मारकाट करने वाला, प्रहारक, आक्रामक 2 शत्रु, वैरी, हत्याग + 3 पीडादायक घातना देने वाला (बंगला) + 4 प्रतिकारक (बंगला) + 5 विघ्न डालने वाला, हानि पहुंचाने वाला (कन्नड)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिघातकुट्टु अभिघाती		तेलुगु हिंदी, बंगला	+ 6. प्रति प्रेरणा देने वाला (नेपाली) 7. अभिघात करने वाला, नाशक
अभिघातज्वरं अविघातजुरम् अभिघातज्वर	संज्ञा	मलयालम तमिल संस्कृत	1. चोट, शोक या थकान से आया बुखार 2. सदमे के आघात से आया ज्वर
अभिघातशोर्षं	संज्ञा	मलयालम	चोट आदि की भयंकर सृजन
अभिघार अभिघार अभिघारं अभिघारणं	संज्ञा	हिंदी, मराठी कन्नड, संस्कृत मलयालम मलयालम, संस्कृत	1. आग में घी छिड़कने या डालने की क्रिया 2. होम में घी की आहुति देना 3. होम द्रव्यों में घी छिड़कना 4. साग-सब्जी में घी का बघार देना
अभिघर अभिघर अभिघर अभिघरन् अभिघरुडु	विशेषण विशेषण संज्ञा संज्ञा संज्ञा	हिंदी, बंगला कन्नड, मलयालम गुजराती, संस्कृत तमिल तेलुगु	+ 1. अनुचर, सेवक, नौकर-चाकर, भृत्य + 2. पुरुष नर्स (बंगला) + 3. साथी, सहायक (तेलुगु) + 4. क्षुद्र प्रयोग, जादू टोना, मायावी (मलयालम) + 5. मित्र (तमिल)
अभिघरण अभिघरणं	संज्ञा	हिंदी, गुजराती मलयालम, संस्कृत	+ 1. नौकरी, सेवकी आदि करना, अनुसरण करना + 2. बुरे काम के लिए अनुष्ठान, श्येन योग (संस्कृत)
अभिघार अभिघार अभिघार अभिघारं अविघारम् अभिघारम्	संज्ञा	हिंदी, मराठी, गुजराती नेपाली, बंगला, असमी कन्नड, संस्कृत मलयालम तमिल तेलुगु	1. शत्रुनाश के लिए मंत्र, जप, होम आदि क्षुद्र प्रयोग 2. जारण-मारण-मोहन-स्तंभन प्रयोग; विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण आदि छः तांत्रिक प्रक्रियाएं 3. जादू-टोना आदि हिंसात्मक प्रयोग 4. बुरे काम के लिए अनुष्ठान
अभिघारकन् अभिघारक अभिघारी अभिघारि अविघारि अभिघारिन्	संज्ञा संज्ञा	मलयालम हिंदी, गुजराती, बंगला मराठी, बंगला मलयालम, तेलुगु तमिल संस्कृत	1. तंत्र के छः प्रकार के प्रयोग करने वाला 2. जादू-टोने करने वाला 3. मदारी, मायावी, तांत्रिक, जादूगर 4. जारण-मारण आदि के प्रयोग करने वाला 5. अभिघार करने वाला, अनुष्ठानकर्ता

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अविचारजुरम्	संज्ञा	तमिल	मारण मंत्र के यज्ञ से हुआ ज्वर
अविचोदित	विशेषण	मलयालम	प्रेरित, कार्य करने के लिए उत्साहित
अविच्छायं	अव्यय	मलयालम	छाया या अंधेरे में
अभिजन	संज्ञा	हिंदी, गुजराती	1. कुल, वंश, जाति, परिवार, कुनबा, कुटुम्ब
अभिजन		बंगला, नेपाली	2. वंशज, पूर्वज, पितृ आदि, पूर्व बन्धु, सबधीजन,
अभिजन		मराठी, कन्नड	परिजन, कुल का मुखिया
अभिजन		संस्कृत	3. जन्मभूमि, स्वदेश, पैतृक स्थान, देश
अभिजनं		मलयालम	4. कुलभूषण, नीतिमान, सत्कुल उत्पन्न, पंडित
अभिजनम्		तमिल	5. कुलीनता, सत्कुल, उत्तमकुल
अभिजनमु		तेलुगु	6. ख्याति, कीर्ति, प्रसिद्धि 7. परिचारक, अनुचर, हमराही
अभिजनन्	संज्ञा	कन्नड	उत्पन्न करना, पैदा करना
अभिजन्मं	संज्ञा	मलयालम	आभिजात्य, कुलीनता, श्रेष्ठ घर या ऊंचे
अभिज्जात्य/जनवत्	संज्ञा	मराठी, संस्कृत	खानदान में जन्म लेना, खानदानी पैदाइश
अभिजय	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	पूर्ण विजय, अच्छी जीत, साधारण से अधिक
अभिजयं		मलयालम	श्रेष्ठ या कठिनता से पायी हुई जैय
अभिजात	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. ऊंचे या श्रेष्ठ कुल-वंश-खानदान में पैदा,
अभिजात		नेपाली, उड़िया, बंगला, संत	खानदानी 2. कुलीन, ज्ञानी, बुद्धिमान, शिष्ट,
अभिजातं/त		मलयालम, कन्नड	मधुर, विनम्र, भाग्यवान, पंडित, गुणवान, मनोहर,
अभिजातन्	संज्ञा	तमिल	सुंदर, सम्पन्न, विदग्ध, सुसंस्कृत, सभ्रान्त, प्रतिष्ठित
अभिजातम्/तुडु		तेलुगु	व्यक्ति, पूज्य, योग्य, शिष्ट, रूपवान
अभिजाततंत्र	संज्ञा	नेपाली, बंगला, हिंदी	कुलीन, उच्चवंशीय, सुयोग्य व्यक्ति द्वारा संचालित शासन प्रणाली
अभिजाति	संज्ञा	हिंदी, मराठी, संस्कृत	कुलीनता, कुल श्रेष्ठता, उच्चकुल में जन्म लेने
अभिजाति		कन्नड, मलयालम	के गुण, शरीफ या बड़े खानदान का इन्सान
अभिजित		हिंदी, गुजराती	1. एक नक्षत्र जिसमें तीन तारे हैं
अभिजित		नेपाली, कन्नड	2. उत्तराषाढ़ा के 15 तथा श्रवण के चार दण्ड का
अभिजित		मराठी, मलयालम	विजय मुहूर्त
अभिजितम्		तेलुगु	3. दिन का आठवां या मध्याह्न मुहूर्त

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिजित्	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	+ 4. चंद्रमा की पत्नी का नाम (कन्नड)
अभिजित्	संज्ञा	तमिल	5. विष्णु 6. सोम यज्ञ या यज्ञ का एक भाग
अभिजित्	संज्ञा, विशेष	मलयालम	7. पूर्णतया विजयी 8. अभिजित नक्षत्र में पैदा
अभिजीतं	संज्ञा	मलयालम	एक प्रकार की चेचक, माता या फफेले पड़ने का एक रोग
अभिजुष्ट	विशेषण	मलयालम	1. सेवित, पूजित 2. आवेशित, घिरा हुआ
अभिजुष्ट		संस्कृत	3. गया हुआ या जाकर आया हुआ
अभिज्ञ	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. जानकारी रखने वाला, ज्ञानी, निपुण, विज्ञ, कुशल, विशेषज्ञ, निष्णात, प्रवीण, अनुभवी, समर्थ, पंडित, विद्वान, बहुदर्शी
अभिज्ञ		नेपाली, असमी, बंगला	
अभिज्ञ	विशेषण	कन्नड, संस्कृत, मलया	
अभिज्ञन्	संज्ञा	मलयालम	2. दिव्य ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी
अभिञ्जन्	संज्ञा	तमिल	3. परमात्मा (संज्ञा-मराठी)
अभिज्ञुडु	संज्ञा	तेलुगु	
अभिज्ञा	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. स्मरण, स्मृति, याद, विवेचन, पहचान, मान्यता
अभिज्ञा		बंगला, असमी	2. प्रत्यभिज्ञा, पुनर्ज्ञान 3. विद्वता, कुशलता.
अभिज्ञा		कन्नड, मराठी	निपुणता, अनुभव, बहुदर्शिकी
अभिज्ञा		मलयालम	4. देख सुनकर जो ज्ञान उत्पन्न हो, आरंभिक ज्ञान
अभिज्ञा		उड़िया	+ 5. आद्यज्ञान (मराठी), अस्तित्व-स्वीकृति
अभिज्ञा		नेपाली	+ 6. अलौकिक मानसिक शक्ति जो दूरदर्शन, दूर श्रवण, दूर के विचार ज्ञात करती है (मलयालम)
अभिज्ञात	विशेषण	मलयालम, कन्नड	1. सुपरिचित, जाना पहचाना, समझा-बूझा हुआ
अभिज्ञात		गुजराती, मराठी	2. सम्पूर्ण रूप से विदित, चिन्ह द्वारा ज्ञात
अभिज्ञात		हिंदी, बंगला, संस्कृत	3. अनुसंधान द्वारा ज्ञात
अभिज्ञान	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. स्मृति, पहचान. सम्पूर्ण ज्ञान 2. समझ. अनुभव
अभिज्ञान		असमी, बंगला	3. स्मरण जगाने वाली वस्तु, स्मारक, चिह्न, निशान, निशानी, परिचायक वस्तु, ज्ञानसाधन
अभिज्ञान		कन्नड, नेपाली	
अभिज्ञानं		मलयालम, संस्कृत	+ 4. मुद्रा की छाप, मुहर + 5. चंद्र बिम्ब में काला दाग (मराठी, संस्कृत) (Identification)
अभिज्ञानम्		तेलुगु	

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिजागर	संज्ञा	हिंदी	परीक्षार्थियों की चौकसी करने वाला (Invigilator)
अभिज्ञान-पत्र	संज्ञा	बंगला, हिंदी	+ 1. परिचायक पत्र (बंगला)
अभिज्ञान-पत्र		मराठी	2. सिफारिशी पत्र, प्रवेश पत्र, प्रमाण पत्र
अभिज्ञान-लिपि		बंगला	परिचायक लिपि, जिससे लिखावट की पहचान हो
अभिज्ञापक	विशेषण	हिंदी, मलयालम	पहचान कराने वाला, सूचना देने वाला
अभिज्ञापक		संस्कृत	उद्घोषक, प्रख्यापक (एनाउंसर), जताने वाला
अभिज्ञापन	संज्ञा	हिंदी	घोषणा (एनाउंसमेंट), उद्घोष, दिंदोरा
अभिज्ञानं	संज्ञा	मलयालम	किसी की ओर उड़ने की क्रिया
अभित	क्रिया विशेषण	नेपाली	1. समीप, निकट, पास, समक्ष, प्रत्यक्ष में
अभितः	अव्यय	हिंदी, मराठी	2. दोनों ओर, आगे-पीछे, सब ओर, चारों ओर
अभितसु		संस्कृत, कन्नड	3. नितान्त, निपट, पूर्णतया, पूरे तौर मे
अभितः		मलयालम	4. फुर्ती से, तेजी से, शीघ्र
अभितप्त	विशेषण	गुजराती, बंगला, संस्कृत	1. गर्म, जला हुआ 2. दुःख, शोक संतप्त
अभितप्त		मलयालम, नेपाली	3. पीड़ित 4. उद्विग्न, दग्ध
अभितरन्	विशेषण	मलयालम	सहायक व्यक्ति
अभितरं	अव्यय	मलयालम	करीब, पास, समीपी
अभितर्पणं	संज्ञा	मलयालम	तृप्ति, संतुष्टि, ताजगी
अभिताप	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	1. प्रचंड गर्मी, अत्यधिक ताप, भावावेश, व्याकुलता
अभिताप		नेपाली, बंगला	2. मनस्ताप, संताप, क्षोभ, पीड़ा, उद्वेग, यातना
अभितापं		मलयालम	+ 3. बहुत जोर का सिर दर्द (बंगला), भावावेश (हिंदी)
अभितापत्र	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	गहरा लाल, अधिक ताम्रवर्ण
अभितृप्ति	संज्ञा	मलयालम	पूर्ण तृप्ति या संतुष्टि, अधिक संतोष
अभित्यक्तन्	संज्ञा	मलयालम	1. परित्यक्त 2. मृत्यु दण्ड से दंडित
अभित्यक्त		हिंदी, नेपाली	3. दण्ड निर्मुक्त, त्यागा हुआ
अभित्याग	संज्ञा	हिंदी	1. अपराध-अभियोग-दण्ड से मुक्त करना
अभित्याग		नेपाली	2. वस्तु या क्रिया के त्याग का भाव
अभिवक्षिणं	अव्यय	मलयालम	1. दक्षिण दिशा की ओर
अभिवक्षिण		संस्कृत	2. दाहिनी ओर या तरफ़

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिदत्त	विशेषण	हिंदी	प्रदत्त, पूर्णतया दे दिया गया
अभिवर्शन	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	प्रकट या दृश्य होना, पूर्णतया प्रकट
अभिवर्शिषु	क्रिया	तेलुगु	देखना, अच्छी तरह देख लेना, अवलोकन करना
अभिदान	संज्ञा	हिंदी	1 किसी वस्तु को किसी के नाम पहचाना (डिलीवरी)
अभिवान		संस्कृत	2 उत्पादन पर दी सरकारी सहायता (मार्गमंडी)
अभिवानमु		तेलुगु	3 किसी काम के लिए दिया धन, चंदा आदि
अभिविधा	संज्ञा	हिंदी	वह दिशा जिस पर कार्य या मन की प्रवृत्ति हो
अभिविष्ट	विशेषण	हिंदी	प्रसंग वश जिसकी चर्चा या उल्लेख किया गया
अभिविष्ट		संस्कृत, बंगला	हो या जिसके विषय में मत मांगा गया हो (रिफर्ड टू)
अभिदेश	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 किसी घटना की प्रमाण रूप में चर्चा (रिफरेंस)
अभिदेश		नेपाली	2 प्रमाण या साक्षी रूप में किसी बात की चर्चा
अभदेशक	विशेषण	हिंदी	अभिदेश करने वाला, प्रमाण प्रख्यापक
अभिदेश-ग्रंथ	संज्ञा	हिंदी	ग्रंथ जिसका उपयोग मदर्भ या प्रमाण आदि के
अभिदेश-ग्रंथ		संस्कृत	लिए किया जाय (रिफरेंस ब्रुक), शब्द क्लेश आदि
अभिदेशना	संज्ञा	हिंदी	जन सहमति, जनाभिव्यक्ति (रिफरेंडम)
अभिदेशकी	संज्ञा	हिंदी	1 जो व्यक्ति विवाद निर्णय के लिए, स्वीकृत हो
			2 विवाद निर्णायक (रिफरी)
अभिघोतक	विशेषण	बंगला	प्रकट करने वाला, अभिव्यक्त करने वाला
अभिघोतनं	संज्ञा	मलयालम	+ 1 गर्म करना, उबालना, खोलना (मलयालम)
अभिघोतन		संस्कृत, बंगला	2 प्रकटन, अभिव्यक्ति या जाहिर करना
अभिघोतित	विशेषण	बंगला	3 प्रकटित, अभिव्यक्त, जाहिर हुआ
अभिघोतिसु	क्रिया	कन्नड	4 प्रकाशित या सूचित किया गया
अभिद्रव	संज्ञा	मलयालम	1 आक्रमण 2 युद्ध कौशल
अभिद्रव(ण)	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	3 हमला करना, चढ़ाई करना
अभिद्रुत	विशेषण	हिंदी, मलयालम	आक्रान्त, रोदा हुआ या कुचला हुआ
अभिद्रोह	संज्ञा	हिंदी	1 किसी के अनिष्ट, अपकार, उत्पीड़न आदि की भावना
अभिद्रोह		संस्कृत	2 निर्दयता, षडयंत्र, गाली
अभिद्रोह		बंगला	3 अनिष्ट चिन्ता, आक्रोश, पीड़न, भर्त्सना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिधमन	संज्ञा	हिंदी	1. धौंकना, स्फोटन (ब्लैस्टिंग) 2. निष्ठुरता
अभिधर्म	संज्ञा	मलयालम	1. परम धर्म, श्रेष्ठ धर्मिता, अध्यात्म विद्या, उच्च
अभिधर्म		हिंदी, गुजराती	अध्यात्मिक नीति, अध्यात्म ज्ञान
अभिधर्ममु		तेलुगु	2. अध्यात्म तत्व (बौद्ध दर्शन) + 3. युद्ध (तेलुगु)
अभिधर्षण	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	भूतावेश, अत्याचार, प्रेतादि से आविष्ट होना
अभिधर्मपिटकं	संज्ञा	मलयालम	1. ध्रुव सत्य का निरूपण करने वाला दर्शन,
अभिधर्मपिटक		हिंदी	बुद्धदेव के तीन उपदेशों में मूल दर्शन
अभिधर्मपिटकम्		तमिल	2. बौद्ध धर्म पुस्तकों का तीसरा भाग
अभिधा	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मलया	1. नाम, संज्ञा 2. पदवी, उपाधि
अभिधा		नेपाली, उड़िया, संस्कृत	3. वाचक शब्द 4. प्रतिकथन या संकेतन
अभिधे	संज्ञा	कन्नड	5. मूलार्थ या वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति
अभिधै		तमिल	6. व्युत्पत्त्यर्थक शब्द प्रयोग, ध्वनि, नाद(कन्नड)
अभिधान	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. कथन, उल्लेख करना, बोलना, बताना, सभाषण,
अभिधान		असमी, उड़िया, बंगला	निरूपण, नामकरण, संवाद
अभिधान		नेपाली, कन्नड, संस्कृत	2. शब्दार्थ कोश, शब्दकोश, निघंटु, लुगत
अभिधानम्		तमिल	3. नाम, उपाधि, पदवी, कर्ता का विधान, विशिष्ट
अभिधानमु		तेलुगु	नाम (डेजिगनेशन) 4. निःसदिहभाव से कथित वाक्य
अभिधानं	संज्ञा	मलयालम	+ 5. ढकना (तमिल), अर्थ बताने वाली पुस्तक (अस)
अभिधानक	संज्ञा	कन्नड, हिंदी	1. ध्वनि, शोर 2. कोई नाम होना (समासान्त प्रयोग)
अभिधानपद	संज्ञा	कन्नड	नामधातु
अभिधानमाला		हिंदी, गुजराती, संस्कृत	नाम कोश, शब्द कोश, नामावली
अभिधानमूलक	संज्ञा	गुजराती, मलयालम	शब्द के वाच्यार्थ पर रचा गया; अभिधार्थ शब्द
अभिधानरत्नमाला	संज्ञा	कन्नड	हलायुध शब्दावलि का नाम
अभिधानबाद	संज्ञा	मराठी	अन्वयार्थवाद, व्याकरणानुकूल शब्द संस्थापननियम
अभिधाय	अव्यय	मलयालम	कहा या पुकारा गया, नाम लिया गया
अभिधायक	विशेषण	हिंदी, मराठी, मलया, संत	1. अर्थ विशेष का वाचक, द्योतक, सूचक या
अभिधायकुडु		तेलुगु	परिचायक, संकेतक 2. नाम रखने वाला
अभिधाधि	विशेषण	मलयालम	1. नाम देने या प्रकट करने वाला, वाचक
अभिधायिन्		संस्कृत	2. उल्लेख करने वाला, सूचक

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिदार्तम्	संज्ञा	तमिल	अभिधार्थ, शब्द का प्रधान अर्थ, व्युत्पत्यर्थ
अभिधावक अभिधावक	विशेषण	हिंदी, संस्कृत मलयालम	1. धावा बोलने, आक्रमण करने वाला (एग्रेसर) + 2. दौड़ने, शीघ्रता से जाने या चढ़ाई करने वाला (मलया)
अभिधावन अभिधावन अभिधावनं	संज्ञा	हिंदी, गुजराती बंगला, संस्कृत मलयालम	1. धावा, आक्रमण करना, चढ़ाई करना 2. अनुसरण या पीछा करना, दौड़ना, शीघ्र चलना + 3. शिकार के पीछे दौड़ना, सन्मुख गमन (बंगला)
अभिधेय अभिधेय अभिधेय अभिधेय अभिधेयमु अभिधेयम्	विशेषण संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी नेपाली, असमी, बंगला कन्नड, संस्कृत, मलया मलयालम तेलुगु तमिल	+ 1. नाम, नामधारी (मराठी), उल्लिखित, पुकारा हुआ 2. नाम देने योग्य, कथनीय, वाच्य, प्रतिपाद्य 3 अर्थ, भाव, तात्पर्य, अभिप्राय, निष्कर्ष, महत्व, शाब्दिक अर्थ, अक्षरशः अर्थ (मराठी) 4. अक्षरार्थ, वाच्य बोधक, वाच्यार्थ 5. निरूपण योग्य, विवेच्य भावार्थ
अभिध्या अभिध्या अभित्तिथै	संज्ञा	मलयालम, तेलुगु हिंदी, कन्नड, संस्कृत तमिल	1. पराई वस्तु की चाह, इच्छा, अभिवांछा, लालसा, लालच, प्राप्ति की इच्छा या आग्रह + 2. परद्रव्यापेक्षी (तेलुगु)
अभिध्यान अभिध्यानं अभिध्यान	संज्ञा	बंगला मलयालम हिंदी, संस्कृत	1. ध्यान, चिंतन, मनन, गंभीर विचार 2. स्पृहा, प्रगाढ़ चिंतन, अभिलाष, लोभ + 3 आग्रह, अत्याग्रह (इच्छा अर्थ में) (मलयालम)
अभिनन्द अभिनंद अभिनन्द	संज्ञा	नेपाली हिंदी संस्कृत	1. हर्ष, प्रसन्नता 2. अभिलाषा, +अल्पसुख (संस) 3. प्रशंसा, साधुवाद, तारीफ, बधाई 4. प्रोत्साहन, उत्तेजना 5. ईश्वर का एक नाम
अभिनन्दकन्	संज्ञा	मलयालम	जो खुशी मनाता या कद्र करता हो
अभिनन्दन अभिनन्दन अभिनन्दन अभिनन्दन अभिनन्दनम् अभिनन्दनं	संज्ञा	हिंदी, गुजराती मराठी, संस्कृत असमी, उड़िया, बंगला नेपाली, कन्नड तेलुगु मलयालम	1. आनंद, मंतोष, अभिवादन, स्वागत, वंदना, आह्लाद, खुशी, हर्ष-प्रदर्शन 2. प्रशंसा, अभ्यर्थना, अनुमोदन, सराहना, सानन्द गुणकीर्तन, बधाई, धन्यवाद, शुक्रिया 3. प्रोत्साहन + 4. स्वागत भाषण (असमी) 5. नमस्कार, अभिवादन, निवेदन, प्रार्थना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिनन्दनम्	सज्ञा	तमिल	6 धन्य या पूज्य के प्रति शुभ कामना या श्रद्धा
अभिनन्दनग्रंथ	सज्ञा	हिंदी	पूज्य, मान्य व्यक्ति के सम्मानार्थ प्रस्तुत पुस्तक,
अभिनन्दनग्रंथ	सज्ञा	संस्कृत	जो सार्वजनिक रूप में भेट की जाय (क्रेमेरीएन वाल्यूम)
अभिनन्दनर्		तमिल	चौबीस जैन तीर्थंकरों में से एक का नाम
अभिनन्दन-पत्र	सज्ञा	हिंदी, बंगला	1 प्रतिष्ठित, सम्मान्य व्यक्ति के गुण कीर्तन सूचक पत्र
अभिनन्दन पत्र		असमी	जो सार्वजनिक रूप से पढकर भेट किया जाय
अभिनन्दन-पत्र		नेपाली, संस्कृत	2 अभिनन्दन सूचक पत्र, मान पत्र
अभिनद्ध	विशेषण	भराठी, मलयालम	बधा हुआ, पूर्णतया सलग्न, पक्की गाठ लगा
अभिनद्धासनम्	सज्ञा	मलयालम	जिसकी आखों पर पट्टी बंधी हो
अभिनन्दना	अन्वय क्रिया	हिंदी	आदर, सत्कार, सम्मान करना
अभिनन्दनीय	विशेषण	हिंदी, नेपाली, गुजराती	1 वदनीय, प्रशसनीय, बधाई योग्य
अभिनन्दनीय		मलयालम, संस्कृत	2 हृषप्रद, अभिनन्दन करने योग्य, श्रद्धेय
अभिनन्दनीयम्		तेलुगु	3 मूल्य, कीर्तनीय, अभिनन्दन का पात्र या अधिकारी
अभिनन्दुं	मकर्मक क्रिया	गुजराती	अभिनन्दन या आनंदित करना, राजी या हर्षित करना
अभिनन्दि	विशेषण	मलयालम	1 आदर, सत्कार, सम्मान, प्रशंसा करने वाला
अभिनन्दिन्		संस्कृत	2 आग्रह (इच्छा) या श्लाघा करने वाला
अभिनन्दी		हिंदी	3 जो व्यक्ति किसी का विरुद्ध बखान करे
अभिनन्दित	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 जिसका अभिनन्दन किया गया हो
अभिनन्दित		असमी, बंगला, मलया	2 गुण कीर्तन द्वारा जिसे खुश किया गया हो
अभिनन्दितम्		तेलुगु	3 वदित, प्रशंसित, सम्मानित, आह्लादित
अभिनन्दित्सु	क्रिया	तेलुगु	प्रशंसा करना, बखान करना
अभिनन्द्य	विशेषण	मलयालम	1 प्रशंसनीय, बधाई के योग्य, प्रशंसित
अभिनन्द्य		संस्कृत, हिंदी	2 अभिनन्दन करने योग्य
अभिनमनं	सज्ञा	मलयालम	झुकना, नमस्कार करना, प्रणाम करना
अभिनमित्सु	क्रिया	कन्नड	सम्मान प्रदर्शन करना
अभिनय	सज्ञा	हिंदी, गुजराती	1 आंगिक, वाचक, आहार्य भावों को सूचित,
अभिनय		असमी, उड़िया	प्रदर्शित करना, नाटकीय प्रस्तुति

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिनय		नेपाली, कन्नड	2 नकल, स्वाग, ढोग, भ्रमित करने के लिए रूप
अभिनय	सज्ञा	बंगला, मराठी	3 शारीरिक चेष्टा से भावाभिव्यक्ति, दिखाने
अभिनयम्		तमिल	क लिए प्रदर्शन 4 नाट्योक्त व्यक्तियों की
अभिनयं		मलयालम	भावभंगी, कथोकथन का अनुकरण, नाटक करना
अभिनयम्		तेलुगु	5 कृत्रिम वंश में दूसरे की अवस्था, मज्जा, प्रसाधन
अभिनय		संस्कृत	हावभाव, मुद्रा, चेष्टा आदि का प्रदर्शन या अभिव्यक्ति
			6 हृदय के भावों को प्रकट करने वाली क्रिया
अभिनयवस्तु	सज्ञा	तमिल	नृत्य में चेष्टाओं की भाषा का प्रयोग
			करना, अर्धपूर्ण नृत्य मुद्राएं
अवलतविनयम्	सज्ञा	तमिल	शोक का नाट्याभिनय
अभिनयन्	सज्ञा	तमिल	+ 1 नट, नाचने वाला (तमिल)
अभिनयकार	सज्ञा	गुजराती	2 अभिनय करने वाला व्यक्ति
अभिनयकै	सज्ञा	तमिल	हाथों से नाट्य चेष्टाएं करना
अभिनयर्	सज्ञा	तमिल	हावभाव प्रदर्शक नृत्यकार
अभिनयविष्णुकदै	सज्ञा	तमिल	चेष्टाओं से कथा के शब्दों का अनुमान लगाना
अभिनयशिरम्	सज्ञा	तमिल	मिर हिलाफर नाट्य चेष्टाएं करना
अभिनय सूचना	सज्ञा	गुजराती	सूत्रधार द्वारा नाटकाभिनय का पूर्वाभाम (स्टेज इंडिकेशन)
अभिनयित्तल्	क्रिया	तमिल	1 नाटक खेलना, स्वाग रचना
अभिनयिक्कुक्	क्रिया	मलयालम	2 थोड़ी देर के लिए दूसरों की नकल करना
अभिनयिंघु	क्रिया	तेलुगु	3 नाटक का अभिनय करना
अभिनयिसु		कन्नड	4 हाव भाव द्वारा भावाभिव्यक्ति करना
अभिनव	विशेषण	हिंदी, मराठी, बंगला	1 नया, कोरा, ताजा, कच्चा, हाल ही का, नूतन,
अभिनव		गुजराती	नवीन, अपूर्व, अद्भुत, विलक्षण
अभिनव		नेपाली, कन्नड, असमी	2 नव शिक्षित तरुण, नौसिखिया, अनुभव शून्य
अभिनव		मलयालम, संस, उड़िया	3 आधुनिक ढंग का (न्यू फैशण्ड)
अभिनवम्		तमिल	+ 4 खुशामद (मगठी)
अभिनवम्		तेलुगु	5 आधुनिक युग की विशेषताओं से युक्त
अभिनविसु/नवबुं	क्रिया	कन्नड, गुजराती	1 बहुत अच्छी तरह करना 2 नवीन या बढ़िया होना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिनिधन	विशेषण	हिंदी	1 जिसका नाश निकट हो 2 साम वेद का एक मंत्र
अभिनिधन	संज्ञा	संस्कृत	जिसका ऐसे अवसर पर जप करते हैं
अभिनिधानं	संज्ञा	मलयालम	किसी वस्तु के ऊपर रखना, खींचना
अभिनिनीषु	संज्ञा	मलयालम	मंच पर अभिनय करने का इच्छुक, अभिनयाकांक्षी
अभिनिपुक्त	विशेषण	मलयालम	1 किसी को काम में लगाया, मार्ग दिखाया
अभिनिपुक्त	विशेषण	संस्कृत	आयोजित किया, किसी काम के लिए नौकर रखा
			2 काम में लगा, मशगूल, व्यस्त
अभिनियोगं	संज्ञा	मलयालम	1 दत्तचित्तता, मलग्न होना, समाया हुआ+2 आ.ता
अभिनियोग		संस्कृत	हुकुम, आदेश (मलया) 3 कल्पना 4 तात्पर्य
अभिनियोग		हिंदी	5 अभिनिवेश, परस्पर संबंध स्थापित करना
अभिनिर्णय	संज्ञा	गुजराती, नेपाली	1 दोषादोष का अंतिम निर्णय
अभिनिर्णय		हिंदी	2. दोष-निर्दोष का फैसला (वर्डिक्ट)
अभिनिर्णायक	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	जो जज के साथ बैठकर मत या निर्णय दे (ज्यूरी)
अभिनिर्देश	संज्ञा	हिंदी	अभिदेश, आदेश, कार्य करने का तरीका बताना
अभिनिर्मुक्त	विशेषण	मलयालम	1 छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ
अभिनिर्मुक्त		संस्कृत, कन्नड	2. सूर्यास्त के समय सोने के कारण छूटा हुआ काम
अभिनिर्मुक्तुडु		तेलुगु	3 सूर्यास्त के समय सोने वाला
अभिनिर्माण	संज्ञा	हिंदी, नेपा, कन्नड, संस	1. युद्ध के लिए कूच, प्रस्थान, गमन, प्रयाण
अभिनिर्माणं		मलयालम	2 शत्रु पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ना
अभिनिर्माणमु		तेलुगु	3 धावा बोलना, हमला करना, चढ़ाई करना
अभिनिविष्ट	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1. पैठा हुआ, धसा हुआ, गड़ा हुआ, अनुरत
अभिनिविष्ट		संस्कृत	2. लिप्त, मग्न, आग्रही, दृढ़, दत्तचित्त, दृढ़प्रतिज्ञ
अभिनिविष्ट		नेपाली, असमी	3 जिद्दी, हठी, प्रवृत्त, कृतसकल्प, तत्पर
अभिनिविष्ट		मराठी, मलयालम	4. अतिमनोयोगी, अनन्यमन से अनुरक्त
अभिनिविष्टमु		तेलुगु	5 प्रवीण, निपुण
अभिनिविष्टता	संज्ञा	नेपाली, संस्कृत	दृढ़ प्रतिज्ञता, सकल्प, निःस्वार्थता हीन
अभिनिवृत्ति	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	कार्य समाप्ति, पूर्ति, पूर्णता, सिद्धि, सम्पादन

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिनिवेश अभिनिवेश अभिनिवेश अभिनिवेशं अभिनिवेशम् अभिनिवेशमु	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, उड़िया, बंगला कन्नड, नेपाली, संस्कृत मलयालम तमिल तेलुगु	1. निष्ठा, आस्था, आसक्ति, श्रद्धा, भक्ति, तन्मयता, अनुरक्ति, लीनता, मनोयोग, उत्सुकता, आग्रह, हठ, ममता, प्रेम, स्नेह, प्रणिधान, प्रवेश, प्रयत्न 2. मृत्यु भयजनक अज्ञान, प्रपंचासक्ति (वेदान्त दर्शन) 3. मृत्यु चिन्ता या क्लेश, पांच क्लेशो मे एक 4. एकाग्रचित्तन 5. दृढ़ संकल्प, पक्की लगन + 6. उन्माह, उद्यम, व्यग्रता (तमिल)
अभिनिवेशशाली अभिनिवेशित	विशेषण विशेषण	बंगला हिंदी	र्थाभिनविष्ट, मनोयोगी, एकाग्रचिन्, दत्तचिन् प्रवेश किया हुआ, डूबा हुआ, तन्मय, लीन
अभिनिवेशी अभिनिवेशी(शिन्)	विशेषण	नेपाली मराठी, संस्कृत	1. अनुरक्त, लिप्त, आगक्त, तन्मय, प्रयत्नशील 2. दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ निश्चयी, जिद्दी, हठी, मानी
अभिनिष्क्रमण अभिनिष्क्रमण अभिनिष्क्रमणं	संज्ञा	हिंदी, बंगला संस्कृत, गुजराती मलयालम	1. प्रव्रज्या, मन्थ्याम के लिए गृह त्याग (बौद्ध) 2. सवंग निर्गत, बहिर्गमन, प्रस्थान 3. अग्रसर होना, यति बनने के लिए गृह त्याग
अभिनिष्क्रान्त अभिनिष्पत्ति अभिनिष्पन्न	संज्ञा संज्ञा विशेषण	बंगला हिंदी, बंगला, संस्कृत+ हिंदी, गुजराती	बहिर्गत, शीघ्र प्रस्थान, सवंग निर्गत 1. पूर्णता, समाधि, सिद्धि (हिंदी) 2. निर्वाह, समाप्ति पूर्णता प्राप्त, सिद्ध, निष्णात, निष्पुण
अभिनिहनवं अभिनिहव	संज्ञा	मलयालम संस्कृत	1. गोपन, छिपाना, दुराव, अप्रकाशन 2. निराकरण, निरसन, निषेध, अस्वीकृति
अभिनीत अभिनीत अभिनीत अभिनीत अभिनीतमु	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, उड़िया, बंगला + संस्कृत, नेपाली + कन्नड, मलयालम तेलुगु	1. समीप लाना + 2. न्याययुक्त (तेलुगु) 3. सर्वोत्कृष्ट, मुग्ध, योग्य, उचित (संस्कृत) + 4. दयालु, शांतचित्त, स्थिर चित्त (मराठी), क्रुद्ध 5. जिसका मचन हुआ हो, नाटक खेला गया हो. अनकृत + 6. ज्ञात, विज्ञ, पूर्णतायुक्त (हिंदी)
अभिनीति अभिनीति	संज्ञा	मराठी, संस्कृत मलयालम	1. द्वावभाव, भावभंगी, अभिनय 2. मैत्री, स्नेह, दयालुता, कृपा, मतौष
अभिनुत अभिनुतमु	विशेषण	मलयालम तेलुगु	स्तुति कृत, गौरवान्वित, प्रशंसित, अभिनन्दित, यशोगानकृत, बड़ाईपाना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिनृति	सज्ञा	तेलुगु, कन्नड	स्नुनि, प्रशसा, यशोगान, मुबारकबादी
अभिनेता	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 अभिनयकर्ता मञ्जाकागी, स्वांगी, नाटकीय चरित्र,
अभिनेता		असमी, उड़िया, बंगला	प्रस्तोता, नट, एक्टर
अभिनेता(नेतृ)		नेपाली, तेलुगु, संस्कृत	2 नाटकीय चरित्र उपस्थित करने वाला,
अभिनेता(बु)		मलयालम	जो किसी के चरित्र को कथोपकथन, हाव भाव आदि को स्वयं द्वारा प्रकट करता है
अभिनेय	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 नाटकीय रूप में प्रस्तुत करने योग्य, जिसका
अभिनेय		बंगला, मलयालम	आभिनय करना उचित हो या करना पड़े
अभिनेय		नेपाली, संस्कृत	2 नाटक रूप में खेलने लायक 3 दृश्य काव्य
अभिन्यस्त	विशेषण	हिंदी	किसी मद या खाने में जमा किया हुआ (दिर्गार्जित)
अभिन्यासं	सज्ञा	मलयालम	1 सन्निपात ज्वर जिसमें शरीर ऐंठना है
अभिन्नियासम्		तमिल	+ 2 किसी मद में रखना या जमा करना (हिंदी)
अभिन्यास	सज्ञा	हिंदी	3 परिकल्पना के अनुसार गृहउद्यान आदि का
अभिन्यास		नेपाली, संस्कृत	निर्माण, विस्तार आदि करना (ले भा 37)
अभिन्यासमु		तेलुगु	+ 4 क्रमबद्ध या नियमित रखना (नेपाली)
अभिन्यासक	सज्ञा	नेपाली	1 विभाग में नियुक्त 2 बैंक में जमाकर्ता
			3 मिलसिला बनाय रखने वाला
अभिपतन	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 पूर्ण रूप में गिरना पूरा पतन
अभिपतन		नेपाली	2 प्रस्थान आक्रमण चढ़ाई, धावा
अभिपतनं		मलयालम	3 जल्दी जल्दी प्रस्थान, समीप गमन, किसी ओर उड़ना
अभिपत्ति	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 पाम जाना या पहुँचना 2 किसी विषय में गति
अभिपत्ति		मलयालम	उड़च, पैठ 3 अतः, समाप्ति, पूर्ति, समीप खींचना
अभिपत्य	विशेषण	मलयालम	हाथी की त्वचा के सफेद दाग (अभिपद्म)
अधिपत्र	सज्ञा	हिंदी	विषय की गूढ जानकारी का लेख जो विद्वत्सभा में पढ़ा जाय (पेपर)
अधिपद	सज्ञा	हिंदी	ऐसा निश्चय, मत, विचार या सिद्धान्त जो समष्टि का स्वतंत्र या पूरा अंग हो (अर्टिकल)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिपन्न	विशेषण	हिंदी, बंगला, संस्कृत	1. निकट आया या गया हुआ, सम्मुख आगत
अभिपन्न		नेपाली, कन्नड	2. शरणागत, आपत्तिग्रस्त, रक्षित, स्वीकृत
अभिपन्न		मलयालम	3. अपराधी, पराभूत, पराजित, भाग्यहीन, अभागा
अभिपन्नडु		तेलुगु	4. संकटग्रस्त, आक्रान्त, भागा हुआ, वशीभूत, मृत
अभिपातमु	संज्ञा	तेलुगु	गिरना, अवनति होना, उन्नति का एकदम हास
अभिपीड़न	संज्ञा	हिंदी	1. बहुत अधिक कष्ट देना, पीड़ित करना
अभिपीडा	संज्ञा	मलयालम	2. कष्ट, वेदना, दुख, उपद्रव
अभिपीड़ित	विशेषण	हिंदी	3. अति कष्ट युक्त, अपार दुख भोगता हुआ
अभिपुष्ट	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1. जिसका समर्थन स्वीकरण हो चुका हो
अभिपुष्ट		नेपाली	2. अच्छी तरह पुष्ट या पका हुआ, रक्षित
अभिपुष्टि	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	1. पालन-पोषण; किसी पद पर स्थायी नियुक्ति
अभिपुष्टि		संस्कृत	2. अभिपुष्ट होने की अवस्था या भाव, अभिपोषण
अभिपुष्प	विशेषण	संस्कृत, हिंदी, मलया	फूलों से आच्छादित या ढका हुआ
अभिपुष्पं	संज्ञा	मलयालम, हिंदी	अति सुन्दर फूल, अन्य पुष्पों से उत्तम
अभिपूजनं	संज्ञा	मलयालम	1. उपासना करना 2. सम्मान सत्कार करना
अभिपूजा	संज्ञा	मलयालम	3. जनि श्रद्धा से पूजा सामग्री भेंट चढ़ाना
अभिपूजित	विशेषण	मलयालम	अ-चना, सम्मान, पूज्यभाव, श्रद्धा, उपासना
अभिपूरणं	संज्ञा	मलयालम	उपासित, सम्मानित, अत्यादृत, श्रद्धेय
अभिपूरण		संस्कृत	1. पूरी तरह भरना, लबालब भर देना
अभिपूर्ण	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	2. अभ्यास द्वारा परिपूर्ण करना
अभिपूर्ण		मलयालम	1. पूरा भरा हुआ, आकण्ठ पूरित
अभिपूर्ण		मलयालम	2. संतुष्ट, तसल्लीबख्श
अभिपूर्ति	संज्ञा	हिंदी	1. अभिपूर्ण करने की क्रिया या भाव, समाप्ति
अभिपूर्ति		मलयालम	2. वचन पालन या उत्तरदायित्व का निर्वाह, निभाना (इमप्लीमेंटेशन), पूर्णता
अभिपूर्वम्	अव्यय	संस्कृत	क्रमशः, अनुक्रम से, धीरे-धीरे,
अभपूर्व	अव्यय	नेपाली	बारी से, एक के बाद
अभपूर्व	अव्यय	मलयालम	दूसरा, नंबरवार

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिपोषण	विशेषण	हिंदी	1 किसी कथन या कार्य निर्णय का अधिकारिक रूप से समर्थन, स्वीकरण (कन्फरमेशन)
अभिपोषण		नेपाली	
अभिपोषण		संस्कृत	2 राजकीय प्रतिनिधि के निर्णय की उच्च अधिकारियो द्वारा संपुष्टि (रेटीफिकेशन)
अभिपोषणीय	विशेषण	हिंदी, नेपाली	समर्थन योग्य, प्रतिपालन योग्य
अभिपोषित	विशेषण	हिंदी, नेपाली	जिसकी संपुष्टि या समर्थन किया गया हो
अभिप्रणय	सज्ञा	बंगला, हिंदी	प्रेम, कृपा, अनुग्रह, अन्याकर्षण, बेहद इश्क
अभिप्रणयन	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	वेद मंत्रो द्वारा सस्कार करना
अभिप्रणीत	विशेषण	बंगला, संस्कृत	मंत्र सस्कारित आराधित प्रतिष्ठित किया गया
अतिप्रतारि	सज्ञा	मलयालम	धोखेबाज, ठग, गुण्डा, प्रतिदुष्ट
अभिप्रधर्षण	सज्ञा	मलयालम	1 पीडा, देना, चोट पहुचाना, उपद्रव
अभिप्रधर्षण		संस्कृत	2 मेध लगाना, भवन भेदन करना
अभिप्रपन्न	विशेषण	बंगला, हिंदी	1 प्राप्त 2 आश्रित शरणागत (बगला)
अभिप्रमाणन	सज्ञा	हिंदी, बंगला	मत्यापन, अधिकारी या पदवीधारी या मस्था के साक्षी रूप मे किसी बान या लेख को ठीक बताना
अभिप्रमाणन		संस्कृत	(अटैस्टेशन, वैरीफिकेशन)
अभिप्रमाणित	भूत कृदन्त	हिंदी	मत्यापित (अटैस्टिड, वैरीफाइड)
अभिप्रकर्तन	सज्ञा	मलयालम	प्रागे बढ़ना, साहम करना, वहना (पमीना आदि)
अभिप्राणन	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	गाम बाहर निकलाना, प्रश्वाम उच्छ्वास
अभिप्राय	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 आशय, मतव्य, तात्पर्य, अर्थ, भावार्थ
अभिप्राय		असमी, उड़िया, बंगला	2 राय, मत, उद्देश्य, विचार, लक्ष्य, प्रयोजन
अभिप्राय		नेपाली, कन्नड, संस्कृत	3 इरादा, इच्छा (इन्टेशन)
अभिप्रायं		मलयालम	4 नीयत, (पपंज) (इन्टैन्ट)
अभिप्रायमु		तेलुगु	5 चित्र आदि मे झलकता भाव (मोटिफ)
अविपिरायम्		तमिल	6 सबध, कारण 7 विष्णु 8 एक नाट्यालकार
अभिप्राये		कोंकणी	+ 9 मनोभाव, प्रतिपाद्य विषय, मर्म (बगला)
अभिप्रायगति	सज्ञा	मलयालम	जनमत, जनता का झुकाव, लोगो की राय
अभिप्रायसिद्धि	सज्ञा	बंगला	उद्देश्यपूर्ति, अभीष्ट पूर्णता, मतव्यपूर्ति
अविपिरायपेदम्	सज्ञा	तमिल	(अभिप्राय भेद) विचार विन्नता

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिप्रीति	संज्ञा	मलयालम	अतिसंतोष, आग्रह, इच्छा, बेहद मुहब्बत
अभिप्रेत	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. इष्ट, अभिलषित, वांछित, उद्दिष्ट, ईप्सित, प्रिय, चाहा हुआ, मन में धारण किया हुआ
अभिप्रेत	विशेषण	नेपाली, असमी, बंगला	2. स्वीकृत, अनुकूल, रुचि-अनुसार, सम्मत
अभिप्रेत		मलयालम, संस्कृत	3. अभिप्राय का विषय
अभिप्रेतयु		तेलुगु	
अभिप्रेरण	संज्ञा	मलयालम	1. गति देना, आगे धकेलना, प्रारंभ करना
अभिप्रेरणा		संस्कृत	2. कार्य के लिए उत्साहित करना, प्रयोजित करना
अभिप्रोक्षण	संज्ञा	गुजराती, संस्कृत	अभिमंत्रित जल किसी के ऊपर छिड़कना, सेंचन,
अभिप्रोक्षण		मलयालम	यज्ञ के लिए पशु बलि या वध से पहले अभिषेचन
अभिप्लव	संज्ञा	हिंदी	1. उपद्रव, उत्पात, दुख-पीड़ा
अभिप्लव		नेपाली	2. तरल पदार्थ, नदी की बाढ़
अभिप्लवं		मलयालम	3. उफन कर बहना + 4. गोता मारना (नेपाली)
अभिप्लव		संस्कृत	5. गवामयन यज्ञ का एक अंग जो छः दिन चले
			+ 6. प्राजापत्य, आदित्य (हिंदी)
अभिप्लुत	विशेषण	नेपाली, मलयालम	1. दमन किया हुआ, दमित, कुचला हुआ, रौंदा हुआ
अभिप्लुत		संस्कृत	2. डूबा हुआ, गोता लगाया हुआ
अभिप्लुतं	संज्ञा	मलयालम	3. भग्न, अभिभूत, आकुलित, प्रभावित
			+ 4. बाधित, साधारण या सामान्य नियम (मलयालम)
अभिवुद्धि	संज्ञा	मलयालम	1. अनुभव करने की इंद्रियां यथा नाक, कान, आंख,
अभिवुद्धि		संस्कृत	जीभ, त्वचा, ज्ञानेन्द्रियां+ 2. अध्यवसाय (मलया)
अभिभंग	संज्ञा	मलयालम	1. हानि, नाश 2. रुकावट, बाधा, तोड़-फोड़
अभिभर्त्सनं	संज्ञा	मलयालम	1. गाली देना, डराना, भयभीत करना
अभिभर्त्सन		संस्कृत	2. खिल्ली उड़ाना, गर्हणा करना, उपहास करना
अभिभव	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. हार, पराजय, वशवर्ती होना, ज़ेर होना
अभिभव		गुजराती, मराठी	2. पराभव, तिरस्कार, अवमानना, अपमान
अभिभव		नेपाली, कन्नड	3. दमन, प्रभुत्व, आत्मसंयम, दबाकर रोकना (कन्नस्ट्रेण्ड)
अभिभव		असमी, बंगला	4. आधिक्य, प्राबल्य, उभार, फैलाव, व्याप्ति
अभिभव		मलयालम	5. पीड़न 6. अनहोनी घटना 7. अभियोग आरोप

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिभवदु		तेलुगु	+ 8 आकूल, विह्वल, अभिभूत (असमी)
अबिबवम्		तमिल	+ 9 अग्रमान (तमिल), वृद्धि, उत्कर्ष (मराठी, कन्नड)
अभिभवन	सत्ता	संस्कृत	1 दमन, पराभव, वश में करना, समय रखना
अभिभवन	सत्ता	नेपाली, मराठी	2 (स्वयं) वशवर्ती होना, पीडा, निरस्कार
अबिबवित्तल	सत्कर्मक क्रिया	तमिल	1 पराभूत करना, तुच्छ मानना
अभिभवणें		मराठी	2 निरस्कार करना, अपमान करना
अभिभविंचु		तेलुगु	3 विरोध करना, मुकाबला करना
अभिभविकुकुक		मलयालम	4 मित्र देना
अभिभविसु		कन्नड	+ 5 भावाविष्ट होना, मूढ़ वृध भूलना (कन्नड)
अभिभवनीय	विशेषण	बंगला	दमन योग्य, पराजेय, निरस्करणीय
अभिभा	सत्ता	मलयालम	1 शोभा, कान्ति, चमक 2 प्रेत दर्शन
अभिभार	विशेषण	मलयालम	बहुत भारी, बहुत भारी बोझ
आंभभारा(रं)	सत्ता	नेपाली, मलयालम	उत्तरदायित्व, भार या कर्तव्य मिर पर आना
अभिभाव	सत्ता	हिंदी, बंगला	+ 1 भावावेश होना या भावाविष्ट करना (बंगला)
अभिभाव	विशेषण	कन्नड	2 वश में करना दमन करना, वशवर्ती करना, निरस्कार करना
अभिभावन	विशेषण	असमी, बंगला	1 विजयी होना, वश में करना
अभिभावन	विशेषण	मलयालम, नेपाली	2 अभिभव करने या होने की अवस्था या भाव
अभिभावन	सत्ता	हिंदी, संस्कृत	3 दमन करना, वशवर्ती बनाना, हगना, निरस्कार करना
अभिभावक	विशेषण	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	1 पराभूत, पराजित, वशीभूत, निरस्कृत, एवं अभिभूत करने वाला, आक्रमण करने वाला
अभिभावक	सत्ता	असमी, उड़िया, बंगला	2 नाबालिग की देखभाल करने वाला, अभिभवकारी,
अभिभावकन्		मलयालम	2 नाबालिग की देखभाल करने वाला, अभिभवकारी,
अभिभावकुडु		तेलुगु	संरक्षक, आश्रयदाता (गार्जियन), सर्वोत्तम
अभिभावित	विशेषण	हिंदी, नेपाली	जिसे किसी ने पूरी तरह दबाकर निरस्कार या
अभिभावित		बंगला	आधीन कर लिया हो, दबा हुआ; मर्गक्षन, पालित
अभिभावी	विशेषण	हिंदी	1. पूर्ण क्रियाशील हो प्रभाव उत्पन्न करने वाला
अभिभाविन्		संस्कृत	2 लोकोत्तर, उत्कृष्ट, वद चदकर, अनिश्रेष्ठ, विजयी,
अभिभावि		कन्नड	सयमी, असामान्य, विलक्षण

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिभाषकन्	संज्ञा	मलयालम	1. विधिज्ञ, किती पक्ष का न्यायालय में समर्थन करने वाला, वकील, एडवोकेट 2. किसी की तरफ से बोलने वाला 3. शास्त्रार्थ करने वाला, सप्रमाण भाषणकर्ता
अभिभाषक	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	
अभिभाषक	संज्ञा	संस्कृत	
अभिभाषण	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	1. न्यायाधीश को संबोधित कर मंभाषण 2. विवेक, विवेचना, विद्वतापूर्ण भाषण, बहस, तर्क वितर्क, वक्तृता 3. वकालत, बैरिस्टरी 4. यभापति का लिखित भाषण 5. अभिनंदन, आदरभाषण
अभिभाषण		असमी, उड़िया	
अभिभाषण		बंगला, संस्कृत	
अभिभाषणं		मलयालम	
अभिभाषिककुक्	क्रिया	मलयालम	संबोधित करना, पक्ष समर्थन करना
अभिभाष्य	विशेषण	मलयालम	संभाषित होने वाला, महत्वपूर्ण भाषण योग्य
अभिभू	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1. दूसरों से आगे बढ़ा हुआ, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट 2. पराजित हो, हार जा (कन्नड)
अभिभू	विशेषण	कन्नड	
अभिभूत	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. पराजित, अपमानित, तिरस्कृत, वशीभूत, पीड़ित 2. आवृत, विह्वल, भावविष्ट, आकुल. आक्रान्त (बंगला), अवश, हतमान
अभिभूत		असमी, उड़िया, बंग +	
अभिभूत		नेपाली, कन्नड, संस्कृत	
अभिभूत		मलयालम	3. चकित, किंकर्तव्यावगूढ़, स्तब्ध, पराजित, दोग व व्यक्ति, कर्तव्याकर्तव्य विचार शून्य
अभिभूतुडु	संज्ञा	तेलुगु	4. गुप्त, छिपा हुआ व्यक्ति (तमिल)
अभिभूतमु	विशेषण	तेलुगु	
अबिभूतम् (त्रु)	संज्ञा	तमिल	
अभिभूति	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	1. पराजय, अपमान, पराजय की चोट, निरादर 2. आधिक्य, प्राबल्य, सर्वोत्तमता (नेपाली, संस्कृत) 3. विह्वलता, आकुलता, अभिभूत होने की दशा
अभिभूति		बंगला, कन्नड	
अभिभूति		मलयालम	
अभिभंडन	संज्ञा	हिंदी	1. सुसज्जित करना या भूषित करना 2. पक्ष समर्थन करना, मत पोषण
अभिभंता	विशेषण	हिंदी	अभिमानि, घमंडी, गर्विष्ठ, गरूरभरा
अभिमंत्रण	संज्ञा	हिंदी, असमी, बंगला	1. मंत्र पढ़कर पवित्र करना या संस्कार करना 2. आह्वान, निमंत्रण, संबोधित करना 3. वशीकरण प्रयोग 4. सलाह-मशविरा करना
अभिमंत्रण		मराठी, गुजराती, उड़िया	
अभिमंत्रण		नेपाली, संस्कृत, कन्नड	

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिमंत्रणं अभिमंत्रणम्		मलयालम तेलुगु	+ 5. उपदेशदान, आराधना (बंगला) 6. जादू टोना करना; स्वागत करना; न्योता देना
अभिमन्त्रितसू अभिमन्त्रिककुक् अभिमन्त्रिसु अभिमन्त्रणं	क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया	तमिल मलयालम कन्नड मराठी	1. मंत्र-पूत, मंत्रों द्वारा पवित्र करना 2. आह्वान मंत्र पढ़ना 3. मंत्रों द्वारा संस्कार करना 4. मंत्र पढ़कर देवी-देवता का आह्वान करना
अभिमन्त्रित अभिमन्त्रित अभिमन्त्रित अभिमन्त्रितम्	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी नेपाली, बंगला, संस्कृत मलयालम तेलुगु	1. मंत्र पूत, मंत्रों द्वारा पवित्रीकृत 2. आवाहित, प्रार्थित, आमंत्रित, मंत्रों द्वारा बुलाया गया, निमंत्रित किया गया 3. मंत्र पाठ द्वारा संस्कारित, आराधित, उपदिष्ट
अभिमन्त्रिरम् अभिमन्त्रं	संज्ञा संज्ञा	तमिल हिंदी, संस्कृत	मंत्र पाठ करना, वेदपाठ करना, आवाहन आंख का एक रोग जिसमें खुजली होती है
अभिमन्त्र अभिमन्त्र अभिमन्त्र अभिमन्त्र अभिमन्त्रं अभिमन्त्रम् अभिमन्त्रम्	विशेषण	हिंदी, नेपाली, गुजराती मराठी, संस्कृत, मलया असमी, उड़िया बंगला, कन्नड मलयालम	1. मत या राय के अनुकूल, सम्मत, मनचाहा, प्रिय ख्वाहिश, अभिप्राय, मन्तव्य 2. वांछित, इष्ट, पसंद, अभिलषित, समर्थित, अंगीकृत, स्वीकृत, अनुकूल, अनुमोदित, मनोनीत, सत्कारित
अभिमन्त्रि अभिमन्त्रि	संज्ञा	तमिल	+ 3. स्वीकृति, सहमति (तमिल)
अभिमन्त्रि अभिमन्त्रि	संज्ञा	तेलुगु	4. इच्छा, राय, व्यक्तिगत विचार (ओपीनियन)
अभिमन्त्रि अभिमन्त्रि	संज्ञा	हिंदी, मलयालम	1. अभिमान, गर्व, सम्मान, आदर 2. अभिमत, आग्रह, इच्छा, राय, विचार सहमत होना, अनुमति देना
अभिमन्त्रिसु अभिमन्त्रिसु अभिमन्त्रि	क्रिया विशेषण	कन्नड नेपाली, संस्कृत संस्कृत	अभिलाषी, इच्छुक, आशावान, उम्मीदवार 1. इच्छा करना, लालच करना, स्वीकार करना 2. अनुमति देना, ख्याल करना
अभिमन्त्रि अभिमन्त्रि अभिमन्त्रि अभिमन्त्रि	संज्ञा	मलयालम हिंदी, संस्कृत तेलुगु मलयालम	1. युद्ध, हत्या, अपने पक्ष द्वारा विश्वासघात, युद्धक्षेत्र 2. शक्तिशाली शत्रु का भय, नज़रबंदी, कैद, बेड़ी 3. निराश होकर लड़ने को बंद करना, मार डालना 4. निराश हो हाथी या शेर से लड़ने वाला

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिमानणें अभिमानिसु	अकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया	मराठी कन्नड	1 गर्व करना 2 हक आजमाना + 3 सम्मान करना, रक्षा करना, दया करना (कन्नड) 4 स्वीकारना 5 समझना 6 योगक्षेम वहन करना
अभिमानक्षयं अभिमानकलस्त्रिम् अभिमान गिति	सज्ञा सज्ञा	मलयालम तमिल कन्नड	मान हानि, अपमान, घमडनाश, अवमानना वेश्या, रखैल 1 गर्वीली स्त्री, स्वाभिमानिनी 2 प्रिय, कोमल
अभिमानधन अभिमानधन	विशेषण विशेषण	संस्कृत, बंगला मराठी	1 प्रतिष्ठा को धन मानने वाला, मानधन 2 कीर्ति बचाने में दक्ष, सम्मान को धन मानने वाला
अबमानतुङ्गन् अबिमानपुत्तिरन् अभिमान शून्य अबिमानस्तिरी	सज्ञा सज्ञा विशेषण सज्ञा	तमिल तमिल बंगला, संस्कृत तमिल	अत्यासक्ति, अत्यधिक स्नेह करने वाला स्नेह पुत्र, दत्तकपुत्र (पर विधान में मान्य नहीं) जिसमें आत्म सम्मान, घमड, गर्व भावना न हो वेश्या, रखैल, अतिरिक्तभार्या
अभिमानी अभिमानी अभिमानी अभिमानी अभिमानी अभिमानि अबिमानि अभिमानिन् अभिमानि	विशेषण	हिंदी, पंजाबी गुजराती मराठी, सिंधी नेपाली, उड़िया असमी, बंगला मलयालम, तेलुगु तमिल संस्कृत कन्नड	1 अहकारी, घमडी, गर्विल, अकडू, दर्पी, मगरूर 2 स्वाभिमानी, आत्म प्रशमक, गममिजाज + 3 नुच्छकारण में जिसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचे (बंगला), खुदगर्ज, अपदेखा, नशे में चूर (सिंधी) + 4 अल्प त्रुटि पर जिसे अपमान बोध हो (बंगला) 5 अपने को बड़ा समझने वाला + 6 पक्षपाती, ठाठदार (मराठी) + 7 मवेदनशील (असमी) स्नेही, आसक्त (तमिल) + 8 समर्पित, दावा करने वाला (मलयालम)
अभिमानिबकुक्क अबिमानित्तल्		मलयालम तमिल	स्वाभिमान प्रदर्शित करना, दम करना, कल्पना में रहना, सम्मान करना, बहुत ध्यान रखना, प्यार, स्नेह करना, सहारा देना
अभिमानितं अभिमानिनी	सज्ञा विशेषण	मलयालम, हिंदी मलयालम	1 अहबुद्धि 2 स्नेह, प्रेम 3 संभोग भली स्त्री, अपने स्त्रीत्व का सम्मान रखने वाली
अभिमाय अभिमाय	विशेषण	मलयालम संस्कृत	1 बौखलाया हुआ, घबराया हुआ, अज्ञानी, मूर्ख 2 किंकर्तव्य विमूढ़, क्या करें यह निर्णय न कर सकने वाला
अभिमार		कन्नड	1 मार डालना 2 युद्ध 3 विश्वासघात

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिमार्गणं	सज्ञा	मलयालम	अन्वेषण, खोज, मार्ग का पता लगाना
अभिमुक्ति	सज्ञा	हिंदी	किसी कर्तव्य, कार्यभार, पद से बचे रहने की अवस्था या भाव (इम्पूनिटी)
अभिमुख	क्रिया विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 किसी ओर मुख करना, मुखानिब होना
अभिमुख	अव्यय	असमी, उड़िया, बंगला	2 सामन, दिशा की ओर, आगे उपस्थित
अभिमुख	विशेषण	कन्नड, नेपाली, मलया	3 ऊपर को मुख करना, ऊर्ध्व मुख
अभिमुगम्		तमिल	4 अनुकूल होना + दृना (कन्नड), नजदीक, समीप
अभिमुखमु		तेलुगु	5 सम्मुखवर्ती, समक्ष, प्रत्यक्ष, समीप
अभिमुखं	अव्यय	मलयालम	6 उद्यत, प्रवृत्त 7 सामने की ओर, आमने सामने
अभिमुगन्	सज्ञा	तमिल	+ 8 अभिमुख व्यक्ति, अनुकूल, व्यक्ति (तमिल)
अभिमुखकोण	सज्ञा	गुजराती	सामने का कोण
अभिमुखि	विशेषण	कन्नड	1 सम्मुखवर्ती, उद्यत, ऊर्ध्वमुख, समीप, अनुकूल,
अभिमुखी		बंगला, संस्कृत	उद्देश, मुख के समीप, मुखानिब होना
अभिमुखिन		बंगला, असमी	+ 2 किसी ओर देखनी स्त्री (कन्नड)
			3 सम्मुख स्थित, मुख के सामने, दृष्टिगत
अभिमुखिकरण	सज्ञा	कन्नड	1 अभिधन करना 2 किसी ओर मुख करना, ध्यान दिलाना
अभिमुखिकरिक्कुक्क	क्रिया	मलयालम	मुकानेला करना
अभिमुखे	अव्यय	बंगला, असमी	सामने की तरफ, दिलकून सामने आर, प्रति
अभिमुखसंभाषणं	सज्ञा	मलयालम	सामने होकर सन्धिधत करना
अभिमुद	सज्ञा	संस्कृत, हिंदी	पसल डालना, कुचलना, दवाना, विरुद्ध बोलना
अभिमृष्टं	भूत कृदत	मलयालम	1 जो स्पर्श किया गया हो 2 हारा हुआ
अभिमृष्ट		हिंदी	3 मिला हुआ, ससृष्ट 4 आक्रान्त
अभिमोदिककुक्क	क्रिया	मलयालम	मुख उठाना, आनन्द लेना
अभियति	सज्ञा	तेलुगु	वेरी, दुश्मन, शत्रु
अभियंता	सज्ञा	हिंदी, नेपाली	इजीनियर, यत्र ज्ञानी
अभियंत्रण	सज्ञा	हिंदी	यत्र को बनाने, सुधारने की विद्या
अभियांचा	सज्ञा	हिंदी	1. याचना, प्रार्थना, मागना, अधिकारपूर्वक माग
अभियाञ्चा		नेपाली, संस्कृत	2 दृढ़ता के साथ माग उपस्थित करना (Demand)
अभियाचन		हिंदी, नेपाली	3 दीनता या नम्रतापूर्वक मांगना, प्रार्थना करना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभियाधित अभियाधित	भूत कृदत	हिंदी, नेपाली बंगला, संस्कृत	प्रार्थित, मांगा हुआ या जिसके लिए प्रार्थना की गई हो, अधिकारपूर्वक प्रार्थना
अभियात(तृ) अभियातन्	विशेषण संज्ञा	बंगला मलयालम	जिस पर हमला किया गया हो, आक्रमित आक्रान्त, आविष्ट, कथित अभियुक्त
अभियाति(तृ) अभियाति (न्)	संज्ञा	तेलुगु, कन्नड, (संस्कृत) मलयालम	आक्रान्ता, शत्रु, आक्रमणकारी, अभियान करने वाला, चढाई करने वाला, निकट जाने वाला
अभियानं अभियान अभियान अभियान अभियानमु	संज्ञा	मलयालम बंगला, हिंदी मराठी, उड़िया नेपाली, संस्कृत तेलुगु	1 सामने जाना, धावा बोलने की क्रिया 2 युद्धयात्रा, प्रयाण, हल्ला बोलना, अभिगमन 3 आविष्कार के उद्देश्य से सामूहिक यात्रा 4 सैनिक यात्रा, आरोहण, चढाई (Expedition) 5 सामना करने जाना, युद्ध करने जाना
अभियानिक अभियानी	विशेषण संज्ञा	हिंदी हिंदी	अभियान के रूप में या तत्संबन्धी, अभियान का उद्देश्य सिद्ध करने या क्रिय क्रमना में प्रयाण करने वाला
अभियास्यन् अभियास्य	संज्ञा विशेषण	मलयालम संस्कृत, मलयालम	1 उचित, न्यायपूर्ण, बुद्धि पूर्ण कार्य में रत 2 पाण्डित्य युक्त, विदग्ध, कुशल 3 आक्रमित 4 आगेपित 5 नियुक्त
अभियुक्त अभियुक्त अभियुक्त अभियुक्त अभियुक्त अभियुक्त अभियुक्त अभियुक्त अभियुक्त अभियुक्त अभियुक्त	संज्ञा	हिंदी मलयालम संस्कृत गुजराती मराठी नेपाली, असमी बंगला कन्नड तेलुगु तमिल	1 दोषागेपित, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, मुलजिम, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो 2 जिसकी कोई त्रुटि पकड़ी गयी हो 3 प्रतिवादी, जो किसी मुकदमें में फसा हो 4 किसी काम में व्यस्त, एकाग्र, तत्पर + 5 पूर्ण अभिज्ञ, पारदर्शी, विद्वान, विशारद (तमिल) + 6 रोका हुआ, शत्रु से घिरा हुआ (गुज) ज्ञानी, दक्ष + 7 आसामी, आक्रान्त, आसक्त, आविष्ट (बंगला) + 8 उद्योगी, उत्साही, हल्ला बोलने वाला, अधिकार रखने वाला, पूज्य, पवित्र, अभिजात (मराठी)
अभियुक्ति अभियुक्त-उक्ति	संज्ञा संज्ञा	हिंदी मराठी	अभियुक्त होने की अवस्था या भाव वृद्ध वचन, प्रमाण वाक्य, आर्षकथन

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभियुज्	विशेषण	संस्कृत, हिंदी	नालिश करना, किसी काम के लिए प्रस्तुत होना
अभियोक्ता	विशेषण	हिंदी, नेपाली, बंगला	1. अभियोग उपस्थित करने वाला, अभियोग लगाने वाला 2. आरोपी, दोषारोपणकारी
अभियोक्ता (बु)	संज्ञा	मलयालम	3. वादी, मुद्दई, फरियादी, दावा करने वाला, अर्जी देने वाला 4. आक्रमणकारी, शत्रु, वैरी, अभियोगी
अभियोक्ता		तेलुगु	
अभियोक्तृ		संस्कृत, हिंदी, बंगला	
अभियोग	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. मनोनिवेश, मनोयोग, निरन्तर अभ्यास, वेष्टा, अच्छी तरह लागू करना, दीर्घ उद्योग; पांडित्य
अभियोग/जोग		असमी, उड़िया, बंगला	2. आरोप, दोषारोप, नालिश, मुकदमा, शिकायत, फरियाद, अपवाद 3. दूषण, निन्दा, झगड़ा, भर्त्सना
अभियोग		गुजराती, कन्नड, मराठी	4. आक्रमण, चढ़ाई, युद्ध के लिए आह्वान, फ़रेब
अभियोगम्		तमिल	5. आवेज़, अध्यवसाय, मनन, चिंतन, मेहनत, श्रम(मराठी)
अभियोगं		मलयालम	
अभियोगमु		तेलुगु	
अभियोगद्रव्यं	संज्ञा	मलयालम	जिस रकम के लिए मुकदमा किया जाय
अभियोगपत्रं	संज्ञा	मलयालम	दोषारोपण पत्र, चार्जशीट, अर्जी, दावा, फरियाद, शिकायत, वह लिखित पत्र जिम्में वादी अपने पक्ष के प्रमाण प्रस्तुत करता है
अभियोग पत्र		हिंदी	
अभियोगपत्रिरम्		तमिल	
अभियोगि	संज्ञा	मलयालम, कन्नड, तेलुगु	1. आरोप लगाने वाला, दोषी ठहराने वाला, वादी, फरियादी, मुद्दई, अभियोग चलाने वाला (प्रासीक्यूटर) 2. आक्रमणकर्ता
अभियोगिन्		संस्कृत	
अभियोगी		हिंदी, गुजराती	3. कार्यरत, मनोनिवेशक, मनोयोगपूर्वक संलग्न
अभियोगी		नेपाली, बंगला	
अभियोगिक्कुक्		मलयालम	दोष लगाना, आक्रमण करना, जोतना (बैल, घोड़ा); कहना, जोड़ना-मिलाना, तैयारी करना जिसके विरुद्ध मुकदमा करना उचित हो, जिसे अभियुक्त बनाया जाय, जो दोषी प्रमाणित किया जाय, प्रतिवादी(डिफेंडेंट)
अभियोग्य	विशेषण	बंगला, संस्कृत	
अभियोग्य		हिंदी, नेपाली	
अभियोग्यन्	संज्ञा	मलयालम	
अभियोजक	विशेषण	हिंदी	अभियोगी (प्लेन्टिफ़, कम्प्लेनैट), फरियादी
अभियोजन	संज्ञा	हिंदी	1. अच्छी तरह जोड़ना, लगाना
अभियोजन		बंगला	2. किसी पर दोष लगाना, अभियोग लगाना
अभियोजन		संस्कृत	3. फ़ीजदारी मुकदमा चलाना (एक्यूजेशन)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभियोजित	विशेषण	बंगला	किसी उद्देश्य, साधन या अवस्था को उपयोगी बनाना
अभिरंजक	सज्ञा	कन्नड	परम सौन्दर्य या कान्ति
अभिरंजन	सज्ञा	हिंदी, कन्नड	1 अच्छी तरह रंगना 2 अनुरक्त करना या होना
अभिरंजित		हिंदी, संस्कृत	1 खूब रंगा हुआ 2 अनुराग में पगा हुआ
अभिरक्षक	सज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	सरक्षक (संपत्ति का), अभिभावक, बचाने वाला
अभिरक्षा	सत्वा	नेपाली, मलयालम	1 सम्पूर्ण रक्षा, सरक्षण, सुरक्षा, सहायता करना
अभिरक्षा		हिंदी, बंगला, संस्कृत	2 सर्वविध रक्षा, बचाव, विपद से बचाव
अभिरक्षण	सत्वा	हिंदी, नेपाली	अधिकार या रक्षा में लेकर रखने की क्रिया सम्पूर्ण
अभिरक्षण		कन्नड, संस्कृत	रक्षण, सर्वविध रक्षण पूरा पूरा बचाव
अभिरक्षिक्कुक	क्रिया	मलयालम	रक्षा करना, सरक्षण देना
अभिरक्षित	भूत कृदन्त	हिंदी, बंगला, संस्कृत	जिसकी रक्षा की गई हो, सरक्षित, जिसे शरण दी
अभिरक्षितमु		तेलुगु	गई हो, जिसे आक्रमण में बचाया गया हो
अभिरक्त	विशेषण	गुजराती	निमग्न, अभिरत, तन्मय, एकाग्रचित
अभिरत	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 व्यस्त तल्लीन निमग्न, लीन, मिला हुआ
अभिरत		बंगला, मलयालम	2 अनुरक्त, आमक्त, भक्त, समर्पित, युक्त, नियुक्त
अभिरत		नेपाली, संस्कृत	मनोयोगी 3 प्रसन्न, नृष्ट, सतृष्ट
अभिरति	सज्ञा	मलया, कन्नड, बंगला	1 सतीष, तृप्ति, आर्मान, समर्पण, भक्ति, अनुराग
अभिरति		हिंदी, नेपाली, संस्कृत	2 मुख, हर्ष, आनंद, प्रसन्नता, लगन
अभिरति		तेलुगु	+ 3 अपेक्षा, इच्छा (तेलुगु)
अभिरना	अकर्मक क्रिया	हिंदी, तेलुगु	1 भिडना टकगना, लडना+2 सहारा लेना (हिंदी)
अभिरमण	सज्ञा	हिंदी	1 अच्छी तरह रमण करना, रम जाना
अभिरम्		संस्कृत	2 आनन्द लेना (किसी चीज का), हर्ष, प्रसन्नता
अभिरमिक्कुक	क्रिया	मलयालम	कृतज्ञ होना, प्रसन्न हो जाना
अभिराद	विशेषण	हिंदी	प्रसन्न किया हुआ, सतृष्ट किया हुआ
अभिराधन	सज्ञा	हिंदी	अनुकूल करने के लिए कुछ दबकर या देकर प्रसन्न करना (एपीजमैट)
अभिराम	विशेषण	हिंदी, गुज, मलया, मराठी	1 सुन्दर, मनोहर, रम्य, मौहक, प्रिय, सुडौल
अभिराम		असमी, उड़िया, बंगला	2 आह्लादकर, तृप्तिदायक, मुखद, रमणीय,

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिराम		नेपाली, कन्नड, संस्कृत	आनन्दकर, प्रीतिकर, हर्ष पूर्ण, मधुर, रुचिकर
अभिरामं(न्)	संज्ञा	मलयालम	+ 3 रगमात्मा, शिव (असमी, हिंदी)
अभिराममु	विशेषण	तेलुगु	+ 4 प्रियकर, पति (मंज्ञा) मराठी
अभिरामम्	संज्ञा	तमिल	5 इष्टदेव, विष्णु, शिव तथा अन्य सर्वाङ्गन देवरूप(मंज्ञा)
अभिरामन्	सज्ञा	तमिल	मनोहर व्यक्ति, प्रीतिकर या मोहक व्यक्ति
अभिरामता	संज्ञा	मलयालम	मोन्दर्य, रमणीयता, प्यारपन
अभिरामी	विशेषण	हिंदी	1. रमण करने वाला, आनन्द प्राप्त करने वाला
अभिरामिन्		संस्कृत	2. सचरण करने या व्याप्त होने वाला
अभिरामि	सज्ञा	तमिल	+ 3. पार्वती, मुन्दरी (तमिल)
अभिरुचि	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, असमी	1 अन्यन्न रुचि, दिलचस्पी, मन का झुकाव, रमन्द,
अभिरुचि		बंगला, मराठी, संस्कृत	शोक, यज्ञ की चाह 2. इच्छा, अभिलाषा, वाछा, जोश
अभिरुचि		कन्नड, मलयालम, नेपाली	3 आनन्द, अत्यात्मिक, अनुगम, प्रियविषय या वस्तु
अभिरुचि		तेलुगु	+ 4 दीर्घ (बगला), तेज (मराठी), इष्ट (मलयालम)
अभिरुचि/रुचि		तमिल	+ 5 कीर्ति आदि की आकाशा, महत्वाकाशा (हिंदी)
अभिरुचित	मंज्ञा	नेपाली	1. प्रसन्न किया हुआ, चाहा हुआ
अभिरुचित	विशेषण	संस्कृत	2. सतोषप्रद, आनन्ददायक, रिय, अनुकूल
अभिरुचित		मलयालम	3 प्रिय रगने वाला व्यक्ति. प्रेमी, आशिक
अभिरुच्य	विशेषण	हिंदी, नेपाली, मलया	1 अति मुन्दर 2. बहुत मीठा या स्वादिष्ट
अभिरुतं	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	1 युकार, चीख, शोरगुल, उच्च शब्द, आवाज
अभिरुत	सज्ञा	हिंदी, नेपाली	2. गूजने वाला या मधुर गुजित, कूजित
अभिरुता	संज्ञा	हिंदी	घड़त ग्राम की एक मूर्छना (सगीत मे)
अभिरुद्रता(रुद्रगता)		गुजराती, मलयालम	संगीत में एक मूर्छना
अभिरूप	विशेषण	हिंदी, कन्नड, मलया	1. अनुरूप, अनुकूल, अनुसार, प्रतिरूप, सदृश
अभिरूप	संज्ञा	गुजराती, मराठी	2 मनोहर, मुन्दर, प्रिय, प्रेमी. प्रेमपात्र, रूपवान
अभिरूप		नेपाली, बंगला, असमी	3. गान्य, योग्य, चतुर 4 आनन्ददायक, हर्षदायक
अभिरूपं	संज्ञा	मलयालम	5. विद्वान, पंडित, वैदूष्यज्ञान युक्त. प्रशस्त
अभिरूपमु		तेलुगु	+ 6. कृत्रिम, नकली, बनावटी (मराठी)
अभिरूपन्	संज्ञा	मलयालम	7 चंद्रमा, शिव, विष्णु, कामदेव (मंज्ञा)
अभिरूपुडु(भक्ति)	संज्ञा	तेलुगु	+ 8 अङ्गमंद, चतुर, होशियार आदमी (तेलुगु)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिरूपपति	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	1 योग्यभर्ता, श्रेष्ठ पति, मनोनुकूल पति
अभिरूपपतिक	संज्ञा	मराठी	2 श्रेष्ठ पति पाने के लिये किया जाने वाला व्रत
अभिरोग	संज्ञा	हिंदी	चौपायो की जीभ में घाव का रोग
अभिरापण	संज्ञा	हिंदी	पौधो को एक स्थान से हटा दूसरे पर रोपणा
अभिसंधन	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 कूद कर लाघना या आर पार जाने की क्रिया
अभिसंधनं		मलयालम	2 अपनी सीमा या अधिकार क्षेत्र का उल्लघन करना
अभिसंध	विशेषण	हिंदी	1 ऐसा लब या खडी रेखा जिसके दोनो ओर सम
अभिसन्ध		बंगला	कोण हों
अभिसन्धं	संज्ञा	मलयालम	2 बिंदु पर अकित लब
अभिसन्धित	विशेषण	हिंदी, बंगला, संस्कृत	चिन्हो से युक्त, चिहिनत, सकेतित, उपलक्षित
अभिसन्धय	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	जो लक्ष्य बनाया जा सके या बनाया जाय
अभिसन्धण	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत, बंगला	चाहना, इच्छा करना, ललचाना, अभिलाषा
अभिसन्धणीय	विशेषण	मलयालम, बंगला, संस	वाछनीय, आग्रह योग्य, आकाक्ष्य
अभिसन्धित	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 इच्छित, वाछित, इष्ट, प्रिय -
अभिसन्धित		नेपाली, असमी, बंगला	2 आकाक्षित, आग्रहीकृत, चाहा हुआ
अभिसन्धित		कन्नड, मलया, संस्कृत	3 इच्छा का पात्र, जिसकी प्राप्ति चाही जाय
अभिसन्धितमु		तेलुगु	4 जो चाहा था वह मिला
अभिसन्धिकुक	क्रिया	मलयालम	चाहना करना, आकांक्षा करना
अभिसन्धिनु	क्रिया	तेलुगु	वाछा करना, इच्छा करना
अभिसन्धिसु		कन्नड	इरादा करना, आग्रह करना, कामना करना
अभिसापं	संज्ञा	मलयालम	1 भाषण, कथन, शब्द, वाक्, बातचीत
अभिसापनं		मलयालम	2 उल्लेख, वर्णन, प्रस्ताव, घोषणा, प्रतिज्ञा
अभिसाप		संस्कृत, हिंदी, नेपाली	3 प्रख्यापन, निर्दिष्टिकरण, विवरण
अभिसापमु		तेलुगु	4 किसी व्रत या धर्मानुष्ठान का सकल्प
अभिसापम्		तमिल	5 मन के किसी संकल्प का कथन या उच्चारण
अभिसापं	संज्ञा	हिंदी, मलयालम, संस्कृत	फसल काटना, बोना, घास काटना
अभिसापं	संज्ञा	मलयालम	1. चाह, इच्छा, लोभ, लालच, अनुराग, आग्रह.
अभिसाप्या		हिंदी, गुजराती, मराठी	कामना, उत्कट इच्छा, तीव्र इच्छा
अभिसाप्या		असमी, बंगला, नेपाली	2 विरह की 10 दशाओं में एक

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिलाखा		हिंदी, पंजाबी, गुजराती	3. प्रिय से मिलने की इच्छा अथवा प्रिय की प्राप्ति की लालसा
अभिलाष		संस्कृत, तेलुगु	
अभिलाषै		तमिल	+ 4. अपहार या अपहरण की इच्छा (मराठी)
अभिलाषा/खा		सिंधी	5. स्पृहा, वांछा, आकांक्षा, वासना, मनोरथ
अभिलाषे		कन्नड	+ 6. कंजूसी (कन्नड)
अभिलास		उड़िया	+ 7. एक प्रकार का शृंगार काव्य (कन्नड)
अभिलाषबुद्धि	विशेषण	मराठी	दूसरे की वस्तु छीनने की इच्छा
अभिलाषाणिक	विशेषण	बंगला	1. सदृश लक्षणात्मक 2. लक्षणों में समान
अभिलाषबुं	सकर्मक क्रिया	गुजराती	इच्छा करना, चाहना, प्राप्त हो जाये यह मन करना
अभिलाषणें	क्रिया	मराठी	प्राप्ति की चाह होना
अभिलाषि	संज्ञा, विशेषण	मलयालम, तेलुगु, कन्नड	1. इच्छुक, आकांक्षी, लालची, लोभी, लालसा रखने वाला (एमपायरैन्ट)
अभिलाषिन्	संज्ञा	संस्कृत	
अभिलाषी	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी +	2. लोलुप (नेपाली) कंजूस (कन्नड)
अभिलाषी		उड़िया, बंगला, असमी	3. वस्तु को प्राप्त करने का मनोरथ करने वाला
अभिलाषी		पंजाबी, सिंधी	4. दूसरे की वस्तु उसे मिल जाय ऐसा विचार रखने वाला
अभिलाषुक	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, कन्नड	5. चाहने वाला, कामना करने वाला
अभिलाषुकन्	संज्ञा	मलयालम	6. लगन लगना या लगन होना
अभिलासी/सु		बंगला, असमी	
अभिलिखित	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1. लिखा हुआ 2. खुदा हुआ 3. अभिलेख या दस्तावेज़ 4. प्रमाण के लिए लिखा हुआ
अभिलिखित		बंगला, संस्कृत	
अभिलिखितं		मलयालम	5. नियमित रूप से लिखकर सुरक्षित रखा हुआ
अभिलीन	विशेषण	हिंदी	1. टांकना, जोड़ना, संलग्न करना
अभिलीन		मलयालम	2. अनुरक्त, आमक्त, तन्मय, पसन्द किया हुआ
अभिलीन		नेपाली, संस्कृत	3. आश्लेषित, आच्छादित, चिपका हुआ, आलिंगनबद्ध
अभिलुलित	विशेषण	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	क्षुब्ध, उत्तेजित, अस्थिर, अकम्पित, आन्दोलित, व्याकुल, उद्विग्न, खिलाड़ी, चंचल (संस)
अभिलुलित		मलयालम	
अभिलुता	संज्ञा	हिंदी, मलयालम, संस्कृत	खाल पर छाले डालने वाली मकड़ी
अभिलेख	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. पत्थर, ताम्रपत्र आदि पर खुदा प्राचीन लेख
अभिलेख (लिखित)		नेपाली, बंगला	2. दस्तावेज़, तथ्य या प्रमाण का लिखित रिकार्ड

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिलेख-अधिकरण	सज्ञा	हिंदी	शासकीय विभाग जिसे लिखित त्रुटि को सुधारने का अधिकार हो (कोर्ट आफ रिकार्डस)
अभिलेख न्यायालय		संस्कृत	
अभिलेखन		हिंदी, नेपाली	1 पत्थर या धातु पत्र पर खोदकर लिखना
अभिलेखन		बंगला, संस्कृत	2 पुस्तक के पृष्ठों पर सन्निवेशन, खुदाई करना (बंगला) 3 अभिदेश या मृति आदि अंकित करना
अभिलेखनयंत्र		नेपाली, हिंदी	रिकार्डिंग मशीन
अभिलेख-न्यायालय		हिंदी, संस्कृत	देखे —अभिलेख अधिकरण (कोर्ट आफ रिकार्डस)
अभिलेखपाल	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	रिकार्ड कीपर, पुराने दस्तावेजों को रखने वाला
अभिलेखालय	सज्ञा	हिंदी, नेपाली	अभिलेख रखने की जगह (रिकार्ड रूम)
अभिलेखित	सज्ञा	हिंदी	पत्थर, धातु पत्र आदि पर उकेरा गया, लिपिबद्ध
अभिलोपन	सज्ञा	हिंदी	1 लेख आदि को पूरी तरह मिटा देना
अभिलोपन		संस्कृत	2 ऐसा नष्ट करना कि चिह्न भी न रहे
अभिवंदन	सज्ञा	हिंदी	1 छलना 2 ठगना 3 धोखा देना
अभिवंचित	भूत कृदंत	हिंदी	1 धोखे, छल आदि में किसी वस्तु से रहित होना
अभिवंचितु	सकर्मक क्रिया	कन्नड	2 धोखा देना, ठगना, छलना
अभिवंदन	सज्ञा	हिंदी, नेपाली	1 बहुमान पूर्वक वंदन, ससम्मान या पुरस्सर प्रणाम
अभिवंदन		गुजराती, मराठी	2 बहुत झुककर नमस्कार, सलाम आदि करना
अभिवन्दन		बंगला, कन्नड, संस्कृत	3 स्तुति, प्रशंसा, यशोगान करना
अभिवंदनं		मलयालम	4 देवता की आरती, भस्म आदि लेना
अभिवंदनमु		तेलुगु	+ 5 गौरव प्रदर्शन (कन्नड), सम्यक् आराधना (बंगला)
अभिवंदना	सज्ञा	हिंदी	1 अच्छी तरह की जाने वाली वंदना या स्तुति
अभिवन्दना		संस्कृत	2 नमस्कार, प्रणाम 3 प्रशंसा, स्तुति, यशोगान
अभिवन्दनीय	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1 प्रणम्य, पूज्य, श्रद्धेय, आराध्य, स्तुति/वदना योग्य
अभिवंदनीय	विशेषण	हिंदी, गुजराती	2 अति सम्माननीय, अभिवदना योग्य
अभिवंचितु	क्रिया	कन्नड	अभिवंदन करना, सम्मानपूर्वक नमन करना
अभिवंचितुकु/वंदनवं		मलयालम, गुजराती	स्तुति करना, वदना करना
अभिवंचित	भूत कृदंत	हिंदी, मलयालम	अति सम्मान पूर्वक सत्कारित, पूजित, अभिवादित

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिव्यंघ अभिव्यंघ	विशेषण	हिंदी, गुजराती, कन्नड मलयालम, संस्कृत	1. अभिनंदन योग्य, सम्माननीय, स्तुति योग्य 2. सम्मानपूर्वक वन्दना करने योग्य
अभिवक्ता अभिवक्तृ अभिवक्ता	संज्ञा	हिंदी संस्कृत नेपाली	1. जो न्यायालय में विधिक या व्यावहारिक पक्ष का समर्थन करता है, वकील (प्लीडर) 2. किसी के निमित्त साधिकार बोलने वाला
अभिवचन अभिवचन	संज्ञा	हिंदी मराठी	1. प्रतिज्ञा, इकरार, प्लीडिंग, वादा, आश्वामन, कौल 2. अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में नियोजक की ओर से दिया वक्तव्य
अभिव्यस्तु अभिव्यस्त	विशेषण	मलयालम संस्कृत	यौवन से भरपूर, तरोताजा, पूर्णवयस्क, जवान, प्रौढ़, गबरू जवान
अभिवर्जनं अभिवर्जितु अभिवर्तन अभिवर्णितसु	संज्ञा क्रिया संज्ञा क्रिया	मलयालम कन्नड हिंदी कन्नड	न्यागना, उपेक्षा करना, ग्रहण न करना छोड़ देना, न्याग देना 1. किसी ओर बढ़ना 2. आक्रमण, चढ़ाई भली भाँति वर्णन करना
अभिवर्द्धनं अभिवर्धन अभिवर्धित	संज्ञा संज्ञा भूत कृदन्त	मलयालम हिंदी हिंदी	1. वृद्धि, विकास, बढ़ाने की क्रिया या भाव 2. उपयोगिता के लिए अधिक अच्छा बनाना एन्वेलपमेंट, जिसमें वृद्धि की गई हो या विकसित किया गया हो
अभिवर्षणं अभिवर्षण अभिवर्षिकुकु अभिवहनं अभिवर्षिकुकु	संज्ञा क्रिया संज्ञा क्रिया	मलयालम संस्कृत, बंगला मलयालम मलयालम मलयालम	1. किसी पर वर्षा होना, बौछारें पड़ना 2. सर्वत्र वृष्टिपात, प्रचुर मात्रा में जल बरसना वर्षा करना, सींचना, जल छिड़कना पास ले जाना, पास पहुंचाना किसी ओर ले जाना, संदेश पहुंचाना
अभिवान्छा अभिवान्छा अभिवान्छना अभिवान्छिकुकु	संज्ञा संज्ञा संज्ञा भूत कृदन्त	हिंदी मलयालम गुजराती मलयालम	1. आकाक्षा, अभिलाषा, इच्छा, मनोकामना + 2. मोह, अति आग्रह, मन की लगन (मलयालम) 3. दिली तमन्ना, भीतरी जाह इच्छा करना, प्राप्ति की चाह करना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिवाञ्छितं अभिवाञ्छित अभिवाञ्छित	विशेषण संज्ञा	मलयालम हिंदी गुजराती	इच्छित, इष्ट वस्तु, मनचाहा, जिस वस्तु की प्राप्ति की मनोकामना हो, अभिलषित, आकाक्षित, इच्छा, अभिलाषा, चाह (संज्ञा)
अभिवाद अभिवाद अभिवाद अभिवादं	संज्ञा	हिंदी, गुजराती संस्कृत बंगला, कन्नड मलयालम	1. प्रणाम, नमस्कार, वंदना, अभिवादन, प्रशंसा, स्तुति + 2. अप्रियवचन, आरोप, अपवाद, (बंगला) + 3. वाद-विवाद करना, तर्क-वितर्क करना (गुजराती) + 4. गाली गलौज (मलयालम)
अभिवादक अभिवादक अभिवादक	विशेषण	हिंदी, गुजराती, बंगला नेपाली, मराठी मलयालम, संस्कृत	1. प्रणाम या नमस्कार करने वाला + 2. विनम्र, सुशील, सम्मानसूचक (संस्कृत) + 3. अप्रिय वक्ता (बंगला)
अभिवादन अभिवादने अभिवादन अभिवादन अभिवादनम् अभिवादनम् अभिवादनं	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी कन्नड असमी, उड़िया बंगला, नेपाली तेलुगु तमिल मलयालम	1. वन्दना, पद स्पर्शपूर्वक प्रणाम, साष्टांग प्रणाम 2. छोटों की ओर से बड़ों को प्रणाम करना + 3. बधाई, प्रशंसा, स्तुति (नेपाली) 4. श्रद्धा, सम्मान, पुरस्कार प्रणाम 5. पिता तथा वंशपरिचय के साथ अपैना नाम लेकर प्रणाम करना 6. अभ्यर्थना, अभिनंदन, नमस्कार
अभिवादनीय अभिवादिक्कुक् अभिवादित	विशेषण क्रिया विशेषण	मलयालम मलयालम हिंदी	सम्माननीय, अभिवादन के योग्य संबोधित करना, कहना, घोषित करना जिसका अभिवादन किया गया हो
अभिवाद्य अभिवाद्यं/अभिवाद्यन्संज्ञा अभिवाद्य	विशेषण संज्ञा विशेषण	हिंदी, गुजराती, मलया मलयालम बंगला	1. अभिवादनीय, सम्मान्य, पूजनीय + 2. अभिवादन योग्य व्यक्ति (मलयालम) 3. श्रद्धास्पद, प्रणम्य, वंदनीय, श्रद्धेय
अभिवास अभिवासं	संज्ञा	हिंदी मलयालम	1. ढकने, ओढ़ने का आवरण या परदा, चादर 2. आच्छादन, वस्त्रावरण
अभिवासन अभिवासनं अभिवासन	संज्ञा संज्ञा संज्ञा	हिंदी मलयालम बंगला	1. ढकने या ओढ़ने की क्रिया या भाव 2. आवृत्त या आच्छादित करना + 3. परदेस में जाकर बसना, अन्यदेश में जा रहना (बंग)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिवासी	विशेषण	बंगला	परदेसी या परदेस वासी, अन्य देश से आगत
अभिकासिसु	क्रिया	कन्नड	सुगंधित करना
अभिवाहनं	संज्ञा	मलयालम	1. पास ले जाना 2. आवाहन, पास बुलाना
अभिवाहिनी	संज्ञा	संस्कृत	1. एक प्रकार की हस्तमुद्रा
अभिवाहिति		मलयालम	2. पास बुलाने का संकेत
अभिविधि	संज्ञा	नेपाली, बंगला, संस	1. व्याप्ति, मर्यादा, अभिव्याप्ति, आरंभ स्थान
अभिविधि		मराठी, मलयालम	+ 2. यहां से वहां तक पूर्ण ज्ञान या बुद्धि (मलयालम)
अभिविनीत	विशेषण	मलयालम	1. अति नम्र, पूर्ण अभिशासित, आज्ञापालक
अभिविनीत		हिंदी	2. सुशील, शिक्षित, शुद्ध, पवित्र
अभिविन्न	विशेषण	मलयालम	साफ-साफ देखा हुआ, स्पष्ट अनुभवित
अभिविद्	विशेषण	संस्कृत	जो किसी विषय को सांगोपांग जानता हो
अभिविश्रुत	विशेषण	नेपाली, संस्कृत	1. जगत प्रसिद्ध 2. सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम
अभिवीक्षणं	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	1. ध्यान से देखना, निरीक्षण, पर्यवेक्षण 2. मत, अभिमत
अभिवीक्षक	विशेषण	संस्कृत	1. गौर करने या ध्यान से देखने वाला
अभिवीक्षकन्	संज्ञा	मलयालम	2. पर्यवेक्षक, सूक्ष्म निरीक्षक, पहचानना, ख्याल करना
अभिवीक्षिककुक्क	क्रिया	मलयालम	ध्यान से देखना, निरीक्षण करना
अभिवीत	विशेषण	मलयालम	प्रेरित, अनुप्रेरित, संकेतित, अन्तर्भूत
अभिवृद्ध	संज्ञा	मलयालम	1. बढ़ाया हुआ, विकसित या उन्नत 2. ऐश्वर्यशाली
अभिवृद्धि	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. विकास, ऐश्वर्य, बढ़ोतरी समृद्धि, अधिकता
अभिवृद्धि		नेपाली, कन्नड, उड़िया	2. सफलता, अभ्युदय, उन्नति, जीत, विजय
अभिवृद्धि		मलया, संस, बंगला	3. बहुत अधिक अभिवर्द्धन या उन्नति
अभिविरुत्ति		तमिल	+ 4. श्री वृद्धि, सम्पत्ति वृद्धि, बढ़ोतरी (मराठी)
अभिवृद्धिकर		कन्नड	उन्नतिदायक, सफलतादायक
अभिव्यंजक	विशेषण	हिंदी, बंगला, मराठी	1. द्योतक, प्रकाशक, सूचक, प्रख्यापक, जिससे
अभिव्यंजक		गुजराती, मलयालम, संस	वास्तविक भाव/मंतव्य/ अभिप्रेत अर्थसूचित हो
अभिव्यंजकुडु		तेलुगु	2. स्पष्ट खुलासा करने वाला, प्रकट करने वाला
अभिवियञ्जकम्	संज्ञा	तमिल	+ 3. प्रकाश, स्पष्टीकरण (तमिल) (संज्ञा)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिव्यंजन	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 भावो को सकेतो या रेखाओ मे प्रकटाना
अभिव्यंजन	सज्ञा	गुजराती	2 शब्दा द्वारा प्रभावशाली ढग मे व्यक्त करना
अभिव्यंजन	सज्ञा	मराठी	3 कार्य रूप को प्राप्त, प्रकट, चिह्नित, प्रदर्शित
अभिव्यञ्जन	मज्ञा	नेपाली, बंगला	+ 4 प्रकाश, मुद्रकाश, व्यक्त (बंगला)
अभिव्यञ्जनं	सज्ञा	मलयालम	5 मनोभाव स्पष्ट ढग से प्रकट करना
अभिव्यंजना	सज्ञा	हिंदी	अभिव्यजन के रूप मे प्रकट की गई बात
अभिव्यजनावाद	सज्ञा	हिंदी	काव्य या साहित्य मे भावो को नग्न रूप से व्यक्त करने का सिद्धान्त (एक्सप्रेशनिज्म)
अभिव्यंजिककुक्क	क्रिया	मलयालम	1 प्रकट होना प्रकाशित होना, स्पष्ट हो जाना
अभिव्यंजित	भूतकृदन्त	हिंदी	2 अभिव्यजना द्वारा प्रकट क्रिया हुआ
अभिव्यंजितु	क्रिया	कन्नड	3 जिसका अभिव्यजन हो चुका हो
अभिव्यक्त	विशेषण	हिंदी, मराठी, उड़िया	1 प्रकट, स्पष्ट जाहिर, प्रकाशित
अभिव्यक्त		बंगला, नेपाली, कन्नड	2 स्वच्छ, साफ, विदित, प्रत्यक्ष, खुलासा वार
अभिव्यक्त		मलयालम, संस्कृत	3 कार्य रूप को प्राप्त, व्यंजित
अभिव्यक्ति	मज्ञा	तेलुगु, हिंदी, गुज, मलया, मराठी	1 व्यक्त, प्रकट, स्पष्ट होना या करना, सुपरिस्फुट
अभिव्यक्ति	सज्ञा	बंगला, कन्नड, नेपाली, संस	2 स्वच्छता, प्रत्यक्षता, प्रकटीकरण, प्रदर्शन, खुलासा
अभिव्यक्ति		तमिल	3 कारण का कार्य रूप मे आविर्भाव या प्रकाशन
अभिव्यादानं(न)	मज्ञा	मलयालम, संस्कृत	1 ध्वनि की पुनरावृत्ति 2 अक्षर लोप उच्चारण
अभिव्यापक	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मलया	1 सब ओर फैला हुआ या समाया हुआ
अभिव्यापक		नेपाली, बंगला	2 सर्व अवयव व्याप्ति कारण, व्यापक
अभिव्यापक		संस्कृत, मराठी	3 पूरी तरह प्रचलित, अन्तर्भूत + 4 बहुअर्थी(गुजराती)
अभिव्यापकं	मज्ञा	मलयालम	5 सम्मिलित, शामिल, पूर्णतया व्याप्त
अभिव्यापी		गुजराती, नेपाली	+ 6 एसा आधार जिसके हर अंश मे आधेय व्याप्त
अभिव्यापिन्	विशेषण	संस्कृत	हो, यथा तिल मे तेल, परमात्मा (हिंदी)
अभिव्यापणं	क्रिया	मराठी	पूर्ण रूप से व्यापना, विस्तार होना
अभिव्याप्त	विशेषण	हिंदी, बंगला	1 बहुओर विस्तृत, सम्मिलित, ज्ञात
अभिव्याप्त		मलयालम	2 सर्वत्र विद्यमान (मज्ञा) ईश्वर

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिव्याप्ति	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. सर्वत्र विद्यमान, सर्वव्यापकता, अन्तर्भुक्तता
अभिव्याप्ति		नेपाली, बंगला, कन्नड+	2. सर्व प्रदेश या सर्वअवधि का समावेश(मराठी)
अभिव्याप्ति		मलयालम, संस्कृत	3. सर्वत्र विस्तृति, सारे में फैलना 4. समावेश
अभिव्याहरीककुक्		मलयालम	घोषित करना, कह देना
अभिव्याहरण	संज्ञा	संस्कृत	कथन, उच्चारण, नाम, संज्ञा
अभिशंका	संज्ञा	हिंदी	1. भ्रम, संदेह, शक, चिन्ता, भय की अधिकता
अभिज्ञाङ्का		संस्कृत	2. भविष्य अथवा किसी व्यक्ति के दुख की आशंका
अभिज्ञाङ्का		नेपाली, बंगला + 3	अविश्वाम, आगेप, अभियोग (नेपाली)
अभिज्ञाङ्की	विशेषण	बंगला	विशेष संशय या आशंका युक्त
अभिज्ञंसन	संज्ञा	हिंदी, मराठी, बंगला, संस1	1. विधि या कानून की निगाह से अपराध या अभियोग की पुष्टि, अभियोग या दोष लगाना
अभिज्ञंसन (नं)		नेपाली, कन्नड, मलया	2. न्यायालय द्वारा अपराध सिद्धि की घोषणा की क्रिया या भाव (कनविकृशन)
अभिज्ञंसा		हिंदी, नेपाली, कन्नड	3. गाली, अपमान, निन्दा, दोषारोप
अभिज्ञंसा		मराठी, बंगला, संस्कृत	4. अपवाद, शंका, उद्दण्डता, कर्कश वाक्यकथन
अभिज्ञंसनमु		तेलुगु	
अभिज्ञंसी	विशेषण	नेपाली	1. अपराध, दोष, तोहमत या आगेप लगाने वाला
अभिज्ञंसी		मराठी	2. भर्त्सना या धिक्कार करने वाला
अभिज्ञंसक	विशेषण	मलयालम, संस, बंग, नेपा	3. दोष की सूचना देने, रिपोर्ट करने वाला
अभिज्ञंसिन्		संस्कृत	4. गाली देने वाला, निन्दा पूर्ण विवरण देने वाला
अभिज्ञंसि		मलयालम	5. अपराधी के विपक्ष में बोलने वाला सरकारी वकील (प्रोसीक्यूटर)
अभिज्ञंसी		बंगला	
अभिज्ञंसिककुक्	क्रिया	मलयालम	दोषारोपण करना, निन्दा करना, भर्त्सना करना
अभिज्ञंसित	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1. अभियुक्त, दोषी, दूषणकर्मा, निर्दित, अपमानित, दुष्कीर्ति प्राप्त, पापी, शापित, अभिशप्त, बदनाम
अभिज्ञस्त		हिंदी, मराठी	2. न्यायिक दृष्टि में अपराधी- सिद्ध हुआ
अभिज्ञस्त		मलयालम, संस्कृत	3. प्रमाणित अपराधी (कनविकिटड), आक्रांत, घायल
अभिज्ञस्तु		तेलुगु	
अभिज्ञपन	संज्ञा	हिंदी, कन्नड, संस्कृत	1. शाप, आक्षेप, आगेप, निन्दापूर्ण विवरण, बदनामी
अभिज्ञपनं		मलयालम	2. किसी पर झूठा दोषारोपण करना
अभिज्ञपनम्		तमिल	3. देवें: अभिशाप के अर्थ

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिज्ञप्त अभिज्ञप्त अभिज्ञप्तम्	विशेषण	हिंदी, मराठी, मलयालम नेपाली, असमी, बंगला तेलुगु	1. शापग्रस्त, शापित, जिस पर तोहमत लगी हो, निर्दित, अभियुक्त, दोषी, अपराधी, बदनाम 2. दुर्दशा ग्रस्त, शाप का कष्ट भोगने वाला
अभिज्ञस्तक अभिज्ञस्तक अभिज्ञस्तकन्	विशेषण	नेपाली संस्कृत मलयालम	1. दोषी ठहराया हुआ, बदनाम किया हुआ, मिथ्या दोष लगा हुआ + 2. यौन अत्याचार के कारण दोषी (मलयालम)
अभिज्ञस्तांकं	संज्ञा	मलयालम	कैदी के माथे पर दागा गया चिह्न
अभिज्ञस्ति अभिज्ञस्ति अभिज्ञस्ति	संज्ञा	हिंदी, नेपाली मलयालम कन्नड, संस्कृत	1. शाप, दुर्भाग्य, बदकिस्मती, अभिशाप, अपमान, भर्त्सना, बदनामी, अप्रतिष्ठा, आरोप, निन्दा, कोसना 2. याचना, मांग 3 हिंसा 4. विपत्ति
अभिज्ञाप अभिज्ञाप अभिज्ञाप अभिज्ञापनम् अभिज्ञापं अभिज्ञापम्	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, उड़िया, बंगला नेपाली, कन्नड, पंजाबी तमिल मलयालम, संस्कृत तेलुगु	1. किसी के अनिष्ट हेतु की गयी इच्छा, शाप 2. बुराई, किसी का बुरा मनाना, अपवाद 3. झूठा आरोप या मिथ्या दोषारोप, सराप 4. लाछन, निन्दा 5 अभिस्ताप, मंगीन इलजाम + 6 बहुत बड़ा पाप (हिंदी) 7. अनिष्ट का हेतु, भर्त्सना, अकोसा
अभिज्ञापकन् अभिज्ञापक	संज्ञा	मलयालम संस्कृत	1. आरोप या तोहमत लगाने वाला, निदक 2. कोसने वाला, बुरा चाहने वाला
अभिज्ञापज्वरं अभिज्ञाप ज्वर	संज्ञा	मलयालम संस्कृत	शाप के कारण आया ज्वर या बुखार जो किसी द्वारा अहित चाहने या करने से आता है जैसे नजर का बुखार
अभिज्ञापन अभिज्ञापनं	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत मलयालम	शाप देना, कोसना, धिक्कारना, भगवान करे उसका अनिष्ट हो ऐसी गाली देना
अभिज्ञापिबुद्धुक	क्रिया	मलयालम	किसी का बुरा हो ऐसा कहना, अनिष्ट कथन
अभिज्ञापित	विशेषण	हिंदी	1 जिसे शाप दिया गया है 2. देखे:- अभिज्ञप्त
अभिज्ञासक	संज्ञा	हिंदी	अच्छी तरह शासन करने वाला, अधिकारी
अभिज्ञासन	संज्ञा	हिंदी	पूर्ण नियंत्रित शासन क्रिया, दबंग हुकूमत
अभिज्ञास्ति	विशेषण	हिंदी	पूर्णतया नियंत्रित, जेरे हुकूमत
अभिज्ञिरोग्र	संज्ञा	मलयालम	सिर का एक रोग, (अभिज्ञिरोग्र) मस्तक पीड़ा
अभिज्ञुन्य	संज्ञा	हिंदी	शून्य करना, निरर्थक करना, रद्द करना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिश्रवण	संज्ञा	मराठी, संस्कृत	1. श्राद्ध के अंत में ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्रोच्चारण
अविश्रवणम्	संज्ञा	तमिल	2. श्राद्ध के समय ऋचाओं की पुनरावृत्ति 3. श्राद्ध
अभिश्रवणं		मलयालम	समय में मंत्रोच्चारण जो भोजन करते ब्राह्मण सुनें
अभिश्रवण-मंडपं	संज्ञा	मलयालम	मंत्रोच्चारण मंडप, जिस मंडप के नीचे वेद पाठ हो
अभिश्वावण	संज्ञा	नेपाली	अर्क निकालना, चुआना, खींचना (अर्क)
अभिश्वावणी	संज्ञा	नेपाली	अभिश्वावण भट्टी, भट्टी जिसकी गर्मी से शराब निकलती है
अभिभ्रुति	संज्ञा	बंगला	उच्चारण में परिवर्तन, स्वर-परिवर्तन
अभिभ्रवम्	संज्ञा	तमिल	कांजी, एक प्रकार का खाद्य द्रव पदार्थ
अभिभ्रवणं	संज्ञा	संस्कृत , हिंदी	बड़ा भारी दुःख, पीड़ा या क्लेश
अभिचंग	संज्ञा	हिंदी, मराठी, कन्नड	1. संगम, मिलन, आलिंगन, संभोग, अंकमाल, एकता,
अभिसंग		हिंदी, मराठी	संगति, आसक्ति, झुकाव, घनिष्टसंपर्क
अभिचङ्ग		बंगला, नेपाली	2. पराजय, हार, धक्का, दुख, शोक, आघात
अभिचङ्गं		मलयालम	3. अपमान, तिरस्कार, कोसना, अपवाद, निंदा,
अभिचंगमु		तेलुगु	मिथ्यापवाद, शाप, गाली 4. शपथ, कसम
अभिचंगम्		संस्कृत	5. कर्ज, उधार, ऋण 6. आकस्मिक संकट, दुर्भाग्य
अबिटङ्गम्	संज्ञा	तमिल	7. धून पीड़ा, प्रेतावेश 8. व्यसन, आक्रोश
अभिचंगज्वरं	संज्ञा	मलयालम	काम, भय, शोक, कोप, विष, औषधगंध आदि से
अभिचङ्गाजुरम्		तमिल	उत्पन्न ज्वर
अभिचंगी	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1. वह जो किसी बुरे या अनुचित काम में किसी का साथ दे
अभिचंगिन्	संज्ञा	संस्कृत	2. साथ लगा रहने वाला (संज्ञा)
अभिचयंतमु	संज्ञा	तेलुगु	1. अधिक मोटापा 2. अतिश्रय उन्नति
अभिसंद/षंद		बंगला	3. जल आदि का क्षरण 4. प्रजा बहुल
अभिष्यंदी		बंगला	5. चक्षु रोग, आंख में गीद आना, पानी बहना
अभिषद्	संज्ञा	हिंदी	विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों का उद्देश्य सिद्धि
अभिषद्		संस्कृत	हेतु संघटन (सिण्डीकेट)
अभिषव	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, मराठी	1. यज्ञ के लिए सोमलता का रस निचोड़ना
अभिषव		बंगला, कन्नड, संत	2. मद्य बनाना, आसवन, खमीर 3. कांजी
अभिषवं	संज्ञा	मलयालम	4. यज्ञ, धर्मानुष्ठान से पूर्व मार्जन, स्नान, प्रक्षालन

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिषवम् अभिषवण (णं)		तेलुगु संस्त, मराठी, बंगला, मलया) + 7	आदि 5. सोमपान 6 यज्ञ- स्नान, शुद्धिकरण बलिकर्म (मलयालम, कन्नड)
अभिषावक अभिषावकन्	सज्ञा	हिंदी मलयालम	1 यज्ञार्थ सोमरस निकालने वाला पुरोहित 2 यज्ञ के समय पान करने के लिये मद्य निष्कासक
अभिषिक्त अभिषिक्त अभिषिक्त अभिषिक्त अभिषिक्त अभिषिक्तुडु अभिषिक्तन्	भूत कृदन्त मज्ञा सज्ञा	हिंदी, गुजराती संस्कृत, मराठी असमी, बंगला कन्नड नेपाली, मलयालम तेलुगु तमिल	1 अभिषेक किया हुआ, भीगा हुआ, राजतिलक किया हुआ, तख्तनशीन, पदारूढ, सिंहासनारूढ 2 पुण्य जल से स्नान किया हुआ व्यक्ति या मूर्ति 3 अधिकार प्रतिष्ठित होना + सींचा हुआ (हिंदी) 4 बाधा निवारण के लिए अभिमंत्रित जल से स्नान करा राजगद्दी पर बैठाया गया + 5 यथाविधि शक्तिमत्र मे दीक्षित (बंगला)
अभिषिक्तन् अभिषिक्ता	सज्ञा सज्ञा	मलयालम, तमिल तमिल	1 पुण्य जल छिडकने के बाद ईसाई बनाना (बेप्टाइज) 2 ब्राह्मणेतर पुरोहित जाति के व्यक्ति को जलादि स्नान द्वारा गुरु बनाया जाना
अभिषुत अभिषुत अभिषुतम् अभिषेकम्	विशेषण सज्ञा	हिंदी, बंगला, कन्नड मलयालम तेलुगु तमिल	1 सोमरस के ममान निचोडा या रस निकाला हुआ + 2 अर्क निकाला हुआ (बंगला) 3 जो स्नान कर चुका हो सिर का एक अलंकार मुकुट
अभिषेक अभिषेक अभिषेक अभिषेक अभिषेक अभिषेक अभिषेक अभिषेकम् अभिषेकम् अभिषेकम्	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत गुजराती नेपाली मराठी असमी बंगला कन्नड मलयालम तेलुगु तमिल	1 जल छिडकना, जल मे सींचना, सेचन करना, जल से भिगोना या जल धारा से स्नान कराना 2 पूजा विधि से मन्त्रोच्चारण करते हुए पवित्री कृत जल से देवमूर्ति को अथवा राजतिलक से पहले राजा को स्नान कराना, अनुष्ठान 3 वामाचारी शाक्त लोगो मे दीक्षाधिकार लाभ के लिए, स्नान 4 यज्ञान्त मे शान्ति स्नान 5 राजतिलक, सिंहासनारोहण, तख्तनशीनी, मुकुट पहनना, राज्याभिषेक 6 मूर्ति को जल, तेल, घी, दूध, शङ्खद आदि से स्नानकराना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिषेककुक्कु	क्रिया	मलयालम	1. स्नान कराना, जल से सिंचन करना
अषिटेकित्तलु	क्रिया	तमिल	2. राज्याभिषेक का तेल लगाना
अभिषेकतुं	क्रिया	गुजराती	3. देव मूर्ति को अनेक द्रव्यों से स्नान कराना
अभिषेकिंचु	क्रिया	तेलुगु	4. अभिषेक करना, सिंहासनारूढ़ करना
अभिषेकिसु	क्रिया	कन्नड	5. यथा विधि पद पर प्रतिष्ठित करना
अभिषेककाणि	संज्ञा	तमिल	एक टैक्स या कर का नाम
अभिषेकजल	संज्ञा	मलयालम	अभिषेक के काम आने वाला पवित्र जल
अभिषेकतीर्थ	संज्ञा	मलयालम	देवमूर्ति स्नान का पवित्र जल
अभिषेकतैलं	संज्ञा	मलयालम	गिरजाघरों में प्रयुक्त पवित्र तेल
अभिषेकनामम्	संज्ञा	तमिल	राजा बनने पर रखा हुआ नाम
अभिषेकपात्र	संज्ञा	गुजराती, मराठी	देवमन्थार्थ सख्द्वि जलपात्र, झारी (शिव लिंग पर)
अभिषेकसुंदरं (म्)	संज्ञा	मलयालम, तमिल	मदुरै के मंदिर का शिवलिंग
अभिषेकमण्डपम्	संज्ञा	तमिल	मंदिर में पर्व के समय मूर्ति स्नान का कमरा
अभिषेकता	विशेषण	हिंदी	1. अभिषेक कृत्य करने वाला
अभिषेकृ		संस्कृत	2. राज्यगुरु, पुरोहित, पुजारी
अभिषेचनं	संज्ञा	मलयालम	1. अभिषेक करने, जलधारा डालने की क्रिया या
अभिषेचन		मराठी, हिंदी, बंगला	भाव, जल छिड़कना
अभिषेचन		कन्नड, नेपाली, संस्कृत	2. राज्याभिषेक
अभिषेचनम्		तेलुगु	3. अभिषेक की सामग्री, कार्य में नियोग
अभिषेचनें	संज्ञा	मराठी	+ 4. यथा विधि तीर्थ जलादि द्वारा, स्नान (बंगला)
अभिषेचनीय	विशेषण	नेपाली	मंत्र पूर्वक सिंचन करना
अभिषेचनीयं	संज्ञा	मलयालम	1. अभिषेक के योग्य, राज्यारोहण का अधिकारी
अभिषेचनीय		हिंदी, संस्कृत	+ 2. मंगलकलश के जल से सिंचन करने योग्य (नेपाली)
अभिषेच्य	संज्ञा	हिंदी	3. अभिषेक संबंधी
अभिषेचनं	संज्ञा	मलयालम	+ 4. राज्यारोहण समय के यज्ञ का नाम (मलयालम)
अभिषेचन		संस्कृत, कन्नड, हिंदी	1. सेना के साथ चढ़ाई करने को प्रस्थान
अभिषेचनम्		तेलुगु	2. शत्रु से मुठभेड़ करना, युद्ध करना
अभिषेक	संज्ञा	मलयालम	+ 3. सेना सहित वैरी का सामना करके लौटना (मलया)
अभिषेक		संस्कृत	1. पूजा, सेवा, समर्पण, भक्ति
अभिषेक			2. विधिपूर्वक भक्ति से प्रार्थना करना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिषोता (बु) अभिषोता	सज्ञा	मलयालम हिंदी	सोमरस निकालने वाला पुरोहित यज्ञकार्य के लिए सोमरस निचोड़ने वाला पुरोहित
अभिष्टव अभिस्तवं/अभिप्तवं	सज्ञा	नेपाली, मराठी, संस्कृत मलयालम	1 स्तुति, प्रशंसा, तारीफ, विरुदावली 2 स्त्रोत पाठ, वशावली के कारनामों का बखान
अभिष्टकं	सज्ञा	मलयालम	1 अगूर 2 पोस्त
अभिष्यंदं (व) अभिष्यंदमु	सज्ञा	मलयालम, हिंदी, संस्कृत तेलुगु	1 नेत्र का एक रोग, आख से पानी बहना 2 बहना, अतिसार, स्राव, रिसने वाला, बढ़ोत्तरी
अभिष्यंदवपनं	सज्ञा	मलयालम	अतिरिक्त जनसंख्या का स्थानान्तरण (माइग्रेशन)
अभिष्यन्दि अभिष्यन्दी अभिष्यंदी अभिष्यन्दिन्	विशेषण	मलयालम बंगला हिंदी संस्कृत	1 बूद- बूद टपकना 2 बहना, दस्त आना 3 क्षरणशील, प्रवाह बहुल, रिसने वाला 4 दस्त लाने वाला, रेंचक + 5 अतिरिक्त व्यक्ति, प्रजा बहुल (बंगला)
अभिष्यन्दिरमणं अभिष्यंदीरमण	सज्ञा सज्ञा	मलयालम हिंदी	1 बड़े नगर से लगा हुआ छोटा नगर 2 उपनगर, शाखा नगर, शहर से सँटी हुई बस्ती
अभिष्वंगं अभिष्वङ्गं	सज्ञा	कन्नड, हिंदी मलयालम, संस्कृत	1 स्पर्श 2 आमक्ति, प्रेम, प्यार, अनुरक्ति 3 ससर्ग, अत्यन्त अनुराग, प्रगाढ़ स्नेह
अभिसंगमु अभिसङ्गमं	सज्ञा सज्ञा	तेलुगु मलयालम	प्रम से मिलना, उत्कृष्ट होकर मिलाप होना, घनिष्ट ऐक्य मिलाप, ससर्ग, सस्पर्श
अभिसंताप अविसन्दाबम्	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत तमिल	1 पीडा 2 सघर्ष, युद्ध, अत्यन्त पीडा होना, पीडादायक होना, शाप देना, तपना
अभिसंदोह/सदेह अभिसदेहं	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत मलयालम	1 विनिमय, परिवर्तन, बदलौअल, आदान- प्रदान 2 पुरुष की जननेन्द्रिय, लिंग
अभिसंधं (कन्) अभिसंधा (धक)	सज्ञा सज्ञा	हिंदी, नेपाली, (मलया, संस) हिंदी, नेपाली, (संस्कृत)	धोखा देने वाला, विश्वासघाती दगाबाज, ठग, वचक वचन, वादा, धोखा, भाषण, वक्तव्य, प्रवचन
अभिसंधान अभिसंधान अभिसंधानमु अभिसंधानं	सज्ञा सज्ञा सज्ञा सज्ञा	हिंदी, नेपाली संस्कृत तेलुगु मलयालम	1 वचन, प्रतिज्ञा, संधि, प्रस्ताव, लक्ष्य, उद्देश्य प्रयोजन, भाषण, प्रवचन; झूठपर्य 2 संधि करना, कपट संधि करना, विचारित धोषणा 3 धोखा देना, दगाबाजी, समझौता करना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिसंधि अभिसंधि अभिसंधि अभिसंधि अभिसंधि अभिसंधि	संज्ञा	असमी, हिंदी मलयालम नेपाली गुजराती, मराठी उड़िया, बंगला तेलुगु, कन्नड, संस	1. गुप्त अभिप्राय, आशय, लक्ष्य, उद्देश्य, प्रयोजन, इरादा, हेतु 2. करार, एक राजा का दूसरे राजा से समझौता, प्रतिज्ञापत्र 3. कुचक्र, षडयंत्र, वचन, धोखा, कपट, ठगना 4. कई बातों या वस्तुओं का एक स्थान पर आकर मिलना (हिंदी) 5. विचारित घोषणा-पत्र, भाषण, प्रवचन 6. मंत्रणा कर किसी को हानि पहुंचाने के लिए कुचक्र या षडयंत्र रचना, दुरभिसंधि (हिंदी)
अभिसंधित	विशेषण	नेपाली	धोखा देना, षडयंत्र रचना; प्रतिज्ञा करना
अभिसंधिता अभिसंधिता	संज्ञा	हिंदी नेपाली, संस्कृत	1. नायक का अपमान कर पछताने वाली नायिका 2. कलहांतरिता नायिका, नायिका के दस भेदों में एक
अभिसम्परायं अभिसम्पराय	संज्ञा	मलयालम संस्कृत	भावी, भविष्यत्, भविष्यद् आने वाला समय, वर्तमान से आगे का काल
अभिसम्पातं अभिसंपातमु अभिसंपात अभिसम्पात अभिसम्पात	संज्ञा	मलयालम तेलुगु कन्नड हिंदी, नेपाली असमी, बंगला, संस	1. युद्ध, झगड़ा, संघर्ष, लड़ाई, आक्रमण 2. शाप, पतन + संपूर्ण रूप से पतन (बंगला) 3. मत्सर (मलयालम) 4. एकत्रित होना, संगम, मिलन, भेंट 5. शाप देने की घोषणा (असमी, बंगला)
अभिसंबोधनं अभिसंबोधन अभिसम्बन्ध	संज्ञा	मलयालम संस्कृत संस्कृत, हिंदी	1. अभिभाषण, श्रोताओं की भीड़ को संबोधित करना 2. किसी सभा में मुख्य भाषण करना संसर्ग, संभोग, संबंध; जोड़, संधि
अभिसंयोगं अभिसंयोग अभिसंयोगमु	संज्ञा	मलयालम हिंदी तेलुगु	1. घनिष्ट या गाढ़ संबंध, समीपी संबंध, लगाव 2. संस्पर्श, सम्पर्क, अतिउत्कंठा से मिलना 3. चिर प्रतीक्षित या आकांक्षित संयोग
अभिसंश्रय अभिसंश्रयं	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत मलयालम	1. अभय या रक्षा स्थान, पनाह, शरणागति 2. अपने आश्रय में ले बचाने का वचन
अभिसंस्कारं अभिसंस्कार	संज्ञा संज्ञा	मलयालम हिंदी	1. अन्तर्गत आशय, अभिप्राय, राय, अभिमत 2. अभिवृद्धि, विचार या भावना (बौद्धदर्शन) 4. मत, विचार, कल्पना 5. निरर्थक कार्य (हिंदी)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिसंस्तब अधि-सं-स्तब	सत्ता	मलयालम संस्कृत	1 उच्च स्वर मे स्तुति, स्तवन, स्तोत्र पाठ, परमेश्वर की करुणा और कृपा का ऊचे ऊचे गायन करना + 2 बडी भारी प्रशंसा या स्तुति (संस्कृत)
अभिसंहरणं	सत्ता	मलयालम	अतिरिक्त कर, क्षतिपूर्ति या आवश्यकता के लिए, पुनः भूमि कर वसूलना
अभिसक्त	विशेषण	हिंदी	जिसके अग इतनी दृढता से मिले सटे या चिपटे हो कि पृथक न हो सके (टेनेशम)
अभिसक्ति	सत्ता	हिंदी	अभिमक्त होने की अवस्था (टेनेसिटी)
अभिसमय अभिसमय	सज्ञा	हिंदी संस्कृत	1 परम्पर समझौता 2 धर्म के प्रति रुचि या ज्ञान (बौद्ध) 3 दो या अधिक राष्ट्रों का समान हित का समझौता, सहमति 4 परम्परागत सर्वमान्य प्रथा
अभिसम्पत्	विशेषण	हिंदी	प्रतिष्ठित, सम्मानित, सार्वजनिक मान्यता
अभिसर (रं) अभिसरमु अभिसरन्	सज्ञा	हिंदी, कन्नड, मलया तेलुगु मलयालम	1 सखा, सहचर, अभिमारकर्ता, साथी, सगी 2 सहायक, मददगार, दास 3 अनुचर, अनुयायी, जो पीछे पीछे चले
अभिसरण अभिसरण अभिसरण अभिसरण अभिसरणं	सज्ञा	हिंदी संस्कृत, गुजराती मराठी नेपाली बंगला मलयालम	1 किमी बिंदु या स्थान की ओर आगे बढ़ना या पहुंचना, समीप गमन, मिलने जाना 2 प्रेमी- प्रेमिका, नायक नायिका आदि का एकत स्थल की ओर गमन, अभिमार, अनुगमन आदि + 3 इधर उधर दौडना, वहना, अपसर्पण, प्रसारण, विसरण, विस्मृति, परिसंचार, परिवहन (मराठी)
अभिसरिक्कुक्क	क्रिया	मलयालम	वायदा कर पहुंचना, किसी ओर जाना. प्रेमियों का कहीं भेट को जाना
अभिसर्ग अभिसर्ग अभिसर्ग	सज्ञा	मलयालम हिंदी, नेपाली, बंगला संस्कृत	1 सृष्टि, रचना, मसार की उत्पत्ति + 2 दान, विसर्जन, त्याग (बंगला) + 3 निर्माण (संस्कृत, हिंदी)
अभिसर्जनं अभिसर्जन	सज्ञा	मलयालम हिंदी, नेपाली, संस्कृत	1 उपहार, दान, भेट, नजराना 2. वध, हत्या

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिसर्ता अभिसर्तृ	संज्ञा	हिंदी संस्कृत	हमला करने वाला, आक्रामक, चढ़ाई करके आने वाला, धावा बोलने वाला
अभिसर्पणं अभिसर्पण	संज्ञा	मलयालम संस्कृत, हिंदी	1. अत्रुकी समीपता, समीपगमन, बिना अक किर पास पहुंचना 2. लता का पेड़ पर चढ़ना
अभिसाधक	संज्ञा	हिंदी	देखें: अभिकर्ता, प्रतिनिधि, मुख्तार, एजेन्ट
अभिसाधन	संज्ञा	हिंदी	देखें: अभिकरण, अधीनस्थ छोटी मस्था, एजेन्सी
अभिसामयिक	विशेषण	हिंदी	1. समझौते संबंधी 2. प्रथा या परिपाटी के अनुसार माना जाना, रूढ़ (कन्वैन्शनल)
अभिसायं अभिसायम्	अव्यय	मलयालम संस्कृत	1. सायंकालीन, सूर्यास्त के समय, शाम होते-होते 2. गो धूनि वेला
अभिसार	संज्ञा	हिंदी	1. किसी ओर आगे बढ़ना, अभिसरण
अभिसार		असमी, संस्कृत	2. किसी से मिलने जाना
अभिसार		गुजराती	3. वह संकेत स्थल जहां प्रेमी प्रेमिका मिलने आये
अभिसार		मराठी	4. मेल मिलाप
अभिसार		नेपाली	5. आक्रमण, उसकी तैयारी, मन्नाह, चढ़ाई, हमला
अभिसार		उड़िया	6. युद्ध 7. अनुचर, अनुयायी
अभिसार		बंगला	8. बल शक्ति, यत्र, हथियार, औजार
अभिसार		कन्नड	9. पुंछ और रजौरी के आम पास के प्रदेश का पुगना नाम
अभिसारं (णं)		मलयालम	+ 10. एक मछली (मलयालम) शुद्धि सस्कार (हिंदी)
अभिसारक अभिसारिक अभिसारि (अभिसारी) आभिसारिन्	विशेषण	हिंदी, बंगला, नेपाली तेलुगु मलया, (तमिल,) कन्नड संस्कृत	1. संकेत स्थल जाने वाला, प्रणयी 2. नायक जो प्रिया से मिलने जाय 3. आगे बढ़ने वाला, आक्रमणकारी 4. एक उद्देश्य से जाने वाला, अभिमुख गमनकारी (बंगला)
अभिसारिका अभिसारिका अभिसारिका अभिसार अभिसारिके अभिसारिके	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी नेपाली, असमी, बंग + तेलुगु, मलयालम, संस + तमिल कन्नड तमिल	1. प्रणय के उद्देश्य से संकेत स्थल गामिनी 2. पतिता (असमी) 3. वेश्या, व्यभिचारिणी (तमिल) 4. अभिमुख गमनकारी (बंगला) अनुचरी, दासी (हिंदी) 5. प्रेमी से भेंट करने वाली नायिका 6. नायिका जो संकेत स्थान पर अपने प्रिय से मिलने स्वयं जाती है या उसे बुलाती है (कन्नड)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिसारिणी		हिंदी, बंगला	+ 7 अभिसारिका एक छद या वृत्त (मलयालम, हिंदी)
अभिसारिणि	सज्ञा	मलयालम	8. माशूकर जो आशिक के आगोश के लिए छिपकर जाये
अभिसारी	सज्ञा	हिंदी, बंगला, नेपाली	देखें. अभिसारक
अभिसिंचन	सकर्मक क्रिया	हिंदी	1. सींचना, पानी देना, पानी का छिड़काव करना
अभिसिंचुं	क्रिया	गुजराती	2. फ़सल, पौधे, पेड़ की जड़ को पानी से तर करना
अभिसूचन	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. साधिकार सूचना, अधिसूचना, सरकारी घोषणा
अभिसूचना		नेपाली	2. एडवाइज, पब्लिक नोटीफिकेशन, विशेष हिदायत
अभिसृतं	सज्ञा	मलयालम	किसी की ओर या विपरीत दिशा में दौड़ना
अभिसृज्	विशेषण	संस्कृत	बहा देना, खुला छोड़ना, बनाना, तैयार करना
अभिसृष्ट	विशेषण	बंगला	परित्यक्त, दत्त, विसृष्ट
अभिस्ताव	सज्ञा	हिंदी	1. प्रशंसा, औचित्य समर्थन, वस्तु या व्यक्ति की
अभिस्ताव		संस्कृत	उपयोगिता का समर्थन, सिफारिश, (रिकमन्डेशन)
अभिस्तुत		कन्नड	2. स्तुति, यशोगान, प्रार्थना, प्रशम्भ
अभिस्थगित	भूत कृदन्त	हिंदी	किसी कारण रोक रखना, स्थगित (डैफर्ड)
अभिस्नेह	सज्ञा	नेपाली, संस्कृत	अनुराग, स्नेह, प्रेम, अभिलाषा, भक्ति
अभिस्त्रवण	सज्ञा	हिंदी, नेपाली	द्रव वस्तु का छेद तंतु से सम रूप से व्यक्त होना
अभिस्फुरित	विशेषण	संस्कृत, हिंदी	पूर्ण रूप से फैला हुआ, पूर्ण वृद्धि प्राप्त (फूल आदि)
अभिस्त्रावण	सज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	भाप द्वारा अर्क, मदिरा आदि निकालना
अभिस्त्रावणी	सज्ञा	नेपाली, हिंदी	1. पातालयत्र की सहायता से अर्क चुआने की क्रिया
अभिश्चवणी		संस्कृत	2. अर्क चुआने का बर्तन या भाप निकालने की भट्टी
अभिहत	विशेषण	हिंदी, मराठी	1. आहत, ढीला, पीटा, रोक, अवरुद्ध, मारा या मायल
अभिहत		गुजराती, संस्कृत	किया हुआ, जिसका अभिघात हुआ हो
अभिहत		नेपाली, बंगला	2. नम्र, विनीत 3 गुणित, गुणन किया हुआ (गणित)
अभिहत		मलयालम	4. आक्रान्त, पराभूत, पराजित, आघातित, नाडित
अभिहत		कन्नड	वशीभूत, विनष्ट, पीडित
अभिहति	सज्ञा	हिंदी, नेपाली	1. प्रहार, मार, चोट, आघात, घाव
अभिहति		मलयालम	2. गुणनफल, गुणनक्रिया, गुणित
अभिहति		कन्नड, संस्कृत	3. निशाना लगाना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिहननं अभिहन	सज्ञा	मलयालम संस्कृत	मारना, नष्ट करना, कष्ट देना, ताड़ना, ताड़न करना, बजाना, चपेट लगाना
अभिहनिक्कुक्क अभिहर	क्रिया सज्ञा	मलयालम हिंदी	पीटना, आपात करना, चोट पहुँचाना, आक्रमण करना 1 उठा या चुरा ले जाना 2 देखो अभिहरण
अभिहरण अभिहरणं	सज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत मलयालम	1 पकड़ लाना, खींचना, लूटना, हरण करना 2 जन्तु करना, नीलाम करना 3 नजदीक लाना, हज़िर करना
अभिहर्ता (बु) अभिहर्तृ अभिहर्ता	विशेषण	मलयालम संस्कृत हिंदी, नेपाली	1 अपहरण करने वाला 2 जबरदस्ती लेने वाला, चोर, लुटेर, डाकू 3 लकर भागने वाला, चुगने वाला
अभिहवं अभिहव	सज्ञा	मलयालम संस्कृत	1 यज्ञ, बलिदान, बलि 2 बलि के लिए देवताओं का आवाहन, आमंत्रण
अभिहार अभिहार अभिहार अभिहारं अभिहारम् अभिहारम्	सज्ञा सज्ञा	हिंदी, नेपाली संस्कृत बंगला, कन्नड मलयालम तेलुगु तमिल	1 चोरी, डाका, लूट खसोट 2 हमला, आक्रमण, शस्त्रीकरण, हथियारबद्ध 3 युद्ध की घोषणा, हथियार उठाना + 4 दण्ड, सजा, कैद करना (नेपाली, कन्नड) 5 अज्ञानी, व्यसनी, मद्यप, शराबी, गाजा पीने वाला + 6 विगंधी का सागना करना (तेलुगु)
अभिहास अभिहासं	सज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत मलयालम	1 विनोद, हसी, दिल्लगी, मजाक, मसख़री + 2 हर्ष, आनन्द (नेपाली)
अभिहित अभिहित अभिहित अभिहित अभिहितम् अभिहितम् अभिहितं	विशेषण विशेषण विशेषण	हिंदी, मराठी, मलया संस्कृत, बंगला गुजराती, कन्नड नेपाली, असमी तेलुगु तमिल मलयालम	1 पुकारा हुआ, कहा हुआ, नाम लिया हुआ, सबोधित, नामांकित, प्रकाशित, कथित 2 कहना, बोलना, अभिधा द्वारा बोधित 3 घोषित, अर्णित, कथित, चर्चित, निर्दिष्ट, उल्लिखित, उद्दिष्ट, आबद्ध 4 नाम मात्र का, (नामिनल) पूजी, भाड़ा आदि 5 वास्तविक नहीं, कहने भर को, नाम, शब्द (सजा)
अभिहस्तांकन अभिहित्तुवम्	सज्ञा सज्ञा	हिंदी, संस्कृत तमिल	वैध रूप में हस्तान्तरण (असाइनमेंट) (अभिहितत्व) अधिकार

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभिहित-मूल्य	संज्ञा	बंगला	वस्तु पर जो कीमत लिखी हो, अंकित मूल्य
अभिहित-संधि अभिहित संधि अभिहित- संधि	संज्ञा	हिंदी, गुजराती मराठी, संस्कृत मलयालम	1. घोषित संधि, प्रकाशित समझौता, पहलेही बताया हुआ एग्रीमेंट, जाहिर इकरार नामा, मौखिक संधि, बिना लिखा-पढ़ी की संधि
अभिहितान्वयवाद अभिहितान्वयवादं अभिहितान्वयवाद	संज्ञा संज्ञा संज्ञा	मराठी मलयालम संस्कृत	1 शब्दों के स्वतंत्र अर्थ मानने का सिद्धान्त (न्याय) 2. कुमारिलभट्ट का सिद्धान्त कि शब्द अपना अर्थ व्यक्त करते हैं और मिल कर वाक्यार्थ, प्रभाकर के अन्वित अभिधानवाद के विपरीत
अभिहिति	संज्ञा	हिंदी	अभिहित होने की अवस्था या भाव
अभिहृति अभिहृति	संज्ञा	मलयालम हिंदी	यज्ञ की आहुति या बलि ग्रहण करने के लिए देवताओं का आह्वान, आराधन, पूजन
अभिह्वरं अभिह्वम	संज्ञा संज्ञा	मलयालम हिंदी, संस्कृत	दुष्टता, कुटिलता, टेढ़ापन, वक्रता हवन में- घी की आहुति देना ~
अभीक अभीक अभीक	विशेषण संज्ञा	हिंदी, संस्कृत नेपाली, गुजराती कन्नड	1. अभिलाषी, उत्सुक, कामुक, रति लम्पट, विलासी 2. निर्भय, निडर, निर्भीक, अभिगत 3. भयंकर, भयानक 4. पति, स्वामी, कवि, प्रेमी
अभीक्षण अभीक्षणम् अभीक्षणं अभीक्षण	अव्यय	नेपाली संस्कृत मलयालम कन्नड	1. पुनः पुनः, बरम्बार, सतत, निरन्तर 2. अकसर, बहुधा, बहुत अधिक, अत्यन्त 3. अविच्छिन्नता से, जल्दी, फौरन 4. तत्काल, अत्यन्त अधिकाई से
अभीक्षणं अभीक्षण अभीक्षण	संज्ञा	मलयालम संस्कृत कन्नड	1. क्षण भर के लिए सामना करना, पुनरावृत्ति 2. दुहराया हुआ, सतत, निरन्तर 3. प्रतिमुखावलोकन. उस तरफ देखना
अभीक्षणविनिपातं अभीक्ष्यन् अभीक्षिप्तु	संज्ञा संज्ञा क्रिया	मलयालम मलयालम कन्नड	वक्तव्य में असम्बद्धता, कथन में बार-बार विरोध देवता, यज्ञ देव उस ओर देखना, सामने नजर डालना
अभीप्सक अभीप्सनाम	विशेषण	हिंदी मलयालम	इच्छुक, अधिक से अधिक ईप्सा या चाहना करने वाला आकांक्षी, उत्कण्ठित, अभिलषुक

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभीप्सा अभीप्सा अभीप्सा	संज्ञा	हिंदी नेपाली बंगला	महत्वाकांक्षा, कहीं पहुँचने, किसी से संपर्क करने की उत्कण्ठा, तीव्र अभिलाषा, प्रबल इच्छा, (एमबीशन), मनोरथ
अभीप्सित अभीप्सित अभीप्सित अभीप्सित अभीप्सितं अभीप्सितम्	विशेषण संज्ञा	हिंदी, मराठी, मलया संस्कृत, बंगला नेपाली, उड़िया कन्नड, गुजराती मलयालम तेलुगु	1. अभीष्ट, अभिलषित, वांछित, इच्छित, आकांक्षित, चाहा गया, आशय के अनुकूल 2. जिसकी विशेष रूप से ईप्सा अर्थात् प्राप्ति की कामना की गई हो—वह वस्तु, पद अथवा व्यक्ति 3. मनोनीत, अभिप्रेत 4. इच्छा, अभिलाषा, मनोरथ (संज्ञा)
अभीप्सितन् अभीप्सी अभीप्सिन् अभीप्सु	संज्ञा	मलयालम हिंदी संस्कृत हिंदी, बंगला	1. कामुक, प्रेमी, आशिक, माशूक 2. चाहने वाला, इच्छुक, आकांक्षी, अभिलाषी, उत्कण्ठित, प्राप्येच्छु, जो कुछ पाने में मन लगाये हुए हो
अभीर अभीरी अभीरणं	संज्ञा संज्ञा संज्ञा	हिंदी, कन्नड हिंदी मलयालम	1. एक छंद 2. अहीर, ग्वाला अहीरों की बोली विद्युत या चुंबक द्वारा दूसरे पदार्थ में विद्युत उत्पन्न करने वाला तार
अभीशापं/प	संज्ञा	मलयालम, हिंदी	देखें: अमिशाप
अभीशु अभीशु अभीशु	संज्ञा	हिंदी, नेपाली संस्कृत मलयालम, कन्नड	1. लगाम 2. प्रकाश किरण 3. बांह, हाथ + 4. उंगली 5. अभिलाषा, अनुराग (संस्कृत) + 6. अयाल, केश (मलयालम, कन्नड)
अभीष्ट अभीष्ट अभीष्ट अभीष्टं/अभीष्ट अभीष्टम् अभीष्टम्/अभीष्टम्	संज्ञा विशेषण संज्ञा, विशेषे	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, उड़िया, बंगला नेपाली, कन्नड, संस्कृत मलयालम तेलुगु तमिल	1. इच्छित, चाहा हुआ, मनचाहा, मनोरथ, अभिप्रेत, प्रिय, ऐच्छिक, आकांक्षित 2. कृपापात्र 3. प्यारा, पसंद, प्रिय व्यक्ति या वस्तु 4. जिसकी कामना या वांछा की जाय वह 5. पसंदीदा, मनोहर, वैकल्पिक (मलयालम) + 6. हित, कल्याण, भलाई, शुभ (मराठी)
अभीष्टा अभीष्टा	विशेषण संज्ञा	हिंदी मलयालम	1. प्रेमिका, रखैल, प्यारी, गृह स्वामिनी 2. ताम्बूल, पान, लौंग

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभीष्टचिंतन	संज्ञा	मराठी	कल्याण की इच्छा, मनोरथ पूर्ति पर विचार
अभीष्टद	विशेषण	मलयालम	इच्छापूर्ति करने वाला, इच्छितदाता
अभीष्ट-देव	संज्ञा	बंगला	1 उपास्य देवता 2 दीक्षादाता गुरु
अभीष्ट-देवता	संज्ञा	असमी	उपास्य देवता, आराध्य प्रभु, इष्ट देव
अभीष्ट-पूरण	संज्ञा	बंगला	वांछित फल लाभ, आकांक्षापूर्ति, मनोरथपूर्णता
अभीष्ट प्रद	विशेषण	बंगला	आकांक्षित फल दानकारी, लाभप्रद
अभीष्ट-लाभ	संज्ञा	हिंदी, बंगला, असमी +	1 आग्रह (मलयालम), अभीष्ट वस्तु का मिलना
अभीष्ट लाभ		मलयालम	2 इच्छित फल प्राप्ति, वाह पूरी होना, वाछापूर्णता
अभीष्टसिद्धि	संज्ञा	हिंदी, बंगला, असमी	1 वाछा पूरी होना
अभीष्टसिद्धि		मलयालम, कन्नड	2 इच्छापूर्ति, कार्य सिद्धि, अभीष्ट लाभ
अभीष्टन्	संज्ञा	मलयालम	प्रेमी, मित्र, अतिप्रिय, हृदयहारी
अभीष्टि	संज्ञा	हिंदी	अभीष्ट पदार्थ, बात या विचार, इच्छा
अभीष्टितम्	संज्ञा	तमिल	1. जिसके लिए इच्छा की गई, जो चाहा गया
अभीष्टित		कन्नड	2 अच्छा लगा ऐसा पदार्थ, अतिप्रिय
अभ्यङ्क		संस्कृत	हाल ही में चिह्नित किया हुआ, नवीन चिह्नित
अभ्यङ्ग	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, कन्नड	1. शरीर पर तेल लगाना या उसकी मालिश करना
अभ्यङ्ग		नेपाली, मराठी, संस्कृत	2. उबटन या सुगंधित पदार्थ लगाना, मलना
अभ्यङ्ग		मलयालम, बंगला +	3. चर्चन, अँक्शन (ईसाई) (मराठी)
अभ्यङ्गमु		तेलुगु	4. पोतना, लेपना
अभ्यङ्गमु		तमिल +	5. तैल स्नान (तमिल)
अभ्यङ्ग-स्नान	संज्ञा	गुजराती, मराठी	अभ्यङ्ग सहित स्नान, तेल मालिश के पश्चात् स्नान
अभ्यञ्जन	संज्ञा	मराठी, कन्नड	1. आख में अंजन लगाना, आखों को सवारने का काम या उसकी सामग्री
अभ्यञ्जनं		मलयालम	2. प्रसाधन सामग्री, अगराग आदि (टायलेट)
अभ्यञ्जन	संज्ञा	हिंदी, बंगला	3. तेल, उबटन आदि स्नान सामग्री
अभ्यञ्जन		संस्कृत, नेपाली	
अभ्यञ्जनीय	विशेषण	हिंदी	तेल, उबटन लगाये जाने योग्य
अभ्यन्तर	संज्ञा, विशेष०	हिंदी, गुजराती	1. वस्तु के अन्दर या बीच का स्थान या भाग
अभ्यन्तर	संज्ञा	मराठी	2. अन्तःपुर, ज़नानख़ाना, रानी निवास

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभ्यन्तर (रं)	संज्ञा	असमी, उड़िया, (मलया)	3. भीतरी, आंतरिक, अंतरंग (विशेषण)
अभ्यन्तर	अव्यय	कन्नड	4. मध्य, बीच, अन्तर्गत; गुप्तकथा
अभ्यन्तर		नेपाली, बंगला	5. हृदय, मन, अन्तःकरण
अभ्यन्तर	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	6. अति समीपी, घनिष्ट, परिचित
अभ्यन्तरम्		तेलुगु	7. अन्दर, भीतर (अव्यय)
अभ्यन्तरक	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	घनिष्ट मित्र, अति स्नेही, वह व्यक्ति जिससे मन
अभ्यन्तरकन्		मलयालम	की बात न छिपाई जाय, अंतरंग ज्ञाता या मित्र
अभ्यन्तर-कला	संज्ञा	मलयालम	शृंगार कला, रहस्य कला, गोप्यकला
अभ्यन्तर-कुंभकं	संज्ञा	मलयालम	फेफड़ों में सांस भरना और रोकना
अभ्यन्तर-कोणं	संज्ञा	मलयालम	आन्तरिक कोण, बड़े कोण के भीतर का कोण
अभ्यन्तर परिग्रहम्		संस्कृत	चौदह मानसिक दोष, जैसे क्रोध, अहंकार
अप्यियन्दर परिक्रिहरम्		तमिल	लोभ, मोह आदि (जैन दर्शन)
अभ्यन्तर-शौचं	संज्ञा	मलयालम	प्राणायाम आदि योग क्रियाओं से आन्तरिक शुद्धि
अप्यियन्दरम्	संज्ञा	तमिल	बाधा, रोक विघ्न, अवरोध
अभ्यन्तरितु	क्रिया	कन्नड	बाधा डालना, रोक लगाना, अवरोध पैदा करना
अभ्यन्तरीण	विशेषण	उड़िया, बंगला	अन्तरवर्ती, अदरुनी, भीतरी
अभ्यंश	संज्ञा	हिंदी	यथांश, उपयुक्त या यथेच्छ भाग
अभ्यक्त	विशेषण	हिंदी, बंगला	1. नन्द आदि पोने हुए, नैलाक्त
अभ्यक्त		मलयालम	2. सजा हुआ, मुग्धजित, अलकृत
अभ्यक्ति	संज्ञा	मलयालम	शरीर पर नेल आदि चुपडना, मलना
अभ्यग्रं	संज्ञा	मलयालम	सामीप्य, निकटता, ताजापन
अभ्यग्र	विशेषण	नेपाली, संस्कृत, मलया	1. करीब, समीप, निकट 2. नया, ताजा, टटका
अभ्यद्बं	अव्यय	मलयालम	मार्ग की ओर, मार्ग में, रास्ते पर
अभ्यधिक	विशेषण	मलयालम	1. सीमा से अधिक, अनिश्चय प्रशस्त
अभ्यधिक		नेपाली, संस्कृत	2. गुण, परिमाण में अपेक्षा से अधिक
अभ्यधिक		बंगला	3. असाधारण, सर्वोत्तम, अतिशय अधिक
अभ्यधिगमनं	संज्ञा	मलयालम	आगत को देखने या स्वागत के लिए शीघ्र गमन
अभ्यधीन	विशेषण	नेपाली, हिंदी	1. नियम या प्रतिज्ञा में बद्ध, नियंत्रित 2. अधीनस्थ

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभ्यतीत	विशेषण	मलयालम	मरा हुआ, गुजर गया, प्राण त्याग चुका
अभ्यनुज्ञा	सज्ञा	नेपाली, मलयालम	1 सम्मति, अंगीकार, अनुमति, आदेश, जाने की
अभ्यनुज्ञा		तेलुगु, संस्कृत	आज्ञा, किसी दलील की स्वीकृति
अभ्यनुज्ञे		कन्नड	2 अर्जी की स्वीकृति, सहमति, पसंद करना
अभ्यनुज्ञात	विशेषण	मलयालम	अगीकृत, सम्मत, अधिकार दत्त, अनुमित
अभ्यनुज्ञानं	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	देखे — अभ्यनुज्ञा
अभ्यमन		हिंदी, संस्कृत	1 आक्रमण, उपद्रव 2 आघात, चोट
अभ्यमनं	सज्ञा	मलयालम	3 रोग, व्याधि
अभ्यमित	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1 घायल, आहत, क्षतयुक्त 2 रुग्ण, बीमार,
अभ्यमित		कन्नड, हिंदी	व्याधि ग्रस्त, चोटिल, चोट खाया हुआ
अप्यियमितम्	सज्ञा	तमिल	3 पीडित + 4 पीडा (तमिल सज्ञा)
अभ्यमित्रं	अव्यय	मलयालम	1 शत्रु के विरोध में, शत्रु के सम्मुख
अभ्यमित्र	सज्ञा, अव्यय	नेपाली, संस्कृत	+ 2 आक्रमण, हमला (नेपाली), शत्रु की ओर
अभ्यमित्रीणन्	सज्ञा	मलयालम	वह योद्धा जो प्रतिहिंसा से शत्रु से लड़ता है
अभ्यमित्रीण	सज्ञा	संस्कृत	योद्धा जो वीरतापूर्वक शत्रु का सामना करता है
अभ्ययं	सज्ञा	मलयालम	1 प्रवेश, समीप आता हुआ, आगमन पहुँच
अभ्यय	सज्ञा	संस्कृत	2 सूर्य के अस्त होने की क्रिया
अभ्यर्च्य	सज्ञा	मलयालम	1 आराधना, पूजा, भक्ति, उपासना सजावट
अभ्यर्चन		हिंदी, नेपाली	2 आदर, सत्कार, सम्मान, अभिनन्दन शृंगार
अभ्यर्चन		कन्नड, संस्कृत	3 पूजा आदि करने की क्रिया या भाव
अभ्यर्चना		हिंदी, तेलुगु	4 अर्चना अर्थात् विधि विधान से देवविग्रह का
अभ्यर्चना		मलयालम, नेपाली	स्नान, पुष्पार्पण, धूप-दीप आदि से पूजन करना
अभ्यर्चनीय	विशेषण	मलयालम	अश्राध्य, सम्मान्य, पूज्य, स्तुत्य, उपास्य
अभ्यर्च्यमान	विशेषण	मलयालम	प्रतिष्ठित, विधि विधान से पूजित
अभ्यर्णं (र्ण)	सज्ञा, विशेष	मलयालम	1 निकट, आसन्न, निकट आने वाला
अभ्यर्ण	सज्ञा	कन्नड, संस्कृत	2 समीप, पास, समीपता, पड़ोस
अभ्यर्ण		हिंदी, नेपाली	3 सामीप्य, नैकट्य (सज्ञा)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभ्यर्थन	सज्ञा	हिंदी, गुजराती	1 अपने अधिकार, स्वत्व या आवश्यकता के लिए
अभ्यर्थन		संस्कृत, नेपाली	जोर देकर मांगना, माग (डिमांड)
अभ्यर्थन		बंगला, उड़िया	2 विनती, प्रार्थना, दरगवास्त अगवानी, स्वागत
अभ्यर्थन		असमी, संस्कृत	3 अपना प्राप्य धन या पदार्थ मांगना
अभ्यर्थन		मलयालम	4 देवों अभ्यर्थना
अभ्यर्थना	सज्ञा	हिंदी, नेपाली, मराठी	1 दीनता, नम्रता से की गयी प्रार्थना
अभ्यर्थना		असमी, उड़िया, बंगला	2 आगे बढ़कर सम्मानपूर्वक स्वागत, मभाषण,
अभ्यर्थना		गुजराती, असमी, संस्कृत	निमंत्रित का स्वागत, ममादर, अगवानी 3 पूजा
अभ्यर्थना		मलयालम, तेलुगु	स्वागत, मत्कार + 4 सम्बर्धना समागतता (बंगला)
अभ्यर्थनिष्ठु	क्रिया	तेलुगु	आदर करना, मत्कार करना
अभ्यर्थना-समिति	सज्ञा	असमी, बंगला	1 स्वागत समिति (असमी) स्वागतकारिणी मभा (बंगला)
अभ्यर्थनीय	विशेषण	हिंदी, बंगला	1 प्रार्थनीय, अपेक्षणीय, अभिनन्दनीय
अभ्यर्थनीय		संस्कृत	2 अभ्यर्थना करने योग्य, विनम्रता से प्रार्थनीय
अभ्यर्थार्थ		मलयालम	+ 3 सवधनीय, मभावनीय (बंगला)
अभ्यर्थनीय		मलयालम	+ 4 विषय जिसकी माग की जा मके (हिंदी)
अभ्यर्थित	भूत कृदंत	हिंदी, असमी	1 (व्यक्ति) जिससे अभ्यर्थना की गयी हो
अभ्यर्थित		बंगला, संस्कृत	2 (पदार्थ) जिसका अभ्यर्थन किया गया हो
अभ्यर्थित		मलयालम	+ 3 अवर्धित, प्रार्थित, सम्भावित (बंगला)
अभ्यर्थी	सज्ञा	हिंदी, नेपाली	1 प्रार्थी याचक, अर्ज करने वाला
अभ्यर्थक		हिंदी	2 परीक्षा में बैठने या नौकरी के लिए आवेदन पत्र
अभ्यर्थि		मलयालम	देने वाला 3. माग करने वाला, न्याय की याचना
अभ्यर्थिन्		संस्कृत	करने वाला 4 किसी भी वस्तु की प्राप्ति का निश्चय
अभ्यर्थनं	सज्ञा	मलयालम	पीडन, मताना, उन्वीडन, वधन, अत्याचार, वृगी
अभ्यर्थन		हिंदी	तरह कचलना, ध्वस्त करना, रोदना, कष्ट देना
अभ्यर्थित	विशेषण	हिंदी	उन्वीडन, मताया हुआ, रोदा हुआ
अभ्यर्थ	सज्ञा	मलयालम	मागीय, निकटता, पाम पडाम
अभ्यर्थक	विशेषण	हिंदी	अपना अधिकार, म्यामत्व किसी अन्य को सोचने
			वाला (असाइन्)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभ्यर्पण	सज्ञा	हिंदी	1 स्वामित्व सौपने की क्रिया या भाव (असाइनमेंट)
अभ्यर्पण		गुजराती	2 कोई कार्य किसी को करने के लिए देना
अभ्यर्पण		नेपाली	+ 3 समर्पण, अर्पण, अपना हक छोड़ना (नेपाली)
अभ्यर्पणग्राही	सज्ञा	हिंदी	जिसे स्वामित्व सौपा गया हो (असाइनी)
अभ्यर्पणग्राहिन्		संस्कृत	जो अधिकार आदि ग्रहण करे
अभ्यर्पित	विशेषण	हिंदी, नेपाली	समर्पित, अर्पित, दी गयी सौपी गयी
अभ्यर्पिती	सज्ञा	हिंदी	1 जिसे अधिकार सौपा गया हो (असाइनी)
अभ्यर्पितिन्		संस्कृत	2 अभ्यर्पणग्राही अधिकार आदि प्राप्त करने वाला
अभ्यर्ह	सज्ञा	संस्कृत	नमस्कार करना, आदर करना, पूजा करना
अभ्यर्हन्	सज्ञा	मलयालम	उत्कृष्ट योग्य व्यक्ति पूज्य
अभ्यर्हणं	सज्ञा	मलयालम	1 पूजा, आराधना भक्ति, अर्चना प्रतिष्ठा
अभ्यर्हणा		नेपाली	2 आदर, सम्मान नष्टमान पूज्य श्रद्धेय
अभ्यर्हणा	सज्ञा	संस्कृत, हिंदी	अतिमम्मन्य उत्कृष्ट योग्य व्यक्ति जो अर्हता या योग्यता रखता है
अभ्यर्हणीय	विशेषण	मलयालम	पूज्य श्रद्धेय, अतिमम्मननीय
अभ्यर्हित	विशेषण	मलयालम, कन्नड	1 सम्मानित, आदृत सगादृत पूजित आराधित
अभ्यर्हित		संस्कृत	अभिनन्दित श्रेष्ठता प्राप्त
अभ्यर्हित		गुजराती	2 योग्य, उपयुक्त, भव्य
अभ्यवकर्ण	सज्ञा	मलयालम	फेंकना द्रव ऊपर से डालना, ढकना
अभ्यवकर्षणं		मलयालम	1 खींच या भींच कर रस या सत निकालना
अभ्यवकर्षण		संस्कृत, हिंदी	2 निचोड़ना, खींचना निकालना (शल्य)
अभ्यवकाशं	सज्ञा	मलयालम	खुली जगह, खुला मैदान विस्तृत और व्यापक
अभ्यवकाश		संस्कृत	क्षेत्र या म्थान (यथा सभा क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र)
अभ्यवपत्ति	सज्ञा	मलयालम	1 कृगिव उड़ना, कृगिव पहुचना, समीप जाना
अभि-अवपत्ति		संस्कृत	2 विनम्रता (सबमिगिवनेम) 3 मुसीबत में सहायता का वादा
अभ्यव-स्कंदं	सज्ञा	मलयालम	1 वीरता पूर्वक शत्रु के मन्मुख होना
अभि-अवस्कंद		संस्कृत, हिंदी	2 आघात से शत्रु को निकम्न कर देना
अभ्यवस्कन्दन		संस्कृत, हिंदी	3 भयकर आक्रमण, आघात, पतन, प्रहार

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभ्यवहरणं अभ्यवहरण	संज्ञा	मलयालम संस्कृत, हिंदी	1. गिरा देना, दूर फेंक देना 2. भोजन करना या निगलना, गले के नीचे उतरना
अभ्यवहारं अभ्यवहार अभ्यवहार अप्यिवहारम् अभ्यवहारम्	संज्ञा संज्ञा संज्ञा संज्ञा	मलयालम हिंदी, संस्कृत नेपाली, कन्नड तमिल तेलुगु	भोजन करना, खाना, जीमना, भोज्य वस्तुओं को उपयोग में लाना, आहार्य पदार्थों का व्यवहार करना; अच्छे रुचिकर, स्वादिष्ट तथा पुष्टिकर पदार्थों का आहार मिलना, आहार
अभ्यवहारि		कन्नड	न्यून, कार्य संलग्न, व्यवहार में दक्षिण
अभ्यवहार्य अभ्यवहार्य	संज्ञा विशेषण	मलयालम संस्कृत	भोजन योग्य, भोज्य पदार्थ; रुचिकर, स्वादिष्ट, पुष्टिकर आहार्य द्रव्य
अभ्यवहित अभि-अव-हित	संज्ञा	मलयालम संस्कृत	विछाया हुआ, नीचे डाला हुआ, गवा हुआ, चादर, कालीन, गलीचे, दरी आदि बिछे हुए
अभ्यवहृत अभ्यवहृति अभ्यशनं	विशेषण संज्ञा संज्ञा	मलयालम, कन्नड कन्नड मलयालम	खाया हुआ, भोजन रूप में गृहीत भोजन, खाना, भोज्य पदार्थ 1. व्याप्त होना 2. पहुंच जाना 3 प्राप्त करना 4 विस्तार, उपलब्धि, पहुंच
अभ्यवपदिककुक्क		मलयालम	•शा करने पहुंचना
अभ्यसनं अभ्यसन अभ्यसन अभ्यसन	संज्ञा	मलयालम हिंदी, संस्कृत नेपाली बंगला	1. आवृत्ति, पुनरावृत्ति, दृहगना, सीखना 2. निरंतर अभ्यास, बार-बार आलोचन या बारबार आलोचन, मत्त अभ्यास या अध्ययन 3. अनुशीलन, चिंतन, कार्य तन्मयता
अभ्यसनीय अभ्यसनीयम्	विशेषण	हिंदी, गुजराती, बंगला तेलुगु	1. बार बार आलोच्य, अनुशीलनीय 2. अभ्यास करने योग्य, मनन-चिन्तन योग्य
अभ्यसबुं अप्यिसित्तसु अभ्यसनिंषु अभ्यसिसु अभ्यसिककुक्क	त्रि-या	गुजराती तमिल तेलुगु कन्नड मलयालम	1. उद्यम करना, एक कार्य को बार बार दृहगना 2. किन्ही नियमों के अनुसार कार्य करना 3. अभ्यास करना 4. कार्य रूप में प्रयोग करना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभ्यसित अभ्यसितम्	विशेषण	नेपाली, हिंदी तेलुगु	1 जिस विषय का बार-बार अभ्यास किया गया हो 2. जिसने बार-बार अभ्यास किया हो, पठित
अभ्यसूया अभ्यसूया	सत्ता	मलयालम, नेपाली हिंदी, संस्कृत	1 ईर्ष्या, जलन, असूया, डाह 2 अप्रीति, क्रोध, रीस, द्वेष
अभ्यसूयक अभ्यसूयकन् अभ्यसूयक	विशेषण सज्ञा	मलयालम तमिल नेपाली, संस्कृत	निन्दक, बुराई करने वाला, बदगोई करने वाला, ईर्ष्यालु, अधिक असूया करने वाला, उन्नति देख जलने वाला, डाही
अभ्यसूयक्युक		मलयालम	ईर्ष्या करना, जलना, कुपित होना
अभ्यस्त अभ्यस्त अभ्यस्त अभ्यस्त अभ्यस्त अभ्यस्त अभ्यस्त	विशेषण	हिंदी, गुजराती नेपाली, संस्कृत मराठी असमी, उड़िया बंगला कन्नड मलयालम	1. जिसने कार्य को निरंतर, सतत, दुहराया हो 2 मशक या रियाज किया हुआ, अधीन, पढा हुआ 3 अभ्यास सिद्ध, अध्ययन किया हुआ, मुहावरा या आदत होना, कण्ठस्थ, अभ्यासकृत 4 (व्यक्ति) कृताभ्यास, दक्ष, निपुण, कुशल, परिपक्व + 5 गुणित (मलयालम) + 6 द्वित्व किया हुआ, द्वित्व धातु (मराठी, मलयालम)
अभ्यस्तविद्य अभ्यांत	विशेषण विशेषण	मलयालम हिंदी	विद्याभ्यास सिद्ध, कार्य में पारगत, विशेषज्ञ 1 रुग्ण 2 आहत 3 क्षतिग्रस्त, कष्टग्रस्त
अभ्याकर्ष अभ्याकर्ष अभ्याकर्ष	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत नेपाली मलयालम	1 छाती पर हाथ ठोक कुश्ती को ललकारना 2 आवाहन, हाक, ललकार 3 जाघ पर ताल ठोक ललकारना (सकेत)
अभ्याकर्षणं अभ्याकर्षण	सज्ञा	मलयालम संस्कृत	कुश्ती में दूसरे पहलवान को शक्ति से घसीट ले जाना, पहलवानी के दांव से दूसरे पहलवान को इधर उधर सरकाना
अभ्याकाशितं अभ्याकाशित	सत्ता विशेषण	मलयालम संस्कृत, नेपाली, हिंदी	1 झूठा आरोप, इलजाम, बेबुनियाद शिकायत 2 मनोरथ, अभिलषित, आग्रह, इच्छित
अभ्याकुल अभ्याख्यात	विशेषण विशेषण	कन्नड मलयालम	बहुत भारी या बोझिल, बबरा देने वाला मार झूठे आरोप में फंसा या निदित

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभ्याख्यानं अभ्याख्यान	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत हिंदी, कन्नड	1. झूठा इलज़ाम, असत्य दोषारोपण, अपवाद, निंदा 2. गर्व को खर्व करने की क्रिया; नालिश करना
अभ्यागत अभ्यागत अभ्यागत अभ्यागत अभियागतन् अभ्यागतु	विशेषण संज्ञा	हिंदी, भराठी, बंगला गुजराती, संस्कृत असमी, उड़िया, कन्नड मलयालम, नेपाली तमिल तेलुगु	1. सामने या समीप आया हुआ, घर आया हुआ, आगन्तुक, गृहागत, सन्मुखगत व्यक्ति 2. मेहमान, अतिथि, पाहुना, परिचित अतिथि 3. जो कहीं से चलकर आया हो 4. साधु, संन्यासी + 5. भेंट करने आया हुआ (नेपाली)
अभ्यसगति अभियागति	संज्ञा संज्ञा	मलयालम तमिल	आना, समीप आना, पहुंचना परिचित मेहमान या रिश्तेदार का आगमन
अभ्यागन्	संज्ञा	मलयालम	महान आगन्तुक, सम्माननीय मेहमान
अभ्यागम अभ्यागम अभ्यागमं अभ्यागमन अभ्यागमन अभ्यागमन (नं)	संज्ञा	हिंदी, कन्नड, संस्कृत बंगला, नेपाली मलयालम नेपाली, संस्कृत बंगला कन्नड, मलयालम	1. आगमन, मुलाकात, भेंट, सामना, मुकाबिला 2. मुठभेड़, हमला, चढ़ाई, युद्ध 3. पड़ोस, सामीप्य, नजदीक आना, पहुंचना 4. शत्रुता, वैर, दुश्मनी, वध करना 5. थ्वड़े होकर की जाने वाली अगवानी, अभ्युत्थान + 6. फल प्राप्ति, स्वीकार, नाश, मारण (बंगला)
अभ्यागारिक अभ्यागारिक अभ्यागारिकन्	विशेषण	हिंदी, नेपाली कन्नड, संस्कृत मलयालम	1. परिवार पालन में प्रसन्न, तत्पर, यत्नशील गृहस्थी + 2. घरेलू नौकर (मलयालम) 3 अन्तःपुर सेवक 4. परिवार पालन में हैरान या व्याकुल
अभ्याघात अभ्याघातं	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत मलयालम	1. आक्रमण, हमला, चढ़ाई, वार करना 2. अवरोध, विघ्न, बाधा, रुकावट
अभ्याघरिकुक	क्रिया	मलयालम	1. पहुंचना 2. कार्य करना
अभ्यात्तान अभ्यात्तानं	संज्ञा	संस्कृत मलयालम	1. विस्तार, व्यापकता, फैलाव 2. बहुत फैला हुआ, विस्तृत
अभ्यात्त अभ्यात्त	विशेषण	मलयालम, कन्नड हिंदी	1. लब्ध, सिद्ध, प्राप्त, उपलब्ध 2 व्याप्त, सर्वव्याप्त 3. परब्रह्म का एक विशेषण

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभ्यात्म	विशरण	मलयालम	1 आरम्भ, शुरू होना, उत्पत्ति, मूलोद्भव
अभ्यात्म		संस्कृत	2 मनमूख, आत्मघाती
अभ्यादान	मज्ञा	बंगला, कन्नड	1 सम्मुख होकर लेना
अभ्यादान (नं)		संस्कृत, मलयालम	2 सूत्रपान, प्रथमारम्भ
अभ्याधान	मज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 आरम्भ या स्थापना करने की क्रिया या भाव
अभ्याधानं		मलयालम	2 देर करना, और डालना (जेमे आग मे ईंधन)
अभ्यान्त	विशरण	मलयालम	1 गेगी, पीड़ित, मृत, बीमार
अभ्यान्त		कन्नड	2 आर्कगित, जिस पर पार या हमला हुआ हो
अभ्यापात	मज्ञा	हिंदी, संस्कृत	आपद, विपत्ति, सकल, दुभाग्य, चुराई
अभ्यापातं		मलयालम	अभि अर्थात् बड़ी आफत आ पड़ी हो
अभ्यामर्द	मज्ञा	मलयालम	1 युद्ध, लडाई, महाभारत, महायुद्ध
अभ्यामर्द (नं)		कन्नड, संस्कृत, हिंदी	2 निचोडना, कथल कर मत निकाल लेना (मग)
अभ्यारूढ	विशरण	मलयालम	1 चढा हुआ 2 अतिशय वर्धित ~
अभ्यारोहं	मज्ञा	मलयालम	1 अभिवृद्धि, उन्नति, सिद्धि समूलकप
अभ्यारोह		संस्कृत	2 ऊपर चढना (पदवी आदि मे) मचार लेना
अभ्यावर्त्त	मज्ञा	मलयालम	1 गायन मे दरगया जाने वाला भजन
अभ्यावर्त्त		संस्कृत	2 आवर्त्तन, दुरुगना, बार बार उच्चारण करना
अभ्यावर्ति	विशरण	मलयालम	1 बार बार आने या चक्कर लगाने वाला
			2 अग्नि आवाहक मंत्र जो यज्ञाग्नि प्रचलित करने समय बोलते है
अभ्यावृत्ति	मज्ञा	मलयालम, संस्कृत	पुनरावृत्ति, पुनर्घटन, आवर्त्तन, बार बार वही बात
अभ्याश	विशरण	बंगला, मलयालम	1 समीप, निकट, पड़ोस मे
अभ्याश		हिंदी, संस्कृत	2 शीघ्र लाभ, लाभ की आशा
अभ्याशं	मज्ञा	मलयालम	3 समीपता, निकटता, अभ्युद्भव, परिणाम
अभ्यासंग		कन्नड	सम्बन्ध, आमक्ति, सम्मति
अभ्यास	मज्ञा	हिंदी, गुजराती	1 दार बार एक ही क्रिया कर साधन, मशक
अभ्यास		असमी, उड़िया	2 अदत, वान 3 कार्य को पूरे होने या पूर्ण रूप

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभ्यास		मराठी, बंगला, संस्कृत	में प्रस्तुत करने के लिए उसकी आवृत्ति (प्रेक्टिस)
अभ्यास		नेपाली, कन्नड	4. एक प्राचीन काव्यालंकार 5. निरंतर दुहराना,
अभ्यासु		सिंधी	आवृत्ति करना, अध्ययन, साधन
अभिआस		पंजाबी	6. रट कर याद करना, बार बार पढ़ना, मीखना
अभ्यासं		मलयालम	7. अभिज्ञता, मुपग्रिचय, कृशलता, दक्षता
अभ्यासमु		तेलुगु	8. विशेषता प्राप्ति के लिए बार बार कार्य को
अभियासम्		तमिल	दुहराना + 9. कसरत, कवायद, रीति, पद्धति (असमी)
अभ्यासकला	संज्ञा	हिंदी	1 आमन और प्राणायाम का मेल 2. विविध योगांग के मेल से बनी चार कलाओं में एक
अभ्यासगत	विशेषण	बंगला	1 अभ्यस 2. समीप में प्राज्ञ 3 चिन्ना आदि व्यतिरेक समुत्पन्न
अभ्यासणें	क्रिया	मराठी	अध्ययन करना, आदत डालना, कंठ करना, पुनः
अभियसि-त्तसु	क्रिया	तमिल	पुन करना, मुहावरा डालना
अभ्यास-योग	संज्ञा	हिंदी, गुजराती	1 एक ही विषय वस्तु पर एकाग्र, सतत या बार बार
अभ्यासयोगं		मलयालम	चिन्तन की स्थिति, समाधि
अभ्यासयोग		संस्कृत	2 आत्मा/परमात्मा चिन्तन से उत्पन्न समाधि दशा
अभ्यासादनं	संज्ञा	मलयालम	शत्रु पर हमला, आक्रमण, शत्रु का सामना करना,
अभ्यासादन		संस्कृत, हिंदी, कन्नड	शत्रु को अपार कष्ट देना, माग काट मचाना
अभ्यासि	विशेषण	मलयालम, कन्नड	बार-बार एक ही कार्य दुहराने या आवृत्ति करने
अभियासि		तमिल	वाला, साधक, अध्ययनशील, विद्यार्थी, पंडित
अभ्यासी		हिंदी, गुजराती, मराठी	प्रशिक्षित, निपुण, खिलाड़ी, व्यायामी, जिमने
अभ्यासी		नेपाली, सिंधी, बंगला	कोई आदत डाल ली हो, उद्यमी
अभ्यासिसु	सकर्मक क्रिया	कन्नड	अभ्यास करना, लगातार करने की आदत डालना
अभ्याससापेक्ष	विशेषण	बंगला	अभ्यास पर निर्भर, अभ्यासाधानी
अभ्यासित		कन्नड	जिसका अभ्यास किया गया हो, क्रियान्वित
अभ्यास्य	विशेषण	गुजराती	अभ्यसनीय, अभ्यास के योग्य
अभ्याहत	विशेषण	हिंदी	1. जिसे चोट लगी हो, आहत, घायल, पीड़ित
अभ्याहत		मलयालम	2. जिस पर वार किया गया हो
अभि-आहत		संस्कृत	3 पीटा हुआ, अन्याचारित, ताड़ित, बाधित

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभ्याहननं अधि-आहनन	सज्ञा	मलयालम संस्कृत	1. हत्या करना, वार करना, चोट पहुंचाना 2. रोकना, बाधा डालना, घात करना
अभ्याहार अभ्याहारं अभ्याहार	सज्ञा	हिंदी, कन्नड मलयालम संस्कृत, बंगला	1 सन्मुख लाना, समीप लाना, डकैती, आक्रमण 2. उठाकर या लूटकर ले जाना, चौर्य, अपहरण + 3 भोजन 4 पुनरावृत्ति (बंगला), दोना (संस)
अभ्याहित अभ्याहृत	विशेषण विशेषण	मलयालम मलयालम	बिछाया, लिटाया या दिया हुआ 1 नजदीक या करीब लाया हुआ 2 लूटा या छीना हुआ
अभ्युक्त अभ्युक्त	भूत कृदत	हिंदी मलयालम	1 सदर्थ मे कहा या घोषित किया हुआ, उच्चरित 2 वादी प्रतिवादी पर लगाये दोष तथा उसका तर्क समर्थित मौखिक या लिखित बयान
अभ्युक्ति	सज्ञा	हिंदी	अभियुक्त पर लगाये दोष तथा उसका तर्क समर्थित वर्णन (स्टेटमेंट)
अभ्युक्षणं अभ्युक्षण अभ्युक्षण	सज्ञा	मलयालम हिंदी, गुजराती बंगला, संस्कृत	1 छिडकना, तर करना, सींचना, प्रोक्षण, मार्जन 2 पूजा द्रव्यो पर जल छिडकना 3 मत्र पूर्वक सिंचन (पवित्रीकरण के लिए)
अभ्युक्षित अभ्युक्षित	भूत कृदत	बंगला हिंदी	1 जल छिडका गया 2 पूजा पदार्थ जिन पर मत्र पढकर जल छिडका गया हो, सिंचित
अभ्युचित अभ्युचित	विशेषण	हिंदी, संस्कृत मलयालम	नियमित, प्रचलित, उचित, आम, साधारण, प्रचलित प्रथा के अनुकूल, लौकिक, व्यावहारिक
अभ्युच्चयं अभ्युच्चय	सज्ञा	मलयालम हिंदी, संस्कृत	उन्नति, उत्कर्ष, वृद्धि, अभ्युदय, विकास, समृद्धि, जोड़ना, बढ़ातीरी
अभ्युच्चित अभ्युच्चय अभ्युच्चित अभ्युच्छेदन	भूत कृदत सज्ञा विशेषण सज्ञा	मलयालम गुजराती, हिंदी मलयालम, हिंदी हिंदी	वर्द्धित, शक्ति प्राप्त, उत्कर्ष प्राप्त, समृद्धिशालिता उत्थान, स्वर ऊंचा करना, संगीत में स्वर साधना ऊचा चढ़ा या उठाया हुआ, विशिष्ट, अत्युत्तम शल्य क्रिया द्वारा शरीरंग काट कर अलग करना, अंगछेदन (एम्प्यूटेशन)
अभ्युत्कृष्ट	विशेषण	मलयालम	उच्च स्वर मे प्रशंसित, स्तोत्र पाठ, स्तुति गान

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभ्युत्क्रोशन	संज्ञा	संस्कृत	उच्च स्वर से चिल्लाना
अभ्युत्था	संज्ञा	संस्कृत	उठना, किसी के सम्मान में उठकर खड़ा होना
अभ्युत्थान	संज्ञा	हिंदी, गुजराती	1. उत्कर्ष, उदय, उठान, बढ़ती, समृद्धि, शान, उत्तुंग, उन्नत, उद्यम, ख्याति; + प्रस्थान (संस)
अभ्युत्थान		उड़िया, मराठी	2. स्वागतार्थ सम्मान में उठ खड़ा होना 3. पदोन्नति
अभ्युत्थान		असमी, बंगला	करना या आगे बढ़ना, मानार्थ ऊंचा होना
अभ्युत्थान		नेपाली, कन्नड, संस्कृत	4. किसी के प्रतिकूल शस्त्र उठाना, विद्रोह, युद्ध की
अभ्युत्थानं		मलयालम	तयारी, शासन या सना के विरुद्ध विद्रोह
अभ्युत्थानमु		तेलुगु	
अभ्युत्थायि	विशेषण	मलयालम	1. सम्मानार्थ खड़ा होने वाला व्यक्ति
अभ्युत्थायिन्		संस्कृत	2. उन्नतिशील, अग्रसर, आगे बढ़ने वाला
अभ्युत्थायी		हिंदी, बंगला	3. विद्रोही, विप्लवी, शासन के विरुद्ध उठ खड़ा होने वाला
अभ्युत्थित	भूत कृदंत	हिंदी, मलयालम	1. अभ्युत्थानकृत, उदित, प्रवृत्त, अभ्युदयप्राप्त, उन्नत + 2. प्रज्वलित, विद्रोही (बंगला)
अभ्युत्थित/ अभ्युत्थित		बंगला	
अभ्युत्थेय	विशेषण	हिंदी	1. जिसका अभ्युत्थान होने को हो या जो उसका पात्र हो 2. जिसके सम्मानार्थ खड़ा होना उचित हो
अभ्युत्थतनं	संज्ञा	मलयालम	1. उठाने हुए किसी से टकरा जाना
अभ्युत्थतन		नेपाली, संस्कृत	2. उछाल, झपट, आक्रमण 3. फड़कना, उछलना
अभ्युदगत	भूत कृदंत	मलयालम	1. स्वागतार्थ निकट गया हुआ, पहुंचा हुआ
अभ्युदगत		संस्कृत	2. यश प्रचारित
अभ्युदगति	संज्ञा	संस्कृत	1. अगवानी, निकाम, उत्पत्ति
			2. मेहमान के सम्मानार्थ उसे लेने जाने की प्रक्रिया
अभ्युदगम	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	1. सन्मुख जाना, उपस्थित होना, अभिमुख होना
अभ्युदगम्		संस्कृत	2. उदय, आरंभ, विकास
अभ्युदगमं		मलयालम	3. प्रतिष्ठित व्यक्ति के स्वागतार्थ उठना, मिलना
अभ्युदयिक-अभ्युदयिक	संज्ञा	कन्नड	सूर्योदयिक, आरंभिक
अभ्युदय	संज्ञा	हिंदी, गुजराती	1. सूर्य-चंद्रोदय 2. आविर्भाव, उत्पत्ति
अभ्युदय		मराठी	3. श्री, सुख सम्पत्ति, श्रेय, कल्याण, मंगल आदि की
अभ्युदय		असमी, उड़िया	वृद्धि, प्राप्ति, आनंद, सुख, विजय

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभ्युदय अभ्युदय अभ्युदयं अभ्युदयम् अभ्युदयमु	संज्ञा संज्ञा संज्ञा संज्ञा	बंगला, संस्कृत नेपाली, कन्नड मलयालम तमिल तेलुगु	4 उन्नति, प्रगति, ऐश्वर्य, सौभाग्य, बरकत, इष्टलाम, अफजाइश; नागलिक अवसर का उत्सव + 5 अपरिमित, आप्लावित (असमी) 6 नक्षत्रोदय, शुभ ग्रहोदय 7. मनोरथ सिद्धि 8 सन्तानोत्पत्ति पर किया जाने वाला श्राद्ध
अभ्युदयश्राद्धं अभ्युदयश्राद्ध	संज्ञा	मलयालम असमी, संस्कृत	1 चूड़ाकरण संस्कार आदि के उत्सव पर किया जाने वाला श्राद्ध 2 वृद्धि श्राद्ध, शुभ अवसर श्राद्ध
अभ्युदयिक अभ्युदस्त	विशेषण विशेषण	कन्नड कन्नड	उपासना आरंभ की कार्य विधि ऊपर को फेंकना, ऊपर उठाना, उठाना
अभ्युदाहरण अभ्युदाहरण अभ्युदाहरणं	संज्ञा	हिंदी, बंगला संस्कृत मलयालम	किसी घटना या तथ्य के विपरीत बात के आधार पर दिया जाने वाला उदाहरण, दृष्टान्त या स्पष्टीकरण, नकारात्मक उदाहरण
अभ्युदित अभ्युदित अभ्युदित अभ्युदितन् अभ्युदितुः	भूत कृदंत संज्ञा विशेषण संज्ञा	हिंदी, बंगला, कन्नड नेपाली, मराठी, संस्कृत मलयालम, तेलुगु, गुर्ज मलयालम तेलुगु	1 उदित, उत्पन्न, प्रादुर्भूत, प्रकाशित, मंगलार्थ प्रवृत्त 2 उन्नत, सम्पन्न, समृद्धि प्राप्त, पदोन्नत 3 कल हुआ, कथित, घटित + 4 सूर्योदय, उद्गम (हिंदी) 5. प्रातः संध्या वदन न करने वाला + 6 जो ब्रह्मचारी सूर्योदय के बाद भी निद्रित हो (बंगला)
अभ्युदीरित अभ्युदारणं अभ्युदार अभ्युदृत	विशेषण संज्ञा विशेषण विशेषण	मलयालम मलयालम मलयालम मलयालम	जोर से उच्चरित, उच्च स्वर में कथित ऊचा या ऊपर उठाना, बचाना, उद्धार करना ऊपर उठाने जाने योग्य, उठा ले जाने योग्य 1. उठाया हुआ 2. ऊपर खींचा हुआ (कुएँ में पानी) 3 उद्धृत करना, उद्धरण देना 4 एकत्रित
अभ्युद्यत अभ्युद्यत	विशेषण	बंगला, मलयालम संस्कृत	1 उत्थित, प्रवृत्त, उद्यत, तैयार, चुस्त, व्यस्त 2. ऊंचा, उन्नत, प्रशस्त, महान
अभ्युन्नत अभ्युन्नत	विशेषण	नेपाली, मलयालम संस्कृत	1 प्रशस्त, महान, अत्युच्च, ऊपर को निकला हुआ 2. उठा हुआ, उन्नत, ऊंचा किया हुआ
अभ्युन्नति अभ्युन्नति	संज्ञा	नेपाली, मलयालम संस्कृत	1 उन्नति, समृद्धि 2. पदोन्नति 3. शालीनता 4. अत्यन्त पदोन्नति और समृद्धि

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अभ्युपगत अभ्युपगत	भूत कृदंत	हिंदी, मलयालम बंगला	1. पास आया या पहुंचा हुआ, प्राप्त, सदृश 2. स्वीकृत, अंगीकृत, माना हुआ, अनुमित, रत
अभ्युपगम अभ्युपगम अभ्युपगम अभ्युपगम अभ्युपगम अभ्युपगम	संज्ञा	हिंदी, कन्नड संस्कृत मराठी नेपाली बंगला मलयालम	1. सन्मुख आना, उपस्थित होना, पास आना 2. प्राप्त करना 3. स्वीकृत या मंजूर करना, सहमत होना 4. किसी बात को सत्य या असत्य मान फिर जांच पड़ताल कर परिणाम निकालना (डिडक्शन) + 5. दोष स्वीकार करना, प्रतिज्ञा (नेपाली)
अभ्युपगमिन् अभ्युपगमिन्	विशेषण संज्ञा	मलयालम मलयालम	सहमत करना, राजी करवाना, अंगीकार कराना सहमति द्वारा पाया हुआ गुलाम
अभ्युपपत्ति अभ्युपपत्ति अभ्युपपत्ति अभ्युपपत्ति अभ्युपपत्ति अभ्युपपादनं	संज्ञा संज्ञा संज्ञा संज्ञा संज्ञा	हिंदी कन्नड बंगला संस्कृत मलयालम मलयालम	1. सहायता, रक्षा या सुरक्षा के लिए समीप जाना 2. कृपा, अनिष्ट निवारण और अभीष्ट संपादन हेतु अनुग्रह; सान्त्वना, ढाढ़स, बचाव 3. स्वीकृति, सहमति, प्रतिज्ञा, वायदा, समझौता, इकरारनामा, प्रतिज्ञा पत्र 4. विश्वास 5. नियम, युक्ति + 6. स्त्री गर्भवती बनाने की क्रिया (मलयालम) (विशेषतया भाई की विधवा को)
अभ्युपपन्न अभ्युपस्थित अभ्युपाकृत	विशेषण विशेषण विशेषण	बंगला मलयालम मलयालम	अंगीकृत, स्वीकृत, राजी होना माथ लाया, आया, पहुंचा हुआ या सेवा में उपस्थित आमंत्रित, निमंत्रित, आदर से बुलाया गया
अभ्युपायं अभ्युपाय अभ्युपाय	संज्ञा	मलयालम हिंदी, बंगला नेपाली, संस्कृत	1. काम के साधन का उपाय, युक्ति, मार्ग 2. वादा, प्रतिज्ञा, इकरार 3. अंगीकार, स्वीकार 4. उपाय, इलाज, चिकित्सा, समाधान
अभ्युपायनं अभ्युपायन अभ्युपायन	संज्ञा संज्ञा संज्ञा	मलयालम हिंदी, बंगला संस्कृत	1. भेंट 2. संतोषजनक कार्य पूर्ण होने की सभावनार्थ द्रव्यदान, इनाम 3. रिश्वत, घूस, उत्कोच आदि उपाय
अभ्युपेत अभ्युपेत	विशेषण	हिंदी, मलयालम बंगला, संस्कृत	1. पहुंचा या आया हुआ 2. स्वीकृत, सम्मत 3. युक्त, वादा किया हुआ, प्रमाणित, युक्ति सिद्ध

शब्द	शब्दाभेद	भाषाएँ	अर्थ
अध्युपेत्य	अव्यय	मलयालम, बंगला	1 पहुचकर, स्वीकृत करके, प्रमाणित करके युक्ति से सिद्ध कर।
अध्युपेत्य	अव्यय	मराठी	+ 2 पहले स्वीकार कर फिर खडन करना (मराठी)
अध्युपेत्यवाद	सज्ञा	मराठी	स्वीकार कर खडन करने का सिद्धान्त
अध्युपेत्याशुश्रूषा	सन्ना	मलयालम	भृत्य या सेवक द्वारा वादा खिलाफी.
अध्युपेत-अशुश्रूषा		संस्कृत	शुश्रूषा या सेवा करने की प्रतिज्ञा करके उसे भग करना
अध्युषं/अभ्यूषं	सज्ञा	मलयालम	1 एक प्रकार की गेटी, पूड़ा
अध्युष/अभ्यूष		कन्नड, हिंदी, संस्कृत	2 अधपका आहार, अधपक दाने
अभ्योषं		मलयालम	3 अग्नि में जलने की क्रिया या भाव (मलया)
अध्युषित	विशेषण	मलयालम	1 किसी के साथ गत रहना, गत बिताना
अभियुषित		हिंदी	2 साथ या निकट रहने वाला या निवास करने वाले
अध्युषितन्	सज्ञा	मलयालम	1 भृत्य, दिन रात सेवा चाकगी में लगा रहने वाला
अध्युषित	सज्ञा	हिंदी	2 दाम, नौकर
अभ्यूढ	विशेषण	मलयालम	पास लाना, किसी को विशेषतया लेकर आना
अभ्यूह	सज्ञा	हिंदी	1 अनुमान, कल्पना 2 तर्क वितर्क, निष्कर्ष
अभ्यूह		संस्कृत	निकालने का सिद्धान्त 3 निगमन, निष्कर्ष
अभ्यूहं		मलयालम	परिणाम, फल + 4 त्रुटि पूर्ति वृद्धि, समझ (संस्कृत)
अभ्यूहिकप्रस्थानं	सज्ञा	मलयालम	विद्युत या चुंबकीय उत्पादन में सबद्ध विधि
अभ्यूहिककुक्क		मलयालम	अनुमान करना, कल्पना करना, परिणाम या निष्कर्ष निकालना
अभ्येत्य	अव्यय	मलयालम	पहुच गया, आ गया, समीप उपस्थित हुआ
अभ्येषणं	सज्ञा	मलयालम	1 आग्रह, कामना या इच्छा करने वाला
अभि-एषण		संस्कृत	2 आक्रमण करने जाना, किसी ओर जाना
अभ्योषं	सज्ञा	मलयालम	पूड़ा, गुड आदि युक्त आटे का वह पदार्थ जो घी या तेल में डालकर पकाया गया हो

‘अप’ उपसर्ग की व्याप्ति

“अप” उपसर्ग संज्ञा अथवा क्रिया शब्दों के आरम्भ में लग कर अनेक प्रकार के अर्थ परिवर्तन करता है। मूलतः ‘अप’ का भाव बुराई जताना है। परन्तु जिन संज्ञा या क्रियाओं में यह जोड़ा जाता है, उनके कारण इसका भावार्थ, आशय अथवा अर्थ संकेत भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा प्रकट होता है। परिणाम यह है कि विभिन्न भाषाओं के कोशों में ‘अप’ के निषेध, विकृति, तिरोभाव, विच्छेद, विरोध, विपरीतता, खण्डन, कुम्भितता, विगाड़, गिरावट, अधगता, अनादर, विहीनता, हेयता, निरुपयोगिता, व्यर्थता आदि अनेक अर्थ दिये गये हैं। यहाँ केवल कुछ अर्थ संकेत ही दिये जा रहे हैं। ये शब्द भी आशय की दृष्टि से ‘बुराई’ के पर्यायवाची ही हैं।

अर्थ-संकेत

प्रतिकृता
अशुद्ध
दूरी, अन्तर, हटाना
हास, निम्नता
अनुचित, निन्दनीय
वर्जनीय
आकस्मिक
गुप्त या अप्रधान
दिशा-निर्देश
नियम बाह्य

उदाहरण

अपकीर्ति
अपपाठ
अपक्षेप, अपगमन
अपकर्ष, अपकृष्ट, अपभ्रंश
अपव्यय, अपजान
अपशकृन्, अपवचन
अपमृत्यु
अपद्वार
अपदेश
अपवाद

इस कोश में सब भाषाओं के कुल मिलाकर अप उपसर्गयुक्त 1877 शब्द हैं। इनमें मलयालम के 315, तमिल के 74, तेलुगु के 110 तथा कन्नड के 133 शब्द हैं अर्थात् दक्षिणी भाषाओं के 632 शब्द हैं। हिन्दी शब्द संख्या 332 है। तथा शेष भारतीय भाषाओं की कुल शब्द संख्या 913 है।

विशेष:- ‘अप’ उपसर्ग युक्त कुछ ऐसे शब्द भी वन्ते हैं, जिसका अर्थ ‘अ, अन्’ जैसा अर्थात् ‘नकारात्मक’ निकलता है। यथा, अपधूम-निधूम, अपधैर्य-अधैर्य, अपभ्रम-निर्भय, अपभीति-निडरपन, अपरक्त-रक्त हीनता आदि आदि।

विशेष टिप्पणी- हिन्दी में ‘अपस्वार्थी, अपकाजी’ आदि कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं, जिनमें लगा ‘अप’ शब्द उपसर्ग नहीं है, अपत्ति ‘अपना’ का संक्षिप्त रूप है। परन्तु ऐसे शब्दों से भावना बुराई की ही निकलती है।

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपकटं	संज्ञा	मलयालम	1 विपरीत, परम्पर विरोधी, वैषम्य
अपकटम्	संज्ञा	तमिल	2 सकट, कष्ट, दुर्घटना, अहित, परेशानी
			3. शरारत, वचना, धोखा, कपट
अपकटसं	संज्ञा	मलयालम	1 खतरे की हालत 2 शरारतीपन, विपरीत स्थिति
अपकरण	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 अनुचित, अयोग्य, बुरा या गलत काम करना
अपकरणं	संज्ञा	मलयालम	2 उपद्रव, द्रोह, अपमान, दुष्कर्म, दुर्व्यवहार, चिढाना
अपकरण	विशेषण	मलयालम	3 द्रोही, उपद्रवी, अयोग्य प्रवृत्ति का
अपकरित्तु	मकमक क्रिया	तमिल	छीनना, लूटना, उठा ले जाना
अपकरिक्कुक्	क्रिया	मलयालम	हरण कर लेना
अपकरुण	संज्ञा	हिंदी, मलयालम	क्रूर निर्दय, निष्ठुर, दयाहीन
अपकरुणं	क्रिया विशेषण	मलयालम	क्रूरता में, निर्दयता में
अपकर्ता	विशेषण	हिंदी, नेपाली, तेलुगु	1 हानि पहुंचाने वाला, बुराई करने वाला, चोट
अपकर्तृ		संस्कृत	पहुंचाने वाला, अपकार करने वाला, अप्रीतिकर
अपकर्ता(वु)	संज्ञा	मलयालम	2 अनिष्टकारी, अपकारी 3 शत्रु-
अपकर्म	संज्ञा	मलयालम, असमी	1 बुरा, खराब, हानिकारक, निन्दनीय काम,
अपकर्म	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	अपकृष्ट कर्म, अन्याचार, ज्यादती
अपकर्म		उड़िया, बंगला, मराठी	2 दुष्कर्म, दुष्प्रवृत्ति, दुष्टाचरण, कुकर्म, अपकृत्य
अपकर्मन्		संस्कृत	3 पाप + 4 आलस, अयोग्यता (मलयालम)
अपकरम		पंजाबी	+ 5 ऋणपरिशोध, उधार चुकाना (मलयालम)
अपकर्ममु		तेलुगु	+ 6 अनुचित काम (पंजाबी), अन्याचार
अपकर्मा	विशेषण	हिंदी, बंगला	दुराचारी, शरारती, भ्रष्टाचारी, कुकार्यकारी,
अपकरमी		पंजाबी	दुष्कर्मी, बुरा काम करने वाला, पापी
अपकर्ष	संज्ञा	हिंदी, असमी, उड़िया	1 निम्नाकर्षण, नीचे की ओर खींचना, घटाव, कमी
अपकर्ष		नेपाली, मराठी, कन्नड	2 गिराना, निरादर करना, अपमान, अपयश, दुर्नाम
अपकर्ष		गुजराती, बंगला, संस्कृत	3. अवनति, हीनता, क्षय, पतन 4. अपमानता, हस्वीकरण
अपकर्ष		मलयालम	+ 5. पीछे का धर्म कृत्य पहली, पीछे वाला शब्द
अपकर्षमु		तेलुगु	पहले लगाना (मराठी) + 6 कारणवश श्राद्ध आदि का अनुष्ठान (बंगला)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपकर्षक	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1. निम्नाकर्षक, नीचे गिराने वाला
अपकर्षक		गुजराती	2. अपयश या बदनामी का कारण, निरादर करना
अपकर्षक	विशेषण	संस्कृत	3. घटाने वाला, छोटा करने वाला, अवनतिकारक
अपकर्षण	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. हटाना, दूर ले जाना, खींच लेना
अपकर्षण		गुजराती, बंगला	2. कम करना, मान मूल्य घटाना, मान हानि
अपकर्षण		मराठी, नेपाली	3. मोचन, अपहरण, क्षय, हाम, अपसारण, अवनति
अपकर्षणं	संज्ञा	मलयालम	4. किमी के स्थान पर कब्जा जमाना
अपकर्षणें	सकर्मक क्रिया	मराठी	पहले या पीछे खींचना, हीनता लाना
अपकर्ष बोधं	संज्ञा	मलयालम	हीन भावना (इनफीरियारिटी कम्प्लैक्स)
अपकर्षित	भूत कृदंत	हिंदी	1. जिमका मान महत्व घटा हो 2. घृणित, बुरा, अधम, नीच 3. कौआ (संज्ञा)
अपकलंक	संज्ञा	हिंदी	+ 1. ऐसा कलक जो मिट न सके (हिंदी)
अपकलङ्क	संज्ञा	मलयालम	2. भारी या गहरी बदनामी, गहरा दाग
अपकलङ्क		असमी	+ 3. अपवाद, कुर्म, दोषारोप, मिथ्यारोप, मिथ्यावाद,
अपकलङ्क		बंगला	झूठी बदनामी, अपकृष्ट कलंक (असमी, बंगला)
अपकल्मष	विशेषण	हिंदी, मलयालम	निष्कलंक, पाप या अपराध रहित
अपकल्मष		मराठी, असमी, बंगला	काला दाग न होना या न रहना
अपकाजी	विशेषण	हिंदी, तेलुगु	अपने ही काम या लाभ का ध्यान रखने वाला, अपस्वार्थी
अपकामं	अव्यय	मलयालम	बिना मन के, इच्छा के विरुद्ध
अपकार	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपा, संस	1. उपकार का उलटा, अहित, हानि, अनिष्ट,
अपकार		असमी, उड़िया, बंगला	नुकसान, अमंगल, बुराई, अनभल, क्षति
अपकार		कन्नड, पंजाबी, मराठी	2. द्वेष, द्रोह, गुनाह, अन्याय, अत्याचार, उपद्रव,
अपहारम्, अपकारम्		तमिल	गलत काम, अपराध, दुष्टपन, जुल्म
अपकारं		मलयालम	3. शत्रुता, अपमान, कृतज्ञता, वै, ओह्र या नीचकर्म
अपकारमु		तेलुगु	+ 4. हिंसा (असमी) + 5. रोग, बिमारी (मराठी)
अपकारक	विशेषण	हिंदी, गुज, नेपा, मरा	1. अहितकारी, हानिकारी
अपकारी		पंजा, अस, उड़ि, बंग	2. अनिष्ट कर्ता, क्षतिकारक, विघ्न कर्ता
अपकारकन्		मलयालम	3. दोषी, द्वेषी, किसी का अहित चाहने वाला

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपकारि	विशे० संज्ञा	मलया, कन्नड, तमिल	4. शत्रु, विरोधी, विद्वेषकारी
अपकारकुडु	संज्ञा	तेलुगु	5. अपकार करने वाला, दुराशयी
अपकारिन्		संस्कृत	6. बुराई, निन्दा, खराबी करने वाला
अपकारिता	संज्ञा	हिंदी, संस, नेपाली, बंगला	अपकार करने का भाव या अवस्था
अपकालम्/अवकालम्	संज्ञा	तमिल	दुर्भाग्य का समय; महामारी, दुर्मिक्ष आदि बुरा समय
अपकार्य	संज्ञा	गुजराती	1. खराब, नीच, अशुद्ध काम
अपकार्य		मलयालम	2. निन्दनीय प्रवृत्ति (मलयालम)
अपकिरणं	संज्ञा	मलयालम, हिंदी	बिखेरना, सब तरफ फेंक देना, बरबाद करना
अपकीर्ण	भूत कृदन्त	हिंदी, संस्कृत	तोड़-फोड़कर नष्ट किया हुआ, अवकीर्ण
अपकीर्ति	संज्ञा	हिंदी, गुज, नेपा, मराठी	1. अपयश, बदनामी, निन्दा, दुष्कीर्ति, मानहानि
अपकीर्ति		असमी, उड़िया, बंगला	2. अर्जित यश को नष्ट करने वाला दुष्कार्य
अपकीर्ति		कन्नड, तेलुगु, संस्कृत	3. दुर्नाम, कुख्याति, अचमान, कृत्सा, अपख्याति
अपकीर्ति		तमिल, मलयालम	4. अपमान, अख्याति, अकृष्ट कीर्ति
अपकीरत		पंजाबी	5. अनुचित काम करने पर होने वाली बदनामी
अपकृत	विशेषण	हिंदी, नेपाली, बंगला	1. क्षतिग्रस्त, अपमानित, क्षति, हानि (संज्ञा)
अपकृत		मलया, कन्नड, संस्कृत +	2. घायल (मलया) 3. जिसका अपकार या अपकीर्ति
अपकृतुडु		तेलुगु	हुई हो या की गई हो. 'अपकृत' का उलटा
अपकृति	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1. अपकृत्य, अनिष्ट, अपकार, अपकार्य
अपकृति		बंगला, कन्नड, मराठी	2. अपराध, निन्दनीय कार्य, बुराई 3. हानि, नुकसान
अपकृति		मलयालम	4. द्रोह, उपद्रव, शत्रुता, विरोध
अपकृति		तेलुगु +	5. कृतघ्नता (कन्नड)
अपकृत्यं	संज्ञा	मलयालम	1. नीच कर्म, दुष्कृति, उपद्रव, खराब काम
अपकृत्य		मराठी, कन्नड	2. दुर्गचरण; द्रोह, अपराध विरोध, शत्रुता,
अपकृत्य		हिंदी, गुजराती	निन्दनीय प्रवृत्ति (मलयालम)
अपकृत्तियम्		तमिल	3. देखें- अपकृति
अपकृपं (कृप)	अव्यय	मलयालम, संस्कृत	दया हीनता, निर्दयता, निष्ठुरता, क्रूरता
अपकृष्ट	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1. पतित, अधम, अवनत, हीन, निम्न, गिरा हुआ
अपकृष्ट		असमी, बंगला, संस्कृत	2. खराब, घटिया, निन्दनीय, रद्द, निकृष्ट, निम्नाकृष्ट

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपकृष्ट		कन्नड, मराठी	+ 3 मत्र सामर्थ्य से खीचकर लाया हुआ (मराठी)
अपकृष्ट		मलयालम	4 नष्ट किया हुआ, गिराया हुआ, हटाया हुआ
अपकृष्टमु		तेलुगु	+ 5 विशिष्ट विधान द्वारा निश्चित समय पूर्व कृत (बंगला)
अपकृष्टता	सधा	हिंदी	अधमता, नीचता, दुष्टता, भुराई
अपकृष्ट-चेतन	विशेषण	हिंदी	बुरे विचारों वाला
अपकेन्द्रक	विशेषण	मलयालम	1 केंद्र से निकल दूर होने या हटनेवाला (गणित)
अपकेन्द्री (द्र)		हिंदी, बंगला	2 जिमकी शक्ति केंद्र से विपरीत दिशा में
अपकेन्द्रिन्		संस्कृत	प्रवृत्त हो (सेण्ट्री फ्यूगल)
अपकौशलि (सी)	सज्ञा	मलयालम, हिंदी	नार्ना, खबर, समाचार, सूचना
अपक्रम	सज्ञा	हिंदी, बंगला	1 निर्यामित आदेश का उल्लंघन या इन्कार
अपक्रम	सज्ञा	मराठी, संस्कृत	2 व्यतिक्रम, क्रमभंग, क्रम रहित, अनियमित,
अपक्रमं		मलयालम	अमन व्यस्त, गडबड + समय व्यर्थ जाना (मराठी)
अपक्रम		नेपाली, कन्नड	3 पलायन, प्रस्थान, भागना, दूर जाना, उड़ान
अपक्रममु		तेलुगु	4 पराजय, पीछे हटना 5 (समय) व्यतीत होना
अपक्रमण	सज्ञा	हिंदी, बंगला	1 देखे अपक्रम 2 अमतां प्र व्यक्त करते -
अपक्रमण		नेपाली, संस्कृत	सभा में वहिर्गमन (वाक आउट)
अपक्रमण		कन्नड, मराठी	3 उस स्थल को छोड़ जाना, भागना
अपक्राम	सज्ञा	मराठी, संस्कृत, हिंदी	देखें अपक्रम, बचकर निकल जाना, पलायन
अपक्रम वृत्तं	सज्ञा	मलयालम	क्रान्ति वृत्त
अपक्रमी	विशेषण	हिंदी	पीछे हट जाने वाला, भगोड़ा, नेजी से न जाने वाला
अपक्रमिक्कुक्क	अकर्मक क्रिया	मलयालम	सरक जाना, खिसक जाना, लौट जाना
अपक्रातं	विशेषण	बंगला, मराठी	पलायित, अपसृत, पीछे हटा हुआ
अपक्रिया	सज्ञा	हिंदी, गुजराती	1 हानि, नुकसान, क्षति, अहित, दुर्व्यवहार
अपक्रिया		असमी बंगला	2 कुकर्म अपकर्म, दुष्कर्म, खोटा काम
अपक्रिया		मलयालम, संस्कृत	3 गाली, निन्दा, तिरस्कार 4 द्रोह 5 ऋण परिशोध
अपक्रोश	सज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	1. गाली, शाप, तिरस्कार
अपक्कुरोशम्	सज्ञा	तमिल	2. निन्दा, अपशब्द प्रयोग
अपक्रोशं		मलयालम	3 चीखना, चिल्लाना, कटु वचन कहना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपक्षय अपक्षयं	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, गुज, संस 1 मलयालम	1. ह्रास, क्षय, छीजना, अधःपतन 2. विनाश + 3. कृष्णपक्ष (मलयालम)
अपक्षिप्त	विशेषण	हिंदी	1. गिराया, फेंका, उलटा हुआ 2. अवक्षिप्त
अपक्षीण अपक्षीण	विशेषण विशेषण	मलयालम मराठी, हिंदी	1. क्षीण, क्षय हुआ, बुरी तरह क्षतिग्रस्त 2. अवनत, गिरा हुआ, कमजोर, ह्रास प्राप्त
अपक्षेप अपक्षेप	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत मराठी	1. दूर फेंकना, गिरावट, च्युतकरना, नीचे डालना 2. प्रकाश आदि का वस्तु से टकराकर पलटना
अपक्षेपण अपक्षेपणं	संज्ञा	मराठी, हिंदी, संस्कृत मलयालम	3. अपकुंचन, प्रसारण आदि पांच कर्मों में से एक 4. आक्षेप करने की क्रिया या भाव (मलयालम, हिंदी)
अपखंड	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. विखंड, किसी वस्तु का टूटा हुआ हिस्सा, अपूर्ण भाग 2. विनष्ट या लुप्त वस्तु का बचा हुआ अंश
अपगण्डन्	संज्ञा	मलयालम	बिछुड़ा हुआ, दूर गया हुआ, मुक्त, शून्य, मृत
अपखो	संज्ञा	गुजराती	अरुचि, ना- पसदगी
अपखोडुं	सकर्मक क्रिया	गुजराती	1. निंदा या अपख्याति करना 2. खोट निकालना
अपख्याति अपक्वियादि	संज्ञा	मराठी, मलया, तेलुगु, कन्नड तमिल	बदनामी, निंदा, दुष्कीर्ति, अपकीर्ति, अपमान, निरादर, मान भंग
अपग	विशेषण	हिंदी	1. दूर हटने वाला 2. कुमार्गी, नीचे जाने वाला
अपगम्/अपग	संज्ञा	तमिल, मलयालम	मृत्यु, नदी, निम्न गामिनी
अपगणित	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, मलया	अवज्ञात, तिरस्कृत, पराभूत, निन्दित
अपगत अपगमित/अपगण्डन्	विशेषण	हिंदी, नेपाली, कन्नड कन्नड, मलयालम	1. बीता, छूटा, गया हुआ, विभक्त 2. वियुक्त, दूर चला गया, पलायित
अपगत अपगतम्	विशेषण	मराठी, बंगला, संस्कृत तेलुगु	3. तिरोहित, आखों से ओझल, अन्तर्हित 4. नष्ट, मृत 5. मार्ग से भटका हुआ
अपगततन्त्र	विशेषण	कन्नड	थकावट, खेद या ग्लानि रहित
अपगत व्यधि	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	रोगमुक्त, व्याधि रहित
अपगति अपगति	संज्ञा	हिंदी, मराठी, कन्नड मलयालम, नेपाली, संस +	1. दुर्दशा, दुर्गति, अधोगति, दुर्भाग्य 2. नरक (कन्नड), नाश, पतन, दूर भागना
अपगम		हिंदी, बंग, कन्न, संस	1. हट जाना, चले जाना, ग्रयब हो जाना,

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपगमं		मलयालम	तिरोभाव, प्रस्थान, प्रयाण, गुम होना, छिप जाना
अपगममु		तेलुगु	2. अप्रत्यक्ष 3. विरह, वियोग
अपगमन		हिंदी, बंगला, कन्न, संस	4. मृत्यु, नाश, ध्वंस, मरण, पतन
अपगमनं		मलयालम	5. नीचे की ओर या बुरे मार्ग पर जाना
अपगमिञ्चुक	अकर्मक क्रिया	मलयालम	चले जाना, लुप्त होना, नष्ट होना
अपगर	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1. अप्रियवादी, गाली देने या निंदा करने वाला
अपगरं(गरन्)	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	2. धिक्कार, डॉट डपट, गाली, निंदा, भर्त्सना
अपगर्जित	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	गर्जन रहित बादल
अपगल्घ	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	भीरु, घबराया हुआ, डरा हुआ
अपगा	संज्ञा	हिंदी, बंगला, संस्कृत	निम्नगामिनी, समुद्रगामिनी, नदी
अपगुण	संज्ञा	हिंदी, बंगला, संस्कृत	अपकृष्ट गुण, बुरे गुण, दोष, ऐब, अवगुण,
अपगुणं	संज्ञा	मलयालम	दुर्गुण, कलंक
अपग्रथनं	संज्ञा	मलयालम	1. विश्लेषण करना
अपग्रथन		संस्कृत	2. वाक्य विग्रह करना (व्याकरण में)
अपग्रथित	विशेषण	मलयालम	विश्लेषित या पृथक् किया हुआ
अपग्रथितकश्य	संज्ञा	मलयालम	विश्लेषित परिवार (भाषाओं का)
अपग्रह	विशेषण	बंगला	प्रतिकूल ग्रह (ज्योतिष), अपकृष्ट ग्रह
अपगोपुर	विशेषण	संस्कृत, हिंदी	नगर द्वार से शून्य, जिममे फाटक न हो
अपघन	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1. मेघ रहित आकाश
अपघन	विशेषण	मलयालम, बंगला	2. शरदकाल का आकाश जिममें बादल नहीं होते
अपघन	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, बंगला	1. शरीर का कोई अवयव या अंग जैसे
अपघन (घु)		कन्नड, संस्कृत, तेलुगु	हाथ-पैर इत्यादि
अपघनं		मलयालम	2. शरीर देह, शरीरावयव
अपघात	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1. आघात या दुर्घटना से मृत्यु, आकस्मिक या
अपघात		असमी, उड़िया, बंगला	अचानक मृत्यु, कुमौत, अपमृत्यु, अस्वाभाविक
अपघात		कन्नड, मराठी, संस्कृत	मृत्यु, असामयिक मृत्यु
अपघातं	संज्ञा	मलयालम	2. अनुचित या बुरा आघात, रोग बिना मृत्यु
अपघातम्		तमिल	3. हत्या, हिंसा, चोट पहुंचाना, अचानक हानि

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपघातमु		तेलुगु	4 आत्महत्या 5 विश्वासघात, वगना, धोखा
अपघातक	विशेषण	हिंदी, बंगला, असमी	1 हत्याका हिमक, कुकर्मी
अपघाती		मराठी, गुजराती, असमी	2 आघात द्वारा जीवन नाश करने वाला, अचानक
अपघाती		हिंदी, नेपाली, बंगला	अनपेक्षित दुर्घटना मृत्यु या आत्महत्या करने वाला
अपघाति		कन्नड	3 हानिकारक कार्यया हिमक कार्य करने वाला
अपघातिन्		संस्कृत	4 विश्वासघाती अपघातकारी
अपघुष्ट	विशेषण	मलयालम	निदित, तिरस्कृत उपेक्षित, घृणित
अपचय	मज्ञा	हिंदी	1 क्षय, हानि लाम लीजना, घाग नाश, नुकसान,
अपचय		असमी, उड़िया, बंगला	पराजय, अवर्नात भंगफलता त्रया व्यय कजूरस
अपचय		संस्कृत, कन्नड	धन, स्वास्थ्य या मुख का अभाव
अपचय		गुजराती	2 प्राय क लने म कर्मी या छूट (अवेन्मेन्ट)
अपचय		नेपाली, मराठी	+ 3 वग आचरण, फूल ताडना (तेलुगु) सम्मान, पूजा (हिं)
अपचयं		मलयालम	+ 4 3, 6, 10, 11 को छोड़कर शेष लग्न स्थान (मलय)
अपचयमु		तेलुगु	+ 5 मग्रहविरुद्ध कार्य (असमी) अपचरण (मलया)
अपचयनं	मज्ञा	मलयालम	एकत्र करना फूल ताडना या चुनना
अपचयिंचु	मकर्मक क्रिया	तेलुगु	एकत्र करना टकटका करना मचय करना
अपचरित	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, मलया	1 दुष्कर्म, अपराध अनुचित आचरण दुर्व्यवहार
अपचरितं	मज्ञा	मलयालम	2 प्रस्थान 3 अभाव 4 मृत्यु
अपचरितम्	मज्ञा	तमिल	5 जिसका प्रति अपचरण हुआ हो
अपघारप्पुतलु	अकर्मक क्रिया	तमिल	उद्गण्ड लना, वदतभीज हाना, वदनहजीवी का दाँ
अपघाफिन् (घायी)	विशेषण	संस्कृत, हिंदी	वद्य के प्रति सम्मान प्रकट न करने वाला
अपघाफित	विशेषण	मलयालम, कन्नड, हिंदी	सम्मानित, श्रद्धास्पद, आदृत,
अपघाफितुडु	मज्ञा	तेलुगु	जो पूजित हुआ हो
अपचरण	मज्ञा	हिंदी	1 अनुचित, वुग, निकृष्ट आचरण,
अपचार	मज्ञा	हिंदी, संस्कृत	दुर्व्यवहार, मर्यादा विरुद्ध प्रवृत्ति
अपचार		बंगला	2 अनिष्ट, वुराई, द्रोह, वोट, जुर्म, गुनाह
अपचार		गुजराती	3 बड़ों का अनादर, अमभ्यतौ
अपचार		कन्नड	4 निदा, अपयश, वचन भंग 5 स्वास्थ्य नाशक

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपघार		नेपाली, मराठी	कुपथ्य, अपथ्य, प्रयाण, मरण 6 अभाव,
अपघारं	संज्ञा	मलयालम	हीनता, अनुपस्थिति 7. भूल, भ्रम 8. दोष, उपद्रव
अपसारम्/	धारम् संज्ञा	तमिल	9. अर्निर्वाहकार प्रवेश का भाव (ट्रेस पास)
अपघारमु		तेलुगु	10. वशानुगत धर्म का व्यतिक्रम, अविहित आचरण
अपघारक	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1 अनुयित या निषिद्ध कार्य करने वाला, नीच
अपघारि	विशेषण	मलयालम	2 दुष्कर्मी, दुष्ट, दुर्जन, दुर्गचारी, बुरा
अपघारिन्		संस्कृत	+ 3. पृथक् होने वाला (संस्कृत)
अपघारी		हिंदी, नेपाली	4. अविश्वामी, निषिद्ध गन्ते पर जाने वाला
अपघाल	संज्ञा	हिंदी, तेलुगु	खोट, कृचाल, दुर्व्यवहार, अनुयित आचरण
अपघि	संज्ञा	मलयालम	गले के ग्लैंड या गाठ का बढ़ जाना
अपघी		हिंदी	कण्ठमाला या गलगड़ नामक गेंग
अपघिकीर्षा	संज्ञा	बंगला	अपकार करने की इच्छा
अपघिकीर्षु	विशेषण	बंगला	जो दूसरे का अपकार करना चाहता हो
अपघित	विशेषण	मराठी, संस्कृत, हिंदी	1 पूजित, सम्मानित, श्रेष्ठ + अर्चक (तेलुगु)
अपघितुडु	संज्ञा	तेलुगु	2 कृश, क्षीण, दुबला पतला, व्यय किया हुआ
अपघित	विशेषण	मलयालम, कन्नड	3 धन ह्रास, कमजोर पड़ा हुआ, पुनरावृत्त
अपघितं	संज्ञा	मलयालम	1 सम्मान करना 2 शरीर का मर्म स्थान
अपघित	संज्ञा	कन्नड	1. न्यूनी कृत 2 निरर्थक, निष्प्रयोज्य
अपघिति	संज्ञा	तेलुगु, कन्नड	1. हानि, प्रायश्चित्त, हाम, घाटा, क्षय-गंश, अधः पतन
अपघिति	संज्ञा	हिंदी, मराठी, संस्कृत	2 नष्ट परिहार, प्रतिक्रिया, प्रतिशोध, पगजय
अपघिति		मलयालम	3 सम्मान, पूजा करना, प्रतिष्ठा प्रदर्शन, क्षति पूरण
अपघिहन्	संज्ञा	गुजराती	अपशकुन, असगुन, बुरे संकेत
अपघेता	विशेषण	हिंदी	1 किसी का बुरा चाहने वाला, नीचात्मा, दुरात्मा,
अपघेता		बंगला	अपव्ययकारी, नाशकारी
अपघेतः/घेतु		बंगला, संस्कृत	+ 2 कंजूस, कृपण, सूम, अनुदार (हिंदी)
अपघेष्टा	संज्ञा	बंगला	हीन उद्देश्य मूलक चेष्टा
अपघेष्ट्र	विशेषण	संस्कृत, हिंदी	छत्र रहित, बिना छाते का, छाते रहित
अपघेष्टाय	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. छाया रहित देवता आदि जिनका प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपछाय	विशेषण	नेपाली, मलयालम	2. काति, प्रभा, चमक रहित; भूत-प्रेत दर्शन
अपछाया	सज्ञा	मलयालम	3 बुरी या अशुभ छाया युक्त, मृत्यु संकेत
अपच्छाये	सज्ञा	तमिल	4 धुंधला, अनुज्ज्वल, अंधक, मन्द
अपछाया		मराठी, संस्कृत	+ 5 दिन के घंटे मिनट का समय बताने मे
अपछाया		बंगला	मनुष्य की छाया का हिसाब लगाना(तमिल)
अपछाया	सज्ञा	हिंदी	6 अपशकुनी, अशुभ, अपकृष्ट छाया, बुरी छाया
अपच्छेद	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 काटकर अलग करना 2 हानि, विघ्न बाधा,
अपच्छेदं	सज्ञा	मलयालम	रुकावट 3 तोड़ना
अपच्छेदन	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 अपच्छेद करने की क्रिया या भाव
अपच्छेदनं		मलयालम	2 काट डालना, बाधा या हानि पहचाना
अपच्यवं	सज्ञा	मलयालम	1 बाहर जाना या अंदर आना
अपच्यव		संस्कृत	2 धक्का देना, बाहर निकाल देना
अपच्युत	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 गिरा हुआ 2 गया या बिछुड़ा हुआ, नष्ट प्राय
अपच्युत		मलयालम	3 पिघलाया या गलाया हुआ 4 मृत
अपजङ्गम्	सज्ञा	तमिल	अपजघा या जाघ
अपजय	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 पराजय हार, असफलता, शिकस्त
अपजय		बंगला, कन्नड, संस्कृत	2 आशाभंग, निराशा, खतरा, विषमता, कठिनाई
अपजयं		मलयालम	+ 3 ध्वम, बरबादी, विनाश (तमिल)
अपजयम्		तमिल	+ 4 बलात छीनना, लूटना (तमिल)
अपजयमु		तेलुगु	
अपजस	सज्ञा	हिंदी, पंजाबी, गुजराती	अपयश, बदनामी, लांछन, कलक,
अपजस/अपयस		नेपाली, संस्कृत	अपकीर्ति, दुर्नाम, कुख्याति
अपजात	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 कपूत, कुपुत्र, मां बाप से न्यून गुण वाला पुत्र
अपजात		बंगला, नेपाली	बुरी या खराब संतान, कुमार्गी सन्तान
अपजात		गुजराती, मराठी	+ 2 अभिजात्य शून्य, हीनवस्था प्राप्त (बंगला)
अपजातन्		मलयालम	3 जिसमे उत्पादक मूल:वर्ग के पूरे गुण न हों (डी जैनेरेटिड), जाति वैशिष्ट्य खोने वाला
अपजाति	सज्ञा	बंगला	1 हीन, जाति विशिष्टता खो देने वाला 2. नीच जाँ

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपक्रस	संज्ञा	मराठी	तोहमत, झूठ इलजाम, निराधार आरोप
अपञ्चीकृतं	संज्ञा	मलयालम	1. पाँच सूक्ष्म या गूढ़ तत्व जो अपने विद्यमान रूपों में अलग न हों 2. पाँच सूचक शब्दादि
अपञ्चीकृत	संज्ञा	संस्कृत	
अपज्य	विशेषण	हिंदी	ज्या अर्थात् डोरी या गुण से रहित धनुष
अपज्ञान	संज्ञा	हिंदी, कन्नड, संस्कृत	1. छिपाना 2. इन्कार 3. अस्वीकृति, दुराव
अपतत्रं (क)	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. हाथपैर ऐंठने का वात रोग (सुश्रुत निदान) (ह्रिस्टरिया), वातोन्माद + 2. दुर्योजना, कपट युक्ति, षडयंत्र (तमिल)
अपतत्रं (कं)		मलयालम	
अपतन्धिरम्		तमिल	
अपतर्पण	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. लघन, उपवास, बीमारी में भोजन त्याग 2. तृप्ति का अभाव, असंतोष
अपतर्पणं		मलयालम	
अपतान/तानक/ताना	संज्ञा	हिंदी	अपतत्र जैसा एक रोग, जिसमें हाथ-पैर में ऐंठन के साथ बार-बार मूर्छा आती हो
अपतानं	संज्ञा	मलयालम	
अपताना	संज्ञा	हिंदी	1. अपने को तानना अर्थात् ढीठपन, चपलता दिखाना 2. झझट, बखेड़ा, जंजाल गर्माना, मुँह मोड़ना, लज्जा करना
अपतापिकुक	अकर्मक क्रिया	मलयालम	बिना दुख, दुख रहित, संतोष पूर्वक
अपतापं	अव्यय	मलयालम	ठंडे दिल से, ताप बिना
अपताप		हिंदी	
अपतालम्	संज्ञा	तमिल	मृदंग या तबले पर गलत ताल (संगीत में)
अपतुष्टि	संज्ञा	हिंदी	किसी के अपकार, आक्रमण, विरोध, लड़ाई-झगड़ करने पर उसकी कुछ बातें मानकर, दबकर तुष्ट या प्रसन्न होने की क्रिया या भाव (अपीजमेंट)
अपतुष्टि		संस्कृत	
अपतोका	संज्ञा	मलयालम	दुर्घटना से स्त्री या गाय का गर्भ गिरना
अपत्रप	विशेषण	हिंदी, मराठी, तेलुगु, संस.	1. निर्लज्ज, बेशरम, धृष्ट, ढीठ 2. लज्जित किया गया
अपत्रपा		कन्नड	
अपत्रपण	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	लज्जा, संकोच, आकुलता, व्यग्रता, घबराहट, उलझन, व्याकुलता
अपत्रपणं		मलयालम	
अपत्रपिणु	विशेषण	मलया, कन्नड, संस्कृत	लज्जाशील, शर्मीला, घबराया हुआ

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपत्रपिण्डु		तेलुगु	शर्मीले स्वभाव वाला
अपत्रस्त	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	भयभीत, डरा हुआ, डर से थमा हुआ
अपदक्षिणं	अव्यय	मलयालम	दाय से विपरीत बायी ओर
अपदक्षिण		संस्कृत	बाईं ओर
अपदम	विशेषण	मलयालम, हिंदी, संस्कृत	आत्म नियंत्रण हीन, बदलती स्थिति वाला, अमयमी
अपदयं	अव्यय	मलयालम	क्रूरता में, दया हीनता में, निष्कृता में
अपदव	विशेषण	हिंदी	दावाग्नि से रक्षित या मुक्त
अपदान	सज्ञा	हिंदी, कन्नड, संस्कृत	1 मत्कार, मद्दाचरण, उत्तम कार्य, श्रद्धाचरण श्रद्धाचरण
अपदानं		मलयालम	महाकृत्य, उक्तकृत्य, उदारता, पूर्णचर्चा
अपदानमु		तेलुगु	2 पूर्ण रूप से किया कार्य जो काम हो चुका न
अपदानम्		तमिल	+ 3 उपलब्धि (मलयालम) 4 खडन (तेलुगु)
अपदाहं	सज्ञा	मलयालम	एक मीठी घास ग्शीर खस, खस घास
अपदिशं/क्ष	सज्ञा/अव्यय	मलया, कन्नड, संस्कृत	1 दो दिशाओं के मध्य का भाग
अपदिशमु		तेलुगु	2 दो भागों के बीच में
अपदिष्ट	विशेषण	हिंदी	1 निर्देश रूप में कहा या कराया हुआ 2 प्रयुक्त
अपदूरु	सज्ञा	तेलुगु, तमिल, कन्नड	1 अभिशाप, निन्दा झूठा आरोप
अवदूरु		तमिल	2 फजीहत, बदनामी
अपदेवता	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 दुष्ट देव, दान्य, दैत्य, भूत, प्रेत, पिशाचादि
अपदेवता		असमी, बंग, मलया, संस	2 ब्रह्म पिशाच अपकृत देवता अपदेवता
अपदेवतै		तमिल	+ 3 सामान्य देवता (असमी) अमुर गक्षम
अपदेश	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 नाटक में छल कपट, धोखा प्रकट करना दगावार्ज
अपदेश		गुजराती, मराठी	2 चिह्न, निशान कारण हेतु
अपदेश		बंगला, असमी	3 स्वरूप छिपाना, वेश बदलना, स्वरूपाच्छादन
अपदेशं		मलयालम	4 लक्ष्य निर्देश, उपाय, युक्ति, बहाना
अपदेशे		कन्नड	5 कुदेश, बुरा स्थान, अस्थान, निकृष्ट देश
अपदेशम्		तमिल	6 उद्धरण, कारण बताना, उल्लेख, उपदेश
अपदेशमु		तेलुगु	+ 7 कीर्ति, निर्गमन, व्याज, स्थान, लक्ष्य (तमिल, तेलुगु)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपविसे (अपवशा)	सज्ञा	कन्नड	दुर्दशा, वृगी स्थिति, दुर्भाग्य
अपदेश्य	विशेषण	मलयालम	1 कपट युक्त 2 प्रस्तावित 3 अनुचित स्थान
अपद्रव्य	सज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	1 निकृष्ट वस्तु, वृगी वस्तु, खराब वस्तु
अपद्रव्यम्		तेलुगु	2 क्लिप्त धन, अनुचित या बुरा धन
अपद्वार	सज्ञा	हिंदी, गुज, कन्न, संस	1 अप्रधान द्वार, फिरला दरवाजा
अपद्वारं		मलयालम	2 बगल का दरवाजा, चोर दरवाजा
अपधर्म	सज्ञा	गुजराती	अधर्म, कृन्मि धर्म, भूत प्रेत पिशाच की मान्यता
अपधाक	सज्ञा	मराठी	1 आक्रमिक भीति, धक्का या मदमा पहुँचना
			2 अचन मे स्वय डरना
अपधाकर्णे	क्रिया	मराठी	डरना, मदमा पहुँचना
अपधावन	सज्ञा	हिंदी, गुजराती	1 मन्य का अपलाप, वाफ़ल वक्रोक्ति
अपधावनं		मलयालम	2 भाग जाना (मलयाचम)
अपधूम	विशेषण	हिंदी, मलयालम, संस्कृत	जिसमे धुआँ नही, धूम रहित
अपधैर्य	सज्ञा	कन्नड	भीरुता, अधैर्य, अविश्वास
अपध्यान	सज्ञा	हिंदी, कन्नड	1 अनिष्ट चिन्तन, मन ही मन कोसना, बुरा विचार,
अपध्यान		गुजराती, संस्कृत	2 'परीत चिन्तन दुश्चिन्ता
अपध्यानं		मलयालम	2 ईर्ष्या, असूया आदि निपिद्ध विचार
अपध्वंस	सज्ञा	हिंदी, गुज, नेपाली, संस	1 अध्वतन, अपमान निरादर निन्दा
अपध्वंसं (स)		मलयालम, कन्नड	2 अनायाम हुआ नाश या विध्वंस
अपध्वंसम्		तेलुगु	3 पराजय, अवनति गिरावट, अधोगति, हार
अपध्वंसजन्	सज्ञा	मलयालम	1 मकर जाति का बालक, असवर्ण सतान
अपध्वंसज	सज्ञा	संस्कृत, हिंदी	2 रच्चवर्ण की माना और निम्न वर्ण पिता की सतान
			+ 3 अधम या अछूत जाति का व्यक्ति (मस्कृत)
अपध्वंसी	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 नाश करने वाला, अपमान करने वाला, गिराने
अपध्वंसि		कन्नड, तेलुगु, मलया	वाला, चूर चूर करने वाला 2 विजयी
अपध्वंसिक्कुक्	क्रिया	मलयालम	नाश करना, बर्बाद करना, मिटाना, भगा देना, नीचे गिराना, मान भंग करना, धिक्कारना
अपध्वस्त	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 अपमानित, उपेक्षित, चूर्णित, शोषित, कोमा हुआ.

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपध्वस्त	विशेषण	कन्नड	त्यक्त, पराजित, अधिक्षेपित, विनाशित, घृणित
अपध्वस्त	विशेषण	मलयालम	2. जिसमें सद्-असद् विवेक न रहे, अभागा, हीन,
अपध्वस्तन्	संज्ञा	मलयालम	3. पराजित, विजित, चूर-चूर किया हुआ, निन्द्य,
अपध्वस्तुडु	संज्ञा	तेलुगु	निकृष्ट, तिरस्कृत, नीच, निन्दित
अपध्वांत	विशेषण	हिंदी	गलत स्वर निकालने वाला, कर्कश स्वर (संज्ञा)
अपनम्पकमु	संज्ञा	तेलुगु	अविश्वास, संशय, संदेह
अबनम्बिकके	संज्ञा	तमिल	भरोसा न होना, बे-एतबारि
अपनबिके/बुके	संज्ञा	कोंकणी, कन्नड	निश्चय का अभाव, शंका, एतबार न होना
अपनय	संज्ञा	हिंदी, मराठी, बंगला	1. दूर करना, अलहदा करना, खंडन करना, अपकार
अपनय		संस्कृत	निवारण, स्थानान्तरण, अनीति
अपनयं		मलयालम	2. अन्याय, द्रोह, उपद्रव, दुर्नीति, अनाचार
अपनयमु		तेलुगु	3. दुराचार, घटाना, नाष्ट करना, अपहरण
अपनयन	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. दूरीकरण, स्थानान्तरण, स्त्री या बालक को
अपनयन		मराठी, बंगला	भगा ले जाना, अपहरण करना, अभिहरण
अपनयन		नेपाली	2. रोगमुक्त करना; उक्रण करना, निवारण,
अपनयनं		मलयालम	अपनोदन, ऋण परिशोध, ऋणमोचन
अपनयनमु		तेलुगु	3. विनाशन, वियोग पाना, किसी संख्या को
			निकाल देना (एलीमिनेशन); खंडन
अपनयिककुक्क	सकर्मक क्रिया	मलयालम	मार्गभ्रष्ट करना, निषेध करना, मिटा देना
अपनयिंचु	क्रिया	तेलुगु	हटाना, दूर करना, खण्डन करना
अपनस	विशेषण	मलयालम, संस्कृत, हिंदी	नासिका रहित, नकटा, नाक रहित
अपनाम	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	बदनामी, दुर्नाम, कुख्याति, निन्दा
अपनामा	विशेषण	हिंदी, नेपाली	बदनाम, कलकित, प्रसिद्धि में कलंक लगाने वाला
अपनाश	संज्ञा	हिंदी	अपना नाश स्वयं करने की क्रिया या भाव
अपनिन्दा	संज्ञा	तेलुगु	1. अभिशाप 2. मिथ्यादोषारोपण
अपनिन्दे		कन्नड	3. कुवचन, गाली, अपमान
अपनीत	विशेषण	हिंदी, बंगला	1. निराकृत, दूरीकृत, खंडित, निवारित, व्यक्त, विनाशित
अपनीत	विशेषण	नेपाली, मलयालम	ऋण मोचित + 2. अपहृत, वियोगी

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपनीत		असमी, कन्नड	विगत, बीता या छूटा हुआ (कन्नड)
अपनीतमु		तेलुगु	3. हटाया गया, विरोधी, दुष्ट, दुःस्वभाव युक्त
अपनीतं	संज्ञा	मलयालम	4. अच्छे मार्ग से हटाना, दुर्वृत्ति, वंचन, दुराचरण (संज्ञा)
अपनीति	संज्ञा	तमिल, मलयालम	अनीति, अन्याय, अत्याचार, दुराचार, दुष्टाचरण
अपनुत्ति	संज्ञा	मलयालम, हिंदी, संस	1. हटाना, अलगाना, अलहदा करना, खंडन करना
अपनुदमु		तेलुगु	2. प्रायश्चित्त करना, नष्ट करना, परिहार करना
अपनेता	विशेषण	हिंदी	1. भगा ले जाने वाला (एबडक्टर), हरने वाला
अपनेता		नेपाली	2. वियोग कराने वाला
अपनेय	विशेषण	बंगला	1. दूर करने योग्य, निराकरणीय
अपनेयमु		तेलुगु	+ 2. खंडनीय, मिथ्या दोषारोपण (तेलुगु)
अपनेयिमानं	संज्ञा	मलयालम	1. अपहरण कर्ता, घटिया वस्तु का अधिक रुपया लेना 2. धनराशि में गड़बड़ी करना; बुरा माधन 3. रत्न तोलने का झूठा बाट (मिसाण्ट्रोप्रिणेशन)
अपनोद	संज्ञा	हिंदी, बंगला, संस्कृत	1. हटाना. दूर करना. जो हटाया गया हो
अपनोदमु		तेलुगु	2. नष्ट करना 3. प्रायश्चित्त करना, परिहार करना
अपनोदं	संज्ञा	मलयालम	4. निराकरण, अपचय
अपनोदन	संज्ञा	हिंदी, बंगला, उड़िया	1. रुही से हटा देना. अपसारण, अलगाना
अपनोदनं		मलयालम	2. अपहरण 3. दूर करना 4. नष्ट करना
अपनोदन		संस्कृत	5. खंडन करना 6. प्रायश्चित्त 7 परिहार (अटोनमेंट)
अपनोदित	विशेषण	बंगला	दूरीकृत, निराकृत, अपचित
अपन्तरा	संज्ञा	उड़िया	1. जन संचार शून्य विस्तीर्ण अचल 2. नुछ
अपन्यस्तं	संज्ञा	मलयालम	1. गदा प्रहार के पैतरे, पंतरे बाजी
अपन्यस्त		संस्कृत	2. लाठी प्रहार के पैतरे
अपन्यायं	संज्ञा	मलयालम	अन्याय, अनुचित या गलत फैसला
अपन्यास	संज्ञा	गुजराती	1. शास्त्रीय संगीत के 13 लक्षणों में एक (मलयालम)
अपन्यासं		मलयालम	2. गायन का खंड अलग २ कारके बने स्वर (नेपाली)
अपन्यास		नेपाली	3. अस्थायी ध्रुपद के तीन भागों में पहले का अंतिम स्वर (गुजराती)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपपणन	सज्ञा	बंगला	1 अनाधी व्यक्ति द्वारा खरीदना बेचना 2 अपकृष्ट व्यापार
अपपत्ति	सज्ञा	तमिल	असत्य धर्म में विश्वास, अपशुक्र, जंतर मंतर, भूत प्रेत, आदि मूढ विश्वास
अपपत्ति	सज्ञा	तेलुगु	
अपपाठ	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 सदोष/ अशुद्ध/ गलत/ अबद्ध पाठ
अपपाठ		बंगला, संस्कृत	2 पढ़ने में प्रमाद 3 विकृत लिपि, अपकृत या अपकृष्ट पाठ, पढ़ने में होने वाली अशुद्धि
अपपाठं	सज्ञा	मलयालम	
अपपाडि	विशेषण	तेलुगु	अन्याय (संस्कृत अप+नेलुगु पाडि)
अपपात्र	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	जातिच्युत, वर्णच्युत, जिसे आम व्यवहार में आने वाले बर्तनों में भोजन न दिया जाय, अनधिकारी
अपपात्रन्	सज्ञा	मलयालम	
अपपात्रितन्	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	किसी दुष्कर्म के कारण जाति भाईयो के साथ खाने पीने की मनाही, जातिच्युत किया हुआ
अपपाटि/अपपात्रित		तेलुगु, हिंदी	
अपपाद	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	बुरे पैरो वाला
अपपादत्र	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	पदत्राण हीन बिना जूता के
अपपान	सज्ञा	संस्कृत	अपेय, न पीने योग्य वस्तु
अपप्रजाता	सज्ञा	हिंदी, मलयालम, संस्कृत	स्त्री जिसका गर्भ पात हो गया हो
अपप्रथा	सज्ञा	मलयालम, तेलुगु	अपरिग्याति, बदनामी, निन्दा, बुरा नाम
अपप्रदान	सज्ञा	हिंदी, मराठी, संस्कृत	उत्कोच, घूस, रिश्वत, मुट्टी गर्म करना
अपप्रदानं		मलयालम	अनुचित या अवैध काम कराने के लिए दिया धन
अपप्रयोग	सज्ञा	असमी, बंगला	1 अर्थ विरुद्ध या व्याकरण विरुद्ध शब्दप्रयोग
अपप्रयोग		कन्नड, मराठी	2 अशुद्ध प्रयोग, अपकृष्ट प्रयोग
अपप्रयोगमु		तेलुगु	3 वस्तु का अनुपयुक्त या गलत इस्तेमाल
अपप्रीति	सज्ञा	कोंकणी	अनुचित प्रेम, दुखद या हानि प्रद प्यार
अपप्यलम्	सज्ञा	तमिल	अपफल, कुपरिणाम, बुरा नतीजा
अपवर्ग	सज्ञा	उड़िया	अपवर्ग, मोक्ष, वैकुण्ठ, गोलोक
अपवाद		उड़िया	अपवाद, सामान्य नियम के अतिरिक्त नियम, निदा
अपबाहुक	सज्ञा	हिंदी	बाहु की अकडन का रोग
अपबाहुकं		मलयालम	बाहु का रोग विशेष, भुज स्तंभ रोग

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपव्यय		उड़िया	बेजा या फ़िजूल खर्च, मितव्ययता के विपरीत
अपव्यवहार		उड़िया	असद्व्यवहार, दुर्व्यवहार
अपपुत्ति	संज्ञा	तमिल	अपबुद्धि, मूर्खता, दुर्योजना
अपभंगं	संज्ञा	मलयालम	1 अस्थि भंग, मोच 2. गणित में वक्रना
अपभण्डि	संज्ञा	मलयालम	वस्तु में मिलावट, अपमिश्रण (अडलटरेशन)
अपभय	विशेषण/संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. निर्भयता, निश्चिन्ता 2. अकारण अनुचित या व्यर्थ का भय,
अपभयं	अव्यय	मलयालम	भयभीत होना, अपडर (तेलुगु)
अपभयमु	संज्ञा	तेलुगु	भययुक्त, शंका युक्त 3. निडर, बहादुर, वीर
अपभरणि	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	भरणी नक्षत्र का अन्य नाम, अंतिम तारा पुंज
अपभवन	संज्ञा	गुजराती	+ 1 वक्री ग्रह का भवन या गशि (गुजराती)
अपभवन	संज्ञा	मराठी	2. विचलन, विमार्ग-गमन 3. हत्याना, पदच्युति, (डिफ्लेक्शन)
अपभाषण	संज्ञा	बंगला, हिंदी	1. निंदा की बात, असाधु उक्ति, अशिष्ट वचन
अपभाषण	संज्ञा	संस्कृत, मराठी	2. निंदा करना, गाली देना 3. दुर्वचन, असभ्य वचन,
अपभाषणं	संज्ञा	मलयालम	अपवाद, बदनःमी
अपभाषा	संज्ञा	हिंदी, असमी	अशिष्ट, भ्रष्ट, असंस्कृत, ग्राम्य, निम्न वर्ग की
अपभाषा		बंगला	अपकृष्ट भाषा; अश्लील या गंदी भाषा
अपभीति	विशेषण	मलयालम	भयरहित, निर्भय, निडर
अपभुक्त	भूत कृदन्त	हिंदी	धन या पदार्थ जिसका अपभोग हुआ हो
अपभू	संज्ञा	बंगला	1 सूर्य से किसी दूसरे ग्रह के भ्रमण कक्ष में सर्वापेक्षा
अपभू	संज्ञा	मलयालम	दूरवर्ती बिन्दु 2 गणित में अधिकतम दूरी या ऊंचाई का स्थान
अपभूति	संज्ञा	मलयालम	1 पराजय, विफलता 2. त्रुटि 3. हानि
अपभोग	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	1. सम्पत्ति का कुप्रयोग 2. अनुचित भोग करना
अपभोगी	विशेषण	नेपाली	फ़िजूल खर्च या धन फूंक, उड़ाऊ व्यक्ति
अपभ्रंस	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1. नीचे गिरना, पतन, च्युत होना, अधःपतन
अपभ्रंस		असमी, उड़िया, बंगला	2. बिगाड़, विकृति, भ्रष्ट होना, ध्वंस, नाश
अपभ्रंस		कन्नड, मराठी, संस्कृत	3. शब्द का बिगड़ा रूप, व्याकरण असम्मत भाषा
अपभ्रंस		पंजाबी	4. रूपान्तरित, प्राकृत से विच्युत परिवर्तित भाषा

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपभ्रंशं अपभ्रिण्डम्, अबविरम्सम् अपभ्रंशमु	सज्ञा	मलयालम तमिल तेलुगु	5 प्राकृत भाषाओं का परवर्ती रूप, अशुद्ध रूप में विकसित भाषा + 6 ग्वालो की भाषा (मलयालम) + 7 निम्न या अश्लील भाषा (तेलुगु)
अपभ्रंशिन	भूत कृदन्त	हिंदी	1 गिरा हुआ 2 पतित 3 विकृत, बिगड़ा हुआ
अपभ्रष्ट अपभ्रष्ट अपभ्रष्ट	विशेषण	हिंदी, गुजराती बंगला, मलयालम नेपाली, मराठी	1 अध पतित, विच्युत 2 व्याकरण की दृष्टि में विकृत या तद्भव शब्द बिगड़ा हुआ + 3 खिसका हुआ (नेपाली) पतित, दूषित (मलयालम)
अपम	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	बहुत दूर का अंतिम निम्नतम (जाति का), पुगना
अपमं अपमंडल वृत्त अपम	सज्ञा सज्ञा सज्ञा	मलयालम मराठी संस्कृत	किसी ग्रह का नीच घर में जाना (ज्योतिष) क्रान्ति वृत्त (ज्योतिष) ग्रहण या अयन मंडल मबधी वृत्त
अपमरण/अवमरण अपमन्यु	सज्ञा विशेषण	तमिल मराठी	अमभव या अस्वाभाविक मृत्यु देखे अपमृत्यु क्रोध रहित, मन्यु अर्थात् क्रोध नाश
अपमर्द अपमर्द	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत मलयालम	1 जो झाड़ा बुझा जाय 2 धूल गद + 3 आक्रान्ता द्वारा किया गया विनाश (मलयालम)
अपमर्दन अपमर्यादा	सज्ञा सज्ञा	हिंदी मलयालम	बुरी तरह रौदना, कुचलना, ध्वस्तीकरण अविनय, अशिष्टता उद्दण्डना, मर्यादाहीनता
अपमर्श अपमर्श अपमर्शमु	सज्ञा सज्ञा	हिंदी, संस्कृत मलयालम तेलुगु	1 स्पर्श, निंदा अपहरण 2 पशुओं द्वारा खेत आदि चरा जाना + 3 बाधा, विघ्न, अवरोध (तेलुगु)
अपमान अपमान अपमान अपमाना अपमानु अपमानं अपमानमु अवमान	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली असमी, उड़िया, बंगला कन्नड, पंजाबी, मराठी काँकणी सिंधी मलयालम तेलुगु तमिल	अवमान, अनादर, बेइज्जती, बदनामी, अवज्ञा, तिरस्कार, अमर्यादा, दुत्कार, अगौरव, अप्रतिष्ठा, मानहानि, मानभंग, किमी की इज्जत आबरू झिड़ी में मिलना, बेआबरूई, असम्मान, निरादर, अभिमान या उद्दण्डतापूर्वक किये काम से प्रतिष्ठा भंग होना या उपेक्ष्य या तुच्छ ठहराया जाना (डिसग्रेस, इसल्ट) + लाछन (बंगला)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपमानकर अपमानजनक	विशेषण	बंगला हिंदी, बंगला	1. जिसके फलस्वरूप अपमान होता हो 2. अपमानकारी कार्य, असम्मानजनक कार्य
अपमानकारी अपमानकारिन्	विशेषण	हिंदी, बंगला, गुजराती संस्कृत	अपमान करने वाला व्यक्ति, जिससे अपमान हो, जो व्यक्ति मान भंग करे, इज्जत उतारे
अपमानलेख	संज्ञा	हिंदी	वह लेख जिससे किमी का अपमान होता हो
अपमानयुक्त	विशेषण	गुजराती	अपमान वाला, अपमानित. बेआबरू, अवमानित
अपमानसूचक	विशेषण	बंगला	जो असम्मान या अनादर प्रकाशित करे
अपमानभें अपमानिकक्कुक अपमानंधुं	सकर्मक क्रिया क्रिया क्रिया	मराठी मलयालम गुजराती	अवज्ञा या बेइज्जती करना, धिक्कारना असभ्याचरण करना अपमान करना, तिरस्कारना
अपमानिक	विशेषण	हिंदी, नेपाली	कार्य या बात जिससे अवहेलना- अनादर हो
अपमानित अपमानित अपमानित	विशेषण	हिंदी, नेपाली, मराठी गुजराती, मलयालम असमी, बंगला	1. जिसका अपमान किया गया हो, अवज्ञाकृत 2. तिरस्कृत, अनादृत, धिक्कृत, बेइज्जत 3. लज्जित, लांछित, अवमानित
अपमानी अपमान्य अपमारिश्	विशेषण विशेषण संज्ञा	हिंदी, नेपाली हिंदी मलयालम	अपमान करने वाला, जिसने बेइज्जती की हो अपमान होने योग्य. निंदनीय सदाबहार फूल (बेंगनी रंग का अम्लान पुष्प)
अपमार्ग अपमार्ग अपमार्ग	विशेषण विशेषण संज्ञा	हिंदी, संस्कृत बंगला, गुजराती मलयालम	1. पगदंडी, बगली रास्ता 2. कुमार्ग, खूतरे भरा रास्ता, बुरी राह + 3. अंग परिमार्जन (हिंदी) क्षौरकर्म, अपमार्जन (मलयालम)
अपमार्गी	विशेषण	हिंदी	1. कुमार्गी 2. पापी, अनुचित कार्य करने वाला
अपमार्जन अपमार्जनं	संज्ञा	हिंदी, कन्नड, संस्कृत मलयालम	1. रद्द करने, निकालने, हटाने का भाव 2. संशोधन, शुद्धि या सफ़ाई करना 3. हजामत बनाना
अपमार्जित	भूत कृदंत	हिंदी	जिसका अपमार्जन किया गया हो, पवित्रिकृत
अपमित्यं अपमित्यक	संज्ञा	मलयालम कन्नड, संस्कृत	1. ऋण, कर्ज, उधार, देनदारी 2. वापसी के वायदे पर लिया धन
अपमित्यन	संज्ञा	हिंदी	अच्छी वस्तु में बुरी की मिलावट (अडलटरेशन),

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपमिश्रण	सज्ञा	बंगला	भोज्य या खाद्य पदार्थों में मिलावट करना
अपमुख	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 टेढ़े मुह वाला, दुर्मुख, बदसूरत, बदशक्ल, कुरूप
अपमुख		मलयालम	+ 2 नीरस (मलयालम)
अपमूर्ध	सज्ञा	कन्नड	1 शिर हीन, बिना सिरका, कबध
अपमूर्धन्		संस्कृत	+ 2 लापरवाह (संस्कृत)
अपमृति	सज्ञा	मलयालम, कन्नड	1 अपमृत्यु, मृत्यु जो उचित समय पर न हो
अपमृत्यु	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	2 अकाल या अममय मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु
अपमृत्यु		मराठी, कन्नड, मलया, संस	3 साप काटना दुर्घटना आदि से मरना
अपमृत्यु		असमी, उड़िया, बंग +	4 बहुत बड़ा खतरा या रोग (जिससे मनुष्य बच
अपमिरुत्तियु		तमिल	जाय (हिंदी) मोटा सकट (मराठी) 5 अपघात
अपमृत्युव		तेलुगु	मरण विजली गिरने या विष खाने से मृत्यु होना
अपमृषित	विशेषण	मलयालम	1 जो बोधगम्य न हो अस्पष्ट वाक्य आदि, निरर्थक
अपमृषित		हिंदी, संस्कृत	2 अमह्य ना पसंद
अपमृष्ट	विशेषण	मलयालम	अपमार्जन माफ क्रिया या मिट्टिया हुआ
अपयश	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 बदनामी, कलक, निंदा अपकीर्ति दुनोग अग्याति,
अपयश		असमी, उड़ि, बंग, मरा	अपकृष्ट यश दृष्टकीर्ति अपमान अपयशपूर्ण
अपयशस्तु		मलयालम, कन्नड	आचरण, लज्जाजनक व्यवहार, निष्फल प्रयत्न
अपयशमु	विशेषण	तेलुगु	+ 2 उद्दिष्ट सिद्धि न होना, यत्न विफल होना (मराठी)
अपयसु		सिंधी	3 अनुचित या बुरा काम करने पर यशनाश
अपयसु		पंजाबी	4 अप्रतिष्ठा, मानहानि (इर्नागिनी)
अपयसु		संस्कृत	+ 5 अगफलता, हार, ना कामयाबी (मराठी)
अपयशस्कर	विशेषण	बंगला	1 अख्यातिकर, अपमान जनक कार्य
अपयशस्कर	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	2 बदनामी का काम, अकीर्तिकर कार्य, दुर्नामजनक कार्य
अपयशी	विशेषण	मराठी	नाकाम, असफल, सदा नाकाम रहने वाला, अभागा
अपयान	सज्ञा	हिंदी, कन्नड	पीछे हटना, भाग जाना, पलायन, वापसी, दूर
अपयानं		मलयालम, संस्कृत	जाना, उड़ान, खिसक जाना,
अपयानमु	सज्ञा	तेलुगु	पीछे लौट जाना
अपयोग	सज्ञा	हिंदी, नेपाली	1 बुरा मुहूर्त, कुसमय, कुयोग 2 कुचाल, दुर्घटना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवयोगम्		तमिल	+ 3. निर्धारित मात्रा ने कम या अधिक औषध पदार्थों का योग (तमि)
अपयोजन	संज्ञा	हिंदी	अन्य की सम्पत्ति को अनुचित रूप से अपने काम में लाना (मिस एप्रॉप्रिएशन)
अपयोजन		नेपाली	
अपरक्त	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1. रक्त हीन 2. बिना रंग का 3. अमंत्तुष्ट, खिन्न
अपरक्त		गुजराती	4. प्रेम से विरुद्ध भाव, शत्रुता, ईर्ष्या; अनुकूल नहीं
अपरक्ति	संज्ञा	हिंदी, बंगला	प्रेम, मदभावना या अनुराग न होना (डिसअफेक्शन)
अपरत	विशेषण	हिंदी, बंगला, मलया	निवृत्त, विरत; स्वार्थी, मतलबी; स्वयं में रत
अपरति	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. अमंत्तुष्टि, अमंत्तृप्ति, विराग
अपरत्ति		मलयालम	2. विच्छेद, विरति, निवृत्ति, अनुगम या प्रेम का अभाव
अपरत्ति		नेपाली, बंगला	+ 3. स्वार्थ, वैईमानी (नेपाली)
अपरव	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. विवाद, झगड़ा (प्रायः संपत्ति संबंधी)
अपरव		मराठी	+ 2. तर्क-वितर्क, (विशे)+ निर्विवाद, बिनाबखड़ेका (मराठी)
अपरवं	संज्ञा	मलयालम	3. दुष्कीर्ति, बदनामी, अपकीर्ति
अपरस	संज्ञा	गुजराती	+ 1. अधम प्रकार का रस (गुजराती)
अपरसं	अव्यय	मलयालम	+ 2. रसहीन, रुचि विहीन (मलयालम)
अपरस	विशेषण	हिंदी, मराठी	3. जिसे किसी ने छुआ न हो 4. अमृश्य 5. अनासक्त
अपरस	विशेषण	तेलुगु	6. न छूने योग्य (अ+परस)
अपरस	संज्ञा	नेपाली, हिंदी	7. एक चर्म रोग जिसे छेकी या तलुवे में छले पड़ जाते हैं
अपराग	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, बंगला	1. घृणा, विराग, अरुचि, असंतोष, प्रेम का विरोधी भाव
अपराग		कन्नड, संस्कृत	+ 2. बिना रंग का (संस्कृत), मन उचाट होना
अपरागम्		तमिल	3. शत्रुता, द्वेष, ईर्ष्या, दिल जलना, वैरभाव
अपरागं		मलयालम	4. इच्छाओं से मुक्ति पाना, वैराग्य
अपराद्ध	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, कन्नड	1. (व्यक्ति) जिसे अपराध किया हो, दोषी, अतिक्रान्त
अपराद्धम्		तेलुगु	2. (कार्य) जो विधिदृष्टि से अपराध माना जाय
अपराद्ध		मलयालम	+ 3. जो निशाना चूक गया हो, उल्लंघित (संस्कृत)
अपराद्धप्रिषटक	विशेषण	कन्नड	जिसके बाण सदा लक्ष्यहीन रहते हों
अपराद्धपृषटक	संज्ञा	संस्कृत	जिसका तीर निशाने से गिर या चूक गया हों
अपराद्धि	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	भूल, दोष, अपराध, पाप, दुष्कर्म, कसूर

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपराध	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1. गुनाह, जुर्म, कसूर, बुरा काम
अपराध		असमी, उड़िया, बंगला	2. दोष, पाप, गलती, भूल-चूक
अपराध		कन्नड, पंजाबी, मराठी	3. कानून या धर्म की दृष्टि से निषिद्ध कार्य
अपराध	संज्ञा	मलयालम	4. दण्ड योग्य कार्य, सज़ा पाने का काम
अपराधम्		तमिल	+ 5. अपवाद, दुष्प्रवाद (मलयालम)
अपराधनु		तेलुगु	+ 6. दण्ड, जुर्माना, सज़ा (तमिल)
अपराधु		सिंधी	7. ऐसा अनुचित कार्य जिससे किसी का अपमान या हानि हो (आफेन्स)
अपराध/दा		कोंकणी	
अपराधक्षापणम्	संज्ञा	तमिल	अपराध की क्षमा मांगना
अपराध विज्ञान	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	अपराधवृत्ति का पता लगाने का विज्ञान (क्रिमिनोलाजी)
अपराधरति	संज्ञा	कन्नड	जिसे दुष्कर्म में आनन्द आता है
अपराधशील	विशेषण	हिंदी, नेपाली	अपराध करने के स्वभाव या प्रवृत्ति वाला
अपराध-स्वीकरण	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	अपराध स्वीकार करना (कनफ़ेशन)
अपराधकाणिकर्त	संज्ञा	तमिल	संकल्पित भेंट, समय पर देवार्पण न करने पर प्रायश्चित्त में दी भेंट
अपराध-साक्षी	विशेषण	हिंदी	1. भेद साक्षी, जिसके सामने अपराध किया हो
अपराध-साक्षिन्		संस्कृत	2. गवाह, आँखो देखा गवाह, इकबाली गवाह
अपराधिता	संज्ञा	असमी	दोष, दोषत्व
अपराधिक	संज्ञा	हिंदी	अपराध के विचार-भाव या ईप्सा से सम्बद्ध व्यक्ति
अपराधि/धिन्	संज्ञा	मलया, कन्नड, संस्कृत	1. पाप कर्म करने वाला
अपराधि		तमिल	2. कानून की खिलाफवर्जी करने वाला
अपराधी		हिंदी, गुजराती, नेपाली	3. नियम भंग करने वाला
अपराधी		असमी, उड़िया, बंगला	4. दोषी, गुनहगार, मुलजिम, क़ैदी
अपराधी		पंजाबी, सिंधी, मराठी	5. अन्यायी, अपराध कर्ता
अपराधस्थ		कन्नड	6. कानून की दृष्टि से ऐसा व्यक्ति जिसने
अपराधिकु		तेलुगु	अपराध किया हो
अपरुध	विशेषण	संस्कृत, हिंदी	क्रोध रहित; जिसमें गुस्सा न हो
अपरुप	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1. कुरूप, भद्दा, बदशक्ती, बेडील, सौन्दर्यविहीन
अपरुप		असमी, उड़िया, बंगला +	2. विचित्र, विलक्षण, दुर्लभ, अपूर्व, विस्मयकर (बंग

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपरूप		कन्नड, मलया, संस, मराठी	अस्वाभाविक, उन्कृष्ट, दुर्लभता के कारण प्राप्त महत्व
अपरूपण		तेलुगु	+ 3. वंचित, मुहताज (मराठी) अंगभंग (संस्कृत)
अपरूप/पि/तसी		कोंकणी	+ 4. जो अधिक प्रचलित नहीं; विकृत रूप (कन्नड)
अपरूपतन	संज्ञा	कन्नड	अपरूपता, विरलता, विरल, अनूठापन
अपरूपार्ई	संज्ञा	मराठी	दुर्लभता, उत्कृष्टता, महत्पूर्णता; अपूर्वता
अपरोष	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. रोक, मनाही, निषेध, वर्जन, रुकावट
अपरोषं		मलयालम	+ 2. बाहर निकालना (मलयालम)
अपरोप	संज्ञा	हिंदी	1. उन्मूलन, विध्वंस
अपरोषं		मलयालम	2. सिंहासन से उतारना, राज्यच्युति
अपर्तु	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1. अकाल, अनवसर, असामयिक, बे-मौसम
अप-ऋतु		संस्कृत	2. निवृत्त रजस्वला, ऋतुकाल समाप्ति
अपलक्षण	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. कुलक्षण, अपशकुन, दुष्प्रणिणाम सूचक चिह्न
अवलक्षणम्		तमिल	2. अतिव्याप्ति-अव्याप्ति के दोष से युक्त
अपलक्षणम्		तेलुगु	3. दोष, दुराचरण, ऐब, त्रुटि युक्त लक्षण
अपलक्षणु/अपलक्षणी		गुजराती, मराठी	4. बुरे लक्षण वाला, ऐबी
अपलग्न	संज्ञा	कन्नड	अशुभ समय, बुरा मुहूर्त, अशुभ लग्न
अपलभम्	संज्ञा	तेलुगु	मेधा शक्ति, धारणा बुद्धि
अपलाप	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1. सत्य का विकृत रूप प्रकट करना, सत्य गोपन,
अपलाप		मराठी, कन्नड, संस्कृत	छिपाना, खरी बात उड़ा देना, दोष छिपाना, तथ्य
अपलाप		असमी, उड़िया, बंगला	छिपाना, धिक्कार, तिरस्कार करना
अपलापन (नं)		कन्नड, मलयालम	2. झूठ बोलना, मिथ्या भाषण
अपलापं		मलयालम	3. अपवाद, निंदा, तिरस्कार, आक्षेप
अपलापणु		तेलुगु	4. अस्वीकार, इन्कार 5. व्यर्थ बक-बक करना
अपलापनम्		तमिल	+ 6. एक अलंकार (मलया) +7. प्यार सम्मान (हिंदी)
अपलापनीय	विशेषण	बंगला, मलयालम	1. दोष देने योग्य, दोषी 2. धिक्कार योग्य, आक्षेपयोग्य
अपलापिका	संज्ञा	हिंदी	1. बहुत अधिक तृष्णा, लालसा, उत्कण्ठ 2. प्यास
अपलापिन्	संज्ञा	संस्कृत	1. सच्चाई छिपाने या झूठ बोलने वाला
अपलापी		हिंदी	2. मुकरने, छिपाने, इन्कार करने वाला

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपलापी		बंगला	3 बकवादी, बक्की झक्की गप्पी
अपलापितु	क्रिया	कन्नड	1 छिगाना, इन्कार करना
अपलापिष्ठु	क्रिया	तेलुगु	2 किमी बात को कह कर उसे छिपाना, तिरस्कार करना
अपलाभ	सज्ञा	हिंदी	अनुचित, अनैतिक लाभ (प्रोफीटियरिंग)
अपलाभन	सज्ञा	हिंदी	अनुचित लाभ प्राप्ति की क्रिया या भाव
अपलाधि	सज्ञा	मलयालम, कन्नड	1 बडा प्यासा, तृषित, तृष्णा या लालसा युक्त
अपलाधी	विशेषण	हिंदी	2 तृष्णा रहित, जिसे लालसा न हो
अपलाधिन्		संस्कृत	3 अमित आग्रह, बडी प्यास
अपलासिक/का	सज्ञा	मलयालम, हिंदी	1 तृष्णा, बडी प्यास, अत्यधिक तृषा
अपलासिक/का	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	2 अमित इच्छा, आग्रह, प्रबल, लालसा
अपलाधुक	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1 तीव्र प्यास से युक्त, प्यासा
अपलाधिन्	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	2 आकाशा या अभिलाषा से युक्त
अपलिखन	सज्ञा	बंगला	खुरच कर अक्षर उभारना या कुछ लिखना
अपलेखन	सज्ञा	हिंदी	जो रकम वसूल न हो उसे बट्टे खाते लिखना
अपलोक	सज्ञा	नेपाली, हिंदी	निंदा, बदनामी अपयश, दुर्नाम, अपवाद
अपवचन/बदन	सज्ञा	मलयालम	बुरा बोलना गाली देना, निंदा करना, बदनामी
अपवचन		हिंदी	करना, अपशब्द कहना
अपवन	सज्ञा	मलयालम	1 अपकृष्ट वन, बनावटी उपवन उद्यान, लता कुज
अपवन	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	2 नगर समीप का छोटा उपवन, वन, बगीचा
अपवरक	सज्ञा	हिंदी, कन्नड, संस्कृत	1 झरोखा, वायुद्वार, वातायन, रोशनदान
अपवरकं		मलयालम	2 अत पुर 3 शयनागार, भीतरी कमरा
अपवरण	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 परदा, चिक, कपडा 2 आवरण, वस्त्र, पोशाक
अपवरणं		मलयालम	+ 3 आवरण या पर्दा हटाना (हिंदी)
अपवर्ग	सज्ञा	हिंदी, नेपाली, गुजराती	1 कार्यसिद्धि या पूर्णता, फल प्राप्ति 2 समाप्ति,
अपवर्ग		मराठी, कन्नड, संस्कृत	अवसान 3 अपवाद या विशेष नियम
अपवर्ग		असामी, उड़िया, बंगला	4 त्याग, देनदारी, उपहार, भेंट, पुरस्कार 5 छोड़ना,
अपवर्ग		मलयालम	फेकना, बाण छोड़ना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपवर्कम् अपवर्गमु		तमिल तेलुगु	6 मुक्ति, मोक्ष, परमपद प्राप्ति, निर्वाण, निष्पत्ति, पुनर्जन्म से निस्तार
अपवर्जन अपवर्जन अपवर्जनं अपवर्जनमु	सज्ञा सज्ञा	हिंदी, नेपाली संस्कृत, बंगला मलयालम तेलुगु	1 निगकरण, कर्ज चुकाना, उक्लण होना 2 मोक्ष, मुक्ति, अपवर्ग 3 त्याग, दान, भेट, उपहार 4 वचन पालन 5 मुक्त होने या करने की अवस्था या भाव
अपवर्जित अपवर्जित	विशेषण	हिंदी, नेपाली बंगला	1 त्यागा, छोडा, दिया, मुक्त हुआ 2 दत्त, परित्यक्त, मोक्ष हुआ
अपवर्ण अपवर्णनं	विशेषण	मलयालम मलयालम	1 वर्ण व्यक्त नही या स्पष्ट, शुद्ध उच्चरित नही 2 मदरग, बेरग, हलका या भद्दा रग, बदरग
अपवर्त अपवर्त अपवर्त	सज्ञा	हिंदी मराठी मलयालम	1 साधारण भाजक मग्या का लघुरूप, सामान्य विभाजक, जिमका भाजक शेष न हो (गणित) 2 पृथक करना, हटाना, वचिंत करना
अपवर्तकं अपवर्तक अपवर्तक अपवर्तक	सज्ञा	मलयालम हिंदी, संस्कृत गुजराती बंगला	1 शुद्ध भाजक, सामान्य विभाजक या घटक + 2 खोटा आचरण करने वाला (गुजराती) + 3 रंग पणिका, माणिक्य, मोती का एक दूगरे के बाद जडा हार (मलयालम)
अपवर्तन अपवर्तन अपवर्तन अपवर्तन अपवर्तन अपवर्तन	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत बंगला कन्नड गुजराती नेपाली मराठी	+ 1 खोटा आचरण, बुरा चाल चलन, वचना, वचिंत करना, उलट फेर (गुजराती, कन्नड) + 2 मक्षिप्त करना मक्षिप्त प्रकरण (बंगला मराठी) + 3 प्रत्यागमन (नेपाली), पृथक करना 4 अपगध के कारण अधिकार हरण (फोगफीचर) 5 भाज्य भाजक को एक तुल्याक से बाटना
अपवर्तहरकं	सज्ञा	मलयालम	बडे से बडा साधारण घटक (गणित)
अपवर्तित अपवर्तित अपवर्तित	विशेषण	हिंदी, बंगला मलयालम नेपाली	1 परिवर्तित, पृथक्कृत, अल्पीकृत, वक्रीकृत, विभक्त 2 नि शेष, अन्दर की ओर घूमा, मुडा या बढा हुआ + 3 प्रत्यागत (नेपाली) (Inverted)
अपवर्तिककुक्क	अकर्मक क्रिया	मलयालम	मुह मोडना, लौटना, विभाजित करना, भाग शेष करना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपवस्य	सज्ञा	मलयालम	1 किसी राशि का शुद्ध भाज्य, जो सामान्य
अपवस्य		बंगला, कन्नड	विभाजक से नि शेष किया जा सके (मल्टीपल)
अपवस्य		हिंदी, नेपाली	2 गुणनफल + 3 फर्क करने योग्य (नेपाली)
अपवहन	मज्ञा	हिंदी	किसी चलती या जाती चीज का नियत स्थान के बजाय अन्यत्र चला जाना (मिसकेग्ज)
अपवहित	भूत कृदत	हिंदी	स्थानान्तरित, कहीं की कहीं गई हो
अपवाचा	सज्ञा	हिंदी	1 गाली, निदा, आवाद
अपवाक्कु		तमिल	2 अनुचित कथन, या बात
अपवाद	सज्ञा	हिंदी, गुजराती	1 निदा, बदनामी, दोषारोप, प्रतिवाद, खडन, लाछन
अपवाद		नेपाली, मराठी	+ 2 कलक, दोष, ऐब, ऐब लगाना, (कन्नड)
अपवाद		असमी, उड़िया, बंग	+ 3 सामान्य नियम को बाधित, मर्यादित या मशोधित
अपवाद		पंजाबी, कन्नड, संस्कृत	करने वाला विशेष नियम (मराठी)
अपवादु		सिंधी	+ 4 अध्यारोप, रस्मी को माप मानने के भ्रम को मिटा,
अपवादम्		तमिल	रस्मी का भान कर भ्रम निवारण (वेदान्त) (हिंदी)
अपवादं		मलयालम	5 आदेश, आज्ञा, विश्वास, गय, विचार, मिथ्या बान
अपवादम्		तेलुगु	+ 6 हिरण आदि जानवर फसाने की घटी या वाद्य (हिंदी)
अपवादक	विशेषण	हिंदी, मराठी, नेपाली	1 परनिदक, बाधक, विरोधी, दुर्नामकारी
अपवादक		बंगला, तेलुगु, पंजाबी	2 आज्ञा या नियम का खडन करने वाला
अपवादक		मलयालम, संस्कृत	+ 3 सामान्य नियम के विरुद्ध पडने वाला (पंजाबी)
अपवादसूक्तिरम्	सज्ञा	तमिल	अपवाद सूत्र, एक सूत्र जो दूसरे सूत्र के नियम को काट दे
अपवादिक	विशेषण	हिंदी, नेपाली	अपवाद सबधी, सामान्य नियम के विरुद्ध
अपवादि	सज्ञा	मलयालम	अपवादक, किसी की निन्दा रुचि ले कर फैताने
अपवादिन्		संस्कृत	वाला, विरोधी, कुत्साकारी, खडन आदि करने
अपवादी		हिंदी, मराठी, बंगला	वाला, बाधक, निन्दक, किसी आज्ञा या नियम को
अपवादी		पंजाबी, नेपाली	निरस्त करने वाला, अपकीर्ति कारक
अपवारक	मज्ञा	हिंदी, मराठी	आवरण, पर्दा, घेरा या घिरी हुई जगह
अपवारण	सज्ञा	हिंदी, मराठी, नेपाली	1 दूर करना, अन्तर्धान, हिरोधान, गायब होना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपवारण अपवारणं अपवारणमु	संज्ञा	कन्नड, बंगला, संस्कृत मलयालम तेलुगु	2. आड़, व्यवधान, बाधा, अवरोध, रोक 3. बीच में पड़ आघात से बचाने वाली वस्तु 4. आच्छादन, ढकना, छिपाना, अन्तर्धान
अपवारित अपवारित अपवारित अपवारितं (म्)	विशेषण अव्यय	मराठी, बंगला, नेपाली मलयालम, कन्नड संस्कृत, हिंदी मलयालम, संस्कृत	1. आच्छादित, ढका या छिपाया हुआ, रोका हुआ 2. अदृश्य, अन्तर्हित, तिरोहित, जिसका अपवारण किया गया हो, गुप्त रूप में, छिपे तरीके से 3. रहस्य छिपाना, प्रकाशित न होने देना
अपवार्य	अव्यय	मलयालम	नाटक में स्वगत कथन
अपवाह अपवाह अपवाहं अपवाह	संज्ञा	हिंदी कन्नड मलयालम संस्कृत	1. कम करना, घटाना 2. किसी प्रभाव में पड़ किसी और चल पड़ना; दूर करना, घटाना 3. उद्दिष्ट मार्ग से भटक जाना, स्थानांतरित करना 4. एक छंद + 5. पानी बहने की नाली (हिंदी)
अपवाहक	विशेषण	हिंदी	ढोने या ले जाने वाला व्यक्ति या यंत्र आदि
अपवाहन अपवाहन अपवाहनं अपवाहन	संज्ञा	हिंदी बंगला मलयालम संस्कृत	1. उचित स्थान के बजाय कहीं और ले जाना (मिसकेंरी) + 2 मनुष्य को-गु ले जाना (किडनेप) (बंगला) 3. कम करना, घटाना, दूर करना, घटाना 4. अन्य देश के लोगों को बहकाकर अन्य देश बसाने ले जाना
अपवाहित अपवाहित अपवाहित	विशेषण	हिंदी बंगला मलयालम	1. बसाने के लिए लाये गये, अप्रसारित, स्थानांतरित, वासस्थान से हटाये गये, निर्वासित (मिसकेंरिड (एग्जाइन्ड) 2 जिसका अपवाहन हुआ हो
अपविघ्न	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	विघ्न बाधा रहित, अवरोधहीन, बे-रोक-टोक
अपविद्ध अपविद्ध अपविद्ध/अपविद्ध अपविद्ध अपविद्ध अपविद्धम् अपविद्धम्	विशेषण संज्ञा संज्ञा	हिंदी, मराठी गुजराती, मलयालम संस्कृत बंगला, कन्नड नेपाली तेलुगु तमिल मलयालम	1. परित्यक्त, प्रत्याख्यात, क्षिप्त, अस्वीकृत, हीन 2. निकृष्ट, नीच, कमीना, क्षुद्र, निध 3. माता पिता द्वारा त्यागा हुआ + 4. जिसने ईश्वर, माता पिता, गुरु का त्याग किया हो + 5. जिसने गाय, ब्राह्मण, स्त्री की हत्या की हो-महापातकी (मलयालम) + 6. पालित पुत्र या धर्म पुत्र (मराठी) वारह प्रकार के पुत्रों में से एक गोद लिया पुत्र (मनुस्मृति) + 7. बेधा हुआ, बद्ध (हिंदी), भूला हुआ

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपविद्या अपविद्या	मज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत मराठी, मलयालम	1 माया, आध्यात्मिक अज्ञान, अज्ञता, अविद्या 2 ऐसी निषिद्ध विद्या जिसका अध्ययन उचित न हो
अपविषपुत्र	मज्ञा	मराठी	गोद लिया बेटा
अपविष	विशेषण	हिंदी, मलयालम	विष रहित, विष शून्य
अप विदलोक	विशेषण	हिंदी	जो इस ससार को छोड़ चुका है, गृह
अपविषा	मज्ञा	मलयालम, हिंदी	निर्विषी पौधा या घास, एक जडी
अपवीणा(ण)		संस्कृत, हिंदी	बुरी वीणा, खराब वीणा वाला
अपवृक्त	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	पूरा या समाप्त किया हुआ
अपवृक्ति	मज्ञा	संस्कृत, हिंदी	समाप्ति, संपूर्णता
अपवृत्ति	मज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 छेद, रध 2 चूटि, दाघ 3 अपनरण
अपवृत्त	विशेषण	हिंदी	1 क्रम, मवध, स्थिति आदि के विचार में विपरीत
अपवृत्त		बंगला	या उल्टा 2 अक्षर की ओर मुड़ या उल्टा हुआ (इन्वर्टेड)
अपविरुत्तम्	मज्ञा	तमिल	+ 3 विपरीत, पराङ्मुखीभूत, अनाच्छादिन (बगला)
अपवृत्तं	मज्ञा	मलयालम	+ 4 ज्यातिष में अपक्रम या क्रान्तिवृत्त (मलयानम)
			+ 5 नाश करना, ध्वंस करना (तमिल)
अपवृत्ति	मज्ञा	हिंदी, मलयालम, संस	1 अपवृत्त होने की अवस्था 2 अवमान, अत, समाप्ति
अपविरुत्ति		तमिल	3 क्षय, नाश
अपवृद्धि	मज्ञा	मलयालम	क्षयीकरण, अवमान, अत
अपवेध	मज्ञा	हिंदी, संस्कृत	गलत जगह या गलत तरीके में छेदना, ठीक स्थान पर
अपवेधं		मलयालम	छेद न करना, दोष यत्न वेधन (गोती आदि में)
अपवेदितम्	मज्ञा	तमिल	अपवेदित, अभिनय की एक चेष्टा
अपबोटा	विशेषण	हिंदी	ढोने या हटाने वाला
अपव्यपायं	अव्यय	मलयालम	हानि या रुकावट बिना
अपव्यय	मज्ञा	हिंदी, गुज, नेपाली, मरा	निरर्थक, अनुचित, व्यर्थ या अधिक खर्च
अपव्यय		असमी, उड़ि, बंग, कन्न	2 बुरे कामों में व्यय, पैसों की बर्बादी
अपव्ययं/अपव्यय		मलयालम, संस्कृत	3 उच्चर्यन, फिजूल खर्च, आवश्यकता से अधिक व्यय
अपव्ययमु		तेलुगु	4 धन का दुरुपयोग, बेकार खर्च
अपव्ययकर	मज्ञा	असमी	बेकार खर्च करना, गलत ढंग से खर्च करना
अपव्ययनं	मज्ञा	मलयालम	धर्म में इन्कार करना, उधार लेकर मुकर जाना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपव्ययमानन्	संज्ञा	मलयालम	दुर्व्यय करने वाला, उधार निषेधी
अपव्ययित	विशेषण	बंगला	1. वृथानष्ट, असत काम में खर्च, अपकृष्ट व्यय
अपव्ययिता	संज्ञा	बंगला	2. वृथा व्ययशीलता
अपव्ययि	विशेषण	मलयालम, असमी	1. धन वगबाद करने वाला, अमद्व्ययी, उड़ाऊ
अपव्ययिन्		संस्कृत	2. व्यर्थ, अनुघिन, फ़िजूल खर्च करने वाला
अपव्ययी		हिंदी, नेपाली, बंगला +	3. जो कर्ज लेकर मुकर जाय (मलयालम)
अपव्रत	विशेषण	हिंदी	1. व्रत पानन न करने वाला, व्रतत्यागी 2. अशास्त्रीय या निदनीय कर्म, हीनव्रत
अपव्यवहार	संज्ञा	बंगला	1. दुर्व्यवहार, अपकृष्ट व्यवहार
अपव्यवहार		उड़िया	2. असत कार्य में प्रयोग, अन्यथा प्रयोग
अपशंक	विशेषण	हिंदी, बंगला	1. निःशंक, शंकाहीन
अपशङ्क	अव्यय	नेपाली, मलयालम, संस	2. निर्भय, निडर, बेझिझक, निर्भीक
अपशकुन	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1. अशुभ सूचक लक्षण या चिह्न
अपशकुन		कन्नड, मराठी, संस्कृत	2. बदशगुनी, अमगुन
अपसौणु	संज्ञा	सिंधी	कुसगुन, बुरा मगुन
अपसगन/शकुन		पंजाबी, मलयालम	3. दुर्गन्त, बुरी सूचना
अपशकुनम्		तमिल	4. अनष्टिसूचक शकुन
अपशकुनमु		तेलुगु	5. कुलक्षण, खराब लक्षण
अपशदन्	संज्ञा	मलयालम	1. अनुलोम विवाह से उत्पन्न सन्तान
अपसद		मराठी	+ 2. दुष्ट. अधम, नीच (मराठी)
अपशद		हिंदी	+ 3. उच्चवर्ण पुरुष व शूद्र स्त्री से पैदा संतान (मलयालम)
अपशब्द	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. गाली, दुर्वचन, कुवाच्य, धिक्कार
अपशब्द		असमी, बंगला, कन्नड	2. अश्लील, दूषित, निंदित, अशुभ, नियमविरुद्ध,
अपशब्द		पंजाबी, नेपाली, संस्कृत	असाधु शब्द, खोटा प्रयोग, असंबद्ध प्रलाप
अपशब्दं		मलयालम	3. व्याकरण विरुद्ध. अशुद्ध या ग्राम्य शब्द
अपशब्दमु		तेलुगु	+ 4. निरर्थक, अनर्तल शब्द; अपानवायु त्याग, निंदा-भाषण,
अपशत्तम्/शब्दम्		तमिल	अपवाद, अपकीर्ति, अश्लीलवचन (मलया)
अपशम	संज्ञा	हिंदी	1. दिराम, ठहराव

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपशमं	सज्ञा	मलयालम	2 निवृत्ति, अत, समाप्ति
अपशिरस्	विशेषण	संस्कृत	बिना मिर का, बेसिर,
अपशीर्ष	विशेषण	संस्कृत	जिसका सिर न हो, सिर रहित
अपशुकन	सज्ञा	गुजराती	बदशकुन, अशुभ चिह्न
अपशुकनियण	विशेषण	गुजराती	बदशकुन वाला, मनहूस, दुर्भाग्य सूचक, अशुभ
अपशुकनियाण(स्त्री)	"	गुजराती	अमगली स्त्री, जिसका शुकन खराब गिना जाय
अपशुकनियुं	विशेषण	गुजराती	अशुभ वस्तु या व्यक्ति
अपशुक (ष्)	सज्ञा	संस्कृत, हिंदी	जीव आत्मा जो शोक रहित है
अपशोक	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 दुःख मुक्ति, शोक रहितता
अपशोक		मलयालम	2 अशोक वृक्ष (मज्ञा)
अपश्रय	सज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	1 तकिया, मसनद, गद्दी, अवलम्ब, बालिश
अपश्रयं		मलयालम	2 कन तथा यत्रो की गद्दी या पैड, गद्दा, तलपण
अपश्री	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 श्री या सौन्दर्यहीन 2 फुरूप, बदसूरत
अपश्री		नेपाली	3 जिसकी शोभा नष्ट हो चुकी हो
अपश्री		मलयालम	4 गद्दी मास (संस्कृत)
अपश्रुति	सज्ञा	हिंदी	1 दुष्कीर्ति 2 अशुभसूचक शब्द या वाक्य (मलयालम)
अपश्रुति	सज्ञा	मलयालम	3 बेमेल स्वर (संगीत) 4 एक ही धातु से बने शब्दों में स्वर परिवर्तन से आया विकार, अक्षरावस्थान
अपश्वासं	सज्ञा	हिंदी, मलयालम, संस्कृत	1 अपान वायु 2 गद्दी सास (संस्कृत)
अपश्चं/श्च/स्थ	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत, हिंदी	अकुश की नोक
अपशुबु		तेलुगु	1 प्रतिकूल, विपरीत, उल्टा, बाया, वामशोभन,
अपशुर्/अपशु	विशेषण	मलयालम, हिंदी, संस्कृत	विरुद्ध, झुठई से, निर्दोषता से, भली भाँति (अव्यय)
अपशुत्त	विशेषण	संस्कृत, हिंदी	+ 2 समय (सज्ञा) (मलयालम, हिंदी)
अपसंगं	सज्ञा	मलयालम	संग, मिलन या मगति का अभाव; त्यक्त,
अपसंगमनं	सज्ञा	मलयालम	छोड़ देना, त्याग देना, उपेक्षित
अपसंचय	सज्ञा	हिंदी	अधिक लाभ के लिए अनिश्चित रूप से छिपाकर पाल इकट्ठा करना (होर्डिंग)
अपसत्यु	सज्ञा	तेलुगु	1 झूठी गवाही 2 झूठी बात के लिए क्रमम खाना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपसद अपसद अपसदु असपद	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत कन्नड, गुजराती तेलुगु मराठी	1. अनुलोम अर्थात् उच्चजाति पुरुष और निम्नजाति स्त्री की संतान, + दुष्ट, अधम, नीच (मराठी) 2. समास में नीच अर्थ में आने वाला उत्तरपद 3. जाति बहिष्कृत, पतित व्यक्ति, अपकृष्ट (नेपा)
अपसना	अकर्मकक्रिया	हिंदी	1. अपसरण, खिसकना, सरकना, दूर हटना 2. भाग जाना 3. पहुँचना, प्राप्त करना संधि योग्य नहीं, साथी बनाने योग्य नहीं
अपसन्धेय	विशेषण	मलयालम	1 पिछले वर्ष 2. वर्षावसान
अपसमं	अव्यय	मलयालम	गुलतफ़हमी, भ्रातधारणा, भ्राति
अपसमज	विशेषण	मराठी	
अपसर अपसरं अपसरमु अपसर	संज्ञा	हिंदी, बंगला, संस्कृत मलयालम तेलुगु उड़िया, कन्नड	1. निर्गमन, प्रस्थान, पलयान, दूरी (रेखा गणित) 2. पीछे हटना या लौटना, स्थानान्तर गमन 3. उचित बहाना, युक्ति युक्त उचित कारण 4. मसनद (उड़िया) 5. वाष्प कण
अपसरक अपसरक	विशेषण	हिंदी नेपाली	1. जो अपना उत्तरदायित्व, कर्तव्य छोड़कर भाग गया है 2. भाग जाने वाला (डिज़र्टर), स्त्री-पुत्रादि त्यागी
अपसरण अपसरण अपसरणं अपसरण अपसरण अपसरण	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत उड़िया मलयालम गुजराती, नेपाली बंगला कन्नड	1. कार्यभार या उत्तरदायित्व छोड़ भागना 2. स्त्री पुत्रादि छोड़ कर चले जाना, पलायन 3. निकल भागने का रास्ता, दूर हटना, बच निकलना 4. उचित से विपरीत स्थिति होना (डाइवर्जेंस) 5. केंद्र, मानक या प्रसम से हट इधर उधर हो जाना 6. तरल पदार्थ का घनत्व कम होना; सेना लौट जाना
अपसरणि	संज्ञा	मलयालम	भरणी नक्षत्र
अपसरि	संज्ञा	कन्नड	दूरभागा हुआ, भटका हुआ
अपसरिबा	संज्ञा	उड़िया	दूर हटना, भागना
अपसरना	अकर्मकक्रिया	तेलुगु	सरकना, भागना
अपसरुं	अकर्मकक्रिया	गुजराती	दूर हटना, चले जाना
अपसर्जक	विशेषण	हिंदी	1. उत्तरदायित्व से बचने वाला 2. छोड़ने, त्यागने वाला
अपसर्जनं अपसर्जन	संज्ञा	मलयालम हिंदी, नेपाली, बंग, संस	1. विमर्जन, परित्याग, उपेक्षा (एबेन्डनिंग) 2. दान, भेंट 3. मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपसर्जनम्		तेलुगु	+ 4. स्वर्गीय सुख-भोग (संस्कृत)+ हत्या (बंगला)
अपसर्प	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, बंगला	1. जासूसी, रहस्य भेदन, गुप्त रहस्यों का पता लगाना
अपसर्पन्		तमिल	+ 2. गुप्तचर वृत्ति, चर-वृत्तिनी, दूती (मलयालम)
अपसर्प		कन्नड, संस्कृत	+ 3. दूत (तमिल), पलायन (बंगला)
अपसर्प्य	संज्ञा	मलयालम	4. सी० आई० डी०, गुप्तचर, भेदिया, जासूस
अपसर्पक	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, बंगला	1. भेदिया, जासूस, गुप्तचर
अपसर्पकन्/सर्पन्		मलयालम, संस्कृत	2. रहस्य दूत, चर पुरुष
अपसर्पुडु	संज्ञा	तेलुगु	3. गुप्त रहस्यों का पता लगाने वाला
अपसर्पकथा	संज्ञा	मलयालम	1. ग्रंथान्वेषण से प्राप्त 2. जासूसी कथा या उपन्यास
अपसर्प्यणं	संज्ञा	मलयालम	1. वापिस लौटना, पीछे हटना, पलायन
अपसर्पण		कन्नड, हिंदी, बंग, संस	2. जासूसी करना, भेदिये द्वारा भेद लेना
अपसर्पित	भूत कृदन्त	हिंदी	पीछे हटा हुआ, गया हुआ
अपसव्य	विशेषण	हिंदी, गुज, संस, मलया	1. जिसका यज्ञोपवीत बाये नहीं दायें कंधें पर हो
अपसव्य		नेपाली, मराठी, कन्नड	2. विपरीत, प्रतिकूल, उल्टा, बायीं ओर
अपसव्यियम्	संज्ञा	तमिल	3. पितृ तीर्थ 4. मव्य का उल्टा
अपसव्यम्	विशेषण	तेलुगु	5. अंगूठे और तर्जनी के बीच का भाग (संज्ञा)
अपसव्यं	संज्ञा	मलयालम	+ 6. विरोध, विपरीतता, दायें से बायें होना, अस्तव्यस्तता (तमिल)
अपसव्यग्रहण	संज्ञा	हिंदी	दाहिनी ओर से लगने वाला सूर्यग्रहण
अपसव्यतीर्थ		हिंदी	पितृ तीर्थ
अपसव्यपरिक्रमा	संज्ञा	हिंदी	देवता को दाहिने रखकर की गयी परिक्रमा, दक्षिणावर्त परिक्रमा
अपसाक्षि	संज्ञा	तेलुगु, कन्नड	1. झूठा गवाह या झूठा प्रमाण; झूठी गवाही
अपसाक्ष्य	संज्ञा	कन्नड	2. जिसने आंखों से देखा नहीं, न दिखने वाली आंखें
अपसाध्यसं	अव्यय	मलयालम	निर्भयता से
अपसार	संज्ञा	हिंदी	1. गमन, वापसी, पलायन, पीछे लौटना; निर्गम पथ
अपसार		बंगला, नेपाली	2. फेंक देना, बाहर कर देना, दूर से जाना
अपसारं		मलयालम	+ 3. रक्षामार्ग, रक्षा मंकेत, अभयस्थान (मलयालम)
अपसारम्		तेलुगु	4. अपराध मोचन का साधन 5. प्रतिकल (तेलुगु)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपसार	संज्ञा	संस्कृत	+ 6. जलकण; भाप; पानी का छीटा (हिंदी)
अपसारक	संज्ञा	हिंदी	1. जो हटाया जा सके, मंच का पर्दा, शिविर की कनात + 2. भगा ले जाने वाला (हिंदी)
अपसारकं		मलयालम	
अपसारण	संज्ञा	हिंदी, उड़िया, बंगला	1. दूर करना, दूरीकरण 2. अंदर से निकाल बाहर करना या हटाना (इजेक्शन) 3. पद या स्थान से निकाल देना, बहिष्करण, ढकेल देना, फेंक देना
अपसारणं		मलयालम	
अपसारण		मराठी, संस्कृत	4. देश निकाला + 5 सोने की जगह दूमरी धातु भरकर सोने का गबन करना (मलयालम)
अपसारण		नेपाली, गुजराती	
अपसारण		कन्नड	
अपसारशक्ति	संज्ञा	तमिल	केन्द्र से हट जाने वाली शक्ति
अपसारित	विशेषण	हिंदी, बंगला, नेपाली	1. निकाला या हटाया हुआ, दूरीकृत
अपसारित		कन्नड	+ 2. खुला हुआ विस्तृत (बंगला), भगाया हुआ (हिंदी)
अपसारी	विशेषण	हिंदी	1. परस्पर विपरीत दिशा में जाने, चलते रहने वाले (डाइवर्जेंट), दूर करने या हटाने वाला
अपसारी		नेपाली	
अपसारिन्		संस्कृत	+ 2. दूर गमनशील (बंगला)
अपसारी		बंगला	+ 3. विरुद्ध जाकर रहने वाला, उल्टा चलने वाला (नेपाली)
अपसिद्धान्त	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. गनत या भ्रमयुक्त, खोटा या दोषयुक्त निर्णय
अपसिद्धान्त		कन्नड, नेपाली	2. एक निग्रहस्थान (न्याय), कुसिद्धान्त
अपसिद्धान्त		गुजराती, बंगला	3. भूल भरे तर्क पर टिका निर्णय, गलत तर्क
अपसिद्धान्त		मराठी	4. विरुद्ध सिद्धान्त (जैन), भ्रान्त धारणा
अपसिद्धान्तं		मलयालम	+ 5. असुन्दर या खराब विचार, दुर्नीति (नेपाली)
अपसितान्यम्		तमिल	6. तद्र विचार जो निश्चित सिद्धान्त के विरुद्ध हो
अपसुर्या	विशेषण	मराठी	बेसुरा गाने वाला, बेसुरा बाजा
अपसूर्य	संज्ञा	मलयालम	सूर्य से सर्वाधिक दूर बिन्दु
अपसृत	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1. पलायित 2. च्युत 3. पीछे हटा हुआ, परित्यक्त
अपसृत		नेपाली	4. फेंका हुआ 5. फैलाया हुआ, वापिस आया हुआ
अपसृत		बंगला	6. निकाला हुआ; अप्रत्यक्ष; तुप्त, युद्ध से भागा हुआ
अपसृतासंधि	संज्ञा	मलयालम	भगोड़ों से संधि स्थापन
अपसृता	संज्ञा	नेपाली	परित्यक्ता, पलायिता
अपसृति	संज्ञा	मलयालम, बंगला, हिंदी	पलायित, चलित, अपसरित

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपसृप्ति	सज्ञा	संस्कृत	दूर चला जाना
अपसकम्भं	सज्ञा	मलयालम	बधन, दृढ करना
अपस्कर	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत, कन्नड + 1	गाडी का कोई हिस्सा पहिया धुरा आदि
अपस्कर (रं)		बंगला, मलयालम	2 विष्ठा 3 गुह्यदेश 4 योनि, मलद्वार
अपस्कार(रं)	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत, मलया	घुटने के नीचे का पिछला भाग
अपस्वसं	सज्ञा	मलयालम	फिसलना, कूदना, उछलना
अपस्तम्भ	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1 वेगयुक्त, चुस्त, अतितीव्र (विशेषण)
अपस्तम्ब	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	2 मीने में जहा प्राणवायु रहती है वह अग, प्राणवायु
अपस्तम्भं	सज्ञा	मलयालम	का वाम स्थान (सज्ञा)
अपस्तुति	सज्ञा	हिंदी	1 निंदा 2 शिकायत
अपस्नात	सज्ञा	हिंदी	1 जो शवयात्रा के बाद नहाया हो, अशौच स्नान
अपस्नात		कन्नड, बंगला	2 मृत्यु के बाद शवस्नान, अयस्नान किया हुआ
अपस्नात		मलयालम	3 अशौच या क्रियाकर्म के बाद स्नान किया हुआ
अपस्नास्तु		तेलुगु	4 किसी के नहाये हुए पानी में नहाया हुआ
अपस्नान	सज्ञा	हिंदी, मराठी, नेपाली	1 मृतक की क्रिया कर्म के बाद किया स्नान
अपस्नान		कन्नड, संस्कृत	2 अशौच निवारण स्नान, मृतक पातक स्नान
अपस्नानं		मलयालम	3 अपवित्र पानी से नहाना, मृतक स्नान
अपस्नानम्		तेलुगु	+ 4 स्नान किये हुए पानी से पुन स्नान (संस्कृत)
अपस्पश	विशेषण	संस्कृत, मलयालम	जिसके पास जामूस न हो
अपस्फीति	सज्ञा	हिंदी	अनुचित विस्तार या फैलाव (मुद्रा का)
अपस्पर्श	सज्ञा	हिंदी	1 सज्ञा, चेतना या अनुभव शक्ति रहित स्पर्श
अपस्पर्श	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	2 मृत, सज्ञाशून्य, स्पर्श अनुभूति रहित
अपस्मार	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 स्मृति लोप, विस्मृति, विस्मरण, अपस्मृति
अपस्मार		मराठी, कन्नड, संस्कृत	2 काव्य में एक संचारी भाव जिसमें प्रेमी-प्रेमिका
अपस्मार		असमी, बंगला	विरह की चरमावस्था में कांपते और बेहोश हो
अपस्मारं		मलयालम	कर गिर पड़ते हैं
अपस्मारम्		तमिल	+ 3. शिव द्वारा दमित एक दानव (मलयालम)
अपस्मारम्		तमिल	4. एक रोग जिसमें रोगी का कंलेजा धड़कता है और

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपस्मारम्		तेलुगु	वह बेहोश होकर गिर पड़ता है (एपाप्लेकसी)
अपस्मारकुडु	संज्ञा	तेलुगु	मर्लिन, गंदा, अपवित्र व्यक्ति, मिर्गी का रोगी
अपस्माररोगम्	संज्ञा	तमिल	मिर्गी का रोग
अपस्मारी	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1. मिर्गी का रोगी, अपस्मार रोग से पीड़ित
अपस्मारि		मलयालम	2. विस्मरणशील, घबराया हुआ
अपस्मारिन्		संस्कृत	3. भुलझड़, भूल जाने वाला
अपस्मृति	संज्ञा	मलयालम	स्मृति नाश, स्मरण शक्ति की हानि,
अपस्मृति	संज्ञा	हिंदी, तेलुगु, संस्कृत	घबड़ाया हुआ, क्षीण स्मृति वाला
अपस्मग्निक्कुक्क	संज्ञा	मलयालम	भूल जाना, विस्मरण होना
अपस्या	संज्ञा	मलयालम	1. प्रयत्न 2. जल 3. यज्ञवेदि बनाने के लिए ईंट
अपस्यु	विशेषण	मलयालम	1. कार्य 2. यज्ञ कार्य, बलिदान कार्य 3. चुस्त
अपस्वर	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1. बेमुरा, बेमुरी धुन, बेमेल स्वर-ताल-धुन, विसंवादी
अपस्वर		कन्नड, मराठी	स्वर, वर्ज्य स्वर, सुर-ताल विरुद्ध स्वर
अपस्वरं		मलयालम	2. रूखा, कर्कश शब्द, कर्णकटु शब्द
अपस्वरम्		तेलुगु	+ 3. अशुद्ध उच्चारण, संगीत में अशुद्ध स्वर (तेलुगु)
अपस्वार्थ	संज्ञा	मराठी	1. अपना ही मतलब निकालने का भाव
अपसुआरथ		पंजाबी	2. केवल अपना ही लाभ
अपस्वार्थी	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	1. मतलबी, खुदगारज, निकृष्ट स्वार्थ वाला
अपस्वार्थी		तेलुगु	2. दूसरे की हानि की चिन्ता किए बिना केवल अपने
अपसुआरथी		पंजाबी	लाभ पर ध्यान रखने वाला; स्वार्थ साधनरत
अपह	विशेषण	हिंदी, मलया, संस, कन्नड	1. निवारण या नाश करने वाला + मिया देने वाला (तेलु)
अपहम्		तेलुगु	+ 2. दूर ही दूर रखना, हटा देना; समासान्त प्रयुक्त
अपहत्त	विशेषण	हिंदी, नेपाली, बंगला	1. नष्ट, विनष्ट, नाश किया हुआ, बिगाड़ा हुआ
अपहत्त		मलयालम, कन्नड, संस	2. निहत, मृत, हत्या की हुई, अपहनित, मारा हुआ
अपहत्तम्		तेलुगु	+ 3. दूर किया हुआ, छूटा हुआ (कन्नड)
अपहत्ता	विशेषण	बंगला	1. विनष्ट 2. अनाथ, असहाय 3. हतभाग्य 4. ग्राम्य
			5. जिसके मरने पर कोई पिंडदान करने वाला न हो
अपहति	संज्ञा	मलयालम, हिंदी	1. नाश करना 2. हटा देना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपहृति		गुजराती, संस्कृत, तेलुगु	3 चोट पहुचाना, घूँसा या धक्का मारना (मलया)
अपहृति	विशेषण	तेलुगु	धोखा देकर ले जाने वाला, चोरी करने वाला
अपहृत्ते/हृत्या	संज्ञा	नेपाली	आत्महत्या, आत्मघात
अपहन	विशेषण	नेपाली	नाश करने वाला, वध करने वाला,
अपहना		तेलुगु	+ अतकारक (तेलुगु)
अपहननं	संज्ञा	मलयालम	+ 1 घृणाजनक, प्रतिकर्षी (वारडिंग आफ़) (मलया)
अपहनन	संज्ञा	संस्कृत	2 निवारण करना 3 हटाना, प्रतिक्लेष करना 4 मारना, पीछे या परे हटाना
अपहनिक्कुक्	सकर्मकक्रिया	मलयालम	मार डालना, दूर हटाना, हटा देना, मार भगाना
अपहन्ता (बु)	संज्ञा	मलयालम	1 विनाशक 2 जो हटा दे या मिटा दे
अपहरण	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 छीनना, चुराना, लूटना, गायब करना, छिपा लेना
अपहरण		कन्नड, मराठी, संस्कृत	2 किसी व्यक्ति को उठा ले जाना (किडनैपिंग)
अपहरण		असमी, उड़िया, बंगला	3 कर न देना पड़े अत छिपाकर ले जाना
अपहरणं		मलयालम	+ 4 अन्याय से प्राप्ति, चोरी, डाका, गबन (असमी)
अपहरणम्/हरम्		तेलुगु	5 बल पूर्वक लेना 6 धोखे से ले जाना
अपहरणीय	संज्ञा	मराठी	1 (वस्तु या व्यक्ति) जो अपहरण करने योग्य हो
अपहरणीय	विशेषण	हिंदी	यथा मूल्यवान या सुन्दर + 2 गोपनीय (हिंदी)
अपहरिसु	सकर्मक क्रिया	कन्नड	चुराना, लूटना, मिटा देना, खींच लेना
अपहरिषु		तेलुगु	छीनना, उठा ले जाना, वंचित करना
अपहरितसु/अपहरना		तमिऴ, हिंदी	अपहरण करना, टगना
अपहरिक्कुक्		मलयालम	छिपाकर ले जाना, बलपूर्वक ले जाना
अपहर्ता	विशेषण	हिंदी, मरा, नेपा, बंगला	1 अपहरण करने वाला, छिपाने वाला, अपलापकारी
अपहर्ता (बु)	संज्ञा	मलयालम, तेलुगु	2 चोर, लुटेरा, हर कर ले जाने वाला
अपहर्तृ		संस्कृत	3 बल पूर्वक ले जाने वाला. छीनने वाला
अपहस	विशेषण	मलयालम	बुरे हल वाला
अपहसन	संज्ञा	कन्नड	हसी उड़ाना, चिढ़ाना
अपहसनक्रोध	संज्ञा	कन्नड	अपमान या धिक्कार का क्रोध
अपहसित	विशेषण	हिंदी, बंगला, संस्कृत	1. उपहास करना, मज़ाक उड़ाना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपहसितं अपहसित	संज्ञा	मलयालम कन्नड	2. मूर्खतापूर्ण, निरर्थक, अकारण, अर्थहीन हंसी + 3. आंसू भरी हंसी (मलयालम)
अपहसिबकुक् अपहसिंबु	क्रिया क्रिया	मलयालम तेलुगु	मज़ाक उड़ाना, उपहास करना, टिठोली करना, चिढ़ाना, ताना मारना
अपहस्त अपहस्तं	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत मलयालम	1. गलहस्त या अर्धचंद्र देना, निकाल देना 2. ले जाना, चुराना 3. फेंकना, लूटना + 4. गति क्रीड़ा में ताड़ना (मलयालम)
अपहस्तित अपहस्तित	विशेषण विशेषण	हिंदी संस्कृत	1. फेंका हुआ, परिच्यक्त 2. गर्दन में धक्का दे निकाला हुआ, अर्द्ध चंद्रित 3. गद्दी किया हुआ
अपहान/हानि अपहाय	संज्ञा अव्यय	हिंदी, संस्कृत मलयालम	1. परिच्योग 2. कम होना 3. गायब होना, नाश 1. छोड़ना, त्यागना 2. निरपवाद या बिना अपवाद के
अपहार अपहार अपहार अपहारम् अपहारं अपहारम्	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत गुजराती, नेपाली बंगला, कन्नड, मराठी तमिल मलयालम तेलुगु	1. दूसरे की सम्पत्ति छीन लेना, उड़ा लेना, चुराना, लूटना, दुरुपयोग करना, अन्याय द्वारा प्राप्ति 2. गबन, संगोपन, छिपाव, दुराव 3. वापिस लेना + 4. अयथा अर्थ व्यय (बंगला) + 5. ज्योतिष में अन्तर्दशा का प्रभाव (मलयालम) 6. ऋण या बेईमानी से किसी का धन सम्पत्ति आदि लेना
अपहारतुर्य	संज्ञा	कन्नड	पुद्ध रोकने की सूचना देने वाला वाद्य, तुग्ही
अपहारक अपहारक अपहारकन्	विशेषण संज्ञा	हिंदी, नेपाली, बंगला असमी, संस्कृत मलयालम	1. ठग, चोर, लुटेरा, डाकू, अपहरण करने वाला 2. बलात हरणकर्ता 3. छीनने या लूटने वाला
अपहारित	विशेषण	हिंदी, बंगला	1. छीनी, लूटी, नाशित, लुठित, खोई वस्तु 2. छीना, लूटा, छिपाया हुआ माल
अपहारि अपहारिन् अपहारी	संज्ञा	मलयालम, तेलुगु, कन्न संस्कृत, बंगला हिंदी, नेपाली, असमी	1. देखे:— अपहारक के सभी अर्थ 2. अपहरण करने वाला, चुराने वाला, चोर, डकैत छीनने वाला, खोंसने वाला, लूटने वाला
अपहार्य	विशेषण	हिंदी	चुराने, छीनने, बलात प्राप्त करने योग्य

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपहास अपहास अपहास अपहासमु	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, बंगला कन्नड, संस्कृत मलयालम तेलुगु	1 मूर्खतापूर्ण, घृणापूर्ण, वृथा, अनुचित, अकारण, विकृत हसी, अनुपयुक्त समय पर हास्य 2 चिढ़ाना, मजाक उड़ाना, हमना-छेड़ना 3 उपहास करना, हसी उड़ाना
अपहासक/कन् अपहासि/न्	संज्ञा	संस्कृत, मलयालम मलयालम, संस्कृत	खिल्ली या मजाक उड़ाने वाला, चिढ़ाने, खिजाने या छेड़ने वाला; निदक
अपहास्यं/स्य अपहास्यमु	विशेषण	मलयालम, संस्कृत तेलुगु	खिल्ली या हसी उड़ाने लायक, उपहास किये जाने योग्य, मृणा योग्य
अपहित अपहीनं अपहृता	विशेषण संज्ञा विशेषण	मलयालम मलयालम असमी	अहित, अग्र नहीं, वृग, हित के विपरीत 1 नष्ट 2 हजाना, क्षतिपूर्ति 3 जुर्माना 1 अनिर्मत्रित 2 उपदेवता, देवता का दृष्ट अनुचर 3 अनचाहा, अनावश्यक, व्यर्थ
अपहृति	संज्ञा	मलयालम	1 अपहार 2 ज्यातिष में दशापहार, अतर्दशा प्रभाव
अपहृत अपहृत अपहृतमु	विशेषण विशेषण	हिंदी, नेपाली, मलयालम बंगला, संस्कृत तेलुगु	1 धोखे से चुगकर, लूटकर, छीनकर लिया हुआ 2 (पदार्थ) जो जबरदस्ती छीना गया हो 3 (व्यक्ति) जिसकी चीज छीनी या लूटी गयी हो
अपहृति अपहृत्य	संज्ञा अव्यय	हिंदी, कन्नड, मलया मलयालम	व्यक्ति जिसकी चीज छीन ली गई हो छीनकर, चुगकर, लेजाकर (मणि प्रवाल शैली प्रयोग)
अपहनव अपहनव अपहनव अपहनवं अपहव	संज्ञा संज्ञा	हिंदी, संस्कृत नेपाली कन्नड मलयालम मराठी	1 वस्तुस्थिति का गोपन, सत्य का अपलाप, अपना ज्ञान या मनोभाव युक्तिपूर्वक छिपाना 2 टालमटोल, बहाना, वाग्जाल, बात बनाना 3 तुष्टिकरण, तृप्त या सतुष्ट करना 4 प्रेम, स्नेह 5 कपट नाट्य, + हानि (मराठी)
अपहनविक्रमुक	सकर्मक क्रिया	मलयालम	छिपाना, गोप्य रखना, गुप्त करना
अपहनुति अपहनुति अपहनुति अपहनुति अबनुधि	संज्ञा	हिंदी, गुजराती मराठी, संस्कृत नेपाली, बंगला मलयालम तमिल	1. काव्य शास्त्र में एक अलंकार 2. उपमेय का निषेध कर उद्भ्रमान स्थापन 3. मूल धर्म के बदले दूसरे का आरोप 4. ज्ञान प्रतिषेध, सत्य से इन्कार 5. दुगाव, छिपाव, टालमटोल (कन्सीलमेंट)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपह्नोता(तु) अपह्नत	विशेषण संज्ञा	हिंदी, संस्कृत संस्कृत	इन्कार करने वाला, छिपाने वाला, मुकरने वाला घटाव, कमी, त्रुटि, न्यूनता
अपांक्त अपांक्तेय	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी उड़िया	भोजन की पंक्ति में साथ बैठकर खाने का अधिकारी नहीं, जाति बहिष्कृत, (ब्राह्मण)
अपांक्त-पत्र	संज्ञा	मराठी	जाति बहिष्कृति का पत्र
अपांग अपांग अपांग अपाङ्ग(गं) अपांगमु	संज्ञा विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी असमी, उड़िया, बंगला कन्नड, संस्कृत नेपाली, मलयालम तेलुगु	1. आँख की कोर से देखना, तिरछी नज़र, कटाक्ष, दृष्टि क्षेप, चितवन, कृपा दृष्टि, बायीं आँख (कन्नड) 2. सम्प्रदाय सूचक चौकोर तिलक 3. कामदेव 4. अपामार्ग 5. काना, विकलांग, शरीर रहित, अशरीरी, अपाहिज, पंगु, अंगहीन (विशेषण)
अपांगम् अपांगम्(कुडु) अपाङ्गम्	संज्ञा संज्ञा संज्ञा	मलयालम मलयालम, संस, (तेलुगु) तमिल	1. विकलांग, अपाहिज, पंगु, अंगहीन, काना, अंधा, लूला, बहरा, विकृत अंग 2. अवयवहीन; अशरीरी, कामदेव, अनंग
अपांगमें	अकर्मकक्रिया	मराठी	1. विघ्न-बाधा झलना 2. अज्ञा 3. रुकना 4. लूला ह्रेना
अपांगदर्शन अपांगदर्शन अपांगदर्शनं	संज्ञा	हिंदी, बंगला, संस्कृत कन्नड, गुजराती मलयालम	कनखियों से देखना, तिरछी नजर से देखना, नेत्र की कोर से देखना. आँख मारना, कटाक्षपात
अपांगबीक्षणं(म्) अपांगदृष्टि	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत हिंदी, गुजराती, बंगला, संस	टेढ़ी नज़रों से देखना, तिरछी चितवन, कटाक्ष, आँख मारना
अपांगदेश अपांग नेत्र अपांगि	संज्ञा विशेषण संज्ञा	कन्नड गुजराती कन्नड	आँख के बाहरी कोने का भाग अणियाली या टेढ़ी आँख वाला स्त्री जिसकी आँखों का बाहरी कोना टेढ़ा हो
अपांगुसे अपांगुला	संज्ञा विशेषण	कन्नड हिंदी	निर्मल चरित्र या पतिव्रता स्त्री सचरित्र स्त्री, पतिभक्त स्त्री
अपाकरण अपाकृत अपाकृति	संज्ञा संज्ञा संज्ञा	हिंदी, नेपाली, बंगला, संस कन्नड, बंगला हिंदी	1. निराकरण, दूर करना, निवारण, प्रशमन, परित्यक्त, हटाया गया, छीना गया; व्यवसाय-उत्तोलन 2. प्रकृति का अन्यथाभाव, विकृतकरण 3. अस्वीकृति,

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपकृति	सज्ञा	संस्कृत	नामजूरी 4 ऋण चुकाना (लिव्कीडेशन आफ़ डैट) + 5 भय या क्रोध से उत्पन्न उच्छ्वास (संस्कृत); व्यवसाय
अपाकरिकुक	सकर्मक क्रिया	मलयालम	दूर कर देना, नष्ट करना, छितराना
अपाकर्म	सज्ञा	हिंदी	1 ऋण परिशोधन या अदायगी, चुका देना
अपाकर्मन्		संस्कृत	2 किमी व्यापारिक प्रतिष्ठान का देना पावना चुका
अपाकर्मन्	सज्ञा	हिंदी	उसे अधिकार में लेना या नद करना (लिव्कीडेशन आफ़ कम्पनी)
अपाकीर्ण	सज्ञा	बंगला	परित्यक्त, दूरीकृत
अपाक्ष	विशेषण	मलयालम, हिंदी, संस्कृत	1 प्रत्यक्ष 2 सन्निहित 3 नेत्र विहीन या बुरी आंखों वाला
अपाधि/अपाधी	सज्ञा	कन्नड, हिंदी, संस्कृत	दक्षिण या पश्चिम दिशा
अपाधीन	विशेषण	संस्कृत, हिंदी	1 पीछे को घूमा या मुड़ा हुआ 2 अदृश्य जो दिग्वाई
अपाधीनम्	सज्ञा	तमिल	न दे 3 दक्षिण या पश्चिम का उल्टा
अपाध्य	विशेषण	संस्कृत, हिंदी	दक्षिणी या पश्चिमी
अपादान	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	1 हटाना, ले जाना, नियुक्त करना, बिलगाव, अलगाव
अपादान		नेपाली, मराठी, कन्नड	पृथक्ता, विभाग
अपादान		असमी, उड़िया, बंगला	2 वह वस्तु जिसमें से कुछ अश हटाया या निकाला जाय
अपादानं		मलयालम	3 किसी चीज में से कुछ हटाना या निकाल लेना
अपादानम्	सज्ञा	तमिल	4 व्याकरण में पाचवी विभक्ति या उसकी भावना
अपादानकारक	सज्ञा	हिंदी, कन्नड	वाक्य में कल्पित या वास्तविक विश्लेष
अपादनवाचक		कन्नड	या क्रिया के आरंभ का आधार पाचवा कारक
अपाध्वा(बु)	सज्ञा	मलयालम	बुरा मार्ग, कुमार्ग, निषिद्ध मार्ग, ऐसा रास्ता जिस
अप-अध्वन्		संस्कृत	पर नहीं जाना चाहिये, अपकृष्ट मार्ग
अपान	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, संस्कृत	1 पाच प्राणों में एक अधोगत वायु
अप-अन(ले जाना)		उड़िया, कन्नड, बंगला	2 गुदा के ऊपरी भाग में स्थित मल मूत्र निष्कासक
अपान		नेपाली, मराठी	वायु 3 गुदमार्ग से निकलने वाली वायु 4. गुदा
अपानं		मलयालम	+ 5 श्वास छोड़ना, उच्छ्वास (मराठी)
अपानम्		तेलुगु	+ 6 आत्मज्ञान, आत्मगौरव, अहंकार (हिंदी), (सज्ञा)
अपानम्		तमिल	+ 7 दुःखहर्ता ईश्वर का एक विशेषण (हिंदी)
अपानद्वार	सज्ञा	हिंदी, मराठी, गुजराती	गुदा, अपान वायु का मार्ग

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपानन	संज्ञा	हिंदी	1. सांस खींचना 2. मल-मूत्र त्याग
अपानन्	विशेषण	तमिल	3. जिमका आनन या मुख न हो, मुखरहित
अपानवायु	संज्ञा	हिंदी, गुज, कन्न, मरा	गुदाद्वार से निकलने वाली वायु, पाद, गोज
अपानृत	विशेषण	हिंदी, मलयालम, संस्कृत	मिथ्या से भिन्न, मत्य, वास्तविक, छल रहित
अपामार्ग	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1. चिराचिटा, चिचड़ा, एक बूटी या झाड़
अपामार्ग		बंगला, कन्नड, मराठी+	2. यज्ञ कर्म में प्रयुक्त एक औषधि (मराठी)
अपामावर्कम्		तमिल	लटजीग, अज्जाझारा
अपामार्जन	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. धोना, पखारना, शुद्धि, सफाई, पवित्रीकरण
अपामार्जन		नेपाली	2. (रोग आदि) दूर करना
अपामृत्यु	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	अकाल मृत्यु, विष खाने, साँप काटने या दुर्घटना आदि से बचने वाली मृत्यु
अपाम्बे	विशेषण	नेपाली	अन्यन्त, अगाध, ज्यादा
अपाय	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. खतरा, मंकाट, आफत, जोखिम, ख्वागी, बाधा, विपत्ति, उपद्रव, अमंगल, उत्पात
अपाय		मराठी, गुजराती	2. हानि, नुकसान, घाटा, टोंटा, दुर्भाग्य, अपकार
अपाय		नेपाली, बंगला	3. चोट, घाव, मृत्यु, नाश, सर्वनाश, विनाश, अंत
अपाय		असमी, उड़िया	4. वियोग, अलगाव, अदृश्यता, अविद्यमानता, लोप, अपगमन, पार्थक्य, स्थानभ्रंश
अपायं		कन्नड	5. नीति विरुद्ध आचरण, किसी को हानि पहुंचाना
अपायं		मलयालम	6. विपत्ति या भय की आशंका, निरुपाय (हिंदी)
अपायम्		तेलुगु	
अपायम्, अबायम्		तमिल	
अपायकटम्	संज्ञा	तमिल	खतरनाक हालत
अपायकोटि	संज्ञा	तमिल	खतरों की झंडी, लाल झंडी
अपायतन्त्रिम्	संज्ञा	तमिल	धूर्तता, छल
अपायी	विशेषण	हिंदी, बंगला	1. नष्ट होने वाला, नश्वर 2. अस्थिर, अनित्य
अपायिन्		संस्कृत, हिंदी	3. हानिकारक 4. अलग या दूर होने वाला
अपार्थ	विशेषण	संस्कृत	दूरवर्ती; समीप का
अपार्थ	संज्ञा	मलयालम	1. अर्थशून्य, अर्थहीन, निरर्थक, पद या वाक्य का
अपार्थ	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	अर्थ स्पष्ट न होने का दोष (साहित्य)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपार्थ अपार्थम् अपार्थम्	संज्ञा	कन्नड तेलुगु तमिल	2. निष्प्रयोजन, उपयोग हीन 3. गलत व्याख्या, बुरा, झूठ असंबद्ध, अशुद्ध फल, उद्देश्य हीन दूषित अर्थ 4. असम्बद्ध प्रलाप 5. एक छंद दोष + 6. तर्क की गलती (तमिल) 7. असंगत युक्ति देना या बात कहना
अपार्थक अपार्थक अपार्थक अपार्थकम्	विशेषण	हिंदी, असमी मराठी, संस्कृत मलयालम तमिल	1 जहाँ पूर्वा पर संबध न हो ऐसे वाक्य (न्याय) 2 निकम्मा, अर्थहीन, निष्प्रयोजन, धनहीन, निरर्थक + 3. कर्म शक्ति से हीन (असमी) + 4 फुष्ट, मुसीबत (असमी)
अपार्थकारण अपार्थक	संज्ञा संज्ञा	मलयालम मलयालम	व्यवहार में असत्यवाद, झूठी गवाही (अदालत में) बगल का मर्म स्थान
अपावरण अपावरण अपावरणं	संज्ञा	हिंदी, बंगला गुजराती, संस्कृत मलयालम	1 उद्घाटन, खोलना, आवरण हटाना, उघाड़ना, फिर से प्रकाश में लाना, रहस्यमुक्त करना + 2. ढकना, छिपाना, पर्दा डालना. आचप्रदन (बंग, मलया, संस)
अपावर्तन अपावर्तनं अपावर्तन	संज्ञा संज्ञा संज्ञा	हिंदी, बंगला मलयालम संस्कृत	1 मुख मोड़ना, वापिस आना, लौट जाना, पीछे हटना, भाग जाना 2. अस्वीकृति, तिरस्करण, पीछे हटाना 3. परिवर्तन, क्रान्ति 4. वचन भंग करना
अपावृत अपावृत अपावृत अपावृत	विशेषण विशेषण	हिंदी, मराठी बंगला, संस्कृत कन्नड मलयालम	1 आवरण हटा हुआ, उद्घाटित, उघडा हुआ, खुला हुआ, स्वतंत्र, अनियंत्रित, पुनः प्रकाशित + 2. प्रकाशित, प्रतिबद्ध, स्वेच्छाचारी, स्वाधीन (बंगला) 3. अनियंत्रित + 4. ढका हुआ, छिपाव, घेरना (संस) 5. तिरस्कार पूर्वक पीछे लौटाया या हटाया हुआ
अपावृत्ति अपावृत्ति	संज्ञा	हिंदी मलयालम	1. आवरण या पर्दा हटाना 2. पीछे हटाना 3 छिपने का स्थान 4. ढकना, छिपाना
अपावृत्त अपावृत्त	भूत कृदन्त विशेषण	हिंदी मलयालम	1 लौटाया या पीछे हटाया हुआ 2. तिरस्कारपूर्वक अस्वीकृत किया हुआ 3. पराजित, प्रताड़ित
अपावृत्तं अपावृत्त	संज्ञा संज्ञा	मलयालम हिंदी	1 एक तरफ हट जाना 2. जमीन पर लुढ़कना 3. शत्रु को पकड़ने के लिए रस्ते का फंदा फेंकना
अपावृत्ति	विशेषण	मलयालम	आश्रय हीनता, कंगाली

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपाश्रय	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1. जिसे आश्रय या सहारा न हो, आश्रयहीन
अपाश्रय	संज्ञा	बंगला, कन्नड	2. आश्रय स्थान, आश्रय स्थल + बाढ़ (कन्नड)
अपाश्रयं	संज्ञा	मलयालम	3. पंडाल, शामियाना, चंदोवा, पलंग का सिरहाना
अपासिरियन्		तमिल	+ 4. हाथी के विश्राम का चबूतरा (मलयालम)
अपाश्रयवान्	विशेषण	मलयालम	अम्वतंत्र, परतंत्र, पराधीन
अपाश्रित	विशेषण	हिंदी	1. एक आश्रय में समय व्यतीत करने वाला, एकांत
अपाश्रित		संस्कृत	मेवी, अधिवसित, अवस्थित, अवलंबित
			2. त्यागी, विरक्त, संन्यस्त
अपासंग	संज्ञा	कन्नड, हिंदी	1. तरकस, तूणीर
अपासंगं		मलयालम	+ 2. सामीप्य, कम्पन (मलयालम)
अपासन	संज्ञा	हिंदी, बंगला, नेपाली	1. दूर फेंकना, अलग करना, दूरीकरण
अपासन		कन्नड, संस्कृत	2. ध्वंस, विनाश, वध करना, नाशन, मारना
अपासनं		मलयालम	3. वर्जन, त्याग, अस्वीकार, निरसन (रोकना)
अपासरण(णं)	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत, मलयालम	गमन, पलायन, भागना, दूर हटने की क्रिया
अपासित	विशेषण	नेपाली, संस्कृत	+ 1. अस्वीकृत (नेपाली) 2. दूर फेंका हुआ, नष्टकृत,
अपासित		मलयालम, हिंदी	मारा हुआ + 3. त्यागा हुआ, उपेक्षित (संस्कृत)
अपासु	विशेषण	मलयालम, संस्कृत, हिंदी	प्राणहीन, निर्जीव, मृत
अपास्त	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	क्षिप्त, त्यक्त, उपेक्षित, तिरस्कृत, नष्टकृत, पराजित
अपास्य	अव्यय	मलयालम	त्यागना या दूर हटाना (कविता में), तिरस्कृत करना
अपासरो	संज्ञा	गुजराती	उपाश्रय (जैन साधु)
अपाहरण	विशेषण	बंगला	आकर्षण, दूरीकरण
अपाहित्	संज्ञा	मलयालम	अकृशल व्यक्ति, अनिपुण
अपेक्षक	विशेषण	हिंदी	1. अपेक्षा या पाने की आशा करने वाला
अपेक्षक	विशेषण	बंगला	2. चारा ओर देखने वाला, अपेक्षण करने वाला
अपेक्षण	संज्ञा	हिंदी	1. चारों ओर देखना, परिदर्शन, प्रतीक्षा
अपेक्षण	संज्ञा	संस्कृत	2. उद्देश्य मित्र के लिए किसी से आकांक्षा रखना
अपेक्षण		बंगला	3. चाटना, आमग देखना, प्रतीक्षा करना, अपेक्षा
			4. पालन पोषण, भरण पोषण करना, रक्षण करना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपेक्षणीय अपेक्षणीयम्	विशेषण	हिंदी, गुज, बंगला, मरा, संस तेलुगु	1 वाछनीय 2 अनुमाननीय, प्रतीक्षणीय 3 आशा करने योग्य, अभिलषणीय
अपेक्षया	क्रिया विशेषण	हिंदी, मराठी	किसी की तुलना में, अपेक्षाकृत, बनिस्बत
अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षते/अपेक्षे अपेक्षा	सज्ञा	हिंदी, गुजराती मराठी, नेपाली असमी, उड़िया तेलुगु, संस्कृत कन्नड बंगला	1 आशा, इच्छा, उम्मीद, आकांक्षा, अभिलाषा, आवश्यकता, भरोसा (कुछ पाने की दृष्टि से) 2 इधर उधर चारो ओर देखना 3 अस्तित्व, क्रम, विकास, स्थिति के विचार से बातों या वस्तुओं का स्वाभाविक सबंध 4 कमी की वह स्थिति जिसके बिना पूर्णता न आवे (रिक्वायरमेंट) 5 प्रतीक्षा 6 तुलना में (अव्यय)
अपेक्षाकृत अपेक्षाकृत	क्रिया विशेषण	हिंदी, उड़िया, बंगला नेपाली, मराठी	1 तुलना, समानता या मुकाबले में, साधारणतया 2 अपेक्ष्य का ध्यान रखते हुए, निस्बतन
अपेक्षाबुद्धि अपेक्षाबुद्धि	सज्ञा	हिंदी संस्कृत	1 कार्य कारण सबंध, पारस्परिक घटनाक्रम समझने की मानसिक शक्ति 2 भेद बुद्धि
अपेक्षित अपेक्षित अपेक्षितम्	विशेषण विशेषण सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी नेपाली, संस्कृत, बंगला तमिल, कन्नड	1 वांछनीय, आकांक्षित, प्रयोजनीय, प्रत्याशित, प्रतीक्षित, आवश्यक, जरूरी, जिसकी चाह हो 2 आजमाइश करना, अटकल लगाना (मराठी)
अपेक्षिककुक्क अपेक्षित-तत् अपेक्षितु	सकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया	मलयालम तमिल कन्नड	1 इच्छा करना, प्रार्थना करना 2 आवश्यकता अनुभव करना 3 मोंगना, खोजना, उम्मीद करना
अपेक्षी अपेक्षि	विशेषण	हिंदी, मराठी, बंगला कन्नड	1 जिसे किसी से आशा या उम्मीद हो, मुहताज 2 अपेक्षा करने या रखने वाला, निर्भर-शील
अपेक्ष्य अपेक्ष्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती, संस्कृत नेपाली, मराठी, बंगला	1 जिसकी अपेक्षा की जाय, अपेक्षणीय 2 इच्छा करने योग्य वांछनीय
अपेत अपेत अपेत	विशेषण	हिंदी, नेपाली, बंगला कन्नड, मलयालम संस्कृत	1 दूर गया या हटा हुआ, बिछुड़ा हुआ, पलायित 2. मार्गभ्रष्ट, वंचित, रहित, खोया या ठगा हुआ + 3 हटाया हुआ 4 विरुद्ध 5 भुक्त
अपेष्टा	सज्ञा	मराठी	दुरवस्था, कष्टकर स्थिति, धलेश

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अपोक	विशेषण	मलयालम	1. जलहीन 2. जिरामें जल न जा सके 3. ठोस
अपोठ	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1. स्थानान्तरित, निकाला हुआ, बाधित, अपवहित
अपोड		मलयालम, संस्कृत	2. उठाया, हटाया, निकाला या त्यागा हुआ, निरस्त
अपोड्	विशेषण	बंगला	अधजला, अधपका, कच्चा
अपोदकं	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	विष, जलापकर्ष हेतु विष
अपोद्वरणस्थालि	संज्ञा	मलयालम	यज्ञ पात्र, बलि का पात्र
अपोद्वारं	संज्ञा	मलयालम	वाक्य विश्लेषण (व्याकरण में)
अपोह	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. दूर करना, धक्का देना, स्थानान्तरित करना 2. सदिह
अपोह		नेपाली	निवारण करना; तर्क-वितर्क करने, समझने-बूझने
अपोह		कन्नड	की शक्ति, चिंतन
अपोहं		मलयालम	3. तर्क का विपरीत तर्क द्वारा खंडन करने की शक्ति
अपोहनं	संज्ञा	मलयालम	(ऊहा का विपर्याय, बुद्धि का एक गुण)
अपोहन	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	4. बौद्ध दर्शन के अनुसार उपयोगी से अतिरिक्त का त्याग
अपोहमुं		तेलुगु	5. विचारणीय की सीमा से बाहर विषयों का निराकरण
अपोह्य	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1. दूर कर देने लायक, ले जाने लायक
अपोहनीय	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	2. युक्ति से सिद्ध करने योग्य 3. स्पष्टीकरण के लायक

‘अव’ उपसर्ग की व्याप्ति

‘अव’ भी संज्ञा या क्रिया शब्दों के आदि में जोड़ा जाता है। यह ‘अप’ का ही छोटा भाई है। इससे बने अनेक शब्द ‘अप’ का ही हलका रूप होते हैं। यथा अपमान में भाव की तीक्ष्णता अधिक और अवमान में कुछ कम है। परन्तु ‘अव’ की अर्थ-प्रकट करने की अपनी स्वतंत्र सत्ता तथा व्यापकता भी है। अर्थात् इसके बदले ‘अप’ का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। शब्दों में जुड़कर यह निम्नलिखित अर्थ-संकेत करता है। ये अर्थ-संकेत एक दूसरे का स्पर्श भी करते हैं और पृथक् भी हैं। तमिल में अनेक ऐसे शब्दों में अप और अव का विकल्प प्रयोग भी मिलता है।

अर्थ संकेत

अनादर
आक्षेप, परिहास आदि
नीचे की ओर
अनुचित, दूषित, बुरा
आधार, आश्रय, सहारा
कमी, हास, घटाव
पतन
अभाव
खोज, छानबीन, मनन
व्याप्ति, प्रसार
निश्चय

उदाहरण

अयज्ञा
अवहेलना
अवरोहण
अवगुण
अवलंब
अवमूल्यन
अवभ्रष्ट
अवचेतना
अवगाहन
अवकीर्ण
अवधारणा

विशेष टिप्पणी— असमी, उड़िया तथा बंगला की वर्णमाला में ‘ब’ तथा ‘व’ दोनो अक्षर हैं, परन्तु उक्त भाषा-भाषियों की ‘व’ को भी ‘ब’ बोलने की प्रवृत्ति है। कोशों में शब्द लेखन में भी उसका प्रभाव है। अतः जहाँ कहीं ‘अब’ लिखा मिले उसे ‘अव’ मानकर चलें। उन प्रदेशों के शिक्षित लोग श्रोता की पात्रता के अनुसार ‘अव’ ‘अब’ का उपयोग करते हैं।

इस कोश में ‘अव’ उपसर्ग-युक्त सब भाषाओं में शब्दों की संख्या 2374 है। जिसमें दक्षिणी भाषाओं में प्राप्त मलयालम के 303, तमिल के 144, तेलुगु के 120 और कन्नड के 158 अर्थात् कुल 725 शब्द हैं। हिन्दी शब्द संख्या 426 हैं। अन्य सब भाषाओं के शब्दों की संख्या 1124 है।

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अबकट	विशेषण	संस्कृत	नीचे की ओर मुख वाला
अबकटम्/डम्	संज्ञा	तमिल	1. वंचना, छल, कपट, स्वांग, पाखण्ड, ढोंग, दुराव
अबकटिक	संज्ञा	मलयालम	2. कपटवेश, धारण करना, माया जाल रचना
अबकर	संज्ञा	नेपाली, कन्नड, संस, हिंदी	1. धूल, धूल झाड़ना, खाक झाड़ना, बुहारने से निकाली गयी धूल आदि; कूड़ा, बुहारन
अबकरं		मलयालम	2. फावड़े से इकट्ठा किया मैले का ढेर
अबकरमु		तेलुगु	
अबकरणं	संज्ञा	हिंदी	1. कम करने की क्रिया या भाव, घटाना
अबकरण		बंगला	2. गणित में शेष निकालना(रिडक्शन)
अबकरा	संज्ञा	गुजराती	1. उलटा परिणाम, उलटा असर + 2. नुकसान
अबकर्णनं	संज्ञा	मलयालम	श्रवण, कोई बात कान में पड़ना
अबकर्णिसु	सकर्मक क्रिया	कन्नड	ध्यान से कान लगाकर सुनना
अबकर्त	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	टुकड़ा, खण्ड, विभाग, धज्जी, कतरन
अबकर्तन	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	कतरन काटना, टुकड़े करना, विभाजन,
अबकर्तनं		मलयालम	विभाग करना, कैंची से कतरना
अबकर्ष	संज्ञा	मराठी	1. अधोगति, हास +बहिष्करण (संस्कृत), दूर करना
अबकर्षण		हिंदी, संस्कृत	2. नीचे की ओर खींचना, अधोनयन, तानना
अबकर्षण		बंगला, नेपाली	3. स्थानांतर के लिए बलपूर्वक दूसरी ओर खींचना
अबकर्षणं		मलयालम	+ 4. निस्सारण, निष्कासन, निष्कर्षण, निकालना(मलया)
अबकर्षिबकुक	सकर्मक क्रिया	मलयालम	1. हटाना, दूर खींच लेना, निकाल लेना
			2. सत, सार अथवा रस निकालना
अबकसन	संज्ञा	हिंदी	1. एक में मिलाना, इकट्ठा करना, जमा करना
अबकसन		नेपाली	2. ग्रहण करना, देखना, जानना या समझना
अबकसन	संज्ञा	बंगला	+ 3. घटाना, वियोग, संकलन का विपर्याय(बंगला)
अबकसनं	अकर्मकक्रिया	मराठी	उतरती कला, अवनति, अधोगति, हास होना
अबकसना	अकर्मकक्रिया	हिंदी	1. ज्ञान या बोध हेतु 2. समझ में आना(बात,विषय), सूझना
अबकसा	संज्ञा	गुजराती	1. अस्वस्थता, व्याकुलता, उलटा असर, हानि, दुर्गत
अबकसा	संज्ञा	मराठी	2. अधोगति, अवनति, हास, निस्तेजता, अप्रतिष्ठा

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवकलित अवकलित	विशेषण	हिंदी, बंगला मलयालम, संस्कृत	1. दृष्ट, ज्ञात, गृहीत, समझा हुआ, अवलोकित, प्राप्त 2. दुःशील, प्रतिकूल (मलया) + सकलित, बद्ध (बंगला)
अवकल्कन अवकल्पना	संज्ञा संज्ञा	हिंदी हिंदी	एक साथ मिलना निराधार कल्पना, हवाई उड़ान (सर्माइज)
अवकाल अवकालम्	विशेषण संज्ञा	मराठी तमिल	1. अशुभ समय, महामारी, दुर्भिक्ष आदि, दुष्काल 2. बुरे दिन, दुर्दशा, असमय में आने वाला (विशे०)
अवकाल अवकाली (ल्पा)	अव्यय विशेषण	मराठी मराठी	आजकल, इधर, फिलहाल असमय का, कुसमय का, बे मौका आने वाला
अवकाश अवकाश अवकाश अवकाशं अवकाशम्, कायम् अवकाशम्	संज्ञा संज्ञा संज्ञा संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी उड़िया, बंगला, संस्कृत कन्नड, नेपाली, असमी मलयालम तमिल तेलुगु	1 फुर्सत, मध्यातर, शून्य स्थान, रिक्त स्थान, खाली जगह, आकाश, अन्तर, फासला 2. मौका, दूरी, देर, व्यवधान, मुविधा, विश्राम, छुट्टी 3. द्रव्यसंचय स्थान, प्रशस्त प्रदेश (बंगला) 4. प्रसंग, संधि (गुजराती), विदा (नेपाली) 5. शक्ति, योग्यता (तमिल), सम्पत्ति का या मालिकाना अधिकार, दावा कारण (न्याय) (मलयालम)
अवकाश क्रमे अवकाश क्रमं अवकाश ग्रहण अवकाशार्थ्युक अवकाश नुरि	क्रिया विशेषण संज्ञा संज्ञा सकर्मक क्रिया संज्ञा	असमी मलयालम हिंदी, नेपाली, संस्कृत मलयालम तमिल	फुर्सत से, मौका मिलते ही 1 उत्तराधिकार 2 उत्तराधिकार का नियम सेवा निवृत्ति, नियमित कार्य से छुट्टी, विश्राम ग्रहण अधिकारपूर्वक मांग, दावा जताना भागीदारी का दस्तावेज जिसमें उनके सम्पत्ति में अधिकार का वर्णन हो, भाग पत्र (तमिल)
अवकाश प्राप्त अवकाश लेखा अवकाशदान	विशेषण संज्ञा विशेषण	हिंदी, नेपाली हिंदी गुजराती	कार्य या पद से फुर्सत पा जाना (रिटायर्ड) कर्मचारियों की छुट्टी का हिसाब अवकाश वाला, जिसे अवकाश मिला हो
अवकाश संख्या अवकाश सङ्ख्या	संज्ञा संज्ञा	हिंदी नेपाली	1. कर्मचारी की विदा के दिन का हिसाब 2. अवकाश लेखा
अवकाशार्थ्येयर्थि अवकाशित्थित्तत् अवकाशित्	संज्ञा सकर्मक क्रिया संज्ञा	तमिल तमिल मलयालम, तमिल	आर्थिक या अन्य प्रकार की योग्यता मौका देना, स्थान प्राप्त करना दावेदार, उत्तराधिकारी

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अबकाशितस्	अऋमक क्रिया	तमिल	टालना, देर लगाना, विलम्ब करना
अबकिरण	संज्ञा	हिंदी	बिखेरना, छितराना, फैलाने की क्रिया या भाव
अबकीर्ण	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1. बिखरा, फैला, छितराया, विकीर्ण, व्याप्त, न्यस्त
अबकीर्ण		कन्नड, मराठी, बंगला, संस	2. चूर्णित, ध्वस्त किया, तोड़-फोड़ कर नष्ट किया हुआ
अबकीरणम्		तमिल	+ 3. बलपूर्वक लिया, छीना, ज़ब्त किया हुआ (मलया)
अबकीर्ण		मलयालम	+ 4. आच्छादित यथा आकाश में बादल (मराठी)
अबकीर्णम्		तेलुगु	+ 5. जिसका कौमार्य या ब्रह्मचर्य व्रत भंग हो चुका हो (हिं)
अबकीर्णन	संज्ञा	हिंदी	वारों और छितराना, फैलाना या बिखेरना
अबकीर्ण-याग	संज्ञा	हिंदी संस्कृत	ब्रह्मचर्य व्रत भंग के प्रायश्चित स्वरूप किया यज्ञ
अबकीर्णी	विशेषण	नेपाली, हिंदी	1. ब्रह्मचर्य भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट
अबकीर्णि/न्	संज्ञा	कन्नड, तमि, तेलुगु, संस	2. ऐमा ब्रह्मचारी जिसका ब्रह्मचर्य व्रत भंग
अबकीर्णि	संज्ञा	मलयालम	हो चुका हो
अबकीर्ति	संज्ञा	तमिल	1. बदनामी, अपकीर्ति, अपमान
अबकीर्ति		मलयालम	2. लज्जा या कलंक का कारण
अबकुंचन	संज्ञा	हिंदी	1. सिकोड़ना, मोड़ना, समेटना, बटोरना
अबकुञ्चन		बंगला, नेपाली, संस्कृत	2. नफ्रीकरण, घुंघराले बाल बनाना
अबकुञ्चन/अबकुञ्चनम्		मलयालम, तमिल	+ 3. एक रोग (हिंदी, मलयालम, संस्कृत)
अबकुचित	भूत कृदंत	कन्नड	झुका हुआ, सक्षिप्त, न्यूनीकृत, बेढंगा, अधःपतित
अबकुचन	संज्ञा	संस्कृत	ठोकना, कूटना, पीटना
अबकुचित	विशेषण	मलयालम	काटकर अलग करना, बाधित, दुःखित, संतापित
अबकुण्ठन	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, कन्नड, संस	1. ढ़रना, पाटना, परिवेष्टित करना,
अबकुण्ठनं		मलयालम	परदा करना, लपेटना; घुंघट, नकाब
अबगुण्ठनम्		तमिल	+ 2. आकृष्ट करना, (नेपाली, मलयालम, संस्कृत हिंदी)
अबकुण्ठनम्		तेलुगु	+ 3. गिराव, खिंचाव, ओढ़ना (कन्नड)
अबकुठार	संज्ञा	संस्कृत	1. बदसूरती, असुन्दरता; वैरूप्य, रूप विकृति
अबकुठार	संज्ञा, विशेष	हिंदी, मलयालम	2. पिछड़ा, नीचा, अति गहरा (विशेषण)
अबकुष्ठित	विशेषण	नेपाली, संस्कृत	1. ढका हुआ, आवृत्त, मुख्वावृत्त
अबकुष्ठित		मलयालम	2. छेका हुआ, घेरा हुआ, खिंचा हुआ, आकार्षित

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अबकुष्ठितमु		तेलुगु	+ 3. आकर्षित (मलयालम) 4. जो लपेटा गया हो
अबकुत्सित	विशेषण	हिंदी	निन्दित; निन्दा (संज्ञा)
अबकिरुत्तियमु	संज्ञा	तमिल	अपकृत्य, पापकर्म, हानिकर कार्य
अबकृपा	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपा, मराठी	1. नाराजगी, एतराज, असंतोष, क्रोध, नापसंदगी
अबकृपे		कन्नड	+ 2. अपकार (कन्नड); आदर, अनुग्रह, स्नेह न होना
अबकृष्ट	विशेषण	हिंदी, गुजराती, बंगला	1. बहिष्कृत, जातिच्युत, निम्नकोटि का, हीन जातीय
अबकृष्ट		कन्नड, संस्कृत	2. निम्न श्रेणी का नौकर; तुच्छ, हीन, अपकृष्ट
अबकृष्ट (न्)	संज्ञा, विशेष	मलयालम	3. अधम, नीचे रखा या गिराया हुआ, दूर करना,
अबकृष्टमु		तेलुगु	निकाल फेंकना, निष्कासित 4. स्थानान्तरित
अबकेडु	संज्ञा	तमिल	विपत्ति, संकट, दुर्भाग्य, उपद्रवग्रस्तता
अबकेञ्ज	विशेषण	मलयालम, हिंदी	+ 1. मरुभूमि (कन्नड) 2. सिर के बाल लटकाये हुए
अबकेशिन्	विशेषण	संस्कृत, मलयालम	3. फूले पर फले नहीं ऐसा वृक्ष, वन्ध्यवृक्ष, बंध्या
अबकेसी/केश		हिंदी, नेपाली	4. छोटे या झड़े बाल वाला व्यक्ति
अबकेशि		कन्नड, तेलुगु, तमिल	5. नरवृक्ष, बांझ, बंजर (वृक्ष)
अबकोकिल	विशेषण	संस्कृत	कोयल द्वारा तिरस्कृत या अवहेलित
अबककोडे	संज्ञा	तमिल	अपात्रदान
अबकन्ध (वं)	संज्ञा	संस्कृत, हिंदी, (मलयालम)	गर्जन; हिन हिनाना; रोना, चिल्लाना
अबकन्धनं	संज्ञा	मलयालम	1. उच्चरोदन, विलाप, चीत्कार कर रोना
अबकन्धन		हिंदी, बंगला, संस्कृत	2. ऊंचे स्वर में चिल्ला-चिल्ला कर रोना
अबक्रम	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. अधोगमन, नीचे आना, गिराव, उतार, ढाल
अबक्रमं		मलयालम	2. अव्यवस्थित या दूषित क्रम, क्रम न होना
अबक्रमण		हिंदी	3. नीचे आने की क्रिया (जैन, बौद्ध) 4. गर्भ में आना, बलपूर्वक वश में करना
अबक्रय	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	1. मूल्य 2. टैक्स 3. नज़राना 4. किराया 5. मजदूरी
अबक्रय		बंगला, कन्नड	6. किराये पर देना + 7. ऐसी संधि जिसमें निश्चित
अबक्रयं		मलयालम	भेंट देकर राज्य को स्वायत्तता मिले (मलया, तेलु)
अबक्रयमु		तेलुगु	8. अनुचित रूप से खरीदना 9. पट्टे पर लेना
अबक्रवि (न्)	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	किरायेदार, किराये पर लेने वाला

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अबक्रान्त	विशेषण	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	बलपूर्वक वशीकृत, अधीनस्थ
अबक्रान्ति	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	1. शक्ति द्वारा संस्था, संग आदि पर अधिकार, जबर्न हक 2. उतार, निम्नता की ओर गमन, अवक्रमण +3. समीप आगमन (संस्कृत), अवक्रम
	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	
अबक्रिया	संज्ञा	मलयालम	1. उपेक्षा, विहित कार्य न करना 2. हानि, नुकसान + 3. छूट, चूक, भूल (संस्कृत) 4. उलटा परिणाम,
	संज्ञा	गुजराती, संस्कृत	
अबक्रीतक	संज्ञा	हिंदी	मांगकर, उधार या किराये पर लिया हुआ सामान या संपत्ति, मर्गनी का
	संज्ञा	मलयालम	
अबक्रुष्ट	विशेषण	मलयालम	अधिक्षेपित, दूषित, निन्दित
अबक्रोश	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत, बंगला	1. शाप, दुर्वचन, गाली, निन्दा, भर्त्सना, कोसना 2. वेमुरा कोलाहल, फटकार, झिड़की, कर्कश स्वर
		मलयालम	
अबक्लृप्ति	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	निर्णय, संभावना, मांगत्य, योग्यता, उपयुक्तता भीगा हुआ, तर, गीला
	विशेषण	हिंदी, नेपाली, मलयालम	
अबक्सेद	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. टपकना, रिसना, स्राव, धीरे-धीरे द्रव पदार्थ बूंद-बूंद गिरना 2. घाव का पानी, पंछा
		मलयालम	
अबक्सेशं	संज्ञा	मलयालम	प्रवेश या निष्कासन मार्ग
अबक्सेश	संज्ञा	संस्कृत	बूंद-बूंद टपकना, रिसना. नमी. सील की ढाल
अबक्वचं	संज्ञा	मलयालम	अपस्वर, कर्कशध्वनि
अक्शय	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	1. नाश होना, क्षय होना, गल-सड जाना 2. जीर्ण होना, खराब होते जाना; बर्बादी, हानि
	संज्ञा	मलयालम	
अक्शर	संज्ञा	मराठी	गलत अक्षर, अशुद्ध उच्चारण, अपशब्द, गाली, निन्दा
अक्क्षिप्त	विशेषण	हिंदी, मराठी	1. नीचे फेंका हुआ, निक्षिप्त, अधिक्षिप्त, लांछित, निंदित, उपहसित, धिक्कृत, तिरस्कृत 3. दोष देखकर निकाला गया (प्रेसीपिटेडिड) 4. नीचे गिराया हुआ
		बंगला	
		मलयालम	
		तेलुगु	
अक्क्षीण	विशेषण	बंगला, मलयालम	क्षीण हुआ, नष्ट हुआ, क्षयप्राप्त, बर्बाद
अक्क्षेत्र	संज्ञा	बंगला	वृत्ताभास, क्षेत्र जिसका आकार अंडे जैसा हो

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अक्षेप अक्षेप (पं) अक्षेपयु	सज्ञा	हिंदी, नेपाली, मराठी बंगला, संस्कृत, (मलयालम) तेलुगु	1 लाछन, आक्षेप, दोषारोपण, निन्दा, तिरस्कार, उज्र, आपत्ति 2 दूषित वस्तु फेक देना, अध-क्षेपण 3 व्याजस्तुति, श्लेषोक्ति, प्रशंसा में छिपी निन्दा
अक्षेपण अक्षेपण अक्षेपणं अक्षेपणम् अक्षेपण	सज्ञा	हिंदी, मराठी बंगला मलयालम तमिल संस्कृत	1 नीचे गिराना, फेंकना, पराजित करना, पछाडना 2 अपमानित करना, डाटना, डपटना, आरोप लगाना + 3 नाट्य में हावभाव दिखाने की एक चेष्टा (तमिल) + 4 शिला राशियों का समुद्रतल में एकत्रीकरण (बंगला) 5 झूठ दोषारोपण, वज्रवर्तीकरण, प्रकाशकिरण का वक्र होना
अक्षेपणि/णी	सज्ञा	मलयालम, हिंदी, संस्कृत	लगाम, राम, घोड़े को आदेश देने का रस्सा
अवखंडन अवखण्डन अवखण्डनं	सज्ञा	हिंदी नेपाली, बंगला, संस्कृत मलयालम	1 विभाजन करना, नष्ट करना 2 काटना, टुकड़े करना, तोड़ डालना 3 खण्ड-खण्ड करना, अवच्छेदन करना
अवखण्डिकुक अवखल अवखला अवखंड	सकर्मक क्रिया विशेषण मज्ञा सज्ञा	मलयालम मराठी मराठी मराठी	बाटना, भाग करना, टुकड़े करना, तोड़ना 1 नटखट, शरारती 2 उच्छ्र्वल, स्वेच्छाचारी त्रुटि, न्यूनता, कमी नाला या बड़ा गड्ढा
अवखात अवखातं	सज्ञा सज्ञा	हिंदी, संस्कृत, मराठी मलयालम	1 गहरा गड्ढा या खाई, खोदकर बनाई नीची जगह + 2 शक्ति, सामर्थ्य, कृत्वत (मराठी) (औकात)
अवखाद्य अवखाद्यं	विशेषण सज्ञा	हिंदी मलयालम	1 निन्दित आहार, अखाद्य, पशुओं के खाने लायक 2 अनपयुक्त नैवेद्य आदि, निकृष्ट चीज़ें खाने वाला
अवखियादि	सज्ञा	तमिल	अपख्याति, अपयश, अपमान
अवगण्ड अवगण्ड (डं)	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत बंगला, मलयालम	1 चेहरे के मुहामे, कील, फोड़े आदि + 2 गाल का घाव (बंगला)
अवगण्डयु अवगण्ड अवगण्डं	मज्ञा मज्ञा मज्ञा	तेलुगु कन्नड मलयालम	+ 1 धोखा, उपेक्षा, अपमान, छल, अकार्य (तेलुगु) 2 तगी, कष्ट, विपदा, तिह्रस्कार, साहस, अपघात 3 वाधा, विघ्न, भयानकता, अस्मभावना, पहुँच न होना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवगडिके	संज्ञा	कन्नड	घमंड, घृणा, छल, धोखा, अपमान
अवगडिसु	क्रिया	कन्नड	1. नीचे गिराना, निन्दा करना, दबाना 2. फुर्तीला होना, अधीर, जल्दबाज, घमंडी, क्रोधी होना उतावला या प्रचण्ड होना
अवगडे	संज्ञा	कन्नड	उतावलापन, प्रचण्डता, तीव्रता, तीक्ष्णता
अवगडियत्न	संज्ञा	कन्नड	
अवगण	संज्ञा	हिंदी	1. साथियों, मित्रों से अलग हुआ, एकाकी अकेला
अवगण	विशेषण	मलयालम	2. जिमका कोई गण न हो, जो किसी गण में न हो
अवगणी	संज्ञा	मराठी	वेश, रूप, स्वांग, पहचान
अवगणन	संज्ञा	नेपाली, मराठी, बंगला, हिंदी	1. उपेक्षा, कुछ न गिनना, तिरस्कार, तुच्छ समझना
अवगणना		हिंदी, गुजराती, मराठी	2. अवहेलना, अवज्ञा, निन्दा, दोषारोपण, घृणा
अवगणनं (न)		मलयालम, संस्कृत	3. जानबूझकर किसी की मर्यादा, महत्व की उपेक्षा करना
अवगणबुं	क्रिया	गुजराती	अवगणना या तिरस्कार करना
अवगणर्णे		मराठी	अनादर करना, उपेक्षा करना, निन्दा करना
अवगणिककुक	मकर्मक क्रिया	मलयालम	तुच्छ मानना, हीन समझना
अवगणित	विशेषण	हिंदी, कन्नड, बंगला	1. उपेक्षित, तिरस्कृत, निन्दित, अवज्ञात
अवगणित		मलयालम, मराठी	2. पराभूत, विजित, पराजित, हारा हुआ
अवगणितमु		तेलुगु	3. जिसका महत्व या मान न आंका गया हो
अवगणितुडु	संज्ञा	तेलुगु	4. तिरस्कृत या अपमानित व्यक्ति
अवगत	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. ज्ञात, विदित, समझा हुआ, बुद्धिगत, पारित किया
अवगत		असमी, नेपाली, बंगला	2. नीच दशा को प्राप्त, निम्नगत, पतित
अवगत	विशेषण	मलयालम	3. वादा किया हुआ, धारित किया हुआ
अवगदुम्	संज्ञा	तमिल	+ 4. जो अन्तर्गत हुआ हो, दूर हुआ (कन्नड), बीत गया
अवगतमु		तेलुगु	+ 5. बीता हुआ, भूतकाल (मलयालम)
अवगत	संज्ञा	पंजाबी, कन्नड	+ 6. अविनाशी, परमेश्वर, नाश न होने वाला (पंजाबी)
अवगति	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	1. बोध, ज्ञान, बुद्धि, धारणा-शक्ति, निश्चयात्मक
अवगति		कन्नड, तमिल, असमी	बुद्धि, अनुमान, ज्ञान, जानकारी
अवगति		उड़िया, बंगला, गुजराती	2. दुर्दशा, दुर्गति, बुरी गति या दशा, अधोगति
अवगति		मलयालम, तेलुगु, मराठी	3. अधःपतन, ह्रास, अपकर्ष, अवनति, नरक में पड़ना
अवगतिक		गुजराती, मराठी	4. मरने के बाद भूत-प्रेत योनि मिलना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवगवमु	संज्ञा	तेलुगु	दोषयुक्त, धोखा, बुराई
अवगदित	विशेषण	मलयालम	दोषारोपित, निन्दित, अभियुक्त
अवगन्तव्य	संज्ञा	मलयालम	ज्ञातव्य, जो जानना ही चाहिये
अवगन्ध	संज्ञा	कन्नड	दुर्गन्ध, बदबू
अवगम	संज्ञा	हिंदी, मराठी, संस्कृत	1. निश्चयात्मक ज्ञान, बोध, धारणा, समझ
अवगम		असमी, नेपाली	+ 2. नीचे जाना (हिंदी) 3. नज़दीक जाना (नेपाली)
अवगम		बंगला	+ 4. प्रस्थान (बंगला), अनुचित मार्ग पर जाना
अवगमन	संज्ञा	बंगला, संस्कृत, हिंदी	1. अवगति, समीपता, उतरना
अवगमनं		मलयालम	2. बोध, प्रस्थान, ज्ञात करना, ऊपर से नीचे उतरने की क्रिया
अवगमनें	अकर्मक क्रिया	मराठी	प्रतीत होना, महसूस होना, जानना, लगना
अवगमिबन्धुक	सकर्मक क्रिया	मलयालम	1. समझना, ग्रहण करना 2. गहराई में उतरना
अवगम्य	विशेषण	कन्नड, असमी	ज्ञातव्य, बोधव्य, समझ, धारणा
भवगस्ति	विशेषण	हिंदी	नीचे गिरा हुआ, फिसला हुआ
अवगर्ब	संज्ञा	असमी	अहंकार, मद, घमंड, गरूर.
अवगर्बी	विशेषण	असमी	अहकारी, मदमस्त, घमंडी, अकडबाज
अवगार्ई	विशेषण	बंगला	अवगाहन करके, शान्त करके, रोक कर, काम में विश्राम
अवगाढ़	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1. डुबकी लगाना, स्नान करना, निमग्न होना
अवगाढ़	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	2. अभिभूत, निमग्जित, प्रवेश करना, तल्लीन
अवगाढ़		बंगला	3. डूबा हुआ, पैठा हुआ, गर्क होना, गहरा, नीचा
अवगाढ़ी	विशेषण	बंगला	निमग्न, अभिभूत
अवगावं/गाव	संज्ञा	मलयालम, हिंदी	नाव से पानी निकालने का लकड़ी का बर्तन
अवगाधमु/अवगाध		तेलुगु, हिंदी	प्रातः स्नान, नदी, सरोवर में स्नान
अवगामी	विशेषण	असमी	गम्भीर विचारक, बुद्धिमान, अवगमकारी
अवगारना	क्रिया	हिंदी	समझाना, बुरा-भला कहना, निन्दा करना
अवगाह	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, कन्नड	1. बहुत गहरा, अथाह, गंभीर, कठिन, अनहोना
अवगाहन	संज्ञा	हिंदी, गुज, मराठी, नेपाली	2. पानी में प्रवेश कर नहाना, डुबकी लगाना, गोत्र लगाना
अवगाह (न)		उड़िया, बंगला, असमी	3. विषय में पैठ करना, छानबीन, गहराई से
अवगाहं (हनं)		मलयालम	समझना, आलोड़न, मनोयोग से सोचना, खोज
अवगाहम् (नम्)	संज्ञा	तमिल	4. हलचल मचना; प्रवेश करना, निरूपणता प्राप्त करना
अवगाहम् (नम्)		तेलुगु	5. एक आधुनिक चिकित्सा 6. पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अबगाहना	अकर्मक क्रिया	हिंदी	<ol style="list-style-type: none"> 1. डुबकी लगाकर नहाना, गोता लगाना, गहराई में जाना 2. मग्न, तल्लीन, निमग्न होना 3. मनोयोग से अध्ययन करना, अनुशीलन करना 4. विषय में पैठ करना, निपुणता प्राप्त करना 5. निष्णात बनना, कुशलता प्राप्त करना 6. थाह तक जाना, भीतर तक प्रवेश करना
अबगाहणुं	क्रिया	गुजराती	
अबगाहणें		मराठी	
अबगाहिसु		कन्नड	
आबगाहिणु		तेलुगु	
आबगाहित्तु		तमिल	
अबगाहक	संज्ञा	बंगला	स्नानकर्ता; विषय की गहराई में उतरने वाला
अबगाहनस्नानम्	संज्ञा	तमिल	जल में स्नान के लिए गोता लगाना
अबगाहनस्तुक्म्	संज्ञा	तमिल	<ol style="list-style-type: none"> 1. अन्तर प्रवेश की शक्ति 2. गहराई में जाने की ताकत
अबगाहनस्त्व		संस्कृत	
अबगाहि	संज्ञा	मलयालम	साहित्य की प्रभावी शैली
अबगाहित्त	विशेषण	हिंदी	<ol style="list-style-type: none"> 1. गहराई में नहाया हुआ 2. विषय निष्णात, विषय को पूरी तरह समझा हुआ
अबगाहित्त	विशेषण	बंगला	
अबगाहिनी	विशेषण	गुजराती	अंदर प्रवेश करने वाली बुद्धि
अबगाही	विशेषण	हिंदी	<ol style="list-style-type: none"> 1. नदी आदि में स्नान करने वाला, डुबकी लगाने वाला 2. गहरा चिन्तन-मनन करने वाला, छनबीन करने वाला
अबगाह्य	विशेषण	हिंदी, बंगला	<ol style="list-style-type: none"> 1. डुबकी लगाने योग्य 2. कविता आदि में तल्लीनता योग्य 3. गहराई का पता लगा, निपुणता प्राप्त करने योग्य
अबगाह्य	अव्यय, विशेषे	मलयालम	
अबगीत	संज्ञा	हिंदी, बंगला, कन्नड, संस	<ol style="list-style-type: none"> 1. अपस्वर, बेसुरा गान; परिहास गान, उपहास गीत द्वारा निन्दा करना, अश्लील गीत (लैम्पून) 2. (वस्तु या व्यक्ति) जिसकी लोक में निन्दा हुई हो, जग-अपमानित, गर्हित, धिक्कारा हुआ 3. जनापवाद, निन्दा, अभिशाप (संज्ञा)
अबगीतं (त्त)	संज्ञा, विशेषे	मलयालम	
अबगीतम्	संज्ञा	तमिल	
अबगीतम्		तेलुगु	
अबगीर्णम्		तेलुगु	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रशंसित, स्तुति कृत 2. निगला हुआ, खाया हुआ
अबगुंडन	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, कन्नड	<ol style="list-style-type: none"> 1. घूंघट, बुर्का, पर्दा, नकाब, आच्छादन, ढकने की क्रिया, स्त्रियों के मुख पर पड़ा पर्दा, मुख पर पर्दा करना, चारों ओर से ढक कर छिपाना 2. यज्ञ आदि में उंगलियां मिलाकर बनाई एक मुद्रा
अबगुण्डन		उड़िया, बंगला, संस्कृत	
अबगुण्डनं		मलयालम	
अबगुण्डनम्		तमिल	

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवगुण्टनम्		तेलुगु	+ 3 तत्र मे एक हस्त मुद्रा, झाड़ू (मलयालम हिंदी)
अवगुंठनमय	विशेषण	हिंदी	मुह पर घूँघट, सारा शरीर वस्त्राच्छादित होना
अवगुंठनवती	सज्ञा	हिंदी, बंगला, संस्कृत	आवृत मुखी, अवगुठिता, घूँघट वाली स्त्री
अवगुण्ठिका	सज्ञा	बंगला, हिंदी, मलया, संस्कृत	मुखावरण, बुर्का, पर्दा, घूँघट, यवनिका
अवगुंठित	विशेषण	हिंदी, मराठी, गुजराती	1 आच्छादित, छिपा हुआ, आवृत्तमुखी
अवगुण्ठित		बंगला, मलया, नेपाली	2 ढका हुआ, बुर्का पहने हुए, घूँघट किए हुए
अवगुण्ठित		संस्कृत	3 छिपाया या आवरण डाला हुआ
अवगुण्ठित	विशेषण	मलयालम	हल चला हुआ या जोता हुआ खेत
अवगुंठित	विशेषण	हिंदी	चूर्ण किया हुआ, पीसा हुआ
अवगुंफन	सज्ञा	हिंदी, नेपाली	गूथना, पिरोना, मीना, गांठे लगाना
अवगुंफित	विशेषण	हिंदी	1 गूथा हुआ, पिरोया हुआ
अवगुंफित		नेपाली	2 बुना हुआ, मिला हुआ
अवगुण	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 दोष, ऐब, बुराई, खराबी, अनुचित बुरा या दूषित गुण,
अवगुण		कन्नड, मराठी, संस्कृत	दुर्व्यसन, लत, खोटी आदत, आराध
अवगुण		उड़िया, बंगला, असमी	2 अहित कर परिणाम, विपरीत या अनिष्टकर
अवगुणम्		तेलुगु	कार्य, दुर्गुण, दुःस्वभाव, बुरे गुण
अवगुणं (म्)		मलयालम, तमिल	3 गुण का विरोधी भाव, हानि, अपकार, क्षति, नुकसान
अवगुण, औगुण		सिंधी, पंजाबी	4 कोई खराब बात या अपकार, दुष्परिणाम
अवगुणकारक	सज्ञा	गुजराती	हानिकारक, दुःखद, नुकसान देने वाला
अवगुणकारी		हिंदी, गुजराती	जिस के प्रयोग से रोग बढ़ जाय
अवगुणियुं	विशेषण	गुजराती	1 दुर्गुणी, अनिष्टकारी, अपलक्षणी
अवगुणी		गुजराती, मराठी	+ 2 कृतघ्न (गुजराती), असगुनिया (मराठी)
अवगुणि		कन्नड	3 दुराचारी, बुरे लक्षणों वाला
अवगुरण/ गोरण	सज्ञा	हिंदी	1 मारने पीटने के लिए धमकाना, शस्त्र से आक्रमण
अवगूरण/ गोरण	सज्ञा	संस्कृत	2 मार डालने के उद्देश्य से हमला करना
अवगुरणं/ गूर्णनं	सज्ञा	मलयालम	3 गर्जन, आयुध से डराना, भीषण भय दिखाना
अवगूहन	सज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	1 छिपाना, छिपाने की क्रिया या भाव
अवगूहनं		मलयालम	2 गले लगाना, आलिंगन करना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवगृहीत	विशेषण	मलयालम	निरोधित, अवरोधित, अड़चन डाला हुआ
अवगृहीतन्	संज्ञा	मलयालम	अभियुक्त, दण्डित, सबक सिखाया हुआ
अवग्रह	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. बुरा ग्रह; विघ्न बाधा; अनावृष्टि; अकाल, प्रतिबन्ध, रुकावट; अनुग्रह न होना, दण्ड, बंधन, सजा
अवग्रह		कन्नड	
अवग्रह		बंगला, असमी, उड़िया	2. संधि विच्छेद या समास विग्रह
अवग्रह		गुजराती	3. दुराग्रह, विरोध, भ्रमज्ञान; पाप; शाप
अवग्रह		नेपाली	+ 4. स्वीकार, स्वागत, प्रत्यक्ष ज्ञान, अपहरण (मलयालम)
अवग्रह		मराठी	5. हाथियों का झुंड; हाथी का मस्तक, अंकुश
अवग्रहम्		तेलुगु	6. पाठ में विश्राम 7. प्रकृति, स्वभाव, आदत
अवग्रहं		मलयालम	+ 8. निन्दासूचक वाक्य प्रयोग, तिरस्कार (बंगला, मलया)
अविकिरहम्		तमिल	+ 9. दूर हेना (कन्नड), वह अक्षर जिसके बाद संधि विच्छेद हो
अवग्रहिककुक्	सकर्मकक्रिया	मलयालम	1. प्रलोभित करना, ललचाना 2. रोकना, प्रतिबन्ध करना
अवग्रहिसु	क्रिया	कन्नड	1. अधिकार करना 2. उपलब्ध करना
अवग्रहण	संज्ञा	हिंदी, कन्नड, संस्कृत	1. प्रतिरोध, अवज्ञा, विघ्न, तिरस्कार, अवगणना
अवग्रहण		बंगला	2. रोकने या प्रतिरोध करने की क्रिया या भाव
अवग्रहणं		मलयालम	3. अनादर, अपमान, अवहेलना
अवग्रहणम्		तेलुगु	+ 4. मन में ग्रहण करना (मलयालम)
अवग्रहिणि	संज्ञा	कन्नड	विघ्न, बाधा, रोक
अवग्राह	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत, मराठी	1. संबंध टूटना, अलगाव, बिलगाव, प्रार्थक्य
अवग्राह		बंगला	2. बाधा, रुकावट, अड़चन
अवकिराहम्	संज्ञा	तमिल	3. अनावृष्टि, सूखा अकाल + 4. शाप (संस्कृत)
अवग्राहं	संज्ञा	मलयालम	5. हाथी का मस्तक + 6. बाल्टी डोल (मलयालम)
अवघट	विशेषण	हिंदी, नेपाली, गुजराती	विकट, दुर्गम, दुर्बोध, ऊंचा-नीचा, मुश्किल
अवघट्ट	संज्ञा	हिंदी	1. गुफा, मांद, भूमि का बिल, जानवरों के बिल
अवघट्टं	संज्ञा	मलयालम	2. हिला डुलाकर वस्तुओं का गड्ढमड्ढ करने की क्रिया; कांपना 3. अनाज पीसने की चक्की का पाट
अवघट्ट	संज्ञा	संस्कृत	
अवघटित	भूत कृदन्त	कन्नड	विघ्न, प्रतिबंध, रुकावट
अवघटन	संज्ञा	कन्नड	संगठन, समूह, संग्रह

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवचट्टन	संज्ञा	कन्नड	ढकेलने, दबाने की क्रिया, हिलाना; संक्षेप; संक्षोभ
अवचड	विशेषण	गुजराती	1. कठिन, मुश्किल, दुर्गम, असुगम, दुर्लघ्य मार्ग
अवचड		मराठी	2. भारी भरकम, औघड 3. ऊंचा नीचा, समतल नहीं
अवचडणें	अकर्मक क्रिया	मराठी	अकड़ना, धकना, घबराना, भौंचक्का हो जाना, तनना
अवचडनाथ	संज्ञा	मराठी	स्थूल, मुस्टंडा, तोंदवाला, भारी भरकम
अवचड पंथ (पंथी)	संज्ञा	मराठी	अघोर पंथ, अघोर पंथी, अघोर मतानुयायी
अवचड्या	विशेषण	मराठी	झंझटें, दिक्कतें पैदा करने वाला, बड़बड़ाने वाला
अवचर्षण	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	रगड़ना, मलना, घर्षण, छीलना, मालिश करना,
अवचर्षण		बंगला	पीसने की क्रिया, रग मलना तथा लगे रंगों को मलकर छुड़ाना या झाड़ना, मार्जन करना
अवचलमु	संज्ञा	तेलुगु	कठिन, असंभव, जो फैला हुआ हो
अवचल्लिंचु	क्रिया	तेलुगु	उपेक्षा करना, तिरस्कार करना, सीमातीत होना
अवचा	विशेषण	मराठी	पूरा, समूचा, प्रत्येक, कुल सारा
अवचा	अव्यय	मराठी	केवल, सिर्फ, मात्र, हर
अवघाटकं	संज्ञा	मलयालम	मोतियों की माला जिसमें सबसे बड़ा मोती बीच में और दोनों ओर क्रमशः छोटे छोटे हुए मोती हों
अवघात	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. चोट देना, कष्ट देना, दर्द पैदा करना, ताड़ना, मर्दन,
अवघात		कन्नड	पीड़न 2. धान को मूसल से कूटना
अवघात		बंगला	3. आघात, प्रहार, अपमृत्यु, हत्या, वध
अवघातं		मलयालम	4. बाहर जाने के लिए दिया जाने वाला धक्का
अवगादम्		तमिल	+ 5. जीवघातक या प्राणघातक चोट (तमिल)
अवघासन	संज्ञा	बंगला	किस्ती संख्या में से किसी शक्ति या घात का मूल निर्णय
अवघाती	विशेषण	बंगला	प्रहारकारक, चोट पहुंचाने वाला, पीड़क
अवघुषितं	संज्ञा	मलयालम	घोषणा या ऐलान किया जाना, ढिंढोरा पीटना
अवघुष्ट	विशेषण	मलयालम	घोषित, प्रख्यात किया गया,
अवघुष्ट	संज्ञा	बंगला	जिसका ऐलान कर दिया गया हो
अवघुष्णं	संज्ञा	मलयालम	गोल घुमाना, मण्डलाकार घूमना, वातावर्त,
अवघुष्णं		बंगला, हिंदी	घुमाना, चारों ओर चक्कर लगवाना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवपूर्णन अवपूर्णनं	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत, बंगला मलयालम	बगूला, बवंडर, वातावर्त, हवा में लहराना, चक्कर खाना, मण्डलाकार घूमना, चक्रवात
अवपूर्जित		बंगला	चक्राकार घुमाया हुआ, लुढ़काया हुआ
अवघोटित अवघोटित	भूत कृदंत विशेषण	हिंदी मलयालम	1. चारों ओर से घिरा, छिपा या ढका हुआ (पर्दे से) + 2. अस्त-व्यस्त या उलट-पुलट किया हुआ (हिंदी)
अवघोषक अवघोषकन्	संज्ञा संज्ञा	हिंदी मलयालम	1. झूठी अफवाह या मिथ्या घोषणा करने वाला 2. धमकी देने वाला, ऐलान करने वाला
अवघोषणं (ण) अवघोषणा अवघोषणा	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत गुजराती, बंगला हिंदी, संस्कृत	1. प्रख्यापन, अधिकृत घोषणा, राजसूचना 2. ढिंढोरा, प्रचार, घोषणा + 3. अनुचित या बुरी घोषणा (हिंदी)
अवघोषिककुक्क अवघोषित	सकर्मक क्रिया विशेषण	मलयालम बंगला	उद्घोषित करना, उच्च स्वर में प्रकट करना प्रचारित, घोषित, उच्चस्वर में ऐलान किया हुआ
अवघ्राणं अवघ्राण	संज्ञा संज्ञा	मलयालम गुजराती, मराठी, संस्कृत	1. सूंघना, वस्तु सूंघना 2. किसी का सिर मस्तक सूंघ कर शुभ चिन्तन करना
अवघ्रात	विशेषण	मराठी	सूंघा हुआ, खुशबू या बदबू ग्रहण किया हुआ
अवघ्न	विशेषण	मलयालम	निम्न, निम्नकोटि का, नीचा
अवघ्नक	विशेषण	मराठी	अगणित, विपुल, बहुत
अवघट	क्रियाविशेषण	मराठी, हिंदी	अकल्पित, अनपेक्षित, अकस्मात संकट या उलझन
अवचयं (घाय) अवचय (घाय) अवचय (घाय)	संज्ञा	मलयालम हिंदी, कन्नड, नेपाली बंगला, तेलुगु, संस्कृत	1. चयन करना, फल-फूल आदि तोड़कर संग्रह करना, संग्रह या इकट्ठा करना, संचय करना + 2. अपचय, किसी वस्तु का मूल्य घटना या घटना (बंगला)
अवचरिक्कुक्क अवचायी	अकर्मक क्रिया संज्ञा	मलयालम बंगला	व्यभिचार करना, छिनालपन करना चयन करने वाला, एकत्र करने वाला
अवचार	संज्ञा	हिंदी	1. नीचे जाने वाला मार्ग, रास्ता 2. कार्य क्षेत्र
अवचारण	संज्ञा	संस्कृत	किसी कार्य में लगने की क्रिया, जुगत लगाना
अवधि		संस्कृत	1. पूजा करना 2. आदर करना 3. इकट्ठा करना 4. तोड़ना
अवधित अवधित	विशेषण	हिंदी, बंगला मलयालम	1. चुनकर एकत्रित, शेखरीकृत, बटोरा + 2. अपव्ययित, मूल्य घटाया गया (बंगला), अधिवसित

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवधित	क्रियाविशेषण	मराठी	+ 3 अचानक, सहसा, यकायक, सयोगवश (मराठी)
अवधितें		मराठी	शीघ्र पकने वाला एक प्रकार का भात
अवधितफल	सज्ञा	मराठी	मकर संक्राति को पुत्र प्राप्ति कृत्य विधि
अवधितराव	सज्ञा	मराठी	माता द्वारा त्यागा विमाता आदि द्वारा स्वीकृत उत्तराधिकारी, अज्ञात पितृक बालक, यशस्वी
अवधिह	सज्ञा	गुजराती, मराठी	अशुभ चिन्ह, दुश्चिह्न, कुलक्षण, अपशकुन, मनहूस
अवघूड़	सज्ञा	बंगला	1 माला, शिरोभूषण, ध्वजा-वस्त्र, चंवर, मंदिर की
अवघूड़ (घुल)	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	पताका, झंडा 2 ध्वजा के अग्र भाग पर बंधा हुआ वस्त्र
अवघूरी	सज्ञा	हिंदी	सक्षिप्त टीका या व्याख्या, टिप्पणी
अवघूर्णन	सज्ञा	नेपली, बंगला, संस्कृत	1 घूरन कर डालना, पीसना, कूटना
अवघूर्णनं	सज्ञा	मलयालम	2 घूरन छिडकना, क्षेपण, पेषण
अवघूर्णनम्		तेलुगु	+ 3 मूखी दवा घाव पर छिडकना (संस्कृत)
अवघूर्णित	भूत कृदंत	हिंदी, कन्नड	1 पीस कूट कर घूरन किया गया, पीसा गया
अवघूर्णित		बंगला	+ 2 जिसके कटिन शब्दो या पदो के अर्थ या भाव
अवघूर्णितम्		तेलुगु	सरल रूप मे समझाये गये हो (हिंदी)
अवघूर्णित	विशेषण	मलयालम	3 क्षिप्त, घूर्ण बुरकना, विशेषतया मूखी दवा घाव आदि पर बुरकना
अवघूल	सज्ञा	कन्नड, हिंदी, संस्कृत	झडे के शीर्ष से नीचे लटका एक अलंकार
अवघूलकं	सज्ञा	मलयालम	मक्खी मच्छर भगाने का मोर पख या गाय की
अवघूलक	सज्ञा	संस्कृत, हिंदी	पूछ का बना चवर, चामर
अवचेतन	सज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	1 चेतना के अतराल मे स्थित अत -मज्ञा विशिष्ट
अवचेतन		बंगला	2 पूरी चेतना या होश न होना, चेतना नष्ट होना
अवचेतना	सज्ञा	हिंदी, नेपाली	अर्ध चेतना, चेतना की सुप्त अवस्था
अवघ्वावु	सज्ञा	तमिल	दुर्मरणम्, अकाल मृत्यु
अवघ्चदं	सज्ञा	मलयालम	1 आवरण, ऊपर ढाकना या छिपाना
अवघ्चद		संस्कृत, हिंदी	2 ढक्कन, कोई वस्तु जिससे दूसरी वस्तु ढकी जा सके
अवघ्चोल्	सज्ञा	तमिल	अपशब्द, अशुभ भाषण

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवच्छन्न	संज्ञा	कन्नड	ढका हुआ, बंद किया हुआ, भरा हुआ, पूर्ण
अवच्छादनं	संज्ञा	मलयालम	ढकना, छिपाना, आवृत्त करना
अवच्छाद	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	ढक्कन, कोई वस्तु जिससे दूसरी वस्तु ढकी जा सके
अवच्छाया	संज्ञा	बंगला	अस्पष्ट आकृति, धुंधला रूप
अवच्छिन्न	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1. अलग किया हुआ, पृथक किया हुआ, छेका हुआ
अवच्छिन्न	विशेषण	मराठी, कन्नड, मलया	2. भेदन किया हुआ, भिन्न किया हुआ, खंडित
अवच्छिन्न		उड़िया, बंगला, असमी +	3. लगातार, धारावाहिक (उड़िया) 4. न्यायशास्त्र में
अवच्छिन्नम्		तमिल	विशेष या प्रसिद्ध गुण को सीधा अलग करना
अवच्छिन्नम्		तेलुगु	5. विशिष्ट, विश्लिष्ट, सीमित, मर्यादित, मीलित,
अवच्छिन्न		संस्कृत	मिश्रित, संकुचित, छिन्न, विभक्त; सविशेषण
अवच्छुरितं	संज्ञा	मलयालम	1. अट्टाहास, ज़ोर-ज़ोर से मज़ाक उड़ाना, ठहाका,
अवच्छुरित		कन्नड, संस्कृत, हिंदी	खिलखिलाहट + 2. मिश्रित, मिला हुआ (संस, हिंदी)
अवच्छेद	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1. पृथक्करण, छेदन, विच्छेद, भाग, विभाग, भेद,
अवच्छेद		मराठी, संस्कृत, असमी	कर्तन, काटना, तोड़ना, अवच्छेदन, सीमा, खंड
अवच्छेदं	संज्ञा	मलयालम	2. विशिष्टगुण व्याप्ति, अवधारणा, नियंत्रण, मर्यादा
अवच्छेदम्		तेलुगु	3. परिच्छेद; वह लक्षण जिससे कोई वस्तु निर्भ्रान्त
अवच्छेदम्		तमिल	पहचानी जाय (न्याय शास्त्र), परिभाषकरण
अवच्छेद	संज्ञा	बंगला	4. शब्द की मर्यादा बांधना, व्यावर्तक धर्म, निर्णय
अवच्छेदक	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1. पृथक करने वाला, भेदक, नियामक, गुणरूप
अवच्छेदक		कन्नड, मराठी, संस्कृत	शब्द, औरों से अलग करने वाला
अवच्छेदक		बंगला	2. सीमा निश्चित करने वाला, निश्चय कराने वाला
अवच्छेदगम्		तमिल	3. भेदकारी, निर्णायक, विभाजक, विच्छेदक
अवच्छेदक		मलयालम	4. विशेषता स्थापक, विशेषण, उपाधि
अवच्छेदकता	संज्ञा	हिंदी	सीमा बांधने का भाव या क्रिया, परिमिति
अवच्छेदिका		बंगला	प्रभेदक, नियामक, विभाजक सीमा
अवच्छेदन	संज्ञा	हिंदी	1. पृथकीकरण, विश्लेषण, हद बाँधना
अवच्छेदन	संज्ञा	बंगला	2. व्यापकत्व, साम्य स्थापन
अवच्छेदनं	संज्ञा	मलयालम	3. सीमा बांधना, मर्यादा स्थापन
अवच्छेदिवक्त्रुक	सूक्ष्मक क्रिया	मलयालम	पृथक-पृथक करना, निर्णय या निश्चय करना, परिभाषित करना, विश्लेषण करना, सुधारना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अबच्छेद्य	विशेषण	हिंदी, गुजराती	1 पृथक किया जा सके, जो पृथक करने को हो
अबच्छेत्तियम्	सज्ञा	तमिल	2 जिसकी सीमा या मर्यादा बाधी जा सके
अबजड	विशेषण	मराठी	स्थूल, वोझिल, भारी, कठिन, मुश्किल
अबज्जतन	सज्ञा	मराठी	अडचन, झझट, बाधा, विघ्न, रोक
अबजय	सज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	1 पराजय, हार, जय न होना
अबजय		बंगला	+ 2 युद्ध में सफलता प्राप्त करना अथवा प्रतिपक्षी पर
अबजयं		मलयालम	विजय प्राप्त करना, जयलाभ, जीत लना (वगला)
अबजश	सज्ञा	गुजराती	अपयश, बदनामी कृप्रगिद्धि दुर्नाम
अबजित	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1 पराजित, विजित, हारा हुआ, पराभूत, जो जीत
अबजित		मलयालम, बंगला	लिया गया हो 2 तिरस्कृत
अबजिति	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	1 विजय प्राप्ति, प्रतियोगिता या युद्ध में सफलता
अबजिति		बंगला	2 पराजिनता, प्रतिपक्ष की पराजय या हार
अबजोग	सज्ञा	गुजराती	अशुभ मुहूर्त, अवयोग
अबजता	सज्ञा	तेलुगु	1 अज्ञान, मूर्खता 2 अवज्ञाना अर्थात् गर्व (विशेषण)
अबजा	सज्ञा	मलया, नेपाली, असमी	1 आज्ञा का उल्लंघन, आज्ञा भंग, उपेक्षा, अनादर,
अबजा	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	तिरस्कार, अवहेलना, किसी के प्रति कुछ भावना
अबजा		उड़िया, बंगला	दिखाना 2 ना फरमानी, आज्ञा न मानना
अबजे		कन्नड	+ 3 गदी स्त्री, वेश्या (मराठी)
अबजा	सज्ञा	तेलुगु, मलयालम	4 उपहास, अपमान, किसी की बात का मजाक उड़ाना
अबजा	सज्ञा	संस्कृत	5 एक अलंकार जिसमें एक वस्तु के गुण दोष का प्रभाव दूसरी पर न पड़ने का वर्णन हो
अबजात	विशेषण	हिंदी, नेपाली, बंगला	1 अनादृत, निन्दित, तिरस्कृत, अवहेलित
अबजात		मलयालम	2 जिसकी अवज्ञा या अपमान या अनादर किया गया हो
अबजातमु		तेलुगु	3 उल्लंघन किया गया, हारा हुआ या पराजित
अबजाता	सज्ञा	बंगला	अवज्ञाकारी, अनादर करने वाला, तिरस्कारकर्ता
अबजातिशय	सज्ञा	कन्नड	अत्यंत अपमान, अनादर का तिरस्कार
अबजान	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 अवज्ञा, उपेक्षा, निन्दा, उपेक्षित, अनादर, अपमान

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अबज्ञान	सज्ञा	बंगला	2 आज्ञा का उल्लंघन, हुकूम उदूली, ना-फरमानी
अबज्ञानं	सज्ञा	मलयालम	3 पराजय, हार, पराभूति, शिकस्त
अबज्ञेय	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1 अनादरणीय, अश्रद्धेय, हीन, उपेक्षणीय
अबज्ञेय		बंगला	2 जिसकी अबज्ञा की जा सकती हो अथवा जिसकी
अबज्ञेय		मलयालम	आज्ञा का उल्लंघन उचित हो, अवहेलनीय
अबट (टं)	सज्ञा	हिंदी, संस, मराठी, मलया)	1 छिद्र, गड्ढा, कुआ 2 एक नरक 3 नाड़ीव्रण
अबटि		हिंदी, मलयालम, संस्कृत	4 शरीर का कोई निचला या दबा भाग
अबटी/अबटमु		संस्कृत, मराठी, (तेलुगु)	5 बाजीगर 6 हाथी फसने का तृणाछादित गड्ढा
अबटरणें	क्रिया	मराठी	अटकना, गेठना, रूठना, तग होना
अबटी	सज्ञा	मराठी	गहनो पर नक्काशी का औजार, मुहर
अबटी	सज्ञा	मराठी	नाप तौल कें बाट तथा इनका निरीक्षक अधिकारी
अबटकच्छप	सज्ञा	मराठी, हिंदी, संस्कृत	1 गड्ढे का कखुआ 2 अनुभव शून्य, मसार ज्ञानहीन
अबटीट	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, मलया, तेलुगु	चपटी नाक, चपटी नाक वाला
अबटु	सज्ञा	संस्कृत, मलयालम, हिंदी	1 जमीन में छेद, बिल 2 गर्दन का उभरा या दबा भाग
अबटुग्रंथि	सज्ञा	मलयालम, हिंदी	1 गडमाल 2 थाइगड ग्लैड
अबटणें (डणें)	क्रिया	मराठी	ऊबना, उकताना, घृणा करना
अबटावुं	क्रिया	गुजराती	1 घोटना, बारीक पीसना, महीन होना 2 दलदल 3 भटकना 4 गुप्त बाधा होना
अबडीनं	सज्ञा	मलयालम	1 पक्षियों की उड़ान
अबडीन	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	2 पक्षियों का उड़ते हुए नीचे की ओर आना
अबटंगी	विशेषण	मराठी	कृचानी, दुराचारी, बेढगा
अबतंस (मु)	सज्ञा	नेपाली, कन्नड, तमिल	1 कर्णभूषण, कर्णफल, कान का गहना
अबतंस (क)	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत, मराठी	2 शिरोभूषण, किराट, मूकट आदि
अबतंस (क)	सज्ञा	गुजराती, उड़िया, बंगला	3 हार, कंगन, फूलमाला आदि आभूषण
अबतंसं	सज्ञा	मलयालम	4 स्वजनो में आभूषण स्वरूप व्यक्ति (लाक्षणिक अर्थ)
अबतंसमु (सित्तमु)	सज्ञा	तेलुगु	+ 5 मुण्ड माल (तमिल)
अबतंसित (मु)	भूत कृदन्त	हिंदी, बंगला, मलया, तेलुगु	1 जिसने माला या हार पहना हो 2 अलकृत, सुसज्जित
अबतत्त	विशेषण	हिंदी	1 विस्तृत, व्याप्त, आच्छादित, नीचे की ओर फैला हुआ
अबतत्त		मलयालम	2 फैलाव, विस्तार, बढ़ाव

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अकतति	सत्ता	मलयालम, संस्कृत	जिसका विस्तार, व्यापित फैलाव नीचे की ओर हो
अकतत	विशेषण	संस्कृत	1 प्रकाशित, उजागर 2 गर्माया हुआ, गर्म किया हुआ
अकतमस	सत्ता	कन्नड, हिंदी, संस्कृत	1 हलका अंधेरा, अस्पष्टता 2 गहरा अधिकार
अकतमसम्		तेलुगु	3 झुटपुटा, अधियाला + 4 गूढता (हिंदी)
अकतमसं/अकतमसम्		मलयालम, तमिल	5 धुधला पन, उषा काल
अकतरम्	सज्ञा	तमिल	+ 1 अवसर, मौक़ा (तमिल) 2 उतरना, अवरोहण
अकतरं		मलयालम	3 अवतार + 4 उतार, गिराव (संस्कृत)
अकतर		बंगला, संस्कृत	+ 5 उत्पत्ति, उल्लेख, प्रवेश (बंगला)
अकतरण	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 नीचे उतरना, ढाल, तैर कर पार जाना
अकतरण		कन्नड, मराठी, संस्कृत	2 नदी को जाती सीढ़ी, घाट की सीढ़ी से उतरना
अकतरण		बंगला	3 देवी शक्ति का जन्म लेना, प्रादुर्भाव होना
अकतरणं		मलयालम	4 लिखित प्रमाण का उल्लेख करना 5 स्वर्ग से
अकतरणम्		तेलुगु	पृथ्वी पर आना 6 अनुवाद, भूमिका, नकल, उद्धरण 7 अन्तर्धान होना, छिप जाना 8. तीर्थ
अकतरणचिह्न	सज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	प्रमाण वाक्य क दोनो ओर उलटे सीधे का चिह्न
अकतरणचिह्न		गुजराती, कन्नड	उद्धरण चिह्न - " "
अकतरणछत्र	सज्ञा	हिंदी	हवाई जहाज से कूदने का छाता, पैराशूट
अकतरणभूमि	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	वायुयान उतरने का खुला मैदान, एयरपोर्ट
अकतरणिका	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 ग्रथ की भूमिका, प्रस्तावना, परिचायक प्रारंभिक अंश
अकतरणिका		मराठी, कन्नड, संस्कृत	2 स्पष्टीकरण विधान, उपोद्घात
अकतरणिका		उड़िया, बंगला, मलयालम	3 ग्रथारंभ में देवस्तुति + 4 परिपाटी, रीति, प्रथा (हिंदी)
अकतरणी		हिंदी, मराठी, संस्कृत	+ 5 आभास, सीढ़ी, सोपान (बंगला)
अकतारिके		तमिल	+ 6 छंद की परिचायात्मक पंक्ति जो व्याख्या या
अकतारिक		तेलुगु	उद्देश्य प्रकट करे (तमिल)
अकतरित्तसु	अकर्मकक्रिया	तमिल	+ 1 जब भगवान भूमि पर उतरकर प्राणी रूप में जन्म
अकतरनें	क्रिया	मराठी	ले या कोई सन महात्मा जन्म ले (तमिल)
अकतरिषु	अकर्मकक्रिया	तेलुगु	2 ठहर, स्थिर हो, निवासकर, जन्म ले
अकतरिसु		कन्नड	3 उद्धृत करना, उल्लेख करना, नीचे आना, उतरना
अकतरिक्कुक्		मलयालम	4 उत्पन्न होना, रूप धारण करना, अभिभूत होना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवतारबुं	संज्ञा	गुजराती	5. अवतीर्ण, अवतार होना 6. आवेश होना (मराठी)
अवतारित	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1. नीचे उतरा हुआ 2. अतवार लिया हुआ ; स्नात
अवतारित	विशेषण	बंगला	3. किसी दूसरे स्थान से उद्धृत किया लेख या वचन
अवतारपण	संज्ञा	संस्कृत, हिंदी	1. शान्ति दायक उपाय या उपचार
अवतारप्यं	संज्ञा	मलयालम	2. वेदना शामक औषधि
अवतार	संज्ञा	बंगला, हिंदी	नतोदर, कटोरीनुमा, गर्त युक्त ऊपरी भाग वाला
अवतारसभंग	संज्ञा	बंगला	भूगर्भस्थ मिट्टी के अंदर किसी स्थान का धंसना
अवतारण	विशेषण	मराठी	योग्य समय, उचित अवसर
अवतारण	संज्ञा	संस्कृत, हिंदी	कुचलना, रौंदना; मारण, आघातकरण
अवतान	संज्ञा	बंगला	1. चन्द्रातप, शामियाना, आच्छादन, चंदोवा
अवतानं	संज्ञा	मलयालम	2. ढक्कन या पर्दा, आवरण
अवतान	संज्ञा	संस्कृत, हिंदी	3. विस्तार, फैलाव, पौधे का फैलना; मुँह लटकाना
			4. धनुष की डोरी ढीली करना
अवतापी	विशेषण	हिंदी	1. तपाने वाला, सूर्यताप, अधिक कष्टदायक
अवतापिन्		संस्कृत	2. तापयुक्त, ताप देने वाला या जिसमें ताप हो
अवतार	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1. अलौकिक शक्ति का प्राणी रूप लेना, देह धारण
अवतार		मराठी, कन्नड, असमी	करना, मृत्युलोक में आविर्भूत होना
अवतार		उड़िया, बंगला, संस्कृत	2. महापुरुषों या देवताओं का जन्म लेना, नीचे
अवतारं		मलयालम	उतरना, ईश्वर का अंश या प्रतिनिधि
अवतारम्		तमिल	3. अलौकिक व्यक्ति + 4. पुण्यस्थल, तीर्थ, जलमार्ग
अवतारम्		तेलुगु	से पहुंचने का स्थान (मलयालम), अनुवाद, भूमिका (हिंदी)
औतार		पंजाबी	+ 5. उच्छृंखल; विचित्र, बुरा वेष, महापापी (मराठी)
अवतार कार्य	संज्ञा	गुजराती	भगवान के अवतार का विशेष कार्य
अवतारकृत्य	संज्ञा	मराठी	विशिष्ट अवतार का अपने उद्देश्य में सफल होना
अवतारक	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	1. पुस्तक की प्रस्तावना, भूमिका, उपोद्घात 2. विषयवस्तु
अवतारिक	संज्ञा	मलयालम, तेलुगु	का परिचय 3. खतरा, भय 4. प्रादुर्भाव करने वाला
अवतार धरणें	क्रिया	मराठी	उपद्रवकारक व्यवहार करना
अवतार संपन्नं	क्रिया	मराठी	1. दरिद्रावस्था को पहुंच जाना 2. समाप्त होना, मर जाना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवतारी पुरुष	विशेषण	मराठी	1 दैवी गुण युक्त पुरुष 2 बुद्धिमत्ता, पराक्रम, शौर्य, दया, विद्वत्ता आदि गुणों में लोकोत्तर व्यक्ति
अवतारी पुरुषुडु	विशेषण	तेलुगु	
अवतारण	सज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	1 अवतरण, आविर्भाव, उच्च स्थिति से नीचे उतरना
अवतारण		कन्नड, असमी	2 भूत प्रेत आदि का आवेश 3 पूजा, अर्चना
अवतारण		उड़िया	4 किसी अमूर्त अदृश्य चीज को मूर्त, दृश्य रूप में लाना (नाट्य) 5 नकल उतारना, उदाहृत करना, अनुकरण, अनुवाद 6 भूमिका, विषय परिचय, प्रस्तावना, उपेक्षा
अवतारण		बंगला	
अवतारणं		मलयालम	
अवतारणा	सज्ञा	हिंदी, मराठी	1 प्रस्तावना, भूमिका, पुस्तक का विषय परिचय
अवतारणा		उड़िया, बंगला, असमी	2 रचना, बनाना, आविर्भूत करना 3 आश्रय, आधार, उद्यापन
अवतारणी	सज्ञा	बंगला	उपक्रमणिका, विषय सूची, प्रस्तावना
अवतारणें	अकर्मकक्रिया	मराठी	1 जन्म लेना, उपस्थित या हाजिर होना +2 उपद्रव करना, स्वेच्छाचारी बनना, पागल बनना (मराठी)
अवतारणुं	क्रिया	गुजराती	अवतार रूप में पृथ्वी पर लाना, जन्म देना, उत्पन्न या प्रस्तुत करना, ऊपर से नीचे उतारना
अवताराना	सकर्मक क्रिया	हिंदी	
अवतारवाद	सज्ञा	हिंदी, गुजराती	1 ईश्वर ने अवतार लिया यह सिद्धांत 2 भगवान
अवतारवाद	सज्ञा	बंगला	ने युग युग में धर्मस्थापन को जन्म लिया यह मत
अवतारम्	सज्ञा	तमिल	+ 3 तीर्थ स्थान का घाट (तमिल)
अवतारिक	विशेषण	गुजराती	1 अवतार रूप, अवतारी जैसा 2 ईश्वरीय, दैवी
अवतारिका (क)	सज्ञा	मलयालम, तेलुगु	भूमिका, प्रस्तावना, पुस्तक परिचय, विषय
अवतारिके		कन्नड	परिचय, उपोद्घात, ग्रंथारंभ के विषय प्रवेश शब्द
अवतारिकै		तमिल	या उस विषय का कथन
अवतारिस्त	विशेषण	बंगला	जो नीचे उतारा गया हो, अवरोपित
अवतारी	विशेषण	हिंदी, गुजराती, असमी	1. अवतार लेने वाला, अलौकिक व्यक्ति
अवतारी		बंगला, मराठी, नेपाली	2. अतिपवित्र, बुद्धिमान, चमत्कारी, दैवीय गुण युक्त, अति मानव प्राणी शरीर
अवतारिन्		संस्कृत	3. ईश्वर का मानव योनि में प्रकट होना
औतारी		पंजाबी	+ 4. जिससे अवतार का उद्भव हो (बंगला)
अवतारे		नेपाली	
अवतार	क्रिया विशेषण	तेलुगु	पश्चात्, परे, आगे का, और आगे

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवतालन्	संज्ञा	मलयालम	निकम्मा, मूर्ख, दुष्ट
अवतालम्	संज्ञा	तमिल	संगीत की ताल में गलती होना
अवतीर्ण	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1. अवतार रूप में आविर्भूत या प्रादुर्भूत
अवतीर्ण		कन्नड, मराठी, असमी +	2. अवरूढ़, प्रविष्ट, अतिक्रान्त (बंगला)
अवतीर्ण		उड़िया, बंगला, संस्कृत	3. स्वर्ग से मृत्युलोक में आया हुआ
अवतीर्ण		मलयालम +	4. उद्धृत (उड़िया) + 5. प्रकृत, उपस्थित, उद्भूत (मराठी)
अवतीर्णम्		तेलुगु +	6. तैर कर पार किया (तेलुगु); अनूदित; उत्तीर्ण
अवतुरै	संज्ञा	तमिल	कुमार्ग, बुरा रास्ता
अवग्रस्त	विशेषण	मलयालम	भयभीत, बुरी तरह घबराया या डरा हुआ
अवतोक्त्रा	संज्ञा	संस्कृत, मलयालम, हिंदी	दुर्घटनावश स्त्री या गाय का गर्भपात
अवथण	अकर्मक क्रिया	मराठी	नये गर्भ के कारण स्तनपान छुटाना या छूटना
अवथान	संज्ञा	मराठी	स्तनपान बंद होना, दूध पीना छूटना
अवथव	संज्ञा	बंगला	विषादयुक्त, स्फूर्तिहीन, दुर्बल
अववंश	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. मद्यपान के साथ खायी जाने वाली चटपटी
अववंश		बंगला	वस्तुएं; गजक, चाट
अववंश		कन्नड	2. बलवर्धक खाद्य
अववंशम्		तेलुगु	3. दाहकारक भोजन, चटपटा भोजन
अववंशं	संज्ञा	मलयालम +	4. उत्तेजक पेय (कन्नड) अचार आदि (तेलुगु)
		5. लाठी घुमाने का एक असाधारण कृत्य (मलयालम)	
अववत्त	विशेषण	मलयालम	1. प्रदत्त, दान किया हुआ
अववत्त		बंगला	2. पूर्ति की, सम्पन्न किया हुआ
अवदमन	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	1. उत्पात दबाना, उभरने वाले को दबाना
अवदमन		बंगला	2. नियंत्रित करना, विद्रोह को कुलचना
अवदमित	विशेषण	बंगला	दबाया हुआ, नियंत्रित, पराभूत
अवदरण	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. चीरना, फाड़ना, कुचलना, पीसना, अलग करना
अवदरणं		मलयालम	2. नष्टभ्रष्ट करना + फोड़े का फूटना (मलयालम)
अवदशा	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. दुर्दशा, गरीबी, कम्बख्ती, दुर्भाग्य, निकृष्ट स्थिति
अवदशे		कन्नड +	2. कुबुद्धि, दुर्बुद्धि, कर्कशा या मनहूस औरत (मराठी)
अवदा	संज्ञा	मलयालम	क्षमा मांगना, दोषक्षालन, पापशोधन, मार्जन

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अबदाय अबदायं	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत मसयासम	1 ग्रीष्म ऋतु, ताप, जलन, गर्मी, निदाघ, उष्णता 2 जला डालना, तपाना, गर्म करना
अबदात्त अबदात्त अतदात्त (तं) अबदात्तम् अबदात्तम्	विशेषण सज्ञा, विशेषे सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी कन्नड, नेपाली, संस्कृत + बंगला, मसयासम तमिल तेलुगु	1 श्वेत, पीतवर्ण, चमकता सफेद रंग, गुण विशिष्ट 2 शुद्धता, सुनहरा रंग, सौन्दर्य (तमिल) 3 उज्ज्वल, निर्मल, स्वच्छ, बेदाग, शुभ्र, गौर वर्ण, मनोहर, सुन्दर, खूबसूरत, रमणीक 4 शुभ, पुण्य-दायक, सच्चा, पवित्र
अबदान अबदान अबदान अबदानं अबदानम् अबदानम्	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी कन्नड, नेपाली, संस्कृत उड़िया, बंगला, असमी मसयासम तमिल तेलुगु	1 होमद्रव्य, आहुति 2 शौर्य, पराक्रम, उत्तम कृत्य 3 अतिक्रमण, उल्लघन 4 पवित्र कार्य, शुद्धाचरण 5 सफलता, कीर्ति + 6 अपहार, रिश्वत, गबन (मराठी), धोखे से प्राप्त धन + 7 पूर्ण हुआ काम (तेलुगु) + 8 श्रेष्ठ उपलब्धि, उत्तम, यशदायक कार्य (तमिल) 9 तोड़ना, टुकड़े करना, खड करना, वीरणमूल (जडी)
अबदारक अबदारक	विशेषण	हिंदी बंगला	तोड़ने फोड़ने का औजार, अवदारण करने वाला, विदारणकारी, कुदाली, फरसा आदि औजार
अबदारण अबदारणं अबदारणम्	सज्ञा	हिंदी, कन्नड, संस, बंगला मसयासम तेलुगु	1 फाड़ना, तोड़ना, खोदना, चीरना, नष्ट करना, अलग-अलग करना, तोड़ने-फोड़ने की क्रिया या भाव 2 कुदाली, खनित्र, फावडा, बेलचा, खुरपी
अबदारित अबदारित	भूत कृदत्	हिंदी बंगला	1 तोड़ा फोड़ा हुआ, नष्टभ्रष्ट किया हुआ 2 खोदा हुआ, फाड़ा हुआ, पृथक किया हुआ
अबदाह अबदाह अबदाहं अबदाहम्	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, कन्नड बंगला, संस्कृत मसयासम तेलुगु	1 शरीर की जलन, दाह, ज्वर आदि के कारण प्रदाह 2 बड़े क्षेत्रों में अग्नि लगाकर चीजें जला डालना 3 अत्यधिक ताप, बहुत सताने वाली गर्मी + 4 दाहनाशक घास खस या वीरण मूल (हिंदी)
अबदीर्घ अबदीर्घ अबदीर्घ	विशेषण	हिंदी, कन्नड, संस्कृत बंगला मसयासम	अशुभ दिन, वह दिन जब कोई त्यौहार न हो 1 जो फोड़ा गया हो, फूटा हुआ, टूटा-फूटा, नष्ट-भ्रष्ट, काटा-फाड़ा, पिघला हुआ 2 विदीर्ण, विदलित, विभक्त, द्रवीभूत

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अबदीर्घम्		तेलुगु	3. चिंतित, दुखी, विकल, परिभ्रमित, घबड़ाया हुआ
अबदोहं	संज्ञा	मलयालम	1. दूध दुहना, दूध दोहन करना
अबदोह	संज्ञा	संस्कृत, हिंदी	2. दूध, पय; दोहन की क्रिया या भाव
अबद्रव	संज्ञा	बंगला	जलीय तथा चिकने पदार्थ के मिश्रण से तैयार औषधि
अबस्तियम्	संज्ञा	तमिल	1. दोष, त्रुटि, निम्नकोटि, नीचता
अबष्य	संज्ञा	संस्कृत, हिंदी, कन्नड, नेपा	2. पाप, दोष, निंदा, लज्जा, अपराध
अबष्यमु	विशेषण	तेलुगु	3. हेय, पामर, दीन, तुच्छ, श्ववृत्ति, कुत्सित
अबघोतन	संज्ञा	संस्कृत, हिंदी	प्रकाश, उजाला
अबष्ठा	संज्ञा	हिंदी	1. वृत्तका खंड, त्रिकोण के दो खण्ड 2. त्रिभुज
अबष्ठा		मराठी	के शीर्ष से आधार तक लंब डालकर बने खंड
अबष्ठातव्य	विशेषण	हिंदी	मन एकाग्र करने योग्य विषय, जिस पर ध्यान
अबष्ठातव्य		मलयालम	दिया जाना चाहिए, अवधान करने योग्य
अबष्ठाता	संज्ञा	हिंदी	1. किसी वाद, विषय या व्यक्ति का ध्यान रखने वाला
अबष्ठातृ	संज्ञा	संस्कृत	2. ठीक तरह कार्य संचालित करने वाला (केयर टेकर)
अबष्थान	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1. मनोयोग, एकाग्रता, संलग्नता, सावधानी, चौकसी,
अबष्थान		मराठी, कन्नड, असमी	चातुरी, प्रणिधान; नमस्कार, चेतावनी (बंगला)
अबष्थान		उड़िया, बंगला	2. हृदय, श्रद्धा, लक्ष्य एवं स्मरण शक्ति से ग्रहण करना
अबष्थानं		मलयालम	+ 3. अनेक समस्याओं या विषयों को एक साथ
अबष्थानम्		तमिल	स्मरण रखने की कला, स्मृति परीक्षा (तमिल)
अबष्थानम्		तेलुगु	+ 4. समझौता, इकरारनामा (तमिल) समाधि (गुजराती)
अबष्थान	संज्ञा	संस्कृत	+ 5. पाठशाला का शिक्षक, अनुग्रह (उड़िया)
अबष्थानपर	संज्ञा	बंगला	विशेष मनोयोगी, सावधान, एकाग्रचित्त
अबष्थानवत्		गुजराती	स्मरण रखना, ध्यान में लगा हुआ
अबष्थानी	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1. ध्यान रखने वाला, अद्भुत स्मृतिवान यथा
अबष्थानिन्		संस्कृत	अष्टावधानी, शतावधानी
अबष्थानि		तमिल, कन्नड	2. मनोयोग युक्त, वेदज्ञ की एक पदवी शतावधानी
अबष्थानि	संज्ञा	मलयालम	3. अनेक विषयों, प्रश्नों आदि को एक साथ एक

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवधानुडु		तेलुगु	समय में स्मरण रखने वाला विलक्षण व्यक्ति
अवधानिसु अवधानित्तसु	सकर्मक क्रिया	कन्नड तमिल	1 स्मरण करना 2 स्मृति में जमा करना, याद रखना, ध्यान रखना
अवधायक अवधायक	सज्ञा	हिंदी बंगला	1 जो देखभाल करता हो, केयरटेकर (बंगला) 2 अधिकारी जो कार्यालय या कार्य का ध्यान रखे
अवधार अवधारं/अवधार	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, कन्नड मलयालम, संस्कृत	1 निश्चित निर्णय करना, सही निर्धारण, इयत्ता 2 मर्यादा बाधनी, शब्द पर बल डालना, खचित
अवधारक अवधारक अवधारक	विशेषण	हिंदी बंगला मलयालम, कन्नड	1 निरूपणकारी, महत्ता पर जोर देने वाला 2 सूक्ष्म निर्णयकर्ता, ध्यान में परखने वाला 3 किसी बात पर अधिक बल डालने वाला
अवधारण अवधारण अवधारण अवधारणं अवधारणम् अवधारणम्	सज्ञा	हिंदी, गुज, संस, नेपाली मराठी, कन्नड, असमी उड़िया, बंगला मलयालम तमिल तेलुगु	1 विचारपूर्वक निर्णय, दृढ निश्चय, सावधानी 2 स्थिरीकृत परिणाम, प्रमाण सहित वचन 3 मर्यादा स्थापन, शब्दार्थ की सीमा बाधना 4 सकल्प मन में लाना, बलपूर्वक निश्चय 5 अच्छी तरह विचार कर फैसला करना 6 शब्द विशेष पर बल देना
अवधारणा अवधारणा अवधारणे	सज्ञा	हिंदी, मराठी, संस्कृत उड़िया, बंगला, असमी कन्नड	1 मन में किसी दृढ सकल्प अथवा उसके विषय में जमा हुआ विश्वास (कन्सैपशन) 2 सीमा, मर्यादा पराकाष्ठा, चरम सीमा 3 स्थिर विचार, परिमाण निर्णय determination
अवधारणें अवधारिसु/अवधारना अवधारुं अवधारिंचु	सकर्मक क्रिया	मराठी कन्नड, हिंदी गुजराती तेलुगु	1 ध्यान में रखना, ध्यान में सुनना, मन में रखना 2 निश्चय करना, संकल्प कर लेना, सहन करना 3 लक्ष्य दृढ करना, नक्की करना, तय करना + 4 पहनना, वस्त्र धारण करना (तेलुगु)
अवधारणनिपात	सज्ञा	मलयालम	सज्ञा, क्रिया आदि का प्रत्यय जो बल प्रकट करे
अवधारणीय अवधारणीय अवधारणीय	विशेषण	हिंदी मलयालम बंगला	1 मन में रखने योग्य, निर्णय योग्य, समझ में बैठा लेने योग्य, ग्रहण या धारण करने योग्य 2 स्थिर करने योग्य, विचारणीय

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवधारित अवधारित	विशेषण	हिंदी, नेपाली, असमी बंगला, मलयालम	1 निर्धारित, बुद्धिगत, निर्णीत, निश्चित, अटल 2. जो सोच समझकर निश्चित किया हो, सुज्ञात
अवधारु	संज्ञा	तेलुगु, कन्नड	1. जागृति या जाग जा 2. ठान ले, ध्यान कर
अवधार्य अवधार्य अवधार्य	विशेषण	हिंदी, कन्नड बंगला मलयालम	1 निर्णय, स्थिर करणीय, अवधारणीय 2. जिसका ज्ञान कर ही लेना चाहिये 3. जिसके विषय में निश्चय हो जाना उचित हो
अवधावन अवधावन अवधावन	संज्ञा	हिंदी बंगला मलयालम	1. किसी का पीछा करना, अनुसरण 2. पश्चात धावन, पीछे दौड़ना, पकड़ना 3. धोना, अच्छी तरह से स्वच्छ करना, साफ़ करना
अवधावित		हिंदी, बंगला	1. जिसका पीछा किया गया 2. निर्मलीकृत, स्वच्छ
अवधि अवधि अवधि अवधि अवधि अवधि अवधि	संज्ञा संज्ञा/अव्यय	हिंदी, गुजराती, नेपाली कन्नड, मराठी, संस्कृत असमी, उड़िया, बंगला + तेलुगु मलयालम तमिल पंजाबी	1. समय सीमा, कार्यकाल, निर्धारित समय, नियत काल, अन्त समय, मियाद, पराकाष्ठा; मूलस्थान 2. दो नियत समयों के बीच का समय, पड़ोस (संस) 3. वह समय जिससे पहले काम होना ही चाहिए + 4. संख्या विशेष; रहस्यमय या अलौकिक शक्ति (तमिल) + 5. दुर्भाग्य; संकट, दुर्दैव, दुख आफत; रंध, गड्ढा, खंड शिला (कन्नड, तेलुगु) अन्तिम समय (नेपाली)
अवधिविक्रयम्	संज्ञा	तमिल	सशर्त विक्रय, यदि समय पर रुपया न दे तो वस्तुनमिले
अवधि-साकांक्ष अवधि सापेक्ष	विशेषण	मराठी मराठी	1. तुलना में जो ठहरे उसका प्रमाण अथवा माप 2. तुलना ज्ञात होने की आकांक्षा
अवधिज्ञान अवधिज्ञानं अवधिज्ञानम्	संज्ञा	हिंदी मलयालम तमिल	1. वह शक्ति जिससे दबी-गड़ी चीजों का ज्ञान हो 2. परोक्षदर्शित, अतीन्द्रिय शक्ति जिसके द्वारा दूरवर्ती पदार्थ, होनहार आदि का ज्ञान हो (जैन)
अवधि-दर्शन अवधि-दायित अवधिमान	संज्ञा विशेषण संज्ञा	हिंदी हिंदी, बंगला हिंदी	गड़ी-छिपी चीजें दिखाई देना (जैन) अधिकार/कार्य, व्यवहार/जिसकी मियाद बीत गई हे सागर, समुद्र जो अपनी सीमा मानता है
अवधीरण अवधीरण	संज्ञा संज्ञा	हिंदी, मराठी, कन्नड बंगला	1. किसी का मान कम समझकर उससे ओछा व्यवहार करना, तुच्छ मानना (स्लाइट)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवधीरणं	सज्ञा	मलयालम	2 अपमान, अवज्ञा, धिक्कार, तिरस्कार, उपेक्षा, निन्दा, अवहेलना या बेइज्जती करना
अवधीरणमु		तेलुगु	
अवधीर्		संस्कृत	+ 3 निरादृत, अवमानित, निन्दित (मलयालम)
अवधीरण	संज्ञा	संस्कृत	4 अवज्ञा पूर्वक बर्ताव करने की क्रिया
अवधीरणीय	विशेषण	बंगला	अवज्ञेय, जिसका अनादर उचित हो
अवधीरिति	विशेषण	हिंदी, मराठी, कन्नड	1 उपेक्षित, अवमानित, अनादृत, धिक्कृत, तिरस्कृत
अवधीरित		बंगला	+ 2 दूर भगाना, फेंक देना, अलग करना (तेलुगु)
अवधीरित		मलयालम	+ 3 अनुभूत, विदित, समझा हुआ (कन्नड)
अवधीरितमु		तेलुगु	4 जिसके साथ अनुचित व्यवहार हुआ हो
अवधूत	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 नग्न जोगी, नागा साधु, अघोरी, दिगम्बर साधु
अवधूत		कन्नड, मराठी, असमी	2 वैरागी, मस्त, सन्यासी, त्यागी, माया मोह मुक्त
अवधूत	विशेषण	पंजाबी, संस्कृत, मलया	3 उपेक्षित, अपमानित, अस्वीकृत, पराजित
अवधूत		उड़िया, बंगला	+ 4 कम्पित, आन्दोलित, आहत, विक्षिप्त, निन्दित (बंगला)
अवधूतु	सज्ञा	तेलुगु	+ 5 पैरों द्वारा कुचला गया, वर्णाश्रम धर्म त्यागी (मलया)
अवधूतन्	सज्ञा	मलयालम, तमिल	+ 6 श्री दत्तात्रेय का अवतार (मराठी), सिद्धयोगी
अवधूतम्ते चिकित्सा		असमी	योगिक चिकित्सा, जड बूटी से इलाज
अवधूत वेष		हिंदी	नगा, गन्दा या मैला-कुचैला वेष रखने वाला
अवधूती		हिंदी	1 अवधूत सम्बन्धी, अवधूत होने की अवस्था या भाव
अवधूती		बंगला	2 कम्पित, आन्दोलित, विक्षिप्त, चालित (बंगला)
अवधूनन	विशेषण	बंगला, संस्कृत	कम्पन, आन्दोलन, अपसारण, हिलाने की क्रिया
अवधूपित	विशेषण	हिंदी, मलयालम	सुवासित, धूस से सुगंधित
अवधूलनं	सज्ञा	मलयालम	1 अवचूर्णन, चूर्ण बिखेरना या फैलाना
अवधूलन		हिंदी	2 घाव पर दवा की बुकनी छिड़कना
अवधूत	विशेषण	मलया, बंगला, कन्नड, हिंदी	सुज्ञात, संकल्पित, निश्चित, निर्धारित, रक्षित
अवधेय	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 ध्यान देने योग्य, आवश्यक, गौरतलब,
अवधेय		मलयालम	विचारणीय, जानने योग्य, रखने योग्य
अवधेय		बंगला	2 प्रणिधान योग्य, श्रद्धेय, स्थापनीय, आदरणीय

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अबधीत अबधीतिक	संज्ञा	बंगला, हिंदी, तेलुगु बंगला	धौत सन्यासी, अवदात, सफेद वस्त्राच्छादित, शुभ अस्वाभाविक, अवधूत सम्बन्धी
अबध्वंस अबध्वंसनं अबध्वंसमु	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत मलयालम तेलुगु	1. अपमान, परित्याग, अनादर; नाश, उत्सर्ग, ध्वंस 2. चूर्णीकृत, गिरकर अलग होना, कूटना, पीसना 3. छिड़काव + 4. खराब करना, बिगाड़ना (तेलुगु)
अबध्वस्त अबध्वस्त अबध्वस्तमु	विशेषण	हिंदी, कन्नड मलयालम तेलुगु	1. निन्दित, त्यक्त, विनष्ट, तिरस्कृत 2. खराब किया गया, त्याग या दूर हटाया गया 3. मार्जन, जल छिड़ककर बलिपशु को पवित्रकर प्रोक्षण
अबध्वंसनीय	विशेषण	मलयालम	नाश योग्य, निन्द्य, ध्वंस करने योग्य
अबन अबन अबनं	संज्ञा विशेषण संज्ञा	हिंदी, संस्कृत मराठी, कन्नड मलयालम	1. रक्षण, पालन-पोषण करना; प्रसन्न/संतुष्ट करना 2. प्रीति, इच्छा, स्तोत्र, प्रसन्नता बचाव + जल्दबाजी (हिंदी) 3. निर्जल, सूखा (मराठी) 4. रास्ता, भूमि (संज्ञा)
अबनत अबनत अबनत अबनत अबनतमु अबनतम्	विशेषण संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली कन्नड, संस्कृत, मराठी उड़िया, बंगला, असमी मलयालम तेलुगु तमिल	1. नीचे झुका हुआ, नमित, नत, प्रणत, विनम्र 2. लटका हुआ, गिरा हुआ, पतित 3. अस्तगत, नीचे की ओर गया हुआ, डूबा हुआ 4. नमस्कृत, लज्जावनत, श्रद्धावनत, विनीत 5. नम्रता से जिसने सिर झुकाया हो (तमिल) 6. पिछड़ा हुआ, हीन, दुर्दशा ग्रस्त, उन्नत का विपर्याय
अबनतकोण अबनतांश अबनतांशकोण		गुजराती गुजराती हिंदी	झुका कोण, अंतरिक्ष के नीचे नक्षत्र आदि की दूरी का झुका कोना (गणित ज्योतिष), दो रेखाओं या धरातलोंकेमध्य की नेत्र या कोण का झुकाव (ज्यामिति)
अब नक्षत्र अबनतामस्तक अबनते	संज्ञा संज्ञा संज्ञा	हिंदी, संस्कृत बंगला कन्नड	तारों का गायब होना नतशिर, प्रणाम करता हुआ, सिर झुकाये हुए साष्टांग दण्डवत, प्रणाम
अबनति अबनति अबनति अबनति	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली कन्नड, असमी, मराठी उड़िया, बंगला मलयालम	1. अधोगति, हीन दशा, अच्छी हालत से खराब हालत होना, उन्नति का विपरीत शब्द, गिरावट, अपकर्ष 2. सूर्यादि का अस्त गमन, विनय, नम्रता, झुकाव 3. प्रणति, नमस्कार, वणक्कम्, दण्डवत (मलया)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवनदि		तमिल	4 न्यूनता, कमी, चंद्रमा का अक्षांश बदलने के कारण अधोगम या नीचे जाता हुआ दिखना
अवनति	सज्ञा	संस्कृत	
अवनदं	सज्ञा	मलयालम	1 बधा हुआ, एक पदार्थ दूसरे पर बैठाया हुआ
अवनद	सज्ञा, विशेष	हिंदी, गुजराती, कन्नड	2 चमड़े से मढा वाद्य, मृदंग, ढोल आदि
अवनद	सज्ञा विशेष	संस्कृत, मलया	+ 3 अवनम्र नगस्कृत (कन्नड), नत्थी किया हुआ
अवनमन	सज्ञा	हिंदी	1 झुकना, पाव पडना पादस्पर्श, नीचे लटकना
अवनमन		बंगला	2 झुकाना, हीनावस्था में लाना, दमन, उतार
अवनमनं		मलयालम	+ 3 नम्रता प्रदर्शन, वणक्कम् (तमिल, मलया)
अवनम्	सज्ञा	संस्कृत	4 गुण, बल, महत्व मान घटना या कम होना 5 ग्रह, नक्षत्र का क्षितिज से नीचे की ओर जाना
अवनमित	विशेषण	उड़िया, बंगला	झुकाया हुआ दमित प्रणत वक्रीकृत अनुन्त
अवनम्बिके	सज्ञा	तमिल, मलयालम	अविश्वास सदेह, शका, ना उम्मीदी,
अवनम्बिके		कन्नड	भरोसा न रहना या न होना
अवनम्र	विशेषण	मलयालम, कन्नड, संस्कृत	नत मुडा हुआ, झुका हुआ, नवा हुआ
अवनयन	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 अवनति अध पतन अपनयन
अवनयन (अवनय)		बंगला, संस्कृत	2 नीचे लाना नीचे गिराना
अवनयनं		मलयालम	3 नीचे उतारने या अध पात की क्रिया
अवनयिक्कुक्	अरुमक क्रिया	मलयालम	झुकना, झुक जाना अपने आपको झुकाना
अवनयिक्कुक्	सकर्मक क्रिया	मलयालम	1 नेतृत्व करना 2 किसी को अपने से नीचे लाना 3 किसी के ऊपर उड़लना या धार गिराना
अवनह	सज्ञा	संस्कृत	बाधना आवृत करना
अवनाट (त)	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, मलया	1 चपटी नाक वाला
अवनासिक	विशेषण	हिंदी	2 नीचे की झुकी नाक वाला
अवनाम	सज्ञा	हिंदी	1 गुण, बल का मान घटना 2 ग्रह नक्षत्र का सतह से नीचे आना 3 झुकाव या पैरी पर पडने की क्रिया
अवनामं		मलयालम	
अवनाम	सज्ञा	संस्कृत	+ 4 नत होना, नमस्कार, वणक्कम् (मलयालम)
अवनामक	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 झुकाने वाला 2 हतोत्साह करने वाला
अवनायक	विशेषण	हिंदी	अवनति की ओर प्रवृत्त, उन्नायक का विलोम

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवनाय अवनायमु	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत तेलुगु	1. नीचे ले जाना; नीचे फेंकना + 2. न्याय रहित, अन्याय होना (तेलुगु)
अवनाह अवनाहं	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत मलयालम	1. कमर कसना, आवृत करना, कमर बन्द होना 2. बांधना, अवनद्ध करना, लपेटना, पहनना
अवनि अवनि अवनि/अवनी अवनि	संज्ञा	हिंदी, गुज, नेपा, मरा कन्नड, तमिल, तेलुगु उड़िया, बंगला, असमी मलयालम, संस्कृत	1. भूतल, भूप्रदेश, जमीन, भूमि 2. उंगली; नदी, एक जड़ी, लता; एक छंद 3. वह समस्त विस्तृत तल जिस पर मनुष्य रहता और कार्य करता है
अवनिक्त	विशेषण	मलयालम, हिंदी	धोया हुआ, माफ़ किया हुआ
अवनि चर	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	राक्षस; आवारगर्द, पृथ्वी पर भ्रमण करने वाला
अवनिज	संज्ञा	हिंदी, कन्नड	1. मंगल ग्रह 2. वृक्ष, पृथ्वी से उत्पन्न
अवनिजा अवनिजे/जाते	संज्ञा सज्ञा	मलयालम कन्नड	सीता, राज जनक के हल की नोक द्वारा भूमि से निकली हुई, पृथ्वी से उत्पन्न
अवनिजापति	संज्ञा	कन्नड	सीतापति राम
अवनिजन्	संज्ञा	मलयालम	मंगल ग्रह जो भूमि सुत कहलाता है, नरकासुर
अवनितल अवनितलं (ल)	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी मलयालम, बंगला, संस्कृत	जमीन की सतह, भूमि की सपाट स्थली, धरातल, भूतल, पृथ्वीतल
अवनिदेवन्	संज्ञा	मलयालम	ब्राह्मण, पृथ्वी पर देवता के समान चरित्र वाला
अवनिधरं अवनिध	संज्ञा संज्ञा	कन्नड, मलयालम हिंदी	पर्वत, पहाड़, पृथ्वी जिन पर आधृत है, विश्वास है कि पर्वतों के सहारे पृथ्वी टिकी है
अवनि-नाथ अवनिबन् अवनिपति अवनिपन्	संज्ञा संज्ञा संज्ञा संज्ञा	हिंदी, गुजराती, कन्नड, संस तमिल बंग, हिंदी, गुज, नेपा, मरा, संस मलयालम	1. राजा, पृथ्वी का स्वामी, पृथ्वी के निवासियों का पालक, क्योंकि वह शत्रुओं से रक्षा करता है 2. भूपति, भूमिपति, नृपति, भूपाल, महाराज, सम्राट 3. ज़मींदार, ठाकूर, प्रभु, स्वामी
अवनिपाल अवनिपालन् अवनिपालक	संज्ञा संज्ञा संज्ञा	गुजराती, कन्नड, संस मलयालम हिंदी	1. राजा, पृथ्वी का पालन या रक्षण करने वाला भूपाल, भूपति, नृपति +2. पहाड़, पर्वत (हिंदी) 3. अपने अधीन पृथ्वी निवासियों का रक्षक

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवनिपुत्रन् (सुत)	संज्ञा	मलयालम, हिंदी, बंगला	मंगलग्रह
अवनिपुत्री/सुता	संज्ञा	मलयालम, हिंदी	सीता, पृथ्वी से प्रकट हुई
अवनिभृसु/भृत	संज्ञा	मलयालम, हिंदी	1 राजा, अवनिभृत 2 पर्वत
अवनिमंडल	संज्ञा	गुजराती, बंगला, हिंदी	भूमडल, पृथ्वी मडल
अवनिमण्डलं	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	चारों ओर का आवरण, भूगोल
अवनिमातु	संज्ञा	मलयालम	भूदेवी, पृथ्वी माता, अवनिमातृ
अवनिरुह	संज्ञा	हिंदी, गुज, मरा, कन्नड	वृक्ष, पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला पृथ्वी से उगने
अवनिरुहं (ह)		मलयालम, संस्कृत	वाला, पौधा, पेड़ आदि
अवनिसुर	संज्ञा	कन्नड	ब्राह्मण, पृथ्वी पर देवता के समान गुण वाला
अवनीति	संज्ञा	तमिल	अपनीति, अन्याय, अत्याचार, अनाचार
अवनीतन्	संज्ञा	तमिल	अन्यायी, आततायी, जालिम, दुष्ट
अवनीन्द्र	संज्ञा	हिंदी	अवनी का इन्द्र, पृथ्वी का स्वामी, राजा, शासक,
अवनीन्द्रन्		मलयालम	पृथ्वीराज, पृथ्वीपति
अवनीमंडल		हिंदी, बंगला	पृथ्वी मंडल, भूमडल, सारी पृथ्वी
अवनीश	संज्ञा	हिंदी, गुजराती	राजा, पृथ्वी का ईश, प्रभु या स्वामी,
अवनीशन्		मलयालम	सर्वाधिकार सम्पन्न स्वामी, महीप, महीपाल,
अवनीश्वर		हिंदी	पृथ्वी पर ईश्वर के समान या ईश्वरांश
अवनुति	संज्ञा	तमिल	अपहृति, एक काव्यालंकार जिसमें प्रस्तुत गुण का
			निषेध कर अप्रस्तुत का गुण स्थापन होता है
अवनेजन	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 प्रक्षालन, हाथ पांव धोना 2 आचमन
अवनेजनं		मलयालम	पिंडदान की—वेदी पर बिछे कुशासन पर दूर्वादल से
अवनेजन	संज्ञा	संस्कृत	जल छिड़कना + 3 स्नान (मलयालम)
अवन्याय	संज्ञा	संस्कृत	1 अन्याय, न्याय न करना, अनुचित निर्णय
अवनियायम्	संज्ञा	तमिल	2 दोषी को दण्ड न देने का फैसला करना
अवपतनं	संज्ञा	मलयालम	1 नीचे गिरना, अध पतन, अधोगति, नीचे उतरना
अवपतन	संज्ञा	बंगला, संस्कृत	+ 2 विल, गड़ढा, गर्त (बंगला)
अवपतित	विशेषण	बंगला	अम्फुट, अध पतित, अवन्त
अवपति	संज्ञा	तमिल	अपपत्ति, धर्महीनता, अशुद्धता, मूढ़ विश्वास, अपशकृन्, भूत-प्रेत में विश्वास

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवपथ्य अवपत्तियम् अवपथ्यम्	संज्ञा	मराठी तमिल तेलुगु	रोग में हानिप्रद भोजन, अर्भोज्य भोजन हानिप्रद भोज्य पदार्थ अपथ्य पदार्थ, बदपरहेजी
अवपथ्य अवपाक अवपाणि	विशेषण विशेषण संज्ञा	मलयालम हिंदी, संस्कृत गुजराती	अधःपतित, नीचे गिरा हुआ, पतित 1. बुरी तरह पकाया हुआ 2. जो पकाना नहीं जानता दुहने से पहले धन धोने का पानी
अवपात अवपातं अवपातम्	संज्ञा	बंगला, हिंदी, गुज, कन्नड मलयालम, संस्कृत तेलुगु	1. अधःपतन 2. हाथी पकड़ने का छिपा गइटा 3. नाटक के दृश्य में भयातुर भागते लोग (हिंदी) 4. नीचे उतर जाना, गिराव, उतार, झपट्टा, रंध
अवपालन अवपातनं	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत मलयालम	1. गिराना, नीचे फेंकना, धक्का दे कर गिराना + 2. नाटक में जब पात्र भयभीत आये अंत में प्रसन्न जाये (मलया)
अवपात्र अवपात्रन् (पात्रितन्)	विशेषण संज्ञा	हिंदी, संस्कृत मलयालम	1. म्लेच्छ आदि के खाने से अशुद्ध हुआ बर्तन 2. अयोग्य या निकृष्ट पात्र या बर्तन
अवपात्रित अवपाद अवपाशित	विशेषण संज्ञा विशेषण	संस्कृत हिंदी संस्कृत	जाति भ्रष्ट, जाति-बिरादरी से निकाला गया नीचे गिरना मब ओर से जाल में फंसा हुआ
अवपीडन अवपीडनं	संज्ञा संज्ञा	संस्कृत मलयालम	दबाना, आयुर्वेद में नस्य, प्रतिमर्श, प्रधमन, शिरोविरेचन आदि पांच पीड़ाओं में एक; सुंघनी
अवपीडना अवप्येर अवप्यसम् अवप्योलुदु अवप्यिरसबम्	संज्ञा संज्ञा संज्ञा संज्ञा संज्ञा	संस्कृत तमिल तमिल तमिल तमिल	उत्पात, खण्डन, भंजन बदनामी, अपयश, अपकीर्ति अपफल, कुपरिणाम, दुष्परिणाम बुरा समय, व्यर्थ समय, बरबाद किया समय छटे महीने के बाद का गर्भपात
अवप्युत अवप्युतं	विशेषण संज्ञा	बंगला, मलयालम मलयालम	1. अचानक उतरना, कहीं से सहसा अवतीर्ण 2. दूर से कूदना, बांस लेकर ऊंचाई से कूदना
अवबद्ध	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	कसकर बधा हुआ, तग पहना हुआ, स्थिर
अवबाधा अवबाधा	संज्ञा	मलयालम हिंदी, मराठी	1. वेदना, दुख पीड़ा, कष्ट 2. पतिरोध, विरोध, अड़ना; प्रतिशोध

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवबाहु अवबाहुक	सज्ञा	मलयालम हिंदी	भुजस्तम्भ, भुजा की गति रुक जाना, बौह सुन् ह्वे जाना, एक वायु गेग जिममें हथ बेकम हो जाता है
अवबिन्दु	सज्ञा	बंगला	ग्रहकक्षा या क्रान्तिवृत्त का निम्नतर केन्द्र बिन्दु
अवबुद्ध अवबुद्ध	सज्ञा	हिंदी	1 ज्ञात, अधीत, अनुभूत, जानने वाला
अव-बुध्	सज्ञा	मलयालम, बंगला संस्कृत	2 जागृत, मजग, मावधान, चौकन्ना + 3 पहचानना, जानना, जागना (संस्कृत)
अवपुत्ति	सज्ञा	तमिल	अवबुद्धि मूर्खता, दुर्योजना, बुरी सलाह
अवबोध अवबोध अवबोध अवबोधं अवबोधमु	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली कन्नड, संस्कृत उड़िया, बंगला मलयालम तेलुगु	1 जागृति, ज्ञानबोध, विवेक, सूक्ष्म विवेचना 2 निर्णय ज्ञान, न्यायपूर्ण निर्णय 3 होश, अनुभव, जागरण, जागते रहना, जताना 4 वैतन्य, उपदेश, मृचना, शिक्षा ज्ञापन 5 तैयारी, विवेचना, तत्व ज्ञान अनुभव
अवबोधक अवबोधक अवबोधकन्	विशेषण	हिंदी, गुजराती, संस्कृत बंगला	1 ज्ञापक, स्तोता, उपदेष्टा, चारण, वैतालिक 2 शिक्षक, सूर्य, चौकीदार, जगानेवाला, भाट 3 ज्ञान कराने वाला, विवेक कराने वाला
अवबोधन अवबोधन	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत बंगला	1 जगाना, ज्ञापन, जताना, बताना, चेताना 2 ज्ञान कराना सूचना या शिक्षा देना (परिपेशन)
अवब्रवं	सज्ञा	मलयालम	अपवाद, मानहानि, मानभंग
अवभंग अवभङ्गं (ग)	सज्ञा	मराठी, हिंदी मलयालम, संस्कृत	1 पराभव, अपभग, गतिभेद +2 नाक सिनकना (मलया) 3 नाश, नीचा दिखाना, पराजित करना, जीतना
अवभयं	अव्यय	मलयालम	निर्भयता से, निश्चिन्ता से, बेफिक्री से
अवभाष अवभाषण	सज्ञा सज्ञा	मराठी हिंदी, बंगला	1 दुर्वचन, गाली, निन्दा, दुरुत्तर, भर्त्सना 2 अकथ्य कथन, निदान, धिक्करण
अवभास अवभास अवभासं	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी बंगला, संस्कृत मलयालम	1 प्रकाश, तेजग, चमक, शोभा, दैव ज्ञान, प्रतीति 2 साक्षात्कार, प्रत्यक्षता, अध्यास, अवबोध 3 भ्रम, मिथ्याबोध, आरोप 4. स्फुरण, प्राकट्य
अवभासक	विशेषण	गुजराती, हिंदी	1 ज्वलत प्राकट्य, प्रकाशक, प्रत्यक्षकारी, तेजोमय

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवभासक	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	2. भ्रम निवारक, स्फुरक, प्रतीतिकारी, परब्रह्म
अवभासि	विशेषण	मलयालम	1. प्रकट, चमकता हुआ, प्रत्यक्ष, साक्षात्, आभासित
अवभासिन्	संज्ञा	संस्कृत	2. बोधकर्ता, ज्ञानरूप, परमात्मा
अवभासवुं	सकर्मक क्रिया	गुजराती	आभाम होना, प्रतीत होना
अवभासिक्कुक्	क्रिया	मलयालम	चमकना, जगमगाना, दृष्टिगोचर होना
अवभासित	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1. प्रकाशित, प्रकट, प्रत्यक्ष, प्रतीत, लक्षित
अवभास्य	विशेषण	गुजराती	2. प्रतीति योग्य, प्राकट्य, अवभास के योग्य
अवभासिनी	संज्ञा	हिंदी	1. न्वचा, ऊपर की चमड़ी की पतली झिल्ली
अवभासिनी		मलयालम	2. बाह्य चर्म, उच्च चर्म, जिसके स्पर्श में वस्तु ज्ञान हो
अवभृथ	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1. यज्ञ दोषों के परिहार्य या निवारणार्थ स्नान
अवभृथ		संस्कृत, मराठी, कन्नड	2. मुख्य यज्ञ के बाद प्रायश्चित्त रूप में यज्ञ
अवभृथं		मलयालम	3. यज्ञ समाप्ति पर दीक्षित का भार्या सहित विधि
अवपिरतम्		तमिल	पूर्वक स्नान 4. यज्ञान्त शेष कर्म-विधान
अवभृथमु		तेलुगु	+ 5. पर्व स्नान (तेलुगु) यज्ञ उपकरण को धोकर
अवपिरुतम्		तमिल	रखना, अभिषेक जल
अवभृथ स्नान		हिंदी, गुज, संस, मराठी +	6. विवाहोपरान्त स्नान (कन्नड) यज्ञान्त स्नान (नेपाली)
अवभ्रं/भ्र	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	किरी को बलपूर्वक उठाना, भगा ले जाना, अपहरण
अवभ्रट	संज्ञा	मराठी, हिंदी, संस्कृत	1. चपटी नाक वाला, जिसकी नाक उठी हुई नहीं
अवभ्रट	विशेषण	मलयालम, तेलुगु	+ 2. मधना, आलोड़न करना (तेलुगु)
अवभ्रष्ट	विशेषण	मलयालम	भ्रष्ट हुआ, त्यक्त
अवपिरंशम्		तमिल	अपभ्रंश भाषा, विकृत भाषा
अवम	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, बंगला	1. अधम निरस्करणीय, निरर्थक, व्यर्थ, अशुभ, अमंगल, चांद-सौर दिन का अन्तर, अन्तिम
अवम		मलयालम	
अवमू		तमिल	2. पापी, फमीना, अपकृष्ट, छोटा, सबसे छोटा
अवमन्	संज्ञा	तमिल, मलयालम	+ 3. रक्षक पितरों का एक वर्ग (संज्ञा) (हिंदी, संस)
अवम तिथि	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	तिथि जिसका क्षय हो गया हो
अवमत्त	विशेषण	हिंदी, मराठी, संस्कृत, बंगला	अवज्ञात, धिक्कृत, अनादृत, तिरस्कृत,
अवमत्तं		मलयालम	असम्मानित, अगमानित, निन्दित,

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवमतमु	सज्ञा	तेलुगु	अवमानित, अवहेलित
अवमताङ्कुश	सज्ञा	संस्कृत	मस्त हार्थी जो अकुश को कुछ भी न माने
अवमति	सज्ञा	हिंदी, तेलुगु, बंगला	1 अनादर, तिरस्कृति, बेइज्जती, अरुचि, घृणा
अवमति	सज्ञा	संस्कृत, मलयालम	2 मूर्खता, उल्टी अक्ल, बुरी गति 3 विरक्ति
अवमदि	सज्ञा	तमिल	4 अवमानना, अवज्ञा, अवहेलना, अरुचि, निंदा
अवमदित्तु	सकर्मक क्रिया	तमिल	1 बेइज्जती करना, अनादर करना, तिरस्कार करना
अवमदित्तुकुक		मलयालम	+ 2 असहमत होना (मलयालम)
अवमदिच्चिरप्पु	सज्ञा	तमिल	मजाक उडाना, उपहास करना
अवमन्ता(बु)	सज्ञा	मलयालम, हिंदी	1 अवज्ञाकारी, अपमानकर्ता, निन्दा करने वाला
अवमन्तु		संस्कृत, हिंदी	2 जो किसी को अच्छा न मानना हो अथवा
अवमन्ता/न्त्री		बंगला	जो किसी का भला न चाहता हो
अवमन्तव्य	विशेषण	बंगला, मलयालम	अवज्ञेय, भर्त्सनीय, घृण्य, निन्दनीय, हेय
अवमरण	सज्ञा	तमिल	अपमरण, दुर्मरण
अवमर्द	सज्ञा	हिंदी, मराठी, कन्नड	1 रौदना, कुचलना, दबाना, पीसे डालना, नाश,
अवमर्द		बंगला, संस्कृत, नेपाली	मार डाला, ध्वस्त करना, दण्ड देना, वध
अवमर्द		मलयालम	2 एक प्रकार का उल्लू + 3 ग्रहण का एक भेद (हिंदी)
अवमर्दमु		तेलुगु	4 शत्रु के नगर का उच्छेद, बर्बादी 5 मालिश
अवमर्दन	सज्ञा	हिंदी, नेपाली, मराठी, बंग	1 दलन, उत्पीडन, ध्वंस, जंग करना, रौदना,
अवमर्दनं (मर्दन)	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	जान से मारना, ढोल पीटना, कुचलना
अवमर्दनमु		तेलुगु	2 मालिश करना, चपी करना
अवमर्दि	सज्ञा	मलयालम	उत्पीडक, गुलाम बनाकर रखने वाला
अवमर्दित	विशेषण	हिंदी	1 विदलित, पीडित, विनाशित, गुलाम
अवमर्दित		बंगला	2 रौदा हुआ, कुचला हुआ, नष्ट किया हुआ
अवमर्दित्तुकुक	सकर्मक क्रिया	मलयालम	कुलचना, सताना, दबाना, पीडित करना
अवमर्याद	सज्ञा	मलयालम, तेलुगु, कोंकणी	असम्मान, अमर्यादा, निन्दा, अविनम्रता,
अवमर्यादि		तमिल	अनम्रता, विनय रहितता, उद्दण्डता, अपमान
अवमर्यिप्पु	सज्ञा	तमिल	अनादर, उपेक्षा या घृणा करना, सम्मान न करना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवमर्यादित्सो	विशेषण	कोंकणी	मर्यादा या शिष्टता का व्यवहार न करना
अवमर्श	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत	1. छूना या स्पर्श करना + 2. चिंतन, परिगणन (मलया)
अवमर्श		हिंदी, गुजराती, नेपाली	3. मबंध या सम्पर्क स्थापित करना; परामर्श
अवमर्शसंधि	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	नाटक की मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्ष,
अवमर्शसंधि		मराठी, मलयालम, संस	निर्वहण इन पांच संधियों में से एक
अवमर्ष	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत, नेपाली	आलोचना, अन्वेषण, खोज, नाटक की एक संधि
अवमर्षण	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	1. अमहृष्णुता, अक्षमा 2. विस्मरण
अवमर्षण		बंगला, संस्कृत	3. मिटाना, हटाना 4. बर्दाश्त न करना, असहनशीलता
अवमर्षण		मलयालम	5. ख्याल में भी न लाना या ख्याल न रहना
अवमर्ष	संज्ञा	तमिल	असमय वृष्टि, हानिकारक बरसान
अवमान	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1. किमी के मान का पूरा ध्यान न रखना
अवमान		मराठी, कन्नड, संस्कृत	2. जितना चाहिए उतना मान न देना
अवमान		असमी, उड़िया, बंगला	3. तिरस्कार, अवहेलना, उपेक्षा, असम्मान, अपमान
अवमान		मलयालम	4. अवगणना, निन्दा, बदनामी
अवमानम्		तमिल	5. अवज्ञा, बेइज्जती, इज्जत न करना
अवमानम्		तेलुगु	6. महत्व, मान या मूल्य ठीक से न आँकना
अवमानणें	अकर्मक क्रिया	मराठी	अनादर करना, अवज्ञा करना, ध्यान न देना
अवमानन	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. तिरस्कार, अवज्ञा, असम्मान,
अवमानन (ना)		बंगला, उड़िया	2. अनादर, अशिष्टाचार, अपमान करना
अवमाननं		मलयालम	3. उपेक्षा, बेइज्जती, बदतमीजी या बदतहजीबी
अवमानना		हिंदी, असमी, संस्कृत, बंग	से पेश आना, किसी की मान-मर्यादा न रखना
अवमाननीय	विशेषण	बंगला	उपेक्षणीय, अवज्ञेय, अनादरणीय
अवमानयिता	विशेषण	बंगला	अपमानकारी, तिरस्कर्ता, अवमानना करने वाला
अवमानित	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	जिसका अपमान हुआ हो या अनादर किया हो,
अवमानित		मलयालम, कन्नड, बंगला	अपमानित, बेइज्जत, अनादृत, तिरस्कृत, अवगणित
अवमानिष्ठु	क्रिया	तेलुगु	बेइज्जत करना, अपमानित करना, निरादर
अवमानित्तसु	क्रिया	तमिल	करना, तिरस्कार करना,
अवमानित्तकु	क्रिया	मलयालम	धिक्कारना, तिरस्कारना, उपेक्षा करना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवमानिन्	विशेषण	संस्कृत, हिंदी	अपमान करने वाला,
अवमानी	विशेषण	हिंदी	तिरस्कार करने वाला
अवमान्य	विशेषण	गुजराती	1 अमान्य, असम्माननीय, अवमन्तव्य, अनादरणीय
अवमान्य		बंगला	2 स्वीकारने योग्य नहीं, मानने लायक नहीं
अवमान्य		मलयालम	3 उपेक्षणीय, ध्यान रखने लायक नहीं
अवमार्जन	सज्ञा	बंगला, संस्कृत	प्रक्षालन, शोधित करना, साफ करना, पोछना
अवमास	विशेषण	मराठी	1 ढीला, अव्यवस्थित 2 उल्टा, उजड़ू लापरवाह
अवमाहम्	सज्ञा	तमिल	(अवम्+अहम्) जिस दिन तीन तिथि, तीन नक्षत्र या तीन योग हो
अवमूर्धन्	विशेषण	संस्कृत	सिर झुकाये हुए
अवमूर्धशय	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	औंधा मुँहकर लटा हुआ
अवमूल्यन	सज्ञा	हिंदी	1 भाव घटाना, मूल कम करना दर कम करना
अवमूल्यन		नेपाली	2 विनियम का दाम या कीमत कम हो जाना
अवभिरुत्तु	सज्ञा	तमिल	असमय या अप्राकृतिक गत्यु (अवमरण)
अवभोचन (मुष्)	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 बन्धनमुक्ति, छुटकारा, उन्मादन + 2 विश्राम
अवभोचन		बंगला	स्थल (मलयालम) ढीला करना (हिंदी)
अवभोचनं		मलयालम	3 परित्याग, नियम बधन न रहना, पोशाक उतार देना
अवभोटन	सज्ञा	बंगला	मसलना, निचोड़ना
अवभृव	सज्ञा	संस्कृत	पीसना, मल डालना, घिसना, रगड़ना
अवयव	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 अंग, अंश, हिस्सा, भाग, गुणनखंड (फैक्टर)
अवयव		मराठी, कन्नड, असमी	2 शरीर या वस्तु का कोई एक भाग, घटक, तत्व
अवयव		उड़िया, बंगला, संस्कृत	3 तर्कपूर्ण वाक्य का बलवान अंश या भेद (न्याय)
अवयवं		मलयालम	+ 4 उपकरण, साधन, मूर्ति, आकृति (बंगला, उड़िया)
अवयवम्		तमिल	+ 5 एक सदस्य, सहकारी या सहयोगी (तेलुगु, कन्नड)
अवयवमु		तेलुगु	+ 6 शीघ्रता, निस्सन्देह, असंशय (कन्नड)
अवयवपृथक्करण	सज्ञा	गुजराती	अवयव अलग करना
अवयवरूपक	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	रूपक अलंकार का एक भेद, सागरूपक
अवयवशक्ति	सज्ञा	गुजराती	शब्द के प्रकृति प्रत्यय के अर्थ बोध कराने की शक्ति, यौगिक शक्ति

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवयवज्ञः अवयवसंबन्ध	अव्यय संज्ञा	मराठी, संस्कृत कन्नड	बीच में परदा डाल अलग करना, अलग-अलग करके समाज-संबंध, सदस्यता संबंध
अवयवार्थ अवयवार्थ	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत मलयालम	1 शब्दों के पृथक पृथक अंशों के पृथक-पृथक अर्थ 2 शब्दों के अवयवों में निकलने वाला अर्थ
अवयवी अवयवी अवयवी अवयवि अवयविन्	संज्ञा	हिंदी, गुजराती नेपाली, मराठी, असमी उड़िया, बंगला कन्न, तमि, मलया, तेलुगु + संस्कृत, हिंदी +	1 अंगी, पूर्ण शरीर धारी, पूरा, समूचा, अनेक अवयव वाला, अवयवयुक्त, सर्वांगयुक्त, अंशवान, साकार, पूर्ण वस्तु, जिसके अनेक अंग हों 2 उपकरण विशिष्ट (बंगला) 3. उपनय निगमन आदि का संयोग (न्याय)(संस्कृत)
अवयवी भूत अवयवीक्रम अवयान	संज्ञा संज्ञा संज्ञा	गुजराती कन्नड हिंदी	अवयव रूप बनना, किसी का अंग बनना एक अलंकार 1. किसी को प्रसन्न करने के लिए झुकना, नुस्तीकरण 2. प्रायश्चित्त 3. नीचे की ओर जाना
अवयोग (जोग) अवयोगं अवयोगम् अवयोगमु	संज्ञा	गुजराती, कन्नड मलयालम तमिल तेलुगु	1. अशुभ मूर्त, अपशकुन, बुरा वक्त 2. अनहोनी होना, बे-मौके, बुरा योग 3 दुर्घटना, अघटित घटित होना 4 संयोग या संयोग का विपरीत शब्द
अवरत (तः) अवरत अवरत	विशेष. अव्यय	हिंदी, नेपाली, संस्कृत कन्नड, मलयालम बंगला	1 जो रत न हो, विरत, स्थिर, पृथक, विराम युक्त, रुका हुआ, बन्द हुआ, ठहरा हुआ 2 निवृत्त, विश्रान्त + पीछेकी ओर, पिछला(अव्यय)(कन्न. गग)
अवरति अवरति अवरति	संज्ञा	हिंदी, तेलुगु, संस्कृत मलयालम, कन्नड + बंगला	1 विरक्ति, विश्राम, अवसान, निवृत्ति, छुटकारा 2. क्रीड़ा, अवरत होने की अवस्था (बंगला) 3 त्याग, समाप्ति, ठहराव, आराम, विराम
अवरहस अवरागम् अवराबुं अवरास्तिरि	विशेषण संज्ञा अकर्मक क्रिया संज्ञा	मलयालम, हिंदी तमिल गुजराती तमिल	निर्जन, विजन स्थान, उजाड, बसावट रहित विराम, विरक्ति, बुरा राग वश में होना, ताबे में होना, मुस्त होना, छुप जाना रात व्यर्थ बीतना, बुगी रात
अवरीण अवरीणमु	विशेषण	मलयालम, संस्कृत तेलुगु	1. अवगणित, उपेक्षित, तिरस्कृत, अधःपतित, मृणित 2. अनादृत, असम्मानित, बेइज्जत, गिरा हुआ, निन्द्य

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अबरुग्ण अबरुग्णं	विशेषण सज्ञा	संस्कृत, मलयालम मलयालम	1 खडित, तोडा हुआ, फटा हुआ 2 रोगी, बीमार खडन करना, तोडना, पृथक करना
अबरुद्ध अबरुद्ध अबरुद्ध अबरुद्धमु अबरुद्धन्	विशेषण सज्ञा	हिंदी, नेपाली, मराठी मलयालम, असमी, संत बंगला तेलुगु मलयालम	1 रुक्न हुआ, रोका हुआ, बाधित, आवृत, घिरा हुआ 2 बद्ध, बन्द, क़ैदी, नजर बन्द, छिपा हुआ, गुप्त 3 प्रतिहत, आच्छादित, दिया हुआ 4 बन्धन में, एकान्त दण्ड+ 5 अत पुर पत्नी (मलया, मरा) 6. प्रतिरुद्ध, परिवृत्त, छाया हुआ, ढका हुआ
अबरुद्धा अबरुद्धि	सज्ञा सज्ञा	हिंदी, मराठी, संस्कृत संस्कृत	अपने वर्ण की रखैल या दासी, रखी हुई स्त्री 1 रोक- थाम, घेरा 2 उपलब्धि, प्राप्ति
अबरुद्ध(ठ) अबरुद्ध	विशेषण	हिंदी, मलयालम, संस्कृत बंगला	1 उतरा हुआ, अवतीर्ण, आरूढ का उलटा 2 दृढ या तत्पर नहीं, उखडा हुआ
अबरुप अबरुपम् अबरुप	विशेषण	मलयालम, मराठी तमिल हिंदी, संस्कृत	विरूप, विकृत रूप, अपरूप, भौडा, बदशक्ल, दूषित या मलिन रूपवाला, कुरूप, बदसूरत, भद्दा, जो देखने में अच्छा न लगे +पतित (सस हिंद
अबरुपित अबरेख अबरेखना अबरेख	भूत कृदत अव्यय सकर्मक क्रिया सज्ञा	कन्नड गुजराती हिंदी हिंदी	अघटित घटना, कुरूप करना. भ्रष्ट करना खचित, रेखांकित, चित्रित 1 चित्र अंकित करना, उरेहना 2 गौर से देखना 1 वक्र गति, तिरछी चाल, उलझन, पेच 2 चालाकी भरी बात 3 कपडे की तिरछी कटाई, दोष, बुराई
अबरोचक अबरोचकं	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत मलयालम	भूख न लगने का रोग, भोजन की रुचि में खुराबा आना, अरुचि
अबरोध अबरोध अबरोध अबरोधं अबरोधम् अबरोधम्	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली मराठी, कन्नड, असमी उड़िया, बंगला, संस्कृत मलयालम तमिल तेलुगु	1. रोक, अटकाव, बाधा, विघ्न, अडचन 2. परकोटा, हरम, राजमहल, ज़नानखाना, अत पुर, रनिवास 3 कारागार, अमुक्त परिवेष्टन 4. चारों ओर से घेरने की क्रिया या भाव + 5. मृताशौच, मृत्यु का सूतक (मराठी) 6. वह तत्व जो कार्य सिद्धि में बाधक हो + 7 पौधे के मूल से तन्तुओं का निकलना (हिंदी)
अबरोधक	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1. दरबान, चौकीदार, पहरेदार, प्रहरी

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवरोधक(क) अवरोधक अवरोधकन्	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत बंगला	2. वह व्यक्ति जो कहीं प्रवेश करने से रोके, रोकने वाला 3. घेरा, बाड़, परकोटा, क्रिले के बाहर की खाई 4. मार्ग में डाली गई अड़चन या रुकावट
अवरोधणें(ना)	संज्ञा	मलयालम	4. मार्ग में डाली गई अड़चन या रुकावट
अवरोधक(ना)	सकर्मक क्रिया	भराठी, हिंदी	रोकना, बाधा डालना, मना करना
अवरोधन अवरोधन अवरोधनं	संज्ञा	हिंदी, गुज, नेपाली, कन्नड	1. बाधा, रोक, अड़चन, बढ़ने से रोकना
अवरोधप्रथा	संज्ञा	उड़िया, बंगला, संस्कृत	2. घेरा, आच्छादन, विघ्न, रुकावट, घिरा स्थान
अवरोधिक अवरोधिक	विशेषण	मलयालम	3. महल में महिलाओं का स्थान अन्तःपुर
अवरोधिका अवरोधिका	विशेषण	हिंदी, बंगला	स्त्रियों को अंतःपुर से न निकलने देने की प्रथा
अवरोधिंशु	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1. बाधा या रुकावट या घेरा डालने वाला
अवरोधित अवरोधित	विशेषण	बंगला	2. जनानी ड्यूटी का दरबान 3. अंतः पुर रक्षक
अवरोधिनी अवरोधिन्	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1. अंतःपुर रक्षिका या प्रहरी स्त्री; अंतःपुर वासिका
अवरोधी अवरोधी	विशेषण	बंगला	2. वह स्त्री जो महल के भीतर जाने न दे
अवरोप(पं)	संज्ञा	तेलुगु	रोकना, विरोध करना, बाधा डालना
अवरोपण अवरोपण अवरोपणं	संज्ञा	हिंदी	1. जिसे रोका गया हो, घेरा गया हो
अवरोपित अवरोपित अवरोपितं	विशेषण	नेपाली	2. रोका हुआ, घेरा हुआ + ठेका हुआ (नेपाली)
अवरोपित्	विशेषण	बंगला	बाधाकारी, विघ्न डालने वाली स्त्री
अवरोपित्	विशेषण	संस्कृत	अड़चन, रुकावट, बाधा या घेरा डालने वाला
अवरोपित्	विशेषण	गुजराती, नेपाली, हिंदी	1. देखें: अवरोधक के सम्पूर्ण अर्थ
अवरोपित्	विशेषण	बंगला	2. आयुर्वेद में दस्तबद करने की औषधि
अवरोपित्	विशेषण	संस्कृत, मलयालम	किसी आरोप या अभियोग से मुक्त कराना
अवरोपित्	विशेषण	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	1. उखाड़ना, उत्पाटन, उन्मूलन, उतारना, घटाना
अवरोपित्	विशेषण	बंगला	2. अपसारन, अभियोग मुक्त करना (डिसचार्ज)
अवरोपित्	विशेषण	मलयालम	3. आरोप हटाना, आरोप का विपर्याय; वंचित करना
अवरोपित्	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1. उत्पाटित, अवतारित, अपसारित, उखाड़ा हुआ
अवरोपित्	विशेषण	बंगला	2. उतारा हुआ, उन्मूलित, हटाया हुआ 3. आरोप से मुक्त किया गया, जड़ से उखाड़ा हुआ
अवरोपित्	विशेषण	मलयालम	से मुक्त किया गया, जड़ से उखाड़ा हुआ
अवरोपित्	संज्ञा	मलयालम	1. फांसी लगाकर मारा गया 2. अवरोपण कर्ता

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवरोह	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 अवतरण, नीचे उतरना, अवनति, पतन
अवरोह		कन्नड, मराठी, असमी	2 संगीत में ऊचे स्वर से नीचे स्वर में आना
अवरोह		उड़िया, बंगला, संस्कृत	+ 3 दर्शन शास्त्र की एक युक्ति प्रणाली विशेष (बग)
अवरोहं		मलयालम	4 वट वृक्ष की जटाएँ, पेड़ की लटकती जड़े
अवरोहम्		तमिल	5 अध पतन, गिराव, झुकाव, उतार, परित्याग
अवरोहमु		तेलुगु	+ 6 एक सिद्धान्त से दूसरे में गमन (बंगला), स्वर्ग
अवरोहक	विशेषण	नेपाली, हिंदी	1 अवरोहणकारी, उतारने वाला, उतरने वाला
अवरोहक		बंगला	2 ऊचाई से नीचे लाने वाला, तले में लाने वाला
अवरोहकम्		तमिल	3 संगीत स्वर के पद क्रम नीचे को उतारना
अवरोहक्रमं	सज्ञा	मलयालम	नीचे उतरने का मिलमिला या क्रम
अवरोहणं (म्)	सज्ञा	मलयालम, तमिल	1 उतार, गिराव, पतन नीचे उतरना
अवरोहण	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत, मराठी	2 ऊपर जाना, चढ़ना, चढ़ाव
अवरोहण	सज्ञा	असमी, बंगला, नेपाली	3 संगीत के स्वरों के ऊपर से नीचे आने का क्रम
अवरोहणमु		तेलुगु	4 अवतरण, परित्याग, नीचे आने की क्रिया
अवरोहणी	सज्ञा	हिंदी, बंगला	मीठी, सोपान, जीना
अवरोहपत्र	सज्ञा	बंगला	जहाज से भूमि पर उतरने का जापक पत्र
अवरोहिणी	सज्ञा	हिंदी, बंगला	1 ग्रहों के विशेषण स्थान के कारण उत्पन्न बुरी दशा
अवरोहिणि	सज्ञा	मलयालम	2 कारण से कार्य का अनुमानकारी, अवतरणकारी
अवरोहित	विशेषण	हिंदी, मलयालम	1 हलके लाल रंग का, गुलाबी
अवरोहि	सज्ञा	मलयालम	2 हीन, नीचे गिरा हुआ ऊपर से नीचे आने वाला
अवरोही	विशेषण	नेपाली, हिंदी, बंगला	3 स्वर में निम्न गमन क्रम, वट वृक्ष
अवलंघन	सज्ञा	हिंदी, नेपाली	उल्लंघन, नियम या आज्ञा न मानना
अवलंघना	सज्ञा	हिंदी	लाघना, उल्लंघन करना
अवलक्ष	सज्ञा	हिंदी, कन्नड, कोंकणी	1 सफेद रंग, सफेद रंग का, उज्ज्वल
अवलक्षं	सज्ञा	मलयालम	+ 2 घोट, आघात (कोंकणी)
अवलक्ष	विशेषण	संस्कृत	+ 3 दुर्व्यवहार, अपशब्द कथ (कोंकणी)
अवलक्षण	सज्ञा	गुजराती, मराठी, कन्नड	1 अपशकुन, अपलक्षण, कुलक्षण, अवगुण, दोष
अवलक्षणं		मलयालम	2. कुरूपता, विरूपता, भद्दापन, भौडापन, अश्री

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवलक्षणम्		तेलुगु	3. अव्यवस्था, बद- इन्तज़ामी, अयोग्य व्यवहार
अवलदृषणम्	संज्ञा	तमिल	+ 4. बोलचाल में अशिष्टता या अमभ्यता (तमिल)
अवलच्छना		हिंदी	1. देखना 2. बुरे लक्षण वाली, अलक्षणी(स्त्री),
अवलक्षणी	विशेषण	मराठी	दुर्गुणी, उन्पानी, नटखट स्त्री
अवलक्षि	संज्ञा	मलयालम	लक्ष्मी की ज्येष्ठा, दुर्भाग्य की देवी
अवलगितं	संज्ञा	मलयालम	नाटक का प्रवेशांक
अवलग्न	संज्ञा	गुजराती, हिंदी, संस्कृत	1. अट्टा जमाना, कहीं लगकर बैठ जाना
अवलग्नं(न)	संज्ञा, विशेष	मलयालम	2. किसी में झूठा, लटका, चिपटा या गटा हुआ
अवलग्न	संज्ञा	नेपाली, कन्नड, बंगला	3. कमर, कर्कट प्रदेश 4. जोड़ना, टाकना, मलग्न
अवलग्नम्		तेलुगु	+ 5. गलत लग्न, अधुभ गृह्य (तेलुगु)
अवलम्ब	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1. आश्रय, सहारा, आधार, धारक, आलम्बन
अवलम्ब		कन्नड, मराठी, असमी	2. किसी के सहारे लटकने वाली वस्तु
अवलम्ब		उड़िया, बंगला	+ 3. उद्गम, प्रकाश, शरण ग्रहण (बंगला), परिशिष्ट(मरा)
अवलम्बं		मलयालम	+ 4. सिद्धान्त का आधार लेना, धर्मग्रहण का सहारा(तेलु)
अवलम्बम्		तमिल	+ 5. खम्भा, धूनी, लाठी, क्रय, टेक, छड़ी (तमिल)
अवलम्बम्		तेलुगु	+ 6. भगोसा, आत्म विश्वास, लंब (गुवा गणित)(मराठी)
अवलम्बक	संज्ञा	हिंदी	1. एक छंद या वर्णवृत्त
अवलम्बकं		मलयालम	+ 2. पाच प्रकार की खांसी में से एक (मलयालम)
अवलम्बशिलेष्यम्	संज्ञा	तमिल	अधिक कफ की एक बीमारी
अवलंबन	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी, नेपाली	1. सहारा लेना, सहायता लेना, आश्रय लेना
अवलम्बन	संज्ञा	संज्ञ, असमी, उड़िया, बंग	2. अधिष्ठान, निर्भरता, अंगीकार, ग्रहण या धारण करना
अवलम्बनं	संज्ञा	मलयालम	3. जीविका, वृत्ति, लाठी, छड़ी जिसके सहारे चलते हैं
अवलंबनम्	संज्ञा	तेलुगु	4. लता को आश्रय देने वाला डंडा आदि
अवलंबनम्	अकर्मक क्रिया	गुजराती	1. लटकना; आधार में रहना, सहारा लेना
अवलंबनं	क्रिया	मराठी	2. ग्रहण, स्वीकार, आश्रय, सहारा आदि की क्रिया
अवलंबिंचु	सकर्मक क्रिया	तेलुगु	+ 3. धर्म परिवर्तन करना, गय पर चलना, माहस
अवलम्बिचुकु	क्रिया	मलयालम	बदोना (तेलुगु) 4. सवरे लटकना, आधुत होना, अपनाना,
अवलम्बित्तु	सकर्मक क्रिया	तमिल	भरोसा करना 5. शरणागत या परतंत्र होना
अवलम्बित्तु	क्रिया	कन्नड	6. किसी को पकड़कर चलना, आधार होना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अबलम्बित अबलम्बित (मु)	विशेषण भूत कृदन्त	बंगला, नेपाली, मलया, मरा हिंदी, कन्नड, गुजराती, तेलु	धृत, गृहीत, पालित. रक्षित, शरणागत, आधारित आश्रित, किसी के सहारे लटका हुआ
अबलम्बिनी अबलम्बिनी	संज्ञा विशेषण	बंगला हिंदी	निर्भरशील, अधोलम्बी, अवलंबनकारी, उच्च स्थान से निम्नगामी, ग्रहण या धारण करने वाला
अबलम्बिसुविके	संज्ञा	कन्नड	शरण लेना, रक्षा में जाना
अबलम्बी अबलम्बिन् अबलम्बि अबलम्बी	विशेषण	हिंदी, नेपाली संस्कृत कन्नड बंगला	1. सहारा देने वाला, आश्रयी, अवलंबन करने वाला 2. जो किसी आधार पर टिका हो, अधोलंबी 3. ग्रहण या धारण करने वाला 4. निर्भर, परतंत्र, आश्रित
अबलम्ब्य अबलापं अबलिखन	अव्यय संज्ञा संज्ञा	बंगला, मलयालम मलयालम बंगला	जिसका आधार हो, जिसे मानकर चला जाय अपलाप, व्यर्थ बोलना नीचे लिखना, हस्ताक्षर करना, स्वाक्षर करना
अबलिप्त अबलिप्त अबलिप्त (मु)	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली मराठी, कन्नड, मलया बंगला, संस्कृत, तेलुगु	1. लेप लगा हुआ, कृत लेपन, पोता हुआ 2. सना हुआ, रंगा हुआ 3. अनुरक्त, लीन, लिप्त 4. गर्वित, उद्दाम + कलंकित, दोषयुक्त, क्रोधी (मराठी)
अबलिप्तते अबलिप्ति अबलीक	संज्ञा संज्ञा विशेषण	कन्नड हिंदी हिंदी	1. उबटन, मलहम 2. गर्व, दम्भ 3. लिप्तता अपने आप को कुछ बड़ा समझना (प्रिजम्बुअसनैस) 1. निर्दोष 2. पाप या कलंक रहित
अबलीढ अबलीढ (ढं) अबलीढमु अबलीढे	विशेषण संज्ञा	हिंदी, नेपाली, संत, मलया बंगला, मलयालम तेलुगु कन्नड	1. चाटा या चखा हुआ, खाया हुआ, भक्षित 2. कृतावलेह, आस्वादित 3. विनष्ट, विनाशित, दग्ध (बंगला, मलया) 4. अवगणन, निन्दा, उपेक्षा (मलयालम)
अबलीन अबलीन	विशेषण	कन्नड मलयालम	1. कम या नष्ट किया हुआ, अवकुचित 2. स्वयं को छिपाना 3. उड़कर बैठना, गाय आदि का आवारा होना
अबलीला अबलीला अबलीला अबलीला	संज्ञा विशेषण संज्ञा संज्ञा	मराठी, कन्नड, असमी + बंगला, उड़िया हिंदी, संस्कृत, नेपाली मलयालम, तेलुगु	1. अनायास, सुविधा से, अक्लेश, सहज ही (बंग, अस) 2. विनोद, क्रीड़ा, खेल-कूद 3. निःसंकोच उद्यत, उपेक्षा, अवगणना, अनादर 4. सरलता से, खेल ही खेल में (तेलुगु)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अबसीसा क्रमे	अव्यय	असमी, बंगला	अनायास, आसानी से, सहज ही
अबलुंघन अबलुंघनं अबलुंघन	संज्ञा	हिंदी मलयालम संस्कृत, नेपाली	1. बाल उखाड़ना, नोचना, छेदन, तोड़ना, लुंचन करना 2. खोलना, हटाना, फाड़ना, काटना, छीलना 3. जड़ से उखाड़ने की क्रिया
अबलुंघित अबलुंघित्त	विशेषण	हिंदी नेपाली	1. जिसके बाल नोंचे गए हों, खुला हुआ, उखाड़ा हुआ 2. दिगम्बर सम्प्रदाय के श्रमण मंन्यामी (मंज्ञा)
अबलुंठन अबलुंठन अबलुंठनं अबलुंठनमु	संज्ञा संज्ञा	हिंदी, मराठी संस्कृत, नेपाली, बंगला मलयालम तेलुगु	1. भूमि पर लोट पोट होना, करवटें बदलना 2. किसी का धन आदि लूट लेना 3. चुराना, लूटना, ठगना (मराठी, मलया, हिंदी) 4. लुटकना, लोट लगाना, लोटन कवृत्तर बनना
अबलुंठित अबलुंठित्त अबलुंठित्तमु	विशेषण	हिंदी, नेपाली बंगला तेलुगु	1. लोट-पोट हुआ, भूलुंठित, लुटका हुआ 2. लुटा हुआ, ठगा गया+3. जो अबलुंठन करता हो, किसी कारण पड़ा तड़पता हो (बंगला)
अबलुम्पन अबलुप्त	संज्ञा विशेषण	संस्कृत, हिंदी बंगला	झपट्टा मारना, अचानक टूट पड़ना (किसी चीज़ पर) अन्तर्हित, अदृश्य, लुप्त
अबलेख अबलेख अबलेखं	संज्ञा	नेपाली, हिंदी, संस्कृत बंगला मलयालम	1. खुर्चना, तराशना, रेखा खींचना, खोदना 2. चिन्हित करना, अंकित करना (चित्र या मूर्ति) 3. उकेरना, उरेहना, गोदना, नोड़ना
अबलेखन अबलेखनं अबलेखन	संज्ञा संज्ञा	हिंदी मलयालम बंगला, नेपाली	1. बाल बनाना, बाल माफ़ करना, कंघी करना 2. वीणा में गमक पैदा करने का एक उपाय; खुर्चना 3. लिखे को मिटाकर झूठा हिमाब लिखना (मलया)
अबलेखनी अबलेखनि अबलेखनी	संज्ञा	हिंदी, नेपाली मलयालम बंगला	1. पेंसिल, कूची, ब्रुश, कलम, छैनी आदि उपकरण जिनसे कुछ लिखित, चिह्नित आदि किया जा सके 2. कंघी जिससे बाल अलग-अलग किये जायें
अबलेखा	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	चित्रकारी, रगड़ना, सजाना, रेखा खींचना
अबलेप अबलेप अबलेप	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली असमी, मराठी, कन्नड उड़िया, बंगला	1. चुपड़ना, लेप करना, उबटन, प्रलेप; मलहम 2. आभरण, भूषण, आभूषण, अलंकरण, गहना 3. गर्व, अहंकार, क्रोध, दर्प, विद्वेष, आक्षेप, क्षेपण,

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अबलेपं	सज्ञा	मलयालम	निन्दा, असम्मान, अपमान, हिंसा, शेखी
अबलेपम्		तमिल, संस्कृत	+ 4. एकता, मेल (कन्नड, नेपाली) सग, लगाव (हिंदी)
अबलेपमु		तेलुगु	5 आक्रमण, चढाई, हिंसा (हिंदी), जबरदस्ती (सस)
अबलेपक	विशेषण	हिंदी	स्वय को बडा समझने वाला (प्रिज़म्ट्यूअस)
अबलेपकता	सज्ञा	हिंदी	अवलेपक होने की अवस्था या भाव
अबलेपन	सज्ञा	हिंदी, नेपाली, मराठी	1 उबटन लगाना, लेपने पोतने की क्रिया या भाव
अबलेपन		असमी, बंगला, संस्कृत	2 आरोप लगाना, आक्षेप, क्षेपण, अधिक्षेप, एकता, मेल
अबलेपनं	सज्ञा	मलयालम	3 अभिमान, गर्व, सकल्प 4 चदन का वृक्ष
अबलेपना	अव्यय	हिंदी	1 स्वय को दूसरो से बढयटकर समझना 2 आरोप लगाना
अबलेपे	अव्यय	कन्नड	गर्व से, दर्प से, अभिमान से
अबलेपम्	सज्ञा	तमिल	अपमान, तुच्छता, छोटापन
अबलेह	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 चाटने की वस्तु, चाटकर खाई जाने वाली दवा
अबलेह		असमी, बंगला, मराठी	2 माजून, चटनी, शहद, जैली आदि
अबलेहं(ह)	सज्ञा	मलयालम, संस्कृत	+ 3. जिह्वा द्वारा लेहन या चाटने की क्रिया (बंगला)
अबलेहन	सज्ञा	हिंदी, नेपाली, अस, बंग	1. जीभ में आम्बादन, चाटना
अबलेहनं	सज्ञा	मलयालम	2 चाटने योग्य पदार्थ यथा चटनी, शहद आदि
अबलेहनम्		तमिल	3 जिसे चाट कर खाना पडे ऐसी औषधि या दवाई
अबलेहनमु		तेलुगु	4. जीभ में चाटने की क्रिया या भाव
अबलेहिकुकु	क्रिया	मलयालम	चाटना, लपेटना, पर्त लगाना
अबलेहिक	सज्ञा	मलयालम	लेह्य, चटनी, अर्ध द्रव भोज्य
अबलेह्य	विशेषण	हिंदी, नेपाली	जो चाटी जा सके, अबलेहनीय,
अबलेह्य		बंगला	जीभ पर रखकर आम्बादन करने योग्य द्रव पदार्थ
अबलोक	विशेषण	हिंदी, गुज, नेपा, कन्न	1 देखना, जायजा लेना, आलोकन करना
अबलोकम्	सज्ञा	तमिल, संस्कृत	2. उद्देश्य विशेष मे ध्यान पूर्वक देखना, निरीक्षण करना
अबलोकं	सज्ञा	मलयालम	3 दृष्टिपात, दृष्टि शक्ति, नजर
अबलोकक	सज्ञा	हिंदी, नेपाली	गुप्त निरीक्षक, लुक छिपकर देखने वाला
अबलोकित्तल्	सकर्मक क्रिया	तमिल	देखना, ध्यान में देखना, गौर करना,
अबलोकिकुकु	क्रिया	मलयालम	निहारना, दृष्टिपात करना, नजर डालना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवलोकणें	क्रिया	मराठी	देखना, अवलोकन करना
अवलोकन	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, मराठी	1. निरीक्षण, मुआयना, परीक्षण, जांच- पड़ताल
अवलोकन		अस्मी, गुजराती, संस्कृत	2. देखना, निगाह गड़ाना. दर्शन, दृष्टिपात करना
अवलोकन		उड़िया, बंगला, कन्नड	3. उद्देश्य विशेष से देखना; अनुसंधान करना
अवलोकनं	संज्ञा	मलयालम	4. ध्यान से देखना, सांचना-विचारना
अवलोकनम्		तमिल	5. नज़र के नीचे लाना, नज़र सानी करना
अवलोकनमु		तेलुगु	6. परिगणन करना 7. नोट करना, नोटिस लेना
अवलोकन		गुजराती	+ 8. दृष्टि, नेत्र, चितवन, आँख (कन्नड-संस्कृत)
अवलोकनकार	संज्ञा	गुजराती	अवलोकनकर्ता, जांच पड़ताल करने वाला
अवलोकिंषु	सकर्मक क्रिया	तेलुगु	निगाह डालना, जायज़ा लेना, अनुसंधान करना,
अवलोकनुं		गुजराती	देखना, निगाह से जांचना, निरीक्षण करना,
अवलोकिसु		कन्नड	परखना, जांचना, परीक्षण करना
अवलोकन शक्ति	संज्ञा	गुजराती	देखने-समझने की शक्ति
अवलोकनीय	विशेषण	हिंदी, नेपाली	दर्शनीय, देखने योग्य, अति सुन्दर, रम्य,
अवलोकनीय		बंगला	निरीक्षणीय, सौन्दर्यवान, खूबसूरत
अवलोकषक	संज्ञा	गुजराती	अवलोकनकर्ता, निरीक्षक, परीक्षक
अवलोकयिता		बंगला	+ 1. अवलोकनकार, दर्शनकारी (बंगला)
अवलोकयितृ	संज्ञा	संस्कृत	2. समीक्षक, ध्यान से देखने वाला और उस पर
अवलोकयिता (तृ)	संज्ञा	मलयालम	विचार करने वाला
अवलोकि	संज्ञा	मलयालम	3. निरीक्षक, जांच कर्ता 4. देखभाल करने वाला
अवलोकित	विशेषण	संस्कृत, हिंदी, मराठी	1. निरीक्षित, अनुसंधान किया हुआ
अवलोकित		बंगला, मलया, नेपा, गुज	2. पुनराध्ययन कृत, अनुशीलित
अवलोकितम्		तेलुगु	3. देखा हुआ, समझा हुआ, मनन चिन्तन किया हुआ
अवलोकितदृष्टि	संज्ञा	गुजराती, मलयालम	नीचे की ओर देखना
अवलोकितेश्वर	संज्ञा	हिंदी, गुज, नेपा, मरा	1. गौतम बुद्ध, एक बोधिसत्व रूप
अवलोकितेश्वरन्		तमिल, मलयालम	+ 2. अगस्त्य के गुरु (तमिल)
अवलोक्य	विशेषण	हिंदी	1. जिसका अवलोकन होने को हो या हो चुका हो
अवलोक्य		नेपाली	2. अवलोकनीय, दर्शनीय, देखने लायक

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अबलोक्य	अच्यय	मलयालम	3. देखकर, अवलोकन करने के बाद
अबलोडन	संज्ञा	मराठी	1. डूबकी लगाना, पूरा पता लगाना, गहरे में डूबना
अबलोडनमु		तेलुगु	2. परामर्श करना, विचार विमर्श करना, विवेचन करना
अबलोप	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. चुम्बन 2. छेदन, काटकर अलग करना
अबलोप		बंगला	3. दांत काटना 4. तिरोभाव 5. दंशन 6. विनाश, नष्ट करना 7. बलपूर्वक छीनना; आक्रमण करना
अबलोपं		मलयालम	
अबलोम	विशेषण	हिंदी, मराठी, मलया, संस	1. अनुकूल, उपयुक्त +2. विवाह योग्य कन्या (मराठी)
अबलोमन(स्त्रोचन)	संज्ञा	हिंदी, मराठी	विषय वासना, कामवासना
अबलोह	संज्ञा	कन्नड	1. घटिया धातु 2. दुष्ट
अबलोहित	संज्ञा	बंगला	लाल, इनफ्रारैड
अबबदन	संज्ञा	हिंदी	1. अनुचित वचन कहना 2. निंदा करना, अपवाद
अबबदित	विशेषण	हिंदी	सिखलाया हुआ, निपुण
अबबरक	संज्ञा	संस्कृत, हिंदी	रंध, छिद्र, खिड़की, वातायन
अबवर्त(र्त्त)	संज्ञा	नेपाली, हिंदी	कम, घटी, घटा हुआ, अपेक्षित से थोड़ा(Deficit)
अबवाद	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. विश्वास, भरोसा, समर्थन, सँहारा
अबवाद	संज्ञा	नेपाली, कन्नड	2. अपवाद, निन्दा, बदनामी, उपेक्षा, तिरस्कार, अवहेलना
अबवादम्	संज्ञा	तमिल	+ 3. आज्ञा, निर्देश (कन्नड, संस्कृत), खतरा
अबवादिता(वु)	संज्ञा	मलयालम	विधिकर्ता, एडजुडीकेटर, अधिनिर्णायक,
अबवावितृ		संस्कृत	न्यायाधीश, निर्णैता, निर्णयकर्ता
अबवाहिका	संज्ञा	नेपाली	1. उपकूल, तीर भूमि, नदी किनारे की भूमि
अबवाहिका		उड़िया, बंगला	2. नदी का बहाव जिस भूमि द्वारा रोका जाय
अबविद्ध	विशेषण	मलयालम	नीचे फेंकना, त्यागना, फेंक देना
अबव्यथ		संस्कृत	छेदन, भेदन, ताड़न, आहतकरण, बाधित
अबशकुन	संज्ञा	गुजराती, कन्नड	1. दुःशकुन, अपशकुन, अशुभ शकुन
अबशकुनं	संज्ञा	मलयालम	2. कार्य आरम्भ के समय कोई ऐसा संकेत जिससे
अबशकुनम्	संज्ञा	तमिल	कार्य में बाधा पड़े, हानि हो या अन्य अनिष्ट हो
अबशकुनमु		तेलुगु	3. अमंगलकारी संकेत
अबशप्त	विशेषण	हिंदी	1. अभिशप्त, शापग्रस्त, जिसे शाप दिया गया हो
अबशप्तम्	संज्ञा	तमिल	2. अमंगल ध्वनि, अशुभ शब्द

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अबशातन	संज्ञा	संस्कृत, हिंदी	1. नाशकरण; मुरझाने, सूख जाने की क्रिया
अबशातन	संज्ञा	नेपाली	2. सूख जाना, झड़ जाना, पतझड़, शोषण
अबशातनं	संज्ञा	मलयालम	3. काट दिया जाना, छेदन कर देना
अबशिष्ट	विशेषण	हिंदी, नेपाली, मराठी	1. बाकी बचा हुआ भोजन, शेष, जूठन
अबशिष्ट	विशेषण	असमी, कन्नड, संस्कृत +	2. छोड़ा हुआ-जैसा अधमरा छोड़ा (तेलुगु)
अबशिष्ट	विशेषण	उड़िया, बंगला, मलया	3. परिशिष्ट, उद्वृत्त, भागशेष, फ़ाज़िल
अबशिष्टं	संज्ञा	मलयालम +	4. वियोग फल या घटा हुआ (बंगला)
अबशिष्टम्	संज्ञा	तमिल	5. स्मारक चिन्ह, यादगार में बची वस्तु; तलछट
अबशिष्टमु	संज्ञा	तेलुगु	6. कार्य, धन, पावना आदि जो अभी बाकी या शेष है
अबशीनं	संज्ञा	मलयालम	1. बिच्छू, केकड़ा, अजगर सर्प, बड़ा सर्प
अबशीन		संस्कृत, हिंदी	2. मूर्ख, जड़ बुद्धिवाला
अबशीर्ण	विशेषण	हिंदी	1. भग्न, छिन्न-भिन्न, छितराया हुआ
अबशीर्ण		बंगला	2. जीर्ण-शीर्ण, पुराना- धुराना, टूटा-फूटा
अबशीर्णं		मलयालम	3. कुम्हलाया, मुर्झाया, सड़ागला, सूखा
अबशीर्ष	विशेषण	हिंदी	1. नतमस्तक, अधोमस्तक, प्रणत, प्रणाम करता
अबशीर्ष (क)		बंगला	हुआ 2. एक नेत्र रोग (संज्ञा- हिंदी)
अबशेष	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1. बचा हुआ, खंडहर, बकाया, पूरक, अवशिष्ट
अबशेष		असमी, मराठी, कन्नड	2. पश्चात्जीवी, अनुजीवी, जीवित बचा, निःशेष
अबशेष		उड़िया, बंगला, संस्कृत	3. अनुबंध, अंतिम भाषण, उद्वृत्त, ग्रन्थ या प्रस्ताव
अबशेषं	संज्ञा	मलयालम	का समाप्तिकाल, परिशिष्ट, अंत, समाप्ति
अबशेषमु		तेलुगु	4. (धन, संपत्ति) जो किसी के मरने के बाद शेष हो
अबशेषिंषु	क्रिया	तेलुगु	बाकी बचा, बच जाना
अबशेषिषुक	क्रिया	मलयालम	शेष रहना, शेषांश होना
अबशेषित	विशेषण	हिंदी, मलयालम	फ़ाज़िल, बचा-खुचा, जो बाकी रह गया हो
अबशेषण	भूत कृदन्त	हिंदी	सुखा डालना, किसी को दुख दे लाभ उठाना; सोखना
अबश्याय	संज्ञा	हिंदी, कन्नड, संस्कृत	1. कुहरा, ओस, बर्फ, पाला; वर्षा की फुहार
अबश्यायं		मलयालम	2. गर्व, गरूर, घमंड, अभिमान
अबश्रवणं	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	आग या चूल्हे से कोई वस्तु उतारना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवष्टब्ध	विशेषण	हिंदी, मराठी	1 अवलम्बित, धिरा हुआ, लटका हुआ, रुका या झुका हुआ
अवष्टब्ध	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	बंधा हुआ, स्थिर 2 समीपवर्ती 3 गर्विष्ठ, क्रुद्ध
अवष्टब्धमु	विशेषण	तेलुगु	4 अर्धांग वायु वाला 5. रक्षित, आरक्षित, सरक्षित,
अवस्तब्ध	भूत कृदन्त	कन्नड, मलयालम	सहारा लिये हुए 6 आत्म विश्वस्त 7. पराभूत
अवष्टम्भ	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत, नेपाली	1. आश्रय, सहारा, खम्भा, अवलंब, स्तम्भ
अवष्टम्भं	सज्ञा	मलयालम	2. नम्रता का अभाव, उद्वण्डता, अभिमान, क्रोध
अवष्टम्भमु		तेलुगु	3. साहस, हिम्मत, श्रेष्ठता, ठहरना, रुकना, विघ्न
अवष्टम्भ		मराठी, कन्नड	4. पक्षाघात, मूर्च्छा 5. आरंभ 6 सोना 7 दृढ़ मकल्प
अवष्टम्भिकुकु	अकर्मकक्रिया	मलयालम	स्थिर होना, अटल होना
अवष्टम्भिकुकु	सकर्मकक्रिया	मलयालम	झुकना, सहारा लेना, आश्रय लेना
अवष्टम्भिन	सज्ञा	संस्कृत, हिंदी	सहारा लेने या देने की क्रिया, जड़ीभूत करना
अवष्टम्भित	भूतकृदन्त	कन्नड	आश्रय प्राप्त, आश्रित, सर्गक्षित, स्तम्भन, रुकना
अवष्टम्भिसु	क्रिया	कन्नड	किमी का भरसा या सहारा होना, जड़ीभूत करना
अवसं	सज्ञा	मलयालम	1 भोज्य पदार्थ, आहार, उपहार
अवस	सज्ञा	संस्कृत, हिंदी	+ 2 गजा, सूर्य, आक, रक्षण (संस्कृत, हिंदी)
अवसङ्गै	सज्ञा	तमिल	(अवसख्या) अवमर्यादा, अपमान, निरादर
अवसक्त	विशेषण/सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 सलग्न, सम्पर्क 2 आग्रही, इच्छुक
अवसक्त	विशेषण	मलयालम	3 लटका हुआ, चिपका हुआ
अवसक्थिका	सज्ञा	मलयालम	1 बैठने की एक गुद्रा जिसमें पीठ और घुटने बाधते हैं
अवसक्थिका	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	2 इस प्रकार बाधने का कपडा 3 खाट की उचन
अवसञ्जनं(न)	सज्ञा/विशेषण	मलयालम	1 यज्ञोपवीत
अवसंजन	सज्ञा	हिंदी	2. आलिंगन, गले लगाना
अवसथ	सज्ञा	हिंदी, बंगला, संस्कृत	1. निवास स्थान, घर, ग्राम, मकान, रहने का स्थान
अवसथमु		तेलुगु	2 छात्रावास, अड्डा, विद्यालय, पाठशाला
अवसथ		हिंदी, मराठी, संस्कृत	3 विश्रामालय, धर्मशाला, सराय, गृहसबधी (विशे)
अवसथं		मलयालम	4. होटल, आश्रम, चौपाल, मेहमानघर
अवसन्न	सज्ञा	हिंदी, गुज, नेपा, संस	1 खिन्न, श्रात, क्लान्त, शिथिल, इदास, विषण्ण, सुन्न,
अवसन्न	विशेषण	मलयालम, मराठी, असमी	क्षयप्राप्त, स्फूर्तिहीन, अयोग्य, आलसी, सुस्त

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अबसन्न		उड़िया, बंगला	नष्ट, मृत 2. अपना काम करने में असमर्थ
अबसन्नमु		तेलुगु	3. नाशोन्मुख, विनष्ट; अवसान, अवनत, हारा हुआ
अबसन्नता	संज्ञा	हिंदी	1. स्फूर्तिहीनता, उत्साहहीनता, मुस्ती, आलस्य
अबसन्नता		बंगला	2. विशाद, अवसाद, क्लान्ति; विनाश, बर्बादी
अवसर	संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1. फुरसत, अवकाश, मौका, सुयोग, खाली समय,
अवसर		कन्नड, मराठी, असमी, संस	प्रसंग, मुकर-समय, संकटकाल, उपयुक्त समय
औसर		पंजाबी	2. लाभदायक समय, आवश्यकता, शीघ्रता
अवसर		उड़िया, बंगला	+ 3. मंदिर में देवमूर्ति की विभिन्न मुद्राएं (तमिल)
अवसरं	संज्ञा	मलयालम	4. वर्ष + 5. सरकारी कार्यालय (तमिल)
अवसरम्		तमिल	+ 6. अनिवार्यता (कन्न तमिल) जरूरत नैवेद्य (तेलुगु)
अवतरम्		तमिल	+ 7. भूतावेश, प्रेतबाधा, आवेश (मराठी)
अवसरमु		तेलुगु	+ 8. गुप्त परामर्श, वर्षा, भूमिका; वत्सर (हिंदी)
अवसरक्कुडुक्कै	संज्ञा	तमिल	जल्दबाज़, उतावला
अवसरपाणी	संज्ञा	गुजराती	मृतक भोज, उत्तरक्रिया, कारज
अवसरग्रहण	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	सेवा निवृत्ति, फुर्सत, पाना (Retirement)
अवसरबाणी	संज्ञा	मराठी	अकस्मात कान पड़े शब्द, अफवाह
अवसर प्राप्त	विशेषण	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	अवकाश प्राप्त, सेवा निवृत्त, फुर्सत प्राप्त
अवसरबर्तने	संज्ञा	तमिल	एक टैक्स (तमिल)
अवसरवाद/वृत्ति	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत, बंग	मौके का लाभ उठाने का सिद्धांत
अवसरवादी	संज्ञा	हिंदी, नेपाली	1. अपने लाभ का मौका ताकने वाला
अवसरवादिन्		संस्कृत	2. अवसरवाद को मानने और बरतने वाला
अवसरवादि	संज्ञा	मलयालम	3. इब्न- उल- वक्त, मौका परस्त
अवसरसेवकन्	संज्ञा	मलयालम	समयानुरोधी, स्वार्थी, नुढ़कना लोटा
अवसरिसु	क्रिया	कन्नड	उत्कृष्ट होना, शीघ्रता करना, दबाव डालना
अवसरीया	विशेषण	असमी	व्यस्त नहीं, बेकार, निठल्ला
अवसरोक्ति	संज्ञा	मराठी, मलयालम	समय स्फूर्त भाषण, संदर्भकथन
अवसर्ग	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	1. मुक्त करना, रोक न लगाना, ढील देना
अवसर्ग	संज्ञा	मलयालम	2. मोचन, स्वेच्छाचरण, छुटकारा, स्वतंत्रता, छूट

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवसरोचित	विशेषण	मलयालम	समयोचित, संदर्भानुकूल, मौके के मुताबिक
अवसर्जन अवसर्जनं	सज्ञा	हिंदी, नेपाली	1 छुटकारा, छोड़ना, मुक्त करना
		मलयालम	2 स्वतंत्रता देना, आजाद करना, बंधन रहित करना
अवसर्प	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली, संस	गुप्तचर, जासूस, भेदिया, स्पाई, एलची
अवसर्पण	सज्ञा	गुजराती, संस्कृत, हिंदी	नीचे जाना, उतरना, अधःपतन
अवसर्पिणी अवसर्पिणि		हिंदी, गुजराती	प्राण-धन नाश, सृष्टि के निम्नगामी या प्रलय युग
		तमिल	का सकेत (जैन शास्त्र), अवरोह, विरोह, विवर्त
अवसर्पी	विशेषण	हिंदी, गुजराती	नीचे जाने वाला, अधोगामी
अवसव्य	सज्ञा	हिंदी	दाहिना, सव्य का उलटा, पितृकर्म में जनेऊ दाये
अवसव्य	सज्ञा	नेपाली	कंधे पर रखना 2 उलटा, विपरीत
अवसात	अव्यय	गुजराती, मराठी	अकस्मात्, अचानक, एकाएक
अवसाद	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 थकावट, शिथिलता, कमजोरी, सुस्ती, जडता
अवसाद	सज्ञा	उड़िया, बंगला, असमी	2. उत्साहहीनता, विषाद, उदासी, असन्तोष, खेद
अवसाद	सज्ञा	नेपाली, संस्कृत	3. खिन्नता, अपकर्ष, हास, नाश, क्षय, अवसन्नता
अवसादं	सज्ञा	मलयालम	4. समाप्ति, अंत, दीनता, पराजय, हार
अवसादक	विशेषण	मलयालम	1 थकान पैदा करने वाला, क्लान्तिकारक, क्षीणकर्ता
अवसादक		बंगला	2 उत्साहनाशक, अवसाद जनक, उदासी कारक
अवसादक	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	3 मूर्च्छित करने वाला, असफल बनाने वाला
अवसादन	सज्ञा	हिंदी	1 अक्षमता, उत्साहनाशन, पतन, उत्पीडन
अवसादन		कन्नड, संस्कृत	2 नि शेषकरण, दुर्बलीकरण, मरहमपट्टी करना
अवसादन		बंगला	3 अन्त, समाप्ति, मृत्यु, समापन, नाश, विरक्ति
अवसादित	विशेषण	बंगला	जड़ीकृत, विनाशित, विषादित, क्षयित
अवसादी	विशेषण	हिंदी	खिन्न, अवसादयुक्त, श्रांत, क्लान्त
अवसान	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1. विराम, समाप्ति, समापन, सीमा, अंत
अवसान		कन्नड, असमी, मराठी	2. सायंकाल, किनारा, शेष (इर्मिनेशन)
अवसान		उड़िया, बंगला	+ 3. निश्चित रूप से, जोश, आदेश, धीरज, उत्साह,
अवसानं		मलयालम	सामर्थ्य, ठीक मौका (औसन्न-अरबी) (मराठी)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवसानम्		तमिल	5. विश्राम, मृत्यु, मरण, स्पन्दनहीन, अवसन्न
अवसानम्		तेलुगु	+ 6. घोड़े आदि से उतरने का स्थान (हिंदी)
अवसान	संज्ञा	संस्कृत	+ 7. विश्राम स्थान, आवास स्थान; उपसंहार; रोग (संस)
अवसानकालम्	संज्ञा	तमिल	जीवन का अंतिम समय
अवसानक	विशेषण	हिंदी	जो समाप्त या नष्ट हो रहा हो
अवसानिक	संज्ञा	हिंदी	अवसान या समाप्ति से सम्बन्ध रखने वाला
अवसानघातकी	विशेषण	मराठी	ऐनवक्त हिम्मत तोड़ देने वाला, दगाबाज़, निराशकर्ता, विघ्न उपस्थित करने वाला (औसान-अवे)
अवसानस्थिति	संज्ञा	बंगला	रोकड़ बाकी, लेन-देन के बाद जो शेष बचे
अवसाना		बंगला	अन्न, शेष, बाकी, बचा-खुचा
अवसानिककु	अकर्मक क्रिया	मलयालम	समाप्त होना, न रहना, अन्त होना
अवसानी	विशेषण	मराठी	हिम्मती, साहसी, सूझबूझ वाला (औसान-अवे)
अवसाय	संज्ञा	हिंदी, मराठी, कन्नड, संस	1. निर्णय, दृढ़संकल्प, निश्चित कर पाना, निश्चय
अवसायं	संज्ञा	मलयालम	2. समापन, अवशेष, शेष, बचाखुचा, बाकी
अवसायम्		तमिल	3. अंत, समाप्ति, आखिर, अवसान, नाश
अवसायम्		तेलुगु	+ 4. अभिप्राय (मराठी), निष्कर्ष, सम्पूर्णता
अवसायि (यी)	संज्ञा	कन्नड, हिंदी	निवास करना, रहना, रहने वाला, निवासी
अवसायिता	संज्ञा	हिंदी	वृद्धि, समृद्धि, धनधान्य पूर्णता, ऋद्धि
अवसिक्त	विशेषण	हिंदी	सींचा हुआ, पानी से खूब भीगा हुआ
अवसारण	संज्ञा	बंगला	1. दूरीकरण, अपसारण
अवसारणं		मलयालम	2. दूर चले जाना, हट जाना, न ठहरना
अवसारम्	संज्ञा	तमिल	1. असफलता, विफलता 2. वेश्यावृत्ति, अभिसार
अवसित	विशेषण	हिंदी, नेपाली, मराठी	1. निवासी, रहने वाला + 2. सुपक्व, परिपक्व (हिंदी)
अवसित		बंगला	3. सम्पूर्ण, समाप्त; निश्चित, परिणत, पूर्ण ज्ञात
अवसित		मलयालम, संस्कृत	4. विस्मृत, गत, व्यतीत, परिवर्तित
अवसितम्	संज्ञा	तमिल	5. एकत्र करना, नली करना, बाँधना, बंधा हुआ, बद्ध
अवसितम्		तेलुगु	+ 6. धान्य आदि (मराठी), जो भूल गया (तेलुगु)
अवसितान्धम्	संज्ञा	तमिल	अपसिद्धांत, दोषयुक्त, भ्रमपूर्ण, अयुक्त संगत निर्णय

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवसुप्त अवसुप्त्या	विशेषण	हिंदी	1 सोया हुआ, जागृत नहीं
		भराठी	2 अव्यवस्थित मन से काम करने वाला
अवसुत	विशेषण	बंगला	अवसर प्राप्त, दूरगत, मार्गगत
अवसृष्ट अवसृष्ट अवसृष्ट	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1 परित्यक्त, निवृत्त, दत्त बहिर्गमन
		बंगला	2 न्यस्त बर्खास्त किया हुआ, अध पतित
		मलयालम	3 उपेक्षित अवगणित भेज दिया गया, हटा दिया
अवसेक अवसेक अवसेकं	सज्ञा	हिंदी, नेपाली, भराठी	1 मीचना इतस्तत मचन जल छिड़कना, आर्द्रीकरण
		बंगला, कन्नड, संस्कृत	भिगाना 2 एक नेत्र रोग 3 सींगी म फन्द खाल
		मलयालम	कर रक्त निकालना 4 रक्त निष्कामन
अवसेचन अवसेचन अवसेचनं	सज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	1 मीचना, मीचने का जल, औषध द्वारा रोगी से
		बंगला	पसीना निकालना 2 जोक, फन्द मीगी आदि से रक्त
		मलयालम	निकालना, रक्त निष्कामन 3 स्नान, प्रसीजना
अवसेय	विशेषण	मलयालम	1 समाप्ति या नाश योग्य 2 निर्णय या निश्चित करने योग्य
अवस्कन्द अवस्कन्द अवस्कन्दं अवस्कन्दमु	सज्ञा	हिंदी, कन्नड, संस्कृत	1 आक्रमण हमला बोलना मोनी हुई मना पर टूट
		बंगला	पडना 2 छावनी, शिविर, बारात आदि ठहरने का
		मलयालम	स्थान जनवामा + 3 अवगाहन (बंगला)
		तेलुगु	+ 4 अवतरण, अवरोध (बंगला) + तूफान (कन्नड)
अवस्कन्दक अवस्कन्दकन् अवस्कन्दिन्	सज्ञा	हिंदी	1 गुडा, राह चलतो को मारने पीटने वाला
	सज्ञा	मलयालम	2 आक्रमणकारी हमला बोलने वाला, अनायास पीड़क
	सज्ञा	संस्कृत	+ 3 बलात्कार करने वाला, नीचे उतरने वाला (संस्कृत)
अवस्कन्दन अवस्कन्दनं	सज्ञा	बंगला, संस्कृत	1 आक्रमण, अवरोध अवगाहन, अवतरण
		मलयालम	2 देखे अवस्कन्द के मभी अर्थ, नीचे उतरना
अवस्कन्धित अवस्कन्धित	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 आक्रमित, आक्रान्त, अभियुक्त (मलयालम)
		मलयालम	2 स्नात, नीचे गया हुआ, अमान्य हुआ (हिंदी, सप्त)
अवस्कर अवस्कर अवस्करं	सज्ञा	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	1 विष्टा, मल विगर्जन स्थल, गुप्ताग, मल मूत्रेन्द्रिय
		बंगला	+ 2 कूड़ा, कूड़ेदान, घूरा, मरे जानवर डालने का
		मलयालम	स्थान (बंगला, नेपाली), शकतवारखाना

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवस्वकम्	संज्ञा	तमिल	+ 1. धूल, झाड़ू लगाना (मलयालम) मेहतर
अवस्करक	संज्ञा	हिंदी	2. गदे या मलिन स्थान में रहने वाला 3. झाड़ू
अवस्करकं	संज्ञा	मलयालम	4. मल ढोने वाला, कूड़ा उठा ले जाने वाला
अवस्कव	संज्ञा	संस्कृत	मल का कीड़ा, एक कीड़ा,
अवस्कवं		मलयालम	गन्दगी का कीड़ा यथा:-गुबरेला आदि
अवस्कार	संज्ञा	संस्कृत	1 हाथी के अगले पाव का ऊपरी भाग
अवस्कारं		मलयालम	2. हाथी का उभग मस्तक
अवस्तरण	संज्ञा	संस्कृत, हिंदी	विग्नौना
अवस्तात	अव्यय	मलयालम, संस्कृत	नीचे, नीचे की आर, नीचे मे
अवस्तारं	संज्ञा	मलयालम	1. बिछान, चटाई 2. तम्बू की कपड़े की दीवार
अवस्तार		संस्कृत, हिंदी	+ 3. झूठा हिसाब बनाना (मलया) 4. पर्दा, यवनिका
अवस्थल	संज्ञा	नेपाली	पूर्वजों का स्थान, पैतृक निवास स्थल
अवस्था	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1. दशा, स्थिति, जीवन का एक विशेष भाग
अवस्था		गुजराती, पंजाबी	2. आत्मा की दशा, कारणावस्था, कार्यावस्था (शैव)
अवस्था		नेपाली	3. ईश्वर के तीन रूप लय, भोग, अधिकार (शैव)
अवस्था		मराठी	4. जीवन की जन्म, बालपन, किशोर, यौवन, प्रौढ़,
अवस्था		असमी	गृद्ध, मृत्यु अथवा उक्त के अतिरिक्त, जीवन
अवस्था		उड़िया, बंगला	का वर्ष, आयु या उम्र में कोई एक स्थिति; वय
अवस्था		तेलुगु	5. उत्कठा, चिन्ता, परिस्थिति, स्वरूप, कार्य संगति
अवस्था/अवस्थे		कन्नड	6. पदवी, उच्चता, श्रेष्ठता आदि
अवस्था		मलयालम	+ 7. कठिन परिस्थिति, वेदना, दुखद दशा (कन्नड तेलुगु)
अवस्था/अवतै		तमिल	8. अवस्था द्वय, त्रय, चतुष्टय, षटक तथा दशम में से कोई एक
अवस्था चतुष्टय	संज्ञा	गुज, मलयालम, तेलुगु	1. शैशव, कुमार, यौवन, वार्धक्य
अवस्था चतुष्टय		हिंदी, संस्कृत	2. जीवन की चार मुख्य अवस्थाएँ
अवस्थात्रयं(य)	संज्ञा	गुज, तेलुगु, मलयालम	जागृत, स्वप्न, सृष्टि
अवस्थात्रय		हिंदी, संस्कृत	जीवात्मा या चित्त की तीन अवस्थाएँ,
अवस्तातिरयम्		तमिल	वेदान्त के आधार पर चित्त की तीन अवस्थाएँ
अवस्था-द्वय	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	जीवन की दो अवस्थाएँ—यथा

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवस्थाद्वय	सज्ञा	गुजराती, मराठी	सुख दुख, जागृति निद्रा, वृद्धि क्षय
अवस्थादशकं	सज्ञा	मलयालम	कामीजनो की चक्षुप्रीति, मनस्सग, सकल्प, जागरण,
अवस्था दशक	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	कृशता, अरति, उन्माद निर्लज्जता, मूर्छा, मरण दशाए
अवस्थात्रि	सज्ञा	कन्नड	किसी विषय मे दृढता से खडे होना, पक्ष लेना
अवस्थाषटक	सज्ञा	मराठी, संस्कृत	उत्पत्ति, अस्तित्व, वृद्धि, बदलाव, अपक्षय नाश
अवस्थाषटक	सज्ञा	हिंदी	कर्म की छ अवस्थाए (यास्कमतानुसार)
अवस्तैपूजे	सज्ञा	तमिल	मृत्यु समय का पवित्र अवलेपन (ईसाई)
अवस्तैज्ञानस्नानम्	सज्ञा	तमिल	मरते समय का बपतिस्मा (ईसाई)
अवस्थान	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 वास स्थान स्थिति निवाम आवाम ठहराव
अवस्थान		कन्नड, मराठी, संस्कृत	जगह, ठहरने का समय, ठहरने की जगह
अवस्थान		उड़िया, बंगला, असमी	2 अवस्था परिस्थिति उपस्थिति स्थैर्य आधार
अवस्थानं		मलयालम	3 उन्नति, विकास, मौका अवसर
अवस्थानम्		तमिल	+ 4 वह केन्द्र बिंदु जिस पर अन्य मव बातें आश्रित हैं(हिंदी)
अवस्थानम्		तेलुगु	+ 5 सम्पत्ति आदि पर ह्येने वाला अधिकार या म्वत्व (हिंदी)
अवस्थानधर्मघट	सज्ञा	बंगला	कमी लोगों की कर्मस्थल पर बैठकर की गई हड्डताल, धरना
अवस्थान्तर	सज्ञा	गुजराती, हिंदी, बंगला	स्थिति मे हेरफेर बदली दशा, दशा परिवर्तन
अवस्थापक	सज्ञा	बंगला	प्रतिष्ठापक, स्थापनकारी, अवस्थापयिता
अवस्थापन	सज्ञा	बंगला	1 निश्चयीकरण, निर्धारण, स्थिरीकरण
अवस्थापनं		मलयालम, हिंदी	+ 2 रक्षण, सन्निवेश (बंगला) घट स्थापन (मराठी)
अवस्थापन		मराठी	3 वाम स्थान, स्थापित करना, बैठाना, रखना
अवस्थापणें	सकर्मक क्रिया	मराठी	रखना, प्रतिष्ठित करना, जमाना, स्थापित करना
अवस्थापित	विशेषण	बंगला	रक्षित, स्थापित, स्थिरीकृत
अवस्थायि (त्र)	विशेषण	कन्नड, संस्कृत	स्थितिकारी, स्थितिशील, अवस्थानकारी, बसने वाला,
अवस्थायी	विशेषण	बंगला	स्थिर, + निवसित, स्थापित (कन्नड)
अवस्थासम्पन्न	विशेषण	बंगला	धनवान, वित्तशाली, सम्पत्तिशाली
अवस्थाहीन	विशेषण	बंगला	दुर्गत, दरिद्र
अवस्थित	विशेषण	हिंदी, गुजराती, नेपाली	1 स्थित, दृढ, अटल, अचल, अविचलित, टिका हुआ,
अवस्थित		असमी, बंगला, उड़िया	मौजूद, खडा हुआ, रहना, बसना, व्यवस्थित

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवस्थित अवस्थितान्	विशेषण संज्ञा	मराठी, मलयालम, संस्कृत तमिल	2. समीप स्थित, कार्यलग्न, नियुक्त, आश्रित, निविष्ट 3. आत्मा जो प्रारब्ध-भोग की अनेक अवस्थाओं को अनुभव करती है (तमिल)
अवस्थिति अवस्थिति अवस्थिति अवस्थिति अवस्थिते	संज्ञा क्रिया विशेष०	हिंदी, गुजराती, नेपाली मराठी, कन्नड, असमी उड़िया, बंगला मलयालम, संस्कृत असमी	1. वास स्थान, निवास, घर, डेग 2. उपस्थिति, विद्यमानता, अस्तित्व, सत्ता 3. अभ्यास, अनुसरण, दोहराना 4. स्थित होने की अवस्था या भाव या अवधि 5. अवस्थान, स्थायिता, किसी परिस्थिति में प्रतिबद्धता
अवस्पर्ता (बु) अवस्यु अवस्यन्वन अवस्यन्वितं अवस्पर्शक अवस्रंसन अवस्रंसित	संज्ञा विशेषण संज्ञा संज्ञा संज्ञा विशेषण	मलयालम संस्कृत हिंदी, संस्कृत मलयालम गुजराती मलयालम, संस्कृत मलयालम	1. रक्षक 2. पश्यात जीवी 3. सुरक्षित रखने वाला रक्षण या अनुग्रह की इच्छा करने वाला रिसना, टपकना, द्रव पदार्थ बूद बूद गिरना, चूना शब्दों के मूलार्थ से भिन्न भाव निकालना स्पर्श रेखा सवन्धी, अधःस्पर्श रेखा (रेखा गणित) गिरना, गिराना, अधःपतन, नीचे गिरने की क्रिया पतित, गिरा हुआ, अधःपतित
अवस्राव/स्रुतं अवस्राव	संज्ञा	मलयालम हिंदी	1. नीचे को बहना, मूर्ति स्नान में पानी बहना 2. नीचे बहने वाला द्रव पदार्थ
अवस्रावप्रोक्षणं अवस्रावणं अवहत	संज्ञा संज्ञा	मलयालम मलयालम बंगला	कलशाभिषेक में बहते द्रव को छिड़कना 1. नीचे बहाना 2. अन्यत्र ले जाना 3. मिटाना पद दलित, कुचला हुआ, विध्वस्त, चूर्णित
अवहति अवहति	संज्ञा	मलयालम, संस्कृत बंगला	1. अवहनन, ध्वंस, विनाश, बुरी तरह दलन करना 2. कुचलना, पीस डालना, कूटना
अवहनन अवहनन अवहननं अवहननमु	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत बंगला मलयालम तेलुगु	1. फटकना, आघातकरण, तूष झाड़ना 2. धान की बालियों को जमीन पर पीटना या धान कूटना 3. डंठल पटक कर धान अलग करना 4. बांया फुफ्फुस या श्वास कोश
अवहरण अवहरण	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत कन्नड	1. अन्यत्र ले जाना, चुरा लेना 2. युद्ध विराम + 3. उठा रखना, फेंक देना, वापिस लेना (कन्नड)

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवहसित	सज्ञा	बंगला	1 अट्टहास, उपहसित, मजाक उडाना
अवहसितं		मलयालम	2 अपहसित, दुर्जन की हसी
अवहस्त	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत, बंगला	1 हथेली की पीठ, हस्तपृष्ठ, अवनत हस्त
अवहस्तं		मलयालम	+ 2 गदा युद्ध का एक दाव (मलयालम)
अवहानि	सज्ञा	संस्कृत, हिंदी	हानि, घाटा, नुकसान
अवहार	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	1 युद्ध या जुग में विराम, थोड़े समय की सुलह,
अवहार		मराठी	अस्थाई सधि, सैनिकों को शिविर में लाना,
अवहार		बंगला, असमी	आह्वान, सेना लौटा लेना, आमत्रण
अवहारं		मलयालम	2 स्वधर्म त्याग, धर्मान्तर ग्रहण
अवहारम्		तेलुगु	3 शार्क मछली 4 चोरी, तस्करी, बलात अपहरण
अवहारम्		तमिल	+ 5 आगत्रित ब्राह्मणों को द्रव्यदान, दक्षिणा (मराठी)
अवहार		गुजराती	+ 6 सूचित मृत्यु में छूट, शतरंज (बंगला)
अवहार		नेपाली, कन्नड	7 पास लाने योग्य वस्तु, द्रव्य, पुन क्रय करना
अवहारक	विशेषण	हिंदी, नेपाली, संस्कृत	1 युद्ध बंद करने वाला, रोकने या थामने वाला
अवहारन्	सज्ञा	मलयालम	2 अवहरणकर्ता, चोर, जुआरी, तस्कर
अवहारुः	सज्ञा	तेलुगु	3 शार्क मछली, मगरमच्छ (सज्ञा)
अवहार्य	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	1 वस्तु जो चोरी की जाय, ले जाने योग्य 2 अर्थ दण्डनीय
अवहार्य	विशेषण	मलयालम	3 पुन क्रय योग्य, या पुन प्राप्ति योग्य वस्तु
अवहास	सज्ञा	हिंदी, संस्कृत	उपहास, परिहास, खिल्ली उडाना, दिल्लगी,
अवहास		बंगला	अपहास, गुस्काना, गुस्कराहट,
अवहासं		मलयालम	दुर्भावना से हसना, मजाक उडाना
अवहित	विशेषण	हिंदी, गुजराती, मराठी	1 अवधानयुक्त, एकाग्रचित्त, सावधान, मनोयोगी,
अवहित	विशेषण	कन्नड, मलयालम, संस	तत्पर, लक्ष्य अपनाने वाला 2 विदित, ज्ञात (बंगला)
अवहित		असमी, बंगला	+ 3 जिसे चेतावनी दी गई हो (तेलुगु)
अवहितम्		तेलुगु	4 श्रद्धायुक्त + 5 प्रख्यात, जोड़ना (मराठी)
अवहिते	क्रिया विशेषण	असमी	सर्तकता में, सावधानी से, यत्न से
अवहित्व(धा)	सज्ञा	हिंदी, गुजराती, कन्नड	1 एक व्यभिचारी या सचारी भाव जो लज्जा या
अवहित्व(धा)		मराठी, नेपाली, संस्कृत	गौरव के कारण हर्षादि छिपाने से पैदा होता है

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवहित्यं अवहित्य	संज्ञा विशेषण	मलयालम कन्नड, तेलुगु, मलया	2. मनोविकार छिपाना, भाव गोपन, आकारगुप्ति 3. अभिनय में हस्तविक्षेप की चेष्टा + 4. झूठा गर्व या दम्भ रहित (कन्नड)
अवयवरातम् अवहस्य	संज्ञा	तमिल संस्कृत	नाटक में दोनों हाथों को छानी की ओर तोते की चोंच की तरह बना हावभाव प्रकट करना
अवहीन	विशेषण	मलयालम	त्यक्त, उपेक्षित, समाप्त, अपहृत
अवहृत अवहृत अवहृत	विशेषण	हिंदी, बंगला नेपाली मलयालम	छीना गया, चुराया गया, अर्थ दण्डित, जुर्माना होना, स्थानान्तर में लाया गया; उद्धृत; अपहृत, हरण किया हुआ
अवहेला(अवहेलन) अवहेलना अवहेला अवहेला(लनं) अवहेलनमु	संज्ञा संज्ञा	हिंदी, गुजराती, नेपाली असमी, मराठी, संस्कृत + उड़िया, बंगला कन्नड, मलयालम तेलुगु	1. अवज्ञा, तिरस्कार, निन्दा, अपमान, अनादर 2. नुछ बोध (असमी), अनायाम, अवनीला (बंगला) 3. उपेक्षा, अवगणना, लापरवाही 4. किसी आज्ञा, आदेश या व्यक्ति की ओर जानवृत्त कर उचित ध्यान न देना
अवहेलनीय अवहेलवुं अवहेलणें	विशेषण सकर्मक क्रिया क्रिया	बंगला, गुजराती, हिंदी गुजराती मराठी	अनादर योग्य, उपेक्षणीय, तिरस्कणीय अवगणन करना, अनादर करना तिरस्कार करना, उपेक्षा करना
अवहेलित अवहेलित	विशेषण	हिंदी, नेपाली, मलयालम संस्कृत, बंगला	1. अनादृत, तिरस्कृत, उपेक्षित (आदेश या व्यक्ति) 2. निन्दित, अपमानित, नुछ गणित, अवज्ञात
अवहेले अवह्वरं अवांका	अव्यय संज्ञा संज्ञा	बंगला मलयालम मराठी	आसानी से, अनायास ही धोखा, दगा, चाल, छल, बेईमानी सामर्थ्य, कब्जा, अंदाजा, अभिप्राय, विस्तार
अवांगी अवाह्	विशेषण	मराठी हिंदी, बंस्ला	+ 1. शरीर का नाजुक या मर्म स्थान (मराठी) + 2. नीचे की ओर झुका हुआ, नत (हिंदी, बंग)
अवाङ्गिरय अवाङ्गमुख अवाक् अवाक्ष	संज्ञा विशेषण अव्यय विशेषण	हिंदी, संस्कृत नेपाली, हिंदी, मराठी, बंगला बंगला, संस, हिंदी, मराठी हिंदी, संस्कृत	नीचे का नरक, पृथ्वी जो अन्य लोकों में नीची है अधोमुख, मुंह नीचे लटकाये हुए, लज्जित 1. नीचे की ओर, अधस्तात्, खाली 2. दक्षिण की ओर देखभाल करने वाला, अभिभावक, रक्षक

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अबाक्षर	सज्ञा	मराठी	गलत अक्षर, अशुद्ध उच्चारण, अपशब्द, निन्दा
अबाधी	सज्ञा	बंगला, संस, मराठी, हिंदी, गुज	दक्षिण दिशा, नीचे का लोक
अबाधीन	विशेषण	बंगला, हिंदी	दक्षिणात्य सबधीय, अधोगत, अधोमुख, लज्जित
अबाधिषत	विशेषण	संस्कृत, हिंदी	नीचे झुका हुआ, नीचा
अबाढ्य	विशेषण	मराठी	बहुत बड़ा, विशाल, भव्य (शरीर, घर, खर्च, सैन्य)
अबाडाव	सज्ञा	मराठी	1 दुराचार 2 लूटखसोट 3 शरारत 4 वश, सामर्थ्य
अवान	विशेषण	हिंदी, संस्कृत	शुष्क, नीरस, सूखा हुआ (फल आदि)
अवान्तर	विशेषण	हिंदी, नेपाली, कन्नड	1 मध्यस्थ, मध्यवर्ती, अन्दर का, अन्तर्निहित, समाया
अवान्तर		गुजराती, संस्कृत, असमी	हुआ, बीच का बिंदु, आंतरिक भेद, अन्तर्गत
अवान्तर		मलयालम, मराठी	2 इतर, गौण, अनावश्यक, विघ्न, खतरा, गडबडी
अवान्तर		उड़िया, बंगला	+ 3 असहाय अवस्था (कन्नड)
अवान्तरम्	सज्ञा	तमिल	4 असगत, अप्रामाणिक, अतिरिक्त, आनुषंगिक
अवान्तरम्	विशेषण	तेलुगु	+ 5 रक्षक का अभाव, नाश, आत्म हत्या, खाली मैदान (तमिल)
अवान्तरकारणम्	सज्ञा	तमिल	बीच का मध्यस्थ कारण, अन्दरूनी वजह
अवान्तरशैबर्	सज्ञा	तमिल	शूद्र, शैव
अवान्तिरै	सज्ञा	तमिल	शून्यस्थान, खाली स्थान
अवान्तरप्रलय	सज्ञा	मलयालम	मध्य प्रलय जो ब्रह्मा के दिन और रात के मध्य
अवान्तरम्पिरलयम्		तमिल	होती है
अवान्तरभेद	सज्ञा	नेपाली, हिंदी	1 उप विभाग, बड़े कार्यालय का एक भाग
अवान्तरभेदम्		तमिल	2 भेदोपभेद, गौण भेद
अवान्तरवेलि	सज्ञा	तमिल	खाली मैदान या रेगिस्तान
अवान्तरयुगं	सज्ञा	मलयालम	पुरातन हिन्दू ज्योतिर्विदों ने इसे 576 वर्ष माना है
अवार्यं	सज्ञा	मलयालम	1 विदेशी राज्य सबधी कार्य व्यवहार
			2 कल्क, तलछट, नीचे जमा मैल
अवापन	सज्ञा	हिंदी	1 पाना, प्राप्त करना 2 कर, शुल्क लगाना या स्थिर करना
अवापिककु	सकर्मक क्रिया	मलयालम	उपलब्ध करना, प्राप्त करना, पहुंचना
अवाप्त	विशेषण	हिंदी, नेपाली, मराठी, बंग	1 प्राप्त, उपलब्ध, सिद्ध, हासिल
अवाप्त		मलयालम	2. विधिक दृष्टि से उगाहना या वसूलना
अवाप्तम्		तमिल	3. जो मिल चुका है, पाया गया है

शब्द	शब्दभेद	भाषाएँ	अर्थ
अवाप्तनु		तेलुगु	4. हाथ या अधिकार में आया हुआ
अवाप्ति	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, मराठी	1. प्राप्ति, उपलब्धि, सिद्धि, लाभ
अवाप्ति		मलयालम, संस्कृत, बंगला	2. कर, झुक्क, लेवी आदि की अधिकार पूर्वक लेनदारी
अवाप्ति		तेलुगु	+ 3. अधिकार पूर्वक शस्त्रित सेना खड़ी करना (हिंदी)
अवाप्तकामनु	संज्ञा	तमिल	जिसने सब इच्छाएं पूरी कर ली हैं, ईश्वर
अवाप्य	विशेषण	हिंदी, नेपाली	1. प्राप्त करके, प्राप्त करने योग्य 2. काटने योग्य
अवाप्य		मलयालम	नहीं (केशादि)
अवाप्य	विशेषण	संस्कृत	+ 3. शुल्क, कर, उत्तराधिकार, लेनदारी योग्य (हिंदी)
अवायं	संज्ञा	मलयालम	1. अवयव 2. दे डालना 3. पानी में डूबना
अवायम्		तमिल	अपाय, दुर्भाग्य, संकट, ख़तम
अवेक्षक	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	निरीक्षक, परीक्षक, समीक्षक, आलोचक.
अवेक्षक	विशेषण	बंगला, हिंदी	इन्सपेक्टर, सुपर वाइज़र, दृष्टा, पर्यवेक्षक
अवेक्षण	संज्ञा	हिंदी, नेपाली, मराठी	1. निरीक्षण, देखभाल करना, समीक्षा करना, अनुसंधान
अवेक्षणं	संज्ञा	मलयालम	2. देखना, ध्यान देना, गौर से देखना, अवलोकन
अवेक्षण	संज्ञा	संस्कृत, बंगला	+ 3. पहरा देना, रखवाली करना (संस्कृत); मनोयोग
अवेक्षित	भूतकृंदत	हिंदी, बंगला	1. जिसका निरीक्षण हुआ हो या किया जाना हो
अवेक्षित		मलयालम	2. निरीक्षित, परीक्षित, समीक्षित, पर्यालोचित
अवेक्षणीय	विशेषण	हिंदी, संस्कृत, बंगला	जिसकी देखभाल की जानी चाहिए, जाँच योग्य
अवेक्षितव्य	विशेषण	मलयालम, संस्कृत	1. जिसे देखना चाहिए, दर्शनीय, अवलोकनीय
अवेक्षमान		बंगला	2. जाँच योग्य, परीक्षण योग्य
अवेक्षा	संज्ञा	संस्कृत, हिंदी, बंगला	1. ध्यान से देखना, गौर करना, ख़्याल करना
अवेक्षा		नेपाली, मलयालम	2. न्यायालय अधिकारी द्वारा अपराध पर ध्यान देना
अवेत्त	विशेषण	हिंदी	बीता हुआ, प्राप्त, संयुक्त, पाया हुआ
अवेष्टि	संज्ञा	मलयालम	प्रायश्चित यज्ञ
अवोलण	संज्ञा	हिंदी, संस्कृत	हाथ तिरछा करके जल छिड़कना
अवोव	संज्ञा, विशेषे	हिंदी, मलयालम, संस्कृत	टपकना, भीगा या सीला हुआ, आर्द्र, गीला, छिड़काव
अवोचं	संज्ञा	मलयालम	गर्म भोजन, सद्यः पक्व भोज्य

सर्वभाषी शब्द-कोश प्रणयन की पृष्ठभूमि

आर्तव्यक्ति जब रोते रोते थक हार कर गहरी नीद सो जाय और तब कोई अदृश्य शक्ति दयार्द्र हो उसके सिर पर हाथ फेर कर जगादे, बिलकुल ऐसा ही कुछ इस कोश के प्रणयन के सबन्ध में हुआ। वर्षों तक सर्वभाषी कोश को दिनरात लिखते लिखते सन् 1964-65 में उठाकर रख दिया था कि सन् 1990 ई में यह नये सिरे से आरम्भ हुआ और उसका यह प्रथम खंड प्रकाशित हो आपके हाथों में समर्पित है। मुझे आशा ही नहीं थी कि मेरे हाथों कभी यह क्रियान्वित हो सकेगा। मेरे पास जगन्नियता के प्रति आभार प्रकट करने के लिये उपयुक्त शब्द ही नहीं है, जो हृदयतल की वास्तविक कृतज्ञता की भावना को प्रकट कर सके।

समाचार पत्रों में पढ़ता था कि तेलुगु भाषा भाषियों का पृथक प्रान्त बनाया जाय इसके लिये दक्षिण में आन्दोलन चल रहा है। उससे पहले लगभग दो सौ वर्ष से मद्रास प्रेसीडेन्सी नाम से एक प्रशासनिक प्रान्त चला आ रहा था। जिसमें हैदराबाद कुछ बड़ी, मैसूर उससे कुछ छोटी और त्रावनकोर कोचीन अपेक्षाकृत बहुत छोटी सी भारतीय रियासते थी। शेष साग दक्षिण भारत मद्रास प्रान्त था। उत्तर भारत के हम निवासियों को यह ज्ञान तो था कि मद्रास बहुत बड़ा प्रान्त है, परन्तु उन सब की भाषा को सारे उत्तर भारत में मद्रासी कहा जाता। अतः यह आभास भी नहीं था कि वहाँ भाषा भेद भी है। सम्भवतः केंद्रीय सरकार को भी कुछ विशेष अनुमान नहीं था। एक दम समाचार आया कि पोर्ट्रे श्री रामोलु ने तेलुगु प्रान्त अलग बनाने के पक्ष में आग्रह कर लिया है। किन्हीं प्रश्न पर व्यक्ति अपने आप को जलाकर भस्म कर दे, यह भारत में पहली दिल् दहला देने वाली घटना थी। परिणाम स्वरूप सन् 1956 में सम्भवतः दस से अधिक जिले लेकर और हदरावाद रियासत में मिलाकर आन्ध्रप्रदेश या तेलुगु प्रदेश बनाया गया। कुछ कम जिले मैसूर रियासत में मिलाकर कर्नाटक तथा उनमें कुछ और कम जिले लेकर त्रावनकोर कोचीन में मिलाकर केरल प्रदेश बना दिये गये।

फिर तो बम्बई प्रेसीडेसी का भी भाषा के आधार पर विभाजन कर महाराष्ट्र और गुजरात प्रान्त बने। कुछ ही वर्षों के अन्तर्गत पंजाब का विभाजन कर हरियाणा प्रान्त बना और पंजाब का कुछ भाग पहाड़ी रियासतों के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश बना।

सन् 1956 ई की उक्त घटना से पहले में यह जानता था कि सन् 1918 ई से मद्रास में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा पिछले लगभग 40 वर्ष से अच्छा काम कर रही है। उक्त मद्रास प्रान्त के लाखों निवासी थोड़ी या बहुत हिन्दी पढ़ भी चुके हैं। भारत की सर्वस्वीकृत राष्ट्रभाषा हिन्दी बन चुकी है।

भाषा के नाम पर झगड़ा स्वभावतः मुझे बचपन में ही बुरा लगता है। क्योंकि यह बनावटी अधिक होता है। दैनिक जीवन में भिन्न भिन्न भाषा भाषी अपने सारे काम चलाते हैं। केवल भाषा के कारण झगड़ते नहीं। इससे पहले सन् 1934 ई के लगभग हिन्दी हिन्दुस्तानी के नाम पर झगड़ा उठा था। जिसका प्रतिफल हिन्दी लेखन से उर्दू शब्दों तथा फारसी उच्चारण का बहिष्कार था। तब तक हिन्दी में कलम, खयाल, गम, जोर, फरियाद उचित माना जाना था, परन्तु अब कलम, खयाल, गम, जोर, फरियाद बोलना लिखना हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल अथवा हिन्दी करण कहलाया जाना आरम्भ हुआ।

मुझे यह समन्वयवाद की प्रकृति के विपरीत प्रतीत हुआ। हिन्दी दिल्ली से उत्पन्न बोली तथा भाषा मानी जाती है। बनारस तक के लेखकों ने हिन्दी लेखन में उसी बोली की प्रकृति को ग्रहण किया है। 'लेखक' समाज में साधारणतया नगण्य व्यक्ति होता है। उसकी पहुँच भी मात्र शिक्षित व्यक्तियों तक होती है। परन्तु 'लेखक' के भीतर केवल समाज के हित की भावना होती है, वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष केवल उसी का प्रचार करता है। दिल्ली

का निवासी और हिन्दी का उपासक होने के नाते मुझे यह प्रतीत हुआ कि मैं अपना कर्तव्य निभाऊँ। अतः साहित्य से मुहावरे संकलित करने आरंभ किये। और उनका कोश बनाया।

एकत्रित उस 'हिन्दी-मुहावरा कोश' में पहला मुहावरा है 'श्री गणेश करना।' उदाहरण में लिखा है कि आज 28 अप्रैल 1935 को इस पुस्तक का श्रीगणेश किया गया है। और अंतिम मुहावरा है 'हौंस बुझना, जिसका उदाहरण है आज 17.2.1937 को पुस्तक समाप्त कर हौंस बुझी। प्रत्येक पृष्ठ के नीचे गिनती दी गयी है। अंतिम पृष्ठ पर 8288 संख्या लिखी है। शीघ्र ही उसका दूसरा संस्करण छपा जिसमें अंतिम पृष्ठ पर मुहावरा संख्या 9178 छपी है। उसमें हौंस बुझना के उदाहरण की तारीख हटा दी गयी है। पुस्तक प्रणयन में और संख्या देने से मेरा मंतव्य चुपचाप यह जताना था कि क्या मुहावरे की भूमि पर हिन्दी-उर्दू को दो भाषाएँ प्रमाणित किया जा सकता है? जयशंकर प्रसाद तक ने मुहावरों का संस्कृत शब्दों में अनुवाद कर भरपूर प्रयोग किया है। परिणाम यह कि मूल मुहावरा जाने बिना उनका अर्थ-रसास्वादन नहीं हो पाता। लेखक बेचाग पुस्तक ही लिख सकता है। और कुछ कर सकना उसकी शक्ति की सीमा से परे है। (उक्त पुस्तक रम नारायणलाल, प्रयाग से प्रकाशित हुई थी)

अतः जब भाषा के आधार पर देश का प्रान्त-विभाजन हुआ तो मुझे भाषाओं के शब्द-समन्वय का विचार सूझा। पहले कई वर्ष भाषाओं के अक्षरों की पहचान में व्यतीत हो गये। जब शब्दों तक पहुँचा तो कहीं कहीं शब्दों में पर्याप्त समानता मिली, जो सुखदायक थी। पर केवल 'अ' अक्षर में आरम्भ होने वाले शब्दों को रात दिन लिखते-लिखाते चार वर्ष से अधिक समय लग गया। परन्तु उनको बिना पारिश्रमिक दिये भी छापने को कोई तैयार नहीं था।

तब तक सन् 1965 ई. आ चुका था। अतः जब 2-2-1965 को हिन्दी-विरोध में किये आंदोलन में मद्रास में भारी तोड़-फोड़ की गयी तब मैंने वहाँ जाकर देखा तो पाया कि बहुत से शिक्षित लोग हिंदी जानने थे। परन्तु हिन्दी-वाले उनपर राज करें यह उन्हें मान्य नहीं था। हिन्दी-शिक्षित लोगों का कहना था कि:

1. आप हमको कहते हैं कि हम आपकी माता (हिंदी) की चरण वंदन करें और आप हमारी माता को नमस्कार भी न करें। (तमिल न पढ़ें) यह कैसी त्रिभाषा योजना है!
2. क्या मद्रास विश्वविद्यालय के हिन्दी-एम. ए. या पी एच. डी. को उत्तर में एक जगह भी नौकरी मिली है। मुझे उनके कथन में तथ्य प्रतीत हुआ अतः दिल्ली लौट कर हिंदी-प्रदेश में 'तमिल-प्रचार' में लग गया। मसूरी से लेकर कलकत्ते तक तमिल-लिपि का प्रचार किया। दिल्ली तथा काशी-विद्यापठ में तमिल-प्रचार सम्मेलन किये। केवल 40 मिनट में हिंदी-अक्षरों के संकेत सहित तमिल अक्षर दिल्ली में हजारों स्कूली बालकों को सिखाये। कुछ चार्ट तथा पुस्तकें भी छपायीं। नौकरी करने वाले के पास पैसा कहाँ बच पाता है। फिर भी जो कुछ पास था व्यय हो गया। हार थक कर बैठ गया।

द्वैव योगात् सन् 1990 ई० के आरंभिक दिनों में महामहर्षि डा० शंकरदयाल शर्मा जी की इस श्रेणी के कार्य के लिए उच्चरित वरद-वाणी तथा उसके अनुसरण स्वरूप इस प्रकार के मेरे कृत कार्य के अवलोकनार्थ डा० विमल के शुभागमन ने मुझे सुषुप्ति से जगाया। परन्तु उनके जागृत करने पर भी मैं तन्द्राग्रस्त था। क्योंकि इसके क्रियान्वयन की शक्ति अब मेरे शरीर में नहीं थी।

मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी दृष्टि एक अप्रत्यक्ष सा भरोसा प्रकट कर रही हैं। मुझे भीतर से कुछ लज्जा का अनुभव हुआ। पर साहस फिर भी नहीं हो पा रहा था। मैंने अनुज समान भरोसे मंद प्रियवर डा० महेश चन्द्र से विमर्श किया। उन्होंने सभी प्रकार से भरपूर साधन, संसाधनों से सहयोग देने का वचन दिया। तब कुछ साहस बंधा और कार्यारंभ का संकल्प किया।

परन्तु संकल्प का अर्थ मनोरथ होता है, और मनोरथ अशक्त के लिये केवल स्वप्निल कल्पना का दूसरा नाम है। कार्यान्वयन के लिये तो शक्ति की कृपा चाहिये।

इसी बीच मेरी भग्निपुत्री डा० पुष्पलता तथा मेरी पुत्री रजनी जो हिंदी-अंग्रेजी में एम. ए. है, दोनों ने उकसा और कार्य में पूरा सहयोग देने का वचन दिया।

वास्तविक कार्य की परिधि अब मेरे पहले किये कार्य से अधिक थी। उस समय संविधान स्वीकृत भाषा आठ थीं। अब स्वीकृत तथा निकट भविष्य में स्वीकार्य पहले से दोगुनी भाषाओं के शब्दों का संकूलन कर था। फिर भी उन्हें यह कार्य स्वीकार्य था।

कार्य आरंभ हुआ। कार्य अपने आप में लाखों शब्दों को लिखने का था। दिन-रात और रात-दिन का अंत विलुप्त होकर, बाहुपीड़ा और सभी प्रकार के पीड़न-प्रपीडन की बाधाओं को सहन करना पड़ा। प्रियजनों और परिजनों से भी सहयोग लेना पड़ा।

लगभग बीस मास पश्चात डा० विमल की कृपा से इसका परीक्षण भी विद्वानों द्वारा कराया गया और प्रकाश योग्य पाया गया। इस प्रकार एक मजिल पूरी होने का मानसिक सुख मिला।

परन्तु इसके पश्चात एक दूसरी दुष्करता सामने आयी। भारतीय जन-भाषाओं के अधिकांश शब्द सगोत्र हैं। परन्तु पिछले हजारों वर्ष में काल और देश की दूरी के कारण उनके रूप में बहुत अंतर हो गया है। लिपि रूप में इसे वर्ण विन्यास या अक्षरक्रम का अंतर कहते हैं। कोश में शुद्ध लिखने के कर्तव्य पालन में केवल प्रसंशोधन में पूरी तरह लगे रहने पर भी दस महिने लग गये। साधारणतया चार बार प्रूफ संशोधन से काम चला जाता है। इस पुस्तक का इतने से काम नहीं चला। फिर भी अशुद्धियाँ रहीं। कदाचित अभी भी हों।

सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि प्रूफसंशोधन में हर बार हर भाषा का कोश देखना पड़ता था। इतना रूठना कुछ होने पर भी असंख्य शब्द दुबारा छपवाकर पहले छपे शब्दों पर चिपकाने और कहीं बिंदी, कहीं कौमा, व समीकोलन लगाने में सैकड़ों घंटे लगे। अब भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ कसर रह गयी होगी।

छपाई आज कल बहुत महंगी है। कुछ अनुदान, कुछ उसकी आशा, कुछ उधार, कुछ ऋण, कुछ शुभचिन्त की आर्थिक सहायता से प्रकाशित हो यह आपके सामने आ सका है।

कार्य सम्पन्न होने पर आज मैं यह सोचता हूँ कि मैंने अपनी जानकारी में कोई ऐसा पुण्यकार्य नहीं किया कि 35 वर्ष पूर्व निराश-हताश होकर छोड़ा काम उसके फलस्वरूप पूरा हुआ हो। यह पता नहीं चलता कि जगन्निर कब किस नगण्य को क्या पुरस्कार क्यों देना चाहता है। परन्तु मुझे उसकी कृपा के प्रति आभार व्यक्त करने लिए हर शब्द ओछा पड़ता प्रतीत होता है।

एक बात मैं कह सकता हूँ कि जब 35 वर्ष पहले यह कार्य दिनरात लगकर किया था तो केवल भारत की सेवा की दृष्टि से किया था। जब छोड़ा तो तब अपने आपको निरीह समझा और चुप बैठ गया।

अब दूसरी बार मैं लगा तो यह जानकर लगा कि आगे के लोगों का मार्ग दर्शन कर चलूँ। यद्यपि 'अ' आ से आरंभ होने वाले सभी भाषाओं के और भी हजारों शब्द संकलित हुए पड़े हैं। इस खंड में जिस लगन से लोग लगे हैं, वैसे ही कोई लगे तो दो वर्ष में कदाचित यह पूरा हो जाय।

जो कुछ पूरा हुआ है, उसके होने में 'नाम' मेरा है, परन्तु काम वास्तव में अशुभमती पुष्पलता और पु 'रजनी' का है। चाहता तो हूँ कि 'अ से लेकर ह' अक्षर तक से आरंभ होने वाले सभी भाषाओं के शब्दों को तैयार हो। उससे सारे भारत की एक 'भारती' का स्वरूप सामने आ जायगा। आगे ईश्वरेच्छा।

रामजीवन

